

कुरान में कथित वास्तव में परमसत्ता के निगुण और सगुण दोनों स्वरूपों से संबंध रखते हैं किंतु अधिकता उसके सगुणत्व या साकारत्व की है। अपनी इमी मूल भावना के स्पष्टीकरण के लिये जायसी ने पुराणों का आधार लिया। आगे चलकर हम तुलसीदास जी को भी इसी प्रकार इस समस्या का समाधान करते हुये पाते हैं।

हिन्दी सूफ़ी कवियों के परमसत्ता सम्बन्धी इस स्वरूप का स्पष्टीकरण कुरान में है। कुरान में 'परमसत्ता' को महान् शक्तिमान एवं सौन्दर्यशाली इसी आधार पर कहा गया है कि वह इस विचित्र संसार का सृजनकर्ता है। उसकी कर्तव्यशक्ति ही प्रधान है। उसका कर्ता का स्वरूप सर्वाधिक प्रभावपूर्ण है, सूफ़ियों ने इसी कर्तव्यशक्ति का वर्णन विस्तार से किया है। परमसत्ता के सृष्टि-निर्माण सम्बन्धी कथन से किसी को क्या विरोध हो सकता है। प्रत्येक धर्म एवं विचार के व्यक्ति इस बात में एक मत हैं। उदारचेना सूफ़ी कवियों ने अपने ग्रन्थारम्भ में अधिकांश इसी 'इजादिया' मत का परिचय दिया यद्यपि आगे अपनी कथा के अन्तर्गत उन्होंने सर्वात्मवाद, अद्वैतवाद एवं विशिष्टाद्वैतवाद से मिलते हुये विचारों को ही व्यक्त किया है। अपनी चिन्तन धारा का आधार 'कुरान' को बनाने के कारण उन्हें 'इजादिया' मत अमान्य कैसे हो सकता था, किन्तु उन्हें कर्ता और कृति के मध्य व्यवधान सख्त नहीं था। वे 'परमसत्ता' के परम, महान्, शक्तिपूर्ण ऐश्वर्यशाली स्वरूप के समुख नतमस्तक होने के साथ ही, उसे कुछ सांसारिक समता में लाकर प्रेम भी करना चाहते थे। भारतीय अद्वैतवाद एवं वेदान्त का प्रभाव हो या उनकी स्वतन्त्र चिन्तन धारा हो किन्तु सत्य यह है कि सूफ़ियों ने उन्हीं उपमानों एवं रूपकों का प्रयोग किया है जिन्हे भारतीय आचार्य प्रयुक्त करते रहे थे। विम्ब और प्रतिविम्ब, अंश अंशी, व्यापक व्याप्य एवं प्रकाशक प्रकाश्य ऐसी भावनाओं के स्पष्टीकरण के लिये ही उन्होंने अपने यद्वा शुद्दिया एवं वजूदिया सिद्धान्तों का प्रणयन किया। शुद्दिया के अनुसार यह सृष्टि परमेश्वर का प्रतिविम्ब है एवं वजूदिया के अनुसार यह जगत उसी एक का प्रसार है। इसी प्रकार व्यापक, व्याप्य एवं अंश अंशी की भावना वजूदिया एवं प्रकाशक प्रकाश्य, तथा विम्ब प्रतिविम्ब की भावना शुद्दिया विचारधारा के अन्तर्गत आयेगी वास्तव में सिद्धान्त कथन के रूप में इन सूफ़ियों ने परम्परागत परमसत्ता के स्वरूप की चर्चा कर दी है किन्तु उसके बाद वे अपने सम्पूर्ण काव्य में उस एक को इस जगत में प्रसारित एवं प्रतिविम्बित ही पाते रहे हैं। यही उनके 'इश्कहकीकी' का 'इश्कमजाजी' आधार है।

हम पीछे कह आये हैं कि कुरान में अल्लाह के जात एवं कमाल का अधिक वर्णन नहीं है किन्तु इन हिन्दी के सूफ़ी कवियों ने परमसत्ता की कर्तृत्व शक्ति के साथ ही उसके स्वभाव और अद्वैतशक्ति का भी प्रचुर वर्णन किया है। परमसत्ता के कमाल का वर्णन ऊपर हो चुका है कि किम प्रकार उसने जल के ऊपर भू, भू पर भूधर एवं विना सम्भे के तारकजटित आकाश रूपी शामियाने की रचना की। उसके जात या स्वभाव के प्यन्ध में हिन्दी के सूफ़ी कवियों ने सदैव उसके कोमल एवं दयापूर्ण स्वभाव की चर्चा की है। उनमें मानव मात्र पर कृपा करके बहुविधि सृष्टि रचना की और उसे सभी प्रकार के सुपास

दिये है। अत्यन्त सामर्थ्यवान् होते हुये भी उसकी दया ही है कि वह बड़े से बड़े अपराध को भी पलभर में क्षमा कर देता है। कुरान का यह वाक्य 'कि उसकी दया सभी जड़ एवं चेतन पर है' सूफियों का आधार है।

'उस परमेश्वर की दया धन्य है जो सूखी पृथ्वी को हरी भरी करने के लिए यथासमय वृष्टि करता है। उसने कृपाकरके विश्राम के लिए रात्रि एवं कार्य करने के लिए दिवस बनाया है' परमेश्वर तेरी दया अपार है। तुम्हीं ने यह सारी रचना मानव मात्र के सुख के लिए बनाई है। प्रत्येक अंग प्रत्यंग विशेष कार्यों से सम्बन्धित हैं। माता के वक्ष में पय देकर तूही कृपावश इस सारे संसार का पालन करता है' 1'

'यह भवसागर अपार है। मेरी करनी भी अच्छी नहीं है। मुझे तो केवल तुम्हारी दया का भरोसा है। तुम्हारी दया से ही मेरी मुक्ति संभव है' 3 1'

सूफ़ी साधक इसी आशा में प्रिय की रट लगाये रहता है कि अन्त में कभी न कभी तो उसका कृपामय स्वरूप प्रकट होगा ही। जब तक उस परम सौन्दर्यशाली के रूप माधुर्य का पान न किया जाय, सासारिक त्रास साथ नहीं छोड़ते और वह विमुग्धकारी रूप-दर्शन तभी होता है जब उसकी कृपा होती है 4 ।

जहाँ कहीं भी कवियों ने परमसत्ता की कृपा का वर्णन किया है वहाँ अपनी करनी को सदैव महत्वहीन बताया है। 'कृपा करने के पूर्व परमेश्वर अपने विरद का स्मरण करो, मेरी करनी को न देखो। अपने दयालु नाम को सार्थक करने के लिए ही मुझ पर दयादृष्टि करो' 5 ।' ब्रह्म की कर्तव्य शक्ति, अद्भुतशक्ति (कमाल) एवं जात (स्वभाव) का वर्णन करने के अतिरिक्त जिस भावना का इन कवियों ने सर्वाधिक वर्णन किया है वह है ब्रह्म की एकत्व भावना। 'वह ब्रह्म केवल एक है। वह एक ही, अनेक रूप एवं भावों में व्यक्त हो रहा है। तीनों लोकों का जहाँ तक प्रसार है वहाँ सर्वत्र वही एक आँकार गोसाईं व्याप्त

१. धन सो महि पर भेजत नीरा। पलुहत्त सूखी भूमि सरीरा ॥
कीन्हा राति मिलै सुख तासों। कीन्हा दिन कारज है जासों ॥
इन्द्रावती नूरमुहम्मद पृष्ठ १
- २.. दिया दान दाता तुही, तोरी दया अपार।
मात छ्वात दिव्य दूध के, पोखत सब संसार ॥
शेररहीम प्रेमरस पृष्ठ ४
३. है अपार सागर भौं केरा। मोहि करनी को नाव न खेरा ॥
है हम कहं आलम्भ तुम्हारी। तोहि दया सो मुकुत हमारी ॥
नूरमुहम्मद इन्द्रावती, पृष्ठ २
४. देख न सकौं होइ अन्टेसा, अन्तो प्रकटै किरपा भेसा ॥
बिना कदमरि के पिण् त्रास न मन सो जात।
दयावती होइ दीजिण्, होलिक लागी प्रात ॥
इन्द्रावती नूरमुहम्मद पृष्ठ ३३-३४
५. हेरु गोसाईं आप कहँ, मोरे का जनि हेर। आपन नाऊं दयाल गुनि, हो दयाल एहि बेरु ॥
उममान चित्रावती पृष्ठ ११५

हो रहा है ^१ ।' 'वह एक अलख निरंजन ही अनेक भेषों को धारण कर प्रकट हो रहा है, कहीं उसका बाल भिखारी एवं कहीं नरेश का स्वरूप है । वही इस जगत में कहीं गुप्त तथा कहीं प्रकट हो रहा है । दूसरा कोई इस संसार में न तो उत्पन्न हुआ है, न है और न होगा ^२ ।' 'वह केवल एक अद्वितीय है सारी सृष्टि उसके सुन्दर मुख का प्रतिबिम्ब होना चाहती है ^३ ।

'परमेश्वर इच्छानुसार कार्य करने को स्वतन्त्र है । वह केवल एक अकेला है । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग गंगा में प्राणत्याग कर मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और उस एक का अपने जीवनकाल में स्मरण नहीं करते ^४ ।'

सृष्टि की रचना करने वाला वह केवल एक अकेला है जो हमारी प्रत्येक गतिविधि से परिचित है उससे कुछ भी छिपा नहीं है ^५ ।, 'एक ही ज्योति से यह जग प्रकाशवान है । उस एक के (जमाल) परमसौन्दर्य पर यह जगत मोहित है । वह अत्यन्त ज्योतिपूर्ण परमसौन्दर्यशाली केवल एक ही है ^६ ।'

'सारे संसार से पृथक पृथ्वी पर वह केवल एक अकेला सम्राट है । महा ऐश्वर्यशाली वह परमेश्वर ही सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है ^७ ।'

'जिस परमसत्ता की पहिचान चौदहों खण्ड में है, जो ज्योतिपुंज की भोंति प्रकाशवान

१. एक अनेक भाव परमेसा । एक रूप काछेन यह भेसा ॥
तीन लोक जहबा लहि ताई । भोग के अनूप रूप गोसाई ॥
करता करै जगत जब चाही । जगथा जग रहै जम आ ही ॥
बाज ठाव सबै जैहि ठाई । निरगुन एक अँकार गोसाई ॥
२. अलख निरजन करता, एक रूप यह भेस ।
कतहुँ बाल भिखारी, कतहुँ आदि नरेस ।
गुप्त प्रगट जग परसद्, सब व्यापक सोइ ।
। कोई न आहै, श्री न भवा न होई ।
३. एक अहै दूसर कोइ नाही । तेहि सब सृष्टि रूप मुख चाही ॥
मधुमालत मंरुन (ह० लिखित)
४. जो चाहै सो विधि करै, अहै आपु अकेल ।
गगा मर बहु तर रहे अहै सो अचरज खेल ॥
कासिम शाह हसजवाहिर पृष्ठ २
५. अहइ अकेल सो सिरजनहारा । जानत परगट गुपुत हमारा ॥
नूरमुहम्मद इन्द्रावती, पृष्ठ १
६. एकै जोत जगत उजियाटा, एकै रूप मोह ससारा ।
शेख रहीम प्रेमरस ॥
७. हे ठाकुर वह एक धनी, जस रहीम कोउनाय ।
सबसे अलग अलान है, पूर रहा सब हाय ॥
शेखरहीम प्रेमरस ॥

है। वह आर्द्धतीय, क्षमाशील, एवं केवल एक है, उसके कोई जाति पाति नहीं। वह हिन्दू तुर्क सबसे पृथक केवल एक है ^१ ।'

लगभग सभी हिन्दी के सूफ़ी कवियों ने परमेश्वर के केवलत्व की चर्चा इसी प्रकार की है। नूरमुहम्मद, कासिमशाह, शेखरहीम, मंभन एवं यारी साहब ने इसी प्रकार अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। हिन्दी के सूफ़ी कवियों में जायसी की बहुगता सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अन्य कवियों में से केवल जान कवि ने ही 'अखरावट' ऐसी सिद्धान्तपरक रचना करने का प्रयास किया किन्तु उसमें भी नीति के दोहे ही अधिक हैं। जायसी ने 'तौहीद' या केवलत्व की भावना का सैद्धान्तिक निरूपण किया है। वह केवल एक अकेला है, किसी अन्य वस्तु की स्थिति नहीं है, इन सहस्रअठारह प्रकार की योनियों में वही केवल एक प्रकट हो रहा है ^२ ।'

'वह अलख, पहले जिस रूप में था उसमें न तो उसका कोई नाम था, न स्थान था, वह पूर्णपुराण पुरुष था, उसका स्वरूप गुप्त से भी गुप्त और शून्य से भी शून्य था। अत्यन्त सूक्ष्म तत्व के रूप में उसकी स्थिति थी। उसकी कोई रूप-रेखा या चित्र नहीं था। वह प्रकट न होकर स्वयं अपने में समाविष्ट था, वास्तव में इस सारे सृष्टि रूपी पाखंड का मूल वही केवल एक है ^३ ।'

नूरमुहम्मद के अनुसार 'जगत मन्दिर की भाँति है, जिसमें केवल एक ही मूर्ति स्थित है, उस एक की आराधना न करके अनेक की उपासना निरर्थक है ^४ ।'

परमसत्ता को सृष्टिकर्ता, केवल एक मात्र, आश्चर्यमयी शक्तियों से युक्त, अत्यन्त कृपापूर्ण वर्णित करने के अतिरिक्त उसकी इस सृष्टि में व्याप्ति का वर्णन भी इन हिन्दी के सूफ़ी कवियों ने किया है। वह एक ही इस सारी सृष्टि में व्याप्त है वही विभिन्न रूप में इस जगत में प्रकट हो रहा है।

'परमसत्ता का ही रूप मूर्ति में स्थित है, वह इस सम्पूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। वह असीमित होकर भी सीमित है। इस सारे नामरूपात्मक जगत् में उसका प्रसार है। वही

१. चौदह तबक जाकी रसनाई, किलकिल जोति सितारा है।

वेनमून वेचून अकेला, हिन्दू तुर्क से न्यारा है।

यारी साहब भजन संग्रह।

२. एक अकेल न दूसर जाती, उपजे सहस्रअठारह भावी ॥

जायसी अखरावट पृष्ठ ३०३

३. आपु अलख पहिले हुत जहा, नाव न टाँव न मूरति तहा ॥

पर पुरान पाप नहि पुन्नू, गुपुत ते गुपुत, सुन्न ते सुन्नू ॥

बिना उरेह अरंभ बराना, हुता आपु न्ह आपु समाना ॥

आस न वाय न मानुय अन्दा, भए चौखंड जो ऐम पखंडा ॥

जायसी 'अखरावट' पृष्ठ ३०४

४ जगतदेवहरा जानी, मूरति एक, हिय ताह पर चिन्ता करै अनेक ॥

नूरमुहम्मद अनुरागावांमुरी पृष्ठ १६०

एक अनेक वेधों में प्रकट हो रहा है । इस संसार के रंक और नरेश सब उसी के रूप हैं । एक परमसत्ता का ही रूप पृथ्वी, पाताल एवं गगन में व्याप्त हो रहा है । एक उसी रूप के कारण सबके नेत्रों में ज्योति है । इसी तत्व की व्याप्ति सागर में मोती के रूप में है । पुष्पों में वह सुगन्धि रूप में व्याप्त है । इसी रूप के कारण भ्रमर पुष्प पर गुञ्जन करता है । इसी रूप के कारण शस्त्र और शूर की महानता है । शस्त्र और शूरवीर का बल उसी परमसत्ता का अस्तित्व है । वास्तव में वह एक ही पूर्ण रूप से इस जगत में व्याप्त है । वही एक रूप सम्पूर्ण जल, थल में अनेक भावों से व्याप्त है । जो भी अपने आप को समझने का प्रयास करता है वही उसे समझ पाता है क्योंकि आत्मा में भी परमात्मा की व्याप्ति है^१ । वह गुप्त एवं प्रकट रूप में सर्वत्र व्याप्त है^२ ।

वह परमसत्य इस सारे संसार के जीवों, वस्तुओं एवं कार्य कलापों में अन्तर्निहित है वह एक ही अनेकत्व के रूप में व्यक्त हो रहा है । उस एक के अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है । स्वयं अमूर्त होते हुये भी वह मूर्त स्वरूपों का सृजन करता है और उनमें चेतना के रूपमें निवास करता है, किन्तु उपनिषद् के 'नेति नेति' की भाँति उसके किसी रूप गुण एवं निवासस्थान का निर्धारण नहीं किया जा सकता । सर्वत्र व्याप्त उस परमसत्य को मुनिगण भी अलख कहकर ही जान पाते हैं । इस सृष्टि के कणकण में वही एक रम रहा है । उसे पूर्णरूप से समझने की सामर्थ्य किसी में नहीं है^३ । कवि उसमान ने एक स्थल पर और इसी भाव की व्यञ्जना अत्यन्त हृदयग्राही काव्यात्मक ढंग से की है ।

१. एही रूप बुत अह्यो छिपाना । एही रूप अब सृष्टि समाना ॥
 एही रूप सकती औ सेवऊ । एही रूप त्रिभुवन नर होवउ ॥
 एही रूप प्रगट बहु भेसा । एही रूप जग रक नरेसा ॥
 एही रूप त्रिभुवन वर, असी महि पाताल अकास ॥
 सोई रूप प्रगट तह मानहीं देख्यौ कहा हवास ॥
 एही रूप प्रगट बहु रूपा । एही रूप जै है भाव अनूपा ॥
 एही रूप सब नैनन्ह जोति । एही रूप सब सागर मोती ॥
 एही रूप सब फूलन्ह वासा । एही रूप रस भँवर बरासा ॥
 एही रूप शस्त्र और सूर । एही रूप जग पूरा पूरा ॥
 एही रूप जल थल महि भाव अनेक देखाव ॥
 आप कूँ आप जो देखे सो कछु देखै पाव ॥

मंमन मधुमालत

- २ गुप्त प्रगट जग परसइ, सरव व्यापक सोइ ।

मंमन मधुमालत ॥

- ३ सब वहि भीतर वह सब माहीं, सब आपु दूसर कोउ नाहीं ॥
 आपु अमृरति, मुरति उपाई, मृरति माती तहा समाई ।
 है सब ठाउ नाहि, कोउ ठाई, मुनिगन लखहि कि अलख गुमाई ।
 सोई करता रमि रहा रोम रोम मय माहि ।
 तिन मय कीन्ह मिरिष्ट यह गाहक की-हाँ नाहि ।

उसमान चित्रावली पृष्ठ २

जिस प्रकार गीता में इस सृष्टि की सभी वस्तुओं का उच्चतम विकास उसी परमात्मा का स्वरूप माना गया है। उसी प्रकार कवि उसमान के विचार से 'वह परमसत्ता ही इस सृष्टि का सौन्दर्य है। उसके बिना सारा संसार सूना और चित्र फीके हैं। उसी का सुन्दर रूप इस सारे जगत में व्याप्त है। वही इस सृष्टि की अन्तरात्मा है।' वास्तव में परमसत्ता इस वाह्य जगत में चेतन रूप में व्याप्त है, उसके बिना यह ससार कुछ नहीं, निश्चेतन है। इस संसार की शोभा, सौन्दर्य एवं शक्ति वही एक परमसत्ता है। यह नाम-रूपात्मक जगत उसी एक की वाह्य अभिव्यक्ति है।

जिस एक के गुणों को परखा नहीं जा सकता एवं जिसने इन तीनों लोकों की रचना की है वही इस सारे संसार में पूर्ण रूप से व्याप्त है। यद्यपि प्रत्येक के लिये उसका पहचानना असंभव है। वह अलख, अदृष्ट जो केवल एक है इस मारी सृष्टि में प्रकट या गुप्त रूप से वर्तमान है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वह न हो। वह चौदहों भुवनो में व्याप्त है^१।

कालिमशाह ने इस व्यापक व्याप्य भाव का स्पष्टीकरण एक और स्थल पर बड़ी मार्मिकता से किया है। हंस जब जवाहिर के विरह में अत्यन्त व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार जैसे आत्मा को परमात्मा के विरह में होना चाहिये, तब उसे सर्वत्र सृष्टि में उसी एक के दर्शन होने लगते-हैं और उसे परमतत्व के व्यापक स्वरूप का आभास होता है^२। जगतके मूल प्राण के रूप में उस परमसत्ता की स्थिति का वर्णन इन हिन्दी के सूफी कवियों ने बहुत किया है।

नूरमुहम्मद ने भी एक स्थल पर इस भाव का व्यक्तीकरण इस प्रकार किया है, कि 'वही परमसत्ता सर्वत्र व्याप्त है, उसी एक के रवि, सखि, नीरज और कुमुदिनी विभिन्न नाम हैं।'^३

१. तुम्ह वसंत लड सोवहु बारी। तुम्ह त्रिनु खाखरि सब फुलबारी ॥

तुमहीं डारि और तुम्हीं सुआ। तुमहीं ते सर फूल अछुवा ॥

तुम त्रिनु सूनी चित्तसरी, चित्र सबे त्रिनु रंग।

जल थल सोभा उठि बलहु, सखी सहेली संग ॥

उसमान चित्रावली पृष्ठ ४६

२. परसि न जाई जासु गुन, तीन लोक जिन कीन।

अहं संपुरन जगत मुस, परे न कतहु चीन ॥

ऐसे अलख जो अहं अकेला, परघट गुप्त सभी रंग खेला।

नहीं अस टाक जहां वो नार्हा, पूर रहा चौत्रा नड मारही ॥

कालिमशाह . हंसजवाहिर, पृष्ठ ३

३. यही सो पूर जगत के माहांग, पदे सो सृष्टि लखों में ताहांग

वही सो वृक्ष पात कर फूला, वही सों प्राण जगत कर मूला ॥

कालिमशाह . हंसजवाहिर पृ० १२१

४. तुमहीं त्रेह धरे सब टाऊ। रवि सखि नीरज कुमांडनी नाऊ ॥

नूरमुहम्मद . इन्द्रावती पृ० ७६

नूरमुहम्मद ने ब्रह्म की सत्ता, सर्वव्यापकता तथा सौन्दर्य की सराहना की है। 'वह स्वयं ही पुष्प एवं पुष्परञ्जक दोनों है और स्वयं ही फूल पर आकर्षित होने वाला भ्रमर भी है। वही सौंदर्यशाली है और वही उस पर मोहित होनेवाला प्रेमी भी। वह गुप्त और प्रगट दोनों रूप में वर्तमान है, कहीं शिष्य और कहीं गुरु है। स्वयं दान देता है, और कार्य भी सम्पादित करता है। दर्शक, श्रोता एवं वक्ता भी स्वयं ही है। वास्तव में सब रूपों और अवस्थाओं में वह एक ही स्थित है उसकी व्याप्ति सब स्थलों पर है^१।'

शेण निसार इसी तत्व को इस प्रकार प्रकट करने हैं 'वह परमात्मा चौदहों भुवनों में व्याप्त है उसके बिना कोई जन्तु जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार नट स्वरूप धारण करके अनेक लीलायें करता है उसी प्रकार वह परमात्मा भी विभिन्न रूप धारण करके अनेक क्रियायें कर रहा है। वह भ्रमर एवं अजन्मा है। उसके मर्म को समझने में कोई विरला ही समर्थ होता है^२।'

जायसी ने भी इसी भाव को अत्यन्त काव्यात्मक ढंग से कहा है; वह परमसत्य सबके अन्तर्गत है किन्तु उसे प्राप्त करना कठिन है। जिस प्रकार सरोवर में पड़ी हुई परछाहीं पास होते हुये भी स्पर्श नहीं की जा सकती है उसी प्रकार स्वर्ग जो धरती पर छाया हुआ है या परमात्मा जो सर्वव्याप्त है उसको पा सकना कठिन है^३।

कवि उसमान कहते हैं 'कि अग्नि, वायु, पृथ्वी और पानी के समाहार इस सृष्टि के विविध व्यवहारों में वह इस प्रकार धुल मिल गया है कि उसको पृथक करना असम्भव है^४।'

१. आपुहि माली आपुहि फूला। आपुहि भवर फूल पर भूला ॥
आपुहि रूपवन्त सो होई। प्रेमी होइ रिक्त है सोई ॥
आपुहि परगट गुप्त अकेला। गुरु होई कतहू होइ चेला ॥
आपुहि दाता करता होई। टिप्टा स्त्रोता वक्ता सोई ॥

नूरसुहम्मद इन्द्रावती पृ० १४

२. वह पूरत चौदह खण्ड मारहीं। वह बिन जिया जन्तु कोऊ नारहीं ॥
सब मह आप सु खेले खेला। नट नाटक चाटक जस मेला ॥
न वह मरे न मिटे न होई। अपरम मरम न जानै कोई ॥

शेख निसार यूसुफजुलेखा

३. देखि एक कौतुक हीं रहा। रहा अन्तरपट पै नहि अहा ॥
सरर देख एक मैं सोई। रहा पानि औ पान न होई ॥
सरग आइ धरती मह छावा। रहा धरति पै धरत न आवा ॥

जायसी पद्मावत पृ० २१७-२१८

४. अग्नि पवन रज पानि के, भाति भाति व्योहार।
आपु रदा मय माहि मिलि, को निवरा व पार ॥

उसमान चित्रावती पृ० ९

‘केवल एक ब्रह्म ही सर्वमय है । अन्य और जो कुछ भी है, मिथ्या है । केवल एक वह सत्य है’^{११} ।

ऊपर कही गई विचारधाराओं के अनिरीकृत सूफ़ी कवि परमसत्ता और सृष्टि के सम्बन्ध में विम्ब प्रतिविम्ब, अंश अंशी, एवं प्रकाशक प्रकाश्य सिद्धान्तों का भी उल्लेख करते हैं ।

प्रकाशक के रूप में जहाँ कहीं भी उन्होंने परमसत्ता को प्रदर्शित किया है वहाँ उन्होंने उसे ज्योतिस्वरूप माना है । उसी एक ज्योति से यह सारा ब्रह्माण्ड प्रकाशित है । वह ज्योति के रूप में सर्वत्र व्याप्त है । कासिमशाह का कथन है कि वह ज्योति जो जगत के ऊपर है अद्वितीय है उसके सदृश और कोई ज्योति नहीं है । वह ज्योति इतनी महान होती हुए भी गुप्त है । उसे कोई देख नहीं सकता उसी से सब लोक प्रकाशित है^{१२} ।

नूरमुहम्मद का कथन काव्यात्मक अधिक है, उसमें कुछ रहस्य की भी भावना है । वे कहते हैं कि ‘यदि वह ज्योतिर्मय अपना मुख अनावृत कर देता है तो प्रातःकाल ही जाना है । यदि वह अपने केश मुक्त कर देता है तो सन्ध्या हो जाती है । उसी ज्योति पुञ्ज अनन्त सौन्दर्यशाली को देखकर संसार के नेत्र सूर्य और चन्द्र प्रकाशवान है । आकाश अपने अनन्त तारा रूपी नेत्रों से एक उसी के सौन्दर्य एवं प्रकाश का अवलोकन करता है’^{१३} ।

शेख रहीम भी ‘प्रेमरस’ में परमसत्ता के प्रकाशक स्वरूप का वर्णन करते हुये कहते हैं ‘उस एक ही ज्योति ने सारा जगत प्रकाशित है । उसी प्रकाश पुञ्ज पर सारा संसार विमोहित है । जब मनोवृत्तियाँ एक ओर उन्मुख हो जाती हैं तो उन्हें फिर और कुछ अच्छा नहीं लगना । सर्वत्र उसी के दर्शन होते हैं । उससे ही मिलने की उत्कण्ठा रहती है’^{१४} ।

इसी ज्योति स्वरूप परमतत्व के अन्तर्गत मुहम्मद के नूर का भी प्रसंग आता है । परमज्योति ने स्वयं से एक और ज्योति या नूर मुहम्मदसाहब को उत्पन्न किया जिसके

१. पीपर कहै सुनाई के पापर सब तैं जान । सर्व मई एकै वही भ्रम सुजग परमान ॥
हुसेनखली पुहुपावती (हस्तलिखित)
२. वह जो ज्योति जगत उपराही, दूसर ज्योति और अंस नहीं ॥
अहै गुप्त कौऊ लखै न पार, प सब लोक अहै उजियार ॥
कासिमशाह हंसजवाहिर पृ० २०.
३. सोले मुख परभात देखावे, खोले केश सामु होइ आवैं ॥
है तेहि चन्द्रबदन लखि, जगत नयन उजियार ।
गगन सहस लोचन सौं, निर्यै तेहिक सिंगार ॥
नरमुहम्मद इन्द्रवती पृ० ५२
४. एकै जोत जगत उजियारा, एकै रूप मोह मंगारा ।
जो मन लागै एक ते, दूसर सुघर न भाग ।
दीठ पदे सर मा वही, वही वही गुहराय ॥
शेख रहीम प्रमरस

सुख के लिये इस सम्पूर्ण सृष्टि की रचना हुई अतः यारी साहब कहते हैं कि 'सारे जगत में उसी मुहम्मद का नूर प्रसारित है'^१ ।

मंरून भी कहते हैं कि 'वही ज्योति सर्वत्र प्रकाशित है । उसी ज्योति से जिस दीपक की सृष्टि हुई उसका नाम मुहम्मद है'^२ ।

उस परोक्ष ज्योति और सौन्दर्य-सत्ता की ओर जायसी अनोखी लौकिक दीप्ति और सौन्दर्य के द्वारा संकेत करते हैं, 'उस ज्योतिर्मय की ज्योति से ही सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र देदीप्यमान हैं, रतन पदार्थ, माणिक्य और मोती में भी उसी का प्रकाश है । प्रकृति के मध्य दृष्टिगोचर होने वाली सारी दीप्ति उसी से है'^३ ।

प्रतिबिम्बवाद का तात्पर्य है कि नामरूपात्मक दृश्य जगत ब्रह्म का प्रतिबिम्ब है । बिम्ब ब्रह्म है, यह जगत उसका प्रतिबिम्ब है । इस प्रतिबिम्ब को देखकर साधक के हृदय में बिम्ब की ओर अग्रसर होने की लालसा होती है । हिन्दी के सूफी कवियों ने इस भावना का व्यक्त किया है । जब ब्रह्म ने स्वयं अपने को देखना चाहा, अपनी लीला का विस्तार करना चाहा तब अपनी माया के सहारे ही उसने अपने को व्यक्त किया । यह सारा जगत दर्पण को भाति हो उठा । ब्रह्म स्वयं ही दृश्य और दृष्टा है, ज्ञेय और ज्ञाता है । यह सारा जड़ चेतन जगत उस ब्रह्म का ही स्वरूप है, किन्तु माया के कारण पृथक् शात होता है । बालक यदि हाथ में दर्पण लेले और उसमें अपनी परछाईं देखकर उसे दूसरा समझे तो यह उसका अज्ञान है, वस्तुतः वे दोनों एक ही हैं । इसी प्रकार 'यदि पचास सहस्र गगरो भरकर रखदी जायँ तो सूर्य के एक ही होने पर भी उन सबमें उसके अनेक प्रतिबिम्ब

१. हमारे एक अलह पिय प्यारा है ।

घट घट नूर मुहम्मद साहब जाका सकल पसारा है ।

यारी साहब भजनसंग्रह ।

२. वही ज्योति प्रगट सब ठाव । दीपक सृष्टि मुहम्मद नाव ॥

मंरून-मधुमालत

३. जैहि दिन टसन जोति निरमई । बहुते जोति जोति ओहि भई ॥

रवि ससि नखत दिपहि ओहि जोती । रतन पडारथ मानिक मोती ॥

जहं जह विहसि सुभावहि हसी । तह तह छिटकि जोति परगसी ॥

नयन जो देखा कँवल भा, निरमल नीर सरीर ।

इयत जो देखा हस भा, टमन जो ते नगहीर ॥

पद्मावत जायसी ग्रन्थावली पृ० ४४, २४

रामचन्द्र शुक्ल

पढ़ते ह^{११} । इसी प्रकार परमसत्ता एक है किन्तु उसका प्रतिबिम्ब सर्वत्र पड़ना है ।

मधुमालत में कवि मंभन ने भी इस प्रतिबिम्बवाद की ओर संकेत किया है । 'उस परमसत्ता के समान दूसरा और कोई कहीं नहीं है । यह सृष्टि उसके मुख के सौन्दर्य का दर्पण है । वह इस जगत् में सर्वत्र प्रतिबिम्बित हो रहा है'^{१२} ।

इस प्रतिबिम्ब का निरूपण कासिमशाह पिरख और ब्रह्माखंड के रूपक से करते हैं । सूफीसाधना में 'क़त्व' या हृदय की स्वच्छता का महत्व है । वास्तव में हृदय के दर्पण में ही उसका प्रतिबिम्ब स्पष्ट पड़ता है । अतः घट में ही उसे खोजने का प्रयास करना चाहिये । इस शरीर के अन्दर सात द्वीप, नौ खण्ड एवं सातों स्वर्ग हैं । घट में ही उस परमज्योति के दर्शन सहज हैं^३ ।

नूरमुहम्मद का कथन है कि 'स्वच्छ दर्पण में निर्मल परछाहीं पड़ती है । जिस प्रकार एक व्यक्ति के चतुर्दिक् रखे हुए दर्पणों में उसकी परछाहीं अनिवार्य रूप से पड़ती हैं उसी प्रकार एक ब्रह्म की छाहीं सारी सृष्टि में पड़ रही है'^४ ।

इसी प्रकार अनुराग वासुरी में वे कहते हैं कि 'आज मैंने जिसका वर्णन किया है यह संसार उसीका झरोखा है, अर्थात् इस संसार में वह भाकता है'^५ ।

१. आपुहि आपु जो देखै चहा । आपुनि प्रभुत आपु से कहा ॥
सवै जगत दरपन के लेखा । आपुहि दरपन आपुहि देखा ॥
आपुहि बन और आप पखेरु । आपुहि सौजा आपु अहेरु ॥
आपुहि पुहुप फूल बन फूले । आपुहि भंवर वास रस भूले ॥
आपुहि घट घट महं मुख चाहे । आपुहि आपन रूप सराहे ॥
दर्पन बालक हाथ मुख, देखे दूसर गनै,
तय भा दुइ एक साथ, मुहमद एकै जानिये ॥
गगरी सहस पचास, जो कोऊ पानी भरि धरै ॥
सूरुज दिपै अकाश, मुहमद सब महं देखिए ॥

अखरावट : जायसी-ग्रन्थावली पृष्ठ ३१६, ३३१, ३३३
पं० रामचन्द्र शुक्ल

२. एक अहे दूसर कोऊ नाहीं । तेहि सब सृष्टि रूप मुख चाहीं ॥
मंभन . मधुमालत
३. हिये माऊ दरपन के लेखो, घट ही दृश जगहिर देखो ।
घट ही सात द्वीप नौ खण्डा, घट ही सात स्वर्ग बूखण्डा ।
घट ही समट सीप औ मोती, घट ही निरग परे वह जोती ॥
कासिमशाह हंसजवाहर पृष्ठ ६२१,
४. जस दर्पन निर्मल रहै, तस देख। अधिकार ।
दरपन एक नारिको, मय आदरम मम्भार ॥
नूरमुहम्मद इन्द्रावती पृ० १०
५. आज बदन देगा मैं जाको, है यह जगत झरोखा ताको
नूरमुहम्मद इन्द्रावती पृ० ८१

बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव का वर्णन नूरमुहम्मद ने अधिक किया है। राजकुंवर इन्द्रावती का दर्शन करने के पश्चात् कहता है, 'कि जबसे मैंने उस प्रिय का दर्शन किया है यह संसार मेरे लिये दर्पण के सदृश हो गया है। इस संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर है उस सभी में उसका मुख प्रतिबिम्बित दिखाई देता है।' अनुराग वासुरी में भी वह स्पष्ट कहते हैं 'जो कुछ भी इस जगत में वर्तमान है वह सृष्टिकर्ता के गुणों का दर्पण है'^१।

चित्रावली में कवि उसमान इसी भाव का प्रदर्शन चित्रसारी के रूपक के द्वारा करते हैं। चित्रशाला में अनेक चित्र दृष्टिगोचर होते हैं। वास्तव में उनमें एक चित्रावली का चित्र ही सत्य है, अन्य सब परछाहीं हैं^२।

शेख रहीम मानव मात्र को उसी ज्योति की परछाहीं मानते हैं^३। इसी प्रकार कासिमशाह भी मैं या अहंभाव का कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं करते और स्वयं को उस एक की परछाहीं स्वरूप मानते हैं^४।

एक ही परम-त्य सारी सृष्टि में समाया हुआ है। ज्ञान के क्षेत्र से अनुभूति के क्षेत्र में आकर सारी सृष्टि में वह रमा हुआ आभासित होता है। नूरमुहम्मद भी सारी सृष्टि को उसी का प्रतिबिम्ब मानते हैं। जहाँ बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव के प्रदर्शन में इन कवियों ने प्रतिबिम्ब से साधक को बिम्ब प्राप्ति के लिये प्रेरणा पाते दिखाया है वहीं अंश अशी भाव का स्पष्टीकरण 'अहं ब्रह्मास्मि' या 'अनलहक' के द्वारा हुआ है जिसमें साधक को प्रतिबिम्ब की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी आत्मा उसी एक का स्वरूप हो जाती है, आभास मात्र नहीं, अत आत्मचिन्तन श्रेय है, जगत में विस्तृत प्रतिबिम्ब को खोजने की अपेक्षा हृदयस्थित परमसत्य की आराधना करना श्रेष्ठ है। कवि उसमान अपनी 'चित्रावली' में कहते हैं कि 'जिस परमसत्य की समता दोनों लोकों में किसी से नहीं हो सकती वह मन में निवास करता है, जिस प्रकार मृग तृण तृण में कस्तूरी की सुगन्धि खोजता फिरता है किन्तु कस्तूरी उसकी नाभि में रहती है। जब वहेलिया मृग की नाभि काट लेता है तब वह प्राणविसर्जन कर देता है। परमात्मा के अत्यन्त निकट

१. रूप प्यारी का मैं देखा, जगत भयउ दर्पन तें लेखा
यह सब दृष्टि परत है मोहीं; तामैं देखत हों मुख ओहीं ॥
नूरमुहम्मद . इन्द्रावती पृ० ७१
जगत बीच जो किछु है बना, है करता गुन की दरपना।
नूरमुहम्मद अनुराग वासुरी पृ० १३०
२. और जो चित्र अहहि तेहि माहीं, सो चित्रावलि की परछाहीं।
उसमान चित्रावली पृ० ६३
३. जान जोत चन्द्रावलि माहीं, सो हम रूप है परछाहीं।
शेख रहीम प्रेमरस
४. देगो निरर परस मोहि काया, मैं कत अहो अहो वह द्याया।
कासिमशाह . हसजवाहर प० १२१

रहते हुये भी मानव उसे पहचान नहीं पाता है। जब काल उसका जीवन नष्ट कर देता है तो वह पछता कर रह जाता है। जिस प्रकार कस्तूरी में सुगन्धि का निवास है उसी प्रकार घट में निरञ्जन का वास है। कस्तूरी के गुण उस सुगन्धि में रहते हैं परमात्मा के गुण आत्मा में होने हैं। अतः अत्यन्त सूक्ष्म विवेचना या साधना के पश्चात् उसे प्राप्त करने का प्रयास आवश्यक है^१।

कासिमशाह अंश अंशी भाव को सूर्य और किरण की उपमा देकर स्पष्ट करने हैं। 'जिस प्रकार सूर्य की किरण सूर्य का अंश है, उसमें सूर्य के सभी तत्व एवं गुण वर्तमान हैं उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा का अंश है'^२।

शेख़ रहीम हर घट में ईश्वर प्राप्ति का सन्देश देते हैं 'परमात्मा का निवास प्रत्येक घट में है। जब उसका निवास इतने निकट है तो उसे दूर खोजने जाने की क्या आवश्यकता है, तात्पर्य यह कि मनुष्य की आत्मा परमात्मा का अंश है उसमें वही तत्व वर्तमान है जो परमेश्वर में हैं। केवल मात्रा का अन्तर है। परमसत्ता को हृदय में ही खोजने का प्रयास श्रेष्ठ है^३।' इसके साथ वे कबीर की भांति परमसत्ता के निर्गुण स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं 'राम दशरथ के पुत्र नहीं हैं। उन्होंने दशरथ को भी उत्पन्न किया है। कृष्ण अनेक हो सकते हैं किन्तु परमसत्ता एक है उसमें द्वित्व की भावना नहीं है। परमात्मा को वहाँलया या अन्य कोई प्राणी हानि नहीं पहुँचा सकता। तात्पर्य यह कि परमसत्ता अजन्मा एवं अमर है उसके न कोई माता पिता है और न निर्दिष्ट निवासस्थान। वह सर्वव्यापक है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी को उसने उत्पन्न किया है'^४।

अब्दुल समद ने वृन्द और समुद्र के साम्य से ईश्वर और जीव का अंश अंशी भाव

१. जग हूँ जाकी उपमा नाहीं। रे मन सोई बसै तोहि माहीं ॥
का दूँ उहिं जह तहा उदासा। मृग ज्यों वृन वृन दूँ डत बासा ॥
जय किरात नाभि कटि लेई। मृग पछताइ तहां जिउ टेई ॥
मृग-भद माह वास ज्यों रहई। त्यों घट मांह निरञ्जन अहई ॥

उसमान चित्रावली पृ० ४४

२. जग महँ छाई किरन सब, ज्योति माँरु बैलास।
तपमी थकित जगत के, बैठ सो तेहि की आस ॥

कासिमशाह हंसजवाहिर पृ० ५०

३. हर का तो हर घट में पढ़ये। नरे हरे दूर क्यों जह्ये ॥
४. राम नहीं दशरथ के जाये। दशरथ हूँ का राम बनाये ॥
कृष्ण अनेक एक करता। तेहि का नहि वहाँलिया मारा ॥
अरुन का वह मार जियाये, तेहि का भला मार को पाये।
नाहिं वाके हैं मात पित, ना वाका कोई देस।
वाके कीन्हें मय भये, वरगहा. विष्णु, महेश ॥

जेत रहीम प्रेमरम

स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि यह अत्यन्त आश्चर्य की बात अचश्य है कि बूंद में समुद्र समाया हुआ है। वास्तव में सत्य यही है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही हमारा गुरु है^१। समुद्र और बूंद में कोई तात्विक अन्तर नहीं है केवल आकार एवं मात्रा का अन्तर है। इसी प्रकार यह सृष्टि भी उसी एक परमसत्ता का स्वरूप है। वज्रुदिया सम्प्रदाय के अन्तर्गत इसी भावना का समावेश है। अब्दुलसमद जहां बूंद और समुद्र की समानता से अंश अंशी भाव को स्पष्ट करते हैं वहीं विम्ब प्रतिविम्ब भाव का परिचय भी कुछ भजनों में देते हैं। जैसे, 'साधु को अपने घट में पड़ी परछाहीं को देखना चाहिये, परमसत्ता एक है। केवल एक इस तथ्य का गान तो हमने बहुत किया किन्तु आँख न खुली। जब जान हुआ तो हमने देखा कि वही वह है अन्य कुछ नहीं'^२।

नूरमुहम्मद परमसत्ता के मूर्तस्वरूप की अपेक्षा अमूर्त की आराधना श्रेष्ठ समझते हैं। निराकार निर्गुण परमेश्वर की उपासना से स्वर्ग लाभ संभव है। इस्लामी अनुयायियों को बहिश्त एवं वहाँ प्राप्त होने वाले दूर आदि भोगों का बड़ा आकर्षण था किन्तु भारतीय साकारोपासना इस आकाक्षा का त्याग करती है। जो हो, नूरमुहम्मद का कहना है कि 'साकार को त्याग कर निराकार की ध्यान-धारणा उचित है यदि विवेक-दृष्टि हो तो उस परमसत्ता का दर्शन, शरीर रूपी दर्पण में भी संभव है। वही परमेश्वर जो सर्वत्र इस सृष्टि में व्याप्त है, शरीर में भी निवास करता है'^३।

ऊपर हिन्दी के सूफ़ी काव्य में पाये जाने वाले परमसत्ता सम्बन्धी विचारों का विवरण दिया गया है। इसके अध्ययन के उपरान्त यह स्पष्ट हो जाता है कि इन हिन्दी के सूफ़ी कवियों ने सूफ़ी मत में प्रचलित जितने भी सिद्धान्त थे लगभग सभी का परिचय अपने काव्य में दिया है। इसके अतिरिक्त भारतीय विचारधारा का भी उन पर यथेष्ट प्रभाव पड़ा है। सूफ़ियों में एक प्रधान वर्ग नित्य परमार्थिक सत्ता को केवल एक ही मानता है जिसका भिन्न भिन्न रूपों में आभास है। परमात्मा का ज्ञान इन्हीं व्यक्त नामों और

१. क्या है अचरज देखो साधो, बूंद में समुद्र समाया है।

जो उसको पहचाने "मस्ता" वो ही गुरु हमारा है।

अब्दुल समद भजन संग्रह

गी० प्रे० गोरखपुर, भाग (४)

२ साधो देखो अपने माहीं। घट में पड़ी काकी परछाहीं॥

गुरु लड़िया ये ध्यान न आया। एक है गुरु बहुत हम नाया॥

आँख खली जब देखा मस्ता। वह है वह है साईं॥

अब्दुल समद भजन संग्रह

३ यह मूर्त को तजिकै, चित्त अमूर्त देहु।

जाहि अमूर्त ध्यान सो, स्वर्ग लोक फल लेहु॥

दीठ होई तो देखहु, तन यादरस मकार।

बदन बिराजत है तेहिक, जेहिक मकल मयार॥

नूरमुहम्मद इन्द्रावती पृ० २६

गुणों के द्वारा हो सकता है। सूफियों की यह भावना 'शुद्धिया' सम्प्रदाय के अन्तर्गत आती है जिसका उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं। इस विम्ब प्रतिविम्ब भाव का वर्णन भी जिम् रूप में हुआ है उसकी वयेष्ठ चर्चा हो गई है।

इस अद्वैतवाद में यह ज्ञात होता है कि परमसत्ता चित्स्वरूप है तथा यह जगत केवल प्रतिविम्ब का आभास मात्र है। सूफी कवियों को इससे संतोष न हुआ और उन्होंने परमसत्ता को इस जगत में प्रसारित माना। सृष्टि और परमसत्ता का सम्बन्ध भी अंश और अंशी रूप में माना। शुद्ध सत्ता नाम एवं गुण रहित है किन्तु जब वही अभिव्यक्ति के क्षेत्र में आती है तब नामगुण की उपाधियों से विभूयित हो जाती है। बाह्य सृष्टि केवल अध्यास या भ्रम नहीं, उसी परमसत्ता की आत्माभिव्यक्ति है। 'वज्रदिया' सम्प्रदाय इसी सिद्धान्त का पक्षपाती है। यह मत भारतीय वेदान्त के अधिक निकट है। इस अंश अंशी भाव का निर्देश भी पहले हो चुका है।

सूफी अद्वैतवाद के अन्तर्गत आत्मा और परमात्मा के द्वैतत्याग को अधिक लेते हैं। अहं, मैं या खुदी की भावना का नाश करके आत्मा और परमात्मा एकत्व को प्राप्त होते हैं। भारतीय सूफी कवियों ने जड़ जगत और परमसत्ता की एकता भी प्रदर्शित की है, वे जगत की पृथक सत्ता केवल भ्रममात्र मानते हैं और गीता के सर्ववाद की भाँति सारे जगत में उस परमसत्ता के ही सौन्दर्य, शक्ति एवं गुण का दर्शन करते हैं। इसी भावना का स्पष्टीकरण सूफियों ने व्यापक व्याप्य सम्बन्ध के द्वारा किया है।

इसके अतिरिक्त जिस भावना का अत्यधिक वर्णन इन सूफी कवियों ने किया है वह है उसका 'केवल' एवं सृष्टिकर्ता का स्वरूप। वह परमसत्ता केवल एक है वही इस सृष्टि का सृष्टा, पालक एवं विनाशक है। उसकी शक्तिया अनन्त एवं अद्भुत हैं। परम वैभव एवं शक्तिसम्पन्न होते हुये भी वह अत्यन्त दयालु है। वह एक चित्रकार है जिसके गुणों का साक्षी यह नामरूपात्मकविविधदृश्यसंयुक्त जगत है।

संक्षेप में अद्वैतवाद के दोनों ही पक्षों, आत्मा और परमात्मा की एकता तथा परमात्मा और जगत की एकता का निदर्शन सूफी काव्य में हुआ है। साधना-क्षेत्र में जहाँ उनकी दृष्टि केवल आत्मा और परमात्मा के एकत्व पर रही है वहीं भावक्षेत्र या काव्य में वे प्रकृति की नाना विभक्तियों में भी उसे व्याप्त पाते हैं। परमसत्ता के सम्बन्ध में हिन्दी के सूफी काव्य में, उसके निर्माणाकर्ता या सृष्टिकर्ता स्वरूप की, इस जगत में उसके कनिष्ठ स्वरूप में स्थित भाव की, जगत में आभासित या प्रतिविम्बित मत्व की सर्वत्र जट एवं चेतन जगत में व्याप्ति की एवं सारे संसार में उमी की दीप्ति के प्रकाश आदिक विचारों की अभिव्यक्ति है। परमसत्ता के एकत्व या केवलत्व पर तो उन्हें कोई संदेह ही न था, इस्लाम का यही मूल मन्त्र है।

परमसत्ता के स्वरूप का निर्धारण कर चुकने के पश्चात् त्रिजानु सृष्टितत्व, सृष्टि-मग एवं सृष्टा के सम्बन्ध में जानना चाहना है। अनेकान्त विश्व के मूलभूत तत्व और सृष्टि क्रम पर विचार करना दर्शन का उद्देश्य है। सृष्टि सम्बन्धी तत्ववाद पर विचार करके

समय उसके कई पक्ष सम्मुख आते हैं.—(१) सृष्टि का मूलतत्त्व एवं सृष्टा (२) सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय (३) सृष्टि-रचना का क्रम ।

जहातक सृष्टि का सम्बन्ध है सभी इस्लामी चिंतक एक मत हैं । इस अनेकान्त सृष्टि का वह केवल एक सृष्टा है । हिन्दी के सूफी कवियों ने परमसत्ता की सृजनशक्ति का सर्वाधिक गुणगान किया है । सृष्टि का मूलतत्त्व क्या है इस सम्बन्ध की चर्चा कुरान में अधिक नहीं मिलती । सृष्टि अल्लाह की कृति है, अल्लाह की शक्ति विशाल है उसे सृष्टि रचना में एक क्षण भी नहीं लगा । उसके केवल एक शब्द 'कुन' (हो जा) में सृष्टि-प्रसार की सामर्थ्य है । उस परमसत्ता ने यह सारा स्वर्ग और भूतल केवल छ' दिन में निर्मित किया^१ । सृष्टि की रचना किस तत्व से हुई इसकी कोई चर्चा नहीं है, मनुष्य की रचना 'पृथ्वी' तत्व से हुई इसका उल्लेख है । उस परमसत्ता ने मिट्टी से मनुष्य रचना करके उसमें अपनी रूह फूंक दी^२ । मनुष्य अन्य स्वर्गीय दूतों से भी श्रेष्ठ है तभी तो अल्लाह ने फरिश्तों को उसके सम्मुख नत होने को कहा । इसके अतिरिक्त सृष्टि के सम्बन्ध में विशेष कुछ सूचना कुरान में उपलब्ध नहीं होती । कुन से सृष्टि की उत्पत्ति, आदम को अल्लाह का प्रतिरूप, एवं इन्सान को सृष्टिशिरोमणि मानने में इस्लाम को छापत्ति नहीं किन्तु सूफियों को केवल इतने से संतोष नहीं हुआ । उन्होंने अपनी शिकायतों का समाधान बुद्धि के सहयोग से कुरान के कुछ संकेतों के आधार पर करना चाहा ।

जैसा कि हम पीछे कह चुके हैं । लगभग सभी सूफियों ने इस जगत के विविध उपकरणों, प्रकृति के स्वरूपों आदि का वर्णन करते हुये उस परमसत्ता के सृष्टारूप का वर्णन किया है किन्तु ऐसे कवि अल्प हैं जिन्होंने 'कुन' शब्द से सृष्टि उत्पत्ति का उल्लेख स्पष्टरूप से किया हो^३ । प्रसिद्ध सूफी चिन्तक अरबी 'कुन' का अर्थ किया नहीं मानता, उसके विचार से 'कुन' के द्वारा परमसत्ता का सृष्टि निर्माण सम्बन्धी संकल्प ही माना जा सकता है । सृष्टिनिर्माण के इस संकल्प की प्रेरणा उसे स्वयं अपने सौन्दर्य से प्राप्त हुई । जामी अल्लाह को परम सौन्दर्य रूप मानता है, 'वह अल्लाह प्रेम चाहता था और प्रेम से ही प्रभावित होकर उसने अपने मुख का आदर्श लिया और उसमें अपना रूप स्वयं व्यक्त करने लगा'^४ ।

१ Verily your Lord is God, who created the Heavens and Earth in Six days. Koran Yusuf Ali

२ Man's origin was from dust, lowly, But his rank was raised above that of other creatures God breathed into him his Spirit Koarn Yusuf Ali

३- एकै शब्द कहा कुन केरा । सिरजा भमि अकाश घनेरा ॥

जेख रहीम प्रेमरस

४. The Mystics of Islam P 801, by R A Nicholson

सृष्टि रचना की प्रेरणा इसी आत्मज्ञापन की भावना में पाई जाती है। परम्परानुसार कहा जाता है कि एक वार हज़रत दाऊद ने ईश्वर से प्रश्न किया था, 'कि हे ईश्वर आपने मानव जाति की सृष्टि क्यों की' जिसका उत्तर उन्हें मिला था, 'मैंने अपने गूढ रहस्य को व्यक्त करने की इच्छा से ऐसा किया।' हज़ाज का भी यही कहना है कि परमसत्ता या ईश्वर स्वयं अपने स्वरूप का निरीक्षण कर रीभ गया और उसके इम-आत्म प्रेम का ही सृष्टि रूप में आविर्भाव हुआ। हिन्दी के सूफ़ी कवि भी हदीस के इन वचनों का परिचय अपने काव्य में देते हैं। अन्तर केवल इतना है कि इसका उल्लेख सृष्टि रचना की प्रेरणा के रूप में नहीं होता। ये कवि केवल परमात्म-सौन्दर्य की महानता एवं सृष्टि का उसके प्रतिविम्ब स्वरूप होने के सम्बन्ध में ही इसका उल्लेख करते हैं^१।

यह सृष्टि नित्य है या अनित्य। इस सम्बन्ध में भी सूफ़ियों में कई विचार प्रचलित हैं। कुरान में सृष्टि के नित्यत्व या अनित्यत्व की अधिक चर्चा नहीं है। इन कवियों के काव्य में इस सम्बन्ध में स्पष्टरूप से दो विचारधारायें उपलब्ध होती हैं। एक तो यह कि इस सृष्टि का प्रसार उस परमसत्ता से होने के कारण यह नित्य है। दूसरा पक्ष है कि इस जगत् का जीवन क्षणिक है और एक न एक दिन सभी का अन्त होना है। आत्मा अपने वाह्य परिधान का त्याग करके अवश्य एक दिन उस परमात्मा से मिल जायगी।

सृष्टि के नित्यत्व के सम्बन्ध में सूफ़ी चिन्तकों ने सदैव परमसत्ता को मूलरूप में अर्न्तस्थित माना है। जामी के विचार से सृष्टि सत्य का प्रत्यक्ष रूप है, वह परमसत्ता इस प्रत्यक्ष का मूल तत्व है। सृष्टि के मूल तत्व के रूप में इन्होंने परमसत्ता को ही माना है। इस सृष्टि का प्रसार उसी से हुआ है और अन्त में यह उसी में समा जायगी। गुल्शाने-राज के लेखक का कहना है कि 'हमारे प्रियतम का सौन्दर्य अणु परमाणु तक के अच-गुण्डन में लक्षित होता है^२।' अपने 'हिकमत-उल-औलिया' ग्रन्थ में भी उसका कहना है कि वाह्य सृष्टि (आदन) कोई भी चेष्टा करने में असमर्थ है, इसके सारे कार्य व्यापार उसी परमसत्ता के हैं जो इसमें चेतन रूप से अवस्थित है। अतः 'अवद्' को कर्ता की उपाधि प्राप्त नहीं हो सकती। उसमें स्वतन्त्र रूप से कोई भी गुण तथा शक्ति नहीं है। अरबी भी सृष्टि को ईश्वर की भाँति नित्य मानता है। जिली भी जगत् को ईश्वर का ही रूप मानता है। रूमी परमसत्ता को केवल अनुभूतिपरक मानता है अतः वह उसके वाह्य

१ मोऊ नहीं बीच मा अपने रूप लुभान
अपनों चित्र चितेरा देखि आप अरुमान।

नूरसुहृम्मद इन्द्रावती पृ० ७१।

ता सम दूसर दिस्टि न आण्ड।

आप समां दरपन मां पाण्ड ॥

नूरसुहृम्मद अन्नुराग चांसुरी पृ० ११३।

२ "If you cleave the heart of one drop of water there will issue from it a hundred pure oceans" Gulshani Raz.

स्वरूप सृष्टि या अन्तरात्मा स्वरूप चेतना के सम्बन्ध में 'बाहर' 'भीतर' ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। इन सभी सूफियों का ईश्वर कर्ता है तथा जगत उसकी कृति, वह इस सृष्टि में अर्न्तस्थित है। इसी कारण यह जगत नित्य है यह मत अधिकांश आचार्यों को मान्य है। आचार्य हुज्वरी को यह मत अमान्य है। वह ईश्वर और जगत को विल्कुल भिन्न मानता है।

हिन्दी के सूफी कवि भी सृष्टि के मूलतत्त्व स्वरूप उसी परमसत्ता की स्थिति मानते हैं। सारी सृष्टि उसी एक का प्रसार है, वही इन सब वस्तुओं में चेतन रूप से वर्तमान है। सृष्टि के कण-कण में उसी एक के अपरिमित सौन्दर्य, शक्ति तथा गुणों के दर्शन होते हैं^१। यह सृष्टि दो तत्वों का समाहार है जात और सिफत सत एवं उसका व्यक्तीकरण। जात ही वास्तविक सत् है एवं सिफत उसका बाह्य नाम, रूप एवं गुणात्मक स्वरूप। जात, सिफत में वर्तमान आन्तरिक शक्ति है। परमसत्ता के स्वरूप-निदर्शन में हम कह आये हैं कि ये कवि या तो उसे इस सृष्टि में स्थित उसी प्रकार मानते हैं जैसे समुद्र के सभी तत्व एक वृद्ध में वर्तमान रहते हैं या इस सृष्टि की स्थिति दर्पण में प्रतिबिम्ब की भाँति, केवल उसका आभास मात्र मानते हैं। चाहे जिस रूप में हो ये सूफी कवि परमात्मा के संसर्ग के कारण सृष्टि में भी नित्यत्व का आभास पाते हैं।

नूरमुहम्मद का विचार है कि 'ब्रह्म को देखने के पश्चात् यह सारा संसार दर्पण की भाँति हो गया। संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है उसमें परमात्मा की प्रतिछवि है। सृष्टि का अस्तित्व उस सृष्टा के गुणों का दर्पण है^२।'

१. जगत बीच जो किछु हैं बना, है करता गुन को दरपना।

नूरमुहम्मद अनुराग बांसुरी, पृ० १३०।

देखो निरख परख मोहि काया, मैं कत अहो अहो व छाया।

कासिमशाह हसजवाहर पृ० १२१।

कहँ मानुष पखी कहों, का बनखण्ड का मार।

सब महँ वह परगट अहै, अलख रूप कर्तार ॥

कासिमशाह हसजवाहिर पृ० २१६।

जौन रूप चन्दावलि मोंही, सो हम रूप है परछाहीं।

शेख रहीम प्रेमरस।

वह मरत मानुष सब अहई, नरनारी जिनका सब कहई।

शेख रहीम प्रेमरस।

२. रूप प्यारी का मैं देखा, जगत भयउ दर्शन ते लेखा।

यह सब दृष्टि परत है मोही, तामों देखत हों मुख ओही ॥

नूरमुहम्मद इन्द्रावती पृ० ७१।

उसमान इस सत्य को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, 'प्रत्येक चित्र चित्रकार की सान्नी देना है। चित्र में चित्रकार को देख सकने की क्षमता केवल निर्मल दृष्टि सम्पन्न व्यक्तियों को ही हो सकती है। वह परमात्मा इस सृष्टि में उसी प्रकार अन्तर्निहित है जिस प्रकार एक बूंद जल में भी समुद्र के तत्वों का अस्तित्व। इस तत्व को समझने की शक्ति केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकती है' १।

कासिमशाह भी इस मूलतत्व का स्पष्टीकरण करते हैं, 'वही एक इस सारी सृष्टि में व्याप्त है। इस संसार के प्राण सदृश केवल उसी की स्थिति है। विवेकी को सम्पूर्ण सृष्टि में उसी स्वरूप के दर्शन होते हैं। वास्तव में यही सृष्टि का अस्तित्व है' २।

'मधुमालत' में मंमन भी इसी प्रकार हृदीस के शब्दों को प्रमाणित करते हैं, 'यह सृष्टि उसका दर्पण है। इसमें उसके मुख की परछाईं दृष्टिगोचर होती है। ब्रह्म और जगत का सम्बन्ध उसी प्रकार का है जैसा समुद्र एवं लहर, सूर्य एवं किरण का' ३।

इस प्रकार हिन्दी के इन सूफी कवियों ने सर्वत्र सृष्टि के मूलतत्व रूप में परमसत्ता का अस्तित्व माना है। किन्तु साथ ही इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का निश्चिन्त अवसान, उसका नाश अवश्यम्भावी है। कुरान में भी सृष्टि के अन्त का वर्णन है। एक दिन सभी को उस परमसत्ता के पास वापस पहुँचना है ४। 'सृष्टि में परमसत्ता की उदारता एवं दया के दर्शन होते हैं किन्तु इस सृष्टि में सबका अन्त अवश्यम्भावी है' ५।

'यह सारी बाह्य सृष्टि नाशवान है। हर वस्तु का अन्त नष्ट होना है, केवल ईश्वर

१ चित्रहि मह सो आहि चितेश। निर्मल दृष्टि पाठ सो हेरा ॥
जैसे घूँट माह दधि होई। गुरु लखाव तो जानि कोई ॥

उसमान चित्राचली पृ० ६५।

२ वही सो पूर जगत के माहां। पबे सो सृष्टि लखों मैं ताहां ॥
पही सो वृक्ष पात कर फूला। वही सो प्राण जगत कर मूला ॥

कासिमशाह. हंसजवाहर पृ० १५१।

३ एक अहै दूसर कोई नार्ही। तेहि सब सृष्टि रूप मुख चाहीं ॥
तँ जो समु द लहर में तोरी। तँ रवि में जग किरन अजोरी ॥

मंमन मधुमालत।

४ To Him will be your return of all of you
Koran . Yusuf Ali.

५ Look at God's creation

Its unity of design and benevolence of
Purpose. Death must come to all.

Koran Yusuf Ali.

का मुख ही शाश्वत है। उसकी आज्ञा सर्वमान्य है। संसार की प्रत्येक वस्तु को नाश हो जाने के पश्चात् वहीं जाना है।^१

इस प्रकार कुरान में संसार की नश्वरता का वर्णन तो अवश्य है किन्तु कब और कैसे इसका अन्त होगा इसका वर्णन नहीं है। कयामत के दिन ही सबका फैसला होगा, आगे पीछे संसार छोड़ने वाले व्यक्तियों को उस दिन की प्रतीक्षा करनी होगी, वहा फैसला हो जाने के बाद वे क्रमशः स्वर्ग या नरक में भेजे जायेंगे। उसके बाद उनका क्या होगा इसका भी कोई उल्लेख नहीं है।

हिन्दी के इन सूफ़ी कवियों ने भी संसार की परिवर्तनशीलता एवं नश्वरता का वर्णन किया है। सृष्टि का लय किस क्रम से होगा इसका वर्णन नहीं है। केवल मानव-आत्मा का परमात्मा में 'फना' एवं 'वका' रूप में लीन हो जाने का वर्णन है। कुरान में मनुष्य-रूप में खुदा का अपनी रूह फूंकने का वर्णन है, अतः पुनः उस रूह का लौटकर उसी में समा जाना इन कवियों को अधिक संगत ज्ञात हुआ होगा।

सृष्टि की नश्वरता एवं क्षणभंगुरता का वर्णन नूरसुहम्मद स्वप्न और पथिक के रूपक द्वारा करते हैं। 'सृष्टि नाशवान है इसका वास्तविक अस्तित्व कुछ भी नहीं। स्वप्न के समान यह जीवन क्षणिक एवं महत्वहीन है। यह जीवन दीपक की लौ के समान है जिसे कालरूपी वायु प्रतिक्षण नष्ट कर देने को उत्सुक है। इस संसार में पथिक की भांति जीवन-यापन करना ही बुद्धिमानी है। यदि मानव जीवन पाकर परमतत्व की उपलब्धि हो सके तो यही इस जीवन का उपयोग है, लाभ है। यह जगत वृत्त की भांति है जिसका उपयोग पथिक के लिए केवल छायामात्र है, इसी प्रकार मानव मात्र को इस मानवजीवन का उपयोग ब्रह्मप्राप्ति मानकर, इस संसार से कोई सम्बन्ध न जोड़कर, पथिक की भांति निर्लिप्त होकर निर्दोष स्थान पर पहुँचने का प्रयास करना चाहिये'^२।

सृष्टि की क्षणभंगुरता का स्पष्टीकरण सदा से स्वप्न के द्वारा होता रहा है^३। यह

१. There is no God but He
Every thing will perish, except His
own Face. To him belongs the
command. And to Him will ye
(All) be brought back

Koran Yusuf Ali

२ सपन समा यह जीवन मोरा, अहै दिया सब वहे झकोरा।
यह जग जीवन थोरो आही, काज अधिक करना मोहिं चाही।
है भल जग मह पथिक रहना, लेहु दिया साँ आगम लहना।
जग और आपुहि कस पहिचानों, तरिवर और बटोही जानो।
चला जात जस होहि बटोही, आहि छहाइ विरिछ तर ओही ॥

नूरसुहम्मद इन्द्रावती पृ० ८१, पृ० २३।

३. जो कुछ भण्ड होत और होई । है सब सपन न जानत कोई ॥

नूरसुहम्मद अनुराग वासुरी पृ० ११२।

संसार असत्य है। इसकी किसी भी वस्तु से प्रीति अच्छी नहीं, यह मिथ्या संसार त्याज्य है। प्रेम का मार्ग ही इस संसार में श्रेय है।

इस संसार में जीव अकेला ही जन्म लेता है एवं निधन उपरान्त उसे अकेले ही प्रस्थान करना पड़ेगा। 'संसार की भांति यहाँ के सारे सम्बन्ध भी मिथ्या हैं। कोई भी सासारिक वस्तु जीव का साथ नहीं देती। जब अपनी वाया ही साथ नहीं देनी तो फिर और किसी को क्या कहें। इस कारण इस संसार से प्रीति अच्छी नहीं।'

शेखरहीम सृष्टि की नश्वरता का वर्णन इस प्रकार करते हैं, 'काल रूपी वाज दिन रात जीव रूपी मैना के पिंजड़े के ऊपर मंडराता रहता है। थोड़ा सा भी अवकाश पाते ही वह उसे नष्ट कर डालने को तत्पर रहता है^२।' इस संसार की प्रत्येक वस्तु एक निश्चित काल तक ही स्थित है। यहाँ की कोई वस्तु स्थिर या अमर नहीं है। काल का प्रभुत्व इस संसार रूपी साम्राज्य पर है।

हम पहिले ही कह चुके हैं कि सृष्टि-रचना के सम्बन्ध में तत्वों की उत्पत्ति के क्रम की चर्चा कुरान में नहीं है। मनुष्य की रचना के सम्बन्ध में अवश्य मिट्टी का वर्णन है। सृष्टि क्रम का जो वर्णन सूफियों में पाया जाता है उसके अनुसार परमज्योति से सर्वप्रथम मुहम्मदीय आलोक का जन्म हुआ और फिर उसी उपादान कारण से इतर जगत की, सृष्टि की रचना हकीकतुल मुहम्मदिया की प्रसन्नता के लिये हुई। तात्पर्य यह कि इसी मुहम्मद के नूर से अन्य तत्वों की उत्पत्ति हुई। यूनानी दर्शन की भांति इस्लाम में भी आकाश ऐसे सूक्ष्म तत्व की विवेचना नहीं हुई है। हिन्दी के सूफी कवियों ने भी ज़िन्त, जल, पावक और समीर इन्हीं चार तत्वों की चर्चा की है। जहाँ कहीं भी आकाश की चर्चा हुई है वहाँ केवल उस परमसत्ता की अद्भुत शक्ति के प्रदर्शन के हेतु ही हुई है।

कवि उसमान ने चित्रावली में इन चारों तत्वों का वर्णन किया है। यदि जिस क्रम से उनके नाम आये हैं इस पर विचार किया जाय तो अग्नि का स्थान प्रथम आता है। उस परमसत्य ने अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल के मिश्रण से बहुविध सृष्टि की रचना की वह इस प्रकार संयुक्त है कि उसे पृथक् नहीं किया जा सकता^३।'

१. जब आयो तब हतो अकेला। अबहुं जाउ तम दख अकेला ॥
जग मा को केहिकर पुनि सोई । जाय न संग रहे पुनि रोई ॥
मीत न होय सो आपन देहा । तौ केहि काज जगत कर नेहा ॥

कामिमशाह हसजवाहिर पृ० १४२ ।

२. काल सीस पर रैन दिन, जैय वाज मडराय ।
जिउ की मैना पींजड़े, समै पाय ले जाय ॥

शेखरहीम . प्र मरय ।

३. अग्निनि पत्रन रज पानि के, भाति भाति ज्योहार ।
आपु रहा मय भाति मिलि को निवरायै पार ॥

उसमान चित्रावली पृ० १ ।

कामिमशाह ने जहाँ 'गगन' का वर्णन किया है, वहाँ केवल सूर्य, चन्द्र के सहित गगन की सृष्टि का संकेत मात्रा है^१ ।

शेख रहीम ने जहाँ 'कुन' शब्द से सृष्टि उत्पत्ति की चर्चा की है, वहा भूमि और 'आकाश' का वर्णन केवल प्रकृति या जगत के प्रधान वर्णन के रूप में कर दिया है^२ ।

आकाश तत्व का वर्णन परमसत्ता की अद्भुतशक्ति के प्रदर्शन में अधिक हुआ है^३ । तत्वों की उत्पत्ति के क्रम का वर्णन केवल कवि निसार और नूरमुहम्मद ने किया है और उन दोनों के क्रम में साम्य भी है । तैत्तरीयोपनिषद में वर्णित सृष्टि क्रम में और इस्लामी पद्धति से वर्णित इस क्रम में अन्तर है । उपनिषद के अनुसार परमात्मतत्व से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी संभूत हुई^४ ।

यूसुफ-जुलेखा में कवि निसार इन तत्वों की क्रमिक उत्पत्ति के बारे में इस प्रकार लिखते हैं कि सबसे पहले अग्नि, अग्नि से पवन, पवन से पानी, पानी से फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई । इन्हीं चार तत्वों से धरती, स्वर्ग, सूर्य, शशि और तारागण सभी की उत्पत्ति हुई^५ ।

नूरमहम्मद ने भी इस क्रम का वर्णन इन्द्रावती में किया है । 'सर्वप्रथम केवल ज्योतिरूप में वह स्थित था उसके बाद वह आत्मा रूप में प्रकट हुआ, आत्मा से मन और फिर इन तीनों के आवरण के लिये काया का निर्माण हुआ । उस परमज्योति से पहले आग उत्पन्न हुई, आग से पवन, पवन से जल और जल से फिर पृथ्वी संभूत हुई । इन चारों के समाहार से ही देह का निर्माण हुआ । पूर्वनिर्मित जीव और इस देह में बहुत स्नेह या माया उत्पन्न हो गई^६ ।

१ सिरजा गगन अनूप सोहार्द, सिरजा सहित सूर खगरार्द ॥

कासिमशाह हसजवाहर पृ० १ ।

२. एके शब्द कहा कुन केरा, सिरजा भूमि अकाश घनेरा ।

शेख रहीम प्रेमरस ।

३ धन्य आप जग सिरजन हारा, जिन त्रिन स्वम्भ अकाश सवारा ।

पद्मावत जायसी

४. तैत्तरीयोपनिषद २ । १

५. अग्नि ते पॉन, पॉन ते पानी. पुन पानी ते खेह उषानी ॥

इन चारों से सब ससारा, धरती सरग सूर ससि तारा ॥

निसार यूसुफ-जुलेखा ।

६. पहले जोत उतर जिउ भयऊ । आप आतमा होइ छिप गयऊ ॥

पुनि मन भये आत्मा सेती । मनसों काया चाह समेती ॥

एके जोत तीन पहिरावा । पहिरि नाम इन्द्रावति पावा ॥

जोति सों आग आग मे वाऊ । भयउ पवन सो नीर वनाऊ ॥

भयउ नीर सा माटी, चारों मे भये टह ।

देह आंग यह जीव सों, बादी यहन मनेह ॥

नूरमुहम्मद इन्द्रावती पृ० ७० ।

सृष्टनत्व के विभिन्न स्वरूपों की भीमासा के पश्चात् हम इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि सृष्टि के मूलतत्त्व स्वरूप इन सूफी कवियों को परममत्ता का सृष्टा रूप मान्य था। उसी एक का विभिन्न रूपों में प्रकटस्वरूप ही यह सृष्टि है, अतः आशिक रूप से यह नित्य है। इस सृष्टि का अन्त अवश्यम्भावी है, एक निश्चित अवधि के बाद जीवन पर काल का आधिपत्य हो जाता है। भारतीय दर्शन की भांति इस्लामी दर्शन या सूफीमत में आकाश ऐसे सूक्ष्म तत्व की चर्चा नहीं है। ये सूफी परमज्योति से मुहम्मद के नूर की उत्पत्ति मानते हैं, इसी नूर की प्रसन्नता के लिये फिर सारी सृष्टि की रचना हुई^१, सर्वप्रथम अग्नि, उसके बाद वायु, तत्पश्चात् पवन और अन्त में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई^२। लय के समय इनका क्या क्रम होगा, सारी सृष्टि का क्या रूप होगा, आदिक विषयों की चर्चा नहीं है। इन साधकों ने सृष्टि की नश्वरता का वर्णन इस हेतु किया है कि इसके प्रति विरक्ति उत्पन्न होकर परमार्थ चिन्तन में ध्यान लग जाय।

नूरुल-मुहम्मदिया (मुहम्मदीय आलोक) :

सभी सूफियों का विश्वास है कि उस परमज्योति से सर्वप्रथम नूरुलमुहम्मदिया या मुहम्मदीय आलोक की उत्पत्ति हुई और फिर उसी उपादान कारण से इतर जगत् की रचना उसी 'हकीकतुल मुहम्मदिया' की प्रसन्नता के लिये हुई। अरबों के तितर वितर अशिक्षित एवं अंधविश्वासग्रस्त समाज के मध्य मुहम्मद साहब ने जो चेतना जाग्रत कर दी थी उसके कारण उनका प्रभाव उनके जीवनकाल में ही बहुत था। उम्मत को पार लगाने का श्रेय उन्हीं को है। कयामत के दिन वे लोगों के अपराध अत्लाह से कहकर क्षमा करा सकते हैं। सारी सृष्टि मुहम्मद साहब के पीछे पीछे स्वर्ग की ओर जायगी^३। उम्मत या सृष्टि का सारा दुख वे अपने सिर लेने को तत्पर होकर अत्लाह से उनके अपराध क्षमा करा देंगे^४। मुहम्मद साहब अत्लाह के प्रिय हैं तथा अपनी उम्मत के रक्षक भी। उनके समान कोई अन्य नहीं हुआ। यद्यपि उनका आर्चिभाव सबसे पहले नूर के रूप में हो चुका था किन्तु इस जगत् में वे आतिरी पैगम्बर होकर आये और अपने साथ पवित्र कलाम या कुरान लाये^५।

१. कीन्हिसि प्रथम ज्योति परकासू। कीन्हिसि तेहि पिरिती केलासू ॥

जायसी

२. कीन्हिसि अग्निनि पवन जल खेहा। कीन्हिसि बहुते रग उरेहा ॥

जायसी : पदमावत पृ० १

३. पुनि रसूल जेहे होइ आगे। उम्मत चलि मय पाछे लागे ॥

४. जो दुख बहसि उमत कइ दीन्हा। मो मय मैं अपने मिर लीन्हा ॥

जायसी आतिरी कलाम

५. नरी मुहम्मद रब के प्यारे। अपनी उम्मत के रक्षारे ॥

ना अम भयो न दूमर होई। जिनकी आम्प रगत मय फोई ॥

प्रगटे प्रथम अन्त का आये। पाक कलाम मन निज लाये ॥

जेरुसहान प्रेमरय

मुहम्मद साहब का महत्व उनके जीवन काल में ही बहुत हो गया था। वे अल्लाह के रसूल थे, उनका नाम अल्लाह के साथ सलात या नित्यप्रार्थना में जुड़ा था। वे प्रजा के रक्षक एवं तारक थे। सूफियों ने अपनी चिन्तनपद्धति द्वारा उन्हें और भी महान बना दिया। तर्क, बुद्धि एवं दार्शनिकचिन्तन के द्वारा अल्लाह का स्वरूप जितना ही सूक्ष्म होता गया उतना ही मुहम्मद साहब का स्वरूप निखरता गया। सगुण ईश्वरत्व की भावना को मुहम्मद के उत्कर्ष-प्राप्त रूप में आश्रय मिलता गया। मुहम्मद साहब सूफियों के प्रिय, रक्षक, तारक एवं आदर्श हुये। उनकी दृष्टि में मुहम्मद कुत्व (ध्रुव) एवं अटल हैं जो साधकों के आदर्श, एवं चारहज़ार 'पीरेगैव' नामक सन्तों से भी श्रेष्ठ हैं।

जिली का कहना है कि समयानुकूल मुहम्मद साहब विभिन्न वेष धारण करते हैं। जिली को अपने शेष के रूप में मुहम्मद साहब के ही दर्शन हुये थे।

हिन्दी के सभी सूफ़ी कवियों को मुहम्मद साहब की सत्ता 'नूर' रूप में मान्य है। परमज्योति से सर्वप्रथम उन्हीं की उत्पत्ति हुई और फिर उन्हीं की प्रसन्नता के हेतु सृष्टि रचना हुई।

'उस परमसत्य ने एक ज्योति-पुरुष जिसका प्रकाश पूर्णमा के चन्द्र की भाँति था, का निर्माण किया और फिर उसी ज्योति की प्रीति के हेतु सृष्टि रचना की'।

'यदि मुहम्मद के नूर का आर्विभाव न होता तो यह सृष्टि ही न होती' ऐसी भावना भी इन कवियों में उपलब्ध होती है'।

१. वही जोति पुनि किरिन पसारा। किरिन किरिन सब सृष्टिसधारी ॥

जोति क नाव मुहम्मद राखा। सुनत सरोष कहा अभलाखा ॥

उसमान, चित्रावली पृ० ५।

कान्हेसि पुरुष एक निरमरा। नाम मुहम्मद पूनौ करा ॥

प्रथम जोति विधि ताकर साजी। औ तँहि प्रीति सिहिटि उपराजी ॥

जायसी पद्मावत पृ० ४।

जो अस रतन रचा उजियारा। तेहिकर प्रीति रचा ससारा ॥

कासिमशाह हंसजवाहिर

घट घट नूर मुहम्मद साहब, जाका सकल पसारा है।

यारी सहाब

तू निज जोत से कर कछु न्यारा, ताह मुहम्मद नाव पुकारा।

तह कारन यह भई सिरष्टी, जो कछु आवत नैन दिरष्टी।

निमार प्रेमदर्पण

२. जो न करतु वह ओकर चाऊ, होत न जग महँ एक उपाऊ ॥

उसमान चित्रावली पृ० ५।

होत न जो उन्हकर श्रवतारा। होत न मरग श्रोमतो पतारा ॥

ना बकुन्ट नरक रछु होने। नसमि भान मलक रछु देते ॥

नर्पार ' प्रेमदर्पण

‘यदि इस मुहम्मदीय-जालोक का या मुहम्मद के नूर का मुहम्मद रूप में अवतार पृथ्वी पर न होता तो इस संसार में अज्ञान के मध्य किसी को मद्मार्ग न दिखाई देता । जगत के कारण ही उस ज्योति का नाम मुहम्मद पड़ा ।’

‘परमत्ता की अव्यक्त ‘अहद’ से एक नूर का जन्म हुआ । वास्तव में नाम दो थे किन्तु ज्योति एक ही थी किन्तु इस अहमद नामक नूर का नाम भी आगे चलकर मुहम्मद हुआ । इसका जन्म भूतल पर हुआ, जगत के कारण ही मुहम्मद का अवतार हुआ ? ।’

मुहम्मद के नूर के मन्वन्ध में यही धारणाये सफियों को मान्य है कि सर्वप्रथम मुहम्मद के नूर का आविर्भाव हुआ फिर वही इस सृष्टि का निमित्त एवं उपादान कारण हुआ । मुहम्मद नूर है, कुत्ब (ध्रुव) हैं. उम्मत के रत्नक एवं तारक हैं । यह सिद्धान्त इन सभी कवियों को मान्य है एवं इन्होंने इसका परिचय अपने काव्य में भी दिया है ।

इन्सानुल कामिल :

कुरान में मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में लिखा है कि आदम या मनुष्य को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया और उसमें अपनी रूह फूंक दी और सब फरिश्तों को उसकी उपासना करने को कहा क्योंकि वह उन फरिश्तों से श्रेष्ठ था ^३ ।

अतः यह सर्वमान्य है कि मानव या इन्सान सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि परमत्ता ने उसे ही रसूलत्व के उपयुक्त समझा और उसे बुद्धि, ज्ञान एवं इच्छाशक्ति प्रदान की ^४ ।

१. जी न होत अस पुरष उजारा । सूम्नि न परत पय श्रंघियारा ॥

जायसी . पद्मावत पृ० ४ ।

२. अहदहु ते अहमद भयऊ, एक जोत दुइ टाँव ।

भयउ जगत के कारने, परेउ मुहम्मद नाव ॥

नूरमुहम्मद इन्द्रावती पृ० २६ ।

३. Man's origin was from dust, lowly,

But his rank was raised above that of other creatures
because God breathed into him His Spirit

He created man from clay, from mud moulded into shape

He it is who created you from clay, and then decreed a stated term.

४ He created all including Man,

To man he gave a special place in His creation,

He honoured man to be His Agent

And to that end, endued him with understanding

Purified his affections and gave him spiritual insight

Man was further given a will,

Koran Yusuf Ali

पूर्णमानव सृष्टि का चरमोत्कर्ष है, उसी में ईश्वर के स्वरूप की पूर्ण अभिव्यक्ति है। अरबी का मत है कि आदम अल्लाह का प्रतिरूप है। इन्सान अल्लाह की दृष्टि है। इन्सान के द्वारा ही अल्लाह सृष्टि का अवलोकन एवं जीवों पर दया करता है।

मानव शरीर में पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के अतिरिक्त 'नफ्स' या अहं का भी समाहार है। यहाँ भी आकाश तत्व का अभाव है। ये तत्व उसका जड़ अंश या आलमे खल्क बनाते हैं, उसका आध्यात्मिक स्वरूप आलमे अन्न, कल्ब (हृदय), रूह, (आत्मा) सिर (ज्ञानशक्ति) इफी (उपलब्धि शक्ति), तथा आरूफा (अनुभूत शक्ति) का समाहार है। इन तत्वों को सूफी लतीफ कहते हैं। उक्त पांच जड़ एवं पांच आध्यात्मिक उपादानों द्वारा निर्मित मानव को पार्थिव तत्वों पर अधिकार प्राप्त कर आध्यात्मिक स्वरूप की उत्तरोत्तर वृद्धि में सलग्न रहना चाहिये। नफ्स या अहंभाव उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करके उसे पाप की ओर ले जाने की चेष्टा करता है। प्रश्न होता है, यदि मानव ईश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति है तो उसमें पाप पुण्य का प्रश्न न होना चाहिये। इस द्वन्द्व प्रधान संसार में सुख दुख, राग द्वेष, पाप पुण्य का युग्म सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। इस्लाम में इसका सहज समाधान था। शैतान सब को मार्गभ्रष्ट करके पाप की ओर ले जाता है, किन्तु अद्वैत के पक्षपाती सूफी शैतान को असत कैसे मानें, कुरान में लिखा है कि अल्लाह जिसको चाहता है सतपथ पर अग्रसर करता है, किन्तु वह उन्हीं को असत मार्ग पर ले जाता है जो उसकी सत्ता स्वीकार नहीं करते^१। कुरान के इस मत के आधार पर ही सूफी इवलीस को शैतान या पथभ्रष्ट करने वाला नहीं मानते। इवलीस का अल्लाह की आज्ञा का उल्लंघन भी उसी की इच्छानुसार है। इवलीस ने आज्ञा का उल्लंघन करके उसी की इच्छा का पालन किया।

‘यदि वह अपने वश की बात होती, तो मैं उसी क्षण आदम की पूजा करता, जब मुझे उसकी आज्ञा मिली थी। अल्लाह मुझे आदम की उपासना की आज्ञा देता है, पर वह स्वतः नहीं चाहता कि मैं उसके आदेश का पालन करूँ। यदि वह ऐसा चाहता तो मैं अवश्य ही आदम की आराधना करता’^२। हल्लाज़ इवलीस की प्रशंसा करता है। सूफी मतानुयायी इवलीस को न तो शैतान मानते हैं, न पाप या दुष्कर्म को नित्य। पाप अभाव का द्योतक है और इसका अस्तित्व नभी सार्थक है जब ईश्वर अपने जलाल को प्रकट करना चाहता है। इन्सान भी ईश्वर के समान तत्त्वतः हक है, और वह निरन्तर उसी की पूर्ण प्राप्ति की चेष्टा किया करना है, जिसका साक्षात्कार वह कल्ब या हृदय में करता है। कल्ब अल्लाह का निवासस्थान तथा सत्य का दर्पण है। साक्षात्कार के हेतु हृदय का

१ But he causes not to stray,
Except those who forsake the path

Koran Yusuf Ali

२. Studies in Islamic Mysticism, P 54

by R. A. Nicholson.

परिमार्जन आवश्यक है^१। सूफी कल्प को भौतिक मानने के पक्ष में नहीं है। व उसे आध्यात्म का आधार और अल्लाह का निवासस्थान मानते हैं। यह एक माध्यम है जिममे मृत्यु का ग्रहण और प्रसरण सम्भव है। सूफी इसी कल्प में प्रियतम का साक्षात्कार करके अपने को धन्य मानते हैं।

कल्प के अन्तर्गत सच्चमन रूप में 'सिर' का निवास है। अबूसईद का मत है कि अभाव, उत्कण्ठा और उद्वेग से व्याकुल हृदय में ही अल्लाह के जमाल (ऐश्वर्य) से उद्भूत तत्व 'सिर' है^२। सिर नित्य है जो इन्सान को निष्काम बना देता है। इसका प्रभाव इश्लालास या सन्वास है। अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा सत्य शुद्ध हो जाता है और साधक को प्रियतम का दीदार होता है। सिर और कल्प का सूफी साधना में महत्वपूर्ण स्थान है। सिर की प्राप्ति और कल्प की स्वच्छता सभी को प्राप्त नहीं होती। नफ्स या अहंभाव उसे सदैव पयश्रष्ट करने का प्रयास किया करता है। सूफी इसी वासना या चित्त-वृत्ति के निरोध के हेतु साधना करते हैं। 'नफ्स' के उपायों को परामृत करने में रुह का बड़ा हाथ है। यह रुह या आत्मा तब तक सन्तुष्ट नहीं होती जबतक इसे परम-रुह या परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता। अल्लाह और रुह का सम्पर्क नित्य है, उभी प्रकार, जिस प्रकार सूर्य और किरण का।

नफ्स और रुह के अतिरिक्त अबल का भी निवास मनुष्य में है। इन्हीं तत्वों के अनुसार मनुष्य की श्रेणियां होती हैं। सूफी अबल या तर्क का प्रसार नहीं चाहते। नफ्स, इल्म या खुदी के चक्कर में न पड़कर सूफी कल्प की सुनते हैं। उनके लिये यह सारा संसार उसी (अल्लाह) का प्रतिविम्ब है। जब तक वह सृष्टि के दर्पण में अपना प्रतिविम्ब देखना चाहता है, तब तक इन्सान का अस्तित्व पृथक् रहता है। उसकी इस इच्छा का लोप होते ही इन्मान और अल्लाह का पृथक्त्व समाप्त होकर 'अनलक' की प्राप्ति हो जाती है।

उपयुक्त तत्वों से मानव शरीर के आध्यात्मिक एवं जड़ अंश का निर्माण हुआ। सूफियों ने पृथक् या सिद्धान्त रूप में कहीं भी क्रम में इनकी चर्चा नहीं की है, किन्तु प्रेम साधना के अन्तर्गत हृदय की शुद्धि, पूर्ण आस्था और विश्वास, नफ्स या अहं का विरोध आदि तत्वों की चर्चा यथास्थान की है।

हिन्दी के सूफी कवियों की 'इन्सानुल-कामिल' या पूर्ण मानव की कल्पना भी अत्यन्त उच्च है। जिम प्रकार सृष्टि का चरमोत्कर्ष मानव है, उन्ही प्रकार पूर्ण मानव वह है जो पान्धारिक सुख, सम्पत्ति, वैभव और ऐश्वर्य का परित्याग कर 'हक' में मिलने का प्रयास

१ आजम जो मन दर्पन, रात दिवस चित लाय।

स्याम रंग अंतर पर (ट) उट्टि आगे में जाय।

नरमुहम्मद . इन्द्रायता पृ० ११

२ Studies in Islamic Mysticism, P. 51.

by R. A. Nicholson

करता है। लगभग सभी सूफी प्रेमकथाओं का नायक पूर्णमानवत्व को प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्रत्येक मानव के भीतर परिपूर्णता बीजरूप में स्वभावतः निहित है। पूर्णमानव के रूप में वह अन्य मानवों और ईश्वर के बीच मिलन-सेतु है। जिली के अनुसार मुहम्मद सर्वश्रेष्ठ पूर्णमानव थे। पूर्णमानवत्व की उपलब्धि प्रेममूलक है।

परमसत्ता और इन्सान :

सूफी इन्सान के वास्तविक स्वरूप और परमात्म-तत्व में कोई अन्तर नहीं मानते हैं। सूफी साधक के अनुसार ब्रह्मान्ड और पिन्ड में परमसत्ता की चेतना वर्तमान है। आत्मा और परमात्मा में मूल विभेद नहीं है। दोनों की भिन्नता वास्तविक न होकर व्यावहारिक है। विश्व में फैले परमात्मतत्व, तथा घट में स्थित आत्मा में पारमार्थिक अन्तर नहीं है। सूफियों के अनुसार मानव के शरीर में ईश्वर का पूर्ण प्रतिरूप है। जगत उसकी केवल आंशिक छवि है। उमर खैय्याम भी, सृष्टि चक्र के इस प्रतिवर्तन में, जीव को ही सृष्टि का उत्कर्ष मानता है ^१।

माया :

परमसत्ता और सृष्टि के स्वरूप पर विचार करते हुये, माया सम्बन्ध के कारण उसकी चार स्थितियों की कल्पना होती रही है।

१. विशुद्ध सत्व चेतन स्वरूप (ब्रह्म)
२. मायोपाधि संयुक्त ब्रह्म (सगुण ईश्वर)
३. मायोपाधि संयुक्त आत्मा (जीव)
४. अविद्या-माया प्रसिन संसारी जीव ।

नानाविध नामरूपात्मक जगत सत्य है अथवा मिथ्या ? ऐसे प्रश्न दार्शनिकों तथा चिन्तकों के सम्मुख सदैव रहे हैं। बौद्ध-दर्शन ने प्रत्येक वस्तु को अनित्य माना है जिसकी युक्तिसंगत परिणति शून्यवाद में हुई है। ईसाइयों के अनुसार शून्य द्वारा ही सृष्टि की रचना हुई। अद्वैतवाद के अनुसार इस क्षण क्षण परिवर्तित होने वाले जगत के मूल में एक चिरन्तन, शाश्वत आत्मतत्व निहित है। मायावाद की धारणानुसार यह अनेकान्त संसार भी एकान्त है, केवल इसकी नामरूपात्मक प्रतिभासित सत्ता ही मिथ्या है। इसकी विवेचना कई प्रकार से हुई है। नामरूपात्मक जगत के नाशवान होने की कल्पना से 'मिथ्यातत्व' और 'मायातत्व' का प्रादुर्भाव होता है इस माया को भी (१) विशुद्ध सत्व

१. Man, is not he, the creation's last appeal

The light of wisdom's eye ? Behold the wheel

of Universal life as' t were a ring,

But man the superscription and the seal

Rub'airyat of Omar Khayyam, Translated

by Fitzgerald.

प्रधान और (२) अविद्युद्भव मत्व प्रधान होने के कारण, विद्या तथा अविद्यामाया की संज्ञा मिलती रही है ।

इन गूफी कवियों ने माया की कल्पना विद्या-माया के रूप में नहीं की, माया का कोई मत्स्वरूप इन्हें मान्य नहीं है । मानव शरीर के अन्तर्गत ही 'आत्म खलक' वर्तमान है । यह नफस या अहं की भावना ही रूढ़ को आगे बढ़ने से रोकती है, और रूढ़ की लालसा सदैव परममत्ता तक पहुँचने को होती है अतः, माया के इस स्वरूप की जहा कहीं भी चर्चा इन गूफी कवियों ने की है वहा इन्द्रियगत विषय भोगों के आकर्षण, एवं उनके दुःप्रभाव का ही वर्णन अधिक है । साधक जब अपनी साधना में अग्रसर होकर ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करता है, तो उसे जो सर्वाधिक कठिन पड़ाव पार करना पड़ना है वह है इन्द्रियपुर । इन्द्रियपुर की प्रत्येक वस्तु अत्यन्त सुहावनी एवं मनोहारिणी प्रतीत होती है । शब्द, रूप, रस एवं संयोग उसके प्रमुख आकर्षण हैं । संयोगरूपिणी माया के आकर्षण में पककर भोग की कामना में मनुष्य योग का त्याग कर देते हैं ^१ ।

पंचेन्द्रिय जनिन भोग ही मनुष्य की बुद्धि को सब तरफ से घेरे रहते हैं । इनका क्रोध सदैव मानव बुद्धि पर रहता है । ये कभी सीधी दृष्टि ने नहीं देखते, अपनी पात लगाये रहते हैं । यदि मनुष्य इनके वश में आ जाता है तो पथभ्रष्ट हो जाता है, और ये पाचो भूत अपनी अपनी बार उसे नचाते रहते हैं । उममान ने माया के द्वारा मानव के नचाये जाने की कल्पना भी की है ^२ ।

गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तरकान्ठ के अन्तर्गत ज्ञान दीपक का रूपक वाधते समय माया या काम रूपी भूकोरों की चर्चा की है । उममान ने भी विषय वामना रूपी भूकोरों की चर्चा की है । इस वाया के अन्तर्गत पांच कर्मेन्द्रियों की विषय वासनात्मक वायु सदैव प्रवाहित होती रहती है जिससे बुद्धि रूपी दीपक के अस्त हो जाने की संभावना है, यदि ईश्वर की दया हो तो दीपक अस्त होने से बच सकता है ^३ ।

कहीं कहीं माया के इन विषय वामनात्मक आकर्षक रूपों को, ठग या बदमार की

१ लहत बसेरा ठाँपे ठाऊ, जाइ परे इन्द्रियपुर गाऊ ।
बहुत सुहावन, सुन्दर लोगें, सबद रूप रस परम संजोगें ॥

तायां माया के बस बहुरंत लोग ।
जोग न चाहे क्रीन्हो चाहे भोग ॥

नगसुहस्रद अनुसारा बामुरी पृ० १३१

२ पाचों भूत रहे नित घेरे, कोह भरे चब सांठ न हरे ।
जोगी परा पाच नस ताते भा शिखरा ।
पाचो नाच नचावई आपनि आपनि बार ॥

चित्रावली - उममान पृ० १३१ ।

३ मया भवन नहं बहू नित, पाच भूकोरा नाउ ।
एहि विधि किरपा फोट के, दीपक घी बचाउ ॥

चित्रावली उममान पृ० २१६ ।

उपमा भी दी गई है^१। वैसे तो ये सूफी कवि साधक के मार्ग में जिन विघ्न बाधाओं की कल्पना करते हैं लगभग उन सभी को माया का स्वरूप कहा जा सकता है। जहा कहीं भी यह मिथ्या संसार अपने आकर्षण से साधक को मोहित या अग्रसर होने से विरत करना चाहता है वह सब माया ही है।

इस्लाम में इस प्रकार सद् से असद् की ओर प्रेरित करने वाले तत्व को 'शैतान' कहा गया है, किन्तु सूफियों की कृपा दृष्टि इवलीस पर भी है। इसका वर्णन पीछे हो चुका है।

माया के स्वरूप की कल्पना हिन्दी के सूफी कवियों ने दो रूपों में की है। एक तो शरीर या काया के अन्तर्गत ही वर्तमान 'नफ्स' अहं या विषय वासना की भावना और दूसरा मिथ्या बाह्य-जगत का आकर्षण। बाह्य जगत का ऐश्वर्य, सौन्दर्य और दिखावा व्यर्थ है। कामिनी, काचन के द्वारा ही माया अपना प्रभाव डालती है। अतः इनके प्रति आकर्षित न होना ही बुद्धिमानी है।

इस संसार का सुख तथा शारीरिक विन्यास सभी झूठे लोभ हैं। इनकी ओर आकर्षित होना मिट्टी की ओर ध्यान देने के बराबर है, साधक को धन, गृहिणी एवं राज्य का परित्याग करना चाहिये क्योंकि यह मिथ्या मोह है, माया के स्वरूप है, साधक को पथभ्रष्ट करने में सहायक है^२।

इस संसार का ऐश्वर्य, सुख सम्पत्ति सब मिथ्या है। अन्त समय इनमें से एक भी शरीर का साथ नहीं देती। यह सब संसार असार है। मृत्यु निकट आने पर संसार की नश्वरता ज्ञात होती है। जिस राजपाट में जन्म भर ध्यान लगा रहा वही अन्तकाल में काम न आया। नगर, कोट, घरबार, देश, कटक, गृहिणी, सुत, वित्त कोई साथ नहीं देता फिर भी यह सारा संसार पागल होकर इमी में लगन है और यह नहीं समझता कि ये सब मिथ्या माया के स्वरूप है^३।

१. हम बटमार न छाडे काहु, टव सबे जो चहे बनाऊ।

कासिमशाह हसजवाहिर पृ० २१।

२. मोहि यह लोभ सुनाव न माया, काकर सुख, काकर यह काया ॥
जो निशान तन होइहि छारा, माटिहि पोखि मरै को मारा।
जोगिहि काहु भोग सों काजू, चहे न धन धरनी औ राजू।

जायमी पदमावत पृ० १४

३. वेदन भई प्राण अकुलाना, तव मन पृछु काह पछिताना।
जनम न राजपाट चित लावा, अन्त काल सो काज न आवा।
तव लग काल जो शाय तुलाना, निम्सा प्राण छोड अस्थाना।
रहिगा नगर कोट घर वारा, रहिगा देश और कटक कु भारा।
रहिगा राज पाट रनिवासा, रहिगा बालक जेहि मन आसा।
द्रव्य भटार चला सब द्वारे, जगाम हारजात जो थारे।
जग बावर अरका तेहि पहिया, अन्तनिदान होय मय कहिया।

कासिमशाह हसजवाहिर पृ० १४।

इस संगार में, रूप पर सभी आकर्षित होते हैं किन्तु यह रूपाकर्षण भी मिथ्या है क्योंकि अचस्था के साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है। रूप या नारी का आकर्षण भी माया का एक स्वरूप है जो नश्वर है। यूसुफ जुलेखा एवं प्रेमरस के रचयिताओं ने रूप-सौन्दर्य की क्षणभंगुरता का वर्णन किया है। जुलेखा अनिन्द्य सुन्दरी थी किन्तु वृद्धावस्था में उसका सौन्दर्य नष्ट ही नहीं, वीभल भी हो गया था^१।

इस जगत में सत और असत की हाट लगी हुई है जो कौड़े मत या माया से रहित वस्तुओं ग्रहण करता है वह सुख प्राप्त करता है, जो असत की ओर आकर्षित हो जाना है वह केवल पछता कर रह जाता है^२।

जीवन का लक्ष :

सूफ़ी साधक इस दृश्यमान जगत से परे परमसत्य की खोज में रहता है। इस जगत में ऊपर एक चिरन्तन, चैतन्य सत्ता है जो भूत मात्र में परिव्याप्त एवं अर्न्तभूत शाश्वत आत्मा है। अज्ञान के कारण जीव परमसत्य के वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाता। परमतत्व को पहचानने के पूर्व स्वयं को पहचानना या आत्मज्ञान आवश्यक है। जो अपने आपको पहचानता है वही परमात्मा को भी पहचानता है। अहं ही समस्त भ्रामक धारणाओं का मूल है। अहं वृत्ति ही, अनेकत्व की सृष्टि करती है। परमसत्ता अर्न्तदृष्टि में ही दृश्यमान होती है।

कुरान में इस जीवन का उद्देश्य कुरान के नियमों का पालन करना, मुहम्मद सादब को स्थूल मानना एवं ईश्वर के एकत्व में विश्वास रखना है। इसके अनिरीक्त मुक्ति या मुक्ति के स्वरूपों की कल्पना कुरान में नहीं है। मुक्ति की भावना को संसार की अनित्यता, जीवन की दुःखमयता सदैव से प्रोत्साहित करती रती है। वैदिक काल में इन्द्रादि देवताओं से जीवन के दुःख, विघ्न तथा आशंकाओं से निवृत्त होने की प्रार्थना प्रमाणित करती है है कि वही जीवन का उद्देश्य था। संसार को दुःखपूर्ण मानने वाला बौद्ध दर्शन भी दुःख निवृत्ति को साध्य मानता है। चार्वाक दर्शन इस जीवन के सुख को ही श्रेय समझता है। सिद्ध मरणा के अनुसार 'जरामरण' से मुक्ति प्राप्त करना ही निदि है। नातर्य यह कि परमतत्व की प्राप्ति तथा नासारिक क्लेश संताप एवं दुःखों के उच्छेद द्वारा आनन्द की उपलब्धि जीवन का उद्देश्य रहा है।

१. पूछेमि किन नई तोर जपान। जग मोग तोरे भई हानी।
 पूछेमि किन ना रूप निराश, कता मोग तोरे मिल द्वारा।
 पूछेमि जग रंग सुरमाते, जहा विरल तरवन नुसूलाने।
 पूछेमि इन्त तोर रतनारे किन नये जगत मोह तिन भारे ॥
 मोन रहोम प्रेमरस,।

२. जगत की लगी यजार है, मत अमन प्रियाय।
 मत रिमातें मय लहे, लिय अमन पदिनाय।

मोन रहोम - प्रेमरस।

सूफियों ने मानव जीवन के उद्देश्य को दो प्रकार से समझा है, एक अभाव बोधक और द्वितीय भावबोधक । अभावात्मक सत्ता का नाम 'फना' विलय या ख़स है, तथा भाव बोधक अवस्था को 'वक्फ़ा' नाम से अभिहित किया जाता है । 'फना' 'वक्फ़ा' की पूर्व अवस्था है । फना या वक्फ़ा इन दोनों की चर्चा सूफी साहित्य में होते हुये भी इनके अर्थों के सम्बन्ध में सभी आचार्य एकमत नहीं हैं । सैयद खराज के विचार से फना का अर्थ अबूदियात या परमतत्व के ध्यान में निमग्न होना है ।^१

अलीउल हुज्विरी के विचार से सैयद खराज ही इस विचार के प्रवर्तक थे । हुज्विरी के विचार से अपने पृथक अस्तित्व एवं कार्यों का ध्यान रहना साधक के हीनत्व का द्योतक है । वह वास्तविक बन्दगी तभी प्राप्त करता है जब साधक अपने पृथक अस्तित्व एवं महत्व को विस्मृत करके केवल ईश्वर के सौन्दर्य, गुण, शक्ति तथा महानता का ही चिन्तन एवं स्मरण करता है । उसके अहंत्व के नाश की स्थिति फना और ईश्वर चिन्तन की स्थिति ही वक्फ़ा है । जब इन्सान अपने अस्थिर एवं अनित्य सम्बन्धों से रहित हो जाता है तो स्वभावतः वह ईश्वर के अनुराग एवं अधीनत्व में अवस्थित हो जाता है^२ ।

कुछ सूफी आचार्य फना का अर्थ साधक का मानवीय गुणों का विस्मरण मानते हैं । कुछ आचार्यों का मत है कि फना का तात्पर्य 'अनियात' या अहं भावना का लुप्त होकर ईश्वर की सत्ता में अवस्थित होना है ।^३ ख्वाजा खा का कहना है कि फना में साधक के गुण, कार्य एवं चेतना, ईश्वर के गुण, कार्य एवं चेतना का स्वरूप धारण कर लेते हैं ।^३

फना के सिद्धान्तानुयायियों ने इसके तीन स्वरूपों का वर्णन किया है (१) कर्वे फराइदा (Proximity of obligations) (२) कर्वे नवाफिल (Proximity of Supereogations) (३) कर्वे जमावयानुल (The union of two proximities) ।

प्रथमावस्था में सूफी साधक कोई भी कार्य अपना समझ कर नहीं करता, वह ईश्वर के हाथ का खिलौना मात्र रह जाता है । वास्तव में ईश्वर ही उसके द्वारा कार्य करता है । दूसरी अवस्था में सूफी साधक प्रतिनिधि की भाँति कार्य करते हैं । तीसरी अवस्था में वह न तो माध्यम रहता है और न वह परमसत्ता में पूर्ण रूप से विलीन हो पाता है । प्रो० निकोल्सन इसी विचार से सहमत ज्ञात होते हैं । उनके अनुसार 'आनन्दमग्न सूफी जो संसार के प्रत्येक कार्य, व्यापार वस्तुओं आदि के अस्तित्व में ऊपर उठकर, उम एक

1 Sufism its Saints and Shrines In India P 83

A J. Subhan

2 Kasfeel - MahJub P 245

3 Studies in Tasawwaf P 73:

Khaja Khan,

परमत्त नक पहुँच जाता है, वह या तो अपने अस्तित्व पर विश्वास करता है या स्वयं को ही परमात्मा मानने लगता है ।'

जिल्ला ऐसे सर्वोत्सवादी सूफियों का विश्वास है कि ईश्वर एवं जगत का सम्बन्ध क्रमशः जल एवं बर्फ की भाँति एक ही वस्तु के दो रूप होने के समान है, दोनों ही मूलतः अभिन्न हैं। इस कारण 'फना' का अर्थ मानव का ईश्वर में वस्तुतः विलीन होना ही समझा जा सकता है। 'वज्रा' का अभिप्राय ईश्वरतत्त्व में अवस्थित होना माना जा सकता है। शक्तिवारी भी फना के स्वरूप के सम्बन्ध में जिल्ला ने सहमत जाना होता है किन्तु दोनों के जगत सम्बन्धी दृष्टिकोण भिन्न होने के कारण अन्तर था गया है। शक्तिवारी के अनुसार ईश्वर एवं जगत दोनों वस्तुतः अभिन्न नहीं हैं। वस्तुतः ईश्वर ही एवमात्र सत्ता है, जगत मिथ्या एवं मरीचिका मात्र है। अतएव 'फना' शब्द का अर्थ मानवोचित गुणों का विलय होना और 'वज्रा' का अर्थ ईश्वर के स्वरूप एवं गुणावली के अन्तर्गत स्थिति पा लेना है पहले के अनुसार जहाँ एक मरमय घट नष्ट हो जाने पर पुनः मृत्तिका का रूप ग्रहण कर लेता है वही दूसरे के अनुसार जल के ऊपर पड़ने वाला सूर्य का प्रतिबिम्ब जल के न रहने पर सूर्य ही में मिल जाता है। दूसरा गत हिन्दी के अधिकांश सूफियों को मान्य है।

इसी का मत इन मतों में भिन्न है उसके अनुसार ईश्वर एवं जीव स्वरूपतः भिन्न किन्तु गुणतः अभिन्न है। अतः फना का अर्थ गुणावली का नाश एवं 'वज्रा' का अर्थ ईश्वरीय गुणों का लाभ मानना चाहिये।

सिद्धान्त रूप में फना या वज्रा के सम्बन्ध में सूफियों में अभी मत प्रचलित है। हिन्दी के मूफ़ी कवि इन शब्दों का प्रयोग अपने काव्य में नहीं करते हैं किन्तु एकत्व की भावना लगभग उन सभी को मान्य है। इसी एकत्व के प्रदर्शन के हेतु वे नायक, नायिका का पाणिपहण करवाते हैं, अन्त में कभी कभी कथा को दुखान्त करके, मती की भावना के द्वारा आत्मा की परमात्मा में अवस्थिति की भी चर्चा करते हैं।

इसका विश्वास है कि वास्तव में 'अहंत्व' का विलयन ही फना एवं परमसत्ता के निम्नतम एवं ध्यान धारण में मन लगाना ही वज्रा है।

नूरुद्दुहम्मद ने विलय होने की, पृथक अस्तित्व न रहने की भावना का वज्रा सुन्दर वर्णन किया है। 'अहंत्व' के नाश हो जाने के बाद मैं अपने को खोजने का प्रयास करती हूँ, किन्तु मुझे कहीं अपनापन दृष्टिगोचर नहीं होता मन्त्र कही हूँ।

3 'The enraptured Sufi who has passed beyond the illusion of subject and object and broken through to the oneness can either deny that he is anything or affirm that he is all thing'

R. A. Nicholson

आता है। मेरा 'अपनापन' या पृथक्त्व, उसी प्रकार विलीन हो गया जैसे जल के मध्य बनाशा^१।”

'प्रेमरस' में शेखरहीम भी इसी प्रकार लिखते हैं कि प्रेमा और चन्द्रकला के मिलन से दोनों के बीच कोई अन्तर न रहा ज्योति और उसकी परछाही दोनों मिलकर एक हो गई^२।

संक्षेप में सूफी कवियों के काव्य में व्यक्त विचारों के अनुसार नित्य पारमार्थिक सत्ता केवल एक ही है। संसार के अनेकत्व में उस एक का ही आभास मिलता है। परमात्मा का ज्ञान इन्हीं व्यक्त नामों और गुणों के द्वारा हो सकता है। “शुदूदिया” सम्प्रदाय में मान्य इस विम्ब प्रतिविम्ब भाव का स्वष्टीकरण भी इन सूफियों के काव्य में यथेष्ट हुआ है। “वजूदिया” सम्प्रदाय में मान्य ईश्वर और सृष्टि के मध्य अंशी-अंश भाव का निर्देश भी इन कवियों ने किया है।

सूफी अद्वैतवाद के अन्तर्गत आत्मा और परमात्मा के द्वैत-त्याग को अधिक लेते हैं। इस सारे जगत में उस परमसत्ता के ही सौन्दर्य, शील एवं गुण का दर्शन वे करते हैं। परमेश्वर और सृष्टि के इस व्यापक व्याप्य सम्बन्ध पर इन सूफियों ने बहुत कुछ लिखा है।

सृष्टा की अद्भुत शक्तियों का उल्लेख ये कवि प्रचुरता से करते हैं। अद्वैतवाद के दोनों पक्षों आत्मा और परमात्मा की एकता तथा परमात्मा और जगत की एकता का निदर्शन सूफी काव्य में हुआ है। साधना के क्षेत्र में जहाँ उनकी दृष्टि केवल आत्मा और परमात्मा के एकत्व पर रही है, वहीं भावक्षेत्र या काव्यक्षेत्र में वे प्रकृति की नाना विभूतियों में उसे व्याप्त पाते हैं। यही कारण है कि सूफी कवियों ने लौकिक सम्बन्धों एवं भौतिक सौन्दर्य का निरादर नहीं किया। संसार त्याग की भावना का वर्णन भी सूफी काव्य में अधिक नहीं है। ये सूफी भौतिकता को ही आध्यात्मिकता का आधार मानते हैं, इसीलिये केवल संसार के मिथ्या स्वरूप के अनि ममत्व की ही इन्होंने अवहेलना की है। इनकी संसार त्याग की भावना पर भारतीय प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है।



१ आधुहि हेरत हीं घट माहीं, तेहि पावत हौ आधुहि नाहीं।
आधु हेराड गड मै कंभे, जल के बीच बतासा जैसे।

नूरमुहम्मद अनुराग ब्रासुरी पृ० १२२।

२ रहा न कउ अन्तर तेहि माँही।
एक भई जोत परछाहीं ॥

प्रेमरस शेखरहीम।

सूफी-साधना

साध्य-मिद्धि के हेतु जिन साधनों का उपयोग साधक को करना पड़ता है उन पर देशकाल का स्पष्ट प्रभाव होता है। तमच्चुफ या सूफीमत को मुस्लिम संस्कारों में श्रोतश्रोत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, अतः सूफियों ने इस्लाम के परिधान में ही अपनी साधना का विकास किया। आरम्भ में परिस्थिति सूफी मत के विरोध में थी किन्तु धीरे-धीरे जैसे परिस्थिति इनके मनोनुकूल होती गई, सूफी अपनी साधना में अग्रसर हुये।

सूफी साधक इस सृष्टि में परमसत्ता को प्रतिबिम्बित या प्रकट देखना है। उसकी साधना उसी परमसत्ता में लीन (फना) होकर अवस्थित (वफा) हो जाने के लिये होती है। अपने इस प्रयासकाल को सूफी 'मार्ग' या (साधना पथ) करता है। इस मार्ग पर चलने वाला साधक (सालिक) यात्री होता है। मार्फत या 'परमज्ञान' प्राप्त करने के लिये सालिक, तरीकत के मार्ग पर अग्रसर होकर, कुछ सोपानों (मुकामानों) और अवस्थाओं (हाल) को पार करके अपना अभीप्सित (फनाफिल हकीफत) प्राप्त करता है। या परमसत्ता में अपने अस्तित्व को लीन कर देता है।

सूफी साधक की क्रमशः चार अवस्थाएँ मानते हैं—

(अ) शरीअत अर्थात् धर्मग्रन्थों के विधिनिषेध का सम्यक पालन, या कर्मकारण्ड।

(ब) तरीकत अर्थात् वाक्य क्रिया कलाओं में परे होकर केवल हृदय की शुद्धता दान परमसत्ता का ध्यान। इसे उपामना कारण्ड कह सकते हैं।

(ग) हकीफत भक्ति या उपामना के प्रभाव में साधक को परममत्त्व या सम्यक ज्ञान एवं उसके फलस्वरूप साधक का नित्यदृष्टि सम्पन्न होना। इस अवस्था को ज्ञान कारण्ड कह सकते हैं।

(द) मार्फत या सिद्धावस्था जिनमें कठिन उपवास या नीन साधना द्वारा गारम की आत्मा परमात्मा में विलीन होने की क्षमता प्राप्त करती है।

शरीअत या कर्मकारण्ड के मार्ग पर चलने वाले सूफी, और इस्लाम के अनुयायी गारम मुकलमान में कोई अन्तर नहीं है। किन्तु गारमण्ड इस्लामानुयायी की भक्ति

शरीरयत प्रथमावस्था है, इसका संकेत भी जायसी ने किया है।^१ शरीरयत की प्रथम सीढी पर पैर रखवे विना कोई साधक अग्रसर नहीं होसकता। शरीरयत के नियम पालन से परिपक्व साधक या मुरीद को मुरशिद या गुरु ग्रहण करता है, यदि साधक ने विधि विधानों के सम्यक् पालन के द्वारा स्वयं को तरीफ़ा ग्रहण करने के योग्य बना लिया है, तो वह गुरु-दीक्षा का अधिकारी हो जाता है। मुरशिद उसे एक निश्चित मार्ग बताकर उसमें परमात्मा के प्रेम की चिनगी सुलगा देता है। वह परमसत्ता की प्राप्ति के लिये बेचैन होकर अग्रसर होता है। वह शरीरयत की अवस्था पार करके तरीकत के क्षेत्र में पदार्पण करता है। 'नफ़्स' या अहंभावना के साथ जिहाद करते हुए इन्द्रियों के द्वारा उस परमात्मा तक पहुँचने के मार्ग को ही 'तरीफ़ा' कहते हैं। इस मार्ग का अनुसरण करने वाले को भूख प्यास सहना, एकान्त एवं मौन रहना चाहिये, इस प्रकार वह अपनी चित्तवृत्तियों के विरोध में सफल हो पाता है। नफ़्स को परास्त करके ही उसके हृदय में 'म्वारिफ़' या परम ज्ञान का उदय होता है और मुरीद (साधक) आरिफ़ (ज्ञान-सम्पन्न) कहलाने योग्य हो जाता है, किन्तु मुरीद को म्वारिफ़ प्राप्त होने के पूर्व कुछ मुक़ाम (पड़ाव या सोपान) पार करने पड़ते हैं। इन सोपानों का नाम क्रमशः तौबा (अनुताप), ज़हद (स्वेच्छा दारिद्र्य), सन्न (संतोष) शुक्र (धैर्य एवं कृतज्ञता) रिजाअ (दमन), तव्वकुल (कृपापर पूर्ण विश्वास) रजा (वैराग्य या तटस्थता), मुहब्वत या इश्क़ है। इन सोपानों के द्वारा साधक की आत्मशुद्धि होती है। तौबा या अनुताप से पीड़ित मानव ही संसार के भोगों से 'विरत' हो सकता है। अनुताप यदि भय न होकर प्रेमज हो तो अधिक अच्छा होता है। सूफी प्रेमकथाओं का नायक, परमात्म स्वरूपा नायिका के प्रेम में व्याकुल होकर सुख ऐश्वर्यों की ओर से विरक्त होता है। इसमें तौबा की भावना वर्तमान है। तौबा या अनुताप के पश्चात् साधक आत्मसंयम की पूर्ण चेष्टा करता है। वह नफ़्स या जड़ आत्मा के ऊपर विजयी होना चाहता है। उपवास, मौन आदि शारीरिक कष्ट एवं मानसिक संयम के द्वारा साधक इसमें सफल होता है। आत्मसंयम के पश्चात् साधक में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार वैराग्य, कृतज्ञता एवं ईश्वरानुकम्पा पर पूर्ण विश्वास, इन सोपानों के प्रतिफल हैं। साधक इन सप्त सोपानों के द्वारा आत्मशुद्ध, सासारिक विषय-वासनाओं से विमुक्त तथा यथालाभ संतोष, एवं परमात्मा की कृपा पर पूर्ण विश्वास करके, प्रेम में निमग्न हो जाता है। इस अवस्था के बाद साधक म्वारिफ़ या परम ज्ञान ग्रहण करने का अधिकारी हो जाता है। इन सप्त सोपानों को अतिक्रान्त करके साधक अन्य चतुर्विध अवस्थाओं को भी प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ये क्रमशः म्वारिफ़, इश्क़, वजद एव वस्त हैं। 'मारिफ़त' या परमज्ञान की अवस्था विचारबुद्धि-प्रसूत 'इल्म'

१. साची राह 'मरीशत' जेहि विश्वास न होइ,
पाव रंगे तेहि सीढी, निभरम पहुँचे मोइ।

२. चारि वसेरे मों चटे, गत मों उतरे पार ॥

न होकर हृदय-प्रगमन अनुभूति होती है। जिस प्रकार सूर्य के प्रतिबिम्ब को स्वच्छ दर्पण पूर्णरूप से ग्रहण कर उस अपने में धारण कर लेता है, उसी प्रकार मानव हृदय भी परमेश्वर की प्रत्यक्ष उपलब्धि कर लेता है। मारिफत के भावावेगमय रूप का नाम ही 'इश्क' है। इस 'इश्क' की तीव्रता से स्वभावतः वज्र (उन्माद या समाधि) की अवस्था प्राप्त होती है। यह साधना मार्ग का उन्नततम सोपान कहा गया है। निरन्तर परमात्म चिन्तन एवं निरह में उन्नत साधक को 'वस्ल' या मिलन की प्राप्ति होती है।

हकीकत साधन नहीं साधक की परम अनुभूति है, जिसकी उपलब्धि शरीरगत एवं तरीकत के सम्यक् पालन से प्राप्त मारिफत के द्वारा होती है किन्तु कुछ ऐसे सूफी भी हैं जिन्होंने शरीरगत एवं तरीकत को अनावश्यक समझा और उन्हें 'धारिफ' की प्राप्ति अनायास, केवल ईश्वरानुकम्पा से हो गई। ऐसे ही शरीरगत के कर्मकाण्ड एवं इस्लाम के नियमों की उपेक्षा करने वाले सूफियों को वेशरा या जिन्दीक की उपाधि मिली। इत्ताज और उमाम गज्जाली ने इन मीमांसा के अन्तर्गत लोगों की कल्पना भी की है। सूफियों ने नासूत (नरलोक), मलकूत (देवलोक), जबरून (ऐश्वर्य लोक), एवं लाहूत (साधुय लोक) चारों का स्वागत किया और साधक को इन्हीं लोकों में विराम करना हुआ परमसत्ता में लीन होता दिखाया है। शरीरगत का पालन करके मोमिन (साधक) नासूत में, मुरीद तरीकत का पालन करके मलकूत में, सालिक मारिफत में सग्न होकर जबरून में, और आरिफ हकीकत का चिन्तन करके लाहूत में लीन हो जाता है। यही सूफी साधना की पराकाष्ठा है। कुछ लोग इससे आगे हाहूत लोक (मत्तलोक), की कल्पना भी करते हैं किन्तु सूफियों का उस और विशेष ध्यान नहीं था। इन चार लोकों की चर्चा हम परमसत्ता का वर्णन करते हुये भी कर आये हैं। वास्तव में चार लोक क्रमशः परमसत्ता का नरत्व की ओर, और मनुष्य का परमसत्ता की ओर अग्रसर होना ही सूचित करते हैं। जब परमसत्ता आत्माभिध्यानि की भावना से नर लोक की ओर अग्रसर होती है, तब उसकी इस यात्रा को 'मफरूल हक' कहते हैं और जब आत्मा परमात्मा की ओर अग्रसर होती है तब उसकी इस यात्रा को 'मफरूल अबद' कहते हैं। ऊपर जिन चार लोकों की चर्चा हुई है वे ऐसी ही यात्रा की स्थितियों के सूचक हैं। इन लोकों की गणना 'हाल' के अन्तर्गत भी होती है। भगवत्कृपा पर निर्भर साधक की अवस्थाओं को हाल करते हैं। साधक को 'मुत्तमानों' की प्राप्ति स्वयं अपने प्रयत्न से होती है जबकि 'हाल' की उपलब्धि परमेश्वर की कृपा का फल है। वास्तव में 'हाल' भावविशेष का प्रोत्साहक है। हाल की अवस्था में साधक अपनी ओर से मनुष्य होकर भगवत्प्रसाद का प्रधिपारी हो जाता है। जायमी ने साधक की इसी विस्मृतावस्था की ओर संकेत किया है। आचार्य पं० रामचन्द्रशुनल के अनुसार इस हाल या प्रत्यावस्था के दो पक्ष हैं

१. गया जो परम तब मन लाया, भूम मालि, मुनि शरीर न भावा।

जय नः पिण तुम कोह, नाड मुन पै भूम।

मेहि तं जरजे नीरु है, घरे रमि कं दूम ॥ जायमी

त्यागपक्ष और प्राप्तपक्ष । त्यागपक्ष के अन्तर्गत (१) फना अपनी अलग सत्ता की प्रतीति के परे हो जाना (२), फकद (अहंभाव का नाश), और सुक (प्रेममद) है । प्राप्त पक्ष के अन्तर्गत (१) वज्जा (परमात्मा में स्थिति) (२) वज्द (परमात्मा की प्राप्ति) और (३) शह (पूर्ण शान्ति) है ।^१

पिछले पृष्ठों में शरीर के क्षेत्र में जिन सात सोपानों का वर्णन किया गया है उनकी पराकाष्ठा इश्क है । ये सोपान प्रत्येक मुस्लिम के लिये हैं जो शरीर के आधार पर मोहब्बत चाहते हैं । सूफियों का साध्य फना है मुहब्बत नहीं । मुहब्बत तो सावना मात्र है, अतः सूफियों के अनुसार इन सोपानों का क्रम दूसरा, इन्हें अबूदिया (एकनिष्ठा) इश्क (प्रेम), जहद (स्वेच्छा त्याग), म्वारिफ (साधन चतुष्टय सम्पन्न), वज्द (आत्म विस्मृति), हकीक (परम ज्ञान), और वस्ल कहते हैं । अबूदिया की स्थिति में साधक की आत्मा पश्चाताप से पूर्ण होती है । उसे अपने कृत्यों पर ग्लानि होती है और वह परमसत्ता की प्राप्ति एवं नियमों के श्रद्धापूर्वक पालन के लिये तत्पर हो जाता है । जब मुरीद इस प्रकार पश्चाताप की अग्नि में जलकर शुद्ध हो जाता है तो मुरशिद फिर उसमें इश्क (प्रेम) का प्रादुर्भाव करता है । परमसत्ता का प्रेम ही उसका ध्येय होता है । साधक निरन्तर परमात्मा के जिक्र या संकीर्तन में लगन रहता है । उस एक के अतिरिक्त न तो उसे किसी की चाह रहती है और न वह कुछ और प्राप्त करना चाहता है । वह दारिद्र्य एवं संन्यास-भाव धारण कर लेता है । साधक का दारिद्र्य केवल धनाभाव ही सूचित नहीं करता प्रत्युत धन की लालसा का अभाव भी इंगित करता है । अल सराज का कहना है कि 'निर्धन ही संसार में सबसे अधिक धनी है क्योंकि वे दान की अपेक्षा दाता के प्रेम को श्रेय समझते हैं ।'^२ जहद की अवस्था में परमसत्ता के प्रेम में तल्लीन साधक सासारिक इच्छाओं और वासनाओं का दमन करता है । यह अवस्था शुद्धि की अवस्था है जिसमें वह अपने मन, वचन और काया की शुद्धि में तत्पर रहता है । उस स्थिति में वह जिस प्रकार बुँये से पूर्ण शुद्ध और प्रकाशवान लौ का जन्म होता है उन्ही प्रकार पूर्ण शुद्ध एवं निर्लिप्त हो जाता है, तभी वह आगे के रहस्यात्मक मार्ग पर अग्रसर हो पाता है । चित्तवृत्तियों के निरोध से प्रज्ञा या म्वारिफ का आविर्भाव होता है । यह चतुर्थ स्थिति है । परमज्ञान भी दो प्रकार का होता है एक तो इल्मी (ज्ञानजनित) दूसरा हाली (समाधिजनित) । परमात्मा ने मनुष्य की रचना इसी विचार में की थी कि वह उसे जान सके, उसकी आराधना कर सके और इसी उद्देश्य की पूर्ति

१ जायसी ग्रन्थावली भूमिका पृ० १४३ ।

आ० रामचन्द्र शुक्ल ।

२ Al-Saraj, Kitab-al-Luma P 48

Quoted in Margaret

Smitb's Rabia P 74

इस अवस्था में होती है^१। मारिफत के वाद वजद की स्थिति आती है जिसमें साधक को उल्लास का अनुभव होता है। वह निरन्तर जिक्र में इसीलिये तल्लीन रहना है कि शीघ्र ही उस परमात्म-मिलन सुख का अनुभव हो। आरिफ अपने अहं का विस्मरण आरम्भ कर देता है। उसे परमसत्य का आभास होने लगता है। उसे हकीक की प्राप्ति हो जाती है। इसी स्थिति को हकीकन कहते हैं। वह पूर्ण विश्वास या तत्त्वकुल की भावना में पूर्ण हो जाता है। हकीक का आभास मात्र मिलने से साधक और अधिक व्याकुल हो जाता है और तीव्र व्याकुलता के वाद ही उसे 'वस्त' मिलन की स्थिति प्राप्त होनी है। इस स्थिति में साधक परमसत्ता का प्रत्यक्ष गान्ताकार करता है और उसे फना एवं वक़ा की प्राप्ति हो जाती है। साधक को अपने पृथक अस्तित्व का ध्यान नहीं रहता, परमसत्ता और साधक का ऐसा सम्बन्ध हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से सन्तुष्ट रहते हैं। परमात्मा के कार्यों में पूर्ण विश्वास मानव का होता है, एवं साधक के कृत्यों पर कृपादृष्टि परमात्मा की होती है^२।

निकोलसन ने कुछ सूफ़ी आचार्यों के द्वारा सूफ़ी साधना के अन्तर्गत तीन यात्रायों की समाविष्टि का भी उल्लेख किया है। इनमें से प्रथम (१) सैरे इला इल्हा है। इस अवस्था में सूफ़ी साधक संसार की ओर से विमुक्त होकर सृष्टिकर्ता की ओर अग्रसर होता है और वह इस प्रयास में परमात्मतत्व के संसार रूप में प्रकटित होने की अंतिम कद्विया 'वहदियात' और 'वाहदत' को पार कर के 'हकीकती मुहम्मदी' पर रुक जाता है। (२) 'सैरे फिल्लाह' वह अवस्था है जब साधक अपने और परमात्मा में कोई भेद नहीं देखना। यह अहदियात की अवस्था है। इसी अवस्था में पहुँचकर हल्लाज के द्वारा अनलूहक ऐसे वाक्य उच्चरित हुये थे। (३) 'मैरानी इल्लाह' का तात्पर्य परमात्मा के गुणों को अंशरूप में वर्णित करके आत्मा का पुनः संसार की ओर प्रत्यावर्तन करना है। इसे फना के बाद की वक़ा स्थिति भी कहते हैं।

आत्मप्रतीति के सहायक :

साधक की शक्ति नीमिन एवं जीण बनाई गई है। वस्तुतः साधक को अपनी शक्ति पर विश्वास न होकर परमेश्वर की कृपा-कोर पर अधिक विश्वास होना है, और वर उसी के सहारे जीवन-लक्ष्य प्राप्त करना चाहना है। परमेश्वर की कृपाप्राप्ति की स्थिति

१. 'I only created the genus and mankind that they might know me, that they might serve me'. Sura 51 561

२. 'That man is a Sufi who is satisfied with whatsoever God does or God will be satisfied with whatsoever he does.'

ही सूफी साधना में 'हाल' नाम से विख्यात है। किन्तु इस 'हाल' या अनुग्रह प्राप्ति के लिये भी साधक को मुकामात पार करने होते हैं। इन स्थितियों के सफल निर्वाह के लिये उसे कुछ नियमित कृत्य करने होते हैं, जिनका सम्बन्ध क्रियापद्धति, कर्मकान्ठ या उपासना-पद्धति से होता है। नमाज़, जिक्र, फिक्र, समा, जियारत, हज्ज यात्रा, जकात या दान, सौम, रोजा या उपवास, मुराकबा, अवरारद, तिलवत एवं मुजाहदा आदिक का सम्बन्ध क्रियापद्धति से है, और गुरु-सम्मान, वली, पीर एवं साधु सम्मान, करामातो पर आस्था, रिवाज या इलयास, परमात्मा की कृपा आदि का सम्बन्ध उपासना पद्धति से है।

जिक्र एवं फिक्र :

परमेश्वर के गुणों का निरन्तर चिन्तन ही जिक्र है। उसके सत्स्वरूप का ध्यान, उसकी भावना में अपने आप को लीन कर अहंकार का विनाश एवं उससे तादात्म्य अनुभव करने के लिये जिक्र और फिक्र की योजना है। इस्लाम में सलात् की योजना है। नित्य पांच बार मक्के की ओर मुंह करके कलमा पढ़कर नमाज़ करना प्रत्येक इस्लामानुयायी का कर्तव्य है। सूफी इसका विरोध नहीं करते प्रत्युत उसके साथ ही जिक्र एवं फिक्र, तिलवत एवं अवरारद का संयोग करते हैं। एकान्त में हठयोग ऐसी क्रियाओं को करते हुये वे मन से कलमा का उच्चारण करते हैं। अत्यन्त विनय के भाव का प्रदर्शन करने के लिये अपनी टोपी उतार कर अल्लाह के चरणों पर मक्के की ओर रखते हैं। इस्लाम की सलात् केवल मुसलमानों की वस्तु है लेकिन सूफियों के जिक्र में वह शक्ति है कि वह देश, काल तथा परिस्थिति के ऊपर उठकर आत्मा और परमात्मा के मिलन में सहायक होती है। उस एक परमात्मा के गुणों जात, जमाल, जलाल एवं कमाल, का निरन्तर चिन्तन तथा स्मरण साधक को साधारण मनुष्य की श्रेणी से उठाकर उच्चस्तर पर पहुँचाने की क्षमता रखता है।

सूफी साधनास्थल में 'जिक्र' का स्वरूप अब भी बृहस्पतिवार की रात्रि को दर्शनीय होना है। यो तो ये सूफी सदैव ही परमात्मा का अलख जगाया करते हैं, किन्तु बृहस्पति-वार की रात्रि को इसकी विशेष योजना होती है। ये साधक 'हू हू' की ध्वनि करते हुये एक विशेष गति से बायें भूमते हैं और हृदय में अपने पृथक् अस्तित्व का विस्मरण कर केवल उसी के ध्यान में मग्न हो चेतनाहीन हो जाते हैं। कुछ साधक 'अल्लाह' एव 'या हू' का उच्चारण करते हुये तथा इन्हीं शब्दों की लय पर ताल देते हुये अन्न में इतने वेसुध हो जाते हैं कि स्वयं चाकू और नलवार से किये गये घाव का भी उन्हें ध्यान नहीं होता। इस प्रकार 'जिक्र' भी, 'अह-भाव' विस्मरण का साधनमात्र है।

ये सूफी उम परम सौन्दर्यशाली के सौन्दर्य का चिन्तन करते हुये उसी में अवस्थित होने का प्रयास इस उपाय में करते हैं जो भारतीय भक्तिपद्धति के गुणचिन्तन एवं नाम-स्मरण के समान ही जाना होता है। नामस्मरण का महत्व मध्ययुग के साहित्य में सर्वत्र दीख पड़ता है। सगुण एवं निर्गुण धारार्यें समान रूप से इसका प्रतिपादन करती हैं।

तुलसीदास ने स्पष्ट ही कहा है कि कलिकाल में नामस्मरण समस्त साधनों में महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली है^१ ।

आत्मविस्मरण :

‘फिक्र’ का उद्देश्य आत्मविस्मरण है । ‘फिक्र’ या चिन्तन के द्वारा समस्त गहनकारमयी मानसिक वृत्तियों का उन्मूलन, समस्त व्यक्तिगत आकांक्षाओं और इच्छाओं से अनासक्ति, तथा उस एक प्रिय को पूर्ण आत्ममर्पण है ।

तिलवत :

तिलवत भी ऐसी ही नामस्मरण में सम्बन्धित क्रिया है जिसका अर्थ है ‘कुरान-शरीफ’ का नियमित रूप में पारायण करने का अभ्यास । इसी जिक्र के अन्तर्गत ‘प्रवराद’ नामक क्रिया भी आती है जिसमें सूफियों के कतिपय चुने हुये भजनों का दैनिक पाठ आवश्यक है ।

सूफियों के जिन सम्प्रदायों में संगीत का विशेष महत्व नहीं है वे भी कुरान के रागपूर्ण पाठ के द्वारा आनन्द प्राप्त करने का प्रयास करते हैं । चिश्ती सम्प्रदाय के वाबा फरीद ने ‘तिलवत’ या कुरान पाठ का बहुत अधिक महत्व बताया है । उनके विचार में कुरान पाठ करना परमेश्वर से वार्तालाप करने के समान सुखदायी है । ‘समा’ या संगीत का सूफी साधना में विशेष स्थान है, यद्यपि उलेमाओं के कथनानुसार संगीत से साधारण मुसलमान को प्रेम नहीं होना चाहिये किन्तु सूफी साधना तथा सम्प्रदाय में इसका विशेष महत्व है । अपनी इस भावना की पुष्टि के हेतु सूफियों के पास प्रमाण है कि मुहम्मद साहब को हीरा की गुफा में घंटी के नाद जैसा स्वर सुनाई देता था, तथा कुरान के लय पूर्वक पाठ से उन्हें अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता था । आरम्भ में कुरान का पाठ विशेष राग और लय में किये जाने पर आनन्दानुभूति जाग्रत करता था । क्रमशः भजनों एवं प्रार्थनाओं का गायन तथा वादन भी सूफी सम्प्रदाय में ग्रहीत हुआ । सूफी साधक संगीत को परमानन्द-प्राप्ति का साधन मानते हैं । हज्वरी ऐसे रुढ़िवादी सूफी आचार्य को भी समा या संगीत का महत्व मान्य है । उमने अपने ग्रन्थ ‘कश्फुल महजूब’ में लिखा है कि संगीत को वैध या अवैध कुछ नहीं कहा जा सकता । परिस्थिति एवं तज्जिनत प्रभाव के आधार पर ही समा या संगीत की सद् या असद् प्रतिष्ठा है । चिश्तिया सम्प्रदाय में समा का अपेक्षाकृत अधिक महत्व है । फादिरिया सम्प्रदाय वाले भी संगीत का महत्व समझते हैं । ब्राउन साहब के विचार में फादिरिया सम्प्रदाय में इसका प्रचलन सन् ११७० ई० में अब्दुल फादिर जीतानी के उत्तराधिकारी सैयद जम्मुदीन के द्वारा किया गया^२ ।

१. कृष्ण बुन प्रेता हापर, पूजा मन्त्र और जोरा ।

जो गति होत सो कलि हरि नाम नो पारहि लोग ।

गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस

२. The Dervishes P. 255.

समा में मग्न सूफी खस, या नृत्य में भी लीन हो जाते हैं। समा का एक मात्र उद्देश्य उल्लास में आत्मविभोर कर देने वाली स्थिति की उपलब्धि मात्र है। कहा जाता है कि इस प्रकार कीर्तन एवं उल्लास में मग्न सूफी साधक अपनी सासारिक चेतना खोकर परमधाम भी चले जाते हैं। उर्स के अवसर पर समा का विशेष महत्व होता है। हिन्दी के सूफी कवियों ने संगीत का महत्व विभिन्न राग रागिनियों के वर्णन द्वारा व्यक्त किया है। इसे हम उनकी बहुज्ञता भी मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त साधना के क्षेत्र में संगीत के महत्व की स्थापना इस तथ्य से भी होती है कि प्रत्येक प्रेमाख्यान का नायक विरही होकर जब योग धारण करता है तब उसके अन्य उपकरणों में से एक वाद्ययंत्र खंजड़ी या सारंगी अवश्य साथ रहती है^१। नूरमुहम्मद ने संगीत का प्रभाव स्वीकार किया है^२।

सूफी जिक्र के अन्तर्गत एक विशेष प्रकार की प्राणायामपद्धति एवं प्राण नियमन को भी लेते हैं। इस जिक्र के भी कई स्वरूप हैं। (१) 'जिक्रजली' की नाम-स्मरण पद्धति में साधक के आसन का विशेष महत्व है और कभी दाहिने कभी बायें बैठते हुये साधक क्रमशः अल्लाह शब्द का उच्चारण उच्च स्वर में करता जाता है। आसन क्रियाओं के एक दो या तीन के विचार पर आधारित इस प्रकार के स्मरण को क्रमशः 'जिक्रे एक दर्वी' 'जिक्रे दो दर्वी', 'जिक्रे सी दर्वी' कहते हैं। (२) 'जिक्रे खफी', इस प्रकार का स्मरण अत्यन्त मन्द स्वर से नेत्र और मुँह बन्द कर के मन ही मन किया जाता है। इसी प्रकार सुल्तानुल अज़कार, अब्से दम, पासे अनफास, महमूदा नासिरा, तथा नफी अथवात आदि भी जिक्र की विभिन्न पद्धतियाँ हैं जिनमें साधक विशेष प्रकार के योगासन, प्राणायाम तथा विहित वाक्य उच्चारण का प्रयास करता है। मुराकवा भी ध्यान तथा चिन्तन की एक विशेष पद्धति है। इसमें साधक अल्लाहो हाजिरी, अल्लाहो नाजिरी, अल्लाहो सहीदी, अल्लाहो माडे, आदि वाक्यों का उच्चारण करता हुआ ईश्वर के ध्यान में मग्न रहता है।

जिक्र या फिक्र की इन विशेषताओं या प्रकारों का वर्णन ये सूफी कवि नहीं करते हैं, अवश्य सभी कवियों ने गुप्त जाप या 'खिलवत दर अंजुमन' की प्रशंसा की है। साधक के

१. धोवहु चन्दन भसम चढ़ावहु, किंगरी गहहु वियोग बजावहु ।

तजहु मेल कर लेहु धंधारी, और सुमिरनी चक्र अधी ॥

उसमान चित्रावी पृ० ८५ ।

चन्दन चढ़त रहा जेहि काया, सो तेहि काया भसम चढ़ाया ।

नित जेहि सीस फुलेल चढ़ावउ, भसम चढ़ावउ जटा वढ़ावउ ।

जेहि कर खरग वीज सम रहेऊ, तेहि कर सारगी लै गहेऊ ।

नूरमुहम्मद इन्द्रावती पृ० २२ ।

२. यह वासुरी सुने सो कोई, हिरदय खोत सुला जेहि होई ।

नियरत नाट, वारुनी साया, मुनि सुधि चेत रहै केहि हाया ।

नूरमुहम्मद अनुराग वासुरी पृ० ८७ ।

लिये कहा गया है कि प्रकट में वह सब लोक-व्यवहार करता रहे, अनेक व्यक्तियों के मध्य अपना कार्य करता रहे किन्तु अन्तर में हृदय के श्वास प्रश्वास के साथ उम 'परम' का ध्यान करना जाय। जायमी कहते हैं कि प्रकट में तो साधक को चाहिये कि वह सारे सामा-
रिक कार्य करता रहे, किन्तु मन ही मन आराध्य का ध्यान करना चाहिये ^१। कवि उम-
मान अपने ग्रन्थ 'चिन्तावली' में भी इसी प्रकार की भावना व्यक्त करते हैं, कि साधक को
अपनी साधना गुप्त ही रखनी चाहिये। प्रकट कर देने से कुछ भी उपलब्ध नहीं होता।
जो कोई गुप्त रहता है या प्रदर्शन नहीं करता है वह अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है,
किन्तु वाट्याडम्बर या प्रदर्शन में पड़ने से अधवीच में ही मार्गभ्रष्ट हो जाता है। गुप्त
साधना करने वालों ने उसे पा लिया, किन्तु प्रदर्शन करने वाले केवल दर्शक ही टुकड़ा
करके रह गये ^२। कुंवररावत का लेखक भी साधना में गुप्त जाप का महत्व स्वीकार
करता है ^३।

नूरमुहम्मद ने जिक्र एवं फिक्र इन दोनों की विस्तृत व्याख्या की है। जब तक हृदय
में प्रेम की व्याप्ति नहीं होती, इस संसार में जीवित रहना मोने के समान है। इस मिथ्या
संसार की सभी भावनाओं तथा सम्बन्धों का अन्त 'जाप' स्मरण एवं चिन्तन से हो जाता
है ^४। प्रेमी लोग मन की माला फेरते हैं अर्थात् हृदय में आराध्य का स्मरण करते हैं।
वास्तव में स्मरण एवं चिन्तन से ही, योग या साधना पूर्ण होती है। इस संसार में बैठना
उठना, चलना सभी स्वप्नवत् है। इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं। इस सबका त्याग
करके साधक को स्मरण एवं जाप का सहारा लेना चाहिये। वे लोग धन्य हैं जो रात दिन
प्रिय के चिन्तन में मग्न रहते हैं जिन्हें इस संसार में स्मरण के अनिरीक्षित और कुछ
अच्छा ही नहीं लगता। स्मरण और चिन्तन का शीघ्र प्रभाव प्रिय के ऊपर होना है।
जिम व्यक्ति का स्मरण किया जाता है उसके हृदय में भी प्रेम जाग उठता है। स्मरण
करने से परमात्मा भी प्राणों का ध्यान रखता है तो फिर इस संसार के और व्यक्तियों के
बारे में क्या कहा जाय। अतएव साधक को परमात्मा का स्मरण करना चाहिये जिसमें

१. परगट लोक चार कहू याता, गुप्त लाउ मन जायो राता।
जायमी।

२. गुप्त रहहु कोउ लग्य न पायै। परगट भय कहु हाय न थायै।
गुप्त रह नै जाउ पद्वैचै, परगट बचै नग विगुद्वै।
उममान चिन्तावली ५० ११४।

३. जिना द्विर सिपायों प्यारे, मा हृदय मे वरों उभायै।
शर्ला मुराद कुंवररावत।

४. जब लनि प्रेम न न्यारै, तब लनि स्मार।
स्वाप ज्ञान जब जायत, पापन जाप।

नूरमुहम्मद - शनुरान यासुरी ५० १०३।

उसकी कृपा साधक के ऊपर हो जाय। स्मरण, चिन्तन-साधना के लिये अत्यन्त आवश्यक है^१।

स्मरण की यह पद्धति सूफी प्रेमाख्यानों में स्पष्ट है। नायक नायिका के रूपगुण की प्रशंसा सुनकर उसके ही ध्यान एवं स्मरण में लग जाता है, फलस्वरूप नायिका के हृदय में भी नायक के प्रति अज्ञात प्रेम जाग्रत हो जाता है। जायसी की पद्मावती रत्नसेन के वियोग में व्याकुल हो गई थी। नूरमुहम्मद की इन्द्रावती भी राजकुंवर के आगमन के पूर्व ही उसे स्वप्न में देखकर व्याकुल हो जाती है^२।

मुजाहिदा भी इसी प्रकार की क्रिया पद्धति है जिसमें व्रत, उपवास आदि शारीरिक यातना द्वारा इंद्रिय निग्रह का प्रयास किया जाता है। कुरान में सौम या रोज़ा का विधान है जिसका वर्णन भी रहीम ने 'प्रेमरस' में किया है^३। सूफियों ने इससे भी अधिक कठिन व्रत की योजना अपनी साधना में की। कष्ट साधना के द्वारा वे अपने शारीरिक जड़ अंश को पराभूत कर ईश्वर चिन्तन में लीन रहते हैं। हिन्दी के सूफी कवियों ने सिद्धान्त रूप से कहीं मुजाहिदा का प्रतिपादन करने का प्रयास नहीं किया है, किन्तु नायक का सर्वस्वत्याग कर प्रिय प्राप्ति के हेतु घर से निकल पड़ना इसी कष्ट साधना का सूचक है। मार्ग में किसी भी प्रकार के सुख या आकर्षण में न फँसकर प्रेम मार्ग पर दृढ़ता से अग्रसर होना इसी तत्व का सूचक है, यद्यपि मुजाहिदा के अन्तर्गत हठयोग के आसन एवं प्राणायाम आदि का वर्णन भी कवियों ने किया है, जिसका वर्णन हम 'सूफी साधना पर

१. मन के भालै सुमिरै नेही लोग।

ध्यान और सुमिरन सों पूरन जोग।

बैठत, चलब काज वह, है सब स्वाप।

काहे न हम कै लीजै, सुमिरन जाप।

धनि सनेह के लोभै, जेहि दिन रात।

सुमिरन विना न दूसर कछु सुहात ॥

सुमिरे ते सुमिरै करतारा, और बावुरा कौन विचारा।

सुमिरि सुमिरि करतार हिं, सुमिरै तोहि।

तोहि सिखावै सुमिरन, मानहि मोहि।

नूरमुहम्मद अनुरातावासुरी पृ० १३६, १४४, १४५।

२. पदमावति तेहि जोग सजोगा। परी प्रेम बस गई वियोगा।

जायसी पदमावन।

जोगिय एऊ टिण्डि मोहि परा, दि ट न परा मोर मन हरा।

रहा सरूप मलोना सावल, नहि जानऊ जेहि टिम न आवल।

नूरमुहम्मद इन्द्रावती।

३. रोज़े तीम महित लव नेहा, विना अन्न जल मुखें देहा।

शेररहीम प्रेमरस।

हठयोग का प्रभाव' के अन्तर्गत करेंगे। सूफी कवियों ने साधक के मार्ग के मध्य भोगपुर, इन्द्रियपुर, कायापुर एवं इन्द्रियसुख से सम्बंधित वनों की योजना की है तथा साधक का इन सभी आकर्षणों से विमुख होकर अग्रसर होना इसी 'मुजाहिदा' पद्धति की ओर संकेत करता है^१। उसमान ने बड़े ही काव्यात्मक ढंग से मुजाहिदा की पद्धति का स्पष्टीकरण किया है। जो साधक साधना-मार्ग पर अग्रसर होना चाहता है उसे इन्द्रियों के साथ चित्तवृत्ति का निरोध आवश्यक है। 'भोगपुर' को पार करके जाने की क्षमता केवल उम साधक में होती है जो नेत्र होते हुये भी अंधों जैसा, कान होते हुये भी बहिरों जैसा व्यवहार करे। मौन धारण करे, साथ ही सुखादु वस्तुओं का लोभ परित्याग करदे। प्राणायाम के द्वारा काम एवं क्रोध को जला कर नष्ट कर दे। निर्द्वन्द्व होकर साधना मार्ग पर निरन्तर अग्रसर होने वाले साधक को जान लाभ एवं ज्योति दर्शन होता है।

इस्लाम में हज्ज यात्रा का विधान प्रत्येक मुसलमान के लिये है। वही कुरान में प्रति पादिन तीर्थ यात्रा का स्वरूप है। सूफियों ने संग-असवद के सुमन से ब्रुतपरस्ती का भाव ग्रहण किया। भावोपासक सूफियों में मजार एवं दरगाह का विशेष महत्व हो गया। सिद्ध सूफी, पीर या वली की समाधि को हज्ज से अधिक महत्व देने लगे, कुछ और भावुक सूफियों ने कल्ब को ही किवला मान कर परमसत्ता को केवल हृदय के भीतर ही खोजने का प्रयास आरम्भ कर दिया। सूफी साधना में इस क्रिया पद्धति को जियारन कहते हैं। समाधि दर्शन से सूफी साधक वरदान लाभ करने की आशा रखता है। सूफियों का विश्वास है कि 'खुदा के वन्दे' परमात्मा के प्रेमी की कभी मृत्यु नहीं होती, उसकी मृत्यु केवल आत्मा की स्थितिपरिवर्तन की सूचना देती है। यही कारण है कि पीर या सिद्धों के निधन हो जाने पर भी साधक उनका सम्मान एवं पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करता है। मजारों या समाधियों की यात्रा को जियारन कहते हैं। इन दरगाहों और मजारों पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को दीपक प्रज्वलित दिखाई देते हैं, तथा 'उर्स' के अवसर पर यहा विशेष उत्सव होता है। साधक का ऐसे अवसरों पर उत्सवों में भाग

-
१. पहिले वन माँ राज सरेखा, भातहि भात के पच्छिय देखा।
 एकै रूप इन्द्रावती केरा, मोहि आखिन माँ लीन्ह यसेरा।
 दूसरे वन माँ राजा आण्ड, मधुर सवद पच्छिन सो पाण्ड।
 सखन वोही सवद पर लावड, जाको नाम रतन कर पावड।
 तिसरे वन आण्ड नरनाहा, मिलेउ सुगन्ध तहा वन माहा।
 कहा प्रीतम लट कर वाग्ना, चाहत हाँ राखड नित आमा।
 जब आये चाँये वन माहा, फले बहुत फल देखा तहा।
 हाँ बरती तेहि पन्य को, इन्द्रावति जेहि नाउ ॥
 फल अहार तेहि दरम को, चाहीं तेहि दिस जाउ ॥

लेना, एवं तीर्थयात्रा करना, साधक की हृदयशुद्धि में सहायक होता है^१ । साधारण व्यक्ति हिन्दू या मुसलमान, का विश्वास भी मजारों और दरगाहों में होता है, ये इन समाधियों पर एक विशेष आकाक्षा लेकर जाते हैं तथा वहा डोरा या कपड़े की पट्टी बांध आते हैं जिससे समाधिस्थ पीर को उनकी चाह की याद बनी रहे^२ । बहराइच में गाजी मिया की समाधि पर हिन्दू एवं मुसलमान सभी अपनी अपनी श्रद्धा समर्पित करने एवं चाहपूर्ति की आशा लिये हुये जाते हैं ।

जकात या दान का भी सूफी साधना में महत्व है । इस्लाम में चालीस अंश में से एक अंश दान देने का विधान है जिसका इसी रूप में वर्णन शेख रहीम एवं कासिमशाह ने किया है^३ । जकात से सूफी समर्पण की भावना भी ग्रहण करते हैं । वे अपने अहं तक का त्याग इस श्रेय के मार्ग में कर देते हैं, फिर और किस वस्तु की चाह शेष रह जाती है । हिन्दी के सूफी कवि दान का महत्व भली प्रकार समझते हैं । लगभग प्रत्येक कवि ने दान महिमा का वर्णन प्रसंगवश अपने काव्य में किया है । जायसी दान की महिमा में लिखते हैं कि उसी मनुष्य का जीवन सार्थक है जिसने इस जगत में दान अधिक दिया हो । जप एवं तप सभी प्रकार की कष्ट साधनाओं से अधिक महत्व दान का है । जितना मनुष्य दान करता है, प्रतिफल स्वरूप उसे उससे दसगुना लाभ होता है अतः दान करना इस जगत में श्रेष्ठ है^४ । कासिमशाह भी हंसजवाहर में दान के महत्व की चर्चा करते हैं । इस संसार में बिना दान दिये किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं होती । इस भवसागर को पार

१. पीछे हज्ज हरम का कीजे, जो हुद्द सके तो यह फल लीजे ।

शेख रहीम . प्रेम रस ।

कहा सनेह गुरु बेरानी, तीरथ कारन अनुरानी ।

गुरु को धरम दान वृत धरना, चरन धरम तीरथ को करना ॥

नूरमुहम्मद अनुरान बॉसुरी पृ० १२४ ।

२. The People of the Mosque P 169, 170

by Bevan Jones.

३. चालिस अश मह एक निकारो, टेड दान तो पार सिधारो ॥

एक दिये जो दश गुन पावे, ऐस बनिज कर्तार करावे ॥

कासिमशाह हंसजवाहर पृ० १६६ ।

चालिस अश में एक अलाना रब के नाच डड तुम दाना ॥

शेख रहीम प्रेम रस

४ धनि जीव और तावर हीया, ऊच जगत मह जाकर दीया ।

दिया जो जप तप सब उपराहीं, दिया बराबर जग क्लिष्ट नहीं ।

एक दिया ते दसगुन लहा दिया देखि सब जग मुख चहा ।

जायसी पदमावत ।

करने के लिये दान ही सबसे महत्वपूर्ण नाव है । दान देने से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों ही में सुख प्राप्त करता है ^१ ।

नूरमुहम्मद ने अनुराग वासुरी में जकात का महत्व कीर्तिविस्तार से सम्बन्धित किया है । जिस व्यक्ति को दान दिया जाता है, वह स्थल स्थल पर दान का गुणगान किया करता है, अतः कीर्ति के हेतु भी दान देना आवश्यक है ^२ ।

उसमान भी दान को इस संसार में सबसे बड़ा हित् समझते हैं । इस भव-समुद्र में डूबते को केवल दान का ही सहारा है । दान ही मङ्गलकार में खेवक का कार्य करता है । उस जगत में दान का एक अंश, परलोक में दस अंश का देने वाला होता है ^३ ।

कवि अली मुराद ने भी कुरान के कथन को दुहराया है । वही साधक अपनी साधना में मफल हो पाता है जो चालीस अंश में से एक अंश दान कर देता है ^४ ।

दान महिमा को मानने के साथ ही इन सूफी कवियों ने, सर्वस्व त्याग एवं अहं त्याग को भी महत्व दिया है । शेख रहीम तो स्पष्ट कहते हैं कि यदि प्रिय का दर्शन लाभ करना है तो साधक को सासारिक कर्तव्य, लोक लाज, मन की दुविधा भव कुछ छोड़ना पड़ेगा, साथ ही कठिन शरीर-यातना के द्वारा भी संयम करना पड़ेगा ^५ ।

१. दान दियो नहिं होहु उवारा , दान बिना वृद्धो मङ्गलारा ।
दान सुपत ऊपर पति होई , दान शुद्ध पार्वं सब कोई ।
दान देत टोऊ जग केरा , जिन टीना तिन कीन उजेरा ।
मोक्षहु दान द्रव्य ते पार्वं , दियो दान विधि पार लगावें ॥

कामिमशाह . हमजवाहिर पृ० १६८ ।

२. बोला सुवा, अचर्भा नार्हीं , कीरति दत्त, कहां नहिं जाहीं ।
कहां कहां नहिं कीरति धार्वं , देस जाचकरन संग फिरार्वं ।

नूरमुहम्मद , अनुरागवासुरी पृ० १२६ ।

३. दुहुँ जग हित्, दान सम नार्हीं , वृद्धत दधि काढ़े गहिं वार्हीं ।
खेवक दान होइ मङ्गलीरा , गहिगुन खेइ लगावें तीरा ।
एक देय दस पावाहि लाहु , तें द्रोखहु जो ना पतियाहु ॥

उसमान चित्रायली पृ० ८८ ।

४. चालिम दरय मा एउ मोहि देवो, उतरो पार राह तव पावो ।

हुं वगवत अली मुराद ।

५. दरम थाप यहुतन जिव ग्योवा, जिन चाहा सो छन छन रोवा ।
दरम लाभ त्यागो कुल लाजा, होउ निलज तो संवरे काजा ।
दरम थाप दुविधा मन ग्यागो, होउ निरानर मारन लागो ।
दरम थाप यह काया जारो, दरम थाप से तन मन मारो ।

शेख रहीम . भागप्रेमस्य ।

इसी प्रकार अली मुराद भी अपने पृथक् अस्तित्व को मुला देने वाले साधक को ही सफल मानते हैं ^१ ।

'सूफी-साधना के अन्तर्गत आनेवाली उपासना पद्धतियों में गुरु की महिमा प्रमुख है । हिन्दी में सूफी प्रेमकथाओं की रचना आरम्भ होने के पहले ही सिद्धों ने साधना में गुरु की अनिवार्यता प्रतिपादित करदी थी । बहुत सम्भव है कि गुरु के महत्त्व की भावना सूफियों ने भारत से ही ली हो, क्योंकि हुज्वरी जो इसकी महानता की चर्चा सर्वप्रथम करता है भारत में रह चुका था । मध्यकालीन सभी साधनाओं में गुरु की अनिवार्यता मिद्ध है । विना गुरु के साधक को सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती । नामदेव को भी अन्त में गुरु की अनिवार्यता माननी पड़ी थी ^२ । गुरु महिमा का सूफी साधना में विशेष स्थान है । साधना का रहस्य जानने एवं प्रेम मार्ग में अग्रसर होने के लिये साधक को एक पीर की आवश्यकता होती है । भारतीय साधना-पद्धति में गुरुमहात्म्य अत्यन्त प्राचीन है । वैदिककाल में पुरोहित, बौद्ध युग में उपदेशक गुरु के ही विभिन्न स्वरूप हैं । तान्त्रिकों के लिये गुरु-पूजा अनिवार्य हैं । गुरु-पूजा के अभाव में साधक की सारी साधना विफल है । नाथ पन्थ में, गुरु की महिमा कट्टरता से मान्य है । मध्यकालीन हिन्दी काव्य गुरु-महात्म्य से ओत प्रोत है । सगुण-निर्गुण-ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी सभी वर्ग के साधकों को साधना के अन्तर्गत गुरु की आवश्यकता पड़ती है । साधक को गुरु की आज्ञापालन की शपथ ग्रहण करनी पड़ती है । मुर्शिद उसे अपना मुरीद या शिष्य बना लेता है । साधक अपने पीर के स्वरूप का निरन्तर ध्यान करता है, तथा उसके प्रभाव का इतनी तीव्रता से अनुभव करता है, कि उसे अपना अस्तित्व गुरु के अस्तित्व से एकाकार हुआ जान पड़ता है । सूफियों के अनुसार मुरीद पहले अपने शेख के प्रति आत्मसमर्पण करता है तत्पश्चात् शेख उसे पीर के पास ले जाता है, पीर के द्वारा वह रसूल या मुहम्मद साहब के प्रभाव में पहुँचकर क्रमशः साधना में परिपक्व होता हुआ परमेश्वर के समक्ष पहुँच जाता है । हुज्वरी गुरु का महात्म्य अन्य सभी साधनाओं से अधिक मानता है ।-

हिन्दी के सूफी कवियों ने दान की भाँति गुरु महात्म्य का भी अत्यधिक वर्णन किया है । नूरमुहम्मद ने गुरु को सबसे अधिक मृदुल स्वभाव वाला कहा है । यद्यपि यह सत्य है

१ मुराद पूरा माथु वही, जो हस्ती देवे छोड़ ।
निर्गुण सगुण जार्प मे मुह का लैवे मोड़ ॥

अली मुराद कु वरावत ।

३ 'अन्त में वेचारे नामदेव ने नाग नाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर चियोवा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपन्थी रुकफटे में टीक्षा ली ।'

हिन्दी साहित्य का इतिहास रामचन्द्र शुक्ल ।
सशोधित एवं परिर्वर्धित संस्करण मन्त २००३, पृ० ६६

कि कामी पुरुष भी ध्यान में जोगी हो सकते हैं किन्तु जबतक साधक को गुरु के हाथ में माला या नामस्मरण का मन्त्र प्राप्त नहीं हो जाता, उसे सिद्धि नहीं मिलती। गुरु की कृपा से वंचित साधक इस जगत् में अकेला रहना है। कोई साधक चाहे किनना ही ज्ञानी हो उसे गुरु की कृपादृष्टि के बिना सफलता नहीं मिल सकती। इस संसार में गुरु के सदृश अनुकूल कोई नहीं है। गुरु के अनुकूल होने ही सारी प्रतिकूलता नष्ट हो जाती है^१।

अगुवा या गुरु वही हो सकता है जो स्वयं मार्ग जानता हो। गुरु का चेला कभी पथ-भ्रष्ट नहीं होता^२।

उसमान ने गुरु और शिष्य के अविच्छिन्न सम्बन्ध के बारे में लिखा है। गुरु से विद्युक्त साधक अत्यन्त दुःखानुभूति का अनुभव करता है। वह शारीरिक कष्ट सहता हुआ केवल गुरु नामस्मरण को आधार मान लेता है^३। जिस साधक को गुरु का निर्देशन प्राप्त नहीं होना वह अन्धे के भानि चारों ओर भटकता फिरता है और सीधा मार्ग उपलब्ध नहीं कर पाता^४। चाहे सारा संसार जोगियों या साधकों का स्वरूप धारण करके मूढ़ मुढ़ाकर सन्यासी बन जाय किन्तु सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती जबतक गुरु की कृपा उसपर न हो जाय। गुरु की कृपा से नवों निधियाँ उसे प्राप्य हैं^५। गुरु के वचनों का श्राव्य में अन्जन लगाकर, हृदय रूपी दर्पण परिमार्जित करके, माया या ममता को भस्म

१. सत्त वचन भार्या तुम स्वामी, जोगी होंहि ध्यान सों कामी।

पे माला स्वामी के हाथा, पाएँ लाभ होई एहि साथा।

बिन गुरु माल होउं कत चेला, बिन गुरु दाया चली अकेला।

गुरु बिन पन्थ न पावै कोई, केतिकों ज्ञानी ध्यानी होई।

गुरु ऐसे मीठो किछु नाहीं, जंह गुरु तथा तिक्र मिटि जाहीं।

कामयाव सो गुरु अति भावै, सो हित जो गुरु ताहि जियावै ॥

नूरसुहस्मद् . अनुराग वासुरी पृ० १२०।

२. अगुवा भएउ सुवा उपदेसी, अगुवाई को दीपक लेसी।

अगुवा मोई पन्थ जो जाना, अगुवा सहित न फिरे सुलाना।

नूरसुहस्मद् अनुराग वासुरी पृ० १२८।

३. जा दिन ते हम गुरु विद्योवा, अन्न न जेवा, नीट न सोवा।

भूख नाहि और नाहि पियामा नाट अघार रहइ घर मामा।

उसमान चित्रावली पृ० ५६।

४. जा कहै गुरु न पन्थ जेगावा, सो अन्या चरिहुं डिमि धावा।

उसमान चित्रावली।

५. मूढ़ मुढ़ाये जग फिरे, जोगी होय न निद्र।

जा कहै गुरु किरपा करहि, सो पावै नो निद्र।

उसमान चित्रावली पृ० ८६।

करने के पश्चात् ही परम-प का दर्शन सम्भव है^१। गुरु की सत्यवादिता की प्रशंसा कासिमशाह ने की है। गुरु के वचन अडिग हैं। भाग्य या भाग्य की गति बदल सकती है किन्तु गुरु के वचन नहीं। गुरु के मुख से अलख की सत्यता के शब्द सुनना प्रत्येक का कर्तव्य है^२। इस जीवन में वही दिन सफल एवं सार्थक है जब गुरु से भेंट होती है। गुरु दर्शन से सारे पाप और दुःख नष्ट हो जाते हैं, सारे अचगुणों का अभाव हो जाता है^३।

शेख रहीम गुरु की पदवन्दना एवं आज्ञापालन साधक का सर्वोत्तम कर्तव्य मानते हैं। गुरु के चरणों की सम्मान पूर्वक वन्दना करके, मार्ग सम्बन्धी आदेश लेना साधक का कर्तव्य है^४। शेख रहीम 'प्रेम' की भावना गुरु रूप में भी करते हैं^५। अली मुराद के अनुसार यदि गुरु 'अगुवा' हो जाय तो सिद्धि निश्चित है^६। विना गुरु के सारी उम्र व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है, गुरु-श्रद्धा का अवलम्बन लेकर ही प्रेमपथ पर अग्रसर हुआ जा सकता है^७। गुरु और हरि में कोई अन्तर नहीं है, वास्तव में वे दोनों एक ही

१. गुरु वचन चपु अजन देहू, हिया मुकुर मजन करि लेहू।

माया जारि भसम के डारौ, परमरूप प्रतिविम्ब निहारौ।

उसमान चित्रावली पृ० ६१।

२. डोले करम तौ करमगति, गुरु कर वचन न डोल।

कासिम सुन गुरु मुख शब्द, सत्य अलख के बोल।

हसजवाहिर कासिमशाह पृ० ११

३. सुफल दिवस आवै जबै, होय गुरु से भेंट।

पाप और दुख सब मेटिये, औगुन जाय सो मेट।

कासिमशाह हंसजवाहिर पृ० २४।

४. प्रेमा जाय टन्डवत कीन्हा, गुरु चरन माये पर लीन्हा।

कर टाया मोहे पन्थ ब्रताऊ, जेहि विधि मिले सो भेट् ब्रताऊ।

५. प्रेम गुरु का मैं हीं चेला।

शेख रहीम प्रेमरस।

६. आगे तो गुरु का करो, पाहू वाके जाव।

अहमद का टामन पकड, वाहित ये भट मिल जाव।

अलीमुराद कु वरावत।

७. विना गुरु कछु काम न हांई, वैस अकाथे पूरी खोई।

पहले प्रीत गुरु ये क्रीने, प्रेम ब्राट में तव पग टीने॥

अलीमुराद . कु वरावत।

हैं १। इस प्रकार अली मुराद अपनी साधना में गुरु की महानता एवं महत्व दोनों ही स्वीकार करते हैं।

वली एवं औलिया का सम्मान सूफी-साधना का विशेष अंग है। सूफी औलियाओं की, जीवनी, करामातें एवं उपदेश सूफी साधक के लिये केवल अनुकरणीय ही नहीं, अनुकम्पा प्राप्त के साधन भी हैं। हर सम्प्रदाय का व्यक्ति आपत्ति के समय इन पीरों का स्मरण करता है तथा धार्मिक कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा, इनकी समाधियों पर जाना आवश्यक समझता है। अपनी इस 'पीर परस्ती' को भी सूफी साधक कुरान की आयतों से प्रमाणित करते हैं। कहते हैं कि एक बार मुहम्मद साहब ने अपनी माता की मजार पर आसू बहाये थे। हुज्वरी के अनुसार ईश्वर ने इन पीरों को स्वाभाविक, जन्मजात विकारों से रहित बना दिया है और यही पीर धर्म की महानता के जीवित प्रमाण हैं। कुछ अदृश्य पीरों या वलियों को 'पीरे गैव' कहते हैं। हुज्वरी के अनुसार ऐसे पीरों की संख्या चार हजार है। एक प्रकार से इन सन्तों का साम्राज्य ही पृथक है। सर्वोच्च सन्त को कुत्व या प्रुव कहते हैं। मुहम्मद तथा अन्य चार खलीफा हसन और हुमैन अपने समय के 'कुत्व' थे। इनके नीचे चार अब्दाल (Abdal) हैं जो सृष्टि के चारों कोनों पर रहकर सृष्टि के समाचार कुत्व को दिया करते हैं। इनके नीचे अब्दाल अम्द एवं नजूवा की स्थिति है। सूफी साधक इन पीरों का सम्मान करके उनकी कृपा प्राप्त करने एवं उन्हें जीवनादर्श बनाने की चेष्टा करते हैं। वली एवं पीर के सम्मान का परिचय हिन्दी के सूफी कवियों ने अपने गुरु एवं उनकी परम्परा के गुण-गान द्वारा दिया है। जान कवि अपने पीर के निवासस्थान हासी की प्रशंसा जिन शब्दों में करते हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि ये सूफी कवि पीर एवं वली का कितना अधिक सम्मान करते थे २। इसी प्रकार कवि उस्मान ने भी पीर वावा हाजी की प्रशंसा की है ३।

१. गुरु समान मैं तोहि निहारों,

गुरु और हर में दुई न जानो, एक ही है दुविधा मत मानो ॥

गुरु, आदम, हर एक हैं, दूजा कहै सो भूल।

सोमन्ट करतार की, फाव का यही वसूल।

अली मुराद कुंवावत।

२. सैख महम्मद पीर हमारो, जाकां नाव जगत उजियारो।

रोजे उपर बरसत नूर, करामात जग भई जहूर।

ज्यारत करन फिरिस्ते आवत, मनुसन की को वात चलावत।

कवि जान . कथा बुधसागर।

पीर सैख महम्मद हैं चिस्ता, बदन नूरि भापतु है फिस्ता।

रहन गाव जानहु हासी, देखत कर्टे चित्त की फांसा।

जान कथा कवलावती।

३. वावा हाजी पीर अपारा, सिद्ध देत जेहि लान न वारा।

हीछां देत न लावहि धोखा, जेहि जस तोप पवै तस पोया ॥

उस्मान : चित्रावली पृ० १०।

लंगभग प्रत्येक सूफी प्रेमाख्यान का नायक साधक का वेश धारण करने के लिये योगियों का वेश धारण करता है। जायसी कृत पद्मावत में नायक रत्नसेन सिंहलद्वीप के लिये प्रस्थान करते समय हाथ में किंगरी, सिर पर जटा, शरीर में भस्म, मेखला, शृंगी, धंधारी चक्र, रुद्राक्ष और अधार को लेकर, कंथा पहन कर हाथ में सोंटा लिये हुये 'गोरख' की रट लगाता हुआ साधना मार्ग पर अग्रसर होता है। उसने कंठ में मुद्रा, कान में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमण्डल, कंधे पर बाघम्बर, पैरों में पांवरी सिर पर छाता और बगल में खप्पर धारण कर लिया था। शरीर पर उसके गेरुये वस्त्र थे ^१।

इसी प्रकार मधुमालत प्रेमाख्यान में भी जब कुंवर मनोहर मधुमालति के वियोग में व्याकुल होकर माता पिता से आज्ञा लेकर घर से निकल पड़ता है तब उसकी वैषभूपा नाथ पंथी योगियों के सदृश ही थी। कठिन विरह के दुख से पीड़ित होकर कुंवर ने खप्पर, दण्ड और अधारी, धंधारी चक्र, कंथा, मेखला, पावरी और मृगछाला धारण कर ली। शरीर पर भस्म चढ़ा ली और सिरपर जटायें बढाली। इस प्रकार गोरख वैष धारण करके कुंवर साधना पथ पर अग्रसर हो गया ^२।

उसमान ने 'चित्रावली' में कुंवर सुजान की वैष भूषा का वर्णन भी नाथ पंथी योगी की भांति ही किया है। सुजान ने सुन्दर वस्त्र उतारकर गूदड़ का बना हुआ कथा धारण कर लिया, मणिजटित मकराकृति से साम्य रखने वाले कुण्डल के स्थान पर कर्ण मुद्रा धारण करली, चन्दन चर्चित देह पर भस्म लगाली और हाथ में किंगरी लेकर वियोग वजाया। हाथ में धंधारी चक्र, सुमिरनी और अधारी ले ली। सिर पर जटायें वढा लीं, सिंगी,

१ तजा राज, राजा भा जोगी, और किंगरी कर गहेड वियोगी।
तन विसंभर मन बाऊर लटा, अरुका पेम परी सिर जटा।
चन्द्र वदन और चन्दन देहा, भसम चढाई कीन्ह तन खेहा।
मेखल, सिधी चक्र धंधारी, जोगवाट, रुद्राक्ष अधारी।
कंथा पहिरि दण्ड कर गहा, सिद्ध होइ कह गोरख कहा।
मुद्रा स्वन, कंठ जयमाला, कर उपदान क्रांध वधछाला।
पाँवरि पाँव दीन्ह सिर छाया, खप्पर दीन्ह भेस करि राता।

जायसी जोगी खण्ड पद्मावत पृ० १३।

२ कठिन विरह दुख काय संभारी, माँग्यो खप्पर दण्ड अधारी।
चक्र हाथ मुख भस्म चढावे, सोन पथक मन्दिर उभारावे।

कथा मेखली जरकटा, जटा वढाई केम।

वज्र रुद्धौटी बाँध के, वस्यो गोरख देस।

प्रेम पावरी राग्यो पाऊ, मृगछाला बैराग सुभाऊ।

मम्मन मधुमालत।

खंथर लेकर मृगछाला ग्रहण करके, रुद्राक्ष की माला और पावरी पहन श्री गोरख का नाम लेकर. सुजान साधना मार्ग पर चल दिया ^१ ।

नाथपंथी योगी की वेश भूषा के साथ ही कवि ने तान्त्रिक मन्त्र-सिद्धि, गोटिका एवं डंडे के प्रभाव का भी उल्लेख किया है। नेत्रों में लुक-अंजन लगाकर, भोली और मंतरा को लेकर, मुंह में गोटिका दबाकर तथा डंडा ठोककर कुंवर सुजान और गुरु परेवा रूपनगर की ओर चल दिये। इन लुकअंजन, गोटिका एवं डंडे का यह आश्चर्यजनक प्रभाव था कि कुंवर और परेवा तो सब कुछ देख रहे थे किन्तु वे स्वयं दूसरों के लिये अदृश्य हो गये थे ^२ ।

डंडे और जन्त्र के आश्चर्यजनक प्रभाव की चर्चा कथा 'कुंवरावत' में भी है। कुंवर जब फूलमती के वियोग में व्याकुल होकर घूम रहा था उसकी भेंट एक तपस्वी से हुई जिसने बहुत सहानुभूति से कुंवर की व्यथा सुनी तथा उसे दया करके एक जन्त्र और एक लकुटिया दी। जन्त्र के द्वारा सभी कार्यों की सिद्धि सम्भव थी और लकुटिया में यह चमत्कार था कि यदि समुद्र में डाल दी जाय तो बोहित का कार्य कर सकती थी ^३ । कुंवर इसी लकुटी के सहारे शीघ्र ही समुद्र पार कर गया था।

१ काटहु ढगल सुहावन राता, पहिरहु चिरकुट कथा गाता।
मनि कुन्डल मकराकृत डारहु, फटिक मु दरा खवन सवारहु।
धोवहु चन्दन भसम चटावहु, किंगरी गहहु वियोग वजावहु।
तजहु सेल कर लेहु धंधारी, और सुमिरनी चक्र अघारी।
सिंगी पूरहु जटा वदावहु, खप्पर लेहु भीख जेहि पावहु।
काँवे लेहु वाहि मृगछाला, ग्रीव पहिरहु रुद्राप क माला।

२. करहु कान जनि एकहु, कहै कोऊ जौ लखत।
पहिरि लेहु पग पाँवरी, बोलहु सिरिगोरखत।
कीन्ह कु वर जो जोगी कहा, देखत लोग अचंभौ रहा।
ततपन दोठ जन कर उपचारी, फोलि मतरा लीन्ह सभारी।
नैनन्ह मंह लुकअंजन दीन्हा, और मुख घालि गोटिका लीन्हा।
डडा ठाँकि चले उठि ठोऊ, वै देखहि उन्ह देख न कोऊ।

उसमान : चित्रावली पृ० ८५, ८६।

३. तपसी एक मोहि मिला बड ज्ञानी वन राव।
त्रिया मोर पू छन लगा चित लगाय बड भाव ॥
X X X
जन्तर एक निहारयो जोगी, कुंवर से कहा कि सुन हो वरोगी।
जन्तर हाथ कुंवर का दीन्हा, विहसि के कहा कि भयो अशीना ॥
सभी काज का अन्तर वेठा, त्रिया तोहे हम बदि है भेटा।
X X X
एक लकुटिया और त्रिया कहा कि लियो सुजान।
समुन्दर डार बोहित भई सवह काज की गान।

शर्लामुराद कु वरावत।

कथा इन्द्रावती में भी कुंवर ने जोगियों की सज्जा धारण कर ली। 'अनुराग वॉसुरी' में कवि नूरमुहम्मद ने वैरागी भेष की विस्तृत चर्चा नहीं की है। गेरुआ वस्त्र, खड़ाऊं और जयमाला का ही उल्लेख है। इन सभी उपकरणों का वर्णन भी कवि ने व्याख्या सहित किया है। माला के साथ कवि ने गुरु कृपा की चर्चा की है।

गुरु के द्वारा दी गई माला ही साधक का सबसे बड़ा आधार है ^१। मार्ग प्रदर्शक अरुनतुन्द को साथ लेकर अन्तकरणः वैरागी वेष धारण करके चल दिया। उसका सुन्दर शरीर गेरुये वस्त्र में और भी अधिक शोभित हुआ ^२। कुंवर नंगे पैर ही चल रहा था कि उपदेशी सुवा के समझाने पर उसने खड़ाऊं पहन ली ^३। योगी वेष की विस्तृत चर्चा इन्द्रावती में भी नहीं है। जोग काथरा, और सारंगी लेकर शरीर पर भस्म लगाकर कुंवर घर से निकल पड़ा ^४। कासिमशाह के ग्रन्थ हंस-जवाहिर में हंस की योगी वेशभूषा का वर्णन नहीं है। विरह से पीड़ित होकर हंस अपने सिर पर धूल छालता है। उसके हृदय में वैराग्य जाग्रत होता है। अपनी पाग के टुकड़े टुकड़े करके वह फेंक देता है, तथा अपनी कमल के सदृश सुकुमार देह पर भस्म चढ़ा लेता है। योगियों की वेष भूषा में से कवि केवल भस्म या खेह की ही चर्चा करता है ^५। भोलाशाह को जब जवाहिर-प्राप्ति की आशा नहीं रही तो वह विरक्त हो, योग धारण

१. बिन गुरु माल होउं कत चेला, बिन गुरु दाया चलौं अकेला।

तब माला दीन्हा वैरागी, कठी डारि भण्ड अनुरागी ॥

नूरमुहम्मद अनुराग वॉसुरी पृ० १२०।

२. भयउ कु वर वैरागी भेसू, रखि वैराग भुलान योगेसू।

गेरुआ वस्त्र सलोनी काया, अधिक विराजा, सोभा पाया।

नूरमुहम्मद अनुराग वॉसुरी पृ० १२३।

३. नागे पाह न चलिण राजा, फोला परिहै होइ अकाजा।

घरन धरन तब राजै लीन्हा, कहा सुवा अगुवा को कीन्हा।

नूरमुहम्मद अनुराग वॉसुरी पृ० १२६।

४ भा जोगी इन्द्रावति लागी

राज दुकुल सय तुरत उतारा, जोग काथरा काये डारा।

राखा जटा चढ़ाण्ड खेहा, कीन्ह सनेह सनेहिय देहा ॥

नूरमुहम्मद इन्द्रावती पृ० २२।

५. चला रोय सर मेलिस छारा, निकसि वाग ते आयो वारा।

उठा वैराग लाज वुधि खोई, देखा मीत न जग में कोई।

दीन्हिस फेंक सीस ते पागा, कीन्हिस टूक टूक सब वागा।

वावर भयो बूट जग नेहा, कमल सी देह कीन्ह सत खेहा ॥

कासिमशाह हसजवाहिर।

करके वन की ओर चल दिया, इम स्थल पर कवि ने योगी वेश की चर्चा कुछ अधिक की है^१।

कवि जान ने भी इस वेश भूषा की चर्चा नहीं के बराबर की है किन्तु कहीं कहीं इस वेश से सम्बन्धित वस्तुओं की चर्चा हुई है, जैसे 'कथा कलावती' में पुरन्दर, कलावती को प्राप्त करने के लिये जोगी होकर निकल पड़ा और उसने वीन बजाकर ही कलावती एवं उसके पिता को मोहित कर लिया था।

'भाषा प्रेम रस' में प्रेमा ने गृहत्याग अवश्य किया है किन्तु योगी वेश की चर्चा नहीं है। 'यूसुफ जुलेखा' और 'प्रेमदर्पण' प्रेमाख्यानों की कथा कुरान में वर्णित कथा है। नायक यूसुफ आदर्श व्यक्ति है तथा मुसलमानों में सम्मानित है, अतः कविगणों ने उन्हे योगी वेश में नहीं दिखाया है। उन्होंने गृहत्याग अवश्य किया है किन्तु विरही या जोगी होकर नहीं।

'ज्ञानदीप' में नायक ज्ञानदीप को गुरु सिद्धनाथ का शिष्यत्व ग्रहण करना पड़ा था। जोगी के रूप में ही वह विद्यानगर के राजा सुखदेव के यहा सम्मानित था, किन्तु योगी वेश की अधिक चर्चा नहीं है। लुकअंजन एवं गोटिका के प्रभाव एवं चमत्कार की चर्चा है। सुरजानी जब देवजानी का संदेश लेकर ज्ञानदीप के पास भानपुर जा रही थी तब मार्ग में धर्मशाले के व्यक्तियों के द्वारा अपने सौन्दर्य के कारण कार्य में विघ्न पड़ते देख, उसने रामकवच का स्तवन किया तथा नेत्रों में लुकअंजन लगाकर वह अन्य व्यक्तियों से अदृश्य हो गई^२। इसी प्रकार एक स्थल पर ज्ञानदीप और देवजानी के सम्बन्ध की चर्चा के अन्तर्गत जोगी वेश का भी प्रसंग आता है किन्तु वह विस्तृत नहीं है^३।

आरम्भिक सूफी कवियों जायसी, मंभन, उसमान आदि के काव्यों में साधक की रूपरेखा के वर्णन प्रसंग में योगियों के वेश की विस्तृत चर्चा है, किन्तु धीरे-धीरे, सम्भवतः

१. टेखा पुरुष चले सब हारी, अथ कित मिले जवाहिर वारी।
अथ सब ढीन्हें छिटकाई, खेह जान सर खेह चढ़ाई ॥
ढीन्ह बहाय तुरी और वागा, लीन्ह सम्हार पन्य वैरागा।
वख फार मेला गर कन्या, खेल नथो तय सोचो पन्या।
लीन लकुटिया भा वैरागी, चुटुकी प्रेम दरग की लागी।
छाड़ राजभोग तजि दीना, सप्पर फेंक भीरु कर लीना।
देखि जोत भइ सुमिरन सोई, भावे वही न भावे कोई।

कासिमशाह हंसजवाहिर पृ० ११२।

२. लुक अंजन कजरवटी काठी, टेह चहु माह भई तत्र ठाठी।
गोखनवी ज्ञानदीप।
३. जोगी नहिं यानन पतिआइय, जह देखीत ह नार अटाइय।
जोगी छलत फिरहि ससारा, हाय धधारि लाइ मुच धारा।
गंसनवी ज्ञानदीप।

समाज पर सिद्धों एवं योगियों के प्रभाव के कम होने के साथ ही सूफी प्रेमाख्यानों में भी इनकी चर्चा उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई। जान कवि ने इसकी चर्चा नहीं के बराबर की है। कवि नूरमुहम्मद ने भी शीघ्र ही इस प्रसंग को निवटाने का प्रयास किया है। अली मुराद, शेखनिसार, शेखरहीम, शेखनबी एवं शेख नसीर ने भी योगी वेश वर्णन पर ध्यान नहीं दिया है, किन्तु इन सभी कवियों ने साधक के जोगी होकर गृहत्याग की चर्चा अवश्य की है। शेख निसार एवं शेखनसीर 'यूसुफ जुलेखा' के कुरान से सम्बन्धित प्रेमाख्यान होने के कारण अवश्य ऐसा नहीं कर सके हैं।

योगियों की वेषभूषा का साधक के स्वरूप के लिये रुढ़ हो जाना कोई अनहोनी बात नहीं है। कबीरदास के अनेक पदों में, सूरदास के भ्रमरगीत प्रसंग में भी योगियों के वेश की चर्चा हुई है। कबीरदास ने एक स्थल पर उसी योगी को योगी कहना उचित समझा था जो इन चिन्हों को अन्तर में धारण करता है^१। इस प्रकार इन चिन्हों की नवीन व्याख्या भी कबीर के समय से ही आरम्भ हो गई थी। बाद के जिन सूफी कवियों ने योगी वेश की विस्तृत चर्चा नहीं की है, उन्होंने किन्हीं विशेष वस्तुओं के चमत्कार एवं प्रभाव का वर्णन अवश्य किया है जिनमें लुकअंजन, गोटिका, लकुटिया एवं जन्त्र का वर्णन विशेष है।

सूफी प्रेमाख्यानों में जहा योगी के वेश का वर्णन नायक के साधक स्वरूप के चित्रण में किया गया है, वहीं साधना की उत्कृष्टता के उपमान स्वरूप गोरखनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ एवं गोपीनाथ का उल्लेख हुआ है। कहा जाता है कि मत्स्येन्द्रनाथ सिंहल की सुन्दर नारियों के मध्य अपनी योग साधना से भ्रष्ट हो गये थे और फिर उनके शिष्य गोरखनाथ ने उन्हें चेतावनी दी थी, किन्तु इन्द्रावती का सौन्दर्य ऐसा मोहक है कि मत्स्येन्द्रनाथ के साथ ही गोरखनाथ भी अपना योग विस्मृत कर बैठे^२। इसी प्रकार जब मालिन राजकुंवर का वर्णन इन्द्रावती को सुनाती है तो वह कहती है कि राजकुंवर के योगी वेश की सराहना सहज नहीं है। वह दूसरे गोपीचन्द्र की भाँति ही श्रांत होता है^३।

वाम मार्ग के त्याग की चर्चा भी इन प्रेमाख्यानों में है^४। वास्तव में ये सूफी कवि

१. सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस ना करहैं निद्रा।

मन में आसण मन में रहणां, मन का जप तप मन सूं कहयां।

मन में षपरा मन में सींगी, अनहद नाद बजावै रंगी।

पंच प्रजारि भसम करि भूका, कहै कबीर सो लहसै लंका।

कबीर ग्रन्थावली पद २०६ पृ० १२५।

२. जाकी चितवन भये वेहाथा, नाथ मुछ्ण्ण्डर गोरखनाथा।

नूरमुहम्मद . इन्द्रावती पृ० ४३।

३. जोगी भेय न सकउ सराही, गोपीचन्द्र दूसरो आही।

नूरमुहम्मद . इन्द्रावती पृ० ४६।

४. कहा शब्द तुम दाहिन लेऊ, वयें पन्थ पाउँ जिन देऊ।

कासिमशाह हंस जवाहिर पृ० १४२।

अपनी साधना-पद्धति में नाथ पंथियों के हठयोग से अधिक प्रभावित थे। शास्त्रग्रन्थों में हठयोग साधारणतः प्राण निरोध प्रधान साधना को ही कहते हैं। सिद्ध-सिद्धान्त-पद्धति में 'ह' का अर्थ सूर्य वतलाया गया है और 'ठ' का अर्थ चन्द्र। सूर्य और चन्द्र के योग को ही 'हठयोग' कहते हैं—

हकारः कथितः सूर्यंष्टकारश्चन्द्र उच्यते ।
सूर्याचन्द्रमर्षोयोगात् हठयोगी निगधते ॥

इस श्लोक की कही हुई बात की व्याख्या नाना भाव से हो सकती है। ब्रह्मानन्द के मत से 'सूर्य' से तात्पर्य प्राणवायु का है और चन्द्र से अपानवायु का। इन दोनों का योग अर्थात् प्राणायाम से वायु का निरोध करना ही हठयोग है। दूसरी व्याख्या यह है कि सूर्य इडा नाड़ी को कहते हैं और चन्द्र पिंगला को (हठ० ३१५) इसलिये इडा और पिंगला नाड़ियों को रोककर सुषुम्णा मार्ग से प्राणवायु के संचरित करने को भी हठयोग कहते हैं। हठयोग का एक अर्थ यह भी जान पड़ता है कि इस प्रकार अभ्यास किया जाय जिससे हठात् सिद्धि मिल जाने की आशा हो जाय। हठयोग शब्द का शायद सबसे पुराना उल्लेख गुह्य समाज में आता है। वहा बोधिप्राप्ति की विधि बता लेने के बाद आचार्य ने बताया है कि यदि ऐसा करने पर भी बोधि-प्राप्ति न हो तो 'हठयोग' का आश्रय लेना चाहिये^१।

हठयोग के दो भेदों की चर्चा योगस्वरोदय में है। प्रथम में आसन, प्राणायाम, धोति आदि पटकर्म का विधान है जिससे नाड़िया शुद्ध होकर परमानन्द प्राप्त करती हैं। दूसरे भेद में नासिका के अग्र भाग में दृष्टि निबद्ध करके, आकाश में कोटि सूर्य के प्रकाश को स्मरण करना चाहिये। ऐसा करने से साधक चिरायु एवं ज्योतिर्मय होकर शिवरूप हो जाता है। हठयोग के इन दोनों ही भेदों की चर्चा इन सूफी प्रेमाख्यानों में होती है, किन्तु कहीं भी निश्चित क्रम एवं पूर्ण नियम साधन की चर्चा पृथक् से हो, ऐसा नहीं है।

ये कवि बहुश्रुत ज्ञात होते हैं। करामातों एवं चमत्कार में विश्वास करने के कारण इनका संघर्ष नाथपंथी हठयोगियों से अवश्य हुआ होगा अतः अपने प्रतिद्वन्दी के उत्कृष्ट तत्त्वों को अपने साधना मार्ग में स्थान देकर इन सूफियों ने बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। हठयोगियों की यौगिक क्रियाओं से इनका प्रभावित होना स्वाभाविक था।

हंस जवाहिर ग्रन्थ के रचयिता कासिमजाह ने स्पष्ट लिखा है कि यदि हम रूपी साधक जवाहिर रूपी सिद्धि को निश्चय ही प्राप्त करना चाहता है, तो उसे योगसाधना करनी पड़ेगी। योग साधना के अन्तर्गत वह दृढ आमन, दृढ निद्रा, दृढ काम, एवं दृढ तूषा को आवश्यक मानता है। जब इस प्रकार की कष्ट साधना में साधक सफल हो जाय और साथ ही ज्योति विन्दु का एकाग्र चिन् में ध्यान करता हुआ उभय इतना नत्लीन हो जाय कि उसे अपने अस्तित्व का भी ध्यान न रहे, तब ही इस विरट संतप्त काया, एन

ध्यानवद्ध मन को परमज्योति का दर्शन-लाभ सम्भव है ^१ । इसी प्रकार नूरमुहम्मद ने भी इन्द्रावती में सूक्ष्माहार को योग साफल्य की कुन्जी माना है । इस तप एवं व्रत के पश्चात् ही ज्योति-विन्दु का दर्शन सम्भव है ^२ । धरेंड संहिता में भी योग-साधना के लिये चार बातें आवश्यक मानी गई हैं, प्रथम योग्य स्थान, द्वितीय विहित समय, तृतीय मिताहार और चतुर्थ नाड़ी शुद्ध । वास्तव में योगी के निवासस्थान एवं आहार का उसकी साधना पर विशेष प्रभाव पड़ता है । धरेंड संहिता एवं नूरमुहम्मद के 'इन्द्रावती' ग्रन्थ में वर्णित विचारों में बहुत साम्य है । धरेंड संहिता में जहा स्थान, समय, आहार एवं नाड़ी के सम्बन्ध में कथन है वही स्पष्ट रूप से मिताहार का महत्व भी स्वीकार किया गया है—

मिताहारं विनायस्तु योगारम्भ तु कारयेत् ।

नानारोगा भवन्त्यस्य किञ्चिद्योगो न सिद्ध्यति ॥

योग-साधना की सफलता के लिये दृढ आसन का महत्व भी कुछ कम नहीं है । पातंजलि योग दर्शन के अनुसार 'स्थिरसुखमासनम्' अर्थात् निश्चल होकर एक ही स्थिति में निरकाल तक बैठने का अभ्यास ही आसन है ^३ । आसन सिद्ध हो जाने के पश्चात् शरीर पर शीतोष्णादिक द्वन्द्वों का प्रभाव नहीं पड़ना तथा शरीर में सब प्रकार की पीडा संहने की शक्ति का विकास हो जाता है । शिवसंहिता में चौरासी प्रकार के आसनों की चर्चा है, पद्मासन, वीरासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, दंडासन, मयूरासन आदि प्रसिद्ध आसन हैं । सूफी साहित्य में जहाँ कहीं भी आसनों की चर्चा आई है वहा पद्मासन का उल्लेख अधिक है । गोरक्ष पद्धति में भी कमलासन एवं सिद्धासन का विशेष महत्व वर्णित है—

आसनेभ्यः समस्तेभ्यो द्वयोतदुदाहृतम् ।

एकं सिद्धासनं प्रोक्तं द्वितीयं कमलासनम् ॥

पद्मासन में बाई जंघा पर दाहिने पैर को रखकर बायें पैर को दाहिनी जंघा पर रखा जाता है । दोनों पैरों की एडिया नाभि के दोनों पार्श्वों में लगी रहती हैं और जानु

१. जो तों चहहि जवाहिर लीन्हा, तू कर योग गुरु जस कीन्हा ।

कहू योग की योगाचारी, ठाड़ किया आखों दुख भारी ।

दृढ़ आसन दृढ़ निद्रा होऊ, दृढ़ ही बुधा दृढ़ काम न छोडू ।

यह चारों का आसन मारयो, वह सु मिरौ तव आप बिसारयो ।

देखो तारे लाय निहारी, हियरे मारु जोत उजियारी ।

ध्यान वाध मन ताहि ते काया बिरडा जाय ।

तत्र पावस वह हेरतू, जब तू जाय दिराय ॥

नासमसाह हसजवाहिर पृष्ठ ११६ ।

२. उदर भरे घर जोत न होई, खाय मनाक जोरोर सोई ।

जोत एरु तारा सम आगे, दिधि परत देखेउ अनुरागे ॥

नूरमुहम्मद इन्द्रावती पृ० २६, २८ ।

३. पातंजलि योग दर्शन, पाठ २ सूत्र ४६ ।

पृथ्वी को स्पर्श किये रहते हैं। पृष्ठ भाग से दोनों हाथों को ले जाकर वायें हाथ से वायें पैर का अंगूठा और दाहिने हाथ से माधक दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ता है। जलन्धर बन्ध लगाकर साधक दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखता है। इस आसन के अभ्यास से तथा जिह्वा को उलटकर जिह्वामूल में ले जाने से खेचरी मुद्रा सिद्ध होती है। इस आसन से कुण्डलिनि महाशक्ति जाग्रत होती है तथा सुपुम्ना नाड़ी सीधी रहती है^१।

अली मुराद ने आसनों में केवल एक पद्मासन का उल्लेख किया है, किन्तु आसन की मुद्रा का विस्तृत उल्लेख नहीं है^२। अजपा जाप और पद्मासन इन दोनों का बहुत महत्व है। इन्हीं के द्वारा सुपुम्ना नाड़ी सीधी रहती है। कंठस्थ विशुद्ध चक्र में स्थापित होकर क्रमशः साधक को वास्तविक तत्व ज्ञान की उपलब्धि होती है। अज्ञानान्धकार मिट कर उसे ज्योति लाभ होती है^३।

आसन के पश्चात् प्राणायाम की साधना होती है। प्राणायाम साधना से मन नियन्त्रित होता है। गोरक्ष पद्धति में 'हंस' नामक अजपा गायत्री मन्त्र की चर्चा है जिसके अनु-सार 'ह' कार के साथ प्राणवायु बाहर आता है और 'स' कार के साथ भीतर जाता है।

‘हकारेण बर्हिंयाति सकारेण विशेषन्पुनः।

हंस हंसेत्युमुमत्र जीवो जपति सर्वदा’।

हठयोगी प्राणवायु का निरोध करके कुण्डलिनी को उद्बुद्ध करता है। यही उद्बुद्ध कुण्डली पटचक्रों का भेद करती हुई, सातवें अन्तिम चक्र सहस्रार में शिव से मिलती है। प्राणवायु ही इस उद्बोध एवं शक्ति संगमन का हेतु है। यही कारण है कि हठयोग में प्राण निरोध का बड़ा महत्व है। अली मुराद ने अपने प्रन्थ कुंवरवात में प्राण निरोध की इस क्रिया का उल्लेख किया है। श्वास प्रश्वास के क्रमशः निरोध के द्वारा साधक को चाहिये कि श्वास को शीर्षस्थान में ले जाय। श्वास के शीर्षस्थान पर स्थित हो जाने से नियुग्य का गान, शिव का संगम सहज हो जाता है^४।

१. सुन्दर दर्शन पृ० ३६, डॉ० त्रिलोकीनारायण दीक्षित।

२. पद्मासन गहि होरी नात्रै, मद्र विरडा की गारी।
अली मुराद मांह मन भायो, निमटिन वाही पै चारी।

३ सुखेमना और नरकटी, अनुभव मग्नि - ल जाय।
अजपा जाप और पद्मासन मत्र हिरटे लहराय ॥
अलीमुराद ५ वगवत।

४ सासा का तुम सीस चदायां, घडी घडी बाहर मिनरायां।

×

×

सासा ले चल सीस पर बंठा निर्गुन नाय।

अलीमुराद ' कुंवरवात।

कुण्डलिनी के उद्बुध एवं प्राणवायु के स्थिर हो जाने पर साधक शून्य पथ से निरन्तर अनहद नाद को सुनने लगता है जो निखिल ब्रह्मानन्द में अखण्ड रूप से निरन्तर ध्वनित हो रहा है। योग शास्त्र में नाद दश प्रकार के कहे गये हैं। हठयोग प्रदीपिका में इन प्रकारों का क्रमशः समुद्रगर्जन, मेघगर्जन, भेरी, मर्मर, मर्दलध्वनि, शंखध्वनि, घंटा ध्वनि, काहल ध्वनि, किंकिणी ध्वनि, वंशीध्वनि तथा वीणाभङ्कार के रूप में उल्लेख है^१।

अनहद नाद के दस प्रकारों का उल्लेख कवि निसार ने 'यूसुफ जुलेखा' में किया है^२। किन्तु यह केवल संकेत मात्र है। उसमें अनहद के इन दस प्रकारों का नामकरण एवं विशेष विवरण नहीं दिया गया है। कवि मंभन ने अनहद नाद का केवल उल्लेखमात्र किया है। कुँवर मनोहर ने 'मधुमालति' के दर्शनार्थ गोरखनाथ के उपदिष्ट मार्ग को ग्रहण कर लिया। दर्शन की एकनिष्ठ लालसा के कारण सहज ही अनहद नाद ध्वनित होने लगा^३। अलीमुराद ने अनहद नाद की चर्चा छत्तीसों राग में की है। त्रिकुटी के आशा चक्र में ध्यानावस्थित होकर तथा पाचों काम, क्रोध, मद मोह और लोभ नामक विरोधी तत्वों को परास्त करके साधक अनहद नाद का श्रवण करता है। इस अनहद नाद को छत्तीसों राग के द्वारा भी कवि रिभाने का प्रयास करना चाहता है^४। विकारों की यही पाच संख्या निर्गुण धारा के सन्तों को भी मान्य हैं। कवि नूरमुहम्मद ने चार विकार केवल काम, क्रोध, तृणा एवं माया का ही उल्लेख किया है। इस शरीर में ये चार विकार चार पक्षियों की भाँति हैं जो तत्व तत्व चुन लेते हैं, साथ ही यह विरोधी शक्तियाँ इतनी

१. आदौ जलिधि जीमूत, भेरी भर्भर सभवा।
मध्ये मर्दल शखोत्या घंटा काहल जास्तथा।
अन्तेतु किंकिणी वंशी वीणा भ्रमर नि स्वना।
इति नाना विधा नादा श्रुते देहमध्यगा ॥

हठयोग प्रदीपिका उप० ४।

२. सुने सचन सब कोऊ, अनहद दस प्रकार।
ताकर रूप न देखें, कारण कवन विचार।

कवि निसार यूसुफ जुलेखा।

३. दरसन लाभ इह सब कीन्हंसि, मग गोरख जा जाग।
वर दरमन स्यां ले उपराजी, सहज अनाहत ककरी वाजी ॥

मधुमालत मंभन।

४. त्रिकुटी वीच में टेरा डारौ, बड़े भूत हैं पाचों मारौ।
अनहद से मैं ध्यान लगाऊ, छत्तीसों राग सुनाय लुभाऊ।

अली मुराद कु वरावत।

प्रबल है कि दमन करने पर भी सहज ही नष्ट नहीं होती^१। अंतस्साधना के वर्णन में हठ-योग में हृदय को दर्पण भी कहा गया है। कवि उसमान ने इस हृदयदर्पण के महत्त्व को स्पष्ट किया है। हृदयदर्पण की शुद्धि के द्वारा ही सिद्धों ने भी अपना अभीष्ट लाभ किया था। इसी दर्पण में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड समाया हुआ है। गुरु प्रदत्त दीक्षा के द्वारा जिसने अपने हृदय दर्पण को शुद्ध कर लिया है, उसे तीनों लोक इसी दर्पण में दृष्टिगोचर हो जाते हैं^२।

साधक की चार जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीयावस्था का उल्लेख भी कवि निसार ने यूसुफ जुलेखा के अन्तर्गत किया है^३।

सूफी स्फुट साहित्य रचयिताओं के पदों में भी हठयोग साधना की यथेष्ट चर्चा रहती है, किन्तु कवि अब्दुलसमद ने सूर्य और चन्द्र, प्राणवायु और अपानवायु, इडा और पिंगला नाड़ियों के निरोध, तत्पश्चात् अनहद ध्वनि, 'सो हं' का अभ्यास, तदन्तर केवल एक उसी की अवस्थिति आदि का क्रम से वर्णन किया है।

'एकाग्रचित्त से ध्यान धारणा के पश्चात् सूर्य एवं चन्द्र, इडा एवं पिंगला नाड़ियों को उद्बुद्ध करके सुषुम्ना मार्ग से ले जाने का प्रयास साधक को करना चाहिये। इस क्रिया में सफल होने पर साधक निरन्तर अनहदध्वनि का श्रवण करता है। ज्यों ज्यों साधक का चित्त स्थिर होता जाता है और 'सो हं' का जाप पूर्ण होता जाता है, साधक का पृथक अस्तित्व मिट जाता है, फिर उसे अनहदध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ती, उसकी सम्पूर्णा चेतनायें विस्मृत होकर केवल एक 'वही' अवशिष्ट रह जाता है^४।'

१. सुर मों काम क्रोध अधिकार्ह, तिस्ना माया कर अगुवाई।
चार पलेरु तेहि तन माहीं, चारों चारा नित उड़ि जाहीं।
रेत भीउं चारों कर प्यारी, मरि कै जिथई होहि गुन धारी।

नूरसुहम्मद इन्द्रावती, पृष्ठ २१।

२. यह दरपन तुम लेहु सम्हारी, जेहि मंह देखहु दरस पिचारी।
येही मुकुर सिद्धन कर गहा, मन की इच्छ इसी मधि चहा।
चौदह भुवन रहहि मन माहीं, तिल समान कळ वाहर नाहीं।
नैन होइ गुरु अंजन आजा, दरपन होइ नीक करि माजा।
जह लग धरती सरग पतारु, परें दृष्टि सत्र वाच न चारु।

कवि उसमान चित्रावली पृ० १०२।

३. ना वह मरे, न मिटे न होई, अपर मरम न जाने कोई।
जाग्रत, सपन, सुषुप्ति याजा, पुनि तुरीया मह श्राय विराजा।

कवि निसार यूसुफ जुलेखा।

४. जैसे तक्त थिलार्ह मृत्ता. ऐसे ताक लगार्ह।
उननिर्नी की चन्दा उये, चाड सुरज ये वोजु हचे।
मुन्टर मूरत शब्द ज्ञान की, अनहद सट्ट सुनार्ह।
अनहद मिटी ज्ञान मिट जावे, सोह पूरन जप फिर थावे।
या से ज्ञान कहा कही मस्ता, पुरु ही पुरु लगार्ह।

अर्लीमुराद।

इस शरीर में आत्मा का निवास है जिसका दर्शन (आत्म-दर्शन) करना प्रत्येक साधक का कर्तव्य है। सात पटों (चर्म, रुधिर, मास, मद, अस्थि, मज्जा, वीर्य) के आवरण में वह आत्मा इस प्रकार आवृत है कि उसका सहज ही दर्शन सम्भव नहीं है। वारह मन्दिर [१० इन्द्रिय (५ कर्मेन्द्रिय ५ ज्ञानेन्द्रिय) मन और बुद्धि] में वह आत्मा स्थित है। उस मन्दिर में तेरह द्वार हैं जिनमें से नौ द्वार, दो नेत्र, दो कर्ण छिद्र, मुख, मूत्रद्वार, मलद्वार नित्य खुले रहते हैं जिनके कारण मनुष्य संसार में लिप्त रहकर आत्मज्ञान से दूर रहता है। यदि वह दशम द्वार ब्रह्मरन्ध्र को उन्मुक्त करे तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। 'नूरसुहम्मद' के इस कथन में और योग साधना में साम्य है। दश द्वार के स्थान पर कवि ने तेरह द्वार लिखा है किन्तु उनका उल्लेख नहीं किया है ^१।

सूफी प्रेमाख्यानों में नायिका के निवासस्थान की चर्चा करते समय कवियों ने 'कविलास, या कैलास' शब्द का प्रयोग किया है। नायिका ही सिद्धि है जिसकी प्राप्ति साधक या नायक का उद्देश्य है। कविलास या कैलास वह चरमभूमि है जहाँ तक पहुँचना साधक का ध्येय है। हठयोग साधना में भी उद्बुद्ध कुराडलिनी को सहस्रार तक पहुँचाना साधक का लक्ष्य होता है। यही सहस्रार इस पिण्ड का कैलाश है, यहीं पर शिव का निवास है। बहुत सम्भव है कि हठयोग की इस शिव, और कैलाश की भावना से प्रेरित हो सूफी कवियों ने परमेश्वर के स्वरूप नायिका के निवासस्थान के लिये कविलास एवं कैलास शब्दों का प्रयोग किया है, जो वास्तव में हठयोग का शिव स्थान कैलास

१. सात अन्तर पट भीतर सोई, रहत न देखत आखिन्ह कोई ।
वारह मन्दिर मों वह प्यारी, रहत सदा है सेज सवारी ।

×

×

है मन्दिर मों तेरह द्वारा, नौ द्वारा नित रहत उधारा ।

बाय तेज जल पृथ्वी, मानहुँ कैयक ठाउ ।

वारह मन्दिर संवारा, जगपत जाको नाउ ॥

×

×

दसई द्वार न खोलत कोई, तव खोलै जव मरमी होई ।

×

×

श्रात्रु उघारेउ दसई द्वारा, त्रिस्टि परा वह प्रीतम प्यारा ।

नूरसुहम्मद इन्द्रावती ।

है १ । कहीं कहीं पर कैलास शब्द स्वर्ग का समानार्थी होकर भी प्रयुक्त हुआ है २ ।

सिद्धों एवं तान्त्रिक प्रयोगों की दृष्टि से प्रसिद्ध स्थानों की चर्चा भी इन सूफ़ी प्रेमाख्यानों में है । शेखनवी कृत 'ज्ञान दीप' ग्रन्थ में 'हिगंलाज' पर्वत का उल्लेख है जो कराची से तेरहवीं मंजिल पर तान्त्रिक प्रयोग का प्रसिद्ध स्थान है । इस पर्वत पर एक देवी का मन्दिर भी है, 'ज्ञानद्वीप' के साधना-गुरु सिद्धनाथ ने यहीं सिद्धि प्राप्त की थी ३ । इसी प्रकार कासिमशाह ने अपने ग्रन्थ 'हंस जवाहिर' में आसाम प्रदेश में स्थित कामाख्या देवी के पूजन का भी उल्लेख किया है ४ ।

सूफ़ी साधना में गुरु की श्रेष्ठता एवं महत्व भी सम्भवतः भारतीय प्रभाव के कारण है । बिना 'पीर' की कृपा के सिद्धि प्राप्ति असम्भव है । श्वेताश्वर एवं मन्डूकोपनिषद् में गुरु-महात्म्य की चर्चा है । सिद्धों एवं नाथों की साधना में गुरु की अनिवार्यता मान्य थी । मध्यकालीन धर्म साधनाओं में गुरु-महात्म्य की प्रचुर चर्चा है । तुलसीदास एवं कबीरदास सभी गुरु कृपा की आकांक्षा करते हैं । सूफ़ी साधना में मुरीद की शेख के प्रति श्रद्धा श्रद्धा की भावना को सर्व प्रथम अलहुज्विरी ने महत्व दिया था । हुज्विरी भारत आया था, बहुत सम्भव है कि उसने यहाँ के धार्मिक सम्प्रदायों के सम्पर्क में आकर ही गुरु महात्म्य की भावना को दृढ़ किया हो ।

१. वाजन वाजे कोटि पचासा, भा अनन्द सगरोँ कैलासा ।

सात खण्ड उपर कविलासु, तहवोँ नारि सेज सुख बासु ॥

जायसी पद्मावत, रत्नसेन पद्मावती विवाह खण्ड,
पद्मावती रत्नसेन भेट खण्ड ।

आगमपुर कविलास भकारा, फागुन श्राद्ध अनन्द पसारा ।

नूरसुहम्मद • इन्द्रावती पृ० ३४ ।

करत जो कौतुक खेल सय, नखत सखी चहुँ पास ।

लये सो भाभिनी दुलहका, गई मामु कैलास ॥

बरतू का कैलास अनूपा, धचरज रैन मामु जनु धूपा ।

कासिमशाह हंस जवाहिर पृ० ८६ ।

२. झाड पिता जो जगत बर, छोड़ दीन्ह कैलास ।

लीने तिरिया के मते, नारद मिटा सुवास ।

हंसजवाहिर कासिमशाह पृ० १६६ ।

३. हिगुलाज जीत मा प्रेसि जांगु, चित्रकूट तीज बेटेठ भांगु ।

इसी दुशार न न्बोलइ, क्रियत जो ताली बन्द ।

अनी अधार नाम विधि, जग धंधा सब धंध ॥

शेखनवी ज्ञानदीप ।

४. नेया तहें मन्दप उजियारा, कन्चन लीप राप रत्नारा ।

तहें भूनि कामिग्या केरी, पूजे राय राय और केरी ॥

कासिमशाह हंसजवाहिर पृ० १६६ ।

तात्पर्य यह कि सूफियों की साधना-पद्धति पर भारतीय विचारधारा का प्रभाव कई रूपों में स्पष्ट दिख पड़ता है।

सूफ़ी साधना और प्रेम :

मानवीय अन्तर्वृत्तियों में रति भाव अथवा काम का महत्वपूर्ण स्थान है। काम की गणना चार पुरुषार्थों के अन्तर्गत की गई है। वस्तुतः काम-भावना का प्रसार सम्पूर्ण जीवन में किसी न किसी रूप में बना ही रहता है। आहार, परिग्रह एवं सन्तान मनुष्य की तीन प्रधान इच्छाएँ हैं। 'काममयः येवायं पुरुषः', 'चित्तं वै वासानात्मकम्' के अतिरिक्त 'काममयः' एवं 'इच्छामयः' ऐसी उक्तियों से काम के महत्व की पुष्टि होती है। रति भावना आत्म-विस्तार का एक साधन मात्र है। आहार, परिग्रह और सन्तान, के मूल में यही आत्म-विस्तार की भावना प्रधान रहती है। अपनी भिन्न ऐषणाओं की परितृप्ति के द्वारा मानव सदैव सुख प्राप्त करना चाहता है।

काम भावना को ही जैन दर्शन में 'मैथुन' बौद्ध दर्शन में 'काम तुष्णा' तथा चरक संहिता में 'प्राणौषणा' कहा गया है। ज्ञानेन्द्रियों के तदनुकूल विषयों के अनुभव की इच्छा को ही कामसूत्र में 'कामसामान्य' कहा गया है। काम की व्यापकता सर्वमान्य है।

काम की दो भावार्थों^१ वस्तुतः उसके दो भिन्न स्वरूपों का परिचय देती हैं। 'रति' और 'प्रीति' में द्वेष और कलहगत सम्बन्ध नहीं है। वह दोनों सगोत्रीय एवं एक दूसरे की पूरक हैं। रति का सम्बन्ध शारीरिक तृप्ति एवं प्रीति का मानसिक संतोष से है। मनुष्य की कोमल वृत्तियों का सम्बन्ध अधिकांशतः इसी रति भावना से है। प्रेम, प्रीति, श्रद्धा, कृष्णा, दया, क्षमा, भक्ति, स्नेह, वात्सल्य, सौहार्द आदि का आधार रति भावना है। प्रेम भावना के लिए विशिष्ट गुणों, सौन्दर्य एवं लावण्य आदि आकर्षणों की अपेक्षा नहीं। प्रेम स्वतः सामान्य का विशेषीकरण है। प्रेमी की सारी भावनायें, वासनायें एक व्यक्ति विशेष पर केन्द्रित होती हैं, जिसकी हर सामान्य वस्तु भी उसे विशेष ज्ञात होती है। प्रेम की कोई निश्चित परिभाषा देना कठिन है। सम्भवतः यही कारण है कि देवर्षि नारद से लेकर अन्य आधुनिक मर्मज्ञों ने भी इसे सदैव अनिर्वचनीय ठहराने की चेष्टा की है। प्रेम को अनिर्वचनीय मानते हुए भी उसके व्यावहारिक रूप का परिचय देने की चेष्टा बराबर की जाती रही है। 'प्रेम' शब्द का साधारणतः अर्थ उस आनन्दमयी अनुभूति से होता है जो किसी व्यक्ति विशेष के रूप, गुण आदि के सान्निध्य से प्रेमी को प्राप्त होती है। प्रेम की इस परिभाषा के अन्तर्गत किसी वस्तु, देश या भावना के प्रति प्रदर्शित किये जाने वाले प्रेम का परिचय नहीं आता। प्रेम भाव के अन्तर्गत रति या राग का वह-स्वरूप आता है जो अभिमत वस्तु की ओर आकृष्ट होकर सदैव अप्रतिहत गति से उसी ओर प्रवाहित होने की चेष्टा करता है। यह भावना मनुष्येतर जगत में भी नैसर्गिक रूप में

१. कामरथ द्वे भागै रतिश्च प्रीतिश्च ।

पाई जाती है। इस प्रकृति को कभी-कभी 'वासना' समझने का भ्रम भी होना रहा है। इसी वासना को प्रायः सभी देश और काल में सृष्टि के उद्भव और विकास के मूल में स्वीकार किया गया है।

इतना होते हुये भी काम और प्रेम में अन्तर है। प्रेम का सम्मान सर्वदा सर्वत्र होता आया है। वहीं 'काम' का उल्लेख केवल एक वासना के रूप में होता रहा है। वस्तुतः इन दोनों में अन्तर भी है। 'काम' वासना का सम्बन्ध स्थूल शरीर तथा शारीरिक क्रियाओं से होता है और वह उन्हीं के उपभोग से कुछ काल के लिये सन्तुष्ट भी हो जाता है। काम एक प्रकार की वह चाह या अभिलाषा है जो अधिकांश स्वार्थपरक हुआ करती है। उसमें स्वयं सुख-लाभ की इच्छा सर्वोपरि होती है, दूसरे के हित का ध्यान नहीं हुआ करता। इसके विपरीत प्रेम का आधार मानसिक या हृदयपरक होता है तथा उसकी तीव्रता में एकरसता रहती है। इसमें मानव भावना का समावेश नहीं होता। काम की इन्द्रियासक्ति का परिष्कार करके ही उसके स्थान पर प्रेम का मनोहर पुष्प विकसित किया जा सकता है^१।

'काम' शब्द के साथ हीनत्व की भावना का सम्बन्ध आरम्भ से ही नहीं है। इसका 'इन्द्रियपरक वासना' के अर्थ में प्रयोग बहुत बाद में आरम्भ हुआ। वैदिक काल में 'काम' शब्द का एक अर्थ प्रेम भी था। इसके अतिरिक्त भी, काम का प्रयोग अधिक व्यापक और अधिकांशतः कामना के अर्थ में होता रहा। इसी कारण 'पूर्ण कामना मुक्त' पुरुष को निकाम भी कहा गया है। 'कामस्तदग्रे समवर्त्तताधि मनसोरेत' प्रथमं यदासीत्' में इस शब्द का प्रयोग वस्तुतः इसी व्यापक अर्थ में हुआ है, कालांतर में इसका प्रयोग संकुचित होता गया। कामसूत्र में पञ्च ज्ञानेन्द्रिय जनिन सुख के अनुभव की लालसा को ही काम सामान्य कहा गया है। काम में कामात्पद पदार्थ के प्रति अत्यधिक आसक्ति एवं आत्म-तृप्ति की भावना का लक्ष्य होता है। प्रेम में भी आसक्ति और कामना का प्रचुर अंश वर्तमान रहता है किन्तु काम और प्रेम का प्रधान अन्तर आत्मतृप्ति तथा आत्मसमर्पण में निहित है। प्रेमी अपनी प्रिय वस्तु को आत्मसात् कर लेने की अपेक्षा स्वयं को तद्रूप बनाने का प्रयास करता है।

शुद्ध प्रेम अहेतुक अर्थात् विना किसी स्वार्थपरक इच्छा के होता है। प्रेम का किसी विशेष गुण से सम्बन्ध नहीं होता, वह तो सामान्य को भी विशिष्ट बना देता है। किसी विशेष गुण या सौंदर्य के आधार पर उत्पन्न हुआ प्रेम गुण के अभाव में नष्ट भी हो जाता है तथा उससे अधिक या उसके समान अन्य रूप गुण स्वभाववाली उत्कृष्ट वस्तु के प्रति पुनः जाग्रत हो सकता है। अतः वह अहेतुक और एकरस प्रेम नहीं हो सकता जिसे

1. 'It is not until lust is expanded and eradicated that it develops into the exquisite and enthralling flower of love'.

हृदय की एक निश्चयात्मक प्रवृत्ति कहा जा सके। उसे केवल वासना विकृत लोभ की संज्ञा ही दी जा सकती है जिसमें वासना प्रधान होती है। वासना की तृप्ति व्यक्ति के प्रति उपेक्षा अथवा घृणा का भाव उत्पन्न करती है। शारीरिक तृप्ति के पश्चात् व्यक्ति का महत्व क्षीण हो जाता है किन्तु प्रीति उत्तरोत्तर विकसित, प्रगाढ और गम्भीर होती जाती है। प्रेम की स्थिरता का कारण प्रेमी की लगन, उसका सहज स्वभाव, उसकी भाव प्रवणता तथा भावुकता होती है। प्रेम सदा एक अविच्छिन्न धारा की भाँति प्रवाहित होता रहता है। उसमें क्षीणता उत्पन्न न होकर निरन्तर वृद्धि होती रहती है^१। प्रेमी प्रिय के रूप में प्रिय-सम्बन्ध-जनित अपनी आत्म-भावना से प्रेम करता है। प्रिय के माध्यम से उसे अपने व्यक्तित्व के प्रसार का अवसर प्राप्त होता है। निरन्तर प्रिय-चिन्तन में मग्न रहने के कारण प्रेमी को सदा प्रिय साभिध्य का अनुभव, दर्शन तथा साक्षात् हुआ करता है। वह केवल प्रिय का दर्शन करता, उसी के मधुर वचनों को सुनता, उसी की चर्चा और चिन्तन में लगा रहता है^२। प्रिय प्रेमी के रोम-रोम में व्याप्त हो जाता है। वह स्वयं न रहकर तदैव हो जाता है। उसकी मनोवृत्तियों का उन्नयन ही नहीं होता वरन् उसके सम्पूर्ण जीवन में ही आमूल परिवर्तन हो जाता है।

केन्द्रगत आकर्षण प्रेम है। उसमें कोई दुराव, द्विविधा और संकोच का स्थान नहीं। व्यक्तित्व अपने सीमित क्षेत्र को छोड़कर व्यापकत्व को प्राप्त करता है, 'पर' भी 'स्व' हो जाता है। आत्म-प्रसार का दूसरा स्वरूप प्रेम है।

जीवन में प्रेम की व्यापक महत्ता के कारण ही सम्भवतः साहित्य में भी उसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हिन्दी काव्य में प्रेमव्यञ्जना के विविध स्वरूप उपलब्ध होते हैं। वीर गाथा काल की प्रेमव्यञ्जना पूर्णरूपेण लौकिक है, साथ ही नायक के वीरत्व एवं दर्प के समक्ष उसका गौण स्थान है। वास्तव में प्रेम की अलौकिकता का आरम्भ 'श्रीमद्भागवत' में प्रतिपादित रागानुरागा भक्ति के द्वारा होता है। मध्यकाल में 'प्रेम साधना' सम्पूर्ण भारत एवं हिन्दी साहित्य में किसी न किसी रूप में स्थिति थी। दक्षिण भारत में आडवार भक्त, बंगाल में वाउल साधक प्रेम के रहस्यात्मक आनन्दमय स्वरूप को उद्घाटन कर रहे थे। जयदेव का 'गीतगोविन्द' विद्यापति की पदावली एवं कृष्ण-भक्तों के रससिक्त पद प्रेम के अलौकिक स्वरूप को प्रखर कर रहे थे। राजस्थान की शुष्क भूमि मीरा के प्रेमगीतों से रस-प्लावित हो गई। सम्पूर्ण उत्तरी भारत में वैष्णवों की प्रेम साधना व्याप्त थी। ऐसे ही समय में सूफियों ने अपने प्रवचनों में जिस प्रेम का परिचय दिया वह नवीन होते हुये भी आकर्षक था। पूर्ण रूप से अलौकिक होते हुये भी लौकिक था। मध्य युग में 'प्रेमभावना' के दो प्रमुख रूप देखने को प्राप्त होते हैं। एक का

१. गुण रहित कामना रहित प्रतिक्षणवर्धमानविच्छिन्नं सूक्ष्मतरमनुभव रूपम्।
नारद० भ० सू० २४।

२. तत्प्राप्य तदेवावलोक्यति तदेव शृणोति, तदेव भाषयति, तदेव चिन्तयति।
ना० म० सू० २५।

सम्बन्ध राधाकृष्ण की लीला से है जो उपासनात्मक है और दूसरा पूर्णरूप से रहस्यात्मक, जिसका सम्बन्ध सूफी साधना से है।

भागवत भक्तों का प्रेम उस 'परोक्ष' सत्ता से था जिसका नागर रूप उन्हें मान्य था। कृष्ण एवं राधा के जिस प्रेम का वर्णन वैष्णव सम्प्रदाय की सहजिया साधना में मिलता है वह शुद्ध लौकिक है। उसमें अलौकिकत्व का समावेश पात्रों की अलौकिकता के कारण होता है। यदि राधा कृष्ण से सम्बन्धित प्रेम व्यञ्जना में राधा एवं कृष्ण का नाम हटाकर किसी अन्य नायक या नायिका का नाम रख दिया जाय तो वह केवल लौकिक प्रेम का प्रदर्शन होगा।

कवीर आदि निगुण सन्तों ने 'परोक्ष' के प्रति प्रेम प्रदर्शन में गुह्यता का समावेश कर दिया। अलौकिक पात्र राम पर लौकिक सम्बन्ध (पति एवं पत्नी) की स्थापना करके कवि साध्य एवं साधक का परिचय देना चाहता है। इस प्रेम पद्धति में प्रिय एवं प्रेमी का सम्मिलन किसी भूमि पर न होकर महत्प्रदल कमल पर होता है। 'सनी' एवं 'सूरमा' इस प्रेम के प्रतीक हैं। ये प्रेम पथ पर नीव्रता से अग्रसर होते एवं प्रेम मार्ग में स्वयं को नष्ट कर देते हैं। इस प्रेम व्यञ्जना में वासना या शारीरिक लिप्ता के किसी स्वरूप का दर्शन नहीं होता। यह शुद्ध शुष्क एवं गुह्य प्रेम है जिसकी व्यञ्जना परोक्ष के प्रति हुई है किन्तु उसमें किसी लौकिक व्यापार का आरोप नहीं होता।

सूफियों का प्रेम 'प्रच्छन्न' के प्रति है। सूफी अपनी प्रेम व्यञ्जना साधारण नायक नायिका के रूप में करते हैं। प्रसंग सामान्य प्रेम का ही रहता है किन्तु उसका संकेत 'परमप्रेम' का होता है। बीच बीच में आनेवाले रहस्यात्मक स्थल इन सारे संसार में उसी की स्थिति सूचित करते हैं साथ ही सारी सृष्टि को उस एक से मिलने के लिये आतुर चित्रित करते हैं। लौकिक एवं अलौकिक प्रेम दोनों साथ साथ चलते हैं। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की योजना होती है। वैष्णव भक्तों की भांति इनकी प्रेम व्यञ्जना के पात्र अलौकिक नहीं होते। लौकिक पात्रों के मध्य लौकिक प्रेम की व्यञ्जना करते हुये भी अलौकिक की स्थापना करने का दुर्ग प्रयास इन सूफी प्रबन्ध काव्यों में सफल है।

वीरगायाकालीन प्रेम व्यञ्जना सामान्य रति भाव की व्यञ्जना है। वही रति भाव भक्ति काल में अलौकिकत्व को प्राप्त हो दिव्य बन गया। रीति काल में उस रति का वर्णन शुद्ध कामवृत्ति के रूप में हुआ। इस काल में रति के शुद्ध लौकिक रूप का प्रस्फुटन हुआ। सूफियों की प्रेम व्यञ्जना इसी पृष्ठभूमि में स्पष्ट होती है।

प्रेमी एवं प्रेमाधार के पारस्परिक संबन्धानुसार प्रेम का रूप कुछ भिन्न भिन्न हो सकता है। प्रेम-पात्र की स्थिति यदि प्रेमी की अपेक्षा अधिक ऊँचे स्तर की हो तो उसके प्रति श्रद्धा एवं यदि निम्नस्तर की हो तो उसके प्रति स्नेह भाव जाग्रत होता है। इसी प्रकार समान वय एवं वर्गवाले व्यक्तियों के मध्य इन प्रेम का सर्वथा पृथक स्वरूप प्रकट होता है। दो मित्रों या पति पत्नी के मध्य व्यक्त होने वाला भाव नैर्दार् या धनिष्ठ प्रेम होता है।

सम वय एव वर्गवाले व्यक्तियों के मध्य स्थित प्रेम या माधुर्य भाव के कई स्वरूप साहित्य में उपलब्ध होने हैं।

हो गया और उसने सोचा कि जब यह मनुष्य जो उसका केवल प्रतिविम्ब मात्र है इतना अधिक सुन्दर है तो वह जो सबका रचयिता है, कितना सुन्दर होगा और वह इसी भावना से व्याकुल हो परम रूप का वियोगी, प्रेमी होकर चल पड़ा। इस सृष्टि का कारण 'प्रेम' है। प्रेम के वशीभूत हो परमसत्ता ने सृष्टि की रचना की। प्रेम और रूप का अनन्य सम्बन्ध है। जिस प्रकार रूप से प्रेम को प्रेरणा मिलती है उसी प्रकार रूप और प्रेम के उद्भूत हो जाने पर विरह का अनुभव होना स्वाभाविक है। कवि उसमान इन्हीं तत्वों को सृष्टि का मूल मानते हैं और इन्हीं तीनों के वर्णन से उनकी कथा अत्यंत प्रोत है^१।

सूफियों ने प्रिय के सौन्दर्यमय रूप की कल्पना 'मधुवाला' या साझी के रूप में की है जो अपनी रूप की मदिरा से जगत में प्रेम उकसाती है। उसके रूप सौन्दर्य का पान करके यह निश्चित है कि प्राणी सुधनुष खोकर 'बावला' या मतवाला हो जाय। इसी तथ्य को कवि इस प्रकार व्यक्त करना है कि उस सुन्दरी वाला के हाथ में सुराही एवं प्याला है। वह तुम्हें मदपान कराके सारी चिन्ताओं से मुक्त मतवाला बना देगी^२। इस जीवन में उसकी रूपमाधुरी पान किये बिना जीवन व्यर्थ है। नूरमुहम्मद एवं अली मुराद दोनों ने ही इस मदिरा का परिचय दिया है^३। वैसे अधरामृत की चर्चा तो लगभग सभी कवियों ने की है।

१. आदि प्रेम विधि ने उपराजा, प्रेमहि लाग जगत सब साजा।

प्रेम किरन ससि रूप जेऊं, पानि प्रेम जिमि हेम।

एहि विधि जह जह जानियहु, जहाँ रूप तह प्रेम ॥

रूप प्रेम मिलि जो सुख पावा, दुनहु मिलि विरहा उपजावा।

जहाँ प्रेम तह विरहा जानहु, विरह बात जन लघु करै मानहु।

जहि तन प्रेम आग सुलगाई, विरह पौन होइ दे सुलगाई।

रूप प्रेम विरहा जगत, मूल सृष्टि के यम्भ।

हौं तीनहु के भेद कहु, कथा करौं थारम्भ ॥

उसमान चित्रावली पृ० १३, १४।

२. है धन हाथ सुराही प्याला, है मद तुम्हें करै मतवाला।

नूरमुहम्मद इन्शावती।

३. मोरे कलवरिया की टार अगूरी, जिन पीवतहीं चढयो वह सूरी।

एक बूँद वह जिनका पियाओ, पल भर मा कैलास चढायो।

अलीमुराद कुंवरावत।

है मद अपने हाथ सों, पियऊ देखि सुख तोर।

चाहसि तो मद मोल ले, प्राण पियारा मोर ॥

बिना कट्मरीर के पिए, रास न मन सों जात।

दयावती होइ दीजिए, होलिक लागी प्रात ॥

नूरमुहम्मद इन्शावती पृ० ७८, ३४।

प्रेम का आलम्बन वह परम सौन्दर्यशाली परममत्ता है, और आश्रय जीवात्मा, जो परमात्मा से विह्वल कर सदैव दुखी रहा करती है। पहले जीवात्मा और परमात्मा में भेद न था किन्तु जगत में उत्पन्न होकर दोनों में विछोह हो गया। यही कारण है कि उसे परमात्मा के सौन्दर्य का आभास मात्र होते ही उसके मुक्त प्रेम की यह चिनगारी यदि हृदय में मुलग गई तो बुद्धि एवं तर्क नष्ट हो जाता है^१। प्रेम की अग्नि सुलगते ही सारे संशय तर्क एवं जिज्ञासा शान्त हो जाती है और प्रेम-मार्ग प्रशस्त हो जाता है^२।

प्रेम जिस प्रकार बरबस उत्पन्न होता है, उसी प्रकार सच्चे प्रेम की लगन भी बरबस बढ़ती जाती है। प्रेम की निश्चयात्मकता के कारण प्रिय प्राप्ति की दुरूहता, या प्रयास के कष्ट, त्याग एवं आपा मिटाने की भावना दृढ़ होती जाती है। प्रिय के साक्षात्कार के अतिरिक्त प्रेमी की और कोई अभिलाषा नहीं होती। स्वर्ग या नरक, सुख भोग या कष्ट ऐसी विरोधी भावनाओं के सन्तुलन में वह अपना समय नष्ट नहीं करता। उसका साध्य केवल प्रिय प्राप्ति होता है। वह जीवन की या किसी अन्य वस्तु की आकांक्षा नहीं करता यही कारण है कि अन्तरायों के उपस्थित होने पर अथवा जीवन के सुख ऐश्वर्यों का लोभ उपस्थित होने पर वह पथविचलित नहीं होता। राजकुंवर 'इन्द्रावती' में इसी प्रकार अपने प्रेम की एकाग्रता का परिचय देता है। 'जिसके प्रेम ने मुझे बावला बना दिया है, जिम्मे मुझे सुख ऐश्वर्य से विमुक्त कर दिया है उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं^३।' पद्मावत में ऐसी ही निष्काम भावना का अनुभव करके राजा रत्नसेन समुद्र के बीच भी मग्न हो रहा था^४।

१. प्रेम अग्नि मन में उदगरी, तारों टारु बुद्धि कर जारी।

प्रेम आग के चाँटे, मेघा भयो मलिन।

सूर किरिन के आगे, है मयक दुति हीन।

नूरमुहम्मद इन्द्रावती।

२. भूला सयै जगत का धन्धा, पढ़े जो श्रान प्रेम का फन्दा।

फासिमशाह हंसजवाहिर पृ० ७२।

३. प्रेम जेहिक मोहि थाउरी, कीन्ह छाँड़ियेउ राज।

सो प्यारी है प्रान जिउ, है तारों मोहि काज।

नूरमुहम्मद : इन्द्रावती पृष्ठ ८२।

४. नाहीं सरग क चाहों राज, ना मोहि नरक सेवति किट्टु कानू।

चाहों ओहिकर दरसन पावा, जेहू मोहि आनि प्रेम पय लावा।

जायसी . पद्मावत।

दुविधा का मग छाँड़ि के, एक पय तू मात्र।

कै निन जेउ जवाहिग, है स्त्री दर राज।

फासिमशाह हंसजवाहिर, पृ ७३।

सच्चा प्रेम एक बार उत्पन्न होकर निरन्तर बढ़ता जाता है। आरम्भ में प्रेमानुभूति आनन्द-दायक होती है किन्तु विरह होते ही जिन कष्टों का सामना करना पड़ता है वे प्रेम मार्ग को अत्यन्त दुरूह बना देते हैं। प्रेम मार्ग की दुरूहता उसकी गति अवरुद्ध करने में असमर्थ होती है। तीन सौ सत्तर मन सिर पर बोझ रखकर एक पैर से चलना जितना कठिन है उतना ही कठिन प्रेम मार्ग पर अग्रसर होना है^१।

प्रेम मार्ग के पथिक को जीवन का मोह भी विचलित नहीं कर सकता। वह तो प्रेम मार्ग में प्रवेश करने के पूर्व ही 'सीस उतारे भुइ धरे तब पैठे घर माहि' का प्रण पूरा कर चुका होता है। 'इन्द्रावती' को प्राप्त करने के लिये पहले समुद्र से प्रणमोती निकालना आवश्यक था जिसके प्रयास में बहुत से व्यक्ति प्राण गंवा चुके थे अतः लोगों ने 'इन्द्रावती' के सिर पाप का बोझ रख कार्य की दुरूहता समझाने का प्रयास किया तो साधक राजकुंवर का एक ही उत्तर था कि यह सब दोष साधक की अयोग्यता का है। पतंग स्वभावतः दीपक का सान्निध्य प्राप्त करना चाहता है। यदि इस प्रयास में पतंग का पृथक अस्तित्व नष्ट हो जाय तो दीपक का क्या दोष?।

जो कोई भी प्रेम-पथ पर अग्रसर होता है वह अपने पृथक अस्तित्व एवं अहंत्व की चाह नहीं रखता। उसका एक मात्र लक्ष्य मरण या 'नफ्स' का नाश होता है। अतिशय कष्ट, सूली यातना सहने पर भी वह प्रिय का स्मरण करता एवं उससे विरत नहीं होता है,^३ मन्सूर आदि इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं।

बिना आपा खोये प्रिय प्राप्ति असम्भव है^५।

अहं की ममता के अतिरिक्त प्रिय की महानता साधक को प्रेम-मार्ग से भी यदा कदा विरत करती है। लोक दृष्टि भी राजा रंक के प्रेम सम्बन्ध की अवहेलना करती है

१. सत्तर सिर मन तीनसै, पांच एक सैं जाहि।
प्रेमी को दुरस देव सो, प्रेम पन्थ यह आहि।

नूरसुहम्मद इन्द्रावती पृष्ठ ४४।

२. करत न हत्या आप वह, इन्द्रावति रमनीय।
दीपक कहत पतंग सों, मो पर दे तें जीय ॥

नूरसुहम्मद इन्द्रावती, पृष्ठ ५३।

३. प्रेम विधा पर जो लुबुधाना, चाहै मरन न चाहै प्रान।
सूरी उपर देह जो, तबहुं न छाडे नाम।
प्रेम पन्थ का पन्थिक, कहा चाहै विसराम।

कामिमशाह हम्जनाहि।

४. कठिन प्रेम विरह धन होई, है नर वही जो आपा खोई।
पहले प्रेम की भाँ डारों, बैरी पाँच भूत हँ मारों।

अलीमुराद उ घरावन।

किन्तु साधक ऐसी शंका का निवारण कर लेता है। उत्तम का ध्यान करने से मनुष्य की भावनार्यें उच्च होती हैं। निम्नतम भावनाओं का भी आलम्बन मदान होने पर उन भावनाओं का परिष्कार एवं उन्नयन होता है^१। प्लैटो ने अपने ग्रन्थ 'सिम्योलियम' में भावनाओं के परिष्कार की यही भावना व्यक्त की है।

चन्द्रमा और चक्रोर, सूर्य और कमल, कमल और मधुकर की प्रीति की सभी सराहना करते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का साम्य नहीं है, फिर जीवात्मा और परमात्मा जो वास्तव में एक रूप हैं, के प्रेम में असंगति का प्रश्न ही नहीं उठता^२।

प्रेम के उत्पन्न हो जाने पर संसार का सारा ज्ञान उसके सम्मुख तुच्छ हो जाता है। जब जीव का गुरु प्रेम हो जाता है तो वेद और पुराण, ज्ञान और कर्मकाण्ड अपना महत्व खो बैठते हैं। प्रेम के ज्ञान से चित्त में जो प्रकाश होता है उसके सम्मुख जगत ज्ञान तुच्छ है। प्रेममद में उन्मत्त कभी चेतना प्राप्त नहीं करता, जानियों की वहाँ कोई गति नहीं, प्रेम-रोग राज-रोग है जो घटने की अपेक्षा निरन्तर बढ़ता रहता है^३।

यह सारा संसार प्रीति एवं दया के वशीभूत है। प्रीति के फन्दे ने सारे संसार को फँसा रक्खा है^४। नूरमुहम्मद की भाँति शेख रहीम भी प्रेम और दया को कर्मकाण्ड और ज्ञान से श्रेष्ठ समझते हैं। यदि दया और प्रेम का स्थान हृदय में नहीं है तो हृदय कंकड़ के समान मृत्यहीन है। जब दया प्रेम का निवास हृदय में हो जाता है तो वहाँ

१. कहा कुँवर उत्तम के नेहा, टाँज जगत लहे यह दहा।
उत्तम ध्यान धरै मन डरपन, निर्मल होइ शिलोकें दरसन।
नूरमुहम्मद अनुराग वामुरी पृ० १६८।

२. कहाँ चँड कहै रहहु चक्रोरा, प्रीत लाग चितवत तेहि शोरा।
श्री अरविन्द रहै जल माहीं, रवि मेघन तेहि जोग नाहीं।
दादुर कवल सनह न पायै, बन गो मधुकर तेहि नित धायै।
नूरमुहम्मद . इन्द्रावती पृ० ४४।

३. जेहि के हृदय प्रेम परफाया, का तेहि बुद्धि ज्ञान की आया।
प्रेम गुरु का जो भा चिला, वेद पुरान जिन लें मला।
प्रेम बाबला भयो न चगा, ज्ञानिग फेर तहाँ मति भंगा।
जगत ज्ञान तेहि धागे घेरा, प्रेम ज्ञान चित कर उनेरा।
प्रेम का ज्ञान जनत ते न्याता, निग्याय प्रेम-ज्ञान गुन सारा।
शब्द रत्नान : प्रेमरस्य।

४. प्रीति दया नम है संसारा प्रीति फौद मय फौदनिहारा।
नूरमुहम्मद . अनुराग वामुरी पृ० ११०।

सच्चा प्रेम एक बार उत्पन्न होकर निरन्तर बढ़ता जाता है। आरम्भ में प्रेमानुभूति आनन्द-दायक होती है किन्तु विरह होते ही जिन कष्टों का सामना करना पड़ता है वे प्रेम मार्ग को अत्यन्त दुरूह बना देते हैं। प्रेम मार्ग की दुरूहता उसकी गति अवरुद्ध करने में असमर्थ होती है। तीन सौ सत्तर मन सिर पर बोझ रखकर एक पैर से चलना जितना कठिन है उतना ही कठिन प्रेम मार्ग पर अग्रसर होना है^१।

प्रेम मार्ग के पथिक को जीवन का मोह भी विचलित नहीं कर सकता। वह तो प्रेम मार्ग में प्रवेश करने के पूर्व ही 'सीस उतारे भुइ धरे तब पैठे घर माहि' का प्रण पूरा कर चुका होता है। 'इन्द्रावती' को प्राप्त करने के लिये पहले समुद्र से प्रणमोती निकालना आवश्यक था जिसके प्रयास में बहुत से व्यक्ति प्राण गंवा चुके थे अतः लोगों ने 'इन्द्रावती' के सिर पाप का बोझ रख कार्य की दुरूहता समझाने का प्रयास किया तो साधक राजकुंवर का एरु ही उत्तर था कि यह सब दोष साधक की अयोग्यता का है। पतंग स्वभावतः दीपक का सान्निध्य प्राप्त करना चाहता है। यदि इस प्रयास में पतंग का पृथक अस्तित्व नष्ट हो जाय तो दीपक का क्या दोष?

जो कोई भी प्रेम-पथ पर अग्रसर होता है वह अपने पृथक अस्तित्व एवं अहंत्व की चाह नहीं रखता। उसका एक मात्र लक्ष्य मरण या 'नफ्स' का नाश होता है। अतिशय कष्ट, सूली यातना सहने पर भी वह प्रिय का स्मरण करता एवं उससे विरत नहीं होता है,^३ मन्सूर आदि इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं।

बिना आपा खोये प्रिय प्राप्ति असम्भव है^५।

अहं की ममता के अतिरिक्त प्रिय की महानता साधक को प्रेम-मार्ग से भी यदा कदा विरत करती है। लोक दृष्टि भी राजा रंक के प्रेम सम्बन्ध की अवहेलना करती है

१. सत्तर सिर मन तीनसै, पांच एक से जाहि।

प्रेमी को दुख देव सो, प्रेम पन्थ यह आहि।

नूरमुहम्मद इन्द्रावती पृष्ठ ४४।

२. करत न हल्या आप वह, इन्द्रावति रमनीय।

दीपक कहत पतंग सो, मो पर टे तें जीय ॥

नूरमुहम्मद इन्द्रावती, पृष्ठ ८३।

३. प्रेम विधा पर जो लुबुधाना, चाहै मरन न चाहै प्राना।

सूरी उपर टेह जो, तबहुं न छाडे नाम।

प्रेम पन्थ का पन्थिक, कहा चहै बिसराम।

कागिमशाह हमजवाहिर।

४. कठिन प्रेम विरह धन होई, है नर वही जो आपा सोई।

पहले प्रेम की भाँ डारौं, बैरी पाँच भूत हँ मारौं।

अलीमुराद तु चरावत।

है १। निरन्तर स्मरण के फलस्वरूप वह एक दिन पानी में वनारो की भोंति बुलकर मिल जाता है। साधक खुदी को छोड़ खुदा बन जाता है।

सूफी प्रेम को सब कुछ मान, अन्य भावों की उपेक्षा करने हैं। वे भली भोंति जानते हैं कि प्रेम सब रसों का मूल है। एक सूफी का उद्गार है 'अगर इश्क न होता, इन्तजाम आलमे मूरन न पकड़ता। टश्क के वगैर जिन्दगी क्या है। टश्क को दिल दे देना कमाल है। इश्क बनाता है टश्क जलाता है। दुनिया में जो कुछ है टश्क का जलवा है। आग इश्क की गर्मी है। हवा इश्क की वेचैनी है। पानी इश्क की रफतार है। साक इश्क का क़याम है। मौन इश्क की वेहोशी है। जिन्दगी इश्क की होशियारी है। रात इश्क की नींद है। दिन इश्क का जागना है। मुस्लिम इश्क का जमाल है। काफिर इश्क का जलाल है। नेकी इश्क की कुरवत है। गुनाह इश्क में दूरी है। विहिश्त इश्क का शौक है। दोस्त इश्क का जौक है' २। तात्पर्य यह कि सूफियों के लिए इश्क ही सब कुछ है।

इश्क या प्रेम ही इस जगत का सार है, सूफियों का विश्वास है कि प्रेम का मार्ग सत्य का मार्ग है। जिम हृदय में प्रेम का निवास है वह काबा एवं कैलाश की भांति पुनीत है। प्रेम में हीन हृदय पत्थर है ३। प्रेमी ही उस परम ज्योति को प्राप्त कर सकता है यद्यपि उसे इस प्राप्ति के हेतु शरीरगत के नियमों का पालन भी करना पड़ेगा, किन्तु उसके हृदय में प्रेम भावना होना सर्वाधिक आवश्यक है ४।

प्रेम का आविर्भाव प्रत्येक हृदय में नहीं होता। वह हृदय धन्य है जिसमें प्रेम की चिनगी सुलगाती है। प्रेमजान किसी सौभाग्यशाली के हृदय में ही जाग्रत होता है ५। जिस प्रकार प्र-येक मयकण मोती नहीं बन पाता उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में प्रेम एवं विरह की ज्योति प्रकाशित नहीं होती ६। सूफी साहित्य में विरह का बड़ा महत्व है। प्रेम

१ प्रेम पीर जो भीतर होई, सुमिरि सुमिरि सो निज दिन रोई।

जेन्वरहीम प्रेमरस।

२ तयचुकुफ़ अथवा सूफीमत श्री चन्द्रवली पाण्डेय।

३. दया नहीं तो मन है साकर, प्रेम नही नी मन है साकर।

दया प्रेम जब हिने लमाई, मन आपन कारा होई जाई ॥

दया प्रेम जेहि मन यमे, सो साया ईलायन।

अन्तरजामी शाय ख, करे हांए पर वान ॥

जेम रहीम प्रेमरस।

४ प्रेमी गोज़ लेउ बह जोती, पांच दन्द चटि पायो ददनी।

जेम रहीम प्रेमरस

५. प्रेम ज्ञान हरि रूप देखावे धन्य सुजात बेहि के चि।

जेम रहीम - प्रेमरस

६ सरग बूंद सय हाँहि न मोती, सय घट विरह टर्द नहि जोती।

कवि नमून - मरुमानन

अन्तर्यामी की प्रतिष्ठा स्वयं हो जाती है। हृदय कावा एवं कैलाश के समान पवित्र हो जाता है १।

कर्मकाण्ड, मक्के जाना, हज्ज करना या नमाज पढने में उठना बैठना सब बेकार है। यदि हृदय और शरीर का साम्य नहीं, यदि शुद्ध हृदय से निरन्तर परमसत्ता का ध्यान नहीं किया जाता तो परमेश्वर की अनुकम्पा प्राप्त नहीं हो सकती। निरे कर्मकाण्ड में रत व्यक्ति खरीदार की भँति है जो किसी मूल्य पर कर्ता को क्रय नहीं कर सकते, अर्थात् उसे प्राप्त नहीं कर सकते २।

ज्ञान ध्यान, जप तप, संयम नियम सबका महत्व प्रेम के सम्मुख तुच्छ है संसार में वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो प्रेम का प्रतिपालन करता है ३। प्रेम का स्थान सर्वोच्च है, यदि सच्चा प्रेम हो सके। प्रेम की भावना गंगा के समान पवित्र है जिसकी प्राप्ति से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ४।

सूफी सदैव हृदय शुद्धि या कल्ब के परिमार्जन का ध्यान रखते हैं और भावना को तर्क की अपेक्षा श्रेष्ठ समझते हैं। वे सारे कर्मकाण्ड, कर्मव्य, भावना या बुद्धि विलास को त्यागकर हृदय में निरन्तर उसका ध्यान किया करते हैं। हृदय में वही मूर्ति को वे कणकण में व्याप्त देखते हैं। हृदय और नैन की मूर्ति में कोई अन्तर नहीं होता ५। सर्वत्र उसी की छवि देखकर साधक की प्रेम भावना उदीप्त हुआ करती है। उसकी प्रेम की पीर बढ़ती रहती

१. दया नहीं तो मन है काकर, प्रेमनगर की मग है साकर।

दया प्रेम जब हिये समार्ह, मन आपन काबा होइ जाई।

दया प्रेम जेहि हिय बसे, सो काबा कैलास।

अन्तरजामी आप ख, करे हीए पर बास ॥

शेख रहीम प्रेमरस।

२. मक्के गये हज्ज कर आये, कपटी मन फिर सगे लाये।

मक्के और मदीने जावे, खरीदार ख का ना पावे।

शेख रहीम प्रेमरस।

३. ज्ञान ध्यान मठिम सबै, जप तप सजम नेम।

मान सो उम जगत जन, जो प्रतिपारै प्रेम ॥

उसमान चित्रावली पृ० २३६।

४. उचा बैठक प्रेम का, जो रहीम सत होय।

सो पावै मशय नहीं, जाग पाप सब धोय ॥

शेख रहीम प्रेमरस।

५. जब एह मूरति हिए समानी, दूसर कहा बिलोकै ज्ञानी।

जो मन बीच नैन मां सोई, वहा लगे भल दूसर कोई ॥

नूरमुहम्मद अतुराग वांसुरी पृ० १३४।

है १। निरन्तर स्मरण के फलस्वरूप वह एक दिन पानी में वताशे की भाँति बुलकर निल जाता है। नाथक खुदी को छोड़ खुदा बन जाता है।

सूफी प्रेम को सब कुछ मान, अन्य भावों की उपेक्षा करने है। वे भली भाँति जानते हैं कि प्रेम सब रसों का मूल है। एक सूफी का उद्गार है 'अगर इश्क न होता, इन्तजाम आलमे मूरन न पकड़ता। इश्क के बगैर जिन्दगी बवाल है। इश्क को दिल दे देना कमाल है। इश्क बनाता है इश्क जलाना है। दुनिया में जो कुछ है इश्क का जलवा है। आग इश्क की गर्मी है। हवा इश्क की बेचैनी है। पानी इश्क की रपतार है। खाक इश्क का क़याम है। मोन इश्क की बेहोशी है। जिन्दगी इश्क की होशियारी है। रान इश्क की नींद है। दिन इश्क का जागना है। मुस्लिम इश्क का जमाल है। काफिर इश्क का जलाल है। नेकी इश्क की कुरबत है। गुनाह इश्क में दूरी है। बिदिश्त इश्क का शौक है। दोनरा इश्क का जौक है' १। तात्पर्य यह कि सूफियों के लिए इश्क ही सब कुछ है।

इश्क या प्रेम ही इस जगत का सार है, सूफियों का विश्वास है कि प्रेम का मार्ग सत्य का मार्ग है। जिस हृदय में प्रेम का निवास है वह कावा एदं कैलाश की भाँति पुनीत है। प्रेम में हीन हृदय पत्थर है ३। प्रेमी ही उस परम ज्योति को प्राप्त कर सकता है यद्यपि उसे इस प्राप्ति के हेतु शरीरगत के नियमों का पालन भी करना पड़ेगा, किन्तु उसके हृदय में प्रेम भावना होना सर्वाधिक आवश्यक है ५।

प्रेम का आविर्भाव प्रत्येक हृदय में नहीं होता। वह हृदय धन्य है जिसमें प्रेम की चिनगी सुलगती है। प्रेमजान किसी सौभाग्यशाली के हृदय में ही जाग्रत होता है ५। जिस प्रकार प्रत्येक मेवकण मोती नहीं बन पाता उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में प्रेम एवं विरह की ज्योति प्रकाशित नहीं होती ६। सूफी साहित्य में विरह का बड़ा महत्व है। प्रेम

१. प्रेम पीर जो भीतर होई, सुमिरि सुमिरि मो निश दिन रोई।

गैररहीम प्रेमरस।

२. तपनुफ अथवा सूफीमत श्री चन्द्रवर्ती पाडेय।

३. क्या नहीं तो मन है कायर, प्रेम नगरी की मग है मारर।
दया प्रेम जय हिरे समार्ई, मन प्यपन कारा होइ जाई ॥

क्या प्रेम जेहि मन अये, मो काया फैलाय।

अन्तरजामी थाप रय, करे हाँप पर वास ॥

गैर रहीम प्रेमरस।

४. प्रेमी गोज लेठ वह जाती, पाच गन्ठ चदि पारो उदती।

गैर रहीम प्रेमरस

५. प्रेम ज्ञान हरि रूप देगाई, धन्य सुभाग नेहि के चि अयाई।

गैर रहीम प्रेमरस

६. मरग यूद मय होंहि न मोती, मय घट विरह दई नाई जोती।

कवि संकन मनुनाकत

तीव्र, गम्भीर एवं अहेतुक होने के साथ ही त्याग एवं समर्पण की भावना से युक्त होता है। जो प्रेम के मार्ग में प्राणों का भी त्याग कर सके वही सच्चा प्रेमी है ^१। कबीर की भाँति कवि मंमन भी स्वीकार करते हैं कि जिस व्यक्ति में अपना सीस उतार कर हाथ में लेने की सामर्थ्य हो, वही इस मार्ग पर अग्रसर हो सकता है ^२। कुल की लज्जा, चित्त की अस्थिरता आदि प्रेम मार्ग की बाधाएँ हैं। प्रेमी को प्रिय प्राप्ति के हेतु इन सभी वस्तुओं का त्याग करके, केवल प्रिय स्वरूप का चिन्तन एवं तद्रूप बनने की चेष्टा करनी उचित है ^३।

प्रेम और रूप का चिर सम्बन्ध है। सूफ़ी प्रेम कथाओं में प्रेम का आर्विभाव रूप-दर्शन या गुण-श्रवण से हुआ है। यह रूप-दर्शन स्वप्न में चित्र, फलक में, या कभी कभी साक्षात् दर्शन के रूप में भी हुआ है। रूप और प्रेम के इस अविच्छिन्न सम्बन्ध का भी एक रहस्य है। मनुष्य, जिसे इन कवियों ने सौन्दर्य का आधार माना है, ईश्वर या खुदा की प्रतिच्छवि है ^४। उसके सौन्दर्य पर मोहित होना, कर्ता के अनिर्वचनीय रूप की वलिहारी जाना है। ज्ञात के माध्यम से अज्ञात का दर्शन लाभ ही इस प्रेम की महानता है। यही कारण है कि सूफ़ी मतावलम्बी दृशक मजाजी की अवहेलना नहीं करते। लोकप्रेम उपेक्षणीय नहीं है, त्याज्य है लौकिकता एवं सासारिकता। कवि नसीर कृत ग्रन्थ 'प्रेमदर्पण' में यूसुफ के अद्वितीय सौन्दर्य को देखकर सौदागर की पुत्री में स्वभावतः उसके रचयिता का परिचय पाने

१. प्रान दीन्ह पुनि प्रेम न त्याग, उनका कही सत्त अनुरागा ।

शेष रहीम भाषा प्रेमरस ।

जेहि प्रान प्यारी के अमी भरे अवरान ।

ता पगु रज के उपर वारो आपन प्रान ।

नूरमुहम्मद इन्द्रावती पृ० ६६ ।

२. प्रथमहिं सीस हाथ कै लिये , पाछे यह मारग पगु डिये ॥

मधुमालत मंमन ।

३. कह माजिन जोखम है वाता , जिन जिउ डिये दरस को पाता ।

दरम आस बहुतन जिउ खोवा, जिन चाहा सो छुन छुन रोवा ।

दरस लाग त्यागो कुल लाजा , होउ निलज तो सवरे काजा ।

दरस आस दुविआ मन त्यागो , होए निरानर मारग लागो ।

दरस आस यह काया जारो , दरम आस से तन मन मारो ।

जो तुम लोभी दरम के , मंघ धरौं, तेहि केर ।

जिना भेख धारन किये , दरम डार है फेर ।

शेष रहीम भाषा प्रेमरस ।

४. देखो निरस परख मोहि काया , मैं कत अहो, अहो बह दया ।

कासिमशाह हंमजवाहिर पृ० १२१ ।

की जिज्ञासा जाग उठी थी १। इस जिज्ञासा की शान्ति शेरर रहीम ने बड़ी सफलता से की है। 'मानव सौन्दर्य परमेश्वर के अनन्त सौन्दर्य का परिचय उसी प्रकार देता है जिस प्रकार कि मूर्ति की सुन्दरता कलाकार की कुशलता का परिचय देती है। निष्कर्ष यह कि इस सुन्दर सृष्टि का निर्माणकर्ता परमेश्वर अद्वितीय है। सौन्दर्य, शक्ति एवं गील में कोई उसका उपमान नहीं, अतः उसकी आराधना ही श्रेय है। इस प्रकार सृष्टियों का प्रेम परमप्रेम प्राप्ति का सोपान है। लौकिक प्रेम में भी सूफियों ने अलौकिकत्व का समावेश किया है। भावनाओं का उच्च आधार या आलम्बन ही भावनाओं को उच्च एवं महान बनाता है। हृदय की इच्छाओं एवं भावनाओं को, उसे समर्पित कर देने में ही उनका परिमार्जन एवं उन्नयन हो जाता है। कवि नूरमुहम्मद ने तथ्य की व्याख्या की है। राजकुंवर, चेता मालिन से कहता है कि, 'यद्यपि मैं जोगी हूँ, किन्तु प्रेम पत्न्य का जोगी होने के कारण उन्मि की ही भीम्य ग्रहण करता हूँ।' सत्य है, जिसके हृदय में महान व्यक्ति का प्रेम है वही व्यक्ति ऊँचा है। जो नीचों से स्नेह करता है वही नीच है २।

सूफियों के प्रेमादर्श, शमा और परवाने, दीपक और पतंगे की चर्चा भी विशेष होती है। यह सत्य है कि सूफी काव्य में दीपक और पतंगे का रूपक, अधिक प्रयुक्त हुआ है किन्तु उनमें 'प्रिय का प्रेमी को जलाने का मन्व्य व्यञ्जित नहीं है। परमज्योति स्वल्प परमात्मा दीपक की लौ के समान ज्योतिर्मय एवं एकरस है, उसकी आकाशा पतंगे को जलाने की नहीं होती। पतंगे की जलन के द्वारा मावक के प्रेम की तीव्रता का प्रदर्शन होना रहा है। अनगिनती पतंगों को दीपक के चतुर्दिक प्राण गवाये हुए देखकर भी पतंगा निराश नहीं होता। वह जीवन का मोह छोड़कर, अपना पृथक अस्तित्व त्यागने को प्रस्तुत हो, परमसत्ता में अवस्थित होने के हेतु अप्रसर होता है। यह 'बन्ध' ही उनके जीवन का लक्ष्य है। सूफी साहित्य में प्रेम के बहुप्रयुक्त रूपकों में चकोर और चन्द्रमा, कमल और सूर्य, गुलाब और भ्रमर, राग और हिरण मुख्य हैं। इन रूपकों से प्रेम के भिन्न गुणों एवं स्वरूपों का ही परिचय मिलता है। चकोर और चन्द्र, कमल एवं सूर्य के रूप

१ अचरज रूप अति तोर मनोहर, देवत के जिया जाय।

कौन है इहकर मिरजनहाग, दियो न मोहि बताय।

कवि नसीर प्रेमदर्पण।

२ शम मूरत सुन्दर जिन राधा, रचनहार तेहि कर उपराजा।

मूरत मा रचि थापन राखी, मूरत देत शक्ति की नाखी।

लौ लगाय शम ग्यान बिचारा, नय ते सुघर एक करतारा।

नोव रहोम - भाशा प्रेमस्य।

३. हों जोगी पे उक्ति भीन्वा, प्रेम पाह माने मैं लीन्वा।

तेहि मन उंच उंच भा मोह तेहि मन नीच नीच मो होई।

नूरमुहम्मद : इन्द्रायनी पृ० ४२

स्पष्ट करते हैं कि काल, स्थान एवं स्तर का अन्तर प्रेम में मान्य नहीं है ^१ । गुलाब और भ्रमर में आकर्षण प्रधान है, जबकि राग और हिरण का रूपक तन्मयता, तल्लीनता तथा समर्पण का आदर्श है ।

वास्तव में सूफी सिद्धान्त के अनुसार जीव और परमात्मा में पारमार्थिक अन्तर नहीं है । परमात्मा और जीव का सम्बन्ध अति प्राचीन है । कवि मन्मन जीव और परमात्मा के इस प्रेम सम्बन्ध को स्पष्ट स्वीकार करते हैं ^२ । आत्मा और परमात्मा, पृथ्वी और गगन पहले एक थे, तभी तो विलग होने के बाद से जगत का कण-कण उससे मिलने को आतुर है । सारा संसार उसके विरह से पीड़ित है ^३ ।

१ कहां चँद कहीं रहहु चकोरा, प्रीत लाग चितवत तेहि ओरा ।

औ अरविन्द रहै जल माहीं, रवि सेवत तेहि जोगे नाहीं ।

दूर देस की दिष्ट सों, है समीप गुन मूर ।

बिना नैन औ दृष्टि के, नियरे के है दूर ।

नूरमुहम्मद इन्द्रावती पृ० ४४ ।

२ मोहि न उपज्यो दुख तोरा, तोर दुख आदि स-ाती मोरा ।

कवि मन्मन मधुमालत ।

३ धरती गगन मिले हुत दोऊ, केइ निनार के दीन्ह बिछोहू ।

जायसी पद्मावत ।

तारा जरइ दूट भुइ आये, जरइ कमल और पपिहा जराये ।

कोयल जरके भइ है कारी, पपिहा जरा पिउ पिउ रट मारी ।

अलीमुराद कुँदरावत ।

सूरज चन्द्र तराइन, वासुक चन्द्र कुबेर ।

प्रेमा दुखव सम रोई, धरती गगन सुमेर ।

कमल गुलाल भये रतनारे, फूल सवहि तन कापर फारे ।

देख अनार हिया भरे आना, नीवू तरु निज डार पियराना ।

टेसू आगि लागि सिर रहा, कैलै वदन दुख मम्पत कहा ।

जासुन भई डार दुख कारी, कटहर पीहर काँट के सारी ।

रक्क रोय वन घु घुची, रही जो राती होय ।

सुँह काला कै वन गई, जग जानै सब कोय ।

कवि मन्मन मधुमालत ।

बड़हर बड़हरे सदा पुकारहि, बड़ फल पाइ सीस भुइ डारहि ।

महुँआ टप टप गाँरे अँसू, तजि हम हरि लीन्हा वनवासू ।

कहै सुनौवर सुन वर माई, वदन करि नित सीस नवाई ।

तार कहै हम सब जग तारा पै ना लखो सु सिरजनहाग ।

जासुन कहै न चीन्हा माई, मै रग स्याम स्याम नहि पाई ।

कहै मिगार डार यहि बरना, विनु प्यो हार मिगार का करना ।

चोलत मय नरेय सुनि, नरि गुनाई नाम ।

कहो कहो लो वाक जो, बृद्ध कहै ता ठाम ।

हुमैनअली . पुहुपावती ।

सृष्टि के नाना पदार्थ उस अनन्त सौन्दर्य पुञ्ज के समागम की अभिलाषा से ही रूप, रस, गन्ध आदि का विकास करते हैं १।

उस एक का सौन्दर्य ही इस सम्पूर्ण जगत की सुन्दर वस्तुओं में आभासित हैं। उस चरम सौन्दर्य की किञ्चित् अभिव्यक्ति इस जगत में हो रही है। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र सभी उसी ज्योत्सम की ज्योति से ज्योतिन हैं। यही रूप सर्वत्र सभी वस्तुओं में तब रूप में वर्तमान है २। इसी सौन्दर्य का आभास मानव रूप में पा प्रेमी साधक परमेश्वर को प्राप्त करता है। सूफियों का प्रेम लौकिक पक्ष से अलौकिक को और अग्रसर होता है। वह जगत के धारभूत सत्य परमसत्ता को सीमा और असीम दोनों मानता है। जीव जो सीमा एवं न्यूनत्व से युक्त है, परमात्मा को उपलब्ध करना चाहता है। इसी प्रेम के स्वरूप को व्यक्त करने के लिये सूफियों ने परमसत्ता को कण-कण में व्याप्त दिग्गया है। अपने

१. फूला तारों मालति फूला, मधुकर आह वाम रस भूला।
निर्मल दर्पन होइ रदा, रह प्रगट ससार।
तामै मुख करतार को, देखत निरखनहार ॥

कवि मंमन : मधुमालत ।

पहुप गन्ध करहिं एहि आत्मा, मरु हिरकाह लेह हन्ह पा-ता।

जायसी . पद्मावत ।

सब मानुष मन प्रीति घनेरी, उपजी इन्द्रावति मुख केरी।

नूरसुहम्मद इन्द्रावती ।

२. एही रूप प्रगट बहु भेसा, एही रूप जग रङ्ग नरेसा।
एही रूप त्रिभुवन पर, असी महि पाताल अकास।
सोई रूप प्रगट तहँ, मानहीं देख्यो कहां हवास।
एही रूप प्रगट बहु रूपा, एही रूप जेहि भाव अनूपा।
एही रूप सब नैनन्ह जोती, एही रूप सब सायर मोती।
एही रूप सब फूलन्ह यासा, एही रूप रस भँवर वरासा।

कवि मंमन : मधुमालत ।

रश्मिक रूप रधि तारों पाण्ड, कमल देगि तापर चित लाण्ड।

रश्मिक शीप दुनि तारों लीन्हा, लखि पनंग शायन जिउ डीन्हा।

नूरसुहम्मद : इन्द्रावती ।

जेहि दिन दमन जोति निरमई, बहुस जोति जोति छोदि भई।

रधि रमि मग्यत दिपहिं छोदि जोती, रतन पदारप मानिक मोती।

जहँ जहँ विहँसि सुभावहिं रसी, तहँ तहँ छिटकि जोति परतारी।


जायसी : पद्मावन पृ० ४४ ।

सूफी साधक, एक ओर जहाँ प्रेम की एकनिष्ठता एवं हृदय की शुद्धि पर विश्वास करता है वहीं वह प्रिय एवं उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए जिक्र, फिक्र, नमाज, समा, जियारत, हज्ज, जकात, सौम, रोजा, अबराद, तिलवत, मुजाहदा ऐसी क्रियाओं में भी विश्वास करता है। उसकी साधना के कुछ अंगों पर भारतीय हठयोग क्रिया पद्धतियों एवं आस्थाओं का भी प्रभाव है। हृदय की शुद्धि, शारीरिक कष्ट साधना एवं शरीर के नियमों का समन्वय ही उसकी साधना का स्वरूप है, जिसके मूल में उदारता एवं हृदय की स्वच्छता वर्तमान है।

सूफी-साहित्य

साहित्य के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना है। सन्तों एवं साधकों के सम्प्रदाय, विचार तथा आध्यात्मिक तन्त्रों का परिचय उनकी साखियों और बानियों के द्वारा प्राप्त होता है, यद्यपि उनके शब्द-संकेत कभी स्पष्ट और कभी गुप्त हो जाते हैं। सूफियों ने संगठित रूप से उपदेशों के द्वारा अपने मत का प्रचार बहुत कम किया। कभी उनकी सिद्धियों या करामातों का प्रभाव जनता पर पड़ना था और कभी रमणीय प्रेम-मत्त्व से सम्बन्धित उनके काव्य ने उनका प्रभाव व्यापक करने में सहायता पहुँचाई। काव्य के माध्यम से प्रेम के प्रभाव तथा महत्ता का प्रतिपादन कर वाक्य 'रसात्मकं काव्य' की सार्थकता इन सूफियों ने सिद्ध की है।

सूफी साधकों का साहित्य मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथमः उनका निबन्ध-साहित्य जिसमें उन्होंने गम्भीरतः आध्यात्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत उनका जीवनी साहित्य आता है जिसमें सूफी साधकों तथा सन्तों की जीवन कथाएँ संग्रहीत हैं। तृतीय वर्ग उनके काव्य-साहित्य का है। इस काव्य साहित्य के भी दो विभाग हो सकते हैं, प्रथम प्रबन्ध या सदनवी पद्धति पर लिखा गया साहित्य जिसमें अन्योन्तियों और प्रतीकों की व्याख्या की गई है, द्वितीय मुक्तक काव्य जिसमें गजलों, नवाहियों, दोहों एवं मुक्तक पदों आदि के माध्यम से सूफी साधकों के भावों का व्यक्तीकरण हुआ है।



सूफी साहित्य के ये तीनों वर्ग स्पष्ट हैं।


सूफी मत के सिद्धान्त में उन निबन्धों का प्रथम स्थान है जिसमें तन्त्रज्ञ के

सूफी साधक, एक ओर जहाँ प्रेम की एकनिष्ठता एवं हृदय की शुद्धि पर विश्वास करता है वहीं वह प्रिय एवं उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए जिक्र, फिक्र, नमाज, समा, जियारत, हज्ज, जकात, सौम, रोजा, अवरद, तिलवत, मुजाहदा ऐसी क्रियाओं में भी विश्वास करता है। उसकी साधना के कुछ अंगों पर भारतीय हठयोग क्रिया पद्धतियों एवं आस्थाओं का भी प्रभाव है। हृदय की शुद्धि, शारीरिक कष्ट साधना एवं शरीर के नियमों का समन्वय ही उसकी साधना का स्वरूप है, जिसके मूल में उदारता एवं हृदय की स्वच्छता वर्तमान है।

सूफ़ी-साहित्य

साहित्य के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। सन्तों एवं साधकों के सम्प्रदाय, विचार तथा आध्यात्मिक तत्त्वों का परिचय उनकी साखियों और वानियों के द्वारा प्राप्त होता है, यद्यपि उनके शब्द-संकेत कभी स्पष्ट और कभी गुप्त हो जाते हैं। सूफ़ियों ने संगठित रूप से उपदेशों के द्वारा अपने मत का प्रचार बहुत कम किया। कभी उनकी सिद्धियों या करामातों का प्रभाव जनता पर पड़ता था और कभी रमणीय प्रेम-तत्व से सम्बन्धित उनके काव्य ने उनका प्रभाव व्यापक करने में सहायता पहुँचाई। काव्य के माध्यम से प्रेम के प्रभाव तथा महत्ता का प्रतिपादन कर वाक्य 'रसात्मकं काव्यं' की सार्थकता इन सूफ़ियों ने सिद्ध की है।

सूफ़ी साधकों का साहित्य मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथमः उनका निबन्ध-साहित्य जिसमें उन्होंने गूफ़ीमत के आध्यात्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत उनका जीवनी साहित्य आता है जिसमें सूफ़ी साधकों तथा सन्तों की जीवन कथाएँ मग़नीन हैं। तृतीय वर्ग उनके काव्य-साहित्य का है। इस काव्य-साहित्य के भी दो विभाग हो सकते हैं, प्रथम प्रबन्ध या मदनवी पङ्क्ति पर लिखा गया साहित्य जिसमें अन्योक्तियों और प्रतीकों की व्याख्या की गई है; द्वितीय मुक्तक काव्य जिसमें ग़ज़लों, रुबाइयों, दोहों एवं मुक्तक पदों आदि के माध्यम से सूफ़ी साधकों के भावों का व्यक्तीकरण हुआ है।



सूफ़ी साहित्य के ये तीनों ग्रंथ यथेष्ट पृष्ट हैं।

सूफ़ी मत के विवेचन में उन निबन्धों का प्रमुख स्थान है जिनमें मदनवीक के

आचार्यों ने तसव्वुफ के स्वरूप पर विचार, तथा स्वमत का विवेचन किया है। इस प्रकार के निबन्धग्रन्थों में स्वतन्त्र चिन्तन एवं आत्मजिज्ञासा-शान्ति के प्रयास के साथ ही सूफीमत को इस्लाम के अन्तर्गत प्रतिष्ठित करने का भी प्रयास लक्षित होता है। उन सिद्धान्तों और विचारों के व्यक्तीकरण पर नियन्त्रण किया गया जिनके प्रमाणित होने पर सूफीमत 'जिन्दीक' कहकर दण्डित किये जाते थे। इन ग्रन्थों की रचना गद्य तथा पद्य दोनों में हुई है। मजहबी (धार्मिक) जिज्ञासाओं की शान्ति के कारण ये ग्रन्थ अधिकांश मजहबी ज़वान या अरबी में ही लिखे गये। इस प्रकार के गद्य ग्रन्थों के अन्तर्गत, अब्दूनस्सराज का 'किताबुललुमा फिततसव्वुफ,' अब्दुल कासिम कुशेरी का 'रिसालये कुशारिया,' अली हुज्वरी का 'कश्फुलमहजूब,' इमाम गज्जाली का 'इहयायुल उलुम,' इब्नुल अरबी का 'फुतूहाते मक्किया,' तथा फुससुल हिकम, सुहरावर्दी का 'अवारिफुल म्बारिफ,' जिली का 'इंसानुल कामिल,' मीरदर्द का 'इल्मुल किनाब,' जामी का 'लावेह' तथा सद्दुद्दीन कुनवी का 'इन्श्याहुल गैव' आने हैं। इनके अनिरीकृत रूमी की 'मसवनी,' फरीदुद्दीन अत्तार की 'मि कुत्तैर,' सनाई की 'टदीऊ,' शवस्तारी का 'गुलशनेराज' तथा अबुल हसन निजामी की 'मसनमिया' पद्यात्मक निबन्ध कही जा सकती हैं। हल्लाज की 'किताबुलनुवासीन' में, तसव्वुफ का तात्विक विवेचन गंभीरता से किया गया है। अरबी के 'फुतूहात मक्किया' और 'फुससुल हिकम' का भी तसव्वुफ के मत सम्बन्धी ग्रन्थों में महत्वपूर्ण स्थान है। अरबी निर्भय तथा स्वतन्त्र होकर तर्क भितर्क करता है। शवस्तारी के ग्रन्थ 'गुलशनेराज' में प्रश्नोत्तर के रूप में तसव्वुफ का विवेचन किया गया है। गज्जाली की 'इहयायुलउलुम' के द्वारा तसव्वुफ की प्रतिष्ठा इस्लाम के अन्तर्गत हो गई, वाद के सभी सूफियों पर इसका प्रभाव है। गज्जाली के विचारों पर मजीद और जुनैद का भी यथेष्ट प्रभाव है।

सूफी-साहित्य का दूसरा अंग जीवनी साहित्य से सम्बन्धित है। जीवनी साहित्य की रचना अरबी और फारसी दोनों ही भाषाओं में हुई। सूफी सन्तों की जीवनी के अनिरीकृत इन ग्रन्थों में उनकी करामाते भी वर्णित हैं। भारतीय साहित्य में जीवनी साहित्य का जितना अभाव है, उतना ही सूफी साहित्य का यह अंग पुष्ट है। हुज्वरी ने अपनी रचना 'कश्फुल महजूब' में सूफी सन्तों का संक्षिप्त परिचय देकर उनकी अन्य विशेषताओं का भी उल्लेख किया है। फरीदुद्दीन अत्तार की पुस्तक 'तजकिरातुल औलिया' इस क्षेत्र में अत्यन्त प्रसिद्ध है, इसमें सूफी सन्तों के विवरण के साथ ही सूफीमत के इतिहास पर भी कुछ प्रकाश डाला गया है। दौलतशाह की 'तजकिरातुल शुअरा' में भी सूफी सन्तों की जीवनी का विवरण है। जामी की प्रसिद्ध रचना 'नफहातुल-उन्स' में भी सूफी सन्तों के जीवन चरित्र का सकलन है। सन्तों और साधकों की जीवनियाँ लिखने की यह परम्परा अनि प्राचीन है। भारत में 'भक्तमाल' ऐसे ग्रन्थ इसी साहित्य का परिचय देते हैं। इन सन्तों तथा साधकों के जीवन-चरित्र की रचना एक तो आदर्श स्थापित करने के कारण दूसरे उसके अध्ययन को प्रसादस्वरूप मानने के कारण हुई। सूफी जीवनी साहित्य पर यद्यपि अन्य ग्रन्थ भी लिखे गये, किन्तु उपरोक्त उनमें से प्रमुख हैं।

सूफ़ी साहित्य का तृतीय अंग 'काव्य' सर्वाधिक व्यापक तथा पूर्ण है। अन्य देशों की भाँति अरब में भी प्रेमकाव्य और वीरकाव्य की परम्परा सर्वप्रथम उद्भूत हुई, उसका चहुँपन कुछ मामूली राजस्थानी प्रेमगीतों से है, किन्तु इस प्रेम परम्परा में परमात्मा के परमप्रेम और आन्तरिक सूक्ष्म अनुभूतियों का चित्रण नहीं था। शुद्ध व्यक्तिगत प्रेम के प्रतीकात्मक वर्णन की परम्परा ईरान देश के प्रभाव, एवं फारसी के माध्यम से सूफ़ी साहित्य की विशेषता बन गई। सूफ़ियों की ख्याति उनके प्रेम तथा काव्य पर ही निर्भर है। सूफ़ी, हृदय पत्र के समर्थक तथा बुद्धि और तर्क से स्थापित कर्मकाण्ड से दूर होते हैं। उनका सम्बन्ध प्रेम और रागात्मक भाव व्यापार से है, तर्क वितर्क पर आश्रित बुद्धिवाद से नहीं।

अन्य सूफ़ी कवियों ने गज़लों के द्वारा स्फुट रूप में गम्भीर प्रेम भाव की विवेचना की तथा मसनवी के माध्यम में ईश्वरीय प्रेम का स्पष्टीकरण किया।

अरब प्रदेश में स्फुट छन्दों तथा गज़लों के रूप में अपने विचारों का प्रतिपादन करने की प्रणाली बहुत प्राचीन थी, किन्तु मसनवी पद्धति पर ईश्वरीय प्रेम का प्रतिपादन करने की प्रणाली ईरान के सूफ़ी कवियों की देन है। प्रेम की भावना आख्यानों द्वारा हृदयंगम कराने के लिए मसनवी पद्धति सूफ़ी काव्य में रूढ़ होगई। मसनवी की रचना सना' तथा अन्तार ने की, किन्तु रूमी का स्थान इस प्रकार की काव्य पद्धति में सर्वोच्च है। जिन नथ्यों का प्रतिपादन तर्क प्रणाली से सम्भव नहीं था, उन्हें रूमी ने छोटे छोटे आख्यानों में बद्ध करके आकर्षक तथा सर्वजन-ग्राह्य बना दिया। ये शम्शनबरेज के शिष्य तथा मौलवी-पंथ के प्रवर्तक थे। अपने वचन में उन्होंने अपने पिता के साथ देशा-टन किया था। विनफील्ड का कहना है कि रहस्यवाद में रूमी की समानता कोई नहीं कर सकता। किसी भी मनुष्य का इस विषय में सन्देह, केवल उनकी मसनवी 'दीवान शम्शनबरेज' के पढ़ने से ही विश्वास में परिणित हो सकता है। निकोलसन के विचार के अनुसार 'उनकी कविता के पढ़ने से ऐसा ज्ञान होता है मानो हम किसी स्वर्गीय वेगवती मरिना का गान सुन रहे हैं। शब्दयोजना हृदय को हिलाने वाली और आनन्द प्रदायिनी है।'

इस प्रकार रूमी ने अपनी मसनवी में प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन अत्यन्त सरल और सीधे ढंग से किया है, यही कारण है कि इसका प्रभाव अन्य लोगों पर भी होता है। इन ही मसनवी 'पुरानी पत्तली' के नाम से विख्यात है।

सौलतान रुम ने अपनी मसनवी के आरम्भ में सनाई (सू० ११३१ ई०) को प्रस्तावनी है। उनका कथन है कि 'अन्तार रूढ़ है और सनाई उनकी दो आँखों और भ्रमों का सनाई तथा अन्तार ने पैरों के सनाई हैं। सनाई की मर्यादा उनके लिये हुए 'शरीरा' का कारण अधिक है। इसमें संगीत पद्यों में यत्नार्थकता तथा आन्तरिक अनुभूतियों की मूलक पूर्णरूप में वर्णन है। सनाई भी आरम्भ में एक शरकारी कवि थे किन्तु बाद में सूफ़ी होगये।

सनाई के बाद कालक्रमानुसार मसनवी के रचयिताओं-मे, फरीदुद्दीन अत्तार (जन्म ११५७ मृत्यु १२३० ई०) का नाम आता है। रूमी का कहना था कि मन्सूर का आत्मिक प्रकाश अत्तार की आत्मा में ही प्रकाशित हुआ था। इनकी मसनवी 'मंति कुंतैर' (मंतिकुलनैर) बहुत प्रसिद्ध है। इस रचना में अत्तार ने आत्मा को परमेश्वर की खोज में व्यस्त दिखलाया है। सूफी यात्री की उपमा एक पत्नी से देकर ईश्वर को सीमुर्ग (एक जलपत्नी) माना है। पत्नीगण एकत्रित होकर अपने पथप्रदर्शक की अध्यक्षता में ईश्वरीय खोज का विचार करते हैं। इसी कथा के मध्य अत्तार प्रेम, ज्ञान, आश्चर्य, निराशा, सम्मिलन आदि के सम्बन्ध में अपने विचार प्रदर्शित करते हैं। मसनवी रचयिताओं में ये ही तीन रूमी, अत्तार तथा सनाई प्रमुख हैं। बाद के कवियों में जामी की 'यूसुफ जुलेखा' भी बहुत प्रसिद्ध हुई।

गजलों में आख्यानों का सा आनन्द नहीं आता है। इन गजलों में प्रेम चर्चा के साथ ही कर्मकाण्ड की आलोचना भी है। जलालुद्दीन रूमी ने अपनी गजलों का संग्रह या दीवान, शम्शतवरेज को समर्पित किया था जो बहुधा 'कुत्लियात शम्शतवरेज' के नाम से प्रकाशित पाया जाता है। रूमी के दीवान की भाँति सनाई, सादी एवं हाफिज आदि के भी दीवान हैं। जिस प्रकार मसनवी रचयिताओं में रूमी का नाम प्रसिद्ध है उसी प्रकार गजलों के रचयिताओं में हाफिज (मृत्यु १३६०) सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं।

इन्हें लोग बहुधा लिसालुलगाव (अदृश्य की वाणी) तथा तर्जुमानुल असरार भी कहा करते थे। लेवी का कथन है कि भाषा, भाव और कल्पना के अनुसार फारस के कवियों में इनका स्थान सबसे उच्च है। हाफिज की मदिरा आन्तरिक प्रसन्नता, सराय पूजा-गृह, और फारस का पुराना पुजारी आत्मिक गुरु हैं। यद्यपि इनका काव्य नग्न-शृंगार से पूर्ण है तथापि उसका आध्यात्मिक अर्थ भी सम्भव है। हाफिज किसी विशेष सम्प्रदाय में दीक्षित नहीं थे। अपनी मौज में मग्न होकर ही वे काव्य रचना किया करते थे।

फारिज भी इसी प्रकार भाव निमग्न हो पदों की रचना किया करता था और इसी भावावेश में अपने मत का प्रतिपादन भी करता था। अरबी का केवल एक यही ऐसा कवि है जो फारसी के कवियों से टकर ले सकता है। फिर भी फारिज में वह कोमलता, सरलता तथा रोचकता नहीं है जो हाफिज में सहज और स्वाभाविक है, फारिज ऐसे कट्टर पंथी के लिये वह दुस्साध्य है।

फिरदौसी और सादी को छोड़कर फारसी का लगभग प्रत्येक कवि सूफी है। सादी के पदों में भी तसव्वुफ की आभा वर्तमान है किन्तु उनका व्येय प्रेम की अपेक्षा सदाचार निरूपण का अधिक था। सादी (११८४ ई०-१२६१ ई०) के विचार बहुत ही पवित्र थे। इनकी रूयानि 'गुलिस्तौ' और 'बोस्तौ' के कारण अधिक हुई। गुलिस्तौ में सादी के धार्मिक सिद्धान्तों की भल्लक तथा बोस्तौ में ईश्वरवाद की भल्लक है। इनके विषय में ब्राउन का मत है कि 'इनकी रचनाओं में पूर्वीय भल्लक पूर्णतः वर्तमान है जहाँ कहीं भी फारसी भाषा का अध्ययन किया जाता है पढ़नेवालों के हाथ पहले इनकी ही पुस्तक आती है।'

हमी और हाफिज अपने विचारों में उसके सूफी से यद्यपि उनका सम्बन्ध किसी विशेष मध्यस्थ ने नहीं था। फारसी साहित्य में उमरगय्याम अपने गलित और ज्योतिष के लिये ही अधिक प्रसिद्ध था, किन्तु रसय्याम की रवाइयों की स्वच्छन्दता पाश्चात्य आलोचकों को इतनी भायी कि रसय्याम ही फारसी के सर्वप्रिय कवि माने जाने लगे। रसय्याम का उदय फारसी साहित्य की प्रारम्भिक अवस्था में हुआ था। वे मौजी कवि थे। उनकी रवाइयों में कर्मकान्ठ, सुल्ला, क्राज़ी और मौलवियों की दुर्बलताओं तथा श्रंघविश्वासों का खूब संज्ञन किया गया है। रवाइयों के द्वारा सूफियों के प्रेम का व्यक्तीकरण व्यक्तिगत उद्गारों के रूप में हुआ है। इसमें प्रेमपात्र अधिकांश कोई पुरुष ही है। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों, पर्दाप्रथा आदि के कारण यह स्वाभाविक भी था। प्रेमपात्र को ईश्वर का प्रतीक होने के कारण पुरुष रूप में स्वीकार करना अधिक स्वाभाविक भी जाना होता है। रसय्याम ने अपने प्रेमोद्गार के अनिश्चित कर्मकान्ठ की आलोचना के द्वारा व्यंगमय काव्य की भी रचना इन रवाइयों में की है। कहीं कहीं पर ये जन्मान्तरवाद में भी प्रभावित जानते हैं।

अरबी जानि स्वभावतः कविता प्रेमी थी। मुहम्मद साहब के प्रचार के पूर्व भी मने में कविगण अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखाकर प्रसिद्धि प्राप्त करते थे। जिस वजह से किसी कवि का जन्म होना था वह वंश ही गौरवशाली माना जाना था। कवियों का प्रमुख कार्य प्रोत्साहन प्रदान करना तथा वीरों का गुण गाना था। इस समय की अरबी कविता का साम्य बहुत कुछ हिन्दी के वीरगाथा काल में है। अन्य देशों की भांति यहाँ के वीरगाथा कवियों का अनिवार्य सम्बन्ध प्रेम, सुरा और प्रिय के नरुशिशु वर्णन में था, यद्यपि यह नरुशिशु वर्णन प्रिया के गीत और सद्गुणों में अधिक सम्बन्ध नहीं रखता था, केवल वाक्य शारीरिक सौन्दर्य का स्थूल वर्णन ही उन कविताओं में प्रधान होता था। इस प्रकार की कविता सूफियों को परम्परा के रूप में मिली। सूफियों को ग़ज़ल में प्रेम और शराब का जो रंग मिला, उसी को अधिक परिष्कृत रूप में उन्होंने अपने काव्य में प्रतीक रूप में प्रदर्शित किया।

इस्लाम धर्म के प्रचार के पूर्व अरब, अल्लाह की तीन बेटियों की आराधना करते थे, जिनमें 'लात' सर्वप्रधान थी। मुहम्मदसाहब के प्रचार ने 'लात' की महिमा रद्द कर दी। उसके प्रति जिस प्रेम भावना का प्रचार अरबों में था उसका आगे बढ़ा अरब अल्लाह पर होने लगा। इस्लाम में अल्लाह को प्रेमपात्र नमक गीत रचना आरम्भ हुई। 'फिनातुल अगानि' में ऐसै ही प्रेम गीत प्राप्त होते हैं। अरबों के प्रेम का सद्ग अल्लाह रूप इस्लाम के नियंत्रण के कारण जाता रहा। अरब जब नभ्य बन गये थे। राज-विस्तार और धन-सम्पत्ता तथा वैभव के कारण भोग विलास को प्राप्ताप्तन मिला। प्रेम का खुले दिल से स्वागत हुआ। अरबी कविता में प्रेम का नजार्जी और हाजीजी स्वरूप जन्मलभमान हुआ। अरबी काव्य में अरबी और फारस के नाम ही विजेत अल्लेगनीय हैं, किन्तु प्रेम और रस तथा सूफी निरुशानों का नरुश प्रसिद्धि फारसी सूफी काव्य में ही हो गया। अरबों को परिक और गुण में विशेष रसि नहीं थी। उनका प्रेम-काव्य रस प्रदान न होकर प्रगत प्रापक है। सूफी साहित्य लिये तो

अरबी और फारसी दोनों में ही गया है, किन्तु उसका वास्तविक सौन्दर्य फारसी साहित्य में ही दृष्टिगोचर होता है। सूफियों के आध्यात्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन, मसनवी या प्रेमाख्यानो के आधार पर प्रेम का स्पष्टीकरण, गजलों और रुबाइयों में प्रेम की व्यक्तिगत अनुभूति का व्यक्तीकरण, कर्मकाण्ड का खन्डन, तथा अन्योक्तियों का सहारा ले प्रेम के विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या, और परमतत्व का निरूपण आदि फारसी साहित्य में ही हुआ। फारसी काव्य में अरबी की अपेक्षा स्वच्छन्दता तथा रसात्मकता अधिक है जिसमें सुरा और साकी, बुलबुल और चमन का वर्णन व्याप्त है।

भारत में आनेवाले अधिकांश सूफी, इस्लाम धर्म में सूफीमत के प्रतिष्ठित हो जाने के बाद आये। अब उन्हें सूफीमत और इस्लाम के विरोध को सुलभमाना नहीं था। वे इस्लाम धर्म के प्रचारक के रूप में भारत आये थे, इसी कारण भारत में मसनवी पद्धति पर हिन्दी में प्रचलित दोहा चौपाइयों की परम्परा में, उन्होंने अपने प्रेम और विरह की चर्चा प्रारम्भ की। प्रेमाख्यानों की हृदयग्राही परम्परा के द्वारा उन्होंने अपने विचारों का प्रसार करना आरम्भ किया।

भारत का सूफी साहित्य दो भागों में विभक्त हो सकता है। प्रथम फारसी भाषा में लिखा गया साहित्य और दूसरा भारतीय अन्य बोलियों में लिखित साहित्य।

दाराशिकोह का 'मज्मा-उल्-वहरैन' वेदान्त और सूफीमत का तुलनात्मक अध्ययन तथा 'सफीनातुलऔलिया' सूफी सिद्धान्त तथा जीवनी साहित्य से सम्बन्धित ग्रन्थ हैं। भारतीय फारसी साहित्य में कुछ बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं। मुगलों के शासनकाल में फारसी यहाँ की राजभाषा और दरवारी भाषा थी। भारतीय मुसलमानों ने अधिकांश अपनी प्रादेशिक भाषा में ही लिखने का प्रयास किया है। अबुल फजल, फैजी बदायूनी, अब्दुलकादिर, मुल्लाशीरी आदि संस्कृत के ज्ञाता थे और महाभारत रामायण आदि का अनुवाद भी उन्होंने किया था। दाराशिकोह ने उपनिषद्, भगवद्गीता तथा योग-वाशिष्ठ का अनुवाद कराया था। इसके अतिरिक्त सूफी साहित्य से सम्बन्धित उसकी पुस्तकों में 'सफीनातुल औलिया', 'मज्मुल वहरैन' तथा 'पंजाब के बाबा लाल दास से वार्तालाप' प्रधान हैं।

मुसलमानों के आक्रमण सिंध और पंजाब में ही सर्वप्रथम हुये, और इसी कारण वही की भाषाओं में सूफी काव्य की रचना भी सर्वप्रथम आरम्भ हुई। अधिकांश सूफी कवियों ने अपने निवासस्थान में बोली जाने वाली जनसाधारण की भाषा में, वहीं की प्रचलित कथाओं का आधार ले, अपने मत का प्रतिपालन और प्रेम का प्रचार किया।

सूफीमत का प्रचार सिंध में बहुत था। भारत में सूफी साधकों का आगमन सर्वप्रथम सिन्ध में ही आरम्भ हुआ। सन् १३१८ में अफगाणिस्तान के परवन्द नगर के निवासी सैयद अहमद कवीर के सैयद उसमानशाह नाम का बालक उत्पन्न हुआ। बगदाद के मुल्तान सैयद अली के दरवार में उसमान शाह रहने थे, किन्तु इनके हृदय में भारत की ओर प्रस्थान करने की इच्छा जागी और बहनों के मना करने पर भी ये अपने अन्य तीन मित्र शेख भावलदीन, शेख फरीदगन्ज, तथा शेख मखदूम जलालुद्दीन के साथ

भारत को और चल दिये। मार्ग ही अनेक कठिनाइयों के मध्य एक स्थल पर उममान शाह का करागात का भी वर्णन है। एक मारू के द्वारा उबलने हुये तेल में कुछ पदार्थ को चुनौती पाकर शाह उममान उसमें कूद गये और उनको क्रिन्चिन जलन नहीं प्रतीत हुई। इसी कारण सम्भवतः उन्हें 'लाल' की उपाधि प्राप्त हुई। शाह उममान सर्वथा लाल वस्त्र ही धारण करने थे, हो सकता है उनके इस वस्त्र तथा काव्य और भावगत ऊंची उड़ान के कारण इन्हें 'लाल-शाहबाज' या रक्तिम-मचान की उपाधि मिली हो। लाल शहबाज शहबाज में, जेज भावलदीन मुल्तान प्रान्त के उच्च नगर में अपने विचारों के प्रचारार्थ रुक गये। लाल शहबाज को कलन्दर लाल मखन्डी भी कहते हैं। इस प्रकार सिन्ध में इन सूफी साधकों ने अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया। सिन्ध के सूफी कवि इन साधकों से प्रभावित थे। वे अपनी भावनाओं में उन्मुक्त तथा विचारों में स्वच्छन्द थे। मुहम्मद साहब की वंश परम्परा में शाह लतीफ कुरेशी, तथा खलीफा उमर की वंश परम्परा का मचल, प्रसिद्ध सूफी कवियों में से हैं। मंसूर की भाति लतीफ ने भी 'इबलीस' की तराहना की है। सचल का विचार था कि जब तक ये मन्दिर और मस्जिद अपना सिर उठाये रहेंगे, आत्मज्ञान का मार्ग उन्मुक्त न होगा। आत्मज्ञान के मार्ग में ये बाधक हैं। इनके अतिरिक्त रोहल, सामी, बेकस, बेंदिल, दलपत और सादिक भी बहुत प्रसिद्ध हैं। स्फुट पदों में उन्होंने अपने स्वच्छन्द विचारों को अत्यन्त मार्मिक ढंग में व्यक्त किया है।

सिन्ध में कलहौरा राजाओं के शासन काल में, शाह इनायत कुरेशी अपनी सूफी-साधना के कारण अत्यन्त प्रसिद्ध थे। जनसमुदाय पर अत्यधिक प्रभाव तथा अपने व्यक्तियों का उनका अनुगामी होना कलहौरा शासकों को भी भयभीत करने लगा था। फारसी भाषा में लिखित इनका 'बेमिर नाना' सूफी विचारों से पुष्ट काव्य है। शाह इनायत को सिन्ध का मंसूर कहा जाता है। मुगल सुल्तान फर्गनामिर की आज्ञा से इनका मिर घाटकर दिल्ली भेजा गया था। कहा जाता है कि इसी अवस्था में बेमिरनाना की रचना हुई थी।

शाह लतीफ के वंशज हेरात के रहनेवाले थे और तैमूर के आक्रमण काल में वे भारत आये थे। शाह लतीफ सिन्ध के प्रसिद्ध सूफी कवि तथा साधक, शाह रसीद के पोते तथा शाह हबीब के पुत्र थे। दर्यापि शाह लतीफ का जन्मकाल निश्चित नहीं है किन्तु मोंटरी के मिर्जा मुगल बेग की लक्ष्मी ने इनका सम्बन्ध होने के कारण इनका समय सरलता से सत्रहवीं शताब्दी के आश्रय माना जा सकता है। शाह लतीफ ने भिड़ को अपना निवासस्थान बनाया। कहा जाता है कि शाह लतीफ की आवाज अत्यन्त गुरुर थी और वे अपने पद सत्य ही गाकर लोगों को प्रभावित किया करते थे। गैरपुर

से थोड़ी दूर 'दराज' नामक गाव के पास सचल कवि की समाधि है। सचल की 'काफी' में भाव, संगीत तथा प्रभावत्मकता का समन्वय है। लतीफ की भांति सचल भी अपनी काफिया गाया करते थे। सचल के वंशज अबू बिन कासिम के आक्रमण के साथ ही सिन्ध आये थे। कासिम ने इनके वंशज शहाबुद्दीन को सेहवान का शासक नियुक्त किया था। लालशहबाज के साथ आने वाले सूफी साधक भावलदीन ने इनके वंशजों को 'दोयिस' की उपाधि से अभिहित किया था। अब्दुल वहाब या सचल, इन्हीं की वंश परम्परा के मियांसाहिब दीनू के पुत्र थे। इनका ग्रन्थ 'दीवान अश्कर' फारसी भाषा में लिखा गया है। कहा जाता है कि ये अन्य सूफियों की भांति केवल बहज ही न थे, प्रत्युत इनका अध्ययन भी विस्तृत था। उन्होंने फारसी, उर्दू, पंजाबी, सिराकी, बलूची तथा पंजाबी, एवं शुद्ध सिन्धी में अपने स्फुट पदों की रचना की है। वे भारतीय चिन्ताधारा से प्रभावित थे। किंवदन्ती है कि वे गुरु गोविन्द सिंह के शिष्य थे। ये अपने शिष्य यूसुफ को 'नानक यूसुफ' के नाम से पुकारा करते थे।

सिन्ध के ये प्रसिद्ध सूफी कवि अपनी विचारधारा में पूर्ण स्वच्छन्द थे। यही कारण है कि लगभग सभी कवियों के जीवन में मुल्ला, मौलवियों से संघर्ष की कथा पाई जाती है। इन्होंने केवल हृदय की स्वच्छता, प्रेम और गुरु-कृपा के गीत गाये हैं।

हिन्दी साहित्य का रचनाकाल सयोगवश उसी समय आरम्भ होता है जब मुसलमान 'जेहाद' या धर्मयुद्ध करने भारत आये थे। यह हो सकता है कि इस 'जेहाद' के अन्तर्गत राज्य-विस्तार और धनलिप्सा की भावना भी हो। सुल्तानों ने तो स्वयं राज्य-शक्ति और धन-प्राप्ति से सन्तोष कर लिया, किन्तु इनके साथ आये हुये सूफी धर्मप्रचारकों को इससे सन्तोष न हुआ। इन्हें अपने सिद्धान्तों के प्रचारार्थ सुगम माध्यम की आवश्यकता थी। इस समय भारतीय देशी कलाकार अधिकांश प्रचलित साहित्यिक भाषाओं संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में ही रचनाएँ कर रहे थे। ये भाषाएँ इन नवागन्तुकों के लिए भी दुर्गम थीं, साथ ही जन भाषा का स्वरूप भी ये नहीं ग्रहण कर सकती थीं। अतः इन मुसलमान सूफी सन्तों और दर्वेशों ने शीरसेनी अपभ्रंश की उत्तराधिकारिणी खड़ी बोली का सहारा लिया। डा० अब्दुलहक ने अपनी किताब 'उर्दू की इत्तदाई नशो व नुमा में सूफियान कराम का काम' में लिखा है कि कभी कभी इन दर्वेशों के यहाँ हिन्दी भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। सूफियों का उल्लेख करते हुए डा० अब्दुलहक इमी पुस्तक में उल्लेख करते हैं कि इन बुजुर्गों के घरों में भी हिन्दी बोलचाल का रवाज था और नूँकि यह मुन्दीदे मतलब था इसलिये वह अपनी तामील तक्लीन में भी इसी से काम लेते थे' इस मुन्दीदे मतलब का तात्पर्य सिद्धान्त तथा सस्कृति का प्रचार था। ये विदेशी जनसाधारण को समझाने योग्य सिद्धान्त और किस्से कहानियों हिन्दी में ही लिखते थे। खड़ी बोली साहित्य की यह विदेशी परम्परा ईसा की चौदहवीं-पन्द्रहवीं सदी में गुजरात, महाराष्ट्र, विजयनगर आदि दक्खिनी प्रदेशों में मुसलमानी फौजों और सन्तों तथा दर्वेशों के साथ गई। सुल्तान अलाउद्दीन की फौजें, मलिक काफूर के आक्रमण तथा मुहम्मद तुगलक की दौलतावाट में राजधानी बनाने की इच्छा ऐसी ही ऐतिहासिक घटनाएँ हैं जिनके द्वारा तामिल, तेलगू और वन्नड भाषी प्रदेशों में भी हिन्दी का प्रवेश हो गया।

दक्खिनी हिन्दी के सर्वप्रथम ग्रन्थकार स्वामी बन्धानाथ गेसूदरान मुहम्मद हुसैनी (१३१८-१८२२ ई०) हैं इनके पिता सैयद यूसुफ धर्म के प्रचारार्थ ही दक्षिण की ओर गये थे। ये अपने पिता की मृत्यु पर दिल्ली आगये किन्तु नैसूरलंग के शासक की भीमत्सना से घबड़ाकर ये फिर दक्खिन चले गये थे। यद्यपि अपने अपनी अधि प्रांग रचनायें फारसी भाषा में ही की हैं, किन्तु तीन रिगाले मीराजुल आशिनीन, हिदायत नामा और रिगाला मेहवारा दक्खिनी हिन्दी में हैं। इन्हीं स्वामी साहब के पोते अब्दुल्ला हुसैनी के एक ग्रन्थ 'निशातुल इरक' का भी पता चला है जो शेख अब्दुल कादिर जीलानी के फारसी ग्रन्थ का अनुवाद है। मुल्तान अहमदशाह बहमनी के शासन काल का प्रसिद्ध कवि निजामी दक्खिनी का पहला कवि है। इनकी रचना 'कदमराव व पदम' नामक एक मसनवी ग्रन्थ है। दक्खिनी में अन्य कई मसनवियाँ लिखी गईं। इसमें से कुछ फारसी ग्रन्थों के अनुवादिन रूप हैं। 'गवामी' की मसनवी मैकल्लमजूक व बदीउज्जमाल फारसी किस्सा का पद्यग्रन्थ अनुवाद है, इसका रचनाकाल १६२५ ई० है। इन्हीं की दूसरी कृति तृतीयाया (१६३६ ई०) है। निशानी की मसनवी फूलवन (१६५५) फारसी किस्सा विसातीन का अनुवाद है।

गुलामअली की 'पञ्चायत' नाम की मसनवी का रचना काल १६८० ई० बताया जाता है। मुकामी की मसनवी 'चन्द्रवदन' व 'महियार' में एक मुल्तमान युवा महियार (मुदीउद्दीन) और हिन्दू युवती चन्द्रवदन की प्रेम कथा वर्णित है, इसका रचनाकाल १६४० ई० है। इनके अतिरिक्त अहमद जुवेदी की नाहपैकर (१६५३ ई०), सेवक का जंगनामा (१६२६ ई०), अमीन बहराम व हसन बानो रक्षामी का खविरनामा (१६४६ ई०), निशानी का मुल्तानइरक, कुरैशी की भोगवल, काजी महमूद बहरी की मनलाइन (१६६६ ई०) बली बेलूरी की मसनविया, तथा इजरती की दीवर पतंग, चित्र लगन, और नेन्दर्पन प्रसिद्ध हैं। दक्खिनी हिन्दी में भी इस प्रकार मसनवी ग्रन्थों का प्रचुर उल्लेख मिलता है।

पंजाब के सूफ़ी गायक आरम्भ से अपने काव्य की रचना फारसी भाषा में उमी परम्परा तथा आदर्श के अनुसार करते थे। कुछ समय पश्चात् उन्होंने उर्दू में लिखना आरम्भ किया जिसका आदर्श भी फारसी कादित्य था। पन्द्रहवीं शताब्दी के निशिआ मन्त्रदाय के शेख इब्राहीम फरीद ने सर्वप्रथम पंजाबी में लिखना आरम्भ किया था। ये शेख फरीदुद्दीन गङ्गावंश के वंशज थे। इनके पश्चात् उन मखीन रिगाले की ओर लगे सूफ़ी कवियों का आग्रह हुआ, जिसमें लाल हुसैन निजामुल्तान बाल, बुन्नेशाह, अबी इंदर तथा हाजिन के नाम विशेष हैं।

शेख इब्राहीम फरीद खानी का मसब १५५० ई० से १५६५ ई० है। इनका जन्म मुल्तान के पास एक नगर में हुआ था, जन्म में ये अपने पिताश्वर के प्रचारार्थ परगटन में निजाल करने लगे थे। पाठपटन में अब भी इसही स्थापि वर्तमान है। वे अपनी करामातों के लिये प्रसिद्ध हैं। इनके पंजाबी भाषा में लिखे गये कुछ कावित्त तथा ग्लोक प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त ५३३ विश्वविद्यालय में इनका एक ग्रन्थ 'मगीदनामा' भी प्राप्त होता है। इनके इन ग्लोकों का संग्रह 'प्रदिकन्द' में भी

प्राप्त होता है' । कहा जाता है कि माधोलाल हुसेन (१५३६ ई०-१५६४ ई०) के पूर्वज कायस्थ या जाट जाति से मुसलमान धर्म में दीक्षित हो गये थे । कबीर की भाँति इनका भी कौटुम्बिक घन्धा जुलाहे का था । ये क़ादिरिया सम्प्रदाय के थे, तथा इन्हें माधौ नामक एक हिन्दू युवक से अत्यन्त प्रेम था । माधौ भी इनके सूफी सिद्धान्तों से प्रभावित था । अन्त में माधौ का नाम लाल हुसेन के नाम के साथ एक प्रत्यय की भाँति जुड़ गया । इनका कोई ग्रन्थ प्राप्त न होकर मुक्तक रूप में लिखे गये काफिये ही प्राप्त होते हैं ।

सुल्तान बाहू (१६३१-६१ ई०) भी क़ादिरिया सम्प्रदाय के थे । औरंगजेब इनका सम्मान करना था किन्तु इन्होंने उसकी ओर कभी विशेष ध्यान नहीं दिया । तवारीख सुल्तान बाहू के अनुसार इन्होंने १४० ग्रन्थ अरबी तथा फारसी भाषा में लिखे । इसके अतिरिक्त वहीं पर उनका पंजाबी भाषा में भी रचना करना उल्लिखित है । इनकी काफियाँ 'उर्स' के अक्षर पर गाई जाती हैं । 'सीहर्फी' के अतिरिक्त इनका कोई लिखित ग्रन्थ प्राप्त नहीं होता ।

बुल्लेशाह (१६८०-१७५८ ई०) भी औरंगजेब के समकालीन तथा शाह इनायत के शिष्य थे । हजरत शेख मुहम्मद इनायतुल्ला क़ादिरिया सम्प्रदाय के थे । इन्होंने भी काफी के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किया है । अली हैदर (१६६०-१७८५ ई०) की कव्वालियों का एक संग्रह 'मुकम्मल मजमुआ आबयात अली हैदर' के नाम से लाहौर से प्रकाशित हुआ है । कहा जाता है कि ये भी क़ादिरिया सम्प्रदाय के थे, यद्यपि इनके दीक्षा गुरु का नाम ज्ञात नहीं है । फर्द फकीर (सन् १७२०-६० ई०) का समय, अनुमान प्रमाण पर आधारित है । इन्होंने अपना ग्रन्थ 'कश्ब नामा बाफिन्दगा' स० ११६३ में पूर्ण किया, इनके कई ग्रन्थों का उल्लेख पाया जाता है—बारामाह, सीहर्फी, कश्बनामा बाफिन्दगा तथा रोशनदिल आदि उन्हीं की रचनायें कहीं जाती हैं, किन्तु कुछ विद्वान 'रोशनदिल' के सम्बन्ध में शका करते हैं । हाशिम शाह (सन् १७५३-१८२३ ई०) केवल सूफी कवि के रूप में ही सम्मुख आते हैं । उनके साथ फकीरी या सिद्दी का सम्बन्ध नहीं पाया जाता । ये जाति से बढई थे । हाशिम का सम्बन्ध रनजीनसिद्द के साथ भी जोड़ा जाता है । इनके रचित ग्रन्थों में किस्सा शीरी-फरहाद, किस्सा सोहिनी-महिवाल, किस्सा शशिपुनो, जानप्रकाश, और दोहरे प्रसिद्ध हैं । जानप्रकाश अभी तक अप्रकाशित है ।

सैयद करम अली के बारे में उनके ग्रन्थों के अतिरिक्त और कहीं से कोई सूचना नहीं प्राप्त होती । इनकी रचनाओं का संग्रह 'झयाल' नामक ग्रन्थ में मिलता है । इसमें गजलों के साथ साथ दोहे भी हैं ।

१. Punjabi Sufi Poets-P. 5

२. Punjabi Sufi Poets-P. 84

करोमबक्ष नामक एक और पंजाबी सूफ़ी कवि का उल्लेख प्राप्त होना है जिसने अबुल सहन के 'तफरीहुल-अजकिया-फिलंत्रिया' का 'नजकिरातुल अंबिया' नाम से पंजाबी भाषा में अनुवाद किया। इसके अन्त में 'बारामाह मुहम्मदिया' नाम से एक वारह मासा भी जोड़ दिया गया है।

बहादुर नाम के पंजाबी सूफ़ी कवि के विषय में कुछ उपलब्ध नहीं है। एक ग्रन्थ 'वंगालिननामा' उनके द्वारा रचित मिलता है, जिसमें लेखक ने वंगालिन को भाया मान कर वर्णन किया है।

उन्नीसवीं सदी के गुलाम मुस्तफा मखदूम द्वारा रचित 'शमाये इस्क' का भी उल्लेख मिलता है।

गुलाम हुसेन कल्याण वाला रचित सी-हफ़ी तथा वारहमाह उपलब्ध है। ये भी उन्नीसवीं सदी में हुये थे किन्तु इनके विषय में अधिक ज्ञात नहीं।

चिश्तिया सम्प्रदाय के मुहम्मददीन ने सीहफ़ी, वारहमासा, रया आठवारा ग्रन्थों की रचना की है।

मुहम्मद अशरफ मुहम्मददीन के गुरुभाई थे। इन्होंने भी वारहमाह की रचना की है। बीसवीं सदी के लाहौर निवासी हिदायतुल्ला ने भी कुछ सीहफ़ी तथा तथा वारहमाह रचे हैं।

हिन्दी साहित्य में अधिकांश प्रबन्ध काव्य की रचना अवधी में तथा स्फुट काव्य की रचना ब्रजभाषा में होती रही है। अवधी में दोहे, चौपाई आदि छंद ही अधिक ग्रहीत हुये। मध्ययुग के सूफ़ी प्रेमाख्यान रचयिताओं ने भी अवधी भाषा में दोहे चौपाई के क्रम से अपने ग्रन्थों की रचना की।

मुल्ला दाऊद की 'चन्दावन' का, इस क्षेत्र में अभी तक की खोज के अनुसार, सर्वप्रथम प्रेमाख्यान होने के कारण महत्वपूर्ण स्थान है।

सूफ़ी प्रेमाख्यानों का आरंभ किस समय हुआ. यह ठीक-ठीक पता नहीं चलता। कुछ लोग इने मलिक मुहम्मद जायसी (मृ० सं० १५६६) की 'पद्मावत' में उपलब्ध निम्नलिखित विवरण के आधार पर निश्चित करना चाहते हैं।

विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावति कहां गयउ पतारा।

मधू पाछ मुगुधावति लागी, गगनपूर होइगा वैरागी।

राज कुंवर कंचन पुर गयऊ, मिरगावति कंह जोगी भयऊ।

साध कुंवर खडावन जोगू, मधुमालति कर कीन्ह विवोगू।

प्रेमावति कंह सुरसरि साधा, ऊपा लागि अनिरुध वर बांधा।

स्पष्ट ही है कि 'पद्मावत' की रचना के पूर्व ये कहानिया साहित्यिक या लोक कथा के रूप में प्रसिद्ध थीं। पंक्तियों का उपरोक्त पाठ आचार्य शुक्ल जी द्वारा संपादित 'जायसी

ग्रन्थावली' के अनुसार है। किन्हीं-किन्हीं हस्तलिखित प्रतियों में वैमिन्य भी है। सपनावति के स्थान पर कहीं-कहीं 'चपावति' और मुगुधावति के लिये 'खंडरावति' तथा 'मधुमाछ' को 'सुद्वैवच्छ' एवं 'सिरीभोज' हो गया है। इसी प्रकार 'साधु कुंवर खंडावत' के स्थान पर 'साधा कुंवर मनोहर' प्राप्त होता है^१। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रसिद्ध अनिरुद्ध एवं ऊषा के उल्लेख के साथ ही किसी विक्रम तथा सपनावति वा चपावति, मृगुधावति वा खंडरावति एवं सिरीभोज, राजकुंवर एवं मिरगावति, मधुमालती एवं मनोहर, तथा प्रेमावती एवं सुरसरि, जैसे नायक नायिकाओं के आधार पर कम से कम पाच और भी प्रेम कहानिया प्रचलित रहीं होंगी।

जायसी के पूर्व उल्लिखित इन पूर्ववर्ती प्रेम कथाओं में केवल मिरगावति की खंडित प्रति अभीतक प्राप्त हो सकी है। यह रचना जायसी के पूर्ववर्ती कवि कुतबन (संभवत १५५०) की है। इस प्रकार की सूफी प्रेम-कथा का अभीतक प्राप्त सर्वप्रथम उल्लेख मुल्लादाऊद की 'चन्दावन' के लिये किया जाता है। इसके विषय में अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपने इतिहास ग्रन्थ 'मुतखबुतवारीख' (भाग २ पृ० २५०) में लिखा है। अब्दुल कादिर के अनुसार इस ग्रन्थ में हिन्दवी की मसनवी द्वारा 'नूरक व चंदा' के प्रेम का वर्णन है। इस रचना का परिचय अधिक नहीं दिया गया, क्योंकि वह 'अत्यन्त प्रसिद्ध है' इसे लेखक 'दैवी सहायता से भरी' समझता है^२। चंदावन के रचनाकाल का उल्लेख हि० सं० ७७२ फीरोज शाह तुगलक के शासनकाल सं० १४०८-१४४५ ई० में श्री ब्रजरत्नदास ने माना है^३। डा० राम कुमार वर्मा ने दाऊद को अलाउद्दीन गिजली राज्यकाल सं० १३५६-१३७३ ई० का समकालीन माना है और रचनाकाल सं० १३७५ ई० ठहराया है। इस प्रकार मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो का भी समकालीन (सं० १३१२-१३८१) जाना जाता है। अमीर खुसरो ने फारसी में नौ मसनवियों की भी रचना की है^४। खुसरो की मसनविया ऐतिहासिक होने के साथ ही

१. सपनावति के स्थान पर चपावति पाठ 'कामनवेश्य रिलेशस' आफिस लंदन की पद्मावत की प्रति में, मधुमाछ का सुद्वैवच्छ पाठ श्री माता प्रसाद गुप्त ने स्वसंपादित जायसी ग्रन्थावलि में किया है, किंतु सुद्वैवच्छ पाठ काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रति से स्पष्ट होता है।

मुगुधावति का खंडावत या खडरावति पाठ नवलकिशोर प्रेस द्वारा मुद्रित पद्मावत में प्राप्त होता है। जोगू के स्थान पर 'साधा कुंवर मनोहर जोगू' श्री माता प्रसाद गुप्त की जायसी ग्रन्थावली में है।

२. श्री परगुराम चतुर्वेदी सूफी-फ़ारब्य-संग्रह पृष्ठ ६२।

३. श्री ब्रजरत्नदास खड़ी बोली हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ० ६१, ६२

४. मसनवी किरानुस्सादेव, मसनवी मतउल अनवाह, मसनवी शरीर व खुसरो, मसनवी लैली व मजनू, मसनवी आहने इस्फ़न्दरी, मसनवी हफ्त विहिम्त, मसनवी खिज़नामा, मसनवी नूह सिपहर, मसनवी तुगलक नामा आदि।

डा० रामकुमार वर्मा हिन्दी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास।

प्रेमगाथाओं का स्वरूप भी प्रदर्शित करनी है, किन्तु मुल्लादाऊद की 'चन्दावन' अप्राप्य होने के कारण अपने भाषा, छन्द आदि के विषय में हमें अंधकार में ही रखती है।

मुल्ला दाऊद की 'चन्दावन' के अनन्तर ऐसा ज्ञात होता है कि सूफी प्रेमगाथाओं की रचना पर्याप्त संख्या में हुई, किन्तु उनमें से अधिकांश नष्ट होगई हैं। कुछ का तो, केवल साधारण सा उल्लेख मात्र ही इधर उधर मिल जाता है। शेख रिन्कुला मुश्ताकी (सं० १५४६-१६३८) की 'प्रेमवन जोव निरंजन' ऐसी ही रचनाओं में है। कहा जाता है कि इसका लेखक भी सूफी था, तथा हिन्दुई में बहुत योग्यता रखता था। मुश्ताकी साहब का उपनाम 'रज्जन' था, इनकी रचना अभी तक अनुपलब्ध है, अतः उनके सम्बन्ध में कुछ कह सकना असम्भव है।

हिन्दी के प्राप्त सूफी प्रेमख्यानों में कुतबन की 'मिरगावती' सबसे प्राचीन है जिसमें गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूपमुरारि की कन्या मृगावती की प्रेम कथा वर्णित है। इसकी भी कोई पूर्ण प्रति अभी तक प्राप्त न होने के कारण इसके सम्बन्ध में कोई निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती। मिरगावती का रचनाकाल कुतबन के अनुसार हिजरी सन् ६०६ अर्थात् सन् १५०३ होता है। मुल्ला दाऊद की चन्दावन अप्राप्त होने के कारण 'मिरगावती' ही सर्वप्रथम सूफी प्रेमगाथा मानी जाती है। इसके पश्चान सूफी प्रेमख्यानों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जायसी की पद्मावत की रचना हुई। पद्मावत का रचना काल हि० सन् ६२७ तथा १५२० है। जायसी के अनन्तर उसके आदर्श पर लिखी जाने वाली कई सूफी प्रेमकथाएँ उपलब्ध होनी हैं। हि० सन् ६५२ में संफन ने 'मधुमालत' की रचना की। हि० सन् १०२२ में उसमान ने 'चित्रावली' की रचना करके हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि की। इसके बाद जान कवि ने अपनी सिद्ध लेखनी से २१ सूफी प्रेमख्यानों की रचना की जिनके नाम क्रमशः रतनावती, लैलेमजन्, रतनमजरी, नलदमयन्ती, पुहुप-वरिषा, कमलावती, छुविसागर, कामलता, कलावती, छीता, रूपमंजरी, मोहिनी, चन्द्रसेन सीलनिधान, कामरानी, पीतमदास, कथाकलन्दर की, देवलदेवी, कनकावती, कौतूहली, सुमरराइ, बुद्धिसागर, है। इन्हीं के समकालीन कवि शेख नवी ने जानदीप की रचना जहागीर के समय में मंचत् १६७६ में की थी। इसमें रानी देवजानी और राजा जानदीप की प्रेमकथा का वर्णन मिलता है। रचना मसनवी पद्धति पर ही लिखी गई है, परन्तु कवि ने सिद्धान्त-निरूपण का अधिक प्रयास नहीं किया है। जान कवि ऐसे प्रेमख्यान लिखने में इतने सिद्ध थे कि केवल दो ढाई दिनों के अल्पसमय में ही कथा पूर्ण कर डालते थे^१, यद्यपि यह सत्य है कि जायसी, संफन और उसमान जिस सफलता के साथ सूफीमत का विवेचन काव्य के माध्यम से कर सके उसी उत्कृष्टता के दर्शन हमें जान की सभी रचनाओं में नहीं होते। इसके पश्चात् १२वीं शताब्दी में कवि कासिमशाह कृत 'हंमजवाहिर'

१ सन सहम तेईस, ढोइ पहर में जान कवि भाषी बिसवा वीस।

इति कथा पलावती जान कवि कृत पोथी फतेहचन्द की घर की १७७८
सिती कातिक सुदी ११ सुक्रवार ॥

नामक पुस्तक उपलब्ध होती है। अब तक के प्रेमाख्यानों में सूफी सिद्धान्तों का प्रतिपादन तथा रति विषयक विभिन्न भावों की व्यञ्जना का आधार धर्म की उदार समन्वयवादिनी प्रवृत्ति है।

उन्नीसवीं शताब्दी के कवि नूरसुहम्मद ने अपनी 'इन्द्रावती' (हि० सन् ११५७) एवं अनुराग वाँसुरी (हि० सन् ११७८) में कट्टरपंथी इस्लामी भावनाओं का स्पष्ट शब्दों में समर्थन किया है। कवि निसार ने अपनी रचना 'यूसुफ जुलेखा' (हि० सन् १२०५) के कथानक को भी शामी परम्परा से लेना ही अधिक उपयुक्त समझा। 'यूसुफ जुलेखा' के शामी प्रेमाख्यान का महत्व वाद के इन कवियों में बहुत हुआ। शेख रहीम ने अपने ग्रन्थ 'भाषा प्रेम रस' में इस प्रेमाख्यान का विस्तृत वर्णन दृष्टान्त के रूप में किया है। कवि नसीर ने पुनः इसी कथानक का आधार लेकर अपने ग्रन्थ 'प्रेम दर्पण' का निर्माण किया।

ख्वाजा अहमद की 'नूरजहाँ' का रचना काल हि० सन् १३१३ तथा शेखरहीम की 'प्रेमरस' का हि० सन् १३२३ एवं कवि नसीर के 'प्रेमदर्पण' का रचनाकाल हि० सन् १३३५ है। 'प्रेमदर्पण' में भी यूसुफजुलेखा की ही प्रेमकथा वर्णित है।

अलीमुराद ने अपने ग्रन्थ 'कुंवरावन' में ग्रन्थ का रचनाकाल नहीं दिया है। हुसेन अली उपनाम सदानन्द कृत 'पुहुपावती' का रचनाकाल सन् ११३८ दिया हुआ है, किन्तु निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह हि० सन्, ई० सन्, या संवत् में से क्या है, क्योंकि उसके आगे प्रति अस्पष्ट है, अनुमानतः यह हिजरी सन् ही होगा। शाहनजफ अली सलोनी की 'प्रेमचिनगारी' का रचना काल ई० सन् १८०६ है। 'कथा कामरानी' ग्रन्थ में भी रचनाकाल का निर्देश नहीं है, किन्तु वह वाद की रचना ही जात होती है।

हिन्दी का मुक्तक सूफी काव्य :

पहले कहा जा चुका है कि सूफी काव्य रचना का आरम्भ अमीर खुसरो के समकालीन मुल्ला दाऊद से हो चुका था। अमीर खुसरो स्वयं चिश्ती सम्प्रदाय के प्रसिद्ध पीर निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। खुसरो रचित पहेलियों मुकरियों, दो सखुनों आदि का प्रारम्भिक हिन्दी काव्य चर्चा में महत्वपूर्ण स्थान है। अमीर खुसरो के यत्किन्चित प्राप्त दोहों और पदों में हम सूफी साहित्य के मुक्तक रूप का बीज निहित पाते हैं। इन दोहों और पदों में अत्यन्त गम्भीर भावों की व्यञ्जना हुई है^१। इस प्रकार के सूफी मुक्तक पदों के उदाहरण अमीर खुसरो के पश्चात् एक दीर्घ काल तक नहीं मिलते। १२ वीं सदी के पूर्वार्ध में पुनः इस प्रकार की मुक्तक सूफी रचनाओं की उपलब्धि होती है। अठारहवीं सदी के यारी साहब, बुल्लेशाह (स० १७३६—१८१०), प्रेमी कवि के स्फुट पद अब्दुलसमद के भजन, नजीर के प्रेमानिरेक में रचित पद, इसी प्रकार के मुक्तक सूफी काव्य के अन्तर्गत आते हैं किन्तु हिन्दी में इस प्रकार के मुक्तक सूफी पदों की रचना वाद में आरम्भ हुई,

सिन्धु के सूफ़ी कवि लतीफ़ इनायत आदि ने अपने सूफ़ी भावों का व्यक्तीकरण मुक्तक काव्य द्वारा ही किया था। सम्भव है इसी परम्परा से प्रभावित होकर हिन्दी के सूफ़ी कवियों ने भी मुक्तक काव्य की रचना की हो, सूफ़ियों के मुक्तक पदों की अपेक्षा उनके मुक्तक दोहों की संख्या अधिक है। जायसी के अखरावट तथा आखिरी कलाम के दोहे, शैल फरीद (मृ० सं० ६१०), के आदि ग्रन्थ में संग्रहीत 'सलोक' (दोहे), यारी साहब की साखी, प्रेमी, हाजीवली एवं वजहन के दोहों में सूफ़ी प्रेम और चेतवनी का संदेश निहित है।

इन दोहों और पदों के अतिरिक्त यारी साहब के भूलने, दीन दरवेश की कुरडलियाँ, नजीर अकबरावादी (मृ० सं० १८८७) की फारसी वजनों के अनुसार लिखी गई रचनायें अपना निजी महत्व रखती हैं।

फारसी साहित्य की भाँति सूफ़ियों के हिन्दी साहित्य में उनके निबन्धों का अधिक पता नहीं लगता किन्तु जायसी की अखरावट, जान कवि का वर्ननामा, हाजी वली का प्रेमनामा, वजहन का 'अलिफनामा' एवं किसी अज्ञात कवि का 'अल्लानामा' ऐसे ग्रन्थ पद्यात्मक सिद्धान्त-ग्रन्थ प्रतीत होते हैं। इन ग्रन्थों में अधिकांश ईश्वर स्तुति, प्रेम सराहना तथा सूफ़ियों की विविध साधनाओं का सीधे-सादे रूप में वर्णन मिलता है। जायसी की 'अखरावट', जान-कवि के वर्ननामा तथा यारी साहब के 'अलिफनामा' में क्रमशः नागरी और फारसी के अक्षरों से आरम्भ करके सिद्धान्त कथन किया गया है। जायसी के 'आखिरी कलाम' में इस्लाम के अनुयायियों की अन्तिम यात्रा, भिन्न भिन्न पौराणिक व्यक्तियों के विविध कार्य तथा मुहम्मद साहब के महत्व का विवरण है। इसके अतिरिक्त वजहन कवि का 'वजहननामा' या अलिफवाए भी प्राप्त होता है। हिन्दी में सूफ़ी जीवनी साहित्य का अभाव सा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी का सूफ़ी साहित्य प्रचुरता से उपलब्ध है। अखरावट, अलिफनामा, वर्ननामा, वजहननामा ऐसी रचनायें भी प्रचुर मात्रा में लिखी गई हैं। हिन्दी के प्राप्त प्रेमप्रबन्धों का समय सोलहवीं शताब्दी से आरम्भ होकर वीसवीं शताब्दी तक आता है, जबकि स्फुट काव्य की उपलब्धि हमें चौदहवीं शताब्दी में ही हो जाती है क्योंकि खसरों (सं० १३१२—१३८१ ई०) ने ही इस काल में ऐसे कुछ पदों की रचना की थी। सूफ़ी साहित्य की रचना अधिकांश प्रादेशिक भाषा में प्रचलित छन्दों के माध्यम से हुई। एक और ये कवि जहाँ सूफ़ी साधना का स्पष्टीकरण करना चाहते हैं वहीं दूसरी ओर वे साधारण-जन जीवन की भी सफल अभिव्यक्ति कर सके हैं।

सूफी-काव्य की पृष्ठभूमि

मुहम्मद साहब के प्रयास से विश्वखंड होती हुई अरब जाति संगठित होगई पैगम्बर ने स्वयं धर्म-प्रचार किया था और कुरान में अपने अनुयायियों को स्पष्ट रूप धर्म-प्रचार के हेतु उत्साहित किया था। सातवीं सदी तक अरब की जातियाँ एकता सूत्र में बंध गईं और उन्होंने 'जेहाद' (धर्मयुद्ध) के नाम पर देश-देशान्तरों को विजय करना आरम्भ कर दिया। सातवीं सदी में खलीफाओं ने सिन्ध को विजित करने का प्रयास किया। इसके पूर्व अरबी सौदागर मालावार एवं कालीकट के तट पर शान्तिपूर्वक व्यापार करते और धर्मप्रसार करते थे। हिन्दू राजाओं ने इन सौदागरों को स्वयं पालन की पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी थी। वल्लभी राजा ने तो स्वयं उनके लिए मस्जिद बनवाई थी। इस प्रकार दक्षिण में व्यापारियों, और अब्दुर्रज्जाक ऐसे प्रचारकों के द्वारा इस्लाम का प्रचार हुआ।

व्यापारिक सम्बन्ध के अतिरिक्त भारत और अरबों का शासित और शासक का सम्बन्ध सन् ६३७ ई० से आरम्भ होता है। सन् ७१२ में मुहम्मद-विन-कासिम ने सिन्ध पर विजय प्राप्त की। धीरे-धीरे सिन्ध के अरब विजेताओं को यह ज्ञात हो गया कि भारत पर ठेठ मुसलमानी सिद्धान्तों और पद्धतियों के अनुसार शासन करना असंभव होगा उन्होंने हिन्दुओं के साथ 'अहले-किताब', कुरान में वर्णित जातियों के अनुसार व्यवहार आरम्भ किया। अरबों का यह प्रयास अधिक स्थायी नहीं हुआ, शीघ्र ही स्थानीय शासक स्वतंत्र हो गये। इस राजनीतिक घटना से एक विशेष आंदोलन का सम्बन्ध है भारतीय संस्कृति साहित्य, ज्योतिष आदि ज्ञान धाराओं से जब अरबों का सम्पर्क हुआ तो कुछ मुसलमान फकीर और दरवेश धर्मप्रचार के विचार तथा ज्ञान-लाभ के हेतु भारत आये। यह कार्य सुचारु रूप से ११वीं सदी तक आरम्भ हो गया था। सन् १००५ ई० में शेख इस्माईल बुनारा से भारत आया और उसने अपने प्रचार से सैकड़ों को मुसलमान बनाया। सन् १०६७ में अब्दुल्लाह यमनी ने गुजरात में इसी प्रकार प्रचार किया। आज के बोहरे लोग इसे अपना आदि प्रचारक मानते हैं। बारहवीं सदी के आरम्भ में खोजी के प्रचारक नूर सतागर ईरानी ने इसी प्रकार गुजरात की नीच जातियों को मुसलमान

बनाया। तेरहवीं सदी में मैयद जलालउद्दीन बुखारी और सैयद अहमद कवीर ने मिन्व में उच्च के पास बहुता को मुसलमान बनाया। तेरहवी सदी के सीस्तान से अजमेर में आकर बसने वाले, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती इन सब में अधिक प्रसिद्ध है। नात्पर्य यह कि ग्यारहवीं सदी से सूफियों का आगमन प्रचारक के रूप में आरम्भ हो गया था। ये प्रचारक मुसलमान विजेताओं के साथ आगे बढ़ते थे। तेरहवीं सदी तक मुस्लिम राज्य विस्तार के साथ ही ये साधक भी पंजाव, काश्मीर, दक्षिण बंगाल आदि प्रदेशों के कोने-कोने में फैल गये।

अब तक की खोजों के अनुसार तेरहवीं शताब्दी के मुल्लादाउद को प्रथम सूफी प्रमाख्यान रचयिता माना जाता है अतः तेरहवीं शताब्दी से ही हिन्दी में सूफी काव्य की रचना मानी जानी चाहिये, यद्यपि सिन्धी एवं पंजाबी में इसके पूर्व भी सूफी काव्य रचना हो चुकी थी। प्राप्त ग्रन्थों के आधार पर सूफी प्रमाख्यान-पद्धति में अन्तिम प्रेम-दर्पण को मानना चाहिये जिसका समय संवत् १६७४ है। अतः तेरहवीं शताब्दी में आरम्भ हुई यह सूफी प्रमाख्यान परम्परा बीसवीं सदी तक वर्तमान रही। इन सात सौ वर्षों में लिखे गये काव्य की पृष्ठभूमि स्वरूप, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या थी इसका विवेचन हुये बिना इनके काव्य के तत्वों को भली प्रकार नहीं समझा जा सकता।

राजनीतिक स्थिति :

सातवीं शताब्दी में जब इस्लाम धर्म एवं शासन का आगमन भारतवर्ष में हुआ, यहाँ की राजनीतिक स्थिति बड़ी डावाडोल थी। गुप्त-सम्राज्य के पतन के पश्चात् उत्तरी भारत पर स्थिर एकछत्र शासन स्थापित न हो सका। सकल उत्तर-पथ-नाथ हर्ष ने भारतीय पंच-प्रान्त (सौराष्ट्र, कान्यकुब्ज, मिथिला, मगध गौड़, एवं उत्कल) को अधीनस्थ अवश्य कर लिया था किन्तु उसकी सन् ६४७ ई० में मृत्यु के पश्चात् इन राज्यों को फिर कोई एक सूत्र में न बाध सका।

हर्ष के साम्राज्य पतन के पश्चात् उत्तरी भारत में कई छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना हुई। एक छत्र शासन तथा केन्द्रीय संघबद्धता विनष्ट होगई और कोई भी राजशक्ति इन्हें एक सूत्र में न बाध सकी। स्वतंत्र नृपति जो बलवती शक्ति के सम्मुख हतंश्री हो जाते थे अथवा पाते ही फिर स्वतंत्र होने की चेष्टा करते थे। प्रत्येक नवीन स्थापित राज्य के सम्मुख अन्य छोटे छोटे स्वतंत्र नृपतियों को अधीनस्थ करना अनिवार्य समस्या होती थी। जितना ही सबल और दुर्दमनीय विरोधी होता, उतनी ही समस्या जटिल हो जाती थी। किन्तु दमन का प्रयास प्रत्येक नृपति को करना पड़ता था। तत्कालीन एकछत्र शासन का स्वरूप शक्ति की केन्द्रीय व्यवस्था न होकर संघबद्ध व्यवस्था थी जिसके ध्वस्त होने में अधिक समय नहीं लगता था। प्रत्येक महत्वाकांक्षी एवं शक्तिशाली संघ स्वतंत्र होने एवं प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा करता था।

सम्पूर्ण भारत में मुस्लिम शक्ति का प्रसार निश्चिन्त रूप से एक ही समय में नहीं हो सका। सातवीं शताब्दी में सिन्ध पर हुए आक्रमण से लेकर सन् ११६३ तक, ५०० वर्षों का अवसान, इस्लामी शासन की स्थापना के प्रयास का समय है।

दाहिर के शासनकाल सन् ७१२ में मुहम्मद-बिन-कासिम का सिन्ध पर आक्रमण सफल रहा किन्तु महमूद गजनवी के आक्रमण के समय तक फिर सिन्ध में छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गये जिनसे उसे युद्ध करना पड़ा था।

भारत के पश्चिमोत्तर में स्थित शाही वंश, जिन्हे अलबेरूनी 'हिन्दू तुर्क' कहता है के राज्य पर अरबों के आक्रमण सातवीं शताब्दी के मध्य में आरम्भ हो गये थे किन्तु सन् ६७० ई० तक ये राज्य लगभग स्वतन्त्र ही रहे। शाही राजा जयपाल को सुबुक्तगीन ने परास्त करके लगान एवं पेशावर तक के प्रदेश पर अधिकार कर लिया। सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात् महमूद ने भारत पर सन् १००१ ई० से लेकर सन् १०२६ तक निरन्तर सत्रह आक्रमण किये। वह भारत में राज्यस्थापना न कर सका। लूटमार उसका उद्देश्य था। उसके 'जेहाद' की सार्थकता मूर्तियों के खण्डन एवं मन्दिरों के तोड़ने से सिद्ध होती थी। शासनक्षेत्र की दृष्टि से केवल पञ्जाब और सिन्ध को वह अपने राज्य में मिला सका किन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात् धीरे-धीरे प्रभाव कम होता गया और सन् ११७३ तक इस्लामी सत्ता पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी। ऐसे आक्रमणकारियों के साथ ही सूफी दर्वेश या फकीर भारत में आये। सिन्ध के प्रसिद्ध कवि शाह-लतीफ के वंशज तैमूर के आक्रमण के साथ भारत आये थे। सिन्ध के इन सूफी कवियों की उदारता सराहनीय है, फिर भी, इनका भारत में आने का उद्देश्य भी धर्म प्रचार ही था। कहा जाता है कि महमूद गजनवी को भारत पर आक्रमण करने को एक सूफी दर्वेश ने ही उकसाया था।

महमूद के आक्रमणों का कोई स्थायी प्रभाव भारत पर न पड़ा। वह अपने भीषण अत्याचारों से केवल प्रजा को संचस्त ही कर सका। एक शताब्दी पश्चात् फिर मुहम्मद गोरी के आक्रमण हुए। उच्च, गुजरात और पेशावर पर विजयी हो जाने पर उसकी महत्वाकांक्षा बढी और उसने आगे बढ़कर दोआब पर भी आक्रमण किये। हम पीछे कह चुके हैं कि हर्ष की मृत्यु के पश्चात् और महमूद के आक्रमण के पूर्व, उत्तर भारत में छोटे छोटे राजपूत राज्य स्थापित हो गये थे। ये राज्य धीरे धीरे इन आक्रमण-कारियों के द्वारा नष्ट कर दिये गये। उत्तरी भारत में उस समय सबसे प्रबल अजमेर के चौहानों का राज्य था। गहरवार कुलीय जयचन्द कन्नौजाधिपति था। मुहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक से भारतीय इतिहास का मुस्लिमकाल आरम्भ होता है।

'तबकात-ए-नासिरी' के अनुसार आरामशाह की मृत्यु के समय हिन्दुस्तान चार भागों में विभक्त था। सिन्ध में नासिरउद्दीन कुवाचा, दिल्ली और उसके आस-पास के प्रदेश पर सुल्तान सैयद शम्सुद्दीन, लखनौती के इलाके में खिलजी, लाहौर पर कभी मलिक ताजुद्दीन और कभी मलिक नासिरउद्दीन कुवाचा और शम्सुद्दीन का आधिपत्य रहा। मुहम्मद बल्लियार खिलजी के आक्रमण पूर्व में मुंगेर और बिहार के प्रान्तों पर यदाकदा होते रहे। नालन्दा के बिहार तथा पुस्तकालय को इन्हीं आक्रमणों ने नष्ट किया। खिलजी का आतंक इस प्रकार बिहार, बंगाल तथा कामरूप तक छाया हुआ था।

दंगाल का राजा लक्ष्मणसेन बल्लभार खिलजी से पराजित होकर लखनौती भागा। इल्तुतमिश के राज्यकाल में भी संघर्ष चलता रहा। भारतीय इतिहास में दासवंश के नाम से प्रसिद्ध राजकुल का शासन उसके उत्तराधिकार की अव्यवस्था, सेनापति तथा अमीरों के पारस्परिक द्वेष के कारण, केवल नाममात्र का शासन रहा। साधारण ग्रामीण जनता प्रायः केन्द्रीय शासन से अनभिज्ञ थी, केवल समय-समय पर होने वाली युद्ध यात्राओं से ही उन्हें अत्यन्त कष्ट होता था। केन्द्रीय शासन व्यवस्था दृढ़ नहीं थी।

इल्तुतमिश ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन के सम्मानार्थ एक लाट बनवाई थी जिसे कुतुबशाह की लाट कहा जाता है। इल्तुतमिश की इच्छा उन्हें 'शेख-उल-इस्लाम' की उपाधि से विभूषित करने की थी, किन्तु ऐश्वर्य से विरक्त सूफ़ी साधक ने इसे अस्वीकार कर दिया।

इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों की शक्तिहीनता के कारण राजनीतिक परिस्थिति विश्रुद्धल होती गई। रुकुनुद्दीन और रज़िया बेगम के राज्यकाल में अमीरों के आपसी मतभेद और शासक के साथ सम्बन्ध के कारण विषमता और बढ़ गई। संघर्ष और अव्यवस्थित शासन के मध्य बलवन ने साम्राज्य रक्षा का प्रयत्न किया। मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेने पर भी स्थानीय मुसलमानों के अधीन रहना पूर्व मुसलमान अपना अपमान समझते थे। ऐसी विरोधी परिस्थितियों में सदैव पडयन्त्र की योजना रहती थी। बलवन का सारा समय विरोधों के दमन में ही व्यतीत हुआ। अफगान सरदारों व पराजित हिन्दुओं के साथ ही मंगोलों के दमन का भी प्रयास उसे करना पड़ता था। अत्यन्त निर्दयता और दृढ़ता से उसने इन शक्तियों का दमन किया। हिन्दुओं का राजव्यवस्था में कोई हाथ न था। फरिश्ता के अनुसार बलवन हिन्दुओं को कोई उत्तरदायित्वपूर्ण पद नहीं देता था।

बलवन के बाद भी केन्द्रीय शासन की अव्यवस्था बढ़ती ही गई जिससे लाभ उठाकर जमालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर अधिकार जमाया। इसके बाद क्रमशः एक के बाद एक सुल्तान राज्याधिकार पाते रहे किन्तु अकबर के पहले कोई भी भारत में अपना दृढ़ शासन स्थापित न कर सका। शक्ति के हेतु संघर्ष की समाप्ति मुस्लिम राज्यकाल में कभी मी नहीं हुई। मुस्लिम साम्राज्य दृढ़ होकर भारत भूमि पर कुछ काल ही रह सका। महमूद गजनवी केवल आक्रमणकारी के रूप में भारत में आया था। गोरी ने साम्राज्य स्थापना का प्रयास किया। गुलाम, खिलजी एवं तुगलक वंश क्षणभंगुर थे। वावर और हुमायूँ का प्रयास भी साम्राज्य स्थापना की दृष्टि से विशेष सफल नहीं रहा। अकबर को भी बीस वर्ष तक विरोधी शक्तियों का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के समय तक साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। जहाँगीर और शाहजहाँ ने अकबर की नीति का अनुसरण करने का प्रयास किया किन्तु औरंगजेब की कटु नीति ने मुगल साम्राज्य का पतन करवा ही दिया।

दक्षिण भारत आरम्भ में बहुत दिनों तक मुस्लिम प्रभाव से अछूता ही रहा। बारहवीं सदी तक कोई मुसलमान शासक दक्षिण भारत में प्रवेश न कर सका। सन् १२६४

सम्पूर्ण भारत में मुस्लिम शक्ति का प्रसार निश्चित रूप से एक ही समय में नहीं हो सका। सातवीं शताब्दी में सिन्ध पर हुए आक्रमण से लेकर सन् ११६३ तक, ५०० वर्षों का अवसान, इस्लामी शासन की स्थापना के प्रयास का समय है।

दाहिर के शासनकाल सन् ७१२ में मुहम्मद-बिन-कासिम का सिन्ध पर आक्रमण सफल रहा किन्तु महमूद गजनवी के आक्रमण के समय तक फिर सिन्ध में छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गये जिनसे उसे युद्ध करना पड़ा था।

भारत के पश्चिमोत्तर में स्थित शाही वंश, जिन्हे अलबेरुनी 'हिन्दू तुर्क' कहता है के राज्य पर अरबों के आक्रमण सातवीं शताब्दी के मध्य में आरम्भ हो गये थे किन्तु सन् ६७० ई० तक ये राज्य लगभग स्वतन्त्र ही रहे। शाही राजा जयपाल को सुबुक्तगीन ने परास्त करके लमगान एवं पेशावर तक के प्रदेश पर अधिकार कर लिया। सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात् महमूद ने भारत पर सन् १००१ ई० से लेकर सन् १०२६ तक निरन्तर सत्रह आक्रमण किये। वह भारत में राज्यस्थापना न कर सका। लूटमार उसका उद्देश्य था। उसके 'जेहाद' की सार्थकता मूर्तियों के खण्डन एवं मन्दिरों के तोड़ने से सिद्ध होती थी। शासनक्षेत्र की दृष्टि से केवल पञ्जाब और सिन्ध को वह अपने राज्य में मिला सका किन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात् धीरे-धीरे प्रभाव कम होता गया और सन् ११७३ तक इस्लामी सत्ता पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी। ऐसे आक्रमणकारियों के साथ ही सूफी दवेश या फकीर भारत में आये। सिन्ध के प्रसिद्ध कवि शाह-लतीफ के वंशज तैमूर के आक्रमण के साथ भारत आये थे। सिन्ध के इन सूफी कवियों की उदारता सराहनीय है, फिर भी, इनका भारत में आने का उद्देश्य भी धर्म प्रचार ही था। कहा जाता है कि महमूद गजनवी को भारत पर आक्रमण करने को एक सूफी दवेश ने ही उकसाया था।

महमूद के आक्रमणों का कोई स्थायी प्रभाव भारत पर न पड़ा। वह अपने भीषण अत्याचारों से केवल प्रजा को संतुष्ट ही कर सका। एक शताब्दी पश्चात् फिर मुहम्मद गोरी के आक्रमण हुए। उच्च, गुजरात और पेशावर पर विजयी हो जाने पर उसकी महत्वाकांक्षा बढी और उसने आगे बढ़कर दोआब पर भी आक्रमण किये। इस पीछे कह चुके हैं कि हर्ष की मृत्यु के पश्चात् और महमूद के आक्रमण के पूर्व, उत्तर भारत में छोटे छोटे राजपूत राज्य स्थापित हो गये थे। ये राज्य धीरे धीरे इन आक्रमण-कारियों के द्वारा नष्ट कर दिये गये। उत्तरी भारत में उस समय सबसे प्रबल अजमेर के चौहानों का राज्य था। गहरवार कुलीय जयचन्द कन्नौजाधिपति था। मुहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक से भारतीय इतिहास का मुस्लिमकाल आरम्भ होता है।

'तबकात-ए-नासिरी' के अनुसार आरामशाह की मृत्यु के समय हिन्दुस्तान चार भागों में विभक्त था। सिन्ध में नासिरुद्दीन कुवाचा, दिल्ली और उसके आस-पास के प्रदेश पर सुल्तान सैयद शम्सुद्दीन, लखनौती के इलाके में खिलजी, लाहौर पर कभी मलिक ताजुद्दीन और कभी मलिक नासिरुद्दीन कुवाचा और शम्सुद्दीन का आधिपत्य रहा। मुहम्मद बख्तियार खिलजी के आक्रमण पूर्व में मुंगेर और बिहार के प्रान्तों पर यदाकदा होते रहे। नालन्दा के विहार तथा पुस्तकालय को इन्हीं आक्रमणों ने नष्ट किया। खिलजी का आतंक इस प्रकार बिहार, बंगाल तथा कामरूप तक छाया हुआ था।

दंगल का राजा लक्ष्मणसेन बल्लथार खिलजी से पराजित होकर लखनौनी भागा। इल्तुतमिश के राज्यकाल में भी संघर्ष चलता रहा। भारतीय इतिहास में दासवंश के नाम से प्रसिद्ध राजकुल का शासन उसके उत्तराधिकार की अव्यवस्था, सेनापति तथा अमीरों के पारस्परिक द्वेष के कारण, केवल नाममात्र का शासन रहा। साधारण ग्रामीण जनता प्रायः केन्द्रीय शासन से अनभिज्ञ थी, केवल समय-समय पर होने वाली युद्ध यात्राओं से ही उन्हें अत्यन्त कष्ट होता था। केन्द्रीय शासन व्यवस्था टूट नहीं थी।

इल्तुतमिश ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन के सम्मानार्थ एक लाट बनवाई थी जिसे कुतुबशाह की लाट कहा जाता है। इल्तुतमिश की इच्छा उन्हें 'शेख-उल-इस्लाम' की उपाधि से विभूषित करने की थी, किन्तु ऐश्वर्य से विरक्त सूफी साधक ने इसे अस्वीकार कर दिया।

इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों की शक्तिहीनता के कारण राजनीतिक परिस्थिति विश्रुद्धल होती गई। रकनुद्दीन और रज़िया बेगम के राज्यकाल में अमीरों के आपसी मतभेद और शासक के साथ सम्बन्ध के कारण विषमता और बढ़ गई। संघर्ष और अव्यवस्थित शासन के मध्य बलवन ने साम्राज्य रक्षा का प्रयत्न किया। मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेने पर भी स्थानीय मुसलमानों के अधीन रहना पूर्व मुसलमान अपना अपमान समझते थे। ऐसी विरोधी परिस्थितियों में सदैव पडयन्त्र की योजना रहती थी। बलवन का सारा समय विरोधों के दमन में ही व्यतीत हुआ। अफगान सरदारों व पराजित हिन्दुओं के साथ ही संगोलों के दमन का भी प्रयास उसे करना पड़ता था। अत्यन्त निर्दयता और दृढता से उसने इन शक्तियों का दमन किया। हिन्दुओं का राजव्यवस्था में कोई हाथ न था। फरिश्ता के अनुसार बलवन हिन्दुओं को कोई उत्तरदायित्वपूर्ण पद नहीं देता था।

बलवन के बाद भी केन्द्रीय शासन की अव्यवस्था बढ़ती ही गई जिससे लाभ उठाकर जमालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर अधिकार जमाया। इसके बाद क्रमशः एक के बाद एक सुल्तान राज्याधिकार पाते रहे किन्तु अकबर के पहले कोई भी भारत में अपना दृढ शासन स्थापित न कर सका। शक्ति के हेतु संघर्ष की समाप्ति मुस्लिम राज्यकाल में कभी भी नहीं हुई। मुस्लिम साम्राज्य टूट होकर भारत भूमि पर कुछ काल ही रह सका। महमूद गजनवी केवल आक्रमणकारी के रूप में भारत में आया था। गोरी ने साम्राज्य स्थापना का प्रयास किया। गुलाम, खिलजी एवं तुगलक वंश क्षणभंगुर थे। बाबर और हुमायूँ का प्रयास भी साम्राज्य स्थापना की दृष्टि से विशेष सफल नहीं रहा। अकबर को भी बीस वर्ष तक विरोधी शक्तियों का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के समय तक साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। जहाँगीर और शाहजहाँ ने अकबर की नीति का अनुसरण करने का प्रयास किया किन्तु औरंगजेब की कट्टर नीति ने मुगल साम्राज्य का पतन करवा ही दिया।

दक्षिण भारत आरम्भ में बहुत दिनों तक मुस्लिम प्रभाव से अछूता ही रहा। बारहवीं सदी तक कोई मुसलमान शासक दक्षिण भारत में प्रवेश न कर सका। सन् १२६४

मे अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरि के यादव नृपति पर सम्पतिहरण के विचार से आक्रमण किया और विजयी हुआ। सन् १२६५ में राजसिंहासनासीन होने पर उसने रणथम्भौर चित्तौर, चन्देरी, मालवा, धार एवं उज्जैन को जीतने का प्रयास किया। अलाउद्दीन ने रणथम्भौर और चित्तौड़ को जीत लिया। मालवा और गुजरात उसके आधीन हो गये। देवगिरि के यादवों और वारंगल काकतीय नृपतियों को एक बार मलिक काफूर ने फिर परास्त किया।

खिलजियों के पश्चात् तुगलकों का दिल्ली पर अधिकार हुआ। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मुहम्मद तुगलक, जो भारतीय इतिहास में विद्विष की उपाधि से विभूषित है, ने शासन व्यवस्था से धार्मिक नेताओं, मुल्ला, मौलवियों का प्रभाव कम करना चाहा था। उसकी मृत्यु के बाद फिरोजशाह ने फिर कट्टर इस्लाम धर्म के अनुसार ही शासन-व्यवस्था करने का प्रयास किया। फिरोजशाह के निर्बल उत्तराधिकारियों का शासन काल पारस्परिक संघर्ष, विग्रह और विद्रोह से पूर्ण रहा, सन् १५२६ में बाबर ने दिल्ली पर आधिपत्य पाने का प्रयास किया। हुमायूँ का समय अशान्ति में ही व्यतीत हुआ।

शेरशाह का अल्पकालीन शासन सुख शान्ति से पूर्ण था। इसकी शासन व्यवस्था न्यायपद्धति एवं राजनीति भी उच्चकोटि की थी। दीर्घकालीन अशान्ति के बाद शान्ति एवं किञ्चित् सुख की स्थापना ने वैमनस्य को विस्मृत करने में सहायता दी। जायसी इसी काल के प्रमुख सूफी कवि हैं, जिनके काव्य में इस सहृदयता का परिचय उपलब्ध होता है। अकबर की नीति ने भी शान्ति स्थापन के कार्य में बहुत हाथ बटाया। जहाँगीर और शाहजहाँ के शासनकाल भी अपेक्षाकृत शान्ति और सुव्यवस्था के युग रहे। फिरोज की पद्धति का अनुसरण औरङ्गजेब ने किया, उसकी कट्टरनीति और अंग्रेजों की नीति निपुणता ने शीघ्र ही मुस्लिम राज्य का पतन करा दिया। मुस्लिमकाल का यह संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का परिचायक है। प्रायः सूफी रचनाओं का काल सोलहवीं सदी से लेकर वीसवीं के आरम्भ तक जाता है। इस समय तक अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था। शेख रहीम ने अपने 'प्रेमरस' में जार्ज पञ्चम की महिमा का गान किया है।

प्रारम्भिक मुस्लिम शासकों के समस्त विविध समस्याएँ थीं। उत्तराधिकार सम्बन्धी अनिश्चितता के कारण एक सुल्तान की मृत्यु के बाद नवीन संघर्ष एवं विपत्तियाँ उत्पन्न हो जाती थीं। राजसभा में सरदारों, अमीरों एवं मन्त्रियों का बोल वाला था। पड़ोसियों में वेगमों का भी यद्येष्ट हाथ रहता था। भारत सहसा आक्रान्त तो हो गया था किन्तु शान्तिपूर्ण व्यवस्था एवं वातावरण का अभाव था। न्याय विभागों का काजी, सम्राटों के लिये एक समस्या थी, उसकी निरंकुशता से छूटने का प्रयास अलाउद्दीन और मुहम्मद तुगलक दोनों ने ही किया किन्तु उमे पूर्ण मफलता न मिल सकी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैय्यद, लोदी एवं मुगल सम्राटों के शासनकाल में भी अव्यवस्था ही प्रधान थी।

भारतीय राजा मुगलों की विलासिता का अनुकरण करते थे। हिन्दुओं को जजिया देने के पश्चात् भी स्वतंत्रता न थी। देवालियों का नवीन निर्माण बन्द होगया था। पुरानों की मरम्मत की आज्ञा भी कठिनाई से मिलती थी। वास्तव में मुस्लिम शासन सैनिक शासन था जिसका लक्ष्य संकीर्ण एवं भौतिक था। मनसबदार एवं सामन्त ही राज्य शासन के दृढ स्तम्भ थे। राजनीतिक क्षेत्र में न केवल विधर्मी राजा ही असहिष्णु और क्रूर थे, देशी राजा भी उन्हीं का अनुकरण करते थे। प्रजा की उन्नति की ओर उनका ध्यान न था। नगरनिवासी राजा की राजनीति का कोई स्पष्ट प्रभाव गाँवों में रहने वाली जनता पर न पड़ता था। राज्य परिवर्तन या सम्राट परिवर्तन से उसकी अवस्था में कोई अन्तर न आता था। तुलसीदास जी के शब्दों में राजा 'परमस्वतंत्र न सिर पर कोऊ' थे, यदि उसे किसी बात की चिन्ता रहती थी तो उत्तराधिकार की अनिश्चितता या शक्तिसम्पन्न सरदारों और सामन्तों के दमन की। प्रजा का कोई चाव राजा के निर्वाचन या स्थापन में न होता था। तुलसीदास का 'कोउ नृप होइ हमैं का हानी। चेरी छाड़ि ना होउव रानी' सामान्य जनता का राजसिंहासनाधीश के प्रति व्यक्त किया गया विचार है। प्रजा का कोई अंकुश राजा के ऊपर न रह गया था। एक एक सुल्तान या भारतीय सामन्तों के हजारों की संख्या में रानिया होती थीं। इन रानियों की सं। नें और राजदरवार में रहने वाले कलाकार, कवि, संगीतज्ञ, चित्रकार, मूर्तिकार, विद्वेषकों, मसखरों और चापलूसों पर प्रजा की गाडी कमाई का धन नष्ट होता था। महल, क्रीड़ा-उपवन, सिंहासन, पलंग, मोरछल, चमर और लाखों के हीरा मोती, महार्घ रत्नों के आभूषण, राजमहलों की सजावट, चित्रकला, क्रीडामृग, सोने के पीजड़ों में बन्द शुक सारिका आदि पर देश की जनता का धन व्यय होता था, तभी तो तुलसीदास को राजा के लिये 'भूप प्रजासन' की उपाधि देनी पड़ी। इन सबके बदले में प्रजा को केवल अनीति और दण्ड राज्यशासन की ओर से, तथा अकाल, महामारी और दुर्भिक्ष परमात्मा की ओर से प्राप्त होता था। परमेश्वर की दुहाई का तो प्रश्न ही नहीं उठता, धरा पर परमेश्वर का कनिष्ठ अंश सुल्तान था, उसके समक्ष उनकी पहुँच नहीं हो सकती थी। किसान, मजदूरों एवं शूद्रों की स्थिति अच्छी नहीं थी। जहांगीर के समय (१६३० ई०) का सतासिया अकाल कितना भयंकर था उसका परिचय सुन्दर कवि के साहित्य से ही ज्ञात होता है। ऐसे समयों पर निर्धन जनता की

१. द्विज श्रुति ब्रह्मक भूप प्रजासन । कोउ नहिं मान निगम अनुसासन ॥

तुलसीदास उत्तरकाण्ड २० घ० भा० ।

२. नृप पाप परायण धर्म नहीं । करि टण्ड विदग्ध प्रजा नितहीं ॥

३. कलि बारहि बार दुकाल परै , विनु अन्न दुखी सब लोग मरै ॥

देव न वर्षहि धरनि बपु न जामहि धान ।

तुलसीदास . २० घ० भा० उत्तरकाण्ड ।

मानवता खो जाती थी। वे सब कर्तव्यों और सम्बन्धों को त्याग कर केवल जीवन धारण की चेष्टा करते थे। इस अन्धाधुन्ध राजनीति का वर्णन सूरदास ऐसे लीलागायन में मस्त जन्मान्ध कवि ने भी किया है। तुलसी, सूर, कबीर एवं विद्यापति की रचनाओं में इस समय की राजनीतिक परिस्थिति के संकेत मिलते हैं। तुलसीदास ने तो इस विषय पर बहुत कुछ लिखा है। इतना सब होने पर भी ये 'सूफी-कवि' इस ओर से उदासीन क्यों हैं यह एक जटिल समस्या है। इन कवियों के सामने पशुतुल्य दास दासी, उन पर किये जाने वाले पाशविक अत्याचार, पद-पद पर अपमानित 'त्रस्त, पीड़ित किसान और श्रमजीवी जनता के अनगिनत कष्ट थे। अकाल, महामारी, युद्ध और बाढ़ आदि दैवी प्रकोप वर्तमान थे, फिर भी इन सूफी कवियों ने इनमें से किसी का भी दुःखान्त वर्णन नहीं किया है जबकि उसी युग के तुलसी, सूर, कबीर, आदि कवियों के काव्य में इसका वर्णन एव संकेत मिलता है। कहा जा सकता है कि राजदण्ड के भय, एवं स्वकीर्तिनाश भय से इन्होंने ऐसा नहीं किया तो यह दलील भी थोथी है जबकि उसी समय का एक कवि 'संतन्ह को कहा सीकरी सों काम' और 'भरोसो दूढ़ इन चरनन केरो' गा सकता है तब राजधर्म के अनुयायी सूफी साधकों को यह अकारण भय क्यों? सूफी साधना का आरम्भ ही त्याग और वैराग्य पर हुआ, फिर यदि उसे राजभय प्राप्त न हो तो चिन्ता किस बात की?

सूफी कवियों की इस लुप्पी का कारण है उनका इस्लामानुमोदन का प्रदर्शन। सूफीमत वा प्रवेश जिस समय भारत भूमि पर हुआ उस समय तक उसका राजसत्ता से विरोध समाप्त हो चुका था। अब सूफी-मत, इस्लाम-धर्म का एक अंग था। इन सूफी कवियों के दृष्टिकोण से राजनीतिक स्थिति अनुकूल थी, क्योंकि उसमें धर्म के प्रसार का अवकाश था, यही कारण है कि इन्होंने ग्रन्थारम्भ में शाहेवकत की प्रशंसा करते समय 'दीन क थूनी' कहा है। उन्हें राजा की अनीति या धर्मान्धना से उतना मतलब न था जितना उसके दीन प्रसारक स्वरूप से। इस्लाम धर्म के विकास एवं उत्थान के अनुकूल परिस्थिति होने के कारण ये सुलतानों की निन्दा न करके बढ़ाई करते हैं और कहीं भी उनकी परधर्म-दमन नीति को प्रकाश में नहीं लाते, केवल नूरमुहम्मद ने 'इन्द्रावति' में राजनीति की चर्चा मात्र की है।

इसका प्रमुख कारण यह है कि सूफियों की दृष्टि से समय अनुकूल था, उन्हीं के धर्मानुयायी शासक थे। धर्म प्रचार का पूर्ण अवकाश उन्हें प्राप्त था। धर्म का अनुकरण करने वाले पर राजा की कृपादृष्टि थी। राजनीति में साधारण व्यक्ति का हाथ नहीं था वह राज्य के कार्यों से उदासीन था। धर्म की दृष्टि से जहाँ सूफियों ने परिस्थिति की अनुकूलता की चर्चा की है वहीं उसके अन्य स्वरूपों के प्रति वे उदासीन हैं।

अंग्रेजों का शासन हो जाने से पिसती हुई जनता को कुछ सास लेने का अवकाश प्राप्त हुआ। इस अर्थ में कि उन्हें अब किसी राजा के लाख संख्यक परिवार का दमन नहीं सहन पड़ता था, किन्तु दमन तो था ही। राजा का कनिष्ठ रूप गवर्नर, पुलिस

के सिपाही, जमींदार एवं शासनाधिकारी उच्चवर्ग-सदा की भाँति निम्नवर्ग को दवाने का, उनके सुख चैन छीनने का प्रयास करते रहे, तुलसीदास की चौपाई 'उदर भरे सोइ धर्म सिखावें' इस युग की शिक्षा का सत्य स्वरूप प्रदर्शित करती रही, फिर भी विज्ञान की देन, रेल, तार, डाक किञ्चित शिक्षा प्रसार आदि के कारण इस समय की अवस्था अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण थी। इन राजाओं एवं उनके प्रतिनिधि गवर्नर जनरल आदि के सम्मुख उत्तराधिकार निर्वाचन की समस्या न थी और न देशी राजा इतने सशक्त थे कि इनका सबल विरोध करते। अंग्रेजों की शोषण-नीति का स्वयं ही दूसरा था। उसमें दावपेंच की चालें थीं, जबकि मुगल सम्राटों की दमन नीति में बल एवं वैभव का प्रदर्शन था।

सामाजिक स्थिति :

मध्यकालीन सामाजिक स्थिति की कोई विच्छिन्न और स्वतंत्र सत्ता नहीं है। भारत पर भिन्न समयों में विदेशी जातियों ने आक्रमण किये थे, एवं आक्रमणकारी भारतीय जन-समूह के अंश बन चुके थे। भारतीय समाज की इस अविच्छिन्न धारा में मुसलमान जाति क्यों नहीं मिल पाई इसका कारण है।

सातवीं शताब्दी तक भारत में प्राचीन काल की भाँति मुख्यतया चार वर्ण थे। ब्राह्मण विशेषकर अध्ययन और अध्यापन का कार्य करते और समाज के नेता समझे जाते थे। वे राजाओं के मन्त्री होते थे परन्तु सन् ७०० ई० से १००० ई० के मध्य वे अन्य पेशे भी करने लगे और पाराशर स्मृति में सब वर्णों को अन्य कार्य करने की आज्ञा भी दे दी गई थी। वैदिक काल का गार्हस्थ्य जीवन अधिकांश कृषि एवं पशुपालन की जीविका पर आधारित था, किन्तु कालान्तर में नये पेशों का जन्म हुआ। वर्णव्यवस्था के अनुसार श्रम विभाजन की स्थिरता रहने पर भी, वर्णों में संघर्ष बुद्धकाल से ही आरम्भ हो चुका था। ब्राह्मणों ने राज्य स्थापना की, और क्षत्रियों ने ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया। ब्राह्मण और क्षत्रिय की उच्चता का वर्णन जातक निदान कथा में इस प्रकार मिलता है : 'लोकमान्य ब्राह्मण और क्षत्रिय इन्हीं दो कुलों में बुद्ध पैदा होते हैं, आजकल क्षत्रियकुल लोकमान्य है। इसी में जन्म लूंगा'। धीरे-धीरे बुद्धप्रिय क्षत्रिय भूमिपति बन चुका था। वाशिष्ठ्य की उन्नति के कारण वैश्यवर्गश्रेष्ठी हो गया था, जो समय समय पर दान द्वारा धार्मिक क्षेत्र में भी महान बनने का प्रयास करता था। चातुर्वर्णों में सब से हीन अवस्था शूद्रों की थी। इनके साथ किसी भी प्रकार का सम्पर्क निन्दनीय समझा जाता था। जीविकोपार्जन के हेतु केवल सेवा यद्येष्ट न थी। धीरे धीरे जितने कार्यों के प्रति निम्नता की भावना उत्पन्न हो जाती थी वे कार्य भी इन्हें करने पड़ते थे। बौद्ध और जैन मत के अनुसार खेती करना पाप समझा जाता था क्योंकि इसमें जीवों की हत्या होती है। इससे प्रभावित होकर वैश्यों ने कृषिकर्म त्याग दिया और कृषि करने वालों की गणना भी शूद्रों में होने लगी, किन्तु अब तक ये लोग अछूत नहीं समझे जाते थे। धीरे धीरे इनके काम बढ़ते गये क्योंकि वैश्य आदि अन्य वर्णों ने बहुत से कान

छोड़ दिये थे। राजपूत काल में दस्तकारी के कार्य तिरस्कार की दृष्टि से देखे जाते थे। इस प्रकार का भाव प्रत्येक समाज में जहाँ जागीरदारी की प्रथा होती है पाया जाता है। इन त्यक्त कार्यों को करने वाले व्यक्तियों की गणना भी शूद्र वर्ग में हो जाती थी। इन चारों वर्गों के अतिरिक्त इसी कारण अनेक उपजातियाँ बन गईं, जो पीछे से अन्त्यज कहलाईं। इन अन्त्यजों में धोबी, जुलाहे और चिड़ीमारों की भी गणना थी। पहले केवल चारखाल और कृतप ही अन्त्यज समझे जाते थे। इस प्रकार मध्यकाल के समाज में, चार वर्गों के अतिरिक्त कई अन्य उपजातियाँ भी बन गईं।

ब्राह्मण वर्ग सदैव से अत्यधिक सम्मानित रहा और इसी कारण उसमें अहंमन्यता का भाव वृद्धि पाता गया। इसी के विरुद्ध शूद्र वर्ग सदैव से उपेक्षित रहा, शान्ति-प्रिय, नीति-निपुण राजा के शासन काल तक में इनका कोई प्रबन्ध न था। समाज में हीनत्व की भावना का सम्बन्ध वर्गाहीनता एवं धनहीनता दोनों से ही था। मनुस्मृति में इनकी हीन अवस्था का वर्णन है। सेवा के बदले इन्हें फटा पुराना वस्त्र, उच्छिष्ट भोजन, दूटे फूटे बर्तन प्राप्त हो जाते थे। इन्हें स्वतन्त्र अधिकार न था। मनु ने शूद्रों के लिये विधान बना दिया था कि यदि निम्नवर्गीय कोई भी व्यक्ति किसी उच्चजाति के काम धाम का अनुकरण कर जीविका चलाये तो राजा को चाहिये उसका धन छीन कर देश निकाला दे दे^१।

मेगास्थनीज के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि ऋषकों, चरवाहों, वणिकों और भ्रमजीवियों की संख्या अन्य वर्गों से अधिक थी।

विदेशी आक्रमणों, शक, हूण आदि के आगमन से सामाजिक व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं आता था। इन जातियों के मिश्रण से जो सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न होती थीं उनका समाधान भाष्य एवं टीकाकार कर देते थे। गुप्त-काल में मनु, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति एवं नारद स्मृतियों के नवीन संस्करण निकले। सूत्रों की नवीन व्याख्या हुई। टीका और भाष्यों के द्वारा प्रचलित प्रणालियों और मान्यताओं को समर्थन प्राप्त हुआ। किन्तु इस 'स्वर्णयुग' में भी सामाजिक क्षेत्र में आशातीत सफलता नहीं हुई। वर्गों का विभेद बना ही रहा। वर्ण-भेद कर्म के अनुसार हो चुका था। विभिन्न वर्गों में कोई आपसी सम्बन्ध न था। अन्तर्जातीय विवाह की जो कुछ भी सूचना यदाकदा मिलती है उसका सम्बन्ध अधिकांश राजन्य वर्ग से था क्योंकि ईश्वर की भौति राजा की कोई जाति नहीं होती है, यह विश्वास दृढ़ हो चला था। सामाजिक नियमों का संचालन अब भी 'मनुस्मृति' ही कर रही थी। जाति और वर्ण में अभिन्नत्व स्थापित हो गया था। हर्ष के समत तक आते आते हिन्दू समाज का आज का स्वरूप निर्धारित हो चला था।

हेनत्साग ने चार वर्गों के अतिरिक्त अन्य अनेक जातियों का वर्णन किया है। उसके अनुसार जनसमुदाय ने मुविधानुसार अनेक जातियाँ बनालीं। इनकी संख्या अधिक थी

१. यो लोभाद्गमोंं जान्या जंवेहुक्कृष्ट कर्मभि
तं राजा निघनं कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत् ॥

तथा उनकी गणना चातुर्वर्ण्य के अन्तर्गत नहीं होती थी। गाँवों के बाहर रहनेवाले कंसाई, महुआ, फासी देने वाले, मेहतर आदि को बलपूर्वक नगर के बाहर ही रक्खा जाता था। शूद्र वर्ण के अन्यधिक तिरस्कार के कारण उसमें विरोध की भावना उदय हुई जिसे उच्चवर्णों के यहाँ की दासी-मानाओं से बढ़ावा मिला। बौद्धधर्म की महायान शाखा ने भी शूद्र वर्ग में उच्चता की भावना जाग्रत करने में बड़ा प्रोत्साहन दिया। इस संघर्ष में ब्राह्मणों ने भी साथ दिया। वृषल चन्द्रगुप्त को चाणक्य ने शासनाधिकारी बनाया। महापद्म नन्द उसके पूर्व ही उदाहरण प्रस्तुत कर चुका था, ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष का आरम्भ उपनिषद् काल में ही हो चला था इसका प्रकट स्वरूप बौद्ध काल में देखने को मिलता है। ब्राह्मणों ने सहायता के लिये शूद्रों को भी उच्चता प्रदान की। शूद्रों के राज्याभिषेक के कारण निम्नवर्ग में चेतना की विशिष्ट लहर उठी। इसकी दो धारयें स्पष्ट हैं। पहली गौड़ाधिपति पालवंशीय शासन सत्ता के रूप में और दूसरी चौरासी सिद्धों के धार्मिक जीवन और काव्य की चेतना के रूप में।

एक ओर जहाँ शूद्रों में उच्चता की भावना स्थिर हो रही थी दूसरी ओर वहीं स्त्रियों की अवस्था हीन होती जा रही थी। नवीन ब्राह्मण धर्म की शृंखलाओं से प्रसिक्त समाज में उनकी उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो चला। क्षत्रिय को जहाँ समाज का रक्षक माना जाता था, वहीं राजपूतों के लिये स्त्रियों की रक्षा का अर्थ उसका हीनत्व हो गया था। जैसे मनुष्य की अन्य प्रकार की सम्पत्ति होती है उसी प्रकार स्त्री की गणना भी सम्पत्ति के अन्तर्गत होने लगी। स्त्री केवल मनोरंजन और क्रीड़ा का प्रसाधन बन गई। उनके एक स्वामी के निधन होने पर वे हजारों की संख्या में सती होने को बाध्य की जाती थीं। बाध्य करने का तात्पर्य यह कि यदि ऐसा नहीं करती थीं तो समाज में उनका आदर नहीं होता था। स्वामी के साथ जल मरने वाली स्त्री का इहलोक और परलोक दोनों में सम्मान होता था। धीरे-धीरे हिंदू जाति को कुरीतियों, भौतिक एवं सामाजिक संकीर्णताओं ने आत्मसात करना प्रारम्भ कर दिया। सती, बालविवाह, छूतछात, जानपात के अत्यंत निकृष्ट भेदभाव, ऊंच नीच के विचार, परदा आदि कुरीतियाँ समाज में व्याप्त होगईं। राजपूत काल में आरम्भ हुई पार्थक्य एवं कुलीन प्रथा का परिणाम ही परदा था। बाल विवाह और विधवाओं के पुनर्विवाह का वर्जन लगभग दसवीं सदी से प्रारम्भ हुआ। बालविवाह का कारण श्री चि० वि० वैद्य के मतानुसार बौद्ध मत में क्वारी स्त्रियों का दीक्षित होना है। बालिकाओं को सन्यासिनी होने से रोकने के लिये उनका विवाह बचपन में ही कर दिया जाता था।

सामान्यतः दसवीं शताब्दी के भारतीय समाज के कुछ प्रमुख स्वरूप हैं। समाज में कई प्रकार की विषमतायें थीं जिनमें धन और निर्धनता, पाण्डित्य और मौख्य प्रबल विरोधी थे। जहाँ समाज में एक ओर करोड़पती श्रेष्ठि थे, वहीं दूसरी ओर घोर निर्धनता से पीड़ित निम्नवर्ग भी था जो धन और बुद्धि दोनों के अभाव से दुःखी था। वर्ण विभाजन, जाति विभाजन के रूप में परिवर्तित हो चुका था। अत्यन्त दबाव के कारण निम्नवर्ग में आत्मोन्नति की प्रबल भावना जाग्रत होगई थी। शूद्रों के एक

दल ने राजसत्ता प्राप्त करके क्षत्रियों से स्पर्धा करनी चाही, और दूसरी ओर उन्होंने सिद्धों के रूप में पण्डितों और धर्माचार्यों को ललकारा। किन्तु समाज में स्त्रियों का स्थान सम्मानपूर्ण न था। उनकी स्वतंत्रता जाती रही थी। धनिकों का जीवन अत्यन्त विलासमय था। साधारण जनता तथा सेवक एवं भृत्यों का जीवन निकृष्ट हो गया था।

मुस्लिम आक्रमण के साथ भारतीय समाजिक विभाजन में नई कड़ियाँ जुटती हैं। ये आक्रमणकारी अपने साथ भिन्न संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, उपासना पद्धति तथा नैतिक धारणा लाये थे। इन आक्रमणकारियों ने भारतीय समाज में घुलने-मिलने की अधिक चेष्टा नहीं की प्रत्युत अपनी भिन्न संस्कृति और समाज को दृढ़ बनाये रखने में अधिक सचेष्ट रहे। इन शासकों के साथ आने वाले समाज का सुविधापूर्वक विभाजन दो श्रेणियों में किया जा सकता है। एक तो उच्च पदस्थ सेनाधिकारी दूसरे साधारण सैनिक। विजय के पश्चात् विजित प्रान्तों का अधिकार इन्हीं उच्च पदाधिकारियों को मिलता जो सदैव शासक के रहन-सहन का अनुकरण करते थे। निम्नवर्गीय सैनिक यहाँ के जनजीवन के सम्पर्क में आते थे जो यहाँ की स्त्रियों से विवाह करके मुस्लिम समाज की संख्या-वृद्धि करते रहे।

मुस्लिम शासक-वर्ग भोग विलास का जीवन व्यतीत करता था। अपनी इस ऐश्वर्य लिप्सा में वे भारतीय राजाओं के जीवन से भी प्रभावित हुये। शासकों का जीवन केवल आनन्द का जीवन था। उन्हें न तो प्रजा की सुविधाओं का ध्यान था। और न राजव्यवस्था की चिन्ता। विजय हो जाने पर वे शासन-व्यवस्था अमीरों और न्याय व्यवस्था मुल्लाओं और काजियों के हाथ में सौंपकर निश्चित हो जाते थे। अमीर उमरा का जीवन भी विलासपूर्ण था। उनका राजकीय शक्ति पर बड़ा प्रभाव था। स्वेच्छा से अमीरों की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने से सुल्तानों को विपद् का सामना करना पड़ता था।

इस्लाम धर्म के अनुसार सुल्तान का जीवन विशेष विलास और ऐश्वर्यपूर्ण नहीं होना चाहिये अतः मुल्लाओं और ऐश्वर्यप्रिय सुल्तानों में विरोध स्वाभाविक था, किन्तु जेहाद के हेतु इस्लाम धर्मानुयायी सैनिकों को उत्साहित और आवेशपूर्ण रखने तथा भारतीय विद्रोह दमन के समर्थन के हेतु इन सुल्तानों ने मुल्लाओं से कभी खुलकर विरोध नहीं किया यद्यपि कभी-कभी इसका प्रयास होता रहता था।

उलेमाओं के प्रभावाधिक्य के कारण शासकों ने भी धर्मप्रसार में इन्हें सहायता दी। इसी कारण ये सुल्तान भारतीय जनता और धर्म के प्रति अधिक सहिष्णु न हो सके। उलेमाओं का प्रभाव अधिक था। वे भारतीय सन्तों और धार्मिक व्यक्तियों का विरोध करते थे, तथा पूजोपासना की स्वतंत्रता अपहरण करने के लिये सुल्तानों को प्रोत्साहित करते थे। कभी-कभी मुस्लिम स्वतंत्र चिंतकों या सूफियों को इनकी क्रूर नीति का निशाना बनना पड़ता था। कवीर ऐसे उदार धार्मिक को भी सुल्तान की क्रूरता का भाजन

होना पड़ा था। वास्तव में इन सब के पीछे राजनीति कार्य कर रही थी। न्यायलय में भी काजियों का प्रभुत्व था फलतः प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय जनता पर अत्याचार होता था। कुछ नीतिनिपुण सुल्तान प्रजा की इस कठिनाई से परिचित होने थे फिर भी मुल्लाओं को प्रसन्न रखने की अनिवार्यता समझते हुये अपनी नीति परिवर्तित करने में सफल न होते थे। अलबेखनी ने मुल्ला और सुलतान के इस गठबन्धन की प्रशंसा अधिक की है। सुल्तान को अबाध अधिकार, ऐश्वर्य और विलास का अधिकारी इन्हीं उलेमाओं ने बनाया था अतः उनका विरोध सुल्तान की क्षमता के बाहर था। दूसरी ओर जनवर्ग में मुल्लाओं की श्रेष्ठता और सम्मान राजप्रभय के कारण ही सुलभ हुआ था। अतः वे भी सुलतानों का विरोध अधिक नहीं करते थे। इन मुल्लाओं को सामाजिक व्यवस्था में वही स्थान प्राप्त हुआ जो भारतीय समाज में ब्राह्मणों को प्राप्त था। हिन्दू समाज के कर्णधार परिडतों के सम्मुख नष्ट होती हुई सामाजिक परम्परा को अक्षुण्ण रखने का प्रश्न था और इन उलेमाओं के मन में अपने रीति रवाजों का प्रचार कर अपने प्रभुत्व को बनाये रखने की इच्छा थी। उलेमाओं के कारण ही पृथक मुस्लिम संस्कृति जीवन रह सकी, इनकी कट्टर नीति के कारण सामञ्जस्य और समन्वय की भावना को घक्का पहुँचा। उलेमाओं ने या तो हिन्दुओं को मुसलमान बनाने का प्रयास किया या विरोध करने पर उन्हें समूल नष्ट कर देने की चेष्टा की।

हिन्दू समाज के स्थूल रूप से इस समय तीन वर्ग हो गये। (१) राजन्य एवं धनिक वर्ग, जो अपने रहन-सहन में सुल्तानों की जीवनचर्या से प्रभावित था। भोगविलास, ऐश्वर्य वैभव में मग्न यह वर्ग चिन्ता विमुक्त था। अपने आश्रितों की इन्हें चिन्ता न थी। (२) साधारण जनवर्ग जो कारणवश मुस्लिम समाज में दीक्षित होने को बाध्य हो रहा था; कभी समाज में उच्च स्थान पाने के लिये, कभी जजिया या राजदण्ड से मुक्त होने के लिये, कभी शासनाधिकार लिप्सा और कभी राजभय के कारण ये धन और बुद्धि से हीन, अपने समाज की रुढियों से त्रस्त प्राणी 'परधर्म भयावहः' होते हुए भी उसे ग्रहण करने को बाध्य हो रहे थे। (३) तीसरे वर्ग में वे परिडत थे जो समाज की विशृङ्खलता से भली भाँति परिचित थे और जानि-पौँति, कर्मकाण्ड आदि की रुढिवादिता के दुष्परिणामों को समझ चुके थे। इनका प्रयास एक ओर तो इस विशृङ्खलता एवं स्तरहीनता की निन्दा करके समाज को उधर से विमुक्त करना था दूसरी ओर पूजापासना के क्षेत्र में 'हरिभक्त' की कसौटी रखकर मनुष्य में समानता स्थापित करना था।

एक नया 'सन्तवर्ग' और उठ खड़ा हुआ जिसका सम्पर्क हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही समाजों से रहता था। दोनों समाजों के संघर्ष से जो कट्टरता, धर्मान्धता एवं कुरीतियाँ

१. दियो हुहुम करायो नहिं देरी। गना जोन्हू मर पग बेरी।

सुनि अनुचर पग पाई जजौरिं। बोरयो गंगा माह करीरिं ॥

कवीर जी की कथा, किंव नाथ प्रसाद मिश्र जी की टीका द्वारा

प्रचलित हो गई थीं उनको समझते हुये और इन सबके मूल में धर्म की विभिन्नता को मानकर ये स्वतन्त्र चिन्तक एक नवीन मार्ग निकालने का प्रयास कर रहे थे किन्तु ऐसा करने के लिये उन्होंने खण्डनात्मक प्रणाली को अपनाया। हिन्दू और मुसलमान दोनों की सामाजिक कुरीतियों का खण्डन ये बड़े जोश से करते थे, इनके स्वप्रतिपादित सिद्धांतों में अहंमन्यता अधिक रहती थी। यही कारण है कि उद्देश्य एक रहने पर भी यह वर्ग सूफियों की भाँति लोकप्रिय न हो सका। इस वर्ग के प्रतीक कबीर हैं।

कहरपन्थी उलेमाओं, काजियों और मुल्लाओं के प्रतिकूल सूफी साधक अत्यन्त उदार थे। इनकी भावधारा का आधार इश्क या प्रेम था। यह सम्प्रदाय जीवन के सामान्य भाव पक्ष पर एवं विलासपूर्ण जीवन की अपेक्षा सदाचार पर अधिक ध्यान देता था। इन सूफियों को मुल्ला मौलवियों की भाँति राजाश्रय प्राप्त न था यद्यपि यह भी सत्य नहीं है कि इन्हें अपनी उदारनीति के कारण राजदण्ड भोगना पड़ता था। वास्तव में इनका जनसमाज पर अत्यधिक प्रभाव होने के कारण अनुयायियों की संख्या इतनी बढ़ जाती थी कि भय खाकर सुल्तान इन्हें मृत्यु के घाट उतारता था। फर्रुखसियर ने सिन्ध के पीर विन सीर को राजविद्रोह के भंग के कारण ही प्राणदण्ड दिया था। इन सूफियों के दमन में कोई राजनीतिक कारण ही छिपा रहता था। सूफी सन्त 'मुल्लाशाह' दाराशिकोह का गुरु था। उसने दाराशिकोह के सुल्तान होने की भविष्यवाणी की थी, इसी पर क्रोधित होकर वैमनस्य के कारण औरंगजेब ने उसे 'जीवन्मुक्त' कर दिया था।

हृदय के धनी सूफियों का प्रभाव सामान्य जनता पर अधिक था, यद्यपि इन सूफियों ने अपनी विचारधारा को इस्लाम के अन्नगर्त ही रखने का प्रयास किया है। मुहम्मद साहब की पैगम्बर के रूप में भावना इन्हें भी मान्य थी। कुरान में प्रतिपादित नियमों के आधार पर ही समाज की व्यवस्था और नियन्त्रण इन्हें मान्य था। सैद्धांतिक रूप में इस विचारधारा का पोषक होने पर भी सूफियों ने भारतीय जीवन के सामान्य सिद्धान्तों, साधना प्रणालियों एवं काव्य पद्धतियों को अपने साहित्य में स्थान दिया। विच्छिन्न होती हुई सामाजिक व्यवस्था में समन्वय स्थापित करके शान्ति और हृदयगत प्रेम की स्थापना में इन सूफियों का बहुत योग है। निर्गुण पथियों की भाँति इन्होंने भी दो भिन्न धर्मों और समाजों के मध्य एक सामान्य मार्ग निकालने का प्रयास किया किन्तु दोनों की पद्धतियों और माध्यम में अन्तर है। निर्गुणपन्थियों ने उपदेश देने के लिये ही स्फुट पदों की रचना की जिनमें उनकी खण्डनात्मक पद्धति अहंमन्यता एवं गुरुत्व की भावना प्रधान थी जो भावनाओं की अपेक्षा तर्क और बुद्धि की कसौटी पर खरी उनरती थी। सूफियों ने उपदेश तो दिया किन्तु 'कान्तासम्मति' मधुर शब्दों में जनता की ही कथाओं को जनभाषा में, भावात्मक उपदेश से समन्वित करके सामान्य जन वर्ग तक पहुँचाया। इन्हें अपनी विद्वता का गर्व न था। ये बलात् किसी पर अपने विचार आरोपित नहीं करना चाहते थे, मग्य ही ये किसी भी पद्धति का विरोध या खंडन करके कोई स्थापना करने का प्रयास नहीं करते थे, किन्तु इनके विनय में कुछ ऐसा प्रभाव था कि सभी इनकी ओर आकर्षित होते और इनका सम्मान करते थे। तत्कालीन सांस्कृतिक समन्वय में

सूफियों का बहुत हाथ था। नाथ पंथी साधुओं एवं भक्तिकालीन निर्गुणोपासना के अनेक तत्वों का समावेश सूफी साधना में हुआ। नाथ पंथियों के चमत्कार प्रदर्शन का प्रभाव भी इन सूफियों पर बहुत पड़ा। सूफियों में करामातें प्रसिद्ध हैं। कीचड़ में से चलकर निकल जाने पर भी पैर का वसा ही स्वच्छ रहना, एक स्थान पर बैठे रहकर सब स्थानों का समाचार प्राप्त कर लेना आदि ऐसे चमत्कारों में प्रसिद्ध हैं।

इन सूफियों का विशेष प्रभाव न तो राजसमुदाय पर ही था और न सुल्ता मौलिवियों पर। हिन्दू आभिजात्यवर्ग भी इस प्रकार के साधुओं के संसर्ग में अधिक नहीं आया। साधारण निम्नस्तर की जातियों पर सूफियों का प्रचुर प्रभाव था, वैसे कुछ सूफियों का प्रभाव सुल्तानों पर भी था। इत्तुतमिश ने शेख कुतुवशाह का सम्मान किया था। अकबर सलीम चिरनी की दरगाह तक पैदल गया था और दाराशिकोह सूफी सन्त सुल्ताशाह का शिष्य था।

मुस्लिम समाज में हिन्दुओं का इतनी संख्या में परिवर्तित होने के दो प्रधान कारण हैं। एक तो हिन्दू समाज के निम्नस्तरीय समाज की शोचनीय अवस्था, और दूसरे इन सूफी सन्तों की प्रेम साधना। इनमें प्रमुखकारण प्रथम ही है। हिन्दू समाज का निम्नतम व्यक्ति भी इस्लाम ग्रहण कर लेने के पश्चात् सभ्य समाज का सदस्य बन जाता था। सुल्तान की दास दासिया भी इस्लाम ग्रहण करके महत्व प्राप्ति की चेष्टा किया करती थीं। ऐसे सम्बन्धों से उत्पन्न सन्तान योग्य होने पर राज्य भी प्राप्त कर लेती थी, किन्तु समाज में उनका आदर नहीं होता था। शासन-पद्धति में इन दासों और गुलामों का महत्वपूर्ण हाथ था, किन्तु समाजिक व्यवस्था में इससे कोई विशेष अन्तर न पड़ता था।

मुस्लिम समाज में वर्गीकरण की दृष्टि से उस समय के समाज का विभाजन चार वर्गों में सम्भव है। प्रथम वर्ग में सुल्तान, उसके निकट सम्बन्धी और रईस वर्ग आते हैं। यह वर्ग पूर्ण रूप से सम्पन्न था तथा भोग विलास में जीवन व्यतीत करता था।

दूसरे वर्ग में वे विद्याव्यसनी आते हैं जिनका प्रधान कार्य धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन और प्रतिपादन था। इस वर्ग में सुल्ता, उलेमा, सैयद और काजी आते हैं।

तीसरे वर्ग के अन्तर्गत राजन्य वर्ग एवं रईस वर्ग को प्रसन्न रखने वाले चाटुका आते हैं। इस वर्ग के अन्तर्गत नर्तकियाँ, संगीतज्ञ, जुटुकलों में पट्ट एवं अन्य ललित कलाओं में पारंगत व्यक्ति आते हैं।

निम्नतम वर्ग वह था जिसका किसी भी प्रकार से शासन व्यवस्था में हाथ न था, उन्

१ पराधीन पर यद्यपि निहारत मानत मूढ बड़ाई।

इसे इंसत विसके बिलगत हैं जवां दर्शन में रन्नाई।

किसी भी प्रकार का राजनीतिक अधिकार प्राप्त न था। कर देने का अधिकांश भार इसी वर्ग पर था। कर वसूल करने वाले अधिकारी और गाव के मुखिया धनी होते जाते थे। निम्न श्रेणी के इन हिन्दू और मुसलमानों की अवस्था में विशेष अन्तर न था। इनकी सामाजिक स्थिति और धार्मिक विश्वास भी अधिकांशतः पूर्ववत् ही थे फिर भी कभी कभी कर से मुक्ति एवं सुल्तान की कृपा-दृष्टि केवल मुसलमानों पर ही होती थी। यह सोचकर हिन्दू कभी जजिया और कभी प्राण दण्ड आदि भयों से बाधित होकर इस्लाम का आलिंगन कर लेते थे^१।

भारत में आने के पश्चात् मुस्लिम समाज में भी विभेद उत्पन्न हो गया। वे हिन्दू रीतिनीति से प्रभावित हुये। वर्णभेद की धारणा दृढ़ होने लगी। उनका आपस में एक दूसरे से सम्पर्क छूटने लगा^२। धीरे धीरे मुस्लिम समाज में भी ऊँच नीच का भाव दृढ़ हो गया^३। साम्राज्य में प्रायः सभी बड़े पदों पर नियुक्ति उन्हें आर्थिक चिन्ता से मुक्त और विलासी बनाती थी।

मध्यकालीन हिन्दू समाज का स्थूलरूप से उच्चवर्गीय और निम्नवर्गीय दो रूपों में विभाजन किया जा सकता है। उच्चवर्गीय हिन्दू और मुस्लिम समाज में विशेष अन्तर न था। धर्म सम्बन्धी अत्याचारों का प्रयत्न प्रभाव इसी वर्ग पर पड़ता था वल्लभाचार्य ने अपने 'कृष्णाश्रय' नामक ग्रन्थ में तत्कालीन सामाजिक अशान्ति एवं उद्विग्नता का वर्णन इस प्रकार किया है। 'म्लेच्छों से आक्रान्त देश नाना प्रकार के पापों का स्थान बन गया। सत्पुरुष पीड़ित हुये, समग्र लोक व्यग्र और व्यथित हुये। गंगादिक श्रेष्ठ बीर्य दुष्टों से आवृत्त थे, उनका महत्त्व तिरोहित हो चुका था। देवता प्रच्छन्न हो चुके थे। अशिक्षा और अज्ञान के कारण वैदिक तथा अन्य मन्त्र नष्ट हो रहे थे। लोग ब्रह्मचर्यादि व्रतों से हीन थे ऐसे व्यक्तियों के सम्पर्क में आकर वेदमन्त्र भी हीन हो रहे थे'^४।

हिन्दुओं का वैभव नष्ट हो गया था। पराजित जाति धीरे धीरे अशक्त और महत्त्व हीन होती जा रही थी। अधिकांश सुल्तानों के राज्यकाल में उच्चवर्गीय हिन्दुओं को

१ अलाउद्दीन ने अपने मुस्लिम बन्धियों को मुक्त करने और काफिरों को कुचलवा देने का आदेश दिया था।

अमीर तुसरो कु० ख० पृ० ८८१।

२ Life and conditions of the Peoples of Hindustan p 191
by Md Ashraf

३. तहया मोंहि जनम विधि दीना, कासिम नाम जाति कर हीना।
कासिमशाह • हंसजभाहिर।

४. कृष्णाश्रय, षोडशमन्त्र, श्लोक २, ३, ४।
वल्लभाचार्य।

भी घोड़े की सवारी करने सुन्दर वस्त्र पहनने, पान इत्यादि खाने और हथियार रखने का अधिकार नहीं था^१। हिन्दू स्त्रियों को अपने सतीत्व की निरन्तर चिन्ता रहनी थी। कवि जान के प्रेमाख्यानों में इस तत्व का आभास कई स्थलों पर मिलता है। 'देवलदे की कहानी' का आधार यही सामाजिक तथ्य है। जायसी ने भी पद्मावत में इस ओर संकेत किया है^२। आक्रमण का उद्देश्य केवल धार्मिक सिद्धान्तों का प्रचार, राजनैतिक सत्ता या सीमा का विस्तार ही न होकर स्त्रियों का सौन्दर्य भी होता था। इन आक्रमणों में पूजा-पासना के स्थान मन्दिर तोड़े जाते, उनके स्थान पर मस्जिदें बनवाई जातीं, हिन्दुओं को कत्ल किया जाता; और भी अनेक प्रकार के अत्याचारों से प्रजा पीड़ित की जाती थी। महमूदशाह खिलजी ने मालवे पर अधिकार हो जाने पर राजा भोज की प्रसिद्ध भोजशाला तुड़वाकर उसके स्थान पर मस्जिद बनवाई थी।

कवि विद्यापति ने भी 'कीर्तिलता' में इसी प्रकार की अवस्था तथा अशान्ति की चर्चा की है। राजाओं को नीति का ज्ञान न था, और न उन्हें प्रजा के सुख शान्ति की विशेष चिन्ता थी। उनका कार्य केवल 'करालदण्ड' तक ही सीमित था^३। विद्यापति ने हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मों की विरोधी बातों का भी बड़ी मार्मिकता से वर्णन किया है। अजा की वाग, वेद का पाठ, नमाज और पूजा, व्रत और रोजा में साम्य होते हुये भी वे एक दूसरे के कट्टर विरोध में थे।

नृतियों के मुंहलगे सैनिकों का अत्याचार प्रजा को आये दिन सहना पड़ता था। मुस्लिम राज्यस्थापना से मुस्लिम मौलिवियों का प्रभाव बढ गया। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप हिन्दू राजाओं की समाप्ति हो जाने के कारण ब्राह्मण वर्ग का भी सम्मान घट गया, इसी वर्ग को मुसलमानों की धर्मान्विता तथा धार्मिक असहिष्णुता से उत्पन्न क्रोध भी सहना पड़ता था। देवालयों का नव निर्माण एवं प्राचीनों का जीर्णोद्धार बन्द हो गया। देवालयों को राजकोष से मिलने वाला दान बन्द था। देवालयों को तोड़ने के डर के मारे उनकी शिल्प पद्धति में भी अन्तर पड़ गया जिससे वे देवालय ऐसे जात न हों। इन मन्दिरों के निर्माण के लिये कोई एकान्त जगह ही चुनी जाती थी।

आबू का जैन मन्दिर इन दोनों ही बातों का प्रमाण है।

१ तारीखये फीरोजशाही पृ० २८८।

इंलिचट।

२. तत्र कह अलाउद्दीन जग सूरू, लेऊँ नारि चितठर के चूरू।

जायसी पद्मा० पृ० २४८।

३. गोंड गवारं नृपाब्रमहि, यवन महा महिपाक।
साम न, दाम न, मेद कति, केवल दरद कराल॥
जुससी।

राजन्य बर्ग सदैव से विलासी रहा। दिल्लीश्वर की समता जगदीश्वर से होती थी। सुल्तान छोटे-छोटे माण्डलिक राजाओं का अधीश्वर था। प्रजा के श्रम का उपयोग राजाओं के विलासोपकरणों में होता था। राजा के क्रोध और प्रसन्नता का कोई नियम न था। मुता है अकबर ऐसा दयालु राजा भी अपने पास एक विषमय और एक साधारण पान रखता था। पञ्जाकर का एक छन्द इस राजन्यबर्ग का वास्तविक चित्र उपस्थित करता है:—

‘गुलगुली गिलमें गलीचा है गुणीजन हैं,
चाँदनी है चिक है चिरागन की माला है।
कहै पञ्जाकर त्यों गंजक गिजा है, सजी सेज हैं,
सुराही हैं, सुरा है, और प्याला हैं।

निम्नस्तरीय जीवन :

मध्यकाल में जातिबन्धन की जटिलता स्थिर हो चुकी थी। विभिन्न जातियों के अन्तर्गत भी उच्च-नीच की भावना दृढ़ हो गई थी। प्रारम्भ में वैष्णवों और सन्तों को, ब्राह्मण वर्ग अधिक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था। वैष्णवों को भोजन के समय ब्राह्मण पंक्ति में बैठने का अधिकार नहीं था। ब्राह्मण अन्त्यजों को आशीर्वाद तक नहीं देते थे, और स्पर्श के भय से अंधकार में ही यात्रा सम्पादित करते थे। दीक्षा का सामाजिक महत्व था। नीचजन्मा सन्तों को गुरु दीक्षा सुलभ न होने पर वे कई प्रकार के साधनों का उपयोग करते थे। कवीर और रामानन्द का सम्बन्ध इसी प्रकार का था। सन्तों के अनुयायी अपने मतप्रवर्तकों को किसी विशिष्ट गुरु का शिष्य होना प्रचारित करते थे। विभिन्न सम्प्रदायों के शिष्यों का एक साथ ही रामानन्द की शिष्यता प्राप्त करने का यह रहस्य है। जातिगत जटिलता बढ़ती ही जाती थी। छुआछूत की धारणा दृढ़ हो गई थी। शूद्र और अन्त्यजों में भी भेद हो गया था। अन्त्यजों की आठ जातियों का वर्णन अलवेरुनी ने किया है।

इस्लाम धर्म की एकसङ्घता से हिन्दू जाति की स्थिरता नष्ट होने के भय से जातिबंधन और जटिल कर दिये गये, किन्तु इनका प्रभाव उल्टा ही पड़ा और अधिकांश धर्मपरिवर्तन के कारणों में जातिबन्धन की जटिलता और रुढ़िवादिता ही है। जाति-भेद की विविधता के साथ ही आचार त्याग की चर्चा भी होती रहती थी। वर्णाश्रम व्यवस्था अस्थिर हो चली थी। साधारण जनता को किसी भी प्रकार के नियमों या मर्यादा में विश्वास न रह गया था। सभी अपनी सुविधानुसार जीवन बिताने का प्रयास कर रहे थे। तुलसीदास ने उत्तरकाण्ड के अन्तर्गत कलियुग वर्णन में सर्वत्र जाति व्यवस्था के नष्ट हो जाने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई एकाचारिता की चर्चा की है। इस प्रकार खान पान के एकाचार को श्रद्धा दृष्टि से नहीं देखा जाता था। नियमों से त्वत्तंत्र होने के इच्छुक व्यक्ति नवीन सम्प्रदायों, गोरखपंथ, नाथपंथ, विरक्त सन्यासियों के दल में मिलते जाते थे जिनका

अच्छा प्रभाव समाज पर न पड़ता था। निम्नजातियों के ही व्यक्ति इन सम्प्रदायों में दीक्षित होते थे अतः न तो उनका चरित्र ही विशेष श्लाघनीय होता था और न वे ज्ञान के क्षेत्र में ही सफल होते थे, अतः रहस्य के चक्कर में पड़ ये साधू सन्त एवं इनके अनुयायी भटकते रहते।

सामान्य जीवन में न तो आभिजात्य वर्ग की भांति सांस्कृतिक चेतना ही थी और न समाज में प्रतिष्ठा से उत्पन्न आत्मसम्मान की भावना। इन व्यक्तियों का समय अधिकांश आभिजात्य वर्ग की सेवा करते ही बीतता था। मुस्लिम शासकों के शोषण ने, सामान्य जन-जीवन में आनन्द नहीं रहने दिया। हिन्दू अधिकारियों के स्थान पर मुसलमान शासक, पंडितों के स्थानापन्न काजी मुल्लाओं ने सामाजिक मर्यादा में उथल-पुथल मचा दी, साधारण जनता का कर और दरजों के द्वारा शोषण तो होता ही रहा साथ ही उन्हें समाज में कोई सम्मानीय स्थान प्राप्त न था।

इस काल में तलवार, रेशमी कपड़े, इत्र, पान, संगतराश आदि के व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। धन का ऊँच नीच की भावना में महत्वपूर्ण स्थान था^१। गावों का जीवन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण था किन्तु कर, लगान और आर्थिक हीनता के कारण सदैव निराशा छाई रहती थी। कवीर, तुलसी, और सूर के पदों से उस समय की निराशा और आर्थिकहीनता का परिचय मिलता है। सारा जीवन अभाव और दुखों से पूर्ण था। भरपेट भोजन प्राप्त नहीं था। सारा परिवार कार्य करता और फिर भी भरपेट अन्न से वंचित रहता था^२।

सांस्कृतिक स्थिति :

संस्कृति शब्द बड़ा व्यापक है। इसकी सीमाएँ एक ओर धर्म के क्षेत्र को स्पर्श करती हैं तथा दूसरी ओर साहित्य पर प्रभाव रखती हैं। संस्कृति भौतिक साधनों के संचयन के साथ ही आध्यात्मिकता की गरिमा से मण्डित होती हैं। इसके अन्तर्गत वेशभूषा, परम्परा, पूजाविधान और सामाजिक रीतिनीति की विवेचना भी हम करते हैं।

१. पेशाइन, कस्साव, वूदेम बाद जान गस्तम शेख।

गला चूँ और जान शब्द, इम्साल सैय्यद मेशवम् ॥

(पहले साल में कसाई था, दूसरे साल शेख हुआ। यदि इस साल गले का दाम बढ़ा तो सैय्यद हो जाऊंगा)

Tribes and castes of The N.W P. and Oudh p, 315 vol IV by Cook.

२. भाई तोहरा कूटनी, बहिनी तोरा पिसनी।

कि जइया कइली ना, तोरा डउरी दो कनिया।

भोजपुरी गीत से।

संस्कृति के ये स्वरूप, वातावरण, वैयक्तिक परिस्थितियों, भौतिक साधनों तथा व्यक्ति और समाज को चेतना प्रदान करते हैं।

भारत में मुसलमान, सैनिकरूप में आये और बलात् धर्मपरिवर्तन द्वारा उन्होंने अपनी संख्या वृद्धि की। ये नये मुसलमान परम्परागत विशेषताओं को सहज ही नहीं छोड़ सकते थे, अतः कालान्तर में मुसलमानी समाज में कुछ नवीन तत्वों का समावेश हुआ।

शेरशाह के उत्तराधिकारी सलीमशाह तथा अकबर ऐसे उदार धर्मचेता शासकों के सम्मुख उच्चश्रेणी के परिवर्तित मुसलमान भारतीय संस्कृति और धर्म की रूप रेखा रखने, एवं समझने में सफल हुये। हरम में हिन्दू विवाहित कन्याओं ने भारतीय संस्कृति का प्रभाव डाला। उच्चवर्ग से हटकर सूफी साधकों ने निम्नवर्ग को सर्वव्यापक प्रेमभावना का आश्रय लेकर प्रभावित किया।

भारतीय तथा ईरानी सांस्कृतिक सामंजस्य के प्रयास में दो धारयाँ सहायता कर रही थीं। प्रथम है निम्नवर्गीय सन्तों की आत्मसम्भाव प्रदर्शित करने की चेष्टा में प्रखण्डता से पूर्ण विचारधारा जिसके प्रतीक कबीर हैं। इस वर्ग के सन्तों ने मुल्ला तैलवियों की कट्टरता को खडनात्मक उपदेश द्वारा शान्त करने का प्रयास किया। दूसरी ओर हैं प्रेम की महानता एवं व्यापकता पर आधारित सूफी सन्तों के मधुर, गेमल शब्द। कबीर ऐसे सन्तों की अपेक्षा सूफी सन्त सामंजस्य स्थापित करने में अधिक सफल हुये हैं। कालान्तर में शुष्क ज्ञानाश्रयी धारा को सूफी प्रेम धारा ने स्वरूप से अपने में लीन कर लिया।

✓ सन्तों की व्यक्तिगत साधना द्वारा समाज सुधार न हो सका किन्तु सूफियों की 'चनाओं, फुटकल पदों' तथा गजलों आदि ने समाज संस्कार में सहायता की। कबीर नेराश और क्लान्त जनता के विचारों को केवल धक्का ही लगा सके किन्तु सामान्य झीभूत जनता के जीवन में आशा, प्रेरणा एवं आस्था की चेतना का जागरण सूफी साधकों द्वारा ही सम्भव हो सका।

सूफियों की सांस्कृतिक देन :

इस्लाम के आगमन से हिन्दू आभिजात्य वर्ग की धारणाओं में अधिकाधिक दिवादिता आ गई। हरम पद्धति एवं संकुचित मनोभावों का प्रभाव इसी वर्ग पर विशेष हुआ। अन्तःपुर में अनेक रानियों, बालिकाओं का धौराहर में ही शिक्षा प्राप्त करना आदि इसी तत्व के परिचायक हैं।

इसके विपरीत सूफियों ने आचार विचार, रुढ़ियों और परम्पराओं को अधिक महत्व नहीं दिया। शुद्ध हृदय से सदाचार सम्बन्धी नियमों का पालन करते हुये निस्वरूप जगत् के कण-कण में व्याप्त ब्रह्म की उपासना ही उनका ध्येय था। इनका दृश्य अधिकाधिक सामंजस्य एवं समन्वय था।

उच्च और नीच भावना का इन सूफियों ने पूर्ण वहिष्कार किया। इनके विचारा-नुसार ईश्वर प्रेमी नीचकुलोद्भव व्यक्ति भी सम्माननीय है। वेद, शास्त्र का ज्ञान उच्चता का माप दण्ड नहीं। परमप्रेम की भावना ही उच्चतम है। मनुष्य मूलतः तात्विक रूप में समान है वह उस एक (ब्रह्म) की विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति है। निदान परम का प्रेम ही अनेकत्व का विधायक है।

काव्य के माध्यम से सूफियों ने शास्त्रसम्मान संकुचित, रुढियों के साथ हृदय के सत्व से प्रेरित प्रेम भावना का समन्वय किया और उसे शास्त्रज्ञान से भी अधिक उच्च आसन पर मूर्धाभिषिक्त कर दिया। कुरान में प्रतिपादित सिद्धान्तों के विवरण के साथ भारतीय अध्यात्मिक तत्वों का योग सूफी काव्य में मिलता है। इनका ब्रह्म वाहिद और लाशरीक है, तथा अलख और निरन्जन भी।

शेख रहीम के अनुसार यद्यपि संसार में अनेक मार्ग हैं किन्तु मनुष्य को केवल सत्य प्रेम मार्ग पर चलना चाहिये। मानवीय वृत्तियों का परिष्कार सूफी प्रेम का उद्देश्य है। हृदय के दर्पण की स्वच्छता में ही परब्रह्म का प्रतिबिम्ब देखा जा सकता है, अतः उसे स्वच्छ रखना चाहिये।

सूफियों के परम प्रेम की भावना, सरल स्वभाव के जनसाधारण ही आत्मसात् कर सके, तथा इनके अज्ञान जादू टोने आदि में सहज विश्वास को इन सूफियों ने अपने साहित्य में स्थान दिया। वशीकरण तथा मोहन आदि मन्त्रों का उल्लेख सूफी काव्य में मिलता है।

मध्यकालीन संस्कृति, हिन्दू मुस्लिम संस्कृति का समन्वित रूप है। साहित्यिक, राजनैतिक, धार्मिक, तथा संगीत और कला सम्बन्धी क्षेत्रों में समन्वय स्पष्ट लक्षित होता है। सूफियों का आगमन सर्वप्रथम सिंध प्रदेश में हुआ और यह समन्वय की भावना भी यहीं प्रादुर्भूत हुई, अबुलफजल तथा फैजी के पूर्वपुरुष सर्वप्रथम सिंध में जाकर बसे थे, किन्तु उनके वंशज जोधपुर रियासत के नागौर राज्य में बस गये इसी कारण मुवारक को नागौरी कहा गया है। 'मुवारक नागौरी को ग्रीक तथा मुस्लिम दर्शन दोनों का ही पर्याप्त ज्ञान था। फैजी ने महाभारत, रामायण तथा वेदान्तों के कुछ सूत्रों का फारसी में अनुवाद किया तथा कुरान का एक उदार संस्करण निकाला। फैजी अकबर के एक्वेशरवाट या तौहीदे-इलाही का सदस्य था, साथ ही राजकुमारों का शिक्षक भी। अबुलफजल भी इसी प्रकार सब धर्मों का सार विभिन्न देशों तथा रुढियों के सम्पर्क में जाकर जानना चाहता था। मुवारक नागौरी के वंशजों के विचार-स्वातंत्र्य के कारण उन्हें कट्टर मुसलमानों का कोप भाजन बनना पड़ा। अकबर के समय के प्रसिद्ध इतिहास लेखक वदायूनी ने इनकी बड़ी निन्दा की है।

जहाँगीर और शाहजहाँ का ध्यान धार्मिक तथा अध्यात्मिक समस्याओं की ओर अधिक न था। शाहजहाँ का ज्येष्ठपुत्र दाराशिकोह गम्भीर एवं विचारशील था। उसका हृदय उदार दृष्टि तथा समन्वयशालिनी प्रतिभा से ओतप्रोत था। उसने साधकों की जीवनी 'सफीनाते औलिया' नाम से लिखी। कबीर और दादू के शिष्य उसके मित्रों में से थे। कवि जगन्नाथ मिश्र तथा पंजाब के साधक वावालाल उसके दरवार में

सम्मान प्राप्त करते थे। 'मजमुल बहरैन' में उसने सूफीमत तथा उपनिषदों की समानता पर विचार किया है। अकालमृत्यु के कारण उसके सिद्धान्तों को प्रचार का अवकाश न मिल सका। औरंगजेब का पुत्र आजमशाह, तथा वहन जहानशारा भी उदार प्रवृत्ति के थे। बिहारी सतसई पर आजमशाह की टीका का अपना मूल्य है। महाकवि देव आजमशाह के आश्रित भी रह चुके थे।

शाहकलन्दर, फरीदगंज, जमालुद्दीन, तथा शाहशकरगंज गजनी के ही निवासी थे किन्तु वहाँ की तत्कालीन मानसिक दासता तथा बुद्धिवाद के अभाव ने उन्हें निराश कर दिया। निदान वे लोग अपनी सासारिक सम्पत्ति का मोह छोड़ कर पूर्व की ओर चल पड़े और सिन्ध पहुँचे। सूफी साधकों में उपरोक्त चारों भी सिन्ध में प्रथम वसे जहाँ अपने उदार विचारों के कारण जनप्रिय हो गये।

सोलहवीं सदी के शाह करीम सिन्धी, किसी अहमदाबाद निवासी वैष्णव साधक से अत्यन्त प्रभावित थे। ओउम् अक्षर उन्हें अन्धकार में मार्ग प्रदर्शित करता था जिसकी रहस्यवादिता पर शाहकरीम विचार किया करते थे।

सिन्ध के शाहइनायत ने निर्दय धर्मप्रचारक कल्होरा के राजाओं से हिन्दुओं को त्राण देने का प्रयत्न किया था। उनके विचार में ईश्वर पर किसी एक जाति का अधिकार नहीं हो सकता। अपनी इसी उदार प्रवृत्ति के कारण उन्हें अपना प्राण त्याग करना पड़ा। सिन्ध के मुसलमान शासक ने उनका शिरच्छेदन कर दिल्ली के बादशाह को भेंट भेजा था। इसी कारण आज भी शाह इनायत 'बिनसीर' के नाम से प्रसिद्ध हैं।

शाहकरीम के पौत्र शाहलतीफ अपनी उदारवृत्ति, गायन पटुता तथा काव्य रचना के लिये प्रसिद्ध थे।

इस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय का प्रभाव सिन्ध में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। मीरा, नानक तथा दादू के पद भी सूफी साधनालयों में प्राप्त होते हैं। वेदिल, वेकस, कुतुब आदि के पदों में पर दुःख कातरता तथा प्रेम की सर्वात्मवादिता के जो दर्शन होते हैं, वह अन्यत्र दुर्लभ हैं।

पजाव में भी इसी प्रकार कई समाधि तथा दरगाहें ऐसी हैं जहाँ हिन्दू और मुसलमान दोनों ही श्रद्धावश एकत्र होकर अपने मतैक्य का प्रमाण देते हैं, कागड़ा रानीताल के बाबा फुत्तू की समाधि, तथा भिंग में बाबा साहाना की समाधि, एवं मूसा सोहाग के अनुयायी, तथा अहमदाबाद की चेचरा देवी के उपासकों में वड़ा साम्य है।

गुजरात में इमामशाह द्वारा स्थापित पीरन पंथी लोगों के सारे कार्य कलाप एवं रीतिरिवाज हिन्दुओं की भाँति ही हैं किन्तु उनका मृतक संस्कार मुसलमानों के समान होता है। ये पीरन पंथी साधक, निष्कलक नामक महात्मा की उपासना करते हैं जो इनके अनुसार विष्णु का दशम अवतार है। इसी प्रकार मुहम्मद शाहदउल्ला ने मध्यप्रान्त में सत्रहवीं सदी में पीरजादा सम्प्रदाय स्थापित किया। ये लोग भी निष्कलक नामक देवरूप की उपासना करते हैं। सत्रहवीं सदी के पूर्वार्ध में ताज नामक एक भजन

महिला ने कृष्णप्रेम के अनेक कवित् रचे हैं। सैयद इब्राहीम, जो वाद को 'रसखान' के नाम से विख्यात हुये, वैष्णव मत से अधिक प्रभावित थे।

गुजरात की खोजा जाति पर वैष्णव धर्म का पूर्ण प्रभाव है। पहले इनके नाम तथा रीतिरिवाज पूर्णतः हिन्दुओं के समान ही होते थे, किन्तु धीरे-धीरे वे कष्टर होते जा रहे हैं। काठियावाड़ के कुछ स्थानों की खोजा जाति पूर्णतः अब स्वामी नारायणी सम्प्रदाय के अन्तर्गत आ गई है।

अध्यात्मिक क्षेत्र के अतिरिक्त साहित्यिक क्षेत्र में भी भाषा का आदान प्रदान चल रहा था। चन्द्रवरदायी के पृथ्वीराज रासों में फारसी के अनेक शब्द हैं। गजवनी सल्तनत के आरम्भिक काल में रूमी, मसूद-साद-सल्मान आदि कवियों ने अपने दीवान हिन्दी में लिखे यद्यपि उनमें फारसी के शब्द अधिक हैं। शाह शकरउद्दीन अहमद याहिया मुनीरी ने, जो खिलजी राज्य के समकालीन थे, कुछ हिन्दी पदों की रचना के अतिरिक्त काजमन्द नामक ग्रन्थ रचा है।

दक्खिन में वीजापुर सुल्तान आदिल शाह इब्राहीम ने कर विभाग की भाषा फारसी के स्थान पर हिन्दी करा दी थी। उसने स्वयं एक ग्रन्थ 'नौरस' नाम से लिखा है। उनके समकालीन गोलकुण्डा के शासक कुली कुतुब शाह, मुहम्मदशाह, अब्दुल्लाशाह तथा अबुलहसन तानाशाह आदि दक्खिनी हिन्दी को बोलते तथा समझते थे।

मुसलमानों के प्रवेश के साथ उनका संगीत भी यहाँ आया। महमूद गजनवी को संगीत से प्रेम था। अलाउद्दीन के समकालीन अमीर खुसरो ने बहुत सी नवीन लयों का आविष्कार किया। कहा जाता है कि उसी ने सितार या सेहतार (तीनतार) तथा तराना के ढंग को प्रचलित किया। दिल्ली के सुल्तानों में मुबारक, मुहम्मद तुगलक आदि संगीत के बड़े, प्रेमी थे। भारतीय संगीत की सर्वाधिक उन्नति सम्राट अकबर तथा वीजापुर के इब्राहीम आदिलशाह के दरबारों में हुई। कहा जाता है कि सम्राट अकबर ने लगभग दो सौ ईरानी तानों का भारतीयकरण करवाया। इब्राहीम आदिलशाह ने नवीन तानों को जन्म दिया। तानसेन की कीर्ति संगीत संसार में अमर है। जहांगीर ने भी अपने दरबार में छतर खा परवजदाद, मक़्द, दुर्गदाद, हज़मा तथा बिलास-खा को आश्रय दिया था। पन्द्रहवीं सदी में जौनपुर का सुल्तान हुसेन, ख्याल अंद का जन्मदाता था। जौनपुरी, हुसेन टोडी, कान्हाराग भी उसके आभारी हैं। गुजरात के सुल्तान बहादुर (१५२६—१५३६ ई०) के दरबार में नायक वैजू प्रसिद्ध गायक था जिसने बहादुर टोडीको जन्म दिया था। शाहजहा के समय में संगीत-अस्वत नामक एक ग्रन्थ लिखा गया था। अकबर के समय से आरम्भ हुई 'कविराज पद्धति' का पालन औरंगजेब के दरबार तक में होता रहा। मुगलों के बाद अवध में वाजिदअलीशाह ने संगीत को प्रश्रय दिया। जोगी कन्नड़, शाहपसन्द, जूही राग का आविष्कार एवं टुमरी की लोकप्रियता उसी के समय में हुई। मुहम्मदशाह के समकालीन एक सारंगी खा ने 'सारंगी' वाद्ययन्त्र को जन्म दिया।

बाबर और हुमायूँ के मकबरे भारतीय शिल्प पद्धति के लिये नवीन थे। शेरशाह के मकबरे में भारतीय एवं ईरानी शिल्पकला का मिश्रण मिलता है। इन मकबरों की द्वार रचना अधिकांश भारतीय शिल्पपद्धति के अनुसार ही है। अकबर के बनवाये मकबरे, किले, सबकें, पुल, मस्जिदें आदि सभी इस बात के प्रमाण हैं कि वह भारत ईरान तथा अरब के सर्वोत्तम सिद्धान्तों, कलाओं, एवं कृतियों में समन्वय स्थापित कर देना चाहता था^१। जहागीर तथा शाहजहा भी शिल्पकला के क्षेत्र में सफल थे।

मुसलमान यद्यपि भारतीय रेशम व्यापार को बढ़ावा न दे सके किन्तु अहमदाबाद तथा बनारस के कमखाब पर मुसलमानों की रुचि का प्रभाव है। भारतीय सम्राट तथा सुल्तान सदा से आभूषण प्रिय रहे हैं अतः नगों के जड़ाव तथा उनके कटाव में दोनों संस्कृतियों का समन्वय दृष्टिगोचर होता है।

भारतीय चित्रकला में भी इस सांस्कृतिक समन्वय से कुछ परिवर्तन हुआ। अभी तक ईरानी चित्रकला भावों एवं कल्पनाओं को मूर्तस्वरूप प्रदान न कर पाती थी। इसके लिये उसने भारत का पल्ला पकड़ा। राजपूत एवं मुगल चित्रकला दोनों पर ही इस समन्वय की छाप है। आज हम इन्हीं चित्रों से पन्द्रहवीं सदी से अठारहवीं सदी तक के आचार, विचार आदतें तथा जीवन सम्बन्धी अनेक बातें जान पाते हैं।

अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो जाने पर उनकी संस्कृति, भाषा, वेश विन्यास, एवं साहित्यिक परम्पराओं का प्रभाव भी भारतीय संस्कृति पर पड़े बिना नहीं रहा। अंग्रेजों और मुसलमानों में प्रधान अन्तर यह था कि अंग्रेजों ने कभी भारत को अपना देश नहीं समझा। यहा का शासन, धन एवं जन उनके करगत थे। यहाँ की संस्कृति की सराहना करते हुये आग्ल जाति ने कभी उसे अपनाने की चेष्टा नहीं की, जबकि आग्ल संस्कृति का प्रभाव राजसंस्कृति होने के कारण निरन्तर भारतीय संस्कृति पर पड़ता रहा।

1. Akbar's artist looked back to no struggling primitives behind them but to the finished achievement supreme in this kind of the Iranianasters and his patronage, would have resulted in loss of value had it not been for the example and opportunities it gave for revivals of the indogenous schools of Iranian art in local centres The Hindu element after his death came to infiltrate more and more of the Moghul School, while outside the capital, provincial Rajas encouraged artists, give push to ancient native traditions, The whole Moghul School reflects Akbar's political aspirations, its aim is to fuse the Iranian, The Mohammedan with the Hindu style.

Akber p 76

By Laurance Benyon

साहित्यिक पृष्ठभूमि :

अब तक की खोजों के अनुसार प्रथम सूफ़ी कवि मुल्ला दाऊद का आविर्भाव उस समय हुआ जब हिन्दी क्रमशः साहित्य के क्षेत्र में अपभ्रंश की स्थानापन्न हो रही थी। अपभ्रंश के रचयिताओं एवं कवियों का हास नहीं हुआ था। सिद्धों, नाथों एवं जैन कवियों की रचनाओं से उसका निरन्तर संबर्द्धन हो रहा था।

सिद्ध पुरानी रूढ़ियों, पुराने पाखण्डों के विरोधी थे। ये सिद्ध सभी मतों और सम्प्रदायों के पाखण्ड एवं कर्मकाण्ड का खण्डन करते थे और सहजयान या सहजजीवन परमसुख की स्थापना चाहते थे। सिद्धों ने सुख-दुःख एवं दुनिया की सभी समस्याओं को केवल व्यक्तियों के रूप में देखा। सिद्ध आत्मावलम्बन के पक्षपाती थे, लेकिन गुरु को अत्यन्त महत्त्व देते थे। इन्होंने गुरु महिमा का अत्यधिक गुणगान किया है। सिद्धों के काव्य में निराशावाद की झलक तक नहीं थी। वे निराशावाद, योग वैराग्य एवं निर्वाण के हेतु सांसारिक जीवन नष्ट करने वाले व्यक्तियों के सम्मुख संसार के स्वाभाविक भोगमय आदर्श जीवन को उपस्थित करना चाहते थे।

सामन्त जीवन के दो तथ्य 'भोग भोगना' और 'मृत्यु' को तृणवत् समझना का वर्णन जैन कवि स्वयंभू और पुष्पदन्त के काव्य में अत्यन्त स्वाभाविक रीति से वर्णित हैं। जैन कवियों के चरितकाव्यों का सूफ़ी साहित्य पर अत्यधिक प्रभाव है। सामन्तवर्ग की युद्ध एवं विलास की भावना रासो साहित्य में सुखर हैं। 'रासो' भी दूसरे शब्दों में चरित काव्य है जिसमें नायक के यश एवं जीवन घटनाओं का अत्यन्त विशद चित्रण होता है।

वीरगाथाकाल की सन्ध्या में मुल्लादाऊद नामक (अब तक की खोज के अनुसार) प्रथम सूफ़ी कवि नक्षत्र का उदय हुआ। जिस समय कवि खुसरो, विद्यापति आदि जन-भाषा एवं साधारण जीवन से सम्बन्धित विषयों की ओर आकृष्ट हो रहे थे, सूफ़ी कवियों पर जनभाषा एवं जनविषय के साथ ही सिद्धों की कुछ परम्पराओं का भी प्रभाव पड़ा। इसी समय मुक्तक काव्य 'सन्देश रासक' के रचयिता अब्दुरहमान भी हुये जिनके काव्य में एक विरहिणी की सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है।

इन सिद्धों की गुरु महिमा परम्परा एवं अलग्वनिरञ्जन की आराधना सूफ़ी प्रेमार्थ्यानों में भी है, किन्तु खण्डनात्मक पद्धति से जिस प्रकार इन कवियों ने प्रचलित पाखण्ड एवं कर्मकाण्ड का विरोध किया है, वह सूफ़ी काव्य में नहीं पाया जाता। सिद्ध ऐहिक जीवन ही सुखी वनाज्ञा चाहते थे, किन्तु सूफ़ियों ने परलोक की ओर दृष्टि रखी, अतः आशावाद की अपेक्षा संसार की असारता एवं निराशावाद उसमें अधिक है जो सूफ़ीमत की अपनी विशेषता है।

वीरगाथाओं का युग अधिक समय तक स्थिर न रह सका। हिन्दी साहित्य का रचनाकाल, एवं भारत पर मुगलों का आक्रमण लगभग दोनों ही घटनाएँ एक ही समय की हैं। प्रतिनिधि कवियों का अज एवं दर्प क्षीण हो गया। सासारिक वैभव, ऐश्वर्य एवं अस्तित्व की नश्वरता से परिचित हो वे ईश्वराधना में लग गये और हिन्दी साहित्य में 'भक्तिकाल' का आरम्भ हुआ।

भक्ति का जो स्रोत दक्षिण से प्रवाहित होकर धीरे-धीरे उत्तर की ओर आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुये जनता के हृदय में फैलने के लिये पूर्ण अवकाश मिला। रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय पद्धति पर सगुण भक्ति का निरूपण किया एवं उसकी ओर जनता पूर्ण रूप से आकृष्ट होती रही। पन्द्रहवीं शताब्दी में रामानुजाचार्य के शिष्य रामानन्द ने विष्णु के स्थान पर रामोपासना का प्रचार किया। दूसरी ओर वल्लभाचार्य ने प्रेममूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न कर दिया। इन्हीं सम्प्रदायों में दीक्षित भक्त कवियों ने रामोपासना एवं कृष्णोपासना में शाश्वत साहित्य की रचना की। इन भक्तों ने ब्रह्म के सत् और आनन्द स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप एवं चरित्र की अभिव्यक्ति के द्वारा कराया। तुलसीदास ने अपने काव्य के द्वारा सामाजिक विशुद्धलता मिटाने एवं जीवन में समरसता स्थापित करने का प्रयास किया। धार्मिक क्षेत्र में भी उन्होंने साम्प्रदायिक विभेदों को मिटाने का प्रयास किया। अध्यात्मिक क्षेत्र में, सभी प्रचलित धारणाओं का समन्वय उनकी भक्ति है। साहित्य की प्रचलित पद्धतियों में गोस्वामी तुलसीदास ने रचना की। उस समय तक हिन्दी साहित्य में पाँच प्रकार की प्रणालियाँ उपलब्ध थीं—(क) वीरगाथाकाल की छप्पय पद्धति (ख) विद्यापति एवं सुरदास की गीत पद्धति (ग) भाटों की कवित्त सवैया पद्धति (घ) नीति एवं उपदेश से पूर्ण सूक्ति पद्धति एवं मुक्तक दोहों की रचना (च) जैन एवं अपभ्रंश के चरित काव्यों की पद्धति।

सूरदास ने स्फुट शब्दों में कृष्ण लीला का गान किया। तुलसीदास के साहित्य में प्रयुक्त श्रवधी साहित्यिक है। सूरदास ने अपनी ब्रजभाषा को साहित्यिक बनाने का प्रयास नहीं किया, फिर भी उसका अपना लालित्य है। मुक्तक पदों की रचना में सूर का अपना स्थान है।

कवीर मूलतः समाज सुधारक थे। उनका उपदेशक का स्वरूप प्रमुख है। ऐसा करने में उन्हें खंडनात्मक प्रवृत्ति का आलम्बन लेना पड़ा। कवीर ने जनसाधारण की मिश्रित भाषा में अपने विचार व्यक्त किये।

सूफ़ी प्रथम उपलब्ध रचना के निर्माण काल के कुछ आगे पीछे हिन्दी साहित्य की यही रूपरेखा थी। ऊपर जिन पांच प्रचलित पद्धतियों का उल्लेख किया गया है, उनमें से केवल दोहे चौपाई वाली चरित काव्य पद्धति को ही सूफ़ी कवियों ने अपनाया सूफ़ी प्रबन्धों में यही दोहे चौपाई का क्रम बराबर मिलता है। कहीं कहीं दोहों के स्थान पर बरवै का प्रयोग अवश्य हुआ है। इसके अतिरिक्त कवित्त सवैयों का प्रयोग भी कवि कवीर ने पट्टञ्जलु वर्णन के अन्तर्गत किया है।

नीति एवं उपदेश पूर्ण दोहों और सूक्तियों की पद्धति को भी इन सूफी कवियों ने अपने मुक्तक काव्य में अपनाया है।

वीरगाथाकाल की सध्या में आरम्भ होकर सूफी-काव्य रचना आधुनिक काल तक होती रही। रीतिकालीन, काव्य चमत्कार, विविध छन्द रचना, नायक नायिका भेद, रस एवं रीति चर्चा, पाण्डित्य प्रदर्शन, इन सभी विशेषताओं का सर्वाधिक प्रभाव जान कवि पर शात होता है। इन एक अकेले कवि ने ७१ ग्रन्थों की रचना की है जिनमें नायक नायिका-भेद, रस भेद, भावसति, शृङ्गारसति, वादी नामा, विरहसत, वियोग सागर आदि सभी विषयों पर कवित्त, वरवै, दोहे पवं पवंगमों की रचना मिलती है।

रीतिकालीन साहित्य राज्याश्रय में लिखा गया साहित्य है। रीति कालीन काव्य का अधिक भाग शृंगार रस से सम्बन्धित है जिसमें कामक्रीड़ा, विलास एवं रूप सौन्दर्य की चर्चा के साथ ही साहित्यिक भाषा का आग्रह है, किन्तु सूफी कवियों पर नख शिख वर्णन, वारहमासा वर्णन आदि काव्यरूढियों के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता का आरोप नहीं है। किसी भी सूफी कवि को कभी 'भाषा कवि भी मदमति तेहि कुल केशवदास' नहीं कहना पड़ा और न वे राज्याश्रय की खोज में इधर उधर मारे मारे फिरे। 'पुहुपावती' हंसजवाहिर आदि में प्रकृति वर्णन के अन्तर्गत उपकरणों के नाम गिनाये गये देखकर आचार्य केशव के 'देखे भावे मुख,अन देखे कमल चन्द' तथा 'एला ललित लवंग लता' का ध्यान आ जाता है। इन कवियों ने प्रकृति का वर्णन या तो काव्य-परम्परा निर्माने के लिये पटभ्रतु एवं वारहमासे में किया है, या नखशिख वर्णन के उपमान चुनने में। कहीं कहीं वनस्थली उपवन, वाटिका के वर्णनों में प्रकृति के उपकरणों का नाम गिनाया गया है।

चरित काव्य एवं उपदेशात्मक काव्य के अतिरिक्त रीति काव्य (भाव, रसनिरूपण, पद्धति) की रचना इन सूफी कवियों ने की है।

रीतिकालीन रीति ग्रन्थों की रचना से साहित्य के स्वाभाविक विकास में बाधा पड़ी। प्रकृति की अनेकरूपता, जीवन की चिन्त्य बातों तथा जनता के नाना रहस्यों की ओर कवियों की दृष्टि नहीं गई। उनकी दृष्टि सीमित हो गई। कवियों की व्यक्तिगत विशेषता की अभिव्यक्ति का अवसर बहुत कम रह गया था। रीतिकाल में साहित्य की भाषा ब्रजभाषा ही रही किन्तु उसमें फारसी, अरबी, अरवी आदि सभी प्रचलित भाषाओं के शब्द मिलते हैं। भक्ति काल की प्रारम्भिक अवस्था में ही फारसी के शब्दों का प्रयोग साहित्य में होने लगा था। तुलसीदास जी ने भी गनी, गरीब, साहब उमरदराज ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। रीतिकाल में ऐसे शब्दों की संख्या बढ गई। कुछ कवियों ने शब्द के साथ फारसी की 'इश्क की शायरी' का भी अनुकरण किया। दूर की सूफ़, और नाजुकखाली रीतिकाल की प्रधानता है।

रीतिकाल के कवियों के प्रिय छन्द कवित्त और सबैया ही रहे, जो शृंगार और वीर रस दोनों के लिए उपयुक्त थे।

साहित्य रचना की इस रूपरेखा के अतिरिक्त, सूफी प्रेमाख्यान रचयिताओं को अपभ्रंश एवं हिन्दी प्रेमाख्यानों की कुछ परम्परायें भी उपलब्ध हुईं जिनका बहुत कुछ प्रभाव इन प्रेमाख्यानों के कथानक पर पड़ा ।

अपभ्रंश साहित्य तथा चरित काव्य :

अपभ्रंश भाषा की रचनाएँ सातवीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं शताब्दी तक मिलती हैं किन्तु दसवीं से बारहवीं शताब्दी का अपभ्रंश साहित्य पूर्ण उत्कर्ष को प्राप्त था । अपभ्रंश पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात और सिन्ध तक, तथा दक्षिण में मान्यखेट से लेकर उत्तर में कन्नौज तक लिखा और पढ़ा जाता था । इतने विस्तृत भूभाग के साहित्य का विविध भावयुक्त होना स्वाभाविक है ।

अपभ्रंश का सिद्ध साहित्य अधिकांश उपदेशात्मक है । गुरुमहात्म्य, रुढिखण्डन, जाति भेद पर प्रहार, वेद प्रमाण की असारता, सहज रस का गुणगान, और शून्य संचरण का संकेत आदि भाव उनकी कविता में प्रायः वर्णित हैं । इनमें डाकिनी, डोमिन, ब्राह्मणी, आदि का प्रयोग गुह्य साधना के प्रतीक स्वरूप हुआ है । इन सिद्धों की रचनाओं के कुछ आगे पीछे पश्चिमी भारत में जैन मुनि भी इसी प्रकार का धार्मिक साहित्य प्रस्तुत कर रहे थे । इन रचनाओं में जोइन्दु का परमात्म प्रकाश, तथा योगसार सबसे प्राचीन है । अपभ्रंश के सूक्ति बहुल धर्म-प्रचारक नीरस काव्य ग्रन्थों के बीच, वीर और शृंगार की ललित रचनाएँ भी फुटकल रूप में मिलती हैं । ये रचनाएँ अधिकतर तत्कालीन लोकगीतों की अंश प्रतीत होती हैं । हेमचन्द्र के व्याकरण में लगभग सवा सौ पद्य इस प्रकार के हैं जो धार्मिक अन्योक्ति द्वारा जीवन की सरसता प्रकट करते हैं ।

हेमचन्द्र द्वारा प्रस्तुत उदाहरणों में मुन्ज और मृणालवती के सम्बन्ध में प्राप्त दोहे किसी प्रचलित कथा के अंश रूप ही ज्ञात होते हैं । इन दोहों में वीर एवं शृंगार दोनों रसों की चर्चा विशेषरूप से मिलती है । शृंगार और वीर रस सिक्त इन फुटकल रचनाओं का स्त्रोत जैनेतर प्रतीत होता है । ये रचनायें संख्या में बहुत थोड़ी हैं, तथा तत्कालीन लोक गीतों का अंश प्रतीत होती हैं । अब्दुर्रहमान का 'सदेश रासक' इसी प्रकार की स्वतन्त्र रचना है । इसमें एक वियोगिनी की विरह गाथा दो सौ छन्दों में वर्णित प्राप्त होती है । इन मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त अपभ्रंश साहित्य का भण्डार अनेक प्रबन्ध काव्यों से भरा हुआ है । अपभ्रंश साहित्य का यह अंग सर्वाधिक पुष्ट है । पुराणों में एक महापुरुष की अपेक्षा अनेक महापुरुषों की जीवनगाथाओं का वर्णन रहता

१. टोहाकोय डा० हरप्रसाद शास्त्री ।

बौद्ध गान ओ टोहा डा० जी० वी० तगारे ने इन रचनाओं का पूर्वा अपभ्रंश के अन्तर्गत रखा है ।

है। चरित काव्य प्रेमाख्यानक की पद्धति पर लिखे गये ज्ञात होते हैं। सम्भव है कि इन चरित काव्यों में वर्णित कथायें उस समय प्रचलित रही हो या प्रचलित कथाओं के ढंग पर रचयिताओं ने स्वयं कल्पित कीं हों। इन प्रेम कथाओं में यदि आदि और अन्त का धार्मिक आरोप हटा दिया जाय तो वे लोकप्रचलित सुन्दर प्रेमाख्यान प्रतीत होती हैं। अपभ्रंश में प्राप्त प्रबन्ध निम्नांकित हैं।

१. पद्म चरित । (पद्मिनी चरित)
२. जसहर चरित । (जसहर यशोधरा चरित)
३. शयकुमार चरित ।
४. करकण्डु चरित ।
५. सनत्कुमार चरित ।
६. सुपामगाह चरित ।
७. नेमिनाह चरित ।
८. कुमारपाल चरित ।
९. भविसयत्त कहा । (भविष्यदत्त कथा)
१०. महापुराण ।

जसहर चरित, भविसयत्त कहा, सुदर्शन चरित, करकण्डु चरित, नाग कुमार चरित इन सब में एक प्रेमकथा अवश्य है। इस प्रेम का प्रारम्भ भी प्रायः समान रूप से हुआ है। गुणचर्चा सुनकर, चित्रदर्शन या साक्षात् दर्शन से इसके प्रारम्भ के बाद नायक नायिका का विवाह सम्पन्न हो जाता है। नायक की ओर से थोड़े बहुत प्रयत्न के बाद उनका प्रयास सफल होता है, पद्मावती तथा करकण्डु चरित के नायकों को हल की यात्राएँ करनी पड़ी थीं। इन सभी काव्यों में एक एक प्रतिनायक अवश्य मिलता है, किन्तु धर्म की विजय दिखाने के लिये कवियों ने आश्चर्य तत्व की सहायता से काव्यव्याज का प्रतिपादन किया है। भविष्यदत्त कथा में भविष्यदत्त की पत्नी को लेकर बन्धुदत्त चल देता है। जिन-मन्दिर में पूर्वजन्म के सम्बन्धानुकूल एक देव प्रकट होकर भविष्यदत्त को गजपुर पहुँचा देता है। इसी प्रकार करकण्डु चरित में दक्षिण पथ में उसकी रानी मदनवती हर ली जाती है। परन्तु एक सुर के द्वारा इसके पुनः प्राप्त होने का आश्वासन मिलता है।

इन आश्चर्य तत्वों में यक्ष, गन्धर्व, मुनिस्वप्न, आदि विशेष रूप से पाये जाते हैं। प्रेम को जन्म जन्मान्तर का सम्बन्ध सिद्ध करने का भी प्रयत्न लक्षित होता है। मधुमालती कथा में मनोहर मधुमालती के प्रति अपने प्रेम को जन्म जन्मान्तर का वताता है और कथानक के अन्त में मुनि प्रकट होकर पात्रों को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं जिनके कारण उन्हें विराग उत्पन्न होता है और वे सन्यास लेते हैं।

जसहर चरित में यशोधर का चरित वर्णित है। जिन-वन्दना के बाद कवि कथा का प्रयोजन बतलाने हुए कहता है कि धन और नारी की जगह वह शिव और सौरव्य की कथा कहना चाहता है। शयकुमार चरित में कामदेव के अवतार नागकुमार का चरित्र वर्णित है। पुष्पदन्त बड़े स्वतंत्रजीवी थे। उन्होंने विरह और दृष्टिता का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। उन्होंने सामन्तों के चमर और अभिषेक जल को सज्जनता को धो देने वाला कहा है, 'चमरा निलही उबेउ गुणाई, अभिषेक धोयउ सुजनतननाय ।' धनपाल की भविसयत्त कथा छोटी वाइस संधियों का प्रबन्ध काव्य है। कथा ज्ञान पचमी अथवा सुभपंचमी के दृष्टान्त स्वरूप कही गई है। आरम्भ में जिन वन्दना, विनम्रता,

आत्मदीनता, दुर्जन-निन्दा तथा सज्जन-प्रशंसा के बाद, कुरु जंगल के गजपुर नगर के वर्णन से कथारम्भ होती है।

इस कृति में प्रेम, शृंगार, करुणा, युद्ध, स्त्री-प्रकृति का अध्ययन, प्रकृति-वर्णन, देश और नगर वर्णन अत्यन्त सरल तथा सजीव शैली में हुआ है। समय समय पर दैवी शक्तियाँ धर्मप्रवण नायक के सहायतार्थ मूर्तिमान होती हैं। अपभ्रंश के चरित काव्यों में मंगलाचरण, देश नगर तथा राजा रानी के रनिवास के वर्णन बड़े सरस होते हैं। इन काव्यों में अडिल्ल, रडडा, पञ्भटिका छन्द विशेष प्रयुक्त हुये हैं। इन छन्दों की कुछ पंक्तियाँ रखकर एक धत्ता जोडकर एक कडवक पूरा होता है। कभी कभी कडवक के प्रारम्भ में हेला, दुवई आदि छन्द भी प्रयुक्त हुये हैं। इनमें प्रायः चतुष्पदी वर्ग के छन्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे लगभग दस पन्द्रह कडवकों का एक अध्याय होता है जिसे सन्धि कहते हैं। सन्धि के आदि में कहीं कहीं एक धुवक छन्द रहता है। वर्ण विषय और भाव के अनुसार बीच बीच में छन्दों के प्रचुर परिवर्तन भी हैं।

इन छोटे काव्यों के अतिरिक्त पुराणों की रचना महाकाव्यों की तरह हुई। स्वयंभू की रामायण नव्वे सन्धियों का विशाल महाकाव्य है जिसका विभाजन कवि ने पाँच काण्डों में किया है। विद्याधर काण्ड, अयोध्या काण्ड, सुन्दर काण्ड, युद्ध काण्ड तथा उत्तर काण्ड।

स्वयंभू ने रामायण के आरम्भ में अपनी दीनता तथा कथा को सरिता का रूपक देकर स्पष्ट किया है। इसमें सूक्ष्म प्रकृति-निरीक्षण तथा नगर और राजगृह का वर्णन बड़ा हृदयग्राही है। राहुल जी के शब्दों में सुन्दरियों के सामूहिक सौन्दर्य के चित्रण में स्वयंभू अपना सानी नहीं रखते। रनिवास के आमोद प्रमोद, अयोध्या तथा रावण के रनिवास का विलासपूर्ण वर्णन आदि बड़े सजीव हैं। इसके अतिरिक्त कवि ने विविध देशों की सुन्दरियों के देशगत वैशिष्ट्य, उनका रूप और स्वभाव बड़ा सटीक चित्रित किया है।

पुष्पदन्त ने अपने महापुराण में काव्य सम्बन्धी नवरस, नायक नायिका-भेद आदि की संयोजना की है। श्रीमती श्रुता का सौन्दर्य वर्णन करता हुआ कवि कहता है 'कि उनकी कटि पयोधर के भार तथा चिन्ता से दबी जाती थी। कहीं टूट न जाए इसलिए रोमावलि के व्याज उसे रोकने के लिए खंभा लगाया गया है'।

अपभ्रंश भाषा की सबसे प्राचीन काव्य रचना दोहा छन्द में हुई। दोहा छन्द में भी दो प्रकार की रचनाएँ उपलब्ध हैं। एक का उद्देश्य ऐहिक तथा दूसरे का आमुष्मिक या अलौकिक है। लौकिक दोहे शृंगार, करुणा तथा वीर रस से पूर्ण हैं। अब्दुर्रहमान का 'देशरासक' इसी कोटि के काव्य का विकसित रूप है।

१. मध्य स्तनभाराकान्ति चिन्तये वत्तावानवम् ।

रोमावलिच्छलेनास्या दधन्वःटम्भयविष्टरम्॥

जंमिद्वान्त भास्कर ।

पारलौकिक तत्व से समन्वित दोहों में प्रायः अध्यात्मचिन्तन धार्मिक उपदेश की प्रधानता के साथ साथ वाममार्गी प्रवृत्ति और उसकी साधना पद्धति का परिचय मिलता है।

खण्ड काव्यों में स्तुति, संलाप छोटे छोटे आख्यान एवं रूपक काव्य पाए जाते हैं जिनमें अध्यात्मिकता का बाहुल्य और लौकिकता का साधारणतः बहिष्कार परिलक्षित होता है।

पुराणों और चरित काव्य में चरित्रों के द्वारा आदर्श की स्थापना लेखक का उद्देश्य होता है। इसी कारण लौकिक गाथाओं में पारलौकिकता का संकेत इनमें विशेष रूप से प्राप्त होता है। इस कोटि की रचनाओं का महत्व छन्द विधान, कथाबन्ध सम्बन्धी परम्परा और अलंकार की दृष्टि से बड़े महत्व का ठहरता है क्योंकि परवर्ती हिन्दी आख्यान काव्यों में दोहा, चौपाई, अङ्कित, पञ्कटिका आदि छन्दों का प्रयोग इन्हीं चरितकाव्यों के अनुसरण पर किया गया है।

कथाबन्ध की दृष्टि से भी अपभ्रंश के चरित काव्यों में कतिपय रूढ़ियाँ मान्य थीं। प्रेमोदय के लिये गुणश्रवण, चित्रदर्शन अथवा साक्षात् दर्शन की अनिवार्यता, नायक प्रयत्न, प्रतिनायक या दैवी शक्तियों के कारण बाधाएँ आदि चरित काव्यों में उपलब्ध हैं। उसी प्रकार आधिदेवी शक्तियों के अवतार राक्षस, अप्सरा, विद्याधर एवं स्वप्न-संयोग से नायक की कठिनाइयों का शमन होता है तथा नायक और नायिका का मिलन हो जाता है।

अपभ्रंश कालीन तान्त्रिक साहित्य और जैनियों के कथा-साहित्य तथा रूपकों में परवर्ती हिन्दी आख्यानों की रचना-पद्धति और विषयपरक रूढ़ियों की ऐसी पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर दी थी जिसका विकास पूर्णरूप से हिन्दू और सूफी आख्यानक काव्यों में उपलब्ध होता है। हिन्दी के प्रेमसाख्यानों पर इन अपभ्रंश के चरित काव्यों का बड़ा प्रभाव है।

अपभ्रंश का नीति अथवा सूक्ति काव्य जो रामसिंह, देवसेन, जोइन्दु तथा हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण के उदाहरणों में विखरा हुआ था, हिन्दी काव्य की सन्त भक्ति वानियों से होता हुआ रहीम के नीतिपरक दोहों में विकसित दिखाई देता है।

कवीर आदि निर्गुनिये सन्तों की वानी का लोत सहजिया और नायपन्थी सिद्धों के दोहा और गान से निःसृत हुआ है यह सिद्ध हो जाता है। अपभ्रंश की हिन्दी-साहित्य को देन पुष्कल है। अपभ्रंश के चरित काव्यों के साथ यदि हिन्दी की प्रेमगाथाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो जात होता है कि —

१. इन दोनों ही प्रकार के प्रबन्धों में एक प्रधान प्रेमकथा अवश्य है।
२. प्रेम विवाह के पूर्व गुणश्रवण, चित्रदर्शन या स्वप्न दर्शन से उद्भूत होना है।
३. विवाह के पूर्व नायक का प्रयत्न, किसी प्रतिनायक या दैवी बाधाओं की योजना, लगभग सभी प्रबन्ध काव्यों में मिलती है।

- ४ कुछ में नारी जाति की प्रवंचना तथा कुटिलता का भी वर्णन रहता है जैसे मृगावती का धोखा देना और जसहर की पत्नी का कुटिल आचरण वाली होना ।
५. लौकिक कथा में आध्यात्मिक संकेत । जैन कथायें स्पष्ट रूप से जैन धार्मिक विचारों का प्रचार करती हैं किंतु सूफी काव्य में केवल संकेत मात्र रहता है ।
६. सिंहल यात्रा का मोह तथा उसके अभाव में किसी अन्य समुद्र यात्रा की योजना । करकण्डु चरिउ और पद्मावती में सिंहलयात्रा का वर्णन है । सिंहल की चर्चा किसी न किसी किसी रूप में लगभग सभी प्रेमाख्यानों में आई है ।
७. आधिदैवी शक्तियों के अवतार द्वारा कथा में आश्चर्य तत्व का योग । राक्षस, अप्सरा, विद्याधारों की अवतारणा साधारण बात है ।

वर्णन-पद्धति की भांति कथा बन्ध में भी कुछ रूढियां बन गई थीं । छन्द विधान में अपभ्रंश की कड़वक धत्ता शैली का विकास हिन्दी के प्रबन्धों में दोहा चौपाई के रूप में हुआ । कथाबन्ध सम्बन्धी इन ऊपरी बातों से भी अधिक साम्य कथानक की विषय परक रूढियों में प्राप्त होता है .—

- १ स्वप्न में प्रिय मूर्ति दर्शन ।
२. स्वप्नों द्वारा भावी दुर्घटना की पूर्व सूचना ।
३. नायक या नायिका का रूप परिवर्तन ।
४. मुनि के शाप से जीवन-चक्र का निश्चय ।
५. परकाय प्रवेश ।
६. आकाशवाणी ।
७. मुद्रिका आदि द्वारा अभिज्ञान ।
८. नायक-नायिका के मिलन में हंस शुक आदि का योग ।
९. छद्म अन्तःपुरचारिका से राजा का प्रेम, कालान्तर में रहस्योद्घाटन । ऐसे प्रेम की चर्चा सूफी काव्य में नहीं के बराबर है ।
१०. पशु-पक्षियों की भाषा समझना ।
११. नायिका का चित्र निर्माण ।
१२. सरोवर पर अचानक किसी सुन्दरी से साक्षात्कार या सरोवर स्नान ।
१३. जलनिपामा बुझाने समय या अचानक ही शत्रु या दानव से भेंट ।
१४. मत्त हाथी या राक्षस से सुन्दरी को छुड़ाना और प्रेमारम्भ । इस सम्बन्ध में 'मधुमालत' में वर्णित प्रेम चतुर् ही उच्च कोटि का है ।
१५. उजाड़ नगर में किसी सुन्दरी से साक्षात्कार ।
१६. छद्म राजा की पहचान तथा उसका सत्कार होना ।

१७. गरुड़, अप्सरा आदि के द्वारा युग्म का स्थानान्तरण ।

१८. पूर्वजन्मस्मरण ।

किन्तु कथानक की यह रूढिया विल्कुल इसी रूप में सूखी काव्य में प्राप्त नहीं होती यद्यपि भारतीय प्रेमाख्यानों में अवश्य मिल जाती है। सूफियों ने इनमें से कुछ का योग अपनी कथाओं में अवश्य किया है जैसे हाथी या राजस से सुन्दरी को छुडाना, उजाड़ नगर या वन में किसी सुन्दरी से साक्षात्कार, सरोवर पर अचानक सुन्दरी का साक्षात्कार नायिका चित्र निर्माण, पशु पक्षियों की भाषा समझना, नायक नायिका के मिलन में अधिकाश शुक का योग, स्वप्न में प्रियमूर्ति का दर्शन, सहिदानी भेजना, पुनर्जीवन प्रदान करना इत्यादि रूढियाँ लगभग सभी प्रेमकथाओं में प्राप्त हो जाती हैं ।

इस प्रकार अपभ्रंश काव्य के भाव और छन्दों ने ऐसी पीठिका उपस्थित कर दी थी कि हिन्दो काव्य अपने विकास के लिये स्वतंत्र मार्ग निकाल सके ।

हिन्दी के प्रेमाख्यान :

अपभ्रंश साहित्य पर दृष्टि-निक्षेप करने से स्पष्ट हो जाता है कि लौकिक कहानियों में धार्मिक संकेत की प्रथा अत्यन्त प्राचीन है । हिन्दी का आख्यान काव्य अपभ्रंश के चरित और पुराण ग्रन्थों का ही दूसरा परिवर्धित, परिवर्तित एवं विकसित रूप है ।

हिन्दी के आदि काल की 'रासो परम्परा' वास्तव में प्रेमाख्यान परम्परा ही है । रासो परम्परा में सर्वाधिक विपुलकाय ग्रन्थ 'पृथ्वीराज रासो' है । इसमें अपभ्रंश के चरित काव्यों, कथा-साहित्य, पुराण आदि सभी प्रकार के प्रबन्ध काव्यों की शैली का मिश्रण मिलता है । अनेक कथाओं एवं आख्यानों के बाह्य आवरण के मध्य प्रेम-भावना ही प्रधान है । पृथ्वीराज रासो की अन्तर्भावना मूलतः प्रेमाश्रित है । प्राकृत गलम् में प्राप्त हम्मिर रासो के फुटकल पद्य भी आख्यान पद्धति की इसी परम्परा की पुष्टि करते हैं । वही प्रोषितपतिका, संदेश-प्रेषण, षट्श्रुतुवर्णन, विरह-वेदना, शौच-प्रशंसा सब कुछ सद्भिगत वर्णनों जैसा ही है ।

अस्तु हिन्दी के रासो ग्रन्थों से हम आख्यान काव्य एवं प्रेमाख्यानों की परम्परा का प्रारम्भ मान सकते हैं ।

चारण काल के अन्तिम चरण में 'मुल्ला दाउद' की नूरकचन्दा की कहानी मिलती है लेकिन अपभ्रंश काल से शृंगार के मुक्तक छन्दों की डिंगल परम्परा 'ढोला मारु रा दोहा' जैसे शुद्ध-प्रेमाख्यानों में ही विकसित हुई है ।

राजस्थान में जहाँ डिंगल की साहित्यिक भाषा में शौर्य एवं शृंगार पूर्ण रासो निर्मित हो रहे थे वहीं ग्रामगीतों में सुख, दुख, विरह, प्रेम आदि शाश्वत भावनाओं की अभिव्यक्ति लोकभाषा में हो रही थी ।

खेतों की मेड़ों पर, प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में, पनघटों पर, घरेलू उत्सवों और कार्यों पर गाये जाने वाले ये गीत हृदय के सच्चे उद्गार के सच्ची हैं । इन गीतों में

विरह मिलन के नाना व्यापारों की सुन्दर भाँकी मिलती है जैसे एक प्रोपितपतिका अन्योक्ति पूर्ण शैली में अपने प्रेम की अनन्यता और प्रिय की कठोरहृदयता का उलाहना देती हुई कहती है 'मृग विना मृगी अकेली है, मृग वन खण्ड में मृगी को अकेली छोड़ गया, मृग को ढूँढने मृगी निकली । सारे वन खण्ड को छान छान कर ढूँढ लिया पर वह निष्ठुर मृग कहीं नहीं मिला । ढूँढते ढूँढते मृगी थक गई' ।^१ इन लोक गीतों में मुक्तक रूप में संयोग और वियोग दोनों ही भावनाओं का वर्णन मिलता है ।

भारत में सूफी प्रेमाख्यानों की प्राप्ति के पूर्व भी हिन्दी में प्रेमगाथाओं का प्रचार था और वे अधिकांश पौराणिक रचना वा लोक गीतों के रूप में प्रचलित थीं । कुछ इस प्रकार की कहानियाँ ऐतिहासिक नायक नायिकाओं और घटनाओं का आधार लेकर भी रची गई थीं । रासो-काव्य में अधिकांश किसी सामन्त की प्रेमकथा और उसके कारण की गई लड़ाइयों का ही वर्णन प्रधान है । भिन्न धार्मिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए भी कथाओं का निर्माण होता था । भिन्न भिन्न प्रकार की 'रास' 'दूहा' एवं 'वात' और 'चौपाई' नामों से प्रसिद्ध रचनाओं में इस प्रकार के प्रचुर उदाहरण प्राप्त हैं । इन प्रेमाख्यानों का स्वरूप या तो शुद्ध प्रेमकथा का है या कहीं कहीं इनमें चमत्कार पूर्ण अलौकिक घटनाओं द्वारा आश्चर्य एवं कौतूहल जाग्रत कर रोचक ढंग से दैवी संकेतों के द्वारा किसी धार्मिक उपदेश की व्याख्या है । इसके अतिरिक्त विरहणियों के संदेशों को लेकर एक प्रकार की रचनाएँ उससे भी पहले से प्रसिद्ध चली आ रही हैं । संस्कृत के मेघदूत, हंसदूत, पवनदूत से लेकर अब्दुर्रहमान की अपभ्रंश रचना 'संदेश रासक' तथा वीरगाथाकालीन 'ढोला मारवणी गाथा' इसके उदाहरण में दी जा सकती है ।

इस प्रकार सूफी प्रेमगाथाओं के आरम्भ से पूर्व हिन्दी साहित्य में प्राप्त प्रेमगाथाओं का स्थूलरूप से विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है . (१) वे कथाएँ जिनका सम्बन्ध पौराणिक आख्यानों से था । उदाहरण स्वरूप, ऊषा अनिरुद्ध, नल दमयन्ती, अभिज्ञान शाकुन्तलम् आदि के नाम लिये जा सकते हैं । (२) वे लोक गीत जो मौलिक रूप में किसी अज्ञात समय से आ रहे थे । जिनका आभास क्रमशः 'ढोला मारू रा दूहा' एवं पुष्पकवि की लहँदी कहानी 'ससि पूनो' में मिलता है । (३) जैतियों के पौराणिक प्रेमाख्यान जिनका मुख्य उद्देश्य धार्मिक है तथा प्रेमवर्णन गौण हो गया है । (४) वीर-

१ मिरगे विना मिरगी एक लड़ी,
मिरगी छोड़ गयो वन खण्ड मांय ।

मिरगी ने एक लड़ी ।

मिरगे ने ढूँढन मिरगी निसरी ।

ढूँढ्यो वन खण्ड छाण ।

मिरगे विना मिरगी एक लड़ी ।

मिरगी छोड़ गयो वन खण्ड मांय ।

मिरगी ने एक लड़ी ।

राजस्थान के लोकगीत ।

गाथाकाल का 'रासो साहित्य' वे प्रेम गाथायें हैं जिनमें वीर रस सम्बन्धी घटनाओं का आधार किसी न किसी ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित रहता है। (५) वे कथायें जिनमें चमत्कार की प्रचुरता रहनी है।^१

इन पाँच प्रकार की प्रेमकथाओं की परम्परा आधुनिक युग में लुप्तप्राय है। न तो ये प्रेमकथायें अपने प्राचीन रूप में प्राप्त ही होती हैं और न इनका समय की गति के अनुसार विशेष महत्त्व ही है। हिन्दी साहित्य के कवियों ने भक्तिकाल तथा रीतिकाल में ऐसी प्रेमकथाओं की खूब रचना की जिनमें आलम कवि कृत माधवानल भापा बंध (सं १६४०) सूरदास कृत 'नलदमन' (सं० १७३६) तथा पृथ्वीराज राठौर कृत क्रिसन रुकमिणी री वेलि (सं० १६३६) एवं बोधाकृत 'विरह वारीश' जैसी पुस्तकों के नाम लिये जा सकते हैं।

सूफ़ी प्रेमकथाओं के समानान्तर और प्रायः उन्हीं के आदर्श पर अन्य प्रकार की प्रेमकथायें भी लिखी गई हैं जो अधिक प्रसिद्ध नहीं हैं किन्तु जिनका महत्त्व किसी प्रकार भी कम नहीं है। इन प्रेमगाथानों के रचयिता 'संतकवि' रहे हैं अतः सूफ़ी प्रेमगाथाओं की भाँति इन ग्रन्थों में कथारूपकों के द्वारा संतमत की बातों का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार की रचनाओं में बाबाधरणीदास (१६ वीं सदी) की 'प्रेमप्रगास' तथा संत दुख-हरण की 'पुहुपावती' की गणना की जा सकती है। जो अभी तक प्रकाशित नहीं हैं।

धार्मिक स्थिति :

मानव समाज के विकास में धर्म की आवश्यकता बहुत पीछे ज्ञात हुई। आरम्भिक काल में जब मानव भ्रमणशील था जीविका एवं जीवनधारण के लिये जब वह स्थान परिवर्तन करना आवश्यक समझता था, जब मनुष्य में धनी निर्धन का भेद न हुआ था उस समय उसे धर्म की आवश्यकता नहीं ज्ञात हुई थी। वेदों के प्राचीन देवता मानव की आवश्यकता तुष्टि के साधन हैं। वे वरुण की उपासना इसलिये करते थे कि वह कृपि के हेतु जल देता है तथा सूर्य की गर्मी उन्हें जीवन देती है, किन्तु धीरे धीरे प्रकृति के इन भिन्न स्वरूपों के मध्य एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की भावना ने और फिर क्रमशः सर्वशक्तिमान ईश्वर की कल्पना ने जन्म लिया। गुप्तों के राज्यकाल में विष्णु का महत्त्व अत्यधिक बढ़ गया था यद्यपि बौद्ध और जैन धर्मों ने सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान की सत्ता पर विचार करना अव्याकृत समझा। इसी पूर्व पहली दूसरी शताब्दी में इन बौद्धों की उदार प्रवृत्ति के कारण यवन शक आभीर, गुर्जर आदि जातियों को हिन्दू समाज आत्मसात कर सका जबकि ब्राह्मण अभी इन्हे 'स्तेच्छ' ही समझ रहे थे। कालान्तर में इन्हीं ब्राह्मणों ने इन्हे आबू के अग्निकुण्ड से उत्पन्न त्रिष्य घोषित कर समाज में सम्मानीय स्थान दिया और सामन्तकालीन भारत पर चिरकाल के लिये ब्राह्मणों का प्रभाव हो गया।

वैष्णव धर्म :

वैष्णव धर्म के उद्भव तथा विकास के कारण एवं परिस्थितियों अनुमानों पर आधारित हैं। वैदिक काल में विष्णु की गणना प्रथम श्रेणी के देवताओं में नहीं है। वे सौर शक्ति के रूप में माने गये हैं यद्यपि वैदिक विष्णु और वैष्णव मत में मान्य विष्णु में पूर्ण साम्य नहीं है तथापि विष्णु की सरक्षण एवं व्याप्ति की भावना को जो प्राधान्य पहले था उसी का पल्लवित रूप वैष्णव धर्म में उपलब्ध है।

गुप्तकाल में वैष्णव धर्म का अत्यधिक प्रभाव रहा। प्रायः सभी गुप्त सम्राट 'परम भागवत' के विरुद्ध से विभूषित वैष्णव थे। शक्ति सम्पन्न समाज में सर्वाधिक पूजित उच्चकोटि की देवशक्तियों का सामाहार विष्णु रूप में हो गया था। क्रमशः वैष्णव धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में भी हुआ। डा० त्रिपाठी की स्थापना है कि उत्तरी भारत में हर्षवर्धन आदि की वैष्णव धर्म के प्रति उपेक्षा के कारण इसका वास्तविक विकास दक्षिण भारत में हुआ।

दक्षिण के आडवार वैष्णव भक्ति के प्रमुख प्रचारकों में से हैं। विष्णु के विभिन्न स्वरूपों की उपासना इन्हें मान्य थी। वैष्णव धर्म का उत्तर विकास 'भक्ति मार्ग' के रूप में हुआ। भागवत के साथ ही नारद एवं शाण्डिल्य भक्ति सूत्रों का भक्त समाज में सम्मानपूर्ण स्थान है। भक्ति भावना का प्रचार बहुत पहले से होने पर भी भक्ति को दृढ दार्शनिक आधार देने का श्रेय रामानुजाचार्य को ही है। रामानुजाचार्य के विचारानुसार ब्रह्म अद्वितीय तथा विशिष्ट पदार्थ है। जीव ईश्वर की भाँति ही नित्य है। विशिष्टाद्वैत में ईश्वर और जीव के सम्बन्ध को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाने की चेष्टा की गई है। इन सम्बन्धों को अंश और अंशी, अवयव और अवयवी, गुण और गुणी के सम्बन्ध द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। रामानुजाचार्य के अनुसार ईश्वर का निरन्तर स्मरण ही यथार्थ ज्ञान है। इन्हीं के शिष्य स्वामी रामानन्द ने भक्ति का क्षेत्र और अधिक व्यापक तथा उदार कर दिया। यामुनाचार्य की शिष्य परम्परा ने भक्ति का अधिकाधिक प्रसार किया। दक्षिण में आविर्भूत हुई भक्ति भावना मध्यकाल में उत्तरी भारत में पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई। पद्मपुराण के अनुसार भक्ति का जन्म द्रविड़ देश में, वृद्धि कर्नाटक में, कुछ काल तक महाराष्ट्र प्रदेश में स्थिति तथा गुर्जर प्रान्त में जीर्णत्व प्राप्त हुआ।

उत्पन्ना द्राविड़े चाहं कण्टि वृद्धिमागता ।

स्थिता किञ्चिन्महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतागता^१ ॥

भक्ति ने समाज में प्रत्येक वर्ग तथा वर्ण के व्यक्ति की महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। उत्तरीय भागवत एवं वैष्णव धर्म का भक्ति सामञ्जस्य नारदीय भक्ति का स्वरूप निर्माता है। दक्षिण का भक्ति आन्दोलन उत्तरीय वैष्णव धर्म का नवीन सरकार है। मध्यकालीन भक्ति भावना के दो स्वरूप परिलक्षित होते हैं। (१) शास्त्र सम्मत वैधी

शाखा जो परम्परागत वैष्णव भावना पर पूर्ण दृष्ट थी। (२) शास्त्र विरोधी धारा जो प्राचीन परम्परा का अनुगमन करती कभी योग और कभी ज्ञान के साथ सम्बद्ध होती रही।

मध्यकालीन जैन एवं बौद्धधर्म :

बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म अपनी पृथक सत्ता बहुत दिन तक नहीं रख सका। सामंत वर्ग स्वभाव से युद्धप्रिय था, अतः उसकी छत्रछाया में जैन धर्म पल्लवित न हो सका। इन सामन्तों में से केवल राष्ट्रकूट एवं सोलंकियों का अनुराग जैनधर्म पर था। वैश्य जैन धर्म पालन में तत्पर थे किन्तु उनके लाभ-लोभ ने इन्हें वाधा उपस्थित की। 'व्यापारे वसति लक्ष्मी' के सिद्धांतानुसार ये जैन वैश्य लक्ष्मीपति बन गये। सर्वत्यागी जैन धर्म के 'देवलावाड़ा' जैसे मन्दिर सोने और हीरे के जड़ाव से चमकने लगे। जैन धर्म धीरे-धीरे जनवास छोड़, वस्ती वास करने लगा। जानि-पाति का मेद-भाव बढ़ा, रोटी वेटी का निषेध आरम्भ हुआ और महावीर के साथ परमेश्वर की भावना का योग हो गया। भूत-प्रेत, जादू-मन्त्र, देवी-देवताओं की स्थापना हुई। वाममार्ग की भांति जैन धर्म में भी चक्रेश्वरी देवी की स्थापना हुई। निर्वाण कामिनी के गीत गाये जाने लगे और जैन धर्म अपने मूलस्वरूप से इतना पृथक और ब्राह्मण धर्म से इतना अधिक प्रभावित हो गया कि उसकी पृथक चर्चा करना व्यर्थ होगी। मध्यकालीन समाज पर भी जैन धर्म का विशेष प्रभाव न था।

बौद्ध धर्म अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद ही कई शाखाओं में विभाजित हो गया था। गुप्तकालीन पौराणिक धर्मोत्थान के कारण बौद्ध धर्म के प्रसार एवं विकास में वाधा पड़ी। हूँनसाग की यात्रा के समय पंजाब एवं बंगाल प्रदेश पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था। बौद्ध धर्म के अन्तर्गत परस्पर विरोधी १८ दलों का उल्लेख उसने किया है। अपने इसी विखरे स्वरूप के साथ बौद्ध धर्म की अवस्थिति मध्यकाल में थी।

बौद्ध धर्म के इस उत्तरकाल में तन्त्र की प्रधानता है। बौद्ध धर्म के तान्त्रिक विकास ने इसे नवीन स्वरूप प्रदान किया। महायान के अंतर्गत काल चक्रयान, वज्रयान, सहजयान और मन्त्र-यान आदि की स्थापना हुई।

कालचक्रयान के अनुसार, लौकिक दृष्टि से प्रत्येक वस्तु त्रिकाल की सीमा से बाधित है। भूत, भविष्य और वर्तमान के वशीभूत यह सारा संसार है। कालचक्र से मुक्ति लाभ करने के हेतु ही सम्भवतः 'कालचक्रयान' की उद्भावना हुई हो।

वज्रयान में शून्यता को 'दृढ' मान्यता मिली। शून्यता ही वज्र के समान दृढ, अपरिवर्तनशील, अच्छेध, अमोघ, अदाही और अविनाशी है। शून्यता की स्थिति महासुख की स्थिति है और इस स्थिति के सम्यक् स्पष्टीकरण एवं व्यक्तीकरण के लिये 'युगानन्द' के स्वरूप की कल्पना की गई। वज्रयान की साधना में रहस्य का समावेश था। इस शाखा का विशेष प्रचार पालवंशीय राजाओं के ज्ञानकाल में विहार और वज्राल में हुआ।

वैष्णव धर्म :

वैष्णव धर्म के उद्भव तथा विकास के कारण एवं परिस्थितियों अनुमानों पर आधारित हैं। वैदिक काल में विष्णु की गणना प्रथम श्रेणी के देवताओं में नहीं है। वे सौर शक्ति के रूप में माने गये हैं यद्यपि वैदिक विष्णु और वैष्णव मत में मान्य विष्णु में पूर्ण साम्य नहीं है तथापि विष्णु की संरक्षण एवं व्याप्ति की भावना को जो प्राधान्य पहले था उसी का पल्लवित रूप वैष्णव धर्म में उपलब्ध है।

गुप्तकाल में वैष्णव धर्म का अत्यधिक प्रभाव रहा। प्रायः सभी गुप्त सम्राट 'परम भागवत' के विरुद्ध से विभूषित वैष्णव थे। शक्ति सम्पन्न समाज में सर्वाधिक पूजित उच्चकोटि की देवशक्तियों का सामाहार विष्णु रूप में हो गया था। क्रमशः वैष्णव धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में भी हुआ। डा० त्रिपाठी की स्थापना है कि उत्तरी भारत में हर्षवर्धन आदि की वैष्णव धर्म के प्रति उपेक्षा के कारण इसका वास्तविक विकास दक्षिण भारत में हुआ।

दक्षिण के आडवार वैष्णव भक्ति के प्रमुख प्रचारकों में से हैं। विष्णु के विभिन्न स्वरूपों की उपासना इन्हें मान्य थी। वैष्णव धर्म का उत्तर विकास 'भक्ति मार्ग' के रूप में हुआ। भागवत के साथ ही नारद एवं शाण्डिल्य भक्ति सूत्रों का भक्त समाज में सम्मानपूर्ण स्थान है। भक्ति भावना का प्रचार बहुत पहले से होने पर भी भक्ति को दृढ दार्शनिक आधार देने का श्रेय रामानुजाचार्य को ही है। रामानुजाचार्य के विचारानुसार ब्रह्म अद्वितीय तथा विशिष्ट पदार्थ है। जीव ईश्वर की भाँति ही नित्य है। विशिष्टाद्वैत में ईश्वर और जीव के सम्बन्ध को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाने की चेष्टा की गई है। इन सम्बन्धों को अंश और अंशी, अवयव और अवयवी, गुण और गुणी के सम्बन्ध द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। रामानुजाचार्य के अनुसार ईश्वर का निरन्तर स्मरण ही यथार्थ ज्ञान है। इन्हीं के शिष्य स्वामी रामानन्द ने भक्ति का क्षेत्र और अधिक व्यापक तथा उदार कर दिया। यामुनाचार्य की शिष्य परम्परा ने भक्ति का अधिकाधिक प्रसार किया। दक्षिण में आविर्भूत हुई भक्ति भावना मध्यकाल में उत्तरी भारत में पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई। पद्मपुराण के अनुसार भक्ति का जन्म द्रविड़ देश में, वृद्धि कर्नाटक में, कुछ काल तक महाराष्ट्र प्रदेश में स्थिति तथा गुर्जर प्रान्त में जीर्णत्व प्राप्त हुआ।

उत्पन्ना द्राविड़े चाहं कर्णाटि वृद्धिमागता ।

स्थिता किञ्चिन्महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतागता^१ ॥

भक्ति ने समाज में प्रत्येक वर्ग तथा वर्ण के व्यक्ति की महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। उत्तरीय भागवत एवं वैष्णव धर्म का भक्ति सामञ्जस्य नारदीय भक्ति का स्वरूप निर्माता है। दक्षिण का भक्ति आन्दोलन उत्तरीय वैष्णव धर्म का नवीन सरकार है। मध्यकालीन भक्ति भावना के दो स्वरूप परिलक्षित होते हैं। (१) शास्त्र सम्मत वैधी

शाखा जो परम्परागत वैष्णव भावना पर पूर्ण दृढ़ थी। (२) शास्त्र विरोधी धारा जो प्राचीन परम्परा का अनुगमन करती कभी योग और कभी ज्ञान के साथ सम्बद्ध होती रही।

मध्यकालीन जैन एवं बौद्धधर्म :

बौद्ध धर्म की भाँति जैन धर्म अपनी पृथक सत्ता बहुत दिन तक नहीं रख सका। सामंत वर्ग स्वभाव से युद्धप्रिय था, अतः उसकी छत्रछाया में जैन धर्म पल्लवित न हो सका। इन सामन्तों में से केवल राष्ट्रकूट एवं सोलंकियों का अनुराग जैनधर्म पर था। वैश्य जैन धर्म पालन में तत्पर थे किन्तु उनके लाभ लोभ ने इन्हें बाधा उपस्थित की। 'व्यापारे वसति लक्ष्मी' के सिद्धांतानुसार ये जैन वैश्य लक्ष्मीपति बन गये। सर्वत्यागी जैन धर्म के 'देवलवाड़ा' जैसे मन्दिर सोने और हीरे के जड़ाव से चमकने लगे। जैन धर्म धीरे-धीरे जनवास छोड़, वस्ती वास करने लगा। जानि-पाति का भेद-भाव बढ़ा, रोटी वेटी का निषेध आरम्भ हुआ और महावीर के साथ परमेश्वर की भावना का योग हो गया। भूत-प्रेत, जादू-मन्त्र, देवी-देवताओं की स्थापना हुई। वाममार्ग की भाँति जैन धर्म में भी चक्रेश्वरी देवी की स्थापना हुई। निर्वाण कामिनी के गीत गाये जाने लगे और जैन धर्म अपने मूलस्वरूप से इतना पृथक और ब्राह्मण धर्म से इतना अधिक प्रभावित हो गया कि उसकी पृथक चर्चा करना व्यर्थ होगी। मध्यकालीन समाज पर भी जैन धर्म का विशेष प्रभाव न था।

बौद्ध धर्म अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद ही कई शाखाओं में विभाजित हो गया था। गुप्तकालीन पौराणिक धर्मास्थान के कारण बौद्ध धर्म के प्रसार एवं विकास में बाधा पड़ी। हनेसाग की यात्रा के समय पंजाब एवं बंगाल प्रदेश पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था। बौद्ध धर्म के अन्तर्गत परस्पर विरोधी १८ दलों का उल्लेख उसने किया है। अपने इसी विखरे स्वरूप के साथ बौद्ध धर्म की अवस्थिति मध्यकाल में थी।

बौद्ध धर्म के इस उत्तरकाल में तन्त्र की प्रधानता है। बौद्ध धर्म के तान्त्रिक विकास ने इसे नवीन स्वरूप प्रदान किया। महायान के अंतर्गत काल चक्रयान, वज्रयान, सहजयान और मन्त्र-यान आदि की स्थापना हुई।

कालचक्रयान के अनुसार, लौकिक दृष्टि से प्रत्येक वस्तु त्रिकाल की सीमा से बाधित है। भूत, भविष्य और वर्तमान के वशीभूत यह सारा संसार है। कालचक्र से मुक्ति लाभ करने के हेतु ही सम्भवत 'कालचक्रयान' की उद्भावना हुई हो।

वज्रयान में शून्यता को 'दृढ़' मान्यता मिली। शून्यता ही वज्र के समान दृढ़, अपरिवर्तनशील, अच्छेद्य, अमोघ, अदाही और अविनाशी है। शून्यता की स्थिति महासुख की स्थिति है और इस स्थिति के सम्यक् स्पष्टीकरण एवं व्यक्तीकरण के लिये 'युगनन्द' के स्वरूप की कल्पना की गई। वज्रयान की साधना में रहस्य का समावेश था। इस शाखा का विशेष प्रचार पालवंशीय राजानों के ज्ञानकाल में विहार और बङ्गाल में हुआ।

मध्यकालीन भारत में ब्राह्मण धर्म का प्राधान्य था, बौद्ध धर्म का विशेष प्रभाव समाज पर नहीं था। बौद्ध सच्चों का जनता को प्रभावित करने का प्रयास चल रहा था। इसी हेतु सम्भवतः उन्होंने बौद्ध धर्म में भी ब्रह्मचर्य और भिक्षु जीवन पर बहुत जोर दिया जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सहजयान ऐसे गुह्य समाजों की स्थापना हुई।

वज्रयान का उत्तर विकास सहजयान के रूप में हुआ। सहजयान न देवी-देवताओं की स्थिति मानता है, और न मन्त्रमुद्रा, पूजा आचार एवं अनुष्ठान को ही स्वीकार करता है। काया-कष्ट को भी सहजयानी स्वीकार नहीं करता। सहजयानियों के जीवन का लक्ष्य सहजसुख की प्राप्ति है जिसमें सासारिक मायाजनित ममता मोह के बन्धन टूट जाते हैं और शून्यता की प्राप्ति होती है।

सरहपा ऐसे सहजयानियों ने यद्यपि भोगस्वातंत्र्य को अस्वाभाविकता तक नहीं ले जाना चाहा था किन्तु कालान्तर में विकृत होकर उसकी गति भी पाखण्डवाद की ओर हो गई।

अपने इसी विकृत एव ध्वस्त स्वरूप को लेकर बौद्ध धर्म की स्थिति उस समय थी, जिसका विशेष प्रभाव समाज पर नहीं पड सका और यही कारण है कि सूफ़ी साहित्य में भी इस प्रभाव के संकेत नहीं के बराबर मिलते हैं।

शैव मत :

शिव की उपासना की प्रामाणिकता सैन्धव-सभ्यता के काल से मानी जाती है, यद्यपि शिव के वैदिक एव अवैदिक रूप को लेकर बहुत मतभेद है। श्वेताश्वर उपनिषद में शिव परमेश्वर रूप में प्रतिष्ठित है। महाभारत में शैव मत का उल्लेख है। कुपाण वंशीय नृपति शिवोपासक थे, एवं नागवंशीय सम्राट 'भारशिव' की उपाधि धारण करते थे, हर्ष चरित में शिव की चर्चा प्रमुख देवों के रूप में की गई है। राष्ट्रकूट नृपतियों ने दक्षिण में शैव मत के प्रचार में प्रचुर योग दिया। वामन-पुराण शैव मत में चार सम्प्रदायों की स्थापना करना है—शैव, पाशुपत, कालधमन और कापालिक। ये ही चार प्रधान शैव सम्प्रदाय हैं। दक्षिण में कर्नाटक प्रदेश के वीर जैवमतानुयायियों को लिगायत कहते हैं। ये गले में शिवलिंग को लटकाये रहते थे, वैसे ही भारशिव शिव की मूर्ति को पीठ पर खुदवाये रहते थे।

शैव सिद्धान्तों के अनुसार परमतत्व शिव ही है। यह परमतत्व अनादि, शाश्वत, अनन्त और शुद्ध सच्चिदानन्द है। इस संसार के सारे प्राणी पाशवद्ध होने के कारण पशु हैं, केवल एक शिव ही मुक्त है तथा सासारिक जीवों के स्वामी है। गुरु की कृपा के बिना जीव को मुक्ति प्राप्ति असंभव है।

मध्यकाल में जैनों का वस्तुतः नाथ सम्प्रदायी स्वरूप प्रधान रहा। सिद्ध मत या योग सम्प्रदाय के अतिरिक्त, कालामुख और कापालिक मत भी जैव मत के भयंकर रूप

है। कापालिकों की साधना अत्यन्त भयानक तथा वीभत्स होती रही है। सुरा सेवन, मानवबलि, शव-साधना आदि इसके मुख्य अंग रहे हैं।

शक्ति की पूजा को प्रधान्य देने वाले शक्ति-मत का प्रभाव भी मध्यकाल में अधिक था। इस मत में नाथ और विन्दु का विशेष महत्व है। जीवन्मुक्त की कल्पना शैवमत में भी की गई है। जीवन्मुक्त वह है जो विरोधी भावनाओं के ऊपर उठ चुका है, जिसके मन में कोई संकल्प नहीं रहता, न वह कुछ जानता और न समझता है केवल काष्ठवत् पड़ा रहता है। कुलार्णव तन्त्र में शैवों के सिद्धान्तों का उल्लेख मिलता है।

हासोन्मुख बौद्ध धर्म का मध्यकालीन तन्त्र मत से संयोग हो गया, मध्यकाल में शाक्त मत वामाचार के नाम पर नृशंस व्यापार चल रहे थे। जादू टोना, तंतर-मंतर, भूत प्रेत की उपासना शक्ति के प्रतिरूप समझ कर की जा रही थी। भैरवीचक्र की स्थापना ने सदाचार को बहुत हानि पहुँचाई और अति रहस्य के समावेश से नाथ सम्प्रदाय के महत्व का स्वल्पन आरम्भ हो गया।

नाथ सम्प्रदाय :

उत्तरी भारत के पश्चिमी प्रदेशों में नाथ सम्प्रदाय का अत्यधिक प्रभाव था। गुरु गोरखनाथ ही इस सम्प्रदाय के वास्तविक प्रचारक हैं। इनका जीवन-काल अभी पूर्णतया निर्धारित नहीं हो पाया है, यद्यपि इनके गुरु मत्स्येन्द्र नाथ का भी उल्लेख प्राप्त होता है किन्तु योगसाधना में अपने गुरु को भी शिक्षा देने वाले गोरखनाथ को ही इस संप्रदाय का वास्तविक प्रवर्तक मानना चाहिये। गोरखनाथ की साधना में अद्वैतवाद और योग की साधना का समन्वय ज्ञात होता है। तुलसीदास जी ने सम्भवतः इनकी इसी साधना के स्वरूप की ओर लक्ष्य करके इन्हें योग को जगाकर भक्ति को दूर भगाने वाला कहा है।

गोरखनाथ का काल कई दृष्टियों से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मुसलमानी धर्म प्रवेश एवं बौद्ध धर्म के उत्तरविकास की अवस्था में, शैव एवं शाक्त मतों की विभिन्नता के कारण विषम परिस्थिति उत्पन्न होगई थी। गोरखनाथ ने विभिन्न योगपरक सम्प्रदायों का विशाल संगठन किया। नाथ सम्प्रदाय साधना प्रधान धर्म-साधना है जिसका परमकाम्य है कैवल्यावस्था वाली सहज समाधि की प्राप्ति। यह सब गुरु की कृपा से सम्भव है, वेदपाठ, ज्ञान या वैराग्य से नहीं।

गोरखवानी में गोरखपंथ के उत्तर विकास के पर्याप्त संकेत मिलते हैं जिसमें, ब्रह्मरन्ध्र में ध्यान केन्द्रित करने, निराकार की उपासना, अज्ञात जाप तथा आत्मतत्त्व चिन्तन का महत्व प्रदर्शित किया गया है। निरन्तर सच्च हृदय से ब्रह्मस्मरण ही एक मात्र जीवनोद्देश्य है, इसी के द्वारा परमनिधान् ब्रह्मपद उपलब्ध होता है।

मध्यकाल में नाथ सम्प्रदाय में दीक्षित व्यक्तियों को जोगी, अव्यवृत्त या रावल कहते थे। सम्प्रदाय की दृष्टि से बहुत सम्भव है इनमें भिन्नता रही हो किन्तु जिम रूप

में ये अधिक परिचित थे वह इनका योगी स्वरूप था। सूरदास ने ऊधो के माध्यम से, अबधू की योग साधना पर सगुण उपासना की प्रतिष्ठा का प्रयास किया है। कवीर के काव्य में भी इन योगियों का परिचय मिलता है। सूफी काव्य में तो इन सिद्ध जोगी और अबधूतों का प्रचुर परिचय है। कहीं ये सूफी इनकी योग साधनाओं से प्रभावित होते हैं और कहीं उनकी और लक्ष्य करके ही रह जाते हैं। जायसी के अनुसार गोरखपंथी सिद्ध गोरख गोरख की रट लगाते थे, ये हाथ में किगरी, कान में कुंडल, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल, कंधे पर व्याघ्रचर्म, पैरो में खड़ाऊं धारण करते थे तथा मेखला, सिंगी, चक्र, धंधारी छत्र और खप्पर रखते थे। इनका वस्त्र लाल या गेरुये रंग का होता था। अधिकांश प्रेमाख्यानों के नायक इसी प्रकार की वेशभूषा से सज्जित होकर योग धारण करके लक्ष्य सिद्धि के लिये प्रस्थान करते हैं।

सूफी प्रेमाख्यानों की पृष्ठभूमि स्वरूप धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, एवं साहित्यिक परिस्थिति ऐसी ही थी। सूफी कवि उदार हृदय के थे, अतः उनके प्रेमाख्यानों में धार्मिक कट्टरता के दर्शन कम होते हैं। तत्कालीन प्रचलित धार्मिक सम्प्रदायों का प्रभाव उन पर स्पष्ट देख पड़ता है। प्रत्येक सूफी प्रेमाख्यान में महेश या शिव की प्रतिष्ठा है। शक्ति पूजा का परिचय भी 'खप्पर' भराने की क्रिया में लक्षित होता है। वैष्णव भक्ति का प्रभाव सूफी प्रेम-पद्धति पर पड़ा था। अहिंसा के वे पक्षपाती थे एवं हृदय की शुद्धि पर कर्मकाण्ड की अपेक्षा अधिक विश्वास करते थे। नाथ पन्थियों का प्रभाव उनकी योग साधना में मिलता है। साधक को शारीरिक कष्ट सहन करने के उपरान्त सिद्धि प्राप्ति होना इन प्रेमाख्यानों में सर्वत्र लक्षित है। जिस रूप में नायक अपने घर से प्रस्थान करता है, वह नाथ पंथी योगियों की ही वेश भूषा है। इन सूफी कवियों के काव्य में विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों का वर्णन मिल जाता है। कासिमशाह एवं अली मुराद ने स्पष्ट रूप से भिन्न प्रकार के योगियों की चर्चा की है। एक बात विशेष रूप से लक्ष्य करने की यह है कि आरम्भिक सूफी काव्य में जिस धार्मिक उदारता के दर्शन होते हैं, उसका क्रमशः वाद के कुछ सूफियों में अभाव है। कवि नूरमुहम्मद ने स्पष्टरूप से अपनी कट्टरता की घोषणा की है जब कि कवि निसार ने शामी कथानक चयन में अपनी इस प्रवृत्ति का परिचय दिया है।

रहन सहन के ढग, उत्सव एवं त्योहारों का वर्णन भी इन प्रेमाख्यानों में बड़ा सजीव है। सामाजिक परम्परायें, पारिवारिक सम्बन्ध, विभिन्न संस्कारों आदि का वर्णन इन प्रेमाख्यानों में प्रचुर है। अली मुराद ने दुर्वारी शिष्टाचारों का भी विशेष ध्यान रक्खा है। समाज में ब्राह्मणों एवं पुरोहितों के विशेष स्थान की चर्चा है। तात्पर्य यह कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं से इन कवियों का पूर्ण सम्पर्क था। साहित्यिक क्षेत्र में इन कवियों को अपभ्रंश की प्रेमाख्यान परम्परा उपलब्ध हुई थी, जिनकी कुछ रूटियों का यथा तथ्य पालन हुआ है; साथ ही नाथ एवं मिथ साहित्य का प्रभाव भी इनके प्रान्त्य, निरंजन एवं सिंहलगट में दीप्त पड़ता है। विग्रह की अनुभूतियों की मार्मिक व्यञ्जना, मदेश प्रेषण की प्राचीन पद्धति भी इनमें सजीव है। साहित्यिक युगों के अनुसार

भक्ति काल के अन्तर्गत आनेवाले सूफी प्रेमाख्यानों, मधुमालती, चित्रावली आदि में, भावात्मक चित्रण अधिक है जब कि रीतिकालीन वातावरण के मध्य पाई जाने वाली जान कवि की रचनाओं में ऐन्द्रियकता अधिक है। प्रेम एवं विलास के चित्रण अधिक सफल हैं। आधुनिक युग की परिधि में आने वाले शेख रहीम के काव्य में शुद्ध प्रेम पर आधारित दया एवं सत्य का अधिक महत्व है। उसमें जाग्रति का शुभ संदेश है, अतः निश्चय पूर्वक यह कहा जा सकता है कि हिन्दी का सूफी साहित्य अपनी समकालीन परिस्थितियों के प्रति पूर्ण जागरूक है। कहीं कहीं परिस्थितियों का उस पर स्पष्ट प्रभाव है और कहीं कहीं यह उनसे पृथक् एक आदर्श की स्थापना भी करता है जैसा कि हमें 'भाषा प्रेमरस' में स्पष्ट देख पड़ता है, यद्यपि उसके कुछे ही आगे पीछे लिखे जानेवाले अंथों, 'सुसुफ जुलेखा' एवं 'प्रेम दर्पण' में यह धार्मिक उदारना अधिक स्पष्ट नहीं है।

सूफियों की लोक-दृष्टि

यह सर्वमान्य है कि सूफियों ने कथाव्याज से अपने प्रेम सिद्धान्त का प्रचार किया है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन्होंने जिस कथा को चुना उसका सम्बन्ध राजपरिवारों से था, जिसमें प्रेमपीडित राजकुमार एवं परम सौन्दर्य की प्रतीक राजकुमारी की प्रेम-वर्चा ही प्रधान है, राजकुमार एवं राजकुमारी के सम्पूर्ण जीवन का दृश्य सम्मुख उपस्थित करने में इन सूफ़ी कवियों को लोकरीति एवं नीति, लोकविश्वास एवं अन्य विश्वास के ऐसे स्थल मिलते रहे जो तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों, विश्वासों और रीतिरिवाजों का सच्चा चित्र उपस्थित करते हैं। सूफ़ी कवियों की लोकदृष्टि इतनी सजग थी कि इन्होंने राजपरिवार के मध्य भी साधारण जीवन की भाँकी देखी है।

भारतीय समाज में सबसे दृढ़ कड़ी ग्राहस्थ्य जीवन है। भारतीय समाज की महत्वपूर्ण इकाई सम्मिलित परिवार है जहाँ व्यक्ति को अनेक सम्बन्ध एक साथ ही सुचारुता से सम्पादित करने पड़ते हैं। हिन्दी के इन सूफ़ी कवियों में भारतीय ग्राहस्थ्य जीवन की भाँकी जिस रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित है वह अत्यन्त स्वाभाविक है। मध्यकालीन योरोपीय रोमांसों में वर्णित 'प्रेम' की भाँति सूफ़ी काव्य के अन्तर्गत वर्णित प्रेम-तत्व वासनात्मक नहीं है। वैवाहिक सम्बन्ध केवल शारीरिक सुख पूर्ति का साधन मात्र नहीं है। उसकी अनिवार्यता एवं उपयोगिता के साथ ही उसकी मर्यादा भी उन्हें मान्य है। हिन्दी के सूफ़ी काव्य में कहीं भी सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध प्रेम की व्यञ्जना नहीं है। किसी भी नायक का सम्बन्ध पर-स्त्री से नहीं होता। प्रेम की दृढता एवं एकनिष्ठता का दर्शन इन काव्यों में प्रखरता से होता है। जहाँ कहीं भी नायक का परिचय अभीष्ट नायिका के अनिरिक्त किसी सुन्दरी से होता है, वह स्वभावानुसार या तो उसे निरस्कृत कर देता है या 'वहिन' कहकर सहानुभूति प्रदर्शित करता एवं आजीवन उस सम्बन्ध की पवित्रता को निवारता है। मञ्जन कृत मधुमालत में मधुकर 'प्रेमा' से वहन कहना है, एवं जान कवि रचित 'पुष्पवरपा' में नायक पुरुषोत्तम ने 'निरमल डे' में वहन कहकर विश्वास प्राप्त किया। लगभग सभी ग्राम्यानों में नायक नायिका के प्रेम का परिष्कृत

स्वरूप ही देखने को मिलना है, जान कवि रचित 'रूपमञ्जरी' में रूपमञ्जरी अनिशय प्रेम के कारण नायक ग्यानसिंध के साथ पितृगृह से भाग आई थी, अन्यथा सभी प्रवन्धों में नायक नायिका का सम्बन्ध विवाह संस्कार सम्पादित हो जाने पर ही होता है। पति की एक से अधिक पत्नियों की भावना प्राचीन है। इन प्रवन्ध काव्यों में भी नायक की दो पत्नियों की चर्चा तो अवश्य मिलती है, किन्तु जान कवि की 'कथाकलावती' में नायक पुरन्दर आठ विवाह कर चुकने के बाद कलावती के लिये व्यग्र हो उठा था। नायक के पिता के वर्णन में अधिकांश उसके अन्तःपुर की चर्चा मुगल वादशाहों के हरम की भांति ही की जाती है।

वहु विवाह प्रथा के होते हुये भी कहीं भी सौतिया डाह, जलन और वैमनस्य की चर्चा अधिक नहीं मिलती। जायसी में अवश्य इसका उल्लेख है। 'इन्द्रावती' में, 'सुन्दर' और 'इन्द्रावती' के जीवन को अत्यन्त आनन्दमय, क्रीडामय प्रदर्शित किया गया है। पति की श्रेष्ठता पत्नियों को सदैव मान्य है। पत्नी अपना पृथक अस्तित्व न रखकर केवल उसी की, या उसी के लिये हो जाना चाहती है। पत्नी की इसी अभिलाषा का उत्कर्ष उन स्थलों पर दृष्टव्य है जहाँ वह अपना अस्तित्व मिटाकर एक स्थल पर उसकी चरण चुम्बित रज और दूसरे स्थल पर अधर चुम्बित प्याला होना चाहती है^१ इन प्रेम प्रवन्धों में गणिका के प्रेम का उल्लेख नहीं के तुल्य आया है। 'इन्द्रावती' की प्रासङ्गिक कथा के अन्तर्गत 'रम्भा' नामक गणिका का उल्लेख हुआ है, किन्तु उसके प्रेम की उच्चता दर्शनीय है, वह राजा हंसराज के उसका प्रेम मागने पर उन्हें भली प्रकार समझाकर, अपनी स्वामिनी 'चन्द्रवदन' की प्रशंसा करती है और राजा से पुरस्कार स्वरूप मोतियों की माला लेकर स्वदेश प्रस्थान करती है। इसमें कहीं भी वासना एवं स्वार्थ की गन्ध नहीं मिलती।

पातिव्रत धर्म, स्त्री सुलभ लजा, शील एवं सती महत्व की चर्चा भी इन प्रवन्धों में अधिक है। सभी दुखान्त प्रवन्ध सती होने की घटना पर समाप्त होते हैं। कवि ऐसे स्थलों पर सती की महानता, निस्पृहता एवं एकनिष्ठता की सराहना करते हैं। नूरमुहम्मद ने सती की एक समाधि का परिचय 'इन्द्रावती' काव्य के अन्तर्गत किया है, जिस पर नायिका इन्द्रावती ने अत्यन्त गम्भीर हृदय से श्रद्धाञ्जलि अर्पित की।

पातिव्रत धर्म के अन्तर्गत कवियों ने प्रेम से पति की सेवा करना, सौनों से ईर्ष्या न करना, स्वयं को दुःख देकर स्वामी को सुखी रखना, स्वामी के लिये उद्धार करना, उसकी

१ यह तन जातों छार के, कहीं कि पवन उड़ाव।

मकु तेहि मारग उडि परै, कंत धरै जहं पाव ॥

पदभागत जायमी।

माटी होऊ छार होय, कयहुं लेइ कोहार।

गढ़े पियाला लं अधर. लारै कंत हमार ॥

नूरमुहम्मद अनुराग वांसुरी।

अनुपस्थिति में शृङ्गार न करना, मन्त्रों-जन्त्रों से पति को वशीभूत करने का उपाय न करना, दूतियों से बचकर रहना तथा पति के अभाव में जीवन त्याग कर देना आदि पातिव्रत धर्म के विभिन्न अंगों का वर्णन किया है १।

लोक लज्जा एवं शील की चर्चा भी इन कवियों ने की है। नारी का सौन्दर्य वास्तव में उसकी सहज लज्जा ही है। स्वामी का प्रिय होना ही सौन्दर्य की कसौटी है २। लज्जा से हीन व्यक्ति पशुतुल्य है, नारियों के लिये लज्जा का अधिक महत्व है। धीरे चलना, जोर से न बोलना, अवगुण्ठन डाले रहना, दृष्टि नीची रखना आदि स्त्री लज्जा के उपाग है ३।

१. औं चित लाइ करव पिउ सेवा, एक पीउ ढोउ जग सुत देवा ।
मंत्र तत्र साधब जनि कोई, सेवा एक पीउ बस होई ।
जो बस होई तो गरब न करिये, आयु अधीन होइ मन हरिये ।

सौत्तिन कर इरषा नहिं करना, साईं संग सदा जिय डरना ।
अल्प मान सेवा अधिक, रिखि राखब जिउ मारि ।
जेहि घर मंह ये तीन गुन, सोइ सोहागिन नारि ॥

उसमान चित्रावली पृ० २२३-२४ ।

दूतों कह संचरे नहिं देखे, औं दूती को सिख न लेई ।

नूरसुहम्मद इन्द्रावती ।

धन सो धन जेहि विरह वियोगू, प्रीतम लागि तजै सुख भोगू ॥
शेखनबी ज्ञानदीप ।

२. नके घर में होइ सत, पति सो हित ठहराइ ।
शाल बिना कवि जान कहि, घर घर रूप विक्राइ ॥
तया

का एहि तनहि सरैहै दारा, जौं न पियहिं बेरे मों डारा ।
मम मूरति को आठर गयऊ, प्रीतम पूजन हार न भयऊ ॥

नूरसुहम्मद अनुराग वासुरी ।

३. लाज नहीं जेहि आगिन माड़ी, हे यह पयु, हे मा ११ नाड़ी ।
वृ घर पहिर लाज यह आड़ी, पयु कह धीमे राग्य चाड़ी ॥
ओ घन ऊर्चा मयठ न बोले, सुनत विराने को मन डोले ।
औं ये नयन लाज मों कीज, औं मुख उपर वृ घट फीज ।
हो प्यारी जय पट्टिहु गहना, परप विराने सो छिप रहना ॥

नूरसुहम्मद इन्द्रावती पृ० ५० ।

नारी का महत्व उसकी सामाजिक जीवन में उपयोगिता का परिचायक है। नारी के सहयोग के बिना गृहस्थ जीवन निराधार है ^१। बिना विवाह संस्कार के पितृभ्रूण से मुक्ति नहीं हो सकती, संसार में अपनी परम्परा बनाये रखने के लिये संतान का होना अनिवार्य है ^२। इस प्रकार मध्यकालीन योरोपीय रोमांस-साहित्य की भांति सूफी साहित्य में नारी की कल्पना केवल विलास या उपभोग के साधनों के रूप में नहीं हुई है, उसके जननी रूप की चर्चा भी यथेष्ट है।

प्रेम के लोक-पद में इन कवियों ने जिन वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक प्रेम सम्बन्धों का वर्णन किया है, वह इस बात की पुष्टि करता है कि इन कवियों ने समाज के द्वारा निर्धारित मर्यादा, नीति एवं आचरण का उल्लंघन नहीं किया है। उसमें प्रेम की स्वच्छन्दता के साथ ही कर्तव्य भावना का भी सामञ्जस्य है।

नारी की सती रूप में, सौन्दर्य-मय परमसन्ना के प्रतिनिधि रूप में, एवं कुलवन्ती और सतवन्ती रूप में प्रतिष्ठा होते हुये भी उसके सामाजिक स्तर में विशेष अन्तर नहीं दिखाई पड़ता। कवि जान नारी जाति को ही अच्छा नहीं समझता क्योंकि इनके कारण पुरुष के सम्मान को डर रहता है। यदि नारी किसी भी प्रकार से अपने 'शील' की रक्षा न करे, तो पुरुष को चाहिये कि उसे ताड़ना देने में शिथिल न रहे ^३।

नारी का शील गृह की सीमा में ही सुरक्षित था। वही नारी कुलवन्ती एवं 'लजवन्ती' है जो घर से बाहर न जाय, घर छोड़ बाहर जाते ही उसकी मर्यादा, शील, लज्जा ऐसे सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। अतः उसे अपने को घर की चहारदीवारी तक ही सीमित रखना चाहिये ^४।

इतना सब होते हुये भी नारियों की क्षमता का प्रदर्शन भी इन प्रेककाव्यों में अच्छा हुआ है। नारी शिक्षा का अधिकार सम्भवतः तब भी उन्हें था और साथ ही बहुत सम्भव

१ तीय बिन घर नाहिन बनै ज्यों मोती बिन सीप।

२. व्याह बिना सतान न होई, मुये नाव न लँहें कोई।

कवि जान . कया छुविसागर

३. भली नहीं मिहरी की जाति, जय तत्र इनसे पानिठ जात।

जो तिय अपने खोवें शील, मारहु ताकि न लावहु डील।

जान कवि . कया छुवि सागर।

४ नारा लजवन्ती जो होई, रहे सलज मन्दिर मा सोई।

नूरसुहम्मद अनुराग वांशुरी पृ० १२५।

तय लग तिरिया नीके अहई, जय लग मन्दिर भीतर रहई।

जय मन्दिर सौं बाहर कटई, कुल की लाज खोय सब नई।

कवि जान।

है कि सहशिक्षा भी उस समय रही हो, क्योंकि नायक नायिका के प्रेम का आरम्भ कई प्रेमाख्यानों में सहपाठी होने के कारण हुआ है। साधारण शिक्षा तक ही स्त्रियों की शिक्षा सीमित न थी, वे पुरुषों के बराबर ही बुद्धि विकास में अग्रसर होती थीं। राजा ज्ञानदीप को रानी देवजानी के प्रति तभी आकर्षण हुआ, जब उसने अपना पाण्डित्य प्रदर्शन किया क्योंकि दो पण्डितों के मिलने से आनन्द उत्पन्न होता है १। उस समय उच्च शिक्षा का मापदंड पिंगल, व्याकरण नाट्यशास्त्र एवं पुराणों का ज्ञान था, इसके अतिरिक्त उन्हें संगीत एवं कवित्व शक्ति के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए थी और शिक्षा के इस स्वरूप से नारी या पुरुष दोनों ही परिचित होते थे। 'रूपमंजरी' एवं 'परघोत्तम' ऐसे नायिका नायक का इस शिक्षा में अच्छा प्रवेश था २। लगभग सभी कवियों ने अपनी नायिका को तो अवश्य ही वेद पुराण में पारंगत प्रदर्शित किया है।

इतना सब होते हुये भी नारी का सम्मान नहीं था। उसे सदैव अपना सीस चरणों पर झुकाये रहना चाहिए था ३। उसकी बुद्धि सदैव तुच्छ और हीन मानी जाती थी ४, नारी स्वभाव से ही तुच्छ बुद्धि वाली होती है, इस भावना की रक्षा इस सत्य के होते हुये भी की जाती थी कि कुछ प्रेम प्रबन्धों में नायिकायें नायक के बुद्धि विलास की परीक्षा कठिन पहेलियों एवं संकेतों के द्वारा करती थीं, जिसका बहुत पहले आभास हमें विद्योत्तमा एवं कालिदास के आख्यानों में मिलता है। कामलता एवं छविसागर दोनों ही नायिकाओं ने नायक की योग्यता की परीक्षा इसी आधार पर करनी चाही थी ५। इसमें अधिकांश

- १ संसकिरत महँ बोलेउ बोला ।
पडित पडित मिलै जो कोई, बहुत सवाद वात कर होई ॥
गेष नवी ज्ञानदीप ।
- २ पिंगल अमर व्याकरन भरथु, सब ग्रथन के भाषतु अरथु ।
पिंगल पुनि व्याकरण वरानै, कवहुँ भारथ अरथ सुख मानै ॥
कवहु नाड भेद प्रगटावहि, कवितनि उतन करहि सुनावहि ॥
जान रूप मजरी ।
- ३ ओहि गज आदर नित हँ रामा, चाहे सीस चरन के ठामा ।
नूरमुहम्मद अनुराग वासुरी ।
- ४ ऋहिसि की भला कहे नर सोई, मेहरिन्ह जगत नेक बधि होई ।
उसमान चित्रावली पृ० २२१ ।
- ५ वनिता इक रतन पटायो, उनि ताके सग और मिलायो ॥
तिया दड मतरंज पटार्, उन चौपर दी सग मिलार् ॥
कुवरि वजाई तर करतार, सुनत भयौ नित्य को पतियार ॥
तय यो कयो सुता मुनि तात, बूझी मेरी सत्र इन वात ॥
रुवि जान तथा कामलता की चापाई ।

नायक अयोग्य सिद्ध हुये। इसके अनिरीकृत विवाह के पश्चात् प्रथम मिलन प्रसंग के अन्तर्गत भी लगभग सभी प्रबन्धों में नायक नायिका का जो वाणी-विलास दिखाया गया है उससे यह सिद्ध होता है कि स्त्री शिक्षा का अभाव न था।

कुमारी कन्याओं की स्थिति भी समाज में बड़ी दयनीय थी। वे अपने विचार व्यक्त करना चाहती थीं किन्तु भय एवं लोक लज्जा उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती थी। विवाह के सम्बन्ध में लगभग सभी प्रबन्धों में नायिका अपनी स्वतन्त्र सम्मति देना चाहती है, अपनी इच्छानुसार ही पति-चयन करना चाहती है, किन्तु ऐसा ठेकी संयोग से ही सम्भव हो पाता है। कवि जान रचित अधिकांश आख्यानों में इस तथ्य का परिचय मिलता है। 'हंस जवाहर' में जवाहिर भी वेमन के नायक से व्याह करने की अपेक्षा मृत्यु श्रेष्ठ समझती है। 'प्रेम रस' में चन्द्रकला, प्रेमा के विरह में व्याकुल है और उसके लिये घर छोड़ने को भी तत्पर है। 'चित्रावली' भी मनचाहे वर को प्राप्त करना चाहती है। रानी 'देवजानी' तो 'ज्ञानदीप' को प्राप्त न कर पाने पर अग्निपुराण में क्रोध पड़ती है। इस स्वतन्त्र भावना का परिचय लगभग प्रत्येक प्रबन्ध में मिलता है, किन्तु उसमें विरोध की नीव्रता नहीं है। कन्या लज्जावश या मातापिता के सम्मान या मर्यादा के लिये इच्छा के प्रतिकूल कार्य होने पर जीवन त्याग की कल्पना करती है^१।

माता पिता पुत्री के इस प्रकार स्वतन्त्र चुनाव को कुलकलंक समझते थे और उसके प्रेम की सूचना पाकर अपयश के भय से या तो उसे महल में बन्द कर देते थे या सम्भवतः किसी किसी अवस्था में प्राण दण्ड भी दे देते थे क्योंकि जवाहिर अपने प्रेम प्रसंग का अन्त इसी रूप में कल्पित करती है^२। कन्या को केवल सुनने का अधिकार था अपना मत प्रकट करने का नहीं^३।

- १ सो छवि सागर व्याह्रि है, करैं युक्तियाँ चारि ।
प्रथम नामी होइ सुनाव, नाम लेत ही जान्यो जाव ॥
दूजौ ऐसो ग्यान विचारे, असमलोह की मूर्ति मारे ॥
तीजै ऐसी करिहै दारि, जातौ गढ़ की पारि पारि ॥
पाछे पूछै कैतक बात, ना समझैं लौं ज्यों ते जात ॥

जान कवि - छवि सागर ।

- २ हौं सौं वारी पिता घर, बोलत बचन लजाऊँ ।
तब मैं बचौं कलक ते, प्राण कांप मर जाऊँ ॥

कामिगशाह हंस जवाहिर पृ० ४२ ।

- ३ पिता जो सुने मार जिउ डारै, माना सुने घोर विष मारै ॥

कामिगशाह हंस जवाहिर पृ० २०६ ।

- ४ कन्या नाव मारि तैं रायें, कान सुनै कहु रसन न भायें ।

कवि जान कथा कवलयती ।

कवि जान ने विवाह सम्बन्धी स्वतन्त्रता के पक्ष में अपनी नायिका से कहलाया भी है। विवाह जीवन में सुखोपभोग के हेतु किया जाता है और जीवन का सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब दो सम स्वभाव वाले व्यक्तियों का मेल हो ^१। साथ ही भारतीय विवाह सूत्र अत्यन्त पवित्र एवं दृढ सम्बन्ध है, वह नित्य नया नहीं बदला जाता। यह गठबन्धन जीवनबन्धन होता है, अतः जब तक अपने समान ही गुण एवं बुद्धिशाली न प्राप्त हो, विवाह संस्कार सम्पन्न नहीं होना चाहिये ^२।

पुत्र के जन्म पर अधिक हर्ष होता है, कन्या के जन्म के साथ ही माता पिता की चिन्ता बढ जाती थी ^३। कन्या के जन्म पर हर्ष-प्रदर्शन का वर्णन नहीं हुआ है। वह रात्रि धन्य समझी जाती थी जिसमें पुत्र का जन्म होता था। माता भी पुत्र जन्म पर हर्षित होती है। धरती स्वर्ग सभी में उल्लास व्याप्त हो जाता है। सोहर एवं वधाई गाई जाती है ^४।

भारतीय हिन्दू जीवन के जन्म से लेकर मरण तक के कुछ संस्कारों का उल्लेख भी इन प्रबन्धों में मिलता है। जन्म होने पर ज्योतिषियों को बुलाकर नामकरण करवाना एवं जन्मपत्र बनवाने के संस्कार के वर्णन में कवि कहीं भी नहीं चूके हैं ^५। उसके बाद छठी के उत्सव एवं रात्रि जागरण का उल्लेख केवल शेखनवी ने किया है। पुत्रोत्पत्ति पर पिता उदार हृदय से दान पुण्य करके उत्सव की शोभा बढ़ाता था। उसके बाद किसी-किसी कवि ने 'विद्यारम्भ' संस्कार का भी वर्णन किया है। इन

१. व्याह कीजिए सुख के कारन, ना आसैं चाहत हम मारन।

तथा

बायस बायस ही वनें पिक सौ कैसी जोर ॥

२. कही यहै निहचय कै जानौं, एक गाँठ सों फेर निमानो।

आप समान न पाऊँ जौलौं, भूल व्याह नहि करिहौं तौलौं ॥

कवि जान : कथा कंवलावती।

३. जबते दुहिता अपनी सतत हिये उतपात।

निकसै काटा तवहि जय आगन आउ बरात।

उसमान चित्रावली पृ० १६६।

४. धनि वह रैन पुत्र की होई, धरती स्वर्ग हुलस सब कोई।

हुलस माय तेहि भये ममाई, भा सुहयल और जान वधाई ॥

कासिमशाह हयजवाहिर पृ० ११।

५. पंडित देश देश के धाये, पोथी काट जनम दरगाये ॥

कासिमशाह हयजवाहिर पृ० १२।

संस्कारों के अतिरिक्त जिस संस्कार का विस्तृत वर्णन मिलता है, वह विवाह है। विवाह के अन्तर्गत लगन वरात, अगवानी, मंडप, भावर, सिन्दूर-दान, कोहवर, कंगन, भोज, दायज, विदा आदि क्रियाओं का विस्तृत उल्लेख मिलता है^१। हंस-जवाहिर के रचयिता कासिम शाह ने कुछ मुसलमानी पद्धतियों का भी वर्णन किया है जैसे वर के यहाँ से कन्या के लिए लगन एवं वस्त्र आना तथा कन्या का माजे में रहना^२। इसके साथ ही कवि ने विवाहसंस्कार की सम्पन्नता काजी से करवाई है। ससुराल का भय कन्याओं को सदैव सताता था। वं ससुराल नाम से ही शंक्ति हो जाती थी; ससुराल ऐसा स्थान है जहाँ न तो परिचित स्थान ही होता है न मायके की सखी सहेलियाँ और न वह स्वच्छन्दता। ससुराल के भयों में सास और ननद प्रधान है। कवि उसमान सास और ननद के कटुव्यवहार को स्वर्ण परीक्षा के लिए संडासी और फुकनी की भाँति आवश्यक समझते हैं^३।

१ व्याह का चरचा जग में छावा, घर घर वाजन लाग बधावा।
तेल पूज के चली वराता

शेख रहीम प्रेमरस ।

लगन घरी राजा जत्र, न्योत फिरा चहुँपास।
राग रग घर घर सवै, दोउ दिशि भयो हुँलास ॥

दोउ दिशि वाजा अनन्ठ बधावा, जत्र राजा घर माडव छावा ॥

कासिम शाह हसजवाडिर पृ० ६७।

२. माडों छाह सरग लइ लावा, एक खम्भ कस माडों छावा।
चाद सुरज तहँ धरा उरेही, उड़गन वदनवार सनेही ॥

वेदी सात सर्ग पर नवी चौदहो भौंति।
धूप धूप नग जोमेऊ, उपजे डत्तिम कान्ति ॥

दुलहिन सिर पै सोहै भौंरी, लोग ठगे जनु साह ठगौरी ॥
दुलहिन करके दीन्ह सिधौरा, बांभन आइ पदा गठ जौरा ॥
मौरि टारि कु वर कर लीन्हा, अति आनन्द सो सेन्दुर दीन्हा ॥

शेखनवी ज्ञानदीप ।

३. दुहिता सोन अगिनि ससुरारा, मासु सडासी क्रन्त सोनारा।
ठै सोहाग सव निसि टिनकेली, औंटे मदन घरी महुँ मेली ॥
ननद नाल फँकत निस रहई, सुलग हिया कोइला जिमि दहई।
घाठ बोल धन छिन छिन रवाई, टाउ न छुट्टे जानि निहाई ॥
तव तिरिया कुन्दन की नाई, मेटे अंक में भरि नग माई ॥

उसमान चित्रावली पृ० २२१।

ससुराल की अनिश्चितता उसके भय का कारण बनती है।^१ मायके की स्वच्छन्दता, सखियों एवं क्रीड़ास्थलों के वियोग का भी दुख कन्या को होता है^२। ससुराल ऐसी भयावह जगह में नवागंतुका वधू का निर्वाह कैसे हो, उसके लिए कुछ गुण अपेक्षित हैं जिनकी चर्चा उसमान ने चित्रावली के अन्तर्गत की है। लज्जाशील रहना चुप रहना, पति सेवा करना आदि ऐसे ही उपाय हैं जिनसे ससुराल में प्रेम सहित निर्वाह हो सकता है। ननद या सास जो कुछ भी कहे उसे सह लेना चाहिए, प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिये^३।

वास्तव में बालिका के गुण एवं अवगुण का पता ससुराल में जाकर ही होता है, क्योंकि वहाँ उसके गुण दोषों की परीक्षा होती है। जो नारी मान नहीं करती, क्रोधित नहीं होती, और सदैव सेवा में तत्पर रहती है वह स्त्री इस संसार में सौभागिनी है^४।

यद्यपि ससुराल के डर बहुत हैं किन्तु जो स्त्री गुणी एवं सती है उसे कोई भय नहीं^५। बालिका जो कुछ गुण मायके में सीख लेती है उसी के अनुसार उसे ससुराल में सुख एवं दुख मिलता है। जो स्त्री पति की आज्ञा का अनुसरण करती है वही दोनों लोकों में यशवती होती है^६। स्वयं को आकर्षक दिखाने के लिये उसे न तो बहुत अधिक बोलना चाहिये और न बिलकुल चुप ही रहना चाहिये। अधिक चिंता में नारी को

१. सुनत नाव ससुरारि को धड़कि उठा मम जीव ।
सास ननद धौं कस मिलै, कैस मिलै धौं पीव ॥
कालिमशाह हसजवाहर पृ० ३६ ।
२. सुनि इन्द्रावति सासुर नाऊं, मन में सोच कीन्ह तेहि ठाऊ ।
कहा जाव निश्चय ससुरारी, नइहर तजव तजव फुलवारी ।
नूरमुहम्मद इन्द्रावती पृ० ५० ।
३. ननदी औघर जौ कहै, रिसि राखव जिय मारि ।
परिछि सास पर लेव नित, सामिन दइ जो गारि ॥
उसमान चित्रावली पृ० २१३ ।
४. अल्प मान, सेवा अधिक, रिसि राखव जिय मारि ।
जेहि धन भहँ ये तीन गुन, सोई सोहागिनि नारि ॥
उसमान चित्रावली पृ० २२१ ।
५. करनी सती छोट बड, सब किडु पृछे जाहि ।
सतवन्ती गुनवन्त पर, डर एकौ कुछ नाहि ॥
नूरमुहम्मद इन्द्रावती पृ० ५८ ।
६. धन गुन सीवे नइहरे सुग्य पाये मसुरार ।
पिय आयासु बस गारि जाँ दुइ जग याँ उजियार ।
कालिमशाह हसजवाहर पृ० १८८ ।

निम्न न रहना चाहिये क्योंकि उससे उमका आकर्षण जाता रहता है और वह वृद्ध जात होती है^१। विवाहोपरान्त विदा होती हुई कन्या एवं उसके परिवार के रोने का चित्र, विदा होती हुई नारी-विवशता से उत्पन्न करुण वातावरण की सृष्टि इन कवियों ने बड़े स्वाभाविक ढंग से की है। कवि उसमान अपनी चित्रावली में इस ओर विशेष रूप से सफल हुये है। इसी प्रकार नूरमुहम्मद ने भी विदा का वर्णन किया है^२।

गार्हस्थ्य जीवन के अनेक उत्तरदायित्वों के साथ कुछ ऐसे भी क्षण हैं जहाँ जीवन का उल्लास, निश्चिंतता एवं राग पुंजीभूत हो जाते हैं। सामाजिक उत्सवों, त्योहारों एवं पर्वों में ऐसे ही आन्दोलन के दर्शन होते हैं। भारतीय जीवन का सबसे रंगीन त्योहार होलिका दहन है, उसका वर्णन भी इन प्रवन्धों में होता है। होली की चाचर में बूढ़े बच्चे का भेदभाव लुप्त हो जाता है सभी रंग और अवीर की धूम मचा देते हैं^३। डफ और मिरदंग बजाते हुये उनकी भूमने और रंग डालने की क्रिया का बड़ा स्वाभाविक चित्रमय विवरण किया गया है। इसके अतिरिक्त जिन त्योहारों का उल्लेख आलोच्य सूफी साहित्य में मिलता है उसमें हरतालिका व्रत या साधारण वोली में 'तीज' का अधिक उल्लेख है। इस व्रत का महत्व ही मनोवाञ्छित पति प्राप्ति में है और कवि ने भी इसकी संयोजना ऐसे ही स्थलों पर की है^४। शिवरात्रि का उल्लेख भी अधिक

१. भलो न बहुतै सुप ह्यै रहना, भलो न बहुतै भाखित कहना ।
एक कहा चिन्त भल नाहीं, तरुनी चिन्ता से विरधाहीं ।
इन्द्रावती पृ० ५५ ।

२. रानी सुनि धिय गौन विचारा, विसुधि गिरी भुइ खाई पछारा ।
पिउ वरियार विवस लै जाई, हम देखहिं पै कछु न बसाई ।
चित्रावलि तजि जननि कै छाती, पिता के पाउँ परी त्रिलखाती ।
राजै पुनि उठाइ गिंव लाई, नैन नीर पुत्री अन्हवाई ।
पिता कंठ धिय गाहि रही, छोहन छाँड़ि न जाय ।
ज्यों ज्यों जननि छोडावइ, त्यों त्यों गाहि लपटाइ ।
उसमान 'चित्रावली' पृ० २२४ ।

चित्रसेन बहु दायज दीन्हा, आसू ढारि विदा तव दीन्हा ।
उसमान चित्रावली ।

३. आगमपुर कविलास मस्कारा, फागुन आइ आनन्द पसारा ।
एक दिस पुरुष एक दिस गोरी, हिलमिल गावहिं चाचर जोरी ।
डंफ बजावहिं औ मिरदंगू, पिचकारिन मो भरइ सुरंगू ।
धन के ऊपर डारहिं नाहा, धन डारीह पुरुष उपराहा ।
रंग अवीर भरा सव कोई, जो जहाँ रहा भरा तहाँ मोई ।
नूरमुहम्मद इन्द्रावती पृ० ३४ ।

४. इन्द्रावति मन प्रेम पिथारा, पहुचा आइ तीज तेउहारा ।
नूरमुहम्मद इन्द्रावती पृ० ६ ।

हुआ है। दिवाली पर्व का विस्तृत वर्णन नहीं मिलता है किन्तु बारहमासों के अन्तर्गत दीपावली की दीप ज्योति एवं द्यूत क्रिया की चर्चा हुई है।

भारतीय सामाजिक जीवन में विभिन्न शक्तियों के प्रतीक देवी देवताओं की पूजा एवं कर्मकारण का कितना महत्व है, इस पर अधिक लिखना आवश्यक नहीं। मनुष्य अभीष्ट प्राप्ति में तनिक भी शंका होने पर देवाश्रय ग्रहण करता है। उसके इस स्वभाव का परिचय भी ये कवि गिरीश पूजन, लिंग पूजन एवं सती सीता के पूजन व्यापार में देते हैं।^१

कासिमशाह ने अपने हंसजवाहिर में प्रसिद्ध तान्त्रिक पीठ नीलाचल पर स्थित कामाख्या देवी के मन्दिर का परिचय दिया है। इसी प्रकार ज्ञानदीप, में हिंगलाज का उल्लेख हुआ है। अन्य देवताओं की अपेक्षा इन सूफी कवियों ने अपने प्रबन्धों में शंकर उमा उपासना का अत्यधिक परिचय दिया है, केवल एक प्रबन्ध 'कुंवरावत' में सती सीता की पूजा का उल्लेख है और कवि अलीमुराद स्थल-स्थल पर राम या रघुवीर की दोहाई देते हैं। हुसेन अली ने अपनी रचना पुहुषावती में चतुर्भुज (विष्णु) की पूजा का उल्लेख किया है। स्फुट काव्य में कृष्ण की उपासना की चर्चा अधिक है।

दिशाशूलों पर भी सम्भवतः उस समय आस्था थी। क्योंकि हंसजवाहर का कवि नायक के स्वदेश प्रस्थान पर इसकी चर्चा करता है कि सोमवार और शनिश्चर को पूर्व की ओर प्रस्थान हीन है, बृहस्पतिवार को दक्खिन की ओर नहीं चलना चाहिए। और यदि इस पर भी किसी का जाना अनिवार्य ही है तो वह बुध को दही बृहस्पति को गुड़ रविवार को पान खाकर प्रस्थान कर सकता है^२।

व्याह की तिथि निश्चित करने के पूर्व, पुत्र जन्म के पश्चात् फलित ज्योतिष एवं नारी के शुभ अशुभ लक्षण ज्ञात करने में भी उसकी सहायता ली जाती थी।

उस समय अनेक प्रकार के साधु सन्यासी, जोगी जती थे। उन सभी के वारे में तत्वज्ञान सम्पन्नता का प्रमाण नहीं दिया जा सकता था। स्वभाव से जोगी न होने वाले व्यक्तियों का दुष्प्रभाव समाज पर पड़ता था। कुमारी वालिकाओं को लोग जोगी दर्शन से विरत रखते थे। जिन साधु सन्यासियों का वर्णन हुआ है, उनमें ऊर्धवाहु,

१ जाह गिरीस मडप मह पूजा, बहुत कीन्ह सग कीन्ह न दूजा।

नरमुहम्मद इन्द्रावती।

२. सोम शनिश्चर पृथक् हीना, वेकै उयन मो श्रीगुन चीन्हा।

बुध दधि श्री वेफ गुट मीठा, रवि ताम्बूल गाय सुख दीठा ॥

कासिमशाह हंसजवाहिर पृ० १६६।

जबधारी, जलमग्न रहने वाले, तपस्वी, दरडी, औषध, कनफटा, सेउरा, यती, दूधाधारी, शरकटा, ब्रह्मवार, पंचाग्नि तप करने वाले, सूफी, कवीरपन्थी आदि प्रमुख हैं^१। इन सभी कन्याधारियों को वास्तव में योगी नहीं कहा जा सकता था^२। कभी कभी इनकी वासना का दुष्प्रभाव समाज पर पड़ता था। इसका कारण तुलसीदास जी की पंक्ति 'मूढ़ मुद्दाय भये सन्यासी' से स्पष्ट हो जाता है। अधिकांश व्यक्ति उत्तरदायित्वों से बचकर सन्यास धारण कर लेते थे। उनका मानसिक भुकाव उस विरक्तिपूर्ण जीवन की ओर नहीं था, इसलिए गुरुजन कुमारी बालिकाओं को योगियों के सम्पर्क में आने से बचाते थे^३।

तत्कालीन भारतीय लोक जीवन की भूत, प्रेत, अप्सरा, दानव आश्चर्यजनक पशु एवं पक्षियों के भयानक चमत्कार पर भी आस्था थी। जानकवि के प्रेमाख्यानों और प्रमुख रूप से रतनावनी में ऐसे आश्चर्य नत्वों का उल्लेख प्रचुरता से मिलता है। जड़ पदार्थों का भा मानवीकरण और मनुष्य से वार्तालाप इनमें वर्णित है। लगभग सभी प्रवन्धों में समुद्र का मानवीकरण प्रदर्शित किया गया है। 'प्रेमरस' में जिस दैत्य कथा की संयोजना है उसकी प्रत्येक घटना अब तक कहीं जाने वाली लोक कथाओं में मिलती है। नन्दन गणना, फलित ज्योतिष, विभिन्न चक्र (योगिनी चक्र) स्वर ज्ञान, दिशाशूल एवं शकुनों पर आस्था आज की भाति उस समय भी थी। 'ज्ञानदीप' राजा जब अपने सैन्य के साथ रानी देवजांनी के नगर की ओर चला तो उसके मार्ग में शकुनों की झड़ी लग गई। शकुन उसी के मार्ग में होते हैं जिसकी यात्रा सफल होने की होती है। राजा ज्ञानदीप के मार्ग में दाहिने ओर कौये का बोलना, घोबी का परोहन लेकर आना, दाहिनी ओर मृग का आना, मालिन का फूल लेकर आना, वंशी ध्वनि सुनना, जेमकरी और लोमा का देखना, दही, मछली की पुकार सुनना, आदि उसकी सफलता

१. जहाँ लौ मठ मडप वह ठाऊ, उठ धाये सुन योगी नाऊँ ।
महा महत जो नाथ गोसाईं, तोहि सग सय योगी जह तोई ॥
उरधवाह नाना जबधारी, पूरी गिरी जलवास तिवारी ॥
जगदंडी औषध कनफटा, सेवरायती विरही शरकटा ॥
ब्रह्मवार सेउरा सन्यासी, पाच अगन निर्जला अकासी ॥

दूधाधारी सगमी, सूफी दरश कवीर ।
भये सहाय योगिन के आय मंहीपति तीर ।

कासिमशाह . हस जवाहरं पृ० १५५ ।

२. कन्या मो योगी सब नाहीं, ठग ह्य बहुत न चीन्है जाहीं ।

नूरमुहम्मद इन्द्रावती ।

३. हमि तै वारी बिना बियाही, योगी देवें तोहि न चाही ।

नूरमुहम्मद इन्द्रावती पृ० १५५ ।

के निश्चित लक्षण थे^१ । 'कथा कामरूप की' में जब कुंवर ने कामकला के देश जाने की आज्ञा अपनी माता से मागी तो उसने दही का टीका लगाकर कुंवर को विदा किया^२ ।

जादू टोना मंत्र जंत्र आदि पर भी साधारण लोगों का विश्वास था । इन्द्रावती कथा में लोभ नारी ने कीर्तिराय पर टोना कर दिया था । आसाम की मन्त्र जन्त्र एवं टोना सम्बन्धी ख्याति सर्वविदित थी क्योंकि कावरू टोना की चर्चा भी अनुराग बाँसुरी में हुई है । राजकुंवर के आगमपुर प्रस्थान पर रानी सुन्दरी का 'केहि सुनार हथफेरा कीन्हा' इस बात की पुष्टि करता है कि उस समय ऐसा प्रसंग किसी प्रकार से नया नहीं था । हंसजवाहर में जवाहिर को वहकाकर साथ ले जाने के लिए दूती मंत्र से युक्त कुछ पान लाई थी । शेखनवी ने 'ज्ञानदीप' के अन्तर्गत इसका स्पष्ट उल्लेख किया है । सुरज्ञानी अपने मंत्र बल से ज्ञानदीप को एक जादू के घोड़े पर बैठाकर आकाश मार्ग से अन्तःपुर में ले आती है साथ ही निश्चयपूर्वक कहती है कि वह मोहन, जोहन, वसीकरण, विरह तवान एवं उचाट मंत्र जानती है ।^३ अपने इसी मंत्र बल पर विश्वास करके वह देवजानी को रात्रि में अभिसारिका का रूप धारण कराके राजा ज्ञानदीप के पास ले गई थी । इससे एक तथ्य और स्पष्ट होता है कि कुमारिकायें अधिकांश सुन्दर योगियों की ओर आकर्षित होती थीं, चित्रावली में सागर राजा की पुत्री कवलावती भी योगी सुजान के रूप पर मोहित हो गई थी ।

आकाशवाणी पर भी सरलता से विश्वास किया जाता था ऐसी आश्चर्यजनक और चमत्कारिक घटनाओं पर बुद्धि के कारण अविश्वास नहीं किया जाता था । इन्द्रावती में राजकुंवर को ऐसी ही आकाशवाणी मंदिर में रानी इन्द्रावती के निवास स्थान का

१. दहिने कामा सवरिया बोला जबहि मिलै धन होइ निडोला ।
रजक परोहन भारे आवा, दहिने ओर मिरग देखरावा ॥
भीलनि आई फूल कर दीन्हा, वशी बजाई काहु सुर लीन्हा ॥
नीला खेमकरी दिखराइ, लोभा नाचत दिग मा आई ।
दहिउ अहीरिन लेहु पुकारी, धीमर आई मच्छ लेइ मारी ॥
आये दिसि बोला पनिहारा, तरुनी सीस कलस जलभरा ।
बाभन तिलक दुआदस कीन्हें, सिद्ध सिख मुख आमिख दीन्हें ॥

चली सगुन शुभ देखि कै, सुर ज्ञानी यहसाइ ।

भावत मिलिहें ऐ नवी, निजु विधि भेरइहि आनि ॥

शेखनवी ज्ञानदीप ।

२. बिलक के सुन्दर ने तय कही, लिआवो कुंवर के सगुन का दही ।
दही लेके माता ने टेका दीन्हा, सगुन से कुंवर को विदा तय कीन्हा ।

कथाकामरूप की

३. मोहन जोहन वसीकरण, विरह तवान उचाट ।
पाच वान मनसिज के, जेहि तन ज्ञान जे काट ॥

शेखनवी ज्ञानदीप ।

प्रेत करते हुये सुनाई दी थी। लोक जीवन में पनघट और पनिहारियों का स्थान जीवन में उल्लास का सूचक है, इसकी चर्चा लोकगीतों एवं काव्य दोनों ही में बराबर होती रही है। कवि जान एवं नूरमुहम्मद ने भी इसका बड़ा आकर्षक वर्णन किया है। मनतारा तालाब पर चन्द्रमुखी नारियों का सदैव जमघट लगा रहता है, वहाँ पर सुन्दरी नारियों की सहज ही परख सम्भव है^१।

कवि जान पनघट का वर्णन भाव एवं काव्यकलापूर्ण करते हैं। नगर में कुएँ एवं बावलियाँ बहुत हैं, जिन पर नारियाँ पानी भरने आती हैं। उनका शृङ्गार एवं चालढाल दर्शनीय है। इसके साथ ही जब वे भरे घड़े सिर या कमर पर रखकर चलती हैं तो प्रतीत होता है कि वे भी इसी प्रकार पानिपु भरी हैं, जिस प्रकार गगरी जलभरी है। पनघट पर जल भरने आने वाली नारियाँ चतुर एवं सुजान हैं।^२

इन कवियों ने अपने काव्य में कुछ मनोरञ्जन के साधनों की चर्चा भी की है। सङ्गीत से मनोविनोद करने के साथ ही उच्चवर्ग में शतरञ्ज, चौपड़, चौगान आदि बड़े प्रिय खेल थे। इनके अतिरिक्त कुछ पहेलियों और पुष्प रचना ऐसे खेलों की भी चर्चा है। इन्द्रावती में कवि नूरमुहम्मद ने ऐसे ही एक खेल का परिचय दिया है जिसमें बीस फूलों के नाम लिखकर उन्हें भिन्न रूप चक्रों में विभाजित किया गया है^३। राजकन्याओं

१ जो देखे चाहस भल नारी, मनतारा पर जाहु भिखारी।

ससि बदनी पनिहारिनि आवैं, परगट आपन रूप दिखावैं।

नूरमुहम्मद इन्द्रावती पृ० ३१।

२. अत्रित नीर भरे बहु कूप, पोखर पुड़कर लगहि अनूप।

बहुत बावढी सुधा समाना, नीर भरै तिय चतुर सुजाना।

लागौ रहत रैन दिन पनघट, देखि ताहि बाढ़त है मनघट।

नारि चारि पानिहि को आवाहि, बार बार सिंगार सुहावाहि।

भरि गागरि जल घर को धावहि, नैन सैन यह वात लखावाहि।

जैसे ये गागर भरी, बहु पानी इन माहि।

तैसे हम पानिपु भरी, कन्ता समुक्त नाहि ॥

कवि जान कथा पुहुपवरिया।

३ बहुत मीस भा गेदा, हित मेदान। हाल करत है भारत लट चौगान ॥

नूरमुहम्मद अनुराग वासुरी पृ० १०४।

ले आई शतरज धन, चतुराई के हाथ।

जो हार्ल तो नाह की, जो जीतौ तो नाथ ॥

कामिमशाह हंमजवाहर पृ० १०५।

एक दिन दोऊ रानी ज्ञानी, बैठि रहीं आनन्द ममाना ॥

फूल खेल महँ भूली, घरी एक मय काय।

बहुत परी अचरज भो, कैसे बूमें सोय ॥

नूरमुहम्मद इन्द्रावती (उत्तरार्ध)।

का देवपूजन एवं जलक्रीड़ा के हेतु प्रस्थान भी उनके मनोविनोद के ही साधन हैं। इसी प्रकार घमारी खेल का भी उल्लेख बहुत हुआ है।

स्त्रियों की शृङ्गारप्रियता एवं आभूषणप्रियता का उल्लेख भी आलोच्य काल में प्रचुरता से हुआ है। उनके केश विन्यास एवं नख से शिख तक की सजा, आभूषणों का वर्णन, सोलह शृङ्गार, इत्यादि का वर्णन मिलता है किन्तु कहीं भी पृथक रूप से आभूषणों के लिये स्त्रियों की अतिशय लालसा का चित्रण नहीं हुआ है।

प्रत्येक भारतीय प्रारब्ध, भाग्य एवं कर्मरेखा पर विश्वास करता है। संसार की प्रत्येक घटना को वह भगवान या भाग्य से नियंत्रित समझता है। अपने व्यक्तित्व पर भरोसा तो होता ही है, किन्तु वह परमात्मा के नियंत्रण पर सर्वाधिक विश्वास करता है, उसके सम्मुख उसकी आत्म निर्भरता कुछ नहीं। दैनिक जीवन का यह दार्शनिक पक्ष, इन काव्यों में सर्वत्र उपलब्ध है। 'इस जीवन का रत्नक वही है, जो इसका दाता है, अंतः केवल कार्य संलग्नता मानव जीवन का व्ये' है^१। 'मनुष्य के भाग्य में जो कुछ वह विधाता लिख देता है, वही होता है, जन्मपत्र का लिखा हुआ असत्य नहीं हो सकता। भाग्य बली है^२।'।

कुछ लोक प्रचलित कहावतों का प्रयोग भी इन कवियों ने किया है, जैसे 'वातहिं हाथी पाइये, वातहिं हाथी पाव', 'मारु न छीरभात मों लाता', 'दिवस चार की चाँदनी, फिर अधियारा पाख', 'पट बाहर जेइ पाय पसारा, जाबा कठिन अन्त तेहि मारा', आदि।

इन कवियों ने उस समय स्थित विभिन्न जातियों का वर्णन किया है जिनका आधार विभिन्न पेशे थे। लगभग सभी कवियों ने छत्तीस जातियों का वर्णन किया है जिनमें विप्र, वणिक, सोनार, पटवा आदि का उल्लेख प्रमुख है। जात होता है कि उस समय जाति भेद कर्मभेद हो गया था। इस प्रकार समाज छिन्न-भिन्न होता चला जाता था। अलवेरुनी भी अपने समय की जानियों का ठीक वर्णन इसी कारण नहीं कर सका था।

१. हस कहा रञ्जक है सोई, जाकर सिरजा है सब कोई।

कासिमशाह हसजवाहिर।

२. लिरजा जो है करता को, सोई होय। जन्म पत्र को आछर जात न धोय ॥

नूरमुहम्मद अनुराग वासुरी पृ० १२८।

३. बटे लोग छर्चासी जाती, जो तेहि भाति मो तेहि तेहि पाती।

कासिमशाह हसजवाहिर पृ० ८४।

छत्तीस जाति की नारियों की विविधता एवं उनकी विशेषताओं का उल्लेख इन चरित काव्यों में मिलता है^१ ।

बहुत सम्भव है कि विविधता के कारण इन जातियों में इष्ण्या एवं वड़े-छोटे की भावना उत्पन्न हो चली हो, तभी कवि नूरमुहम्मद को उनमें प्रेम स्थापित करने के लिये उपासना या स्मरण की प्रतिष्ठा करनी पड़ी । किसी उच्च कुल में उत्पन्न होने से किसी को गर्व नहीं करना चाहिये । वास्तव में उच्च जाति का व्यक्ति बड़ा नहीं होना । बड़ा वह होता है जो प्रभु स्मरण एवं उपासना करता है^२ । उपासना का क्षेत्र सब जातियों के लिये उन्मुक्त है ।

जाति विषयक सामाजिक विशृङ्खलता के अतिरिक्त सम्भवतः रोटी का प्रश्न उस समय भी जटिल था । तुलसीदास का रोटी के लिये 'बारे ते ललात विललात' प्रसिद्ध ही है । जब तक रोटियों का प्रश्न सरल रहता है मनुष्य में शील रहता है । भूखे पेट से विनय की रक्षा विरले ही कर पाते हैं । ऐसे गाढे समय की चर्चा नूरमुहम्मद ने भी की है । इस संसार में विग्रह, अन्न, रोटी या पेट के कारण ही होता है । 'यहाँ अग्नि और पानी के विग्रह की चर्चा कौन करे ? यहाँ तो पानी-पानी से भी भेद है, सगे भाइयों में नहीं पटती है^३ ।' ऐसे ही समय में माता-पिता से बालक का विग्रह हो जाता है । ध्यान देने की बात यह है कि इस गाढे समय, या रोटी के प्रश्न ने ही सर्वप्रथम सम्मिलित परिवार की भारतीय भावना को ठेस पहुँचाई^४ । जीवन की इस विषमता को समझने वाले कवि

१. जह लो नारि छत्तीसो जाती, चद विवान आई रंगराती ।
चली मान सो ब्राह्मन थारी, बनियाइन नाइन पटहारी ।
बली सोनारिन कंचन बरनी, रजपूती खतरिन मनहरनी ।
लौनी तन हलवाइन चली, अधर मिठाइ धाटल चली ॥
नूरमुहम्मद . इन्द्रावती पृ० ५३ ।

२. कुल विशेष उत्तम नहीं, सुमिरे उत्तम होय ।
उत्तम जात भये सों, गरय न राखे कोय ॥
नूरमुहम्मद . इन्द्रावती पृ० ७५ ।

३. जल पावक विग्रह को कहई, नीर नीर सो विग्रह अइई ।
है ऐसो ममुआइ गाढ़ी, भाई धरे बन्धु की डाढी ।
उहा मित्र रावन औ रामू, इहा राम लछिमन सगरामू ।
उहा मिलाय इहा विद्धराइ, औषड उहा इहा है घाऊ ॥
नूरमुहम्मद इन्द्रावती (उचरार्थ)

४. माता पिता सुत जिउ सो पालै, करै पियार मया सब कालैं ।
जय यह पुत्र सयाना होई, निसरि जात अग्या सों सोई ॥
नूरमुहम्मद इन्द्रावती (उचरार्थ) ।

नूरमुहम्मद ने माता-पिता और सन्तान के सम्बन्ध को भारतीय दृष्टिकोण से समझते हुये नीतिविषयक बातें लिखी है। माता-पिता की महत्ता सिद्ध की गई है और उसके प्रमाण के लिये कर्त्ता की दुहाई दी है। माता-पिता के साथ भलाई करना प्रत्येक पुत्र का कर्त्तव्य है, उनकी वृद्धावस्था में उन्हें आराम देना तथा उनकी भावनाओं को चोट न पहुँचाना सुपुत्र का लक्षण है। केवल एक बात में ही उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया जा सकता है, वह है जब आज्ञा परमात्मा के मार्ग पर चलने में विरोध करी हो^१। उनके इस भाव का कितना अधिक साम्य तुलसी की पंक्ति 'तजिये ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही' से है।

माता-पिता की महिमा अपार है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने से पुत्र को मुक्ति प्राप्त नहीं होती^२।

माता-पिता और संतान का सम्बन्ध अनोखा है। जब तक माता-पिता जीवित रहते हैं, सन्तान छोटी है उसकी सारी चिन्ताएँ माता-पिता की चिन्ताएँ हैं, वे अपने हृदय के टुकड़े को हृदय के रक्त से ही पोषित करते हैं। बच्चे की पीड़ा पर माता की व्यथा का वर्णन कासिमशाह ने अत्यन्त मर्मस्पर्शी किया है। बालक के पैर में लगा हुआ काटा माता-पिता को उनके स्वयं आँख में लगे हुये काटे के समान दुखद होता है^३।

इसके अतिरिक्त गृह पुरोहित के सम्मान में भी कवियों की उक्तियाँ हैं। 'पुरोहिती' कहकर यह कार्य उस समय हीन नहीं समझा जाता था। पुरोहित परिवार का सबसे बड़ा हित् था^४।

१. मात पिता संग करहु भलाई, करता की आज्ञा अस आई।
जो अपने आगे बिधाई, उन्हें बात उन्ह भाखहु नाहीं।
और न कीजै उन्हें निरासू, उन नित माग सरग सुख बासू।
एक बात मों कहा न कीजै, सुनि यह बात चित्त सौं लीजै।
जो तेहि कहै कि जगत मझारी, पगु ब्रह्म दूसर करतारी ॥

नूरमुहम्मद इन्द्रावती पृ० १३६।

२. जो पितु मातु मया जस गाऊँ हारे रसना अन्त न पाउँ।
जहाँ रहौ तहँ सुमिरौँ नाउँ, आयसु मेटि तहाँ में जाउँ।
मात पिता पन रेनु देहु दग जोति।
दोज मन को रुकै, मुझ न होति ॥

नूरमुहम्मद अनुराग वासुरी पृ० १२३।

३. जरा जिउ माता को, और पिता को प्रान।
बालक पगु को काटा मात पिता अखियान ॥

कासिमशाह हसजवाहिर।

४. पण्डित जन दुख खण्डित होई, पण्डित चाह न ग्यानी कोई ॥

नूरमुहम्मद इन्द्रावती (उत्तरार्ध)।

तू प्रोहत है मेरा करो कछु जतन।

कथा कामरूप।

सूफी प्रेमाख्यानों में लोकगीतों के स्वरूपों का भी उल्लेख मिलता है, जन्मोत्सव पर 'मोहले गान' व्याह पर 'सोहाग' गान की प्रचुर चर्चा है, इसके अतिरिक्त विभिन्न उत्सवों पर गाये जाने वाले होरी, चाचर, भूमक एवं मनोरा गीतों की भी चर्चा मिलती है।

जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण देखकर यह निश्चित हो जाता है कि सामाजिक जीवन का सजीव चित्र सूफी काव्य में मिलता है। व्यक्तिगत जीवन के अतिरिक्त नारियों का समाज में स्थान, उनकी शिक्षा, पुत्र के कर्तव्य, विभिन्न संस्कार एवं त्योहारों का वर्णन भी इन प्रबन्धों की विशेषता है। उपासना के दृष्टिकोण से मानवमात्र की सामाजिक जीवन में समता, जो उस समय की बड़ी विशेषता है, का परिचय भी इन प्रबन्धों में प्राप्त होता है। अतः सूफी कवियों की लोक-दृष्टि की जागरूकता के सम्बन्ध में शंका का कोई स्थान नहीं है।

सूफियों की प्रबन्ध कल्पना

साहित्य एवं इतिहास में मध्ययुग के नाम से अभिहित किये जाने वाले काल में आख्यान काव्यों का प्रणयन बहुतायत से हुआ। भारतवर्ष में ही नहीं, वरन् अन्य योरोपीय देशों में भी ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी के आस पास आख्यान काव्यों की रचना प्रचुरता से हो रही थी। फ्रांस एवं इंग्लैण्ड में ऐसे काव्यों को 'रोमास' कहा गया। उस समय रोमास का तात्पर्य प्रादेशिक भाषाओं में लिखे गये कुतूहलपूर्ण आख्यान से था। ऐसे आख्यानों की गणना आरम्भ में साधारण कोटि के अन्तर्गत आती थी किन्तु कालान्तर में इसकी अपनी एक परम्परा ही बन गई^१।

प्रारम्भिक रोमास में शालेमन और उसके दरबारी पीरों की कहानिया वर्णित मिलती हैं। तदुपरान्त ग्रीस, रोम, ट्रोजन के वीरों के कुतूहल पूर्ण आख्यान एवं इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध राजा आर्थर और उसके नाइट्स से सम्बन्धित काल्पनिक एवं ऐतिहासिक आख्यान प्राप्त होते हैं। इन आरम्भिक रोमांटिक काव्यों में ऐतिहासिक एवं पौराणिक वीरों के-वीरत्व-व्यजक कार्यों का वर्णन ही अधिक है। प्रेम की चर्चा लगभग सभी 'रोमास' काव्यों में होती रही है, किन्तु उसके महत्व में अन्तर होता रहा है। इन आरम्भिक रोमांटिक काव्यों में प्रेम का स्थान गौण है। समय के साथ इन काव्यों की रूप रेखा बदलती गई। मध्यकालीन प्रबन्धों पर ओविड द्वारा वर्णित प्रेम-स्वरूप का प्रभाव अधिक है, धीरे धीरे

१. The word 'Romance' simply means a poem or a story written in one of the vernacular romance language instead of 'Latin' and so by implication less serious and learned but in time it acquired the sense that indicates the essential quality of these works—their love for the marvellous.

प्रबन्ध काव्यों में आरम्भिक वीरत्व की भावना का स्थान गौण एवं प्रेम का प्राधान्य ही चला । वीरगाथायें शनैः शनैः प्रेम गाथाओं में परिणत होने लगी १।

फ्रांस और इंग्लैंड के इन मध्यकालीन प्रेमाख्यानों के कई प्रकार पाये जाते हैं । वीरत्वपूर्ण आख्यान, (हीरोइक रोमास) ऐतिहासिक वीरों की गाथायें, धार्मिक महाकाव्य, कथा रूपक, ग्रामीण आख्यान (पास्टोरल रोमास) एवं दुखास रोमास ऐसे ही आख्यान प्रकारों के नाम हैं ।

मध्यकालीन रोमांचिक महाकाव्यों (रोमांटिक एपिक्स) में प्राचीन वीरों की गाथाओं एवं प्रेमाख्यानों की प्रेम चर्चा का मिश्रित रूप प्राप्त होता है । 'मैडनेस आफ रोला' में रोला के प्रेम एवं वीरतापूर्ण कार्यों का ही वर्णन है ।

धार्मिक महाकाव्यों में मिल्टन का 'पेराडाइज लास्ट एंड पेराडाइज रीगेन्ड' प्रसिद्ध है । पूरा काव्य ईसाई धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं से पूर्ण है । ऐसे काव्यों में आस्था का प्रमुख स्थान रहता है ।

कथा रूपकों में 'रोमास आफ रोज' एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है । गुलाब का फूल नायिका या नारीत्व का प्रतीक है । नायिका ही नायक के जीवन में आशा एवं निराशा उत्पन्न करती है । इस काव्य की सारी घटनायें नायिका के हृदय में ही घटित होती हैं । इस काव्य के सारे पात्र एव प्राकृतिक चित्र प्रतीकात्मक हैं । किले के बाहर बहने वाली सरिना जीवन का प्रतीक है, आगे चलकर वही राजदरवार के सामाजिक जीवन एवं युवक के मस्तिष्क का प्रतीक बन जाती है । गुलाब का फूल ग्रामीण युवती के रूप का प्रतिनिधित्व करता है । 'रोमास आफ रोज' में नारी एवं पुरुष की आभ्यन्तरिक भावनाओं का रूपात्मक चित्रण उपलब्ध होता है । इस काव्य का रंगमंच वास्तव प्रकृति न होकर, स्वप्न में प्रेमी प्रेमिका के हृदय में गतिशील भाव व्यापार है २।

- १ The Medieval French Romances dealt with three topics fighting, love and marvels As the years passed on, as the medieval world became more sophisticated, fighting became less and less important and love and marvels more and more

The Classical Traditions, P. 59

By Heighet.

२. 'It is the tale of a difficult, prolonged but ultimately successful love affair, told from the man's point of view. The hero is the lover, the heroine the Rose The characters are mainly abstractions hypnotized moral and emotional qualities such as the Rose's guardians, slander, jealousy, fear, shame and offended pride The entire poem takes place in a garden and the climax is the capture of a tower followed by the lover's contact with the imprisoned Rose.'

The Classical traditions, P. 63

By Heighet

‘पास्टोरल रोमास’ या ग्रामीण प्रेमकथानों में ग्वालों के जीवन की पृष्ठभूमि में प्रेम की नाना अन्तरदशाओं का वर्णन उपलब्ध होता है। प्रेमी एवं प्रेमिका को वियोग की लम्बी अवधि अवश्य सहनी पड़ती है, किन्तु अन्त सुखान्त ही होता है। कथानक की गति में छोटी अवान्तर घटनायें पाई जाती हैं तथा एक कहानी के अन्दर छोटी छोटी कई कहा निया निहित रहती है।

दुःखान्त रोमास में ‘प्रिमस’ और ‘थिसवी’ सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ‘नाइटिंगेल’ और ‘स्वालो-पक्षी’ की मर्यान्तक वाणी ‘फिलमिला’ एवं ‘प्रासने’ दो बहनों की दुःखपूर्ण कहानी है। ‘फिलमिला’ पर ‘प्रासने’ का पति थेरियस बलात्कार करता है। ‘थेरियस’ उसकी जवान काटकर उसे बन्दी बना देता है किन्तु फिलमिला एक कपडे पर अपनी दर्द भरी कहानी काढकर प्रासने के पास भेज देती है। प्रासने और फिलमिला दोनों मिलकर ‘थेरिस’ को उसके पुत्रों का मास खिलाती हैं, अन्त में दोनों दुःखान्तिरेक में जीवन त्याग कर ‘नाइटिंगेल’ एवं ‘स्वालो’ के रूप में परिवर्तित हो अपनी दुःखपूर्ण कहानी गाया करती हैं।

मध्यकालीन पाश्चात्य प्रेमकथाओं के प्रकारों की चर्चा के पश्चात् उसके वातावरण विषय एवं स्वरूप पर भी किञ्चित् ध्यान देना आवश्यक है। लगभग इन सभी काव्य प्रकारों में आश्चर्य तत्व एवं परा-प्राकृतिक घटनाओं की प्रधानता रहती है। उस समय ग्रीस एवं रोम में प्रचलित जन साधारण के दैवी शक्तियों पर विश्वास का प्रभाव इन कथाओं में अद्भुत वातावरण की सृष्टि में सहायक होता था, जादूगरों के असाधारण कार्य, अस्तरायें एवं अद्भुत शक्ति सम्पन्न शिरस्त्राण आदि की चर्चा इन काव्यों में रहती है। लगभग सभी काव्यों के कथानक एक से रहते हैं, जैसे कठिनाई में फँसी हुई नारी का उद्धार, देव और दानव के अत्याचार, जगलों पहाड़ों और किलों की पृष्ठभूमि, अखाड़ों में वीरों के शस्त्र कला प्रदर्शन द्वारा किसी नारी (Lady of the love) को आकर्षित करने का प्रयास आदि सभी बातें ऐसे काव्यों में पाई जाती हैं। तात्पर्य यह कि इन अँग्रेजी एवं फ्रेंच भाषा में लिखे गये प्रेम प्रवन्धों एवं महाकाव्यों में परा-प्राकृतिक तत्वों की प्रधानता एवं काव्यप्रणयन की एक वैधी हुई शैली पाई जाती है ^१।

1. An essential part of epic is the supernatural, which gives the heroic deeds their spiritual background. We find that in the epics on the contrary, subjects Greek Roman mythology provides practically all the supernatural elements, on the other hand, in the Romantic epics, most of the supernatural element is provided by medieval fantasies, magic, sorceress enchanted objects, masks helmets and sword

मध्यकालीन योरोपीय प्रेमप्रवन्धों में वर्णित रूपकात्मक प्रेम को, अधिकांश आधुनिक पाठक जो काव्य में व्यक्त वाच्य अर्थ को ग्रहण करना है, समझ नहीं पाता । इन प्रेमकाव्यों में वर्णित प्रेम अधिकांश मध्यकालीन दरवारी प्रेम (Courtly Love) का प्रतीक है । इस प्रेम-स्वरूप में विनम्रता, शिष्टता, वासना एवं प्रेम के एकान्तिक स्वरूप की प्राप्ति होती है । नायक नायिका की, जो उसके प्रेम प्रतीक है, तुच्छाति-तुच्छ इच्छा पूर्ति के हेतु, कठिन से कठिन कार्य करने को सन्नद्ध रहता है । अपनी प्रेम-पात्र नारी के व्यक्तित्व और इच्छाओं के सम्मुख नत रहना ही विनम्रता एवं शिष्टता है । अधिकांश प्रेम के वासनात्मक होने के कारण उसका अन्त भी निराशाजनक एवं दुःखपूर्ण होता है । इस युग में प्रेम और विवाह दो पृथक वस्तुयें हैं । वैवाहिक सम्बन्ध स्वच्छन्द प्रेम में बाधक नहीं माना जाता है । विवाह के पश्चात् प्रेम का सारा आकर्षण समाप्त होकर प्रेमी नवीन पात्र की खोज में पुनः तत्पर हो जाता है । वास्तव में विवाह एक क्षणिक बंधन था जो तनिक से आघात पर ही छिन्न-भिन्न हो सकता था । यही कारण है कि प्रेम-व्यंजना साधारणतः वासना जनित प्रेम की परिचायक है ।

धीरे-धीरे प्रेम-भावना का परिमार्जन हुआ और हमें 'डान क्विक जोट' में वासनात्मक प्रेम की अपेक्षा उसके आदर्श, शुद्ध, सात्विक एवं निस्वार्थ-स्वरूप के दर्शन होते हैं । तात्पर्य यह कि प्रेम का वासनाजनित परस्त्रीगमन का रूप एवं आदर्शात्मक शुद्ध सात्विक प्रेम, दोनों की ही उपलब्धि इन काव्यों में होती है ।

इस प्रकार निश्चित यह होता है कि फ्रांस एवं इंग्लैण्ड या अन्य योरोपीय देशों में प्रेम कथाओं का प्रणयन अधिकांश मध्ययुग में ही हुआ ।

Their action would be set in a mystry arena where the realities of life were as much ignored as in our Christmas pantomiens The characters, plots and machinery of these stories, the distressed damsel, the sage enchanter, the wicked and gigantic oppressor who is so easily knocked on the head as soon as the hero stands up to him and the castles, forests and tournament lists which form the security or as like one another as stage room and street.

Romance & Legend of Chivalry P 13

By Moncrieff

- 1 Marriage had ncthing to do with love and no nonsense' about marriage was tolerated All matches were matches of interest and worse still of an interest that was continually charging. Any idealization of sexual love in a society where marriage is purely utilitarian must begin by being an idealization of adultery.

The Allegory of Lov P. 13

By Lewis,

भारत की प्रेमाख्यान परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। ऋग्वेद में यम यमी, पुरुखा उर्वशी, अहिल्या आदि की प्रेम कहानियों में इसके बीज प्राप्त होते हैं। उपनिषद् काल में ऋग्वेद की ऋचाओं का स्पष्टीकरण प्रेम कहानियों के रूप में हुआ। संस्कृत के ललित साहित्य में कुमारसम्भव, मेघदूत, कादम्बरी, अभिज्ञान शाकुन्तल आदि प्रमुख प्रेमाख्यानों की उपलब्धि होती है। अपभ्रंश कालीन जैन चरित काव्य एवं बौद्ध साहित्य की जातक एवं अवदान कथाओं के द्वारा नीति एवं धर्म के उपदेश देने की प्रथा भी प्रचलित हुई। हिन्दी में ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी से लेकर बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक प्रेमाख्यानों का प्रणयन हुआ। वीरगाथाकालीन रासो साहित्य भी प्रेमाख्यानों का एक स्वरूप ही है। इसके अतिरिक्त सिद्धान्त प्रणयन के हेतु लिखे गये सूफ़ी प्रेमाख्यान एवं शुद्ध प्रेम व्यञ्जना के तात्पर्य से लिखे गये 'ढोलामारु रा दूहा' उपलब्ध हैं। हिन्दी साहित्य के आदिकाल से लेकर आधुनिक काल के प्रारम्भ तक प्रेमाख्यानों का प्रणयन अबाधगति से होता रहा जिनकी रूपरेखा और उद्देश्य तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक वातावरण के अनुरूप बदलता गया।

प्रबन्ध काव्य एवं मसनवी रचना :

लक्षणग्रन्थों में प्रबन्ध-काव्य की दो बातों का विस्तार के साथ विचार किया गया है। एक है उसका वर्ण-विषय और दूसरा उसका संघटन। प्रबन्ध-काव्य की रचना सर्गबद्ध होती है। कथा की सर्गबद्धता वर्णन सुगमता की जननी है, जबकि फारसी की मसनवी शैली, जिसका प्रचुर प्रभाव सूफ़ी प्रेमाख्यानों पर है, में सर्गों का विधान नहीं होता। उसमें कथा क्रमशः चलती रहती है, बीच-बीच में प्रसंगों के अनुसार शीर्षक बाँध दिये जाते हैं। सर्गों के न होने से यदि कवि एक स्थान से दूसरे स्थान के वर्णन में प्रवृत्त होना चाहता है तो कोई मध्यस्थ पात्र अवश्य होता है जैसे तोता या परी आदि। प्रबन्ध काव्य में आठ सर्गों की योजना काव्य शास्त्री मानते हैं किन्तु ऐसा कोई नियम मसनवी रचना शैली में नहीं है। एक सर्ग में एक ही छन्द का प्रयोग समीचीन है। अन्तिम परिवर्तित छन्द, कथा प्रवाह के मोड़ का सूचक होता है। वाक्य रचना के दृष्टिकोण से मसनवी में पूरा वाक्य होता है तथा उसकी दोनों अर्धालियों समान अन्त्यानुप्रास रखती हैं। साधारणतः इसमें छन्द परिवर्तन नहीं होता। सूफ़ियों ने अपने प्रेमाख्यानों में अधिकांश दोहे चौपाड़े का ही क्रम रखा है। इन कवियों का चौपाड़े को द्विपदी मानना भी इनकी मसनवी पद्धति के अनुकूल पडना था क्योंकि मसनवी दो चरण का एक छन्द है।

प्रबन्ध काव्य में कवि अपनी बहुजना प्रदर्शनार्थ किसी एक सर्ग में विविध छन्दों की योजना कर सकता है, किन्तु मसनवी काव्य शैली में ऐसा कोई नियम न होने के कारण सूफ़ी कवियों के काव्य में कहीं भी छन्दों की विविधता दृष्टिगोचर नहीं होती। प्रबन्ध काव्य में कथा की घटनाओं को वैचित्र्यपूर्ण रखने का वैसा प्रयत्न नहीं होता जैसा उसकी क्रमबद्धता बनाये रखने का, जबकि सूफ़ी प्रेमाख्यानों में घटनाओं की विचित्रता एवं चमत्कार की सृष्टि का भी विशेष ध्यान रखा गया है। घटना और वर्णन का सम्यक् योग

रमणीयता उत्पन्न करता है। सूफी प्रेमाख्यानों में यद्यपि इस रमणीयता का अभाव नहीं है, फिर भी कहीं-कहीं मसनवी काव्य की वर्णनात्मकता से प्रभावित होकर कवि वस्तु गणना, औपधि-चर्चा, भोज-वर्णन ऐसे अतिवर्णन में संलग्न हो जाता है कि विरक्ति होने लगती है।

प्रबन्ध काव्य की कथा ऐतिहासिक या पौराणिक होनी चाहिये, कल्पित कथा के द्वारा रसोद्रेक उस कोटि का नहीं हो पाता जिस कोटि का प्रख्यात वृत्त द्वारा होता है। हमी कारण काल्पनिक कथानक को अधिक प्रश्रय नहीं दिया गया, किन्तु मसनवी काव्य में ऐसा कोई बन्धन नहीं। यही कारण है कि सूफी प्रेमाख्यानों के कथानक अधिकांश काल्पनिक हैं, यद्यपि ऐतिहासिक और पौराणिक आख्यानों का अभाव नहीं है।

प्रबन्ध काव्य के सङ्घटन पर विचार करते हुये यह भी कहा गया है कि ग्रंथारम्भ में मङ्गलाचरण होना चाहिये। रूढियों के सहारे मसनवी काव्य शैली में भी कुछ नियम पाये जाते हैं जैसे प्रारम्भ में ईश्वर, पैगम्बर, पैगम्बर के मित्र, कवि के गुरु, शाहेवक्त की प्रशंसा एवं आत्मपरिचय होना आवश्यक है।

मसनवी काव्य शैली में प्रबन्ध काव्य की भांति रस-योजना की ओर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि प्रमुखतः मसनवी शैली वर्णनात्मक है, किन्तु सूफी प्रेमाख्यानों पर भारतीय रस-योजना का प्रचुर प्रभाव पड़ा है।

प्रबन्ध काव्य का नामकरण, घटनाविशेष या पात्रविशेष के आधार पर होता है। सूफी प्रेमाख्यानों में लगभग सभी का नामकरण नायिका (रत्नावती, चित्रावली, मधुमालत आदि), नायक (कथा कामरूप, कथा ज्ञानदीप) या नायक नायिका (हंम जवाहिर) दोनों के नाम पर हुआ है।

इसके अतिरिक्त संध्या, सूर्य, चन्द्र, रात्रि, प्रदोष, अधकार, दिन, प्रातःकाल, मध्याह्न, आखेट, पर्वत, ऋतु, वन, समुद्र, सम्भोग, वियोग, स्वर्ग, नगर, मुनि, संग्राम, यात्रा, विवाह, पुत्र, अभ्युदय आदि का वर्णन भी इन प्रेमाख्यानों में प्रबन्ध काव्यों की भांति ही होता है।

कथानक :

सूफी प्रेमाख्यानों में किनी राजकुमार और राजकुमारी का प्रेम वर्णित रहता है और साथ ही कवि इन कथानकों के द्वारा सूफी सिद्धान्तों का प्रसार भी करना चाहता है। यही कारण है कि एक ओर जहाँ ये कहानियाँ प्रेमाख्यानों की कोटि में आती हैं वहीं दूसरी ओर इनमें अध्यात्मिक अर्थ की भी गूढ व्यञ्जना होती है। इसी कारण इन कथाओं को उपमिति कथा कहना अधिक समीचीन होगा।

कथानक की घटनाओं का स्थूल रूप से इस प्रकार उल्लेख हो सकता है, नायक या नायिका के माता-पिता का परिचय, उनका सन्तानाभाव, उपचार, सन्तानोत्पत्ति, ज्योतिषियों की भविष्यवाणी, यथासमय प्रेम का प्रादुर्भाव, प्रयत्न, प्रयत्न में सहायक तोता, परी, गुरु या अदृश्य सन्त ख्वाजा खिज्र तथा नायक के मित्र गण, नायिका का परिचय, नखशिख चर्चा, प्रेम का प्रभाव, नायक के प्रयत्न में तीव्रता, नायिका की उत्सुकता, विरोध या विघ्न, नायक की विजय, पाणिग्रहण आदि, कुछ कथाओं में मिलन के पश्चात् का सुखमय जीवन अथवा नायक का निधन एवं नायिका का सती होना भी दिखाया गया है।

वास्तव में ये प्रेमाख्यान मानव जीवन के पूर्णदृश्य हैं अतः इनमें घटनाओं की सम्बद्ध शृङ्खला एवं स्वाभाविक क्रम के ठीक-ठीक निर्वाह के साथ हृदयस्पर्शी रसात्मक स्थलों का सन्निवेश भी कवि को अभीष्ट है। घटनाओं का संकुचित उल्लेख मात्र तो कथानक का इतिवृत्त होता है और उस घटना के फलस्वरूप किन भावनाओं को उत्तेजना प्राप्त होती है, उसका प्रभावपूर्ण वर्णन रसात्मकता के अन्तर्गत आता है। भाव के लिये परिस्थिति की अनुरूपता आवश्यक है। जिन भावात्मक स्थलों के प्रभाव से सम्पूर्ण कथा में रसात्मकता आती है वे भावात्मक स्थल कथाप्रवाह के मध्य आते हैं। घटनाओं का स्थूल विवरण ऊपर हो चुका है। भावात्मक स्थल भी इन प्रेमाख्यानों में प्रचुर हैं, जैसे मातृग्रह में कुमारियों की स्वच्छन्द क्रीड़ा, नायक के प्रस्थान पर उसकी माँ एवं पत्नी का शोक, प्रेम मार्ग की दुरुहता, नायक की कष्टप्राप्ति, नायक के प्रति नायिका की सहानुभूति, नायक नायिका संयोग, पूर्व पत्नी की विरहावस्था, वियोग सन्देश, पुनरागमन, दूतियों से सतीत्व की रक्षा, प्रतिद्वन्दी मर्दन, सती होने के दृश्य आदि ऐसे ही स्थल हैं जो लगभग सभी कथाओं में मिलते हैं। ऐसे स्थलों पर कवि की लेखनी अधिक भावुक एवं सहानुभूतिपूर्ण हो गई है। विभिन्न रसों की स्वाभाविक व्यञ्जना इन्हीं स्थलों पर हुई है। रसात्मक स्थलों के अतिरिक्त कथा के इतिवृत्त का सम्बन्ध निर्वाह भी अच्छा है। कहीं भी कथा प्रवाह खण्डित नहीं है यद्यपि कुछ कवियों की विवरणप्रियता उन्हें कई स्थलों पर विस्तृत वर्णन करने को विवश कर देती है किन्तु ऐसे स्थल सभी प्रेमाख्यानों में अधिक नहीं हैं।

आधिकारिक या प्रमुख कथा के साथ-ही-साथ कई अन्य कथाओं की संयोजना भी इन प्रेम प्रवन्धों की विशेषता है। किसी-किसी प्रेमाख्यान में नायक की भाति नायक के मित्र की प्रेम कहानी भी चलती रहती है। नायक के संयोग के पश्चात् उसके मित्र को भी प्रिय प्राप्ति हो जाती है की जैसे 'मधुमालत' में। कहीं-कहीं नायक पूर्व पत्नी एवं प्रेयसी के अनिरीक्त एक अन्य सुन्दरी की कथा भी चलती है जो नायक को प्रेम करती है किन्तु नायक विमुख रहना है, अन्त में नायक ने उसका पाणिग्रहण हो जाता है जैसे चित्रावली में। 'कथा नूरजहाँ' में कथा एक त्रिकोण का मा स्वरूप ले लेती है। खुरशेद, नूरजहाँ पर आसक्त है और गुलबोस खुरशेद पर, अतः द्विविध प्रयत्न आरम्भ होना है और अन्त में तीनों का संयोग हो जाना है।

आलोचक 'कर' ने प्रबन्ध के अन्नर्गत कई काव्य-रूपों को लिया है जैसे प्रेमाख्यान, इतिहास एवं कथायें जिनका स्वरूप दुखान्त, सुखान्त, हास्यमय एवं ग्रामीण हो सकता है।

साथ ही लेखक का विचार है कि महाकाव्य में कवि का ध्यान जहाँ व्यक्ति प्रधान होता है, वहीं दुखान्त काव्य में घटना संयोजना या कथानक पर ध्यान अधिक होता है। सूफी प्रेमाख्यानों के रचयिताओं का ध्यान व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताओं के दिग्दर्शन की ओर उतना अधिक नहीं गया, जितना घटना संयोजना की ओर।

घटनाप्रधान प्रबन्ध काव्यों का एक कार्य होता है जिसके लिये संपूर्ण घटनाओं की संयोजना होती है। घटनाओं की इसी नारतम्यता को 'कार्यान्वय' कहते हैं। कार्यान्वय के अंतर्गत कथा के तीन भाग आदि, मध्य एवं अन्त का स्पष्ट होना आवश्यक है। इन प्रेम प्रबन्धों के भी ये तीनों भाग स्पष्ट होते हैं, जिनका स्थूल रूप से विभाजन इस प्रकार हो सकता है- १. नायक द्वारा नायिका की रूपगुण की चर्चा सुनकर गृहत्याग करने तक, कथा का आदि। २. मार्ग के कष्ट एवं बाधाएँ पार करके अन्त में प्रियप्राप्ति, कथा का मध्य। ३. देश पुनरागमन एवं जीवनान्त, कथा का अन्त होता है। इन तीनों भागों की घटनायें आगे होने वाले कार्य की ओर उन्मुख होती हैं।

जिस कार्य की स्थापना का प्रयास प्रबन्ध काव्य में हो, उसे महान् एवं महत्वपूर्ण होना चाहिये जैसे 'रामचरितमानस में रावण वध' नैतिक, सामाजिक या मार्मिक प्रभाव की दृष्टि से कार्य का महत्वपूर्ण होना आवश्यक है, यद्यपि आधुनिक पाश्चात्य-काव्य-मर्मज्ञ यह आवश्यक नहीं मानते हैं। इन प्रेमाख्यानों में घटित होने वाला कार्य भी महत्वपूर्ण है। सुखान्त कथाओं में माता-पिता की सेवा, राज्यशासन में दक्षता आदि का परिचय देते

1. Epic Poetry is one of the complex and comprehensive kinds of Literature, in which most of other kinds may be included. Romance, history, comedy, tragical, comial, historical, pastoral are terms not sufficiently various to denote the variety of the Illiad and odyssey.

Epic And Romance p 16.
W, P Ker

2. The success of epic poetry depends on the auther's power of imagi ning and representing characters Aristotle in his discussion of tragedy chose to lay stress upon the plot, the story, on the other hand to complete the paradox, in the epic he makes the charactets a'l important not the story.

Epic and Romance p. 171.
By W P. Ker

हुये नायक का जीवन-यापन लोकदृष्टि से महत्वपूर्ण है, और दुखान्त कथाओं में नायिका का सती होना सामाजिक एवं नैतिक दोनों दृष्टियों से श्लाघनीय है।

सूफी प्रेम प्रबन्धों का वस्तु-विन्यास, दृश्य-काव्य की भौति घटना प्रधान है अतः नाटकीय कथावस्तु की भौति इन प्रेम प्रबन्धों की कथावस्तु को भी प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम इन पांच भागों में विभाजित कर सकते हैं।

कथा के प्रारम्भ के अन्तर्गत लगभग सभी प्रेमाख्यानों में नायक को अपने माता पिता की एक मात्र तप, त्याग एवं दान के फलस्वरूप प्राप्त हुई संतान चित्रित किया गया है। वहीं पर कवि 'होनहार विरवान के होत चीकने पात' के अनुसार नायक का अल्पकाल में विद्याप्राप्ति एवं ज्योतिषियों द्वारा उसके भविष्य की सूचना दे देता है। इन विवरणों को हम कथानक की भूमिका कह सकते हैं।

इस भूमिका के पश्चात् कवि नायक के हृदय में प्रेम भावना के उद्भव के लिये नायिका के नायक द्वारा चित्रदर्शन, गुणश्रवण, स्वप्नदर्शन एवं साक्षात् दर्शन की योजना करता है। स्वप्नदर्शन के लिये किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं किन्तु चित्रदर्शन, गुणश्रवण एवं साक्षात् दर्शन का कारण कभी तो अप्सरायें या तोता या अन्य कोई प्रज्ञा-सम्पन्न पक्षी या व्यक्ति हुआ करता है। चित्रावली में एक देव नायक को उड़ा ले गया था। मधुमालत में अप्सरायें साक्षात् दर्शन में सहायक थीं। अनुराग बौसुरी में अन्तःकरण के मित्र ने सर्वमंगला की रूपगुण चर्चा की थी। नायिका के गुण का परिचय पाकर उसकी प्राप्ति का दृढ निश्चय करके नायक प्रयत्न में संलग्न हो जाता है। यूसुफ जुलेखा एवं प्रेम-दर्पण आख्यान को छोड़कर सभी में यह प्रयत्न नायक की ओर से होता है, उपर्युक्त दोनों ही प्रेमाख्यानों में नायिका जुलेखा, यूसुफ की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील है। कथा के प्रारम्भ में वही यूसुफ के सौन्दर्य का स्वप्न देखती है। साधारणतः ऐसे प्रयत्नों में विदेश की यात्रा, मार्ग में वीहड़ वन, भयंकर तूफानी समुद्र, पर्वतों एवं खोहों की चर्चा आती है। ऐसे ही प्रयत्नों के बीच देवों, अप्सरा रूपी राक्षसियों, भयंकर पशु एवं पक्षियों की योजना आश्चर्य एवं कुतूहल वृद्धि के लिये होती है। अध्यात्मिक पक्ष में यही प्रेम मार्ग की वाधायें हैं। कभी कभी ये आश्चर्य-तत्व या परा-प्राकृतिक-शक्तियों नायक पर कृपालु भी हो जाती हैं। वैसे नायक अपने साथ गुरु या उसका आदेश लेकर ही प्रेम मार्ग पर अग्रसर होता है, अतः इन वाधाओं के रहते हुये भी उसका मार्ग अवरोध नहीं होता।

अपने इस प्रयत्न के पश्चात् जब नायक नायिका के नगर, उपवन या किसी देवस्थान में पहुँच जाता है तो प्राप्त्याशा होने लगती है। संयोगवश प्रिय के दर्शन पाकर उसका पुनः विछोह हो जाता है। तब तक यदि प्रिय या नायिका के हृदय में नायक के लिये प्रेम भावना नहीं हो चुकी होती है, तो उद्भूत हो जाती है और वह भी नायक के वियोग में व्यथित रहने लगती है। उधर दूसरी ओर नायक साक्षात् दर्शन पाकर विरह सहने में असमर्थ हो प्रयत्न में द्विगुणित उत्साह एवं संलग्नता में तत्पर हो जाता है। राजाजा, राजकोप एवं प्राप्ति की दुःसहता, आकस्मिक दुर्घटना आदि के कारण संयोग होना दुर्लभ प्रतीत होता है। कथानक की इसी अवस्था को 'नियताप्ति' कहते हैं।

नायक का प्रयत्न निरन्तर प्रखर होता जाता है। ऐसी अवस्था में कभी तो नायक के शौर्य के फलस्वरूप, कभी दैवी शक्तियों की अनुकूलता के कारण कथा प्रवाह पुनः फल की ओर उन्मुख होकर अग्रसर होता है। नायक नायिका का मिलन होकर कथा फलागम पर समाप्त हो जाती है; किन्तु अधिकांश सूफ़ी प्रेमाख्यानों में मिलन ही फलागम नहीं होता। कथा का जीवनांत में शान्तिपूर्ण अवसान ही इन कथाओं में अधिकांश उपलब्ध होता है। यह आधिकारिक कथावस्तु के संगठन का विश्लेषण है। इसके अतिरिक्त प्रासंगिक कथाओं का समावेश इन सूफ़ी प्रवन्धों में मिलता है। इन कथाओं एवं घटनाओं का समावेश मूल कथानक की गति-वृद्धि के हेतु ही किया गया है, कहीं कहीं किसी भाव विशेष की उत्कृष्टता सिद्ध करने के किये भी इन कथाओं का समावेश किया गया है, जैसे 'प्रेम रस' के अन्तर्गत सम्पूर्ण 'थूसुफ जुलेखा' उपाख्यान का विस्तृत वर्णन केवल प्रेम भावना की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिये हुआ है। मधुमालत में मधुकर एवं मालती के प्रेम प्रसंग के साथ, प्रेमा एवं ताराचन्द्र का प्रेमाख्यान भी चलता है जिसे इन प्रासंगिक कथा न कहकर सहकारी कथावस्तु कह सकते हैं। इन आधिकारिक एवं प्रासंगिक कथाओं का गुम्फन अत्यन्त सफलता से हुआ है, किसी भी ऐसी घटना का वर्णन कवियों ने नहीं किया जिसका सम्बन्ध कथा प्रवाह से न हो। इस प्रकार इन घटनाओं के सफल संगुम्फन के द्वारा एक ओर जहाँ कवि विपद भावों की व्यञ्जना करता है, वहीं दूसरी ओर उसकी कथा को भी गति मिलती है। यही कथासंगठन की निपुणता है।

इन प्रवन्धों के स्वरूप, उद्देश्य, कथावस्तु एवं उसके संगठन पर विचार कर लेने के पश्चात् थोड़ा सा उनमें चित्रित देश-काल, परिस्थिति आदि पर दृष्टि-निक्षेप अनावश्यक न होगा।

देश, काल एवं परिस्थिति :

इन सूफ़ी प्रवन्धों की प्रमुख विशेषता है कि इनका रचयिता आत्मपरिचय देना नहीं भूलता। यद्यपि कवि अपनी काव्य रचना के समय का निर्देश कर देता है, फिर भी वह जिस कथा की चर्चा करता है उसका कवि समय से सामञ्जस्य नहीं होता। देश एवं काल की परिस्थितियों के चित्रण की ओर कवि का ध्यान नहीं होता वह परम्परागत, रूढिवद्ध घटना व्यापारों की योजना करके अपनी कथावस्तु का संगठन करता है किन्तु फिर भी उनमें यथास्थान प्रचलित भारतीय व्रत उत्सव एवं संस्कारों का उल्लेख रहता है। कासिमशाह ने 'हंसजवाहर' में चीन एवं बलख देशों में अपनी कथा को घटित किया है किन्तु कहीं भी इन देशों के सामाजिक रहन सहन, सांस्कृतिक प्रथाओं एवं परिस्थितियों का चित्रण नहीं मिलता। हंस एवं जवाहर के नामकरण के अतिरिक्त उनकी यह व्यवस्था, सामाजिक रहन सहन एवं रीतिरिवाज सभी भारतीय हैं। जहाँ कहीं भी मिहल का वर्णन आया है, वहाँ भी कवि मिहल नामक देश के किसी पृथक समाज एवं संस्कृति का चित्रण नहीं करता। महामहोपाध्याय गौरीशंकर शीगचन्द्र शोभा ने एक बार मिहल नामक स्थान की योजना राजस्थान के अन्नगर्त की थी। कहा नहीं जा सकता यह क्यों तक सत्य है और क्यों

सम्बन्ध सुन्दरी स्त्रियों से कैसे है। इन सभी कवियों ने सिंहल की सुन्दरी स्त्रियों का वखान किया है। केवल कवि 'जान' 'कामरूप' को यह महत्व देते हैं, चिसके साथ ही उसकी स्थानीय विशेषता 'कॉवरू टोना' की भी चर्चा करते हैं।

राजदरवारों के सांस्कृतिक चित्रण में अवश्य कविगण सफल हैं। प्रत्येक राजदरवार में चित्रकार, संगीतज्ञ, गुप्तार एवं ज्योतिषियों का होना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक प्रेमाख्यान में राज घराने में निर्द्वन्द्व प्रवेश पाने वाली मालिन का महत्वपूर्ण स्थान था। मध्ययुगीन प्रेम-चर्चा के इस स्वरूप का कवि ने सफल चित्रण किया है।

नायक एवं प्रतिनायक :

इन प्रेमाख्यानों के नायक, रूप गुण सम्पन्न राजन्य वर्ग के हैं। लगभग प्रत्येक नायक अपने माता पिता की एक मात्र संतान है, और अतिशीघ्र ही राजोचित गुणों एवं अन्य विद्याओं को सीख लेता है। कथाओं में नायकों को लगभग एक से ही गुणों से विभूषित एवं एक ही परिस्थितियों का सामना करते दिखाया गया है, अतः उनकी चारित्रिक विशेषताओं का परिचय नहीं मिलता। नायक का 'प्रेमी स्वरूप' ही अधिक निखरा हुआ दृष्टिगोचर होता है। केवल जानकवि ने अपने एक नायक 'पुरोषत्तम' के परोपकारी स्वप का विशेष रूप से चित्रण किया है।

सभी कहानियों में प्रतिनायकों की योजना नहीं है, किन्तु जहाँ कहीं भी प्रतिनायक की योजना हुई है, वहाँ या तो वह नायिका प्राप्ति में बाधक है, या स्वयं नायिका का अपहरण करना चाहता है। इसके अतिरिक्त उसकी चारित्रिक दुष्टताओं एवं नीचताओं का विस्तृत वर्णन नहीं है। प्रतिनायकों की दृष्टि से अवश्य 'कथाछीता' में अलाउद्दीन एवं 'भाया प्रेमरस' में सम्राट अविद का चरित्र अपनी विशेषता रखता है। 'कथा छीता' में अलाउद्दीन छीता को अपहृत करता है, किन्तु उसके प्रेम का परिचय पाकर उसे राजा राम के साथ पुत्रीवत् विदा कर देता है। इसी प्रकार सम्राट अविद, 'चन्द्रकला' को प्राप्त करने के लिए आक्रमण कर प्रेमसेन का जीवनापहरण करता है, किन्तु उसके रूप सौन्दर्य को देखकर विरक्त हो जाता है। जानकवि एवं शेख रहीम की यह मौलिकता सराहनीय है।

अन्य विशेषताएँ :

(प्रेम, स्वरूप, चमत्कारिक तत्व, एवं सांस्कृतिक चित्रण आदिक)

सूफ़ी प्रेमाख्यानों में, राजकुमारों एवं राजकुमारियों की प्रेमकहानी ही वर्णित रहती है। इस प्रकार जिन प्रेम का वर्णन कवि चाहता है उसका सम्बन्ध स्वाभाविक रूप से राजपरिवार में ही जाना है, किन्तु सूफ़ी प्रेमाख्यानों में वर्णित प्रेम प्रायः चातुर्य प्रेमाख्यानों की भाँति दरवारी प्रेम नहीं है। इन सभी प्रेमाख्यानों में प्रेम को मानव न मानकर, साधन रूप

में चित्रित किया गया है। प्रेम के द्वारा ईश्वर प्राप्ति के सिद्धान्त का निरूपण इन प्रेमाख्यानों का उद्देश्य है।

पाश्चात्य प्रेमाख्यानों में वर्णित प्रेम वासनात्मक है, उसमें प्रेम के आदर्श स्वरूप का चित्रण नहीं जो अपना सब कुछ भुलाकर केवल प्रिय का ही अस्तित्व चाहता है। पाश्चात्य 'कोर्टलव' दरवारी प्रेम का अर्थ ही वासनात्मक एवं परस्त्रीगमन था।

पाश्चात्य दरवारी प्रेम (Courtly Love) में वैवाहिक सम्बन्ध का नैतिकता मान्य नहीं थी। प्रेम का प्रतिफल विवाह ही हो, यह भावना भी उनमें न थी। वैवाहिक सम्बन्ध उस कोमल तन्तु के सदृश था जिसका विच्छेद किञ्चित भ्रष्टके से हो सकता था, इधर भारतीय कवि प्रेम एवं विवाह का अनिवार्य सम्बन्ध मानते रहे। विवाह संस्कार भारतीय संस्कृति का दृढ स्तम्भ है जिसकी स्थिरता केवल इसी जीवन तक नहीं, परलोक में भी है। भारतीय नारी जन्मजन्मान्तर में एक ही पति को प्राप्त करना चाहती है। मंगलन में 'मधुमालत' में प्रेम के इस पावन स्वरूप का चित्रण कथा के आरम्भ में ही किया है। पाश्चात्य नायिका का चित्रण, एक कठोर शासक के रूप में हुआ है जो विभिन्न प्रनिद्वन्दियों के द्वन्द्व में आनन्द लाभ करती है, उसका विशेष लगाव किसी एक से नहीं, प्रत्युत उग द्वन्द्व में विजयी होने वाले से है और वह भी कितना क्षणिक ?

इन सूफ़ी कवियों ने भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल कहीं भी वैवाहिक पवित्र बन्धन में शिथिलता नहीं आने दी। नारी के सतीत्व एवं मर्यादा का इन्हें पूर्ण ध्यान था। विदेशी होते हुये भी इन्होंने भारतीय सती प्रथा का जो मर्मन्तक एवं जाज्वल्यमान चित्रण किया है, वह अनुपम है। बहु-विवाह की प्रथा होते हुये भी, इन कवियों ने बहुविवाह की पृष्ठभूमि स्वरूप काम वासना का नग्न चित्रण कहीं भी नहीं किया। सूफ़ी प्रेम काव्यों का नायक या तो दो पत्नियों वाला है या केवल एक। जहाँ कहीं भी कवि ने उसे अपनी प्रथम पत्नी से विमुख होता हुआ चित्रित किया है, वहाँ उसका उद्देश्य उसे संसार के ममता-मोहात्मक स्वरूप का दिग्दर्शन कराना मात्र है। वह उस 'परम' को प्रेम करने के पूर्व प्रेम के उत्कृष्ट स्वरूप को देख चुका होता है। अपने सम्पूर्ण आकर्षण से युक्त होते हुये भी, 'इश्क मजाजी' 'इश्क हकीकी' से निम्न है, इसी तथ्य का चित्रण करना कवियों का अभीष्ट है। इन सूफ़ी कवियों ने यद्यपि नायिका के नखशिख वर्णन में एवं स्तीपुरुष कामेंद्रीश वर्णन में अपने कामशास्त्र ज्ञान का परिचय दिया है और इस चित्रण में वे अश्लील भी हो गये हैं किन्तु उनकी स्वच्छन्दता कहीं भी सामाजिक मान्यताओं के प्रतिकूल नहीं होती।

सूफ़ियों के प्रेमकाव्यों पर पलायनवादिता का आरोप भी नहीं किया जा सकता। तत्कालीन जीवन में व्याप्त कटुता एवं विषमता से इनका पूर्ण परिचय था। उम वृद्धता में मधुरता, एवं वैषम्य में साम्य की स्थापना, केवल प्रेम के द्वारा ही हो सकती थी, यह भी वे भली प्रकार जानते थे 'तन' उनके काव्य में वर्णित प्रेमानन्द केवल मानसिक मुष्टि या मंगारिक कटुता ने दूर केवल भोगविलास में गलगमना का शोक नहीं है। सूफ़ी प्रेमानन्दानों का नायक उस परमगता के प्रेम में मग्न होता है निगने मन्सप का

दशान वह इस जीवन के कण-कण में करता है। वह उस परमात्मा को केवल प्रेम के द्वारा ही प्राप्त कर पाता है और परम सौन्दर्य की प्रतीक नायिका को प्राप्त कर वह केवल भोग विलास में ही रत नहीं हो जाता, प्रत्युत पुनः अपने कर्तव्य के ससर में वापस आता है जहा प्रेम एवं न्याय का प्रसार ही उसका कर्तव्य होता है। सपत्नियों में प्रेम भावना, इसी परमार्थ एवं लोकार्थ का समन्वय है जो उसके जीवन का अंग बन जाता है, वह जीवन की सारी कटुता, 'परमप्रेम' की पावन धारा से धो डालता है।

उपरोक्त विशेषताओं के अनिरिक्त सूफी प्रेम व्यञ्जना की एक और विशेषता यह है कि प्रेमकाव्यों में वर्णित प्रेम भावना का सम्बन्ध राज परिवार से होते भी कहीं भी वह उस स्वच्छन्दता को प्राप्त नहीं होता जो पूर्णतः लोक वाद्य या एकान्तिक हो। राजा होने के कारण हमारी कल्पना में कुछ ऊँचे उठ जाने पर भी, कहीं भी नायक जनसाधारण की भावनाओं की अवहेलना नहीं करते। नायक की पत्नियों का विरह 'राज विरह' नहीं है जहाँ वे अपनी व्यथा को क्रीड़ा द्वारा कम कर सकें। उन्हें भी, अपने पति के आश्रय का अभाव उसी प्रकार खटकता है जिस प्रकार साधारण स्थिति की नारी को। नायक, नायिका को अपने राजवैभव द्वारा आकर्षित नहीं करना चाहता प्रत्युत सर्वस्व त्याग कर केवल अपने मानवत्व के मूल्यांकन पर ही उसे प्राप्त करने की आशा रखता है। प्रेम व्यञ्जना के अन्तर्गत, स्वच्छन्दता एव संयम का स्वर्ण संयोग इन प्रेमाख्यानों में सर्वत्र प्राप्त होता है।

पाश्चात्य अद्भुत एवं प्रेमतत्त्वपूर्ण कथाओं (Romance) में जिस प्रकार जादू की शक्तियों एवं अप्सराओं का वर्णन रहता है, उससे कहीं अधिक इन सूफी प्रेमाख्यानों में देव, दानव, अप्सराओं जलदेवियों, ख्वाजा खिज्र एव इलियास, तथा गुरु की अद्भुत चमत्कारिक शक्तियों का विवरण रहता है, किन्तु पूर्व और पश्चिम का सांस्कृतिक एवं भौगोलिक अन्तर इनमें स्पष्ट लक्षित है। परियों, दानव, अप्सराओं, अद्भुत शक्ति-सम्पन्न सन्तों आदि के साथ ही साथ भारत में पाये जाने वाले पक्षियों एवं पशुओं की भी चर्चा है। शुक, अश्व, भयंकर अजगर, सहृदय वनमानुष, हाथी आदि की योजना भी चमत्कार की सृष्टि के हेतु हुई है।

ऊपर निर्दिष्ट विशेषताओं से सयुक्त सूफी प्रेमाख्यानों की प्रबन्ध कल्पना सफल है, यह निर्विवाद है।

प्रतीक - योजना

समाज तथा संस्कृति के इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह सहज ही स्पष्ट हो जाना है कि प्रतीकों के प्रति विभिन्न कालों में समाज के भिन्न दृष्टिकोण रहे हैं। मध्ययुग में प्रतीकों की प्रधानता सर्वमान्य है, मध्ययुग की शिल्पकला, चित्रकला, वास्तुकला सभी पर प्रतीकों का प्रभाव था। आधुनिक युग में प्रतीकों का महत्व अत्यन्त कम हो गया, प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर मानव की कल्पनाओं का मुकाबल हो गया है। समय के साथ प्रतीकों के महत्व में कमी, उनकी उस समय के लिए अनुपयुक्तता सिद्ध करती है।

सूफी काव्यान्तर्गत प्रतीक योजना की चर्चा का तात्पर्य ही दूसरा है। सूफी को प्रतीकों की आवश्यकता अपनी भावनाओं के स्पष्टीकरण के हेतु पड़ती है। सूफी सौन्दर्यशाली ब्रह्म तथा उसके परम प्रेम का उपासक है, वह अपने प्रियतम के नूर का अनुभव करता है, तथा उसे व्यक्त करने का प्रयत्न करता है, इसी व्यक्तीकरण में उसे असमर्थ होकर प्रतीकों का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। परम सौन्दर्यशाली ब्रह्म का वर्णन करना असम्भव सा है, फिर उसकी अनुभूति तो और भी अधिक अप्रेषणीय है। जो अनुभव करता है वही जानता है, दूसरा कोई जानता नहीं और जान सकता भी नहीं। जो जानता है वह वाणी के माध्यम से उसे पूर्णरूपेण अभिव्यक्त नहीं कर सकता^१ और वही कारण है कि सूफी साधक, संकेतों तथा प्रतीकों का आश्रय ग्रहण करता है।

संकेतों को, विचार, भाव या अनुभूति समझने का भ्रम नहीं होना चाहिए। संकेत पूर्ण तथ्य नहीं है। संकेतों के द्वारा, संकेतित पदार्थ, सूक्ष्मतरंग परमसत्य को प्राप्त करने का प्रयाग होना चाहिए। संकेत संकेतित वस्तु के तात्त्विक स्वरूप को उपस्थित नहीं करना केवल उसका आभास और संकेत ही उपस्थित करना है, इस अर्थ में सम्पूर्ण

१ जो वहि मुख को परगट देगा, गुन भयड भा बाहर लेगा।

मानवीय भाषा साकेतिक है।^१ कवि अपने काव्य के द्वारा केवल विम्ब मात्र ग्रहण करवाना नहीं चाहता। वह इष्ट को संकेतित करता है और अपने संकेत को ऐसा रखता है जो सामान्य रूप से पाठक को प्रेषणीय हो। यदि कुछ प्रतीकों की योजना संकेतित वस्तु के पूर्णतः विरोध में हो जाती है तो भी कुछ समय के पश्चात् उन्हीं प्रतीकों का परम्परागत हो जाने पर संकेत स्पष्ट हो जाते हैं।

प्रतीक एवं रहस्य शब्दों के मध्य भी, विद्वानों को अनावश्यक सम्बन्ध दृष्टिगोचर होता रहा है। रहस्यवाद और प्रतीक-विधान, एवं प्रतीक-वाद, और रहस्यात्मकता का अविच्छिन्न सम्बन्ध विचारकों ने देखा है। प्रतीकों के माध्यम से निरपेक्ष सत्य की प्राप्ति की प्रवृत्ति को ही एक विचारक रहस्यवाद मानता है? रहस्य और प्रतीकों में सम्बन्ध अवश्य है, किन्तु दोनों एक दूसरे के समानार्थी नहीं। रहस्यवाद प्रत्यक्ष जीवन की अन्तर्भूत चेतना की उपलब्धि करना चाहता है और प्रतीक केवल उसका आभासमात्र देने का प्रयास करता है।

प्रतीक साकेतिक वस्तु के स्वरूप या गुण का किञ्चित् आभास होता है किन्तु चिन्ह में किसी भी तात्विक सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं। चिन्ह केवल वस्तु का सूचक है। प्रतीक पद्धति का संबन्ध सांनिध्य से नहीं प्रत्युत सारूप्य और प्रभाव-साम्य से है। वस्तु जिसकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति होती है, तथा प्रतीक जिसके द्वारा वह अभिव्यक्ति होती है, में प्रभाव साम्य के कारण सारूप्य और तादृश्य भावना जागती है। ईश्वर के स्वरूप, निवास-स्थान, गुण आदि पर आधारित पौराणिकता की सृष्टि, इसी प्रतीकात्मक पद्धति पर ही हुई।

अगडरहिल ने प्रतीक के तीन वर्गों का उल्लेख किया है। मानव के त्रिविध उद्वेग के कारण ही ऐसा विभाजन है। प्रथमतः संसार के मायाजाल से मुक्त मानव सत्य का अन्वेषण करता है, इस दृष्टि से मानव यात्री है। दूसरी अवस्था में आत्मा एवं परमात्मा के हार्दिक सम्प्लन की अभिलाषा है। तृतीय वर्ग के अन्तर्गत नैतिक जीवन से संघट्ट भावनाएँ आती हैं। इन तीनों आकाक्षाओं की अभिव्यक्ति तीन प्रकार के प्रतीकों द्वारा होती है।

आत्मा एवं परमात्मा के अनिरिक्त बहुत से अन्य ऐसे दार्शनिक साधना सम्बन्धी विषय भी हैं जिनकी सम्यक अभिव्यक्ति, दैनिक जीवन की भाषा के द्वारा संभव नहीं है।

१. Mankind, it seems, has to find a symbol in order to express itself. Indeed 'expression' is 'symbolism'.

Symbolism p 73

By wleitehead

२ Christian Mysticism p 250

By Inge

कवियों द्वारा प्रयुक्त रूपक समासोक्ति एवं अन्योक्ति अलंकार भी ठीक अर्थों में उन भावों की अभिव्यक्ति नहीं करते हैं।

जहाँ समान भाव वाले विशेषणों से अप्रस्तुत का कथन किया जावे, तथा जिसमें समास या संक्षेप में उक्ति-चातुर्य प्रकट हो, वहाँ समासोक्ति होनी है, वहाँ अन्योक्ति में किसी व्यक्ति विशेष की बात, किसी अन्य व्यक्ति पर ढाल कर कही जाती है। इन दोनों की कथन शैलियों में प्रतीक की भावना नहीं आ पाती है। इसी प्रकार, प्रतीक और चिन्ह में भी अन्तर होता है। प्रतीक में संकेतित वस्तु के स्वरूप या गुण का आभास होना है, किन्तु चिन्ह में किसी भी तात्त्विक सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं होती, चिन्ह केवल वस्तु का सूचक मात्र है।

प्रतीक का सम्बन्ध सान्निध्य से अधिक न होकर सारूप्य और प्रभाव साम्य से होता है। वस्तु, जिसकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति होती है, तथा प्रतीक जिसके द्वारा वह अभिव्यक्ति होती है, में प्रभाव साम्य की कल्पना ही प्रधान रहनी है। प्रभाव साम्य के कारण ही सारूप्य और सादृश्य भावना जगती है। ईश्वर के स्वरूप, निवासस्थान, गुण आदि पर आधारित पौराणिकता की सृष्टि इसी प्रतीकात्मक पद्धति पर हुई। 'ज्योति' का प्रतीकात्मक प्रयोग सभी धर्मों में सर्वाधिक और व्यापक रूप से हुआ है। प्राचीन ग्रीक साहित्य में इसका प्रयोग है। मिस्र का मुख्य अधिदेवता 'सूर्य' था। जोराष्ट्रिय धर्म भी सूर्योपासक था। ईसाई धर्म में ईश्वर के प्रकाश की कल्पना है। वेदों में सूर्योपासना है। इस्लाम और विशेषकर सूफी मत में खुदा के नूर की चर्चा भरपूर हुई है। सूफी साहित्य में 'नूर' के साथ ही ज्योति तथा अलख निरंजन शब्दों का प्रयोग भारतीय प्रभाव है।

परम तत्व की ज्योति रूप में कल्पना कई कारणों से हुई। अन्धकार से भयभीत मानव को प्रकाश की आवश्यकता थी इसी कारण उसने ईश्वर की कल्पना 'प्रकाश' या ज्योति रूप में की। अन्धकार में वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप छिपा रहता है अतः उससे सदैव भय की भावना जाग्रत होती है जब कि प्रकाश वास्तविकता का परिचायक एवं अभयदानी है। प्रकाश ही निराशा के अन्धकार को दूर करता, मृत्युभय से मुक्त करता तथा अमरत्व प्रदान करता है। अविद्या, अज्ञान या अन्धकार ही संसार की वास्तविक नश्वरता को प्रकट नहीं होने देते, और प्रकाश, ज्योति या परमतत्व उसके वास्तविक स्वरूप को उन्मुक्त कर देते हैं।

प्रकाश और ज्ञान का अविच्छेद्य सम्बन्ध है। विभिन्न कालों में प्रकाश की इस भावना के साथ प्रतीक भावना का योग रहा है। वैदिक काल में यही कर्मकाण्ड, उपनिषद् काल में ज्ञानकाण्ड और भक्ति काल की विभिन्न साधनाओं के अन्तर्गत सौन्दर्य, जील तथा शक्ति के समन्वित स्वरूप का साकेतिक प्रतीक प्रकाश हुआ।

सूफियों ने माया, या कर्मकाण्ड की काजियों, मुल्लाओं एवं पण्डितों के लिए प्रतीकों की योजना नहीं की है। इन कवियों ने सही अर्थों में केवल अव्यक्त को व्यक्त करने में प्रतीकों का सहारा लिया है। वहाँ एताथ म्यलों पर 'दादी' का प्रयोग प्रवृत्त

कर्मकाण्ड-बहुल काजियों के लिए आया है।^१ शेख रहीम ने ऐसे ही व्यक्ति के लिए 'खरीदार' शब्द का प्रयोग किया है ऐसे व्यक्ति अपनी श्रद्धा, भक्ति, पूजा, उपासना, बाह्य आडम्बर एवं लोकाचार सभी, कुछ के बदले में 'रब' या कर्ता से कुछ पाना चाहते हैं, किन्तु न तो रब वेचनेवाला है और न विकने वाला, ऐसे खरीदार उसे पा नहीं पाते।^१

इन्द्रिय जनित विषय वासनाओं के लिये ठग एवं बटमार प्रतीकों का प्रयोग हंस जवाहिर में हुआ है, जो साधक की साधनात्मक पूंजी का अपहरण करके उसे कहीं का नहीं रखते?।

चित्रवली में साधना के निरन्तर विकास को लक्षित करने में कवि ने मार्ग में आने वाले विषयात्मक अन्तरायों को 'पुरों' की संज्ञा दी है। इन पढ़ावों या नगरों में ठहरकर भी उनकी ओर आकर्षित न होना साधक का कर्त्तव्य है, जो साधक इसमें सफल हो जाता है वही रूपनगर तक पहुँच पाता है। इन अन्तरायों से ध्वंसाकर मार्ग का त्याग उचित नहीं है, प्रत्युत उनका त्याग कर उनसे बचकर अपने सीधे मार्ग पर जाना ही श्रेय है। जो साधक इन अन्तरायों का विचार नहीं करता, उन्हें मार्ग में ही बटमार लूट लेते हैं। पहला नगर 'भोगपुर' है जहाँ विलास की सभी सामग्री उपस्थित है, इस आकर्षण के मध्य से वही साधक सफल होकर जा सकता है जो शरीरगत के नियमों का पालन करता रहे। भोगपुर शारीरिक इन्द्रिय-जनित सुख ऐश्वर्यों का प्रतीक है। दूसरा नगर 'गोरखपुर' है, जो बाह्याडम्बर का प्रतीक है। वेष्ट-भूषा या जोगियों जैसे ठाट हृदयशुद्धि नहीं करते, हृदयशुद्धि, आत्मिकशान्ति एवं परम प्रेम के लिये ये सभी वस्तुएँ अनावश्यक हैं^३। जो

१. है वंराग पथ अति गाढी, चलि न सकैं जिनके मुख ढाढी।

नूरसुहम्मद अनुराग वासुरी पृ० ११६।

१. मक्के गये हज्ज करि आये, कपटी मन फिर संगे लाये।

मक्के और मदीने जायें, खरीदार रब का ना पावें ॥

शेख रहीम भाषा प्रमरस।

२. देखा गढ़ छीका सबै परघट वैरी पांच।

शोच रहै निशदिन मनहु, जीव विधी गुन ज्ञान।

हम बटमार न छाड़ै काहे, देव सबै जो चहै बनाह ॥

कासिमशाह हंसजवाहर पृ० २१।

३. यहि मगु केर करै जो साधा, चलन निश्चित न होइ बल आधा।

चाहै चरन सुभै जो काटा, चलै बराह मारग नहि छाटा ॥

जो कोउ जान न चार विचारा, बीचहि मारि लेहि बटमारा ॥

चारि त्रेम थिच पंय सो अय सुनु राजकुमार।

वेगर वेगर वरन गुन, जस कटु तहँ व्यवहार ॥

प्रथम भोगपुर नग्न सोहाया, भोग विलास पाउ जँ काया ॥

आगे गोरखपुर जहँ देसु, निबहँ सोइ जो गोरग्य भेसु ॥

साधक भोगपुर व गोरखपुर की ओर आकर्षित नहीं होता वही 'नेहनगर' में पदाण करना है, क्योंकि इस पुर में 'अपनत्व' का 'विलास' एवं 'रूप' का त्याग आवश्यक है। ऐसा साधक ही 'रूपनगर' तक पहुँच पाता है। 'रूपनगर' उस परम सौन्दर्य का प्रतीक है जिसके दर्शन पाकर साधक आत्मविभोर होकर पृथक सत्ता खो बैठता है। सूफी साधना एवं लक्ष्य का कितना सीधा-सादा रूपक इन नगरों के वर्णन में उपलब्ध होता है^१।

पञ्च इन्द्रियों के सुखों को कहीं-कहीं 'तस्कर' भी कहा गया है। वन्दीखाने के रत्नों की भाँति भी इनका वर्णन हुआ है क्योंकि ये मनुष्य को कभी मुक्त होने का अवसर नहीं देते^२।

इसी प्रकार 'इन्द्रावती' में भी कवि ने राजकुंवर की आगमपुर यात्रा में कुछ वनों का उल्लेख किया है, जो मार्ग के अन्तराय हैं। माया के विभिन्न स्वरूपों के प्रतीक हैं। प्रथम वन रूपाकर्षण का प्रतीक है। यहाँ की सभी वस्तुएँ सुन्दर हैं, किन्तु साधक नेत्रों के इतने क्षणिक सुख की अवहेलना करता है। दूसरा वन 'शब्द सुख' दायक है, किन्तु राजकुंवर परम शब्द की आशा में उसका भी निरस्कार करता है। तीसरा वन 'गन्ध-सुख' दायक है, किन्तु साधक सिद्धि की लट-सुगन्ध पर मुग्ध है। चौथा वन 'रस-आनन्द' दायक है, किन्तु साधक केवल दर्शन का भूखा होता है। पाँचवा वन 'स्पर्श सुख' का

एही भेष सिद्धि बहु अहर्ही, एही भेष बहुत ठग रहर्ही।
येही भेष सो बहुत ठग आये, एही भेष सो बहुत ठगाये ॥

जो भूले यहि भेष जग, तले न तेहि हिय आछ।
आगे चलें न तहँ रहँ, वरु फिरि आवैं पाछ ॥

जो कोट आगे चाहै चला, परगट देह भेष सो रला ॥

चित्रावली पृ० ७६, ८०, ८१।

१. आगे नेह नगर भल देखु, रक होइ जहँ जाय नरेसु।
आगे पंथ चलै पँ सोई, जाके संग कहु भार होई ॥

ऐसन जिअ जेहि लोभ न होई, रूपनगर मग देखै सोई ॥
हेरत तहाँ पच नहिँ पावा, हेरन चहँ जो आपु हेरावा ॥
पधिक तहा जो जाइ भुलाना, विमलपंथ तेहीं पहिचाना ॥

चित्रावली पृ० ८२।

२. तँ अयहाँ घर आप न मृन्मा, टार देखि पिछवार न मृन्मा।
बैठे देखै गेय पिछवारे, मृन्महिँ तमकर वर अभियारे ॥
तँ देखे वाहरहा नहिँ वृँजी, रही न एकी घर महँ पूजी ॥
पाचौँ भूत रहँ नित ढेरे कोट भरे चन मोहि न हेरे ॥
के अनेक नेगी रगवारी, मानहिँ आपनि आपन चारी ॥

उत्तमान · चित्रावली पृ० १२१।

प्रतीक है। साधक के लिये यह अत्यन्त अनिवार्य है कि वह इन 'वनों' को सफलतापूर्वक पार करे। वास्तव में ये वन 'इन्द्रिय सुखों' के प्रतीक हैं।

वन का स्वरूप कवि ने माया की गहनता का ध्यान रख कर दिया है। जिस प्रकार अपरिचित वनस्पति से निकल सकना सहज नहीं होता उसी प्रकार इन सुखों की अवहेलना करना सुसाध्य नहीं। यह तभी सम्भव होता है जब साधक को नामस्मरण में लगान एवं दर्शन लालसा लगी हो। इन सारों वनों को पार करके राजकुवर 'देहन्तपुर' पहुँचा। 'देहन्तपुर' विषय वासनाओं एवं शारीरिक सुखों, ऐश्वर्यों के नाश का प्रतीक है। देहन्तपुर के बाद उसका साथी कायापति या संयम होता है जो उसे धैर्यपूर्वक विघ्नों का सामना करने के लिये प्रोत्साहित करता है। कायापति के साथ साथ साधक या जीवात्मा का वसेरा 'जिउपुर' में होता है। अब वहिर्दृष्टि न होकर अन्तर्दृष्टि हो जाती है, किन्तु अभी तक उसका साथ बुद्धिसेन (तर्क जिज्ञासा एवं शंका) से है, अभी वह रूप सौन्दर्य पर विमुग्ध होकर भाव-विमोहित नहीं हुआ है, जो साधक के लिए आवश्यक है। श्रद्धा की आवश्यकता अनिवार्य है। यहाँ से साधक बुद्धि का साथ छोड़ केवल उसकी रूप माधुरी का पान करता है। उसकी अन्य लालसायें भस्म हो जाती हैं।

१. गहन गभीरु हैंसि मकोई, तहाँ बेगि सचरब न होई ।
पहिले वन मों राज सरेखा, भाँतिहि भाँत का पच्छिय देखा ।
राजे कहा जोग हम लीन्हा, आगम पहुँचै पर हित दीन्हा ।
दुसरे वन मों राजा आएउ, मधुर सबद पच्छिन सो पाएउ ।
राजें कहा थिरउँ तेहि ठाऊँ, जहा सुनउँ इन्द्रावति नाऊँ ।
तिसरे वन आएउ नरनाहा, मिलेउ सुगन्ध तहाँ वन माहा ।
कहा प्रीतम लट कर वासा, चाहत हौं राखत नित आसा ।
जब आये चौथे वन जहाँ फले बहुत फल देखा तहाँ ।
हाँ अनरुध चाहत हौं ऊखा, नहि दरसन का हौं मै भूखा ।
काटत पथ महीप सयाना, पचए वन मों आय तुलाना ।

मोहि विसराय कहा है जब लग दरस न होइ ।

चलेउँ हिउँ पाछि सो सुख को अचछर घोइ ॥

छठयें वन मों राजन आवउ, सो वन वाघत वैरेन लाएउ ।
नाम जपत इन्द्रावति केरा, सतएँ वन मों लीन्ह वसेरा ।
राजें साथी को समुझावा जेहि दरसन पर मै चित लावा ।
अहइ हमार संघातिय सोई, काहेक भेंट वाघ सों होई ।

नूरमुहम्मद इन्द्रावती पृ० २७, २८ ।

२. जत्र जागा मोहा अनुरागी, अधिको प्रेम अगिन मन लागी ।
मेधा दारु हितानल पावा, लवर बडावा ताहि जरावा ।
जत्र जिअन्तपुर पहुँचा राजा, बुद्धिहि द्याड तहा सो भाजा ।

कुँशर अकेला होइ चला ले सारंगी हाय ।

जेहि कारन भा जोगी, तेहिक प्रेम तेहि साथ ॥

नूरमुहम्मद इन्द्रावती पृ० ३१ ।

अगमपुर का राजा जगपति है तथा वहाँ आनन्द नामक ज्ञानी निवास करता है। यहाँ अगमपुर और जगपति दोनों क्रमशः ईश्वर एवं उसके परमनिवास के परिचायक हैं जहाँ पहुँचकर आनन्द लाभ होता है। इसी प्रकार बुद्धिसेन का निवास-स्थान मनपुर है अर्थात् मन में ही शंकाओं एवं तर्क का उदय होता है।

नूरमुहम्मद ने इसी प्रकार अपनी अनुराग वाँसुरी में भी पात्रों के नामकरण में कुशलता दिखाई है। प्रत्येक पात्र का नाम गुणविशेष का द्योतक है। 'मूर्तिपुर' शरीर का राजा जीव जीवात्मा का प्रतीक है। जीव राजा का एक 'अन्तःकरण' नामक पुत्र है। अन्तःकरण जीवात्मा को अतीव प्रिय है। अन्तःकरण सभी निश्चय अपने साथी संकल्प या विकल्प के कथनानुसार करता है। अन्तःकरण की संकल्पात्मक या विकल्पात्मक दो वृत्तियाँ हैं। अतः कवि ने संकल्प एवं विकल्प को अन्तःकरण का संघाती या संगी कहा है। बुद्धि, चित्त और अहंकार भी उसके सखा हैं, वास्तव में जिनमें कोई अन्तर नहीं है। अन्तःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की गणना होती है। नूरमुहम्मद ने यहा मन को अन्तःकरण मान लिया है और शेष तीन को उनका सखा; सर्वव्यवस्थापक वास्तव में श्रवण का प्रतीक है तथा 'ज्ञातस्वाद' रसना का। इन दोनों में भी विद्या सम्बन्धी मैत्री है, इनका मिलन विद्यानगर में ही हुआ, रसना जो कुछ कहती है श्रवण उसको सुनकर हृदयंगम कर लेता है। श्रवण ने एक मणिमाला 'ज्ञातस्वाद' से पाई, मणिमाला स्नेहनगर के राजा दर्शनराय की पुत्री सर्वमंगला की कृपा का प्रतीक है। प्रेम के वरदान स्वरूप माला को या जिह्वा के द्वारा सर्वमंगला की गुणावली को सुनकर, अन्तःकरण उस पर विमोहित हुआ। अन्तःकरण में स्नेहनगर एवं सर्वमंगला की प्राप्ति लालसा जग जाने पर विकल्प एवं बुद्धि ने उसे साधना मार्ग से विरत करना चाहा किन्तु संकल्प का कहना मानकर वह स्नेहगुरु की अधीनता स्वीकार करके सर्वमंगला तक पहुँचा।

इस प्रकार मानव अङ्गों एवं अन्तःकरण की स्नेह के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के दृढ संकल्प को कवि ने इन रोचक गुणविशेष के द्योतक प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया है। शरीर का अधिपति जीवात्मा है, उसकी चेतना अन्तःकरण में सीमित है जहाँ से वह निश्चय या अनिश्चय करना है। जिह्वा से कही एवं कानों से सुनी, उस परमेश्वर की रूपगुण-वर्चा पर वह आकर्षित होता है तथा दृढ संकल्प करके केवल स्नेह का आधार लेकर अग्रसर होता है। काल के वशीभूत जीव भावना को इन कवियों ने कुछ प्रतीकों के आधार पर व्यक्त किया है, जिनमें मैना और वाज, मैना और मार्जारी प्रमुख हैं^१।

इन प्रेमाख्यानों में प्रेम मार्ग के बाधास्वरूप पर्वत, दैत्य, वन, पुर या समुद्र ही आये हैं। वन एवं पुरों की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। पर्वत का उल्लेख जहाँ भी नहीं प्राप्त

१ काल मीमांसा पर दिन जैमिनी राज मडराय।

जिउ की मैना पीजटे मरै पाय लै जाय ॥

है वह अवरोध के रूप में, अपनी विशालता एवं दृढता के कारण उसे पार करना भी कठिन रहता है, किन्तु साधक उसे प्रेमसाधना के प्रभाव से सृज ही पार कर लेता है^१ ।

दैत्यों का समावेश अधिकांश स्थलों पर केवल चमत्कार या विलक्षणता के लिए है, केवल एक स्थल पर इसे काल का स्वरूप दिया गया है। शेख रहीम ने दैत्य के निधन को महाकाल का निधन बताया है ।

समुद्र सदैव 'प्रेम' का प्रतीक बना है। समुद्र की ही भाँति प्रेम भी अत्यन्त गंभीर, विशाल, एवं विस्तृत है। इस प्रेम समुद्र में साधक तभी डूबता, एवं पथ भ्रष्ट होता है, जब वह शरीरगत के नियमों का पालन नहीं करता। लोभ मोह में फँसकर, प्रेम की आवश्यक कसौटी त्याग को भूल जाता है, तब वह प्रेम समुद्र में वह जाता है, अस्फल होता है, सिद्धि को खो बैठता है और विरही ही रहता है। दूसरी अवस्था में वह सासारिक मोह एवं ऐश्वर्य को न छोड़ अपने साथ हाथी घोड़े, सेना, शक्ति एवं विलास प्रसाधनों को रखने के कारण पथ भ्रष्ट होता है। साधना के क्रमशः विकास से, त्याग के प्रखर होने के कारण वह प्रेम में निमग्न होता है, जहा इस लौकिक संग्रह की भावना का नाश आवश्यक है इस अवस्था में डूबता उतराता 'अलख तीर' पर जा लगता है। इन दो अवस्थाओं में, एक में उसे लोभवृत्ति के कारण दरुद ग्रहण करना पड़ता है, दूसरे में साधना विकास के कारण वरदान प्राप्त होता है।

समुद्र में 'मरजीया' होकर निकलने की भावना भी इन ग्रथों में आई है। साधक आत्मविस्मृत होकर दिव्य रत्न प्राप्त करता है जिससे उसे प्रिय की प्राप्ति होती है, यहाँ समुद्र उसके प्रेम का मापदण्ड भी बनता है जो परीक्षा में सफल साधक की रत्न प्राप्ति में सहायता करता है।^३

सिंहलगढ का वर्णन भी अधिकांश प्रेमाख्यानों में प्राप्त होता है जो सुन्दरियों के निवासस्थान के रूप में प्रसिद्ध होता है। वहाँ जाकर ही सिद्धि लाभ होगी ऐसा वर्णन

१. दधि अरण्य प्रेम पद आगे, सूधो पथ होत अनुरागे ॥

नूरमुहम्मद अनुराग बाँसुरी ।

२. मरजीया होके समुद्र में पल में जाओ समाय,

कर से मानिक गाँहपकड़ अथ ऊपर उतराय ॥

अलीमुराद कुँवरावत ।

३. देखेऊँ यदि काश्चा के माही, दूसर घाट अवर कहूँ नाहीं ।

काया माफ़ नयनपुर घाटा, देखेहु सरनदीप के बाटा ।

रूप खतन काश्चा के माँफ़ा, काया माँफ़ मार औ साफ़ा ।

सब गढ़पति काश्चा के माँही, दूसर ठाँव लखौँ कहूँ नाहीं ।

नूरजहाँ काश्चा के जोती, काश्चा समुद सीप जहाँ मोती ॥

ख्वाजा अहमद नूरजहाँ ।

भी आता है। वास्तव में 'सिंहल' के साथ नायकियों की रूढ़ भावना का समावेश है जिसे हम यद्यपि 'कायागड' तो नहीं कह सकते, किन्तु काया-सौन्दर्य के चरम विकास का निवास-स्थान अवश्य कह सकते हैं। नायकियों एवं सूक्तियों, दोनों को वहा सिद्धि-लाभ होता है, किन्तु एक विरक्त या विमुख होकर नायक होता है, और सूफी हम सौन्दर्य पर विमुग्ध होकर 'उसे' प्राप्त करता है, किन्तु 'सिंहल' रहता सिद्धि-लाभ स्थान ही है।

गड का वर्णन कहीं कहीं कायागड के रूप में भी हुआ है।

सूफी साधना एवं साहित्य में कुछ शब्द ऐसे हैं जो विशेष अर्थों के लिए रूढ़ हैं जैसे (रुख) मुख या कपोल ईश्वरीय सौन्दर्य का प्रतीक है, उसमें दयालुता, उदारता, प्रकाश, रक्षण एवं संहार सभी शक्तियों का समन्वय है। सूफी कवि जहाँ भी नायिका के मुख सौन्दर्य का वर्णन करते हैं, उसे इसी समन्वित सौन्दर्य का प्रतीक बनाने की चेष्टा करते हैं।^१

'जुल्फ' या अलक उस अज्ञान या अन्धकार का प्रतीक है जो जीवात्मा को वास्तविक सौन्दर्य देखने या सत्य ज्ञान समझने में बाधा डालता है, यह परिहारक एवं भुलावा देने वाला है। सूफी कवियों ने नखशिख के अन्तर्गत 'लट' का वर्णन अवश्य किया है और लगभग सभी स्थलों पर, नायक नायिका के मुख या सत्य पर लट को देखकर मूर्च्छित या वास्तविक सत्य से परे हो जाता है। नूरसुहम्मद ने इस लट का विस्तार से वर्णन किया है।^२

तिल एकत्व का प्रतीक है और इसी कारण इसे काले तिल के रूप में चित्रित किया जाता है, यह एक पूर्ण शून्य का प्रतीक भी है^३।

१. चित्रावली करीबे आई, सरा चांद जनु दीन्ह देखाई ॥
चित्रावली पृ० १०६।

२. वही उपवन पर लट सटकारी, तपी देवम भा निख अंधियारी।
मोहि परा दरसन कर चौरा, हना वान वन आगिन फेरा।
एक कहा लट सों मुख सोभा, होत अधिक लखि मुरझा लोभा।
एक कहा लट नागिन मारी, डसा गरल सों निरा भिरखारी।
एक कहा लट जागिन होई, राति जानि जोगी गा सोई ॥
इन्द्रावली पृ० ६०।

३. तिल है सुझ झुकाई केरा, तेहि टिस करत जगन जिय फेरा।
इन्द्रावली पृ० ७०।

परझाई तिल एक ही, सत्र नैनन न मने जोति।

चित्रावली।

‘चश्म’ या आख अथवा नेत्र-दृष्टि ईश्वरीय अनुकम्पा का प्रतीक है ।

‘अन्न’ या भौंह भी परम सौन्दर्य का प्रतीक है, किन्तु यह उसे प्रकट या व्यक्त होने से रोकता है ।^१

‘लव’ या अधर परमेश्वर की जीवनदायिनी शक्ति है ।^२

आसव वा मदिरा परमात्मारूपी प्रियतम के दर्शन से प्राप्त आनन्दानुभूति है जो नर्क को नष्ट कर देती है ।

‘साकी’ या मधुवाला सत्य अस्तित्व का प्रतीक है, जिसके सौन्दर्य का दर्शन प्रति कण में होता है ।

‘जाम’ या चषक ईश्वरीय कृत्यों के प्राप्त्य का स्वरूप है ।

‘सबू’ एवं ‘खुम’ परमात्मा के नामरूपात्मक स्वरूप का ज्ञान है ।

‘वहर’ सागर, ‘कुलजुम’ महासागर परमात्मतत्वों का प्रकट होना है । यह सारा दृश्य और अदृश्य जगत खुमखाना है जिसमें परमात्मा के प्रेम की मदिरा ओतप्रोत है । हरकण अपने अपने परिमाण के रूप से उस परम प्रेम का पैमाना है ।

‘खुरावान’ मदिरालय या भट्ठी है जो पूर्ण एकत्व को प्रकट करता है । खुरावाती मदिरालय में नियम से जानेवाला है जो इस संसार के सापेक्षिक गुणों, हीनत्व एवं महत्व की भावना से परे हो गया है, और जो ईश्वर के गुणों एवं कार्यों के चिन्तन को ही प्रधान समझता है ।

‘धुत’ या मूर्ति का प्रयोग कभी कामिल (पूर्णपुरुष) कभी मुशिद (गुरु) एवं कभी कुत्व या अपने समय के आदर्श व्यक्ति (मापदण्ड) के लिए प्रयुक्त होना है । जुन्वार या जनेउ

१. जो काहू पर डारे डीठी, सो जन देह जगत दिसि पीठी ।

इन्द्रावती पृ० ४५ ।

बर कामिनि चपु मीन सम, निमिय हेर तन जाहि ।

बहुरि जनम भरि मीन जिमि, पलक न लागै ताहि ॥

चित्रावली ।

२. अधर तेहि क जिउ दाता आही, देत भलो जीवन जस चाही ।

तो मोहि सोच जिउ कर नाहीं, होइ सुधा तेहि अधरन माहीं ।

बहुरि प्रान देई मोहि सोई, तित जीवन पुन मरन न होई ॥

इन्द्रावती पृ० ७७ ।

अधर सुधानिधि बरनि न जाई ॥

चित्रावली ।

का अर्थ आजाकारिता और दायित्व भावना से है। कुफ्रे हकीकी, ईश्वर के सम्बन्ध में एकत्व की भावना है। तरसाई या ईश्वर-भय, रूढिवादिता से मुक्ति है। इनमें से मुख, नेत्र, अघर, भौंह, लट, तिल, मदिरा, साकी, एवं मदिरालय का प्रयोग सभी प्रेमाख्यानों में उपलब्ध होता है मदिरा का प्रयोग नूरमुहम्मद ने त्रास-निवारण के हेतु किया है।

“विना कदम्बरि के पिये, त्रास न मन सो जात ।

दयावती होइ दीजिये, होलिक लागी प्रात ॥”

इन्द्रावती पृ० ३४ ।

इसी प्रकार मदिरालय, साकी एवं मदिरा का वर्णन करते हुये नूरमुहम्मद ने लिखा है।

अरे अरे कलवार पियारे, मदिरा ढारे नैन तुम्हारे ।

एक पियाला भर मद दीजै, मोल पियारो मानस लीजै ।

पियउँ सुरा पर चिन्ता मारउँ, पलकन सों पद सवन वोहारउँ ।

तोहि सखन सोहै दुखया, इन अमल सुख सोभा त्या ।

यह मन तापर आवई नाई, भूलत है मन देत भुलाई ।

दे यह अपने हाथ सों पियउँ देखि मुख तोर ।

चाहसि तो मद मोल ले प्राण पियारा मोर ॥

जीवात्मा के परमात्मा के प्रति प्रेम को इन कवियों ने कई प्रतीकों के द्वारा व्यञ्जित किया है जिनमें कमल और सूर्य, चन्द्रमा और चकोर, दीपक एवं पतंग, चुम्बक और लोहा, गुलाब और भ्रमर, राग और हिरण प्रमुख है। इन प्रतीकों से कवि स्पष्ट ही साधक और साध्य के बीच के व्यवधान की ओर संकेत करता है। सूर्य और कमल में आकाश का जो व्यवधान है वह भी उनकी प्रीति में बाधक नहीं होता, चन्द्रमा और चकोर में भी यही अन्तर है। इस अन्तर के होते हुये भी ये प्रेम-प्रतीक इस रूप में आदर्श हैं कि अपने प्रिय के अतिरिक्त अन्य किसी की उपस्थिति इन्हें आनन्द नहीं दे सकती, इनकी एकनिष्ठता ही सराहनीय है, कुछ लोग ‘दीपक और पतंग’ के प्रतीक पर आधारित करके, सूफी प्रेमप्रतीकों पर ‘जलाने’ का आरोप करते हैं किन्तु यह ठीक नहीं है। वास्तव में इन प्रतीकों के पीछे

१. तौ उत्तम को ध्यान भला है, कमल सुछत्र को प्रीति निवाहै।

कहाँ मयक कहा ससिनेही, दीपक कहाँ कहाँ तमगेही ॥

थनुराग ब्राँसुरी पृ० १०४ ।

आनवस्तु पर उपनत दोहा, चुम्बक पाहन चाहत लोहा ।

देखौ पतंग गूछ मन रीम्हा, मन भावन मग ऊपर सीम्हा ।

पंकरूह ति भिरारि लुभाना, जलमहँ ताहि देखि विगसान्हा ।

पाइ गुलाब गुलाब सनेही, चहचहात आनन्दत टेही ।

असरकोस मुगमद नित रागी, प्रेम की रीति निरार सुभाती ॥

थनुराग ब्राँसुरी पृ० ११२ ।

‘चश्म’ या आख अथवा नेत्र-दृष्टि ईश्वरीय अनुकम्पा का प्रतीक है^१ ।

‘अन्न’ या भौंह भी परम सौन्दर्य का प्रतीक है, किन्तु यह उसे प्रकट या व्यक्त होने से रोकता है ।^२

‘लव’ या अधर परमेश्वर की जीवनदायिनी शक्ति है ।^३

आसव वा मदिरा परमात्मारूपी प्रियनम के दर्शन से प्राप्त आनन्दानुभूति है जो नर्क को नष्ट कर देती है ।

‘साकी’ या मधुवाला सत्य अस्तित्व का प्रतीक है, जिसके सौन्दर्य का दर्शन प्रति कण में होता है ।

‘जाम’ या चपक ईश्वरीय कृत्यों के प्राञ्च्य का स्वरूप है ।

‘सबू’ एवं ‘खुम’ परमात्मा के नामरूपात्मक स्वरूप का ज्ञान है ।

‘वहर’ सागर, ‘कुलजुम’ महासागर परमात्मनत्वों का प्रकट होना है । यह सारा दृश्य और अदृश्य जगत खुमखाना है जिसमें परमात्मा के प्रेम की मदिरा श्रोतप्रोत है । हरकण अपने अपने परिमाण के रूप से उस परम प्रेम का पैमाना है ।

‘खरावान’ मदिरालय या भट्ठी है जो पूर्ण एकत्व को प्रकट करता है । खरावाती मदिरालय में नियम से जानेवाला है जो इस ससार के सापेक्षिक गुणों, हीनत्व एवं महत्व की भावना से परे हो गया है, और जो ईश्वर के गुणों एवं कार्यों के चिन्तन को ही प्रधान समझता है ।

‘दुत’ या मूर्ति का प्रयोग कभी कामिल (पूर्णपुरुष) कभी मुर्शिद (गुरु) एवं कभी कुत्व या अपने समय के आदर्श व्यक्ति (मापदण्ड) के लिए प्रयुक्त होता है । जुन्वार या जनेउ

१. जो काहू पर डारे डीठी, सो जन देइ जगत दिसि पीठी ।

इन्द्रावती पृ० ४५ ।

बर कामिनि चपु मीन सम, निमिष हेर तन जाहि ।

बहुरि जनम भरि मीन जिमि, पलक न लागै ताहि ॥

चित्रावली ।

२ अधर तेहिक जिउ दाता आही, देत भलो जीवन जस चाही ।

तो मोहिं सोच जिउ कर नाही, होइ सुधा तेहि अधरन माँहीं ।

बहुरि प्रान देई मोहिं सोई, तित जीवन पुन मरन न होई ॥

इन्द्रावती पृ० ७७ ।

अधर सुधानिधि बरनि न जाई ॥

चित्रावली ।

का अर्थ आज्ञाकारिता और दायित्व भावना से है। कुंफे हकीकी, ईश्वर के सम्बन्ध में एरुत्व की भावना है। तरसाई या ईश्वर-भय, रूढिवादिता से मुक्ति है। इनमे से मुख, नेत्र, अघर, भौंह, लट, तिल, मदिरा, साकी, एवं मदिरालय का प्रयोग सभी प्रेमाख्यानों में उपलब्ध होता है मदिरा का प्रयोग नूरमुहम्मद ने त्रास-निवारण के हेतु किया है।

“विना कदम्बरि के पिये, त्रास न मन सो जात ।

दयावती होइ दीजिये, होलिक लागी प्रात ॥”

इन्द्रावती पृ० ३४ ।

इसी प्रकार मदिरालय, साकी एवं मदिरा का वर्णन करते हुये नूरमुहम्मद ने लिखा है।

अरे अरे कलवार पियारे, मदिरा ढारे नैन तुम्हारे ।

एक पियाला भर मद दीजै, मोल पियारो मानस लीजै ।

पियउँ सुरा पर चिन्ता मारउँ, पलकन सों पद सवन बोहारउँ ।

तोहि सखन सोहै दुखया, इन अमल सुख सोभा स्या ।

यह मन तापर आवई नाई, भूलत है मन देत भुलाई ।

दे यह अपने हाथ सों पियउँ देखि मुख तोर ।

चाहसि तो मद मोल ले प्राण पियारा मोर ॥

जीवात्मा के परमात्मा के प्रति प्रेम को इन कवियों ने कई प्रतीकों के द्वारा व्यञ्जित किया है जिनमें कमल और सूर्य, चन्द्रमा और चकोर, दीपक एवं पतंग, चुम्बक और लोहा, गुलाव और अमर, राग और हिरण प्रमुख हैं। इन प्रतीकों से कवि स्पष्ट ही साधक और साध्य के बीच के व्यवधान की ओर संकेत करता है। सूर्य और कमल में आकाश का जो व्यवधान है वह भी उनकी प्रीति में बाधक नहीं होता, चन्द्रमा और चकोर में भी यही अन्तर है। इस अन्तर के होते हुये भी ये प्रेम-प्रतीक इस रूप में आदर्श हैं कि अपने प्रिय के अतिरिक्त अन्य किसी की उपस्थिति इन्हें आनन्द नहीं दे सकती, इनकी एकनिष्ठता ही सराहनीय है, कुछ लोग ‘दीपक और पतंग’ के प्रतीक पर आधारित करके, सूफी प्रेमप्रतीकों पर ‘जलाने’ का आरोप करते हैं किन्तु यह ठीक नहीं है। वास्तव में इन प्रतीकों के पीछे

१. तौ उत्तम को ध्यान भला है, कमल सुरुज को प्रीति निवाहै ।

कहाँ मयक कहा ससिनेही, दीपक कहाँ कहाँ तमगेही ॥

अनुराग बौसुरी पृ० १०४ ।

आनवस्तु पर उपनत दोहा, चुम्बक पाहन चाहत लोहा ।

देखौ पतंग गृह्य मन रीझा, मन भावन मग ऊपर सीझा ।

पंकरूह ति भिरारि लुभाना, जलमहँ ताहि देखि विगसाना ।

पाइ गुलाव गुलाव सनेही, चहचहौत आनन्दत टेही ।

अमरकोस मृगमद नित रागी, प्रेम की रीति निरार सुभागी ॥

अनुराग बौसुरी पृ० ११२ ।

प्रेम के त्यागमय स्वरूप का ही दर्शन है। पतंगा यह जानकर भी कि वह दीपक के सम्पर्क में भस्म हो जायेगा, दीपक के प्रेम नहीं छोड़ता, तिरण यह जानकर भी कि राग का मोह उसे वहेलिये का शिकार बना देगा, राग के वशीभूत होता है। जीवन के मोह का त्याग ही प्रेम का आदर्श स्वरूप है।

दर्पण को साधक के हृदय का प्रतीक माना गया है क्योंकि उसी दर्पण के मध्य साधक को परमेश्वर के दर्शन करने हैं, अतः आदर्श या दर्पण का स्वच्छ होना आवश्यक है १।

जीवात्मा और परमात्मा के सम्बन्ध की चर्चा करते समय इन सूफी कवियों ने जिन प्रतीकों का आश्रय लिया है, उनमें बूंद और समुद्र, सूर्य और किरण प्रमुख हैं।

इन प्रतीकों में कहीं तो जीव और आत्मा के तात्त्विक रूप से एकत्व की प्रधानता है, कहीं निर्माता एवं निर्माणकर्ता का सम्बन्ध है किन्तु सर्वत्र ही महानता और लघुता की ओर संकेत अवश्य है।

इसी प्रकार सृष्टि और परमेश्वर के सम्बन्ध की चर्चा करते समय कवियों ने नट और कठपुतली, चित्र और चित्रकार, प्रतीको का आधार लिया है जिससे स्पष्ट ही सृष्टि अचेतनता के साथ ही परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का बोध होता है।

१. यह दरपन तुम्ह लेहू संभारी, जेहि महुँ देखहु दरस पियारी ।
अब नहिं लावहु चित बैरागा, माजित रहव जौ मैल न जागा ॥
चित्रावली पृ० १०२ ।

पै अबहीं नहि उचित परगट देउ देखाय ।
देखे मेरो छाया, ऐसी करहु उपाय ॥

सांका दरपन मों परछाहीं, परी बदन की बिजुरी नाहीं ।
इन्द्रावती पृ० ११४ ।

२. वह समुद्र आगे हम लोगें, बिन्दु समां आवै केहि जागें ॥
अनुराग बाँसुरी ।

एकै हम दुइ के अवतारा, एक मन्दिर दुइ किये दुआरा ।
तौ जो समन्द्र लहर में तोरी, तौ रवि में जग करन अजारी ॥
मधुमालत ।

३. कब लगि नट ज्यों आपु छिपावसि । इहि जग पुतरी काठ नचावसि ॥
उसमान चित्रावली पृ० ४ ।

आदि बखानौ सोई चितेरा । यह जग चित्र कीन्ह जेहि केरा ॥
उसमान चित्रावली पृ० १ ।

श्री आरवरी के अनुसार सूफियों के विचार से वर्णों का एक पृथक अर्थ भी होता है । इस प्रकार के संकेत नूरमुहम्मद की 'अनुरांग वॉसुरी,' 'कामरूप की कथा' (अज्ञातकवि) एवं 'इन्द्रावती' में भी मिलते हैं, अतः उन वर्णों की भी व्याख्या यदि प्रतीकों के अन्तर्गत की जाय तो अत्युक्ति न होगी । श्री ए० जे० आरवरी जी को एक हस्तलिखित ग्रन्थ 'अल सिर्र फि अनफास अल सूफिया' नाम का 'इजिप्शियन रायल लायब्रेरी' में देखने को मिला जिसके अन्त में 'अल मुजाम फिहुरूफ ऊ मुजम' नाम से एक उपक्रमणिका दी हुई है जिसमें सूफी मत की अनतीस परिभाषायें दी हुई हैं । उन्हीं के अनुसार इन वर्णों के प्रतीकों की चर्चा निम्नांकित है :—

- अलिफ—सूफी मत का तात्पर्य सद्गुणों की प्राप्ति एवं दुर्गुणों का अभाव है ।
 वे— सूफी मत का तात्पर्य आत्मा की खोज एवं लौकिक सुखों का त्याग है ।
 ते— सूफी मत का तात्पर्य सिद्धान्त रक्षा एवं तुच्छ विचारों का त्याग है ।
 टे— सूफी मत का तात्पर्य परमेश्वर की सेवा में हृदय की दृढता है ।
 जीम— सूफी मत का तात्पर्य विषय वासनाओं पर नियन्त्रण रखना है ।
 हे— सूफी मत का तात्पर्य गुप्त भेद की सुरक्षा, धर्मात्माओं की श्रद्धा एवं पतितों का पार्थक्य है ।
 जे— सूफी मत का तात्पर्य संग्रह त्याग ही नहीं, उसकी आशा का भी त्याग है ।
 दाल— सूफी मत का तात्पर्य निरन्तर स्मरण एवं चिन्तन है ।
 जाल— सूफी मत का तात्पर्य ज्ञानोदय एवं पूर्णसमर्पण है, कपट एवं परीक्षा के समय भी शान्त रहना है ।
 रे— सूफी मत का तात्पर्य दुर्वासनाओं का त्याग एवं परमेश्वर से सदैव भय है ।
 जे— सूफी मत का तात्पर्य मित्रों का सम्मान एवं जीवमात्र से सहानुभूति है ।
 सीन— सूफी मत एक साधना है जिसका उद्देश्य मानव को अपराधों से दूषित करवाना है ।
 शीन— सूफी मत का तात्पर्य वरदान के प्रति कृतज्ञता एवं दण्ड के सम्मुख अधीनता या धैर्य है ।
 स्वाद— सूफीमत का तात्पर्य वितर्क के मध्य भी श्रद्धा बनाये रखना है ।
 ज्वाद— सूफीमत का तात्पर्य दुखों का पूर्ण नाश है ।
 तोय— सूफीमत का तात्पर्य दुर्भावनाओं को दासत्व एवं परमप्रेम को स्वामीत्व के रूप में परिणत कर देना है ।
 जोय— सूफीमत का तात्पर्य कष्टों की उपस्थिति में भी हर्ष एवं कृतज्ञता प्रदर्शित करना है ।
 ऐन— सूफीमत का तात्पर्य महान उद्देश्य एवं ईश्वर की महान अनुकम्पा है ।
 गैन— सूफीमत का तात्पर्य श्रवण वस्तुओं से घृणा एवं परमात्मप्रसाद से द्रेम है ।
 फे— सूफीमत का तात्पर्य मानवत्व से ऊपर उठकर परमात्मा तक पहुँचना है ।
 फ्राफ— सूफीमत का तात्पर्य उस प्रकाश की प्राप्ति है जो मुक्ति देता है ।

- काफ— सूफीमत का तात्पर्य वास्तविकता-लाभ एवं क्षणिकता का विनाश है ।
 लाम— सूफीमत का तात्पर्य परमेश्वर से एकत्व तथा अन्य वस्तुओं से विद्योह है ।
 मीम— सूफीमत का तात्पर्य आत्मचिन्तन है ।
 नून— सूफीमत का तात्पर्य लालसासाफल्य के प्राप्ति की आतुरता है ।
 हे— सूफीमत का तात्पर्य परमेश्वर के क्रोध एवं दण्ड देने के समय भी निर्वाकार होना है ।
 वाव— सूफीमत का तात्पर्य सत्य मार्ग के परिपालन से परमेश्वर की प्राप्ति है ।
 लाम-अलिफ—सूफीमत का तात्पर्य परमेश्वर की सत्ता के गुण भेद का प्रकाश है ।
 ये— सूफीमत का तात्पर्य पाप कारण के समूलनाश का दृढ निश्चय है ।

इन परिभाषाओं का मनन करने से सूफीमत की सहन शीलता, उदारता एवं स्नेहाद्रता का परिचय मिलता है ।

सूफी कवियों ने प्रतीकों के आधार पर, प्रेमाख्यानों के अन्योक्ति के रूप में उन तथ्यों का मनोरम स्पष्टीकरण किया, जिनके सम्पादन में तर्क असफल रहा है ।

रस, छन्द, अलंकार

संस्कृत साहित्य में काव्य और साहित्य शब्द अधिकांश समान अर्थों में प्रयुक्त हुये हैं। बहुधा साहित्य और काव्य ये दोनों शब्द एकार्थवाची ही देखने में आते हैं। साहित्य वह चिह्न अथवा प्रतीक है जिसके द्वारा लोकोत्तर आनन्द, सत्य और सौन्दर्य के माध्यम से प्रकट होने का प्रयास करता है। रसगंगाधर के रचयिता ने काव्य-लक्षण निरूपण में इस अलौकिक आह्लाद का विशेष ध्यान रखा है। काव्य की उत्कृष्टता का रहस्य तथा काव्य की आत्मा खोजने के प्रयत्न में कई रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति तथा ध्वनि सिद्धान्तों का विकास हुआ है; काव्य की भिन्न परिभाषाओं में तीन प्रवृत्तियाँ ही विशेष लक्षित होती हैं। (१) काव्य को केवल अभिव्यक्ति मात्र मानने वाली (२) काव्य में अर्थ की उत्कृष्टता स्वीकार करने वाली (३) दोनों प्रवृत्तियों में सामञ्जस्य करने वाली।

कवि की रचना का उद्देश्य केवल स्वान्तः सुखाय ही नहीं होता, यदि काव्यगत उक्तियों से पाठक को आनन्द लाभ न हो सका तो काव्य रचना का उद्देश्य सफल नहीं होता। सिद्धान्त-निरूपण के हेतु लिखे गये काव्य का सम्बन्ध विद्वत्तवर्ग से, चमत्कार प्रदर्शन तथा काव्यगत सौन्दर्य लक्षित करने के हेतु लिखी गई काव्य कथाओं की रचना का सम्बन्ध राजसमाजों तथा काव्यप्रेमियों से, तथा हृदय की सहज आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सम्बन्ध साधारण पाठकों से होता है। सूफ़ी कवियों का राज दरवार में सम्मान था। ज़ायसी का सम्बन्ध अमेठी राज्य से सर्वमान्य है। जान कवि ने अपनी रचना 'रतनावति' जहाँगीर के दरवार में सुनाई थी अतः स्वाभाविक रूप से उनके काव्य का स्वरूप भी वही काव्यगत सौन्दर्य प्रदर्शन के हेतु लिखे कथाकाव्य का है, किन्तु उनका उद्देश्य केवल चमत्कार प्रदर्शन करना नहीं है। सूफ़ियों ने कथा का माध्यम अपने सिद्धान्त प्रसरण के हेतु चुना किन्तु उनका सम्पर्क साधारण जनजीवन से अधिक होने के कारण उनके काव्य की आत्मा लोक गीतों के समान ही हुई। तत्कालीन स्थिति, काव्यलक्षियों एवं पद्धतियों का पालन भी इनके काव्य में मिलता है।

इन सूफी ऋषियों ने सर्वत्र इस बात का संकेत किया है कि ये कवि वाणी-विलास के लिए काव्य रचना नहीं करते। मन की उमंग और प्रेम की पीर जनित उल्लास ने इन्हें इन कहानियों को कहने के लिये बाध्य कर दिया। यही कारण है कि इनके प्रेमाख्यान काव्य की रसात्मक कसौटी पर पूरे उतरते हैं। इन कथा-काव्यों में हृदय का राग तथा अनुभूति पूर्णरूप से अंकित है। रागात्मकता, बौद्धिकता एवं कल्पना का स्वरूप समन्वित सामञ्जस्य सूफी काव्य में सर्वत्र प्रतिलक्षित होता है।

रस :

रसात्मकता ही काव्य की कसौटी है। रस के मूल में आनन्द-लाभ की भावना अन्तर्हित है। आनन्द की भावना आत्मप्रसार को सम्भावना से संभव है, इसकी सम्भावना 'शृंगाररस' में सर्वाधिक होने के कारण इसे 'रसराज' भी कहा गया है। इसके दोनों भेदों, संयोग एवं वियोग में यह आत्मप्रसार व्याप्त है। संयोग शृंगार में आत्यंतिक सन्निकटता और सान्निध्य का भाव रहता है और विप्रलम्भ शृंगार में आकाक्षा, उत्कंठा आतुरता तथा चिरस्मरण के कारण भाव ऐक्य का। यही रसराज शृंगार अपने अंग उपागों सहित सूफी काव्य में व्याप्त है।

शृंगार रस :

रति भाव जब पूर्णतया पुष्ट और चमत्कृत होता है तभी उसे शृंगार रस कहते हैं। नायक एवं नायिका इसके आलम्बन होते हैं। सखा, सखी, वन, उपवन, वाग तड़ाग, चन्द्र, चाँदनी, चन्दन, भ्रमर-गुंजन, कोकिल-कूजन, ऋतु विकास आदि शृंगार रस के उद्दीपन माने जाते हैं। भ्रूंग, अपाग वीक्षण, मृदु मुस्कान, हाव भाव आदि शृंगार रस के अनुभाव के अन्तर्गत आते हैं। उग्रता, मरण, आलस्य एवं जुगुप्सा को छोड़कर शेष निर्गोदादि सम्पूर्ण भाव, इसमें संचारी या व्यभिचारी भाव होते हैं।

शृंगार रस के दो प्रकार हैं (१) संयोग एवं (२) वियोग। विप्रलम्भ शृंगार ही अपने विभिन्न स्वरूपों के साथ सूफी काव्य में अधिक वर्णित है। आत्मा का परमात्मा से विच्छेद, उसकी परब्रह्म प्राप्ति की उत्कट लालसा एवं उत्कंठा, चिन्ता, स्मरण, गुण-कथन इत्यादि विरह दशायें, पाखण्डता, मलिनता, असौष्ठव इत्यादि विरहावस्थायें, तथा प्रवास, मान, संदेश-प्रेषण आदि की चर्चा ही सूफी काव्य में विस्तार से वर्णित हैं। संयोग शृंगार का वर्णन भी आत्मा परमात्मा के मिलन स्वरूप को अंकित करने के लिये किया गया है, किन्तु उसमें सूफियों की मर्मज्ञता, भावुकता एवं संवेदनशीलता का विशेष परिचय नहीं मिलता। परम्परागत शृंगार-सज्जा रतिक्रीड़ा एवं वाक्चातुर्य का प्रभाव ही अधिक दृष्टिगोचर होता है।

शृंगार रस के आलम्बन नायक और नायिका हैं। शास्त्रानुकूल नायक त्यागी, कृती कुलीन, समृद्धिवान, रूपयौवन-सम्पन्न, उत्साही, दृढव्रती, दक्ष, लोकरन्जक, तेजस्वी एवं सुशील होना चाहिये।

नायक के भी कई भेद होते हैं। धर्मानुसार नायक के तीन भेद हैं। १— पति, २— उपपति, ३— वैशिक। इसमें से पति के भी कई उपभेद हैं। अनुकूल, दक्षिण, धृष्ट, शठ एवं अनभिज्ञ। स्वाभावानुसार नायक के चार भेद हैं। १— धीरोदात्त, २— धीरोद्धत, ३— धीरललित, ४— धारप्रशान्त। जहा तक नायकों का सम्बन्ध है, हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यानों के नायक सभी राजकुमार या राजा हैं, अतः शौर्य उत्साह एवं रूपयौवन, से सम्पन्न दृढनिश्चयी समृद्धिवान, दक्ष एवं सुशील होना स्वाभाविक ही है। स्वाभावानुसार इन नायकों को धीरोदात्त के अन्तर्गत रखना चाहिए। यद्यपि प्रिय प्राप्ति के पश्चात् इनकी निश्चिंतता कशा एवं विलासप्रियता को देखकर इनके धीरललित होने का भ्रम हो सकता है, किन्तु इसे केवल समय का प्रभाव या कठिन साधना के पश्चात् प्राप्त हुई वस्तु का संतोष ही समझना चाहिए।

धर्मानुसार इन नायकों को हम 'पति' के अन्तर्गत ले सकते हैं। नायिका से परिचित होने के पूर्व तक नायक का अपनी पत्नी से ही प्रेम रहता है। उसकी प्रेम भावना में तनिक भी व्यभिचार की गन्ध नहीं है। नायिका की रूपगुण प्रशंसा सुनकर जो उसके हृदय में प्रेम भावना जाग्रत होती है उसमें भी दृढ निश्चय एवं एकनिष्ठता है, वासना का लगाव नहीं। उसका नायिका से प्रेम उसी प्रकार का है जैसा अनुकूल पति का अपनी पत्नी के प्रति होता है। अतः नायक की गणना पति के अन्तर्गत करना ही उचित है।

नायिकायें अधिकांश राजकुमारियां हैं जिनमें स्वाभावतः यौवन रूप, गुण, शील प्रेम, कुल भूषण, दानुत्व, कृपज्ञता, पाण्डित्य, उत्साह, तेज एवं चातुर्य आदि गुणों का समावेश होता है। धर्म, आयु, प्रकृति, जाति और अवस्था या परिस्थिति, इन पांच कारणों से नायिकायों के अनेक भेद माने गये हैं। धर्म-भेद से स्वकीया, परकीया, एवं सामान्य आयु विचार से मुग्धा, मध्या और प्रौढा, तथा प्रकृत्यानुसार उत्तमा, मध्यमा और अधमा, जाति भेद से पद्मिनी, चित्रणी, शंखिनी और हस्थिनी, परिस्थिति के अनुसार खण्डिता, कलहान्तरिता, विप्रलब्धा, उत्कठिता, वासक सज्जा, स्वाधीन पत्निका, अभिमारिका, प्रवृत्त्यपत्निका, प्रोषितपत्निका एवं आगतपत्निका, आदि भेद माने जाते हैं।

इन प्रवर्णों में स्वकीया, मुग्धा, मध्या तथा प्रौढा, उत्तमा, पद्मिनी एवं प्रोषितपत्निका,

२ त्यागी, कृती, कुलीन सुश्रीको रूपयौवनोत्साही ।
दक्षीनुरक्त लोकस्तेजो वैदग्ध्य शीलवान्नेता ॥

रूपगर्विता, प्रवत्स्यपतिऋ, स्वकीया, अभिसारिका आदि नायिका-स्वरूप प्रचुरता से उपलब्ध हैं नूरसुहम्मद ने मानवती एवं दायावन्ती का भी संकेत किया है।

रूपगर्विता :

अति स्वरूप रानी सुन्दरी, धरती पर अपछर औतरी ।
छवि सों धन रिभवारि भई, पियहिं रिभाई जीउ जमि गई ।

इन्द्रावती० ६ ।

अनुकूल नायक :

पिउ पियारी सुन्दर नारी, भयउ पिय की प्रान पियारी ।
देखी पिउ धन की सुधराई, मन सो मया करे अधिकाई ।
सोवै कुंवर लिहे धन कोरा, कवहुँ न पीठ दीन्ह तेहि ओरा ।

इन्द्रावती० पृ० ६ ।

प्रेमगर्विता :

पिय की प्रीत वखानै, एक ना राखे गोय ।
रूप गरवता सुन्दरी, प्रेम गरवता होय ।

इन्द्रावती० पृ० ६ ।

स्वकीया :

लाजवन्ति सुन्दर रही, पियहिं न बरजा जान ।
धीरज हिरदै मों धरा, कहु न सुनायहु वात ।

इन्द्रावती० पृ० २६ ।

मध्या :

सखिन साथ भूली सखि केला, औ भूली फागुन की खेला ।
धन के अंगन बल तरुनाई, आई छवि अधिकार बढाई ।
जोवन लाज नयन मों दीन्हा, सुग्धा सो मध्या तेहि कीन्हा ।
गइ चञ्चलता धिरताई, आई लाज निकाइय पाई ।
धन सूधै चितवत रही, निस दिन जेहि अखियान ।
सो तीछे चितवन लगी, जोवन के अभिमान ।

इन्द्रावती० पृ० ३५ ।

रूपगविता :

अधरन में मुसुकानी रानी, होइ अभिमानी बोली वानी ।
है मोहि रूप विमल उजियारा, बस महं रहै सो प्रीतम प्यारा ।
ऐगुन भये न रूठै देजं, तनु मुसकाय हाथ कै लेजं ।
अंमन होय करउं असमानू, प्रीतम देइ हाथ महं प्रानू ।
पाहन समा कठोर जो होई, करउ सिंगार होइ जल सोई ।

अब कुछ चिन्ता है नहीं, प्रीतम भा मोहि हाथ ।

अंमन कवहुं न होइहैं, नित रहिहैं मोहि साथ ।

इन्द्रावती० पृ० १७५ ।

इन सूफी कवियों ने कथा की नायिकाओं को 'पद्मिनी' ही कहा है । केवल 'चित्रावली' में कवि उसमान ने चित्रावली के लिए बार बार 'चित्रनी' शब्द का प्रयोग किया है ।

पद्मिनी :

है पदुमिनि इन्द्रावति प्यारी, ताको बदन रूप फुलवारी ।
कोमलताई सुन्दरताई, सै रसना सों वरनि न जाई ।
रिगन हरा मान मृग केरा, मन लजाइ वन लीन्ह बसेरा ।
ना अति लाव न छोटी आही, है तस इन्द्रावति जस चाही ॥

इन्द्रावती पृ० १६ ।

चित्रनी :

देवन्ह कौतुक अति जिय भाया, चित्रिन दरस अमर भइ काया ।
चित्रिनि कहाँ हँकारि परेवा, कहाँ सो जोगि करौ जेहि सेवा ॥

उसमान : चित्रावली पृ० ३५ ।

स्वाधीनभक्तिका :

जो स्वाधीनभक्तिका रही, दिन औ राति प्रीत माँ वही ।

अनुराग बाँसुरी पृ० १०१ ।

आगतशक्तिका :

इन्द्रावति मन माँ हुलसानी, हुलसे कुच कंचुक सकरानी ।
मुख पर छवि वाढ़ी अधिकाई, गइ पियराइ भई ललनाई ।

भयेउ परमदा परमद भेषा, गै दुख भै सुख जै मुख देखा ॥

इन्द्रावती पृ० १६३ ।

अभिसारिका का वर्णन शेख नवी के 'ज्ञानदीप' में उपलब्ध होता है जिसमें रात्रि के समय 'कृष्णाभिसारिका' का रूप धारण करके रानी देवजानी 'ज्ञानदीप' से समागम की अभिलाषा लेकर गई थी, किन्तु निराश हुई। 'चित्रावली' में कौलावती भी यही भेष धारण करके सुजान के दर्शनार्थ बन्दीग्रह जाती थी।

कृष्णाभिसारिका :

आगे भइ सुरज्ञानी वोली, काढहु ललित रंगीली चोली ।

खोलहु सुरंग छवीली सारी, नील वसन पहिरहु तन बाही ॥

विछिया वजनी काढि के, छुद्र घंटिका खोलु ।

कंगन टाँउ छिपाइ लेउ, रसना नेकु न बोलु ॥

चरन चापि कछु सकुच न आनी, अंग अंग ढाँपि चली देवजानी ।

तनिक सो तन जहँ होइ उधारी, चन्द्र जुगुनि प्रगटै उजियारी ।

नील वसन मधि सोभत अंग, सीसी भरी कनक जन संग ।

साम जलधि विच दामिनि जैसी, दुरत मुरत अंधियारी तैसी ॥

शेखनबी : ज्ञानदीप ।

उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत सखा, सखी, वन, उपवन, वाग, तड़ाग, चन्द्र, चाँदनी, चन्दन, भ्रमरगुञ्जन, कोकिलकूजन, ऋतु विकास, आदि का वर्णन करना कवि-परम्परा रही है। सूफी प्रेमख्यानो में सखी, चाँदनी, भ्रमर-गुञ्जन, कोकिल-कूजन, ऋतु-विकास आदि का वर्णन हुआ है। सखा का वर्णन भी इन काव्यों में हुआ है। नायिका का विस्तृत नखशिख वर्णन भी इसी के अन्तर्गत आता है।

सखा का वर्णन करते समय कवियों ने अपनी योजना को सफल बनाने के लिए राजपरिवारों की परम्परा का पूर्ण ध्यान रखा है। नायक के सखा अधिकांश चित्रकार वैद्य, जौहरी या यौगिकविद्या के पारंगत हैं, जिनका प्रवेश सहज ही राजमहलों में होता था। 'कामरूप की कथा' में तो इन सभी कलाओं के पारंगत व्यक्ति नायक के सखा थे जो क्रमशः उसका समाचार पहुँचाते थे।

सखी परम्परा में अधिकांश 'मालिनो' का चित्रण हुआ है जिनका प्रवेश वड़ी आसानी से राजमहलों में भी होता था और उद्यान तो उनका निवास स्थान था ही। इन्द्रावती में 'चेता मालिन' ने पहले राजकुंवर से इन्द्रावती के अनुपम सौन्दर्य की प्रशंसा की उसके पश्चात् इन्द्रावती से राजकुंवर के सलोन रूप की चर्चा करके उद्यान में उनके मिलन की योजना बनाई, इसी प्रकार 'प्रेमरस' में मालिन ही प्रेमसेन को नारी का भेष

धारण करवा के चन्द्रकला के महल में ले गई थी और अपने इस साहसपूर्ण कार्य के फलस्वरूप उसे एक मोती की माला प्राप्त हुई थी। अनुराग वॉसुरी की सखी चित्रवन्धिनी है, इसके अतिरिक्त दूती सखी के अन्तर्गत, हंस, तोता, हुदहुद, साधारण पक्षी, परी आदि की भी योजना मिलती है।

मालिनें तथा चित्रवन्धिनी की योजना दूतियों के लिए होती रही है। 'पुहुपावती' प्रेमकथा में 'पुहुपावती' के हृदय में प्रेम जाग्रत करने का श्रेय चित्रवन्धिनी को है। मालिनों की चर्चा लगभग सभी प्रेम कथाओं में हुई है।

'यूसुफ-जुलेखा' एवं 'प्रेम दर्पण' में धाय का वर्णन सखी रूप में हुआ है, केशव ने 'रसिक-प्रिया' में सखियों के प्रसंग में 'धाय' और 'मालिन' का भी उल्लेख किया है।

धाय जनी, नायन नटी, प्रकट परोसिन नारि ।

मालिनि, वरहन, शिल्पिनी, चुरहारिनि, सुनारि ॥

रागजनी, सन्यासिनी, पट्ट, पटवा की बाल ।

केशव नायक नाभिका, सखी करहिं सब काल ॥

रसिक प्रिया पृ० १२० ।

इसके अतिरिक्त भारतीय साहित्य परम्परा में, पवनदूत, चन्द्रदूत, मेघदूत, आदि दूतों की योजना भी होती रही है, यह मानव हृदय की उस विशालता का परिचय है जो विरहावस्था में ही प्राप्त होती है जब मानव-हृदय जड़चेतन की सीमा त्याग कर सभी में अपनी भावनाओं का आरोप करता है। इन्द्रावती में ऐसे ही पवनदूत की चर्चा आई है।

प्रकृति का वर्णन अधिकांश उद्दीपक रूप में ही हुआ है^१ :—

१. एही जुगुति दिन वीतेड भारी, निसि आई विरहिनि दुख भारी ।
देखत चन्द्र चन्द्र विकरारा, पपिहा बोल सबद जिव मारा ॥
बोलहि मोर सोर वन माहा, क्लीली झूकनि काम तन दाहा ।
कोकिल कुरुत कलरव बोली, विरह पसीजि भीजि तन चोली ॥
शेखनवी ज्ञानदीप ।

रितु वसन्त वन आदिन कूला, जोगी जती देखि रग भूला ।
पूरन काम वमान चढ़ावा, विरही हिये वान अस लावा ।
फूले फूल शिखी गुंजारहिं, लागी आगि अनार के डारहिं ।
कुसुम केतकी मालति बासा, भूले भेंवर फिरहिं चहुं पासा ।
मैं का करूं कहीं अथ जाऊँ, मों कहीं नाहिं जगत में ठाऊँ ।
देसू फूले तो कान्ह अजोरा, लागी आगि जरै चहुं थोरा ।
पीतम भूल गये सुख पाई, निर्मोही का दया नहीं आई ।

सूफ़ी प्रेम प्रवन्धों के अन्तर्गत पटञ्जलु और वारहमासा का वर्णन अधिक हुआ है जिसमें प्रकृति के उद्दीपन स्वरूप के ही दर्शन अधिक होते हैं। दूती, सखी या सखा की जो योजना हुई है वह एक और तो उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत आती है और दूसरी और कथा के क्रमिक विकास में भी सहायक होती है।

शृंगार रस के अन्तर्गत स्त्रियों की विभिन्न चेष्टाओं एवं मनोविकारों का वर्णन अधिकांश होता है, यही कारण है कि भ्रमंग, अपाग वीक्षण, गृध्रमुसकान, हाव-भाव आदि शृंगार रस के अनुभाव रूप में साहित्य में वर्णित रहते हैं।

यौवनावस्था में नायिका के मुख अथवा शरीर के दूसरे अंगों में उत्पन्न होने वाले विविध विकारों को सात्विक भाव या सात्विक अलंकार कहते हैं। ये अलंकार भी तीन प्रकार के होते हैं—अंगज, अयत्नज एवं स्वाभाविक।

अंगज अलंकारों के अन्तर्गत हाव, भाव और हेला की गणना होती है।

बाल्यावस्था के अन्त और तारुण्य के आरम्भ में निर्विकार मन में पहले पहल काम विकार की उत्पत्ति को 'भाव' कहते हैं।

‘निर्विकारात्मके त्रिभावः प्रथम विक्रिया’

भ्रुकुटी तथा नेत्रादि के विलक्षण व्यापारों द्वारा सम्भोगेच्छा को प्रकाशित करने वाले भाव ही, जब भावना-विकार थोड़ा थोड़ा लक्षित करने लगते हैं, हाव कहलाते हैं।

भूनेत्रादि विकारेस्तु सम्भोगेच्छा प्रकाशक।

भाव एवालपसंलक्ष्य विकारो हाव उच्यते ॥

हेला के द्वारा भाव की व्यञ्जना स्पष्टता से होती है।

‘हेलात्यंत समालक्ष्य-विकार. स्यात्तु स एव तु ॥’

अंगज अलंकारों में भाव का वर्णन सूफ़ी काव्य में प्रचुरता से हुआ है। अपना स्वरूप दर्पण में देखने पर इन्द्रावती काम पीड़ित हो गई—

यह रितु चित कैसे रहै, सहै विरह के पीर।

पुहुप देखि वसन्त रितु, कैसेहु धरै न धीर ॥

कवि नसीर प्रेम दर्पण।

राजै कहा पवन के साथ, है मेरी मन जा घन हाथा।

जो तेहि और वही तुम आई, डीन्हेंड मोर सन्देश सुगाई।

सुधरी मिली दया की पाती, दे मुह में हिंदै और छाती।

पढ़ि रालेउँ मन ऊपर, धरेउँ कि मानस टाहि।

पाती कहँ न जरावै, धरेउँ नयन पर ताहि ॥

नूरमुहम्मद इन्द्रावती।

ग्रापुहि पर रीभी वह प्यारी, रहिल अचेत भइल सुधियारी ।

भयेउ विकल इन्द्रावति, चित ग्राहक पर दीन्ह ।

हीरा मनि विनु जौहरी, कैसेहँ जाइ न चीन्ह ॥

भइ विह्वल इन्द्रावति वाला, भयो कपोल इंगुर हरताला ।
इंगुर अधर दसन वह पारा, प्रेम क आग दोउ कहँ जारा ।
अधर न हसा न रद विहसाना, भा संकेत मन व लिप समाना ।
ताको कहौं नींद सुख भोगू, जाको प्रीतम लागि वियोगू ।

प्रेम समुद्र वीच घनपरी, भहरँ खाय घरी औ घरी ।

हिरदे भीतर करइ पुकारा, कहौं हमारो खेवन हारा ।

काम के वान को वेभा गई, वैरी ताहि भई तरुनाई ॥

इस प्रकार अपने ही यौवन जनित सौन्दर्य को देखकर इन्द्रावति काम पीड़ित हो गई, उसमें भाव का उदय हुआ । चित्रावली में सहनायिका कौलावती में भी यौवनास्था के आगमन पर भावोदय हो गया था । यूसुफ जुलेखा एवं प्रेमदर्पण की नायिका में भी यूसुफ को स्वप्न में देखने के पूर्व ही काम-विकार उत्पन्न हो चुका था । 'पुहुपावती' में नायिका 'पुहुपावती' में यह भाव मानिकचन्द्र के चित्र-दर्शन के पश्चात् उदय हुआ था । प्रेमाख्यानों में भाव या काम-विकार की चर्चा स्पष्ट रूप से नहीं है, फिर भी अधिकांश में इसका संकेत अवश्य है, और नूरमुहम्मद ने 'इन्द्रावती' में इसका उल्लेख विस्तार से किया है, जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है ।

हाव और हेला का वर्णन अधिक नहीं हुआ है किन्तु इनका सर्वथा अभाव भी नहीं है । पुहुपावती में हेला का स्पष्ट चित्रण हुआ है । मानिकचन्द्र के चित्र को देखकर पुहुपावती के हृदय में भाव उत्पन्न हुआ था जिसका स्पष्ट प्रकटीकरण उसकी चित्र की आर्त्तिलग्न चुम्बन आदि क्रियाओं में होता है, जिसको हम 'हेला' के अन्तर्गत ले सकते हैं ।

सामभि सो चित्रहि पाई, भौ उद्दीप काम तन आई ।

श्रंक भरै सो चित्रहि वाला, चुम्बन करे काम तन पाला ॥

लगि मुख चित्र दाग परिजाई, नख रद लौं सो होहि लखाई ।

अवलों के निसदिनु तहि सोई, के परिरंभु नींद नहि खोई ॥

हाव का वर्णन अधिक नहीं मिलता है । 'प्रेमरस' में यूसुफ के सौन्दर्य को देखकर जुलेखा ने कई प्रकार की चेष्टाओं से उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहा था, इन चेष्टाओं को हाव के अन्तर्गत ले सकते हैं ।

अयत्नज अलंकारों के अन्तर्गत शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, औदार्य, आदि आते हैं । अयत्नज अलंकार लगभग सभी नायिकाओं में पाये जाते हैं । 'नखशिखर'

वर्णन में शोभा का विस्तार अधिक है। माधुर्य का परिचय भी नायिकाओं के सौन्दर्य वर्णन में हुआ है। सृष्टि का चरम सौन्दर्य नायिका के रूप में समाविष्ट है नायक कभी विमुख नहीं होता उसके प्रेम की एकनिष्ठता सराहनीय है। अतः सदैव नवीन आकर्षण से युक्त नायिका के सौन्दर्य में सहज ही माधुर्य का परिचय मिलता है। प्रगल्भता, औदार्य एवं धैर्य नायिकाओं के चरित्र के प्रधान अंग हैं जिनका प्रस्फुटन कथनक में यथास्थान होता है।

स्वभाव सिद्ध अलंकारों में लीला, विलास, विच्छिन्न, विव्वोक, किलकिञ्चित, विभ्रम, ललित, मोट्टायित, कुट्टमित, विहृत, मद, तपन, मौरध्य, विक्षेप, कुतूहल, चकित एवं केलि की गणना की गई है।

इन स्वभाव सिद्ध अलंकारों की अधिक चर्चा सूफी काव्य में नहीं है। विव्वोक का परिचय अवश्य इन ग्रन्थों में अधिक मिलता है। 'जुलेखा' की कामचेष्टाओं में कुट्टमित एवं वियोग वर्णन के अन्तर्गत तपन का किञ्चित् आभास मिलता है।

विव्वोक :

यह विनती कै रहेउ सुजाना, चित्रिनि कही न एकौ माना ।
तब उठि कुंवर भुजा कर गहा, भिभ्रकि हाथ चित्रावलि कहा ।
गहु न हाथ रे बावर जोगी, तासों लागु होइ तोरे जोगी ।
तू भिखारि हौं राजा बारी, राजभिखारिहि कौन चिन्हारी ।

(चित्रावली :उसमान)

पृ० २०३ ।

सञ्चारी भावों की संख्या नैतीस मानी गई है जिनमें उग्रता, मरण, आलस्य एवं शुगुप्सा को छोड़कर शेष सभी सञ्चारियों का समावेश शृङ्गार के अन्तर्गत हो जाता है। इनमें ग्लानि, दैन्य, चिन्ता, स्मृति, व्याधि, उन्माद, शंका, भ्रम, हर्ष, गर्व, आवेग का ही वर्णन साधारणतः अधिक हुआ है।

शृङ्गार रस के दो भेद संयोग और वियोग होते हैं। संयोग शृङ्गार जब नायिका की ओर से प्रारम्भ होता है तो उसे नायिकारब्ध संयोग एवं नायक की ओर से प्रारम्भ होने पर नायकरब्ध संयोग कहते हैं। इन प्रबन्धों में नायकरब्ध संयोग का ही वर्णन मिलता है।

इन प्रेमाख्यानों में संयोग शृङ्गार की अधिक चर्चा नहीं है। संयोग शृङ्गार वर्णन में कवि कहीं-कहीं मर्यादा का उल्लंघन कर गये हैं। ऐसा करने के दो कारण हैं। एक ओर तो मुगलकालीन विलासमय वातावरण का साहित्यिक परम्पराओं पर प्रभाव, दूसरी ओर शृङ्गार के अनावृत्त चित्रण के द्वारा वस्तु या मिलन की आत्यन्तिक भावना के प्रदर्शन का प्रयास, जिसका प्रारम्भ वज्रयानियों की गुह्य साधना में बहुत पहले हो चुका था।

मध्यकालीन राजस्थानी एवं मुगलकालीन चित्रकला में नग्न सौन्दर्य का चित्रण, कला के उत्कर्ष की दृष्टि से देखा जाने लगा था ।

सूफी कवियों के रति के अनावृत वर्णन में बहुत कुछ इसका प्रभाव है, वे गुप्ताङ्ग वर्णन करने में कहीं भी नहीं हिचके^१ । ऐसे वर्णनों में कहीं-कहीं अश्लील रूपकों की भी योजना हुई है^२ ।

संयोग शृङ्गार वर्णन के अन्तर्गत चौसर, शतरञ्ज के खेल एवं पहेलियों बुझाने की भी प्रथा पाई जाती है जिनमें हार-जीत के पश्चात् नायक एवं नायिका संयोग में रत होते हैं । इन खेलों एवं पहेलियों के अन्तर्गत एक गूढ व्यंग्यार्थ भी निहित रहता है^३ ।

शृङ्गार का दूसरा पक्ष विप्रलम्भ शृङ्गार है । साहित्य शास्त्रियों ने इसके कई भेद माने हैं, अभिलाषा हेतुक (पूर्व राग), ईर्ष्या हेतुक (मान) तथा प्रवास-विरह । इसके अतिरिक्त एक और प्रकार 'करुणात्मक विरह' माना गया है ।

१. विहसि कन्त कामिनि कण्ठ लगाई, विहरह दगधि उर लाइ बुझाई ।
मनमच दाव जाघ पुति कापी, रावन वार लक गहि चापी ॥
ठीचहीं चार नखच्छत छाती, फूट सिंधोर सेज भय राती ।
होइगा अग भग नवसाता, अति परसेठ शिथिल भइ गाता ॥
उसमान चित्रावली, पृ० २२८ ।

२. हरेँ बतीं चाहौं करहारा, अहै मिठाई अघर तुम्हारा ।
बरती कह फरहार करावौ, दौड जग बीच धरम तुम पावौ ॥
कुच श्रीफल, वाटाम दृग, अघर खांड चम आहिं ।
चाहौं सो फरहार में, भावौं लेउं सराहिं ॥
नूरमुहम्मद इन्द्रावती (उत्तरार्ध) ।

३. जोगी सोड जो सेज अनूपा, जोगी नाहि आहि बहुरूपा ।
जोगी जो घर घर परसाडी, जोगी नाहि आहि रसधादी ॥
जोगी जो घरबारी होइ, जोगी नाहि कुटीचर सोई ॥
उसमान चित्रावली पृ० २०३ ।

अब आवहु खेलौं चौरारी, हम बेरी तुम छत्र हमारी ।
तब तो कमल लील कर पासा, बैठी अस्थिर जीति की आसा ।
प्रथम कमल जो हांसा डारा, जग बांधा तब पांव निकारा ॥

कमल जो भायै सत्तरह, मढ़े जो पासा सात ।
खेल माहि दौऊ चतुर, कोऊ न दौड महें घाट ॥

अपर सेज विसात बिछाई, खेलै लाम लिख चुतुराई ।
आगे कीन पियादह पावी, पाछे हव महें राजा भांती ॥

कासिमगह हंसजवाहर पृ० २३० ।

अभिलाषा हेतुक विप्रलम्भ के अन्तर्गत पूर्वराग की गणना होती है जिसकी उत्पत्ति स्वप्न दर्शन, गुण श्रवण एवं साक्षात् दर्शन से होती है।

ईर्ष्या हेतुक विरह मान के समय का वियोग है जिसका किञ्चित् वर्णन नायक के सपत्नीरत होने के समय पाया जाता है, किन्तु उस का शीघ्र ही समाधान हो जाता है।

प्रवास विरह भी तीन प्रकार का होता है, - कार्यवश प्रवास, शापवश प्रवास, अथवा भयवश प्रवास। ईर्ष्याहेतुक विरह या मान विरह से प्रवास विरह अधिक तीव्र होता है क्योंकि मान विरह नायक-नायिका के वश की बात है, जबकि प्रवास विरह ऐसे कारणों से होता है जिस पर अपना वश नहीं चलता। सूफी प्रेमाख्यानों में प्रवास विरह का वर्णन अधिक है।

सूफी प्रेमाख्यानों में विप्रलम्भ शृङ्गार या विरह वर्णन ही अधिक है। इन कवियों ने 'विरह प्रेम की जाग्रत गति है और सुषुप्ति मिलन है' के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। विरह का अनुभव किये बिना संयोग का आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता, अतः वस्तु या मिलन के लिये वियोग आवश्यक है, ये सूफी 'प्रेम की पीर' या विरह में ही मग्न रहते रहे हैं।

नूरमुहम्मद ने इन्द्रावती में स्पष्ट रूप से विरह का महत्व स्वीकार किया है :-

नूरमुहम्मद जगन मों, जो नहिं होत वियोग ।
तो पहिचान न जात, यह सिंगार संजोग ॥

सूफी प्रेमाख्यानों में पूर्व राग का उदय नायक एवं नायिका दोनों में ही लक्षित होता है। स्वप्न दर्शन, गुणश्रवण, चित्र दर्शन या साक्षात् दर्शन में से किसी भी प्रकार प्रिय का दर्शन पाकर नायक या नायिका अभिलाषा हेतुक विरह से पीड़ित हो उठते हैं। पूर्वराग या अभिलाषा हेतुक विरह में कहीं कहीं सूफी कवि अत्युक्ति कर गये हैं। नायक एवं नायिका का स्वकर्तव्यों से विमुख होना, चिन्तित तथा व्याधिग्रस्त रहना कुछ समझ में आ सकता है, किन्तु विक्षिप्तों के समान वल्ल फाड़ना, घर से बाहर भागना आदि क्रियायें अस्वाभाविक एवं असङ्गत प्रतीत होती हैं। फारसी में प्रेमियों की वृहत्त का प्रभाव सम्भवतः इन सूफियों के उन्माद-वर्णन पर पड़ा है। यूसुफ को स्वप्न में देखकर जुलेखा इसी प्रकार विह्वल हो जाती है :-

विरह वान वेधा एक बारा, रोम रोम व्याकुल तेहि छारा ।
छूटे आँसू चले जस मोती, कहै कि अय मनभावन जोती ।
चिनगी विरह आग के लागी, सुलगै लागि हियै महं आगी ।
खिन उठ सेज परै विकरारा, खिन उठकै बैठे विसम्भारा ।
खिन सो उठै विरहकै ज्वाला, खिन मुखसंवरत होय वेहाला ।

किन्तु इसके साथ ही .—

प्रेम पीर ते भई अधीरा, होय व्याकुल तन फारे चीरा ।
उठि-उठि चलै छौं धरवारा, तन पर लागि चढावै छारा ॥

चित्रावली के हृदय में पूर्वरंग का उदय सुजान के चित्र-दर्शन के द्वारा हुआ था, अपनी चित्रशाला में वह कुंवर का चित्र देखकर विमुग्ध हो गई :—

सुनि चित्रिनि चित्तसारी आई, देखि चित्र मुख रही लोभाई ।
सहस कला होइ हियै समाना, निरषि रह चितचेत भुलाना ।
नैन लाइ मूरति सौं रही, डोलि न सकी प्रेम की गही ।
चित्रिनि कह सुनु सखी पियारी, तुम्ह मोरि पीर सिरावन हारी ।
यह सरूप मोहिं मुख देनिहारा, जोवन भयो जिघ लेनिहारा ।

(चित्रावली:कवि, उसमान)

पृ० ४६

‘मधुमालत’ ग्रन्थ में नायिका मधुमालती के हृदय में पूर्वरंग का उदय मनोहर के साक्षात् के द्वारा हुआ था । इसी प्रकार ‘चित्रावली’ ग्रन्थ की सहनायिका ‘कलावती’ के हृदय में भी सुजान के प्रति रागोदय साक्षात् दर्शन के द्वारा ही हुआ था ।

देखत रूप कुंवर कर, रही अचक्र होय ठाढ़ि ।
जम होइ हिये समाइगा, लीन्हेसि जिउ जनु काढि ।
आनन देखि रही खिन खरी, पुनि मुरछाइ पुहुमि खसि परी ।

पृ० १२२

अन्तःकरण, सर्वमङ्गला के रूप गुण का वर्णन सुनकर मोहित हो गया था ।

सुनतहि सरवमंगला सोभा, भा वायल वरुननि के चोभा ।
अंतःकरण फंदा लट माहीं, जेहि लट वरही नट गिर जाहीं ।

मान विरह के भी कई प्रकारों की चर्चा काव्य शास्त्रियों ने की है । यह मान प्रधानतः दो प्रकार का होता है । (१) प्रणय जन्य मान (२) ईर्ष्या जन्यमान । मान के इन दोनों स्व पों का परिचय सूफी काव्य में मिलता है । प्रणय जन्यमान का केवल उल्लेख मात्र प्राप्त होता है—जैसे ‘मधुमालत’ ग्रन्थ में नायिका मधुमालती, मनोहर की प्रणय वाचना करने पर कुछ देर संकोच के बाद आत्मसंमर्पण कर देती है यह कहकर कि उसे मान करना नहीं आता ।

देखि कुवर वर कामिन धाई, पित अन्तर खिन लिहेरि उचाई ।
कहेसि मान मोहिं वृकि न नाहा, मै तजि मान देउं गलवाहा ॥

इसी प्रकार चित्रावली में ‘कलावती’ सुजान से प्रणय वाचना के पश्चात् कुंवर के उन्मुख होने पर स्वयं मान का दिखावा करने लगी :—

तव हंसि कुञ्जर उलटि मुह हेरा, वरवस लाज कौल मुख फेरा ।
घूषट ओट रही मुख गोई, तरनिन मान सुभावन होई ॥

ईर्ष्याजन्यमान का उल्लेख उन्हीं प्रेम कथाओं में सम्भव हो सका है जहाँ नायक की दो या अधिक पत्नियों की चर्चा है, किन्तु इस ईर्ष्या का उल्लेख भी सर्वत्र नहीं हुआ है। 'हंस जवाहिर' और 'इन्द्रावति' ग्रन्थ में इस ईर्ष्या को विनय और स्नेहा-तिरेक के सम्मुख नत होना पड़ा है। ईर्ष्याजन्य मान एवं सौतिया डाह या असूया का चित्रण चित्रावली में बड़ी सफलता से हुआ है। अपने प्रथम समागम के समय चित्रावली कुंवर सुजान से ईर्ष्या-जन्य मान का प्रदर्शन करती है क्योंकि उसके पूर्व ही कुंवर का परिणय कंचलावती से हो चुका था:—

जो मधुकर अंबुज रस पीये, मालति नेह न राखे हीए ।
जूठ अधर और कपटी हीआ, नागेसर रस चाहे पीआ ॥
कपट रूप गुंजार सुनाई, जोरहिं प्रेम सो नहिं पतिआई ॥
जोगी सोउ जो सेज अनूपा, जोगी नाहि आहि बहुरूपा ॥
जोगी जो घर-घर परसादी, जोगी नाहि आहि रसवादी ॥
जोगी जो घरवारी होइ, जोगी नाहि कुटीचर सोई ॥
नोर मन भौरा अंबुज हीये, लोक छरति धंधारी दीए ॥

तुअ संग सुन्दरि नारि एक, परगट सूके मोहि ।

रूप सलोना आपना, काह देखावौ तोहि ॥

(चित्रावली उसमान)

पृ० २०३,

प्रवास विरह का वर्णन इन प्रेमाख्यानों में दो प्रकार मिलता है, कार्यवश एवं शापवश प्रवास ।

कार्यवश प्रवास उस समय होता है जब नायक नायिका की प्राप्ति के लिये स्वपत्नी से विमुख होकर प्रस्थान करता है, और शापवश प्रवास उस अवस्था में होता है जब नायक के शरीर-नियम-विरुद्ध चलने पर या साधना न्युत होने पर उसका विछोह प्रियतमा से हो जाता है। ऐसा विरह अधिकांश समुद्र में नाव के डूब जाने आदि से होता है जिसका कारण नायक का दान देने से विमुख होना होता है ।

विरह की मात्रा का वर्णन करने के लिये कवियों में ऊहात्मक या वस्तु-व्यञ्जनात्मक शैली का विधान तीन प्रकार का पाया जाता है। प्रथमतः ऊहा की आधारभूत वस्तु केवल परमपरागत या कवि प्रोढोक्ति सिद्ध होती है, (२) ऊहा की आधारभूत वस्तु का स्वरूप सत्य एवं स्वतः संभवी होना है, उसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं, (३) ऊहा की आधारभूत वस्तु का स्वरूप सत्य होता है किन्तु उसका हेतु कल्पित ।

गूफो कवियों ने इन तीनों ही स्वरूपों का परिचय अपने काव्य में दिया है परन्तु केवल कवि प्रोढोक्ति सिद्ध वाक्यों के द्वारा विरह की व्यञ्जना न कर इन कवियों ने उसकी भावात्मक व्यञ्जना अधिक की है। वस्तु-व्यञ्जना के दूसरे एवं तीसरे प्रकार के दर्शन इन काव्यों में अधिक होते हैं। यद्यपि ऊहात्मक पद्धित के चित्रणों का भी अभाव नहीं है। इन्द्रावती की पत्रिका पाकर राजकुवर ने उसे हृदय के समीप रख लिया, प्रिय वस्तु को हृदय के समीप रखना स्वाभाविक ही है किन्तु इस डर से कि कहीं हृदय की विरहाग्नि से वह नष्ट न हो जाय, उसने पत्री को उठाकर अश्रुसिक्त शीतल नयनों पर रख लिया :—

पठि राखेउ मन ऊपर, डरेउं कि मानस दाहि ।
पाती कंह न जारवे, धरेउं नयन पर ताहि ॥

नूरमुहम्मद : इन्द्रावती

इसी प्रकार शब्द-परी जब जवाहिर का सन्देश लेकर उड़ी तो मार्ग में आने वाले सारे वनखंड जल गये ।

लै सन्देश चली जेहि ओरा, विरह लूक धाई चहुँ ओरा ।
छूटत जाय विरह की क्षारा, वनखण्ड जर हुये पनभारा ॥
कासिम शाह : हंसजवाहिर

ऐसे ऊहात्मक स्थल अधिक नहीं है। अधिकांश ऊहा की आधारभूत वस्तु का स्वरूप सत्य होना है, केवल उसके हेतु की कल्पना की गई होनी है।

पर्वत पर भरने होते हैं, पतझड़ आता है, समुद्र का जल खारी है, मेघ जल बरसाते हैं यह सब सत्य है, किन्तु इनके हेतुओं की कल्पना कवि ने की है। यह सारी सृष्टि उस एक के विरह में व्यथित है इसी कारण दुखी होकर अश्रु प्रवाहित करती है। प्रकृति की व्यथा ही इन वस्तुओं में प्रतिबिम्बित हो रही है। हेतुत्प्रेक्षा का आधार लेकर विरह की व्याप्ति का सजीव चित्रण यत्र तत्र मिलता है :—

धन वियोग सोग जग वोवा, धरती स्वर्ग जरा दुख रोवा ॥
खुला जो देख समंद पहारा, रोवन लाग जगत संसारा ॥
ठावंहि ठाव भूमि जो रोई, सोत-सोन निकसी जल सोई ॥
रोवा गिरि भरना भये आस, रोवै वनपत्नी वनवास ॥
अहि रोवत गये पैठ पतारा, टपके आस कूप जल धारा ॥
रोवै वृक्ष भरै पुनि पाती, रोवै नखत तराई राती ॥
रोवत चन्द भयो हिय कारा, रोवै मन्छ समंद भयो खारा ॥

मेघ मो रोवै ताहि दुख, भूमि चुवावै आस ।

जग जाने वरमा भई, लागो भादो मास ॥

कासिमशाह. हंसजवाहिर

उहात्मक स्थलों की अपेक्षा ऐसे मार्मिक स्थल ही अधिक हैं। प्रिय की स्मृति में कोई भी सात्त्विक कार्य, बाधा रूप में उपस्थित नहीं हो सकता। नेत्रों में प्रिय की स्मृति उसी प्रकार स्थित है जैसे जल में दीपक की परछाहीं, जिस पर पवन के भोके या जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता और वह निरन्तर अप्रतिहत रूप से प्रज्वलित रहता है।

जोगी सरति रहे चखु माहीं, ज्यों जल मंह दीपक परछाहीं।
भूलमल जोति होई उजियारा, पानी पौन बुभाव न पारा।

उसमान : चित्रावली

विरह में जड़ एवं चेतन की परिधि को पारकर प्रत्येक वस्तु में समभावना की स्थापना हो जाती है। कहीं तो प्रकृति के उपकरण अपने सगे ज्ञात होने लगते हैं। जिनसे विरही अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करके अपने विरह-भार को हलका कर लेता है। कहीं कहीं वह पवन एवं पक्षियों को सम्बोधित कर अपनी भावनायें व्यक्त करता है। किन्तु अधिकांश जिस रूप में षट्श्रुतु या वारहमासे के अन्तर्गत प्रकृति का वर्णन इन काव्यों में मिलता है वह उद्दीपन का है। प्रकृति के इस विलासमय स्वरूप को देखकर विरही या विरहणी को अपने अभाव का ज्ञान होता है और वह अत्यन्त दुखी होकर उन्हें भला बुरा भी कहने लगती है। विरहोद्दीपन के अन्तर्गत ही षट्श्रुतु एवं वारहमासे का उल्लेख इन काव्यों में अधिक मिलता है। कहीं कहीं प्रकृति के कामोद्दीपक स्वरूप का भी चित्रण हुआ है। नायिका इन्द्रावती के अन्तर में काम भावना का उदय फाग के दिनों में हुआ था। इसी प्रकार इन्द्रावती और राजकुंवर का संयोग हो जाने पर कवि ने प्रकृति के कामोद्दीपक स्वरूप की ही व्यञ्जना की है।

विरहवर्णन में चेतनाचेतन भेद को मिटाकर 'उन्माद' की जिस अवस्था का वर्णन होता रहा है उसके अतिरिक्त इन कवियों ने अचेतन में भी सहानुभूति की स्थापना की है। उन्होंने सामान्य हृदयतत्व की सृष्टिव्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी, सभी को एक जीवनसूत्र में बद्ध देखा है। वसुमती का विरह संदेह हुदहुद पक्षी इधी सहानुभूति के कारण ले जाता है। इन्द्रावती में राजकुंवर की विरह-कथा को तोता ध्यान से सुनता है और संदेश पहुँचा देता है।

विरह की स्थितियों एवं अवस्थाओं का शास्त्रीय विवरण इन काव्यों में अधिक नहीं मिलता है। केवल कवि नूरमुहम्मद ने इन्द्रावती में इसका उल्लेख किया है।

१. सुन रे चातक चातुर पाखी, तू केहि सोग न लागत आखी।

नूरमुहम्मद इन्द्रावती।

इन सभी कवियों ने षट्श्रुतु एवं वारहमासे का वर्णन विरह के उद्दीपन के रूप में किया है, यद्यपि ये वर्णन संयोग के उद्दीपन रूप होकर भी हो सकते हैं, किन्तु केवल नूरमुहम्मद को छोड़कर किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इन्द्रावती की कथा के उत्तमार्ध में वारहमासे का इसी रूप में वर्णन है, किन्तु वह मार्मिक एवं हृदयद्रावक नहीं है, नायिका या नायक की भावना के साथ पाठक की भावना का तादात्म्य नहीं हो पाता।

सूफ़ी प्रेमाख्यानों में आधा हुआ प्रकृति वर्णन अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। प्रकृति का वर्णन या तो उद्दीपन की दृष्टि से है या रहस्यवादी भावनाओं के स्पष्टीकरण के लिए। केवल रूढिपालन के लिए भी कवियों ने इसका परिचय सरोवर, उपवन, जलक्रीड़ा आदि के वर्णनों में किया है। षट्श्रुतु एवं वारहमासे की गणना हम उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत ही करेंगे। इन वर्णनों में कवि एक ओर तो प्रकृति के शोभोपकरणों का निर्देश करता है दूसरी ओर उनका नायिका से भाव-साम्य या विरोध प्रदर्शित करता है। जिन जिन वस्तुओं से प्रेमी का सम्पर्क रहना है, प्रिय वियोग में वे अत्यन्त दुःखद हो जाती हैं। इन वर्णनों में कवि का भारतीय जीवन से परिचय भी स्पष्ट होता है। कार्तिक और फागुन महीने में ये कवि दीवाली और होली का वर्णन करना नहीं भूलते हैं।

विभिन्न श्रुतुओं के प्रकृति-सौन्दर्य एवं उत्सवों को देखकर वियोगी को अपने अभाव का स्मरण हो आता है तथा उसे सभी सुखद कार्य व्यापार दुःखद ज्ञात होते हैं। वे सुखद वस्तुयें उसकी पूर्व स्मृतियों को जाग्रत करके विरह को उद्दीप्त कर देती हैं। 'चन्द्रकला' फागुन में फाग और धमारी की धूम देखकर चिढ़ जाती है।

ना मोहि भावै फाग धमारी, आग लगै देखत पिचकारी।

शेख रहीम : भाषा प्रेमरस।

वसन्त श्रुतु के सौन्दर्य एवं छटा को देखकर इन्द्रावती को अपने 'भ्रमर' एवं सुखद जीवन का स्मरण हो आता है और वह कहती है :—

श्रुतु वसन्त नौतन वन फूला, जहँ तहँ भौर कुसुम रंग भूला।
आहि वहाँ सों भौर हमारा, जेहि विनु नाहि वसंत उजारा ॥

नूरमुहम्मद : इन्द्रावती।

इसी प्रकार चित्रावली भी, बादलों की घटा एवं बगुलों की श्वेत पंक्ति को अपना वैरी समझती है। श्रीपंचमी के उत्सव में सब लोग आनन्द मग्न हैं किन्तु पति के वियोग में चित्रावली का वियोग द्विगुणित हो गया है :—

वाढी दिवस दुख तन बाढा, बरवस जीउ जाह नहिं काढा।
सिरी पंचमी ग्वेलै लोगू, मोहि विनु कन्त दून भा सोगू ॥

उसमान • चित्रावली।

जुलैखा भी यूसुफ वियोग में प्रकृति सौन्दर्य से अपनी भावनाओं की उद्दीप्त पाती है :-
भवन वियोगिनि काटै खाई, देखि देखि यह समै सोहाई ।

परहि जो आसू भूमि पर छूटी, रँग चली जस वीर वहूटी ॥
शेख निसार . यूसुफ जुलैखा ।

अग्रहन में दिन घटता रहता है और रात्रि-अवसान वृद्धि पाता है, मधुमालती भी अपने सुख को इसी प्रकार घटते एवं रात्रि को वृद्धि पाते देखती है ।

सुख दिन भँति घटत तन जाई ।
दुख औ निस तिल तिल अधिकाइ ॥
मंभन : मधुमालत ।

कार्तिक में दिवाली के पर्व पर सब दीपक जलाते हैं, जुआ इत्यादि खेलते हैं, किन्तु चन्द्रकला प्रीत का जुआ हार चुकी है अतः उसे दिवाली का त्योहार सुखद नहीं श्रात होता, वह दीपक का प्रकाश केवल प्रियतम की वाट निहारने के लिए ही करती है:—

कार्तिक तकूँ मैं पी की वाटा, दिया वाट हेरों मैं घाटा ।
प्रीत जुआ जिव खेल के हारी, कस भावै मोहि दिया दिवारी ॥

कहीं कहीं प्रकृति एवं वियोगी की दशा में साम्य भी परिलक्षित होता है । सावन में जिस प्रकार वर्षा की झड़ी लगी है उसी प्रकार चन्द्रकला के नेत्रों से आसुओं की झड़ी लगी है :—

सावन झड़ी आस की लागी, चोली चीर चुनर भइ दागी ॥
शेख रहीम भाषा प्रेमरस ।

विरोध और साम्य दोनों ही स्वरूपों का परिचय कवि एक ही पंक्ति में बढ़ी सफलता से करता है :—

पिय विनु जिव हिंडोल अस भूले, पड़े फुहार वान अस हूले ।

चित्रावली को प्रकृति के कार्य व्यापारों में, अपने प्रति सहानुभूति दिखाई देती है । वन और पर्वत उसके विरह के साक्षी हैं । कोयल और पपीहे की पुकार उसके हृदय की पुकार है —

जो न पसीजहि जिउ मोरे माली, पूछ देखु गिरि कानन साखी ।
करै पुकार मंजोरन गोआ, कुहिक कुहिक वन कोकिल रोआ ।
गयो सीखि पपीहा मम बोला, अजहूँ धोकत वन वन बोला ।
उड़ा परेवा सुनि मम वाता, अजहूँ चरन रक्त सम राता ।
वनसपती सुनि विथा हमारी, वरहैं माम होइ पतभारी ।
दारिम हिया फाट सुनि पीरा, पै पिय तोर न दया सरीरा ।

रोय रक्त घुमची भई दुखी, तजी न वोल रही करमुखी ॥
 अग्रहन जाइ घटे तन मोरा, जिउ काँपै औ लेय हिलोरा ।
 शेख रहीम : भाषा प्रेमरस ।

प्रकृति की वही वस्तुयें जो संयोग में सुखद होती हैं वियोग में दुखद हो जाती हैं ।
 वर्षा की फुहार विरहाग्नि में धी के सदृश है :—

दूभर ऋतु जव पावस लागी, धन वरसे पिउ हम तन लागी ॥
 नूरसुहम्मद : इन्द्रावती

ग्रीष्म ऋतु में, हर स्थान का जल शुष्क होगया किन्तु जुलेखा के नेत्रों का पानी प्रवाहित हो रहा है । फागुन के पतझड़ को चैत में नवीन पत्रावलिया प्राप्त हुई, किन्तु चित्रावती का सौभाग्य न जागा:—

फागुन हते जो तरु पतझारी, ते सब भये चैन हरियारी ।
 मोहे पतझार जो भा बिनसाई, सो न सखी भोला श्रवताई ॥
 उसमान . चित्रावती

सूखि समंद्र गये रवि तेज, सूखि गये सरिता जलधारी ।
 सूखि गये पुहुमी पति मदिल, सूखि गये जल मेघ सुखारी ॥
 सूखहि कूप तड़ाग लता द्रुम, वेलि वली वन औ फुलवारी ॥
 सूखहि निसार अग्वुनल, नाहिंन ये अखियान दुखारी ॥
 निसार . यूसुफ जुलेखा

ग्रीष्म में प्रकृति एवं विरह दोनों की तपन का अनुभव करके इन्द्रावती अभिलाषा करती है कि:—

होत भलो होतिउ जरि छारा । देह चढावत राखु प्यारा ॥

चित्रावती भी इसी प्रकार प्रकृति के उल्लासमय स्वरूप एवं सुखद वातावरण को देखकर अभिलाषा करती है कि उसका प्रिय भी प्रेम के वशीभूत होकर घर लौट आये तो चित्रावती के घर भी मंगलचार हो :—

हिमरितु यह विरहानल वाढा, कन वाजु दुत नाव न काढा ।

बुधि न रही सुधि सब गई, जीव सहे दुख केत ।
 मोरे मंगलचार तव पिउ आवे करि हेत ॥

प्रकृति के इस उद्दीपन स्वरूप के अतिरिक्त वियोग की दशाओं एवं अवस्थाओं का उल्लेख भी सूफी काव्य में यथास्थान मिलता है । यद्यपि इन कवियों ने जिस प्रकार पटुऋतु एवं वारहमासे की चर्चा अपने काव्य में अनिवार्यतः की है, उसी प्रकार इन वियोग

दशाग्रों एवं अवस्थाओं का उल्लेख निश्चयपूर्वक नहीं किया है। विरह की व्याप्ति का वर्णन करना इन्हें अभीष्ट था, किन्तु उमकी शास्त्रीय विवेचना नहीं। वियोग शृंगार की मान्य दस दशायें इस प्रकार हैं.—

अभिलाषा, सुचिन्ता, गुणकथन, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप ।
उन्माद, व्याधि, जड़ता भये, होत मरण पुनि जाय ॥

अभिलाषा :

अभिलाषा वियोग दशा की प्रथम श्रेणी है। प्रिय मिलन की इच्छा को अभिलाषा कहते हैं। इसका बहुत ही संक्षिप्त वर्णन कवि नूरमुहम्मद ने किया है :—

‘चित्तध्यान प्रीतम पर राखा, प्रेम वढेउ अभिलाखा,’

चिन्ता :

चिन्ता में विरह की मात्रा एवं दर्शन लालसा बढ जाती है—

चिन्ता कथन वीच धन परी, चिन्ता करै घरी औ घरी ।
केहि उपकार दरस वह पावउं, केहि उपकारी के ढिग जावउं ॥

नूरमुहम्मद . इन्द्रावती

गुणकथन :

मिलनेच्छा पूर्ण न होने पर, प्रिय के गुणों का कथन ही जीवन का आधार बन जाता है। गुणकथन अभिलाषा का व्यञ्जक है :—

धन कहं अन्तरपट भयेउ, गगन ऊँच महि नीच ।
छाँड़ि सकल धंधा कहं, परि गुणकथन वीच ॥
वह रावल जग वीच नेवेला, मन परान कहं कीन्हा चेला ।
वह विदग्ध सुकुमार पियारा, रूप गगन सविता उजियारा ॥

इन्द्रावती . नूरमुहम्मद

स्मृति :

स्मृति में और सब कुछ भूलकर केवल प्रिय का स्मरण और ध्यान अवशेष रह जाता है। हंस जवाहिर के विरह में इसी प्रकार स्मृति निमग्न हो गया था:—

कहाँ सो वह शीतल कैलासा, कहीं सो सेज सुरन वह वासा ।
कहाँ सो मीठे अधर अमोला, कहीं सो शब्द सुहावन वोला ॥
कहाँ हाथ जिन्ह दीन्ह उधारा, कहीं सो गात सोवासक धारा ।

कहाँ ललाट दुहज उजियारा, कहीं वैन निज चाटक डारा ॥
कहाँ सो व्याह कहीं वह भोगू, अब वह पंथ चलू केहि योगू ।
कासिमशाह • हंसजवाहिर

उद्वेग :

उद्वेग की अवस्था में सुखद वस्तुएँ भी दुखद प्रतीत होने लगती हैं :—

हित जो अहे अहित होइ गये, विरहानल अब वैरी भये ।
सीतल हुत समीर तुम संगी, अब सो अनल होइ लागे अंगी ॥
सेज सो आहि हेमचल पूरी, अब सो जरै लाग जनु होरी ।
पुहुप भये कष्टक और सूआ, देखि न जाय हाथ को छूआ ॥
चन्दन जो घनसार मिलावा, जनु करवार सान पर लावा ।

उसमान : चित्रावली

प्रलाप :

प्रलाप में मानसिक उद्वेग वचनों के द्वारा व्यक्त होता है, इस अवस्था का उल्लेख सूफी काव्य में कम मिलता है ।

उन्माद :

प्रलाप में जो उद्वेग वचनों द्वारा व्यक्त होता है वही उन्माद में क्रिया द्वारा व्यक्त होता है :—

उन्माद सों रोवई हंसई, आँसू धरनी मोली खसई ।

उसमान : इन्द्रावली

व्याधि :

व्याधि में मानसिक उद्वेग, शरीर पर अपना अधिकार जमा लेता है । अङ्ग का वर्ण विवर्ण हो जाता है :—

इन्द्रावति सुकुमार कुमारी, भार वियोग परां तेहि भारी ।
प्रेम सरीर वेयाध बढ़ावा, दूवर पीत भयेउ धन काया ।
पान न खाय न पीवै पानी, भूख पियाम भुलायेउ रानी ।
व्याकुल भई रात दिन रोवै, वदन करेज रक्त सों धोवै ।
प्रेम आग तन काठिय जारा, मारै चाहा मन को पारा ।

भइउ दूवरी रानी, भै विवरन तन रंग ।

वैरिन् होइकै लागेउ, व्याध अंग के संग ॥

नूरमुहम्मद इन्द्रावती

जड़ता :

जड़ता में प्रायः आशा छूट ही जाती है, सुध बुध विस्मृत हो जाती है, स्थिरता आ जाती है :—

वैरागिन कीन्हा वैरागू, अनुरागिन कीन्हा अनुरागू ।
सुमिरै सोवत वैठी ठाढी, मन असमर्थ अवस्था बाढी ।
प्रेम भक्कोर भयेउ तेहि सीसू, वैरी बूझै निस रजनीसू ।

सुख भयेउ दुखदायक, सुध मति रहेउ न साथ ।
परी जगत प्रानेसरी, जड़ना केरी हाथ ॥

मरण :

अन्तिम अवस्था है, रस विच्छेद की सम्भावना के कारण केवल मरणासन्न दशा का उल्लेख मात्र किया जाता है —

जियत रहे धेयान के बाहा, ना तो हौत मरन पल माहा ।

नूरमुहम्मद : इन्द्रावती

बहुत से आचार्य मरण के पूर्व 'मूर्च्छा' की एक और अवस्था मानते हैं, इन्द्रावती में इसका भी उल्लेख है:—

उझा वयार सन्देश सुनावा, इन्द्रावति कहं मूर्च्छा आवा ।
सुरंग सुपेती ऊपर रानी, मुरछी छाई सखिय सयानी ॥

भयेउ न चेत रतन कह, किहेन अनेक उपाय ।
जीव हाथ नहिं जाके, को तेहि सकै जगाय ॥

इन दशाओं के अतिरिक्त कुछ सञ्चारी भावों का विशेष उल्लेख सूफ़ी साहित्य में मिलता है जैसे ग्लानि, शंका, असूया, श्रम, दीनता, चिन्ता, जड़ता और गर्व आदिक ।

ग्लानि :

पी रस भानु सो चन्द कर, निकस गयो भिसार ।
सेज फूल फुलवार पर, चटक नखत सब हार ॥
थाई सखी चंद के तीरा, उठि विहान धन चेत शरीरा ।
कत की सेज जाग निश नारी, उठी उर्नीदी मस्त खुमारी ॥

शंका :

यह समुद्र मों वीच ना कोई, का राजा का जोगिय होई।

सखी मोहि समुभावहि, धीरज वाँधि न जाइ ।

अब कैसे प्रियतम मिलै, दीन्हा समुद्र वहाइ ।

असूया :

कौँ लहिं जानि मौरि संग लटा, चित्रावलि जिउ खरके काटा ।

वरजी सखी सहेली सोई, सेज कौँल दरसौ जनि फोई ।

औ पुनि कहहिं जो मोरे गाऊँ, रहै न सरवर कौँल क ठाऊँ ।

रस पंडित मुख नाव जो लेई, अम्बुज निरज वारिज कहि देई ॥

कौँल चितेरा जो लिखै, ततखन कलपो हाथ ।

मुख परगामै नाऊँ, रसना खोउ अकल्थ ॥

श्रम :

सैद थंभ रोमंच तन, आसु पनन सुरभंग

• प्रथम समागम जो कियो शिथिल भा सब अंग ॥

चिन्ता :

प्रीतम प्रीन पियर भइ गाना, शोक भरी मुख आव न वाता ।

दिन दिन अंग जो सूखन लागी, भीग विलास भयो सब आगी ॥

परधट करै न वोलै बयना, दुःख हृदय जस वरसै नयना ॥

दोनता :

कौँल खोलि मुख वचन हुमासा, ऐ दिनकर साई जग आसा ।

अब जौ जग जाना मै तोरी, का जिय जानि रहहु मुख मोरी ।

सधन तिमिर हिय काटै मोरा, मुख देखाउ जग होइ अंजोरा ।

पिता सकलप दीन्ह सजि तोहीं, कस न मय करि हेरहु मोहीं ।

तोरे मया वनस्था मोरी, जो आदरहु तो मै हों तोरी ।

पिता राज सब भया परावा, तोरे मया एक चित लावा ।

मोहिं विनु नाहि नहिं कुछ बूछा, तोहि विनु मोहि कोउ वान न पूछा ॥

सब औगुन गुन एक नहिं, का परगामै आनि ।

मोहि निरगुनहि मानि लै, आप वड़ाई जानि ॥

क्षमता का विचार हम चित्रमत्ता के अन्तर्गत करेंगे। यहाँ हम अलंकार-विधान में अलंकृत एवं भावोत्तेजित करने की क्षमता पर ध्यान देंगे। इस प्रकार की सादृश्य योजना के पूर्व इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जिस वस्तु व्यापार एवं गुण के सदृश वस्तु की योजना की जा रही है, उनमें उस वस्तु-व्यापार या गुणोद्दीपन के द्वारा अभीष्ट रस के आलम्बन बनने की क्षमता है या नहीं। सुन्दर नेत्रों के लिये कमल की पंखुडियों खञ्जन या मृग के चपल नेत्रों की समता, कोई चमत्कार या किसी सहानुभूति का सञ्चार नहीं करती। सादृश्य के इसी योजना के आधार पर तो सूफियों के 'रक्त के आँसू', 'कलेजा निकालना', हथेली की अरुणिमा के लिये 'रुधिररञ्जित' कल्पना में वीभत्सता का आरोप होता है, जो रति भाव के पूर्णतः विपरीत है। इसी प्रकार नायिका की कटि को अति सूक्ष्म प्रदर्शित करने के लिये लौकिक नेत्रों से दिखाई न देने की बात कहना तो ठीक है, किन्तु उसके लिये सिंह की कमर की उपमा देना, वर्त की कमर के समान कहना अधिक उपयुक्त नहीं ज्ञात होता। सादृश्य योजना करते समय प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत दोनों के सम्बन्ध में कवि को केवल रूप का ध्यान न रखकर, गुण एवं स्वभाव का ध्यान रखना भी आवश्यक है। तात्पर्य यह कि सादृश्य-योजना में भावप्रेषण की क्षमता होना आवश्यक है।

इन सूफी कवियों ने अपने अप्रस्तुत विधान में अधिकांश परम्परागत सादृश्य योजनायें की हैं तथा रसात्मक प्रसंगों में अधिकांश भाव के अनुरूप अनुरञ्जनकारी अप्रस्तुत की ही योजना की है। इन परम्परागत उपमानों में कुछ अवश्य ऐसे हैं जिनसे भावोत्तेजना में बाधा उपस्थित होती है, जैसे गले की सूक्ष्मता के वर्णन में उसके अन्तर्गत पीक का सञ्चार दिखाई देना, मास, रक्त एवं मजा के द्वारा दुःख प्रदर्शित करना, जाघों की उपमा कदली वृक्ष से न देकर हाथी की सूँड़ से देना।

किसी-किसी सूफी कवि ने अपने पुरातन आग्रह या मजहबी आग्रह के कारण भारतीय जीवन और साहित्य से परिचित उपमानों की योजना न करके, फारसी का अनुकरण किया है। हम पीछे कह आये हैं कि अलंकारों की योजना में कवि एवं पाठक दोनों की सांस्कृतिक चेतना योग देती है, अतः ऐसे उपमानों की योजना जिसका परिचय पाठक को न हो कवि को न करनी चाहिये। कवि नूरमुहम्मद ने अपने काव्य में नेत्र के उपमान स्वरूप नरगिस का ही प्रयोग किया है। भारतीय साहित्य परम्परा एवं प्रकृति उपकरणों में ऐसी अनेक वस्तुएँ हैं जो नरगिस की अपेक्षा नेत्र के सौन्दर्य, आकर्षण एवं दीर्घता को सफलता से पाठक तक प्रेषित करती हैं। 'नरगिस' पुष्प से अधिकांश भारतीय पाठक का परिचय नहीं है, भारत में 'नरगिस' ऐसी गोल आँखें होती भी नहीं।

अगाशितात्वलंकारा भन्तव्या फटकादिवत्

ध्वन्यालोक

अगीकरोति य काव्य शब्दार्थावनलंकृती ।

असौ न मन्यते कस्मात्तुव्यामनलं कृतो ॥

चन्द्रालोक १ । २

इन सूफी कवियों ने, वाक्वैद्य दिखाने वाले अलंकारों का प्रयोग अधिक नहीं किया है, न ही इन कवियों को काव्य के क्षेत्र में चमत्कार प्रदर्शन की इच्छा ही थी। सूफी दङ्गलों में करामात का अपना विशेष स्थान है, यही कारण है कि इनके काव्य में अर्थालंकारों की प्रधानता है। शब्दालंकारों की ओर उनकी यह निरपेक्षता खटकने लगती है। श्लेष, अनुप्रास ऐसे साधारण शब्दालंकारों का प्रयोग अधिक हुआ है। अर्थालंकारों में उत्प्रेक्षा, रूपक उपमा, उल्लेख, सन्देह, परिकराकुर, अतिशयोक्ति, अनन्वय आदि अलंकारों का ही प्रयोग अधिक है। शब्द की लाक्षणिक एवं व्यंजना-शक्ति का प्रयोग इनके काव्यों में प्रचुर है, इनकी यह व्यंजना परमार्थ तत्व की ओर है और समासोक्तियों की सफलता में सहायक है।

उपमा :

अर्धचन्द्र सम भाल सोहाई, रेखा तीनि दिष्ट मोहि आई ।

तद्रूप :

जोगी भेष न सकहुँ सराही, गोपीचन्द दूसरो आही ।

हेतुत्प्रेक्षा :

दिर्गन हरा मान मृग केरा, मन लजाइ वन लीन्ह वसेरा ।
चाल गयन्द देखि मन हारा, तेहिं ते शीश चढावै छारा ।
शुक सौं नासिक देखि लजाना, का परवत पर कीन्ह पयाना ।

इन्द्रावति ह्य लिखत कै, भा विरंच मतवार ।

मसि लागेउ, लेखनी गिरेउ, सोभा मै अधिकार ॥

खड्ग वान पे खड्ग न होई, वह सौं कमल सर न न कोई ।

कही-कहीं सादृश्य विधान में वीभत्सता भी आ गई है, जैसे हाथ और अंगुलियों के विवरण में मूंगफली एवं हृदय निकालने का प्रसङ्ग :—

कंबल फूल नस दोनों हाथा, औ मेहदी राची रङ्गराता ।

अंगुरी पहिरत कनक अंगूठी, जग का प्राण लीन्ह तेहि मूठी ।

भय तेहि से अंगुरी रतनारी, मनहुँ रक्त महँ वोर निकारी ।

मूंगफली अंगुर सवै, रक्त जोइ रतनार ।

जानो हियरा खोल के, लीनेसि प्राण निकार ॥

इसी प्रकार कमर की उपमा में, सिंह एवं चीते की कमर की सादृश्य योजना भी परम्परागत होते हुये भी हृदयग्राही नहीं है.—

बोच ते जान है दुइ आधी, केहि विधि चलै ठाढ सत वाधी ॥
केहरि सिंह हारि पुनि चोता, सबकी लंक नारि वह जीता ॥
लंक मृग केरी जस कीन्हों, तेहि में अधिक दई वह दीन्हों ॥

इन सादृश्य योजनाओं के आधार पर सूफी काव्य को केवल रूढिवादी नहीं कहा जा सकता । कहीं कहीं उपमानों की सफल संयोजना सारा अन्तर्भाव स्पष्ट करने में समर्थ है ।

समुद्र में पड़ी सोप बराबर ऊपर मुह किये स्वाति वृद्ध की प्रतीक्षा करती है । वर्षा की प्रत्येक वृद्ध उसमें मोती बनकर नहीं समा सकती, उसी प्रकार 'जवाहिर' रानी हंस की प्रतीक्षा में है.—

भग जोवत वीते दिन राती, समुद्र माझ जल सीप सुवाती ।

एकात्मा का कितना हृदय ग्राहक वर्णन इन पंक्तियों में है ।—

गई सो लाग हिये सिमटाई, जेहि विधि फूलन वास सुहाई ।

कहीं भी अप्रचलित अलंकारों का प्रयोग नहीं हुआ है । कवियों का आग्रह, अलंकार भरती की ओर न होकर भाव प्रदर्शन करने का है । जिन अलंकारों का अधिकांश प्रयोग हुआ है वे हैं—

रूपकातिशयोक्ति :

जेहि ते मूदि गई विकसाऊँ, सो तुमते मैं वरणि सुनाऊँ ।

रूपक :

जोवन सिन्धु माह तन, भाजल कली समान ।
खिन बिलात खिन प्रगटत, व्याकुल रहत परान ॥

व्यतिरेक :

है मनोरमा जगत कर सोई, है ससि जौ ससि बोलत होई ।

हेतुत्प्रेक्षा :

इन्द्रावनि दृग लिखति के, भा विरंच मनवार ।
मसि लागेउ लेखनि गिरेउ, सोभा भै अधिकार ॥

अनुप्रास :

पैठिहु जब जल भीतर रानी, पानिपु पायउ तारा पानी ।
मुलैनी भूलेहु करत नहानू, लहकि चहेउ चुम्वै अघरानू ॥
इन्द्रावती

सन्देश :

दसन बीज दाड़िम को, की मोती लर होडे ।
की हीरा की नपत है, चमक बीज अस होय ॥

यमक :

जो मरजिया सो भा मरजिया, मोती लिया दिया भा दिया ।

दृष्टान्त :

दिये बहुत दुख सन्त कहं, करै बहुत उद्धार ।
जैसे कंचन कीजिये, खरा अगिन महँ डार ॥

उल्लेख :

कोउ कहै अहै नम राजा, सोहै तहवा जोत विराजा ॥
कोउ कह अहै दिनेस सोहावा, गरत हेत कालिन्दी आवा ॥
कोउ कहै कि नागिन कारी, दीन्ह छांड़ि मन सोँ उजियारी ॥
कोउ कहै श्याम अलि मोहा, पुहुप पराग आय तेहि सोहा ॥

प्रतीप :

बदन जोति केहि उपमा लावों, ससिहर पटतर देत लजावों ॥
ससि कलंक पुनि खण्डित होई, है निकलंक सपूरन सोई ॥

छन्द विधान :

सूफ़ी कवियों ने लगभग अपने सभी प्रेमाख्यानों में दोहा-चौपाई छन्द का प्रयोग किया है। केवल कवि नूर मुहम्मद ने दोहे के स्थान पर बरवै का प्रयोग किया है। कवि नसीर ने पटपटतु वर्णन के अन्तर्गत कवित्त सयैये का प्रयोग किया है, इन थोड़े से छन्दों के अनिर्दिष्ट मुक्तक काव्य में भूलने, कुण्डलिया एवं फारसी बजनों पर लिखे गये पट पाये

जाते हैं। 'कथा कामरूप' प्रेमाख्यान की रचना मित्र छन्द में हुई है, आदि से अन्त तक पूरा ग्रन्थ एक ही छन्द में लिखा गया है।

जान कवि ने यद्यपि प्रेमाख्यानों में तो दोहे, चौपाई या चौपई पद्धति का ही अनुकरण किया है किन्तु इसके अतिरिक्त उन्होंने प्लवंगम, सवैये, भूलना, वरवै आदि का प्रयोग भी किया है।

भारतीय प्रबन्ध काव्यों में अनेक प्रकार के छन्दों का प्रयोग होता रहा है। साहित्य-दर्पण-कार ने प्रबन्ध काव्य के एक सर्ग में एक ही छन्द के प्रयोग का नियम बनाया है। अन्त का छन्द अवश्य भिन्न होना चाहिये। और यदि कवि अपनी बहुशता प्रदर्शिन करना चाहता है तो वह एक सर्ग में कई प्रकार के छन्दों की योजना कर सकता है। इन सूफ़ी कवियों ने चरितकाव्य-परम्परा के अनुसार दोहे चौपाई के क्रम में ही अपने प्रबन्धों की रचना की। दोहे, चौपाई के क्रम में साहित्य रचना की परम्परा अपभ्रंश कालीन है। सहजयानी सिद्धों, सरहपाद एवं कृष्णाचार्य के ग्रन्थों में दो दो या चार चार चौपाइयों के बाद दोहा लिखने की प्रथा पाई जाती है। अपभ्रंश काव्य में दस बारह अर्धालियों के बाद धत्ता, उल्लाला आदि लिख कर प्रबन्ध लिखने का नियम था। अपभ्रंश के पञ्चटिका या अड्डिल्ल में यह अन्तर है कि चौपाई के अन्त में दो गुरु होने चाहिये। किन्तु अड्डिल्ल या पञ्चटिका के अन्त में मात्रा लघु ही होती है। अतः दोहे चौपाई में चरित या प्रबन्ध लिखने की पद्धति सूफ़ियों को परम्परा से प्राप्त हुई है। इन सूफ़ी कवियों ने चौपाई को द्विपदी ही समझा था, यही कारण है कि इनके प्रबन्धों में पाँच, सात या नौ अर्धालियों के बाद दोहा मिलता है, किन्तु कवि शेख रहीम में यह दोष नहीं पाया जाता, ये चौपाई के चार पद मानते हैं। यही कारण है कि शेख रहीम ने भाषा प्रेमरस में चार चौपाइयों के बाद दोहा प्रयुक्त किया है। कुछ कवि हैं जिनकी अर्धालियों में कोई क्रम नहीं है, जैसे 'अलीमुराद' कवि निसार, शाहनजफ अली सलोनी, आदि कवियों के ग्रन्थों में दोहे के मध्य अर्धालियों की संख्या घटती बढ़ती रही है।

सूफ़ी प्रेमाख्यान शृंगार-रस प्रधान काव्य हैं, यद्यपि इनमें कहीं कहीं वात्सल्य, वीर, एवं करुण रस का संयोग भी हुआ है, किन्तु उसकी सागोपाग प्रक्रिया नहीं है।

अलंकारों की योजना स्वाभाविक है, कहीं भी अतिचमत्कार या बहुशता का प्रदर्शन नहीं है, एकाध स्थलों पर फारसी उपमानों का प्रयोग भी हुआ है, तथा कहीं कहीं साम्य प्रदर्शन में अति हो गई है, किन्तु ऐसे स्थल कम हैं, अधिकांश सादृश्य मूलक अलंकारों का ही प्रयोग है।

छन्द प्रयोग में जान कवि ने बहुशता का परिचय दिया है। प्रेमाख्यानों में लगभग सभी ने दोहे चौपाई का क्रम निबाहा है। नूर मुहम्मद ने केवल अनुराग वॉसुरी में दोहे के स्थान पर वरवै का तथा जान कवि ने चौपाई के स्थान पर चौपई का प्रयोग किया है। कवि नसीर ने पट्मृतु वर्णन में, कवित्त, सवैया एवं सोरठे का प्रयोग किया है, स्फुट काव्य में पद, साखिया, भूलना एवं कुरडलियों का भी प्रयोग मिलता है।

भाषा तथा शैली

काव्य-रचना का उद्देश्य तभी पूर्ण होता है जब उसका सम्मान पाठक एवं श्रोतावर्ग में हो। प्रत्येक युग-दृष्टा कवि एवं विचारक अपने समय के समाज एवं काव्य परम्पराओं का ध्यान रखता है। कवि की रचना समाज के जिस वर्ग में प्रिय होती है, वह तदनुकूल भाषा प्रयोग करने का प्रयास करता है। विद्यापति का पाठक नागर, एवं तुलसी के प्रबन्ध का आदर करने वाला पाठक बुध है^१। सूफ़ी कवियों की विशेष शिक्षा-दीक्षा का उल्लेख यद्यपि उनके काव्य में नहीं मिलता फिर भी उनके काव्य को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये कवि साहित्यिक परम्पराओं से परिचित होते हुये भी अपनी रचना जन साधारण के लिये करते थे। उनके 'इश्क हकीकी' को हृदयगम करने वाला पाठक साधारण वर्ग का होते हुये भी बुद्धि में साधारण नहीं है, यह हो सकता है कि वह विशेष शास्त्र पारंगत न हो फिर भी है वह परिडत ही^२।

संस्कृत के स्थान पर, भाषा की प्रतिष्ठा १३वीं १४वीं शताब्दी में ही प्रारम्भ हो गई थी। अमीर खुसरो ने व्यावहारिक प्रयोगों के अतिरिक्त, मनोरञ्जन एवं मनोविनोद के

१. बालचन्द्र विज्जावड् भाषा दुहु नहि लग्गइ दुज्जन हासा ।
जे परमेस्वर सिर सोहइ, ईं गिच्चइ नागर मन मोहइ ॥
विद्यापति कीतिलता ।
जे प्रबन्ध नहि बुध आदरहों, ते श्रम वृथा वादि कवि करहीं ।
तुलसीदास : रामचरित मानस ।
२. मैंं पुहि अरथ पंडितन्ह वृष्ठा, कहा कि हन्ह किलु आँर न सूष्ठा ।
तथा ।
जायस नगर धरम अस्थान, तहा आइ कवि कीन्ह वखान् ।
अँ चिनती पंडितन सन भजा, दूट खँवारहु, नेरवहु सजा ॥
जायसी पद्मावत ।

लिये 'भाषा' को उपयुक्त समझा। विद्यापति ने भाषा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। कबीर आदि निर्गुनिये सन्तों, एवं सूर तुलसी आदि सगुण भक्तों को जनभाषा में काव्य रचना अभीष्ट थी। तुलसी ने स्पष्ट ही 'भाषा भनिति भूति भलि सोई, सुरसरि सम सवकर हित होई' कहकर इसी सर्वहितकारिणी भाषा या व्यावहारिक बोली की सराहना की है। जान कवि ने अपने ग्रन्थ 'कंवलावती' में जनबोली की महत्ता प्रतिपादित की है। उनका कथन है कि संस्कृत भाषा दुरूह है। भाषा या जनबोली अपनी बोधगम्यता एवं सरलता के कारण रसचर्चणा में सर्वाधिक सहायक है। स्वाभाविक रूप से कविमुख द्वारा निःसृत होने वाली भाषा ही काव्य भाषा का स्वरूप है।

जन भाषा के अभ्युदय के साथ ही देवनागरी, मैथिली आदि स्थानीय लिपियों का प्रयोग भी होता रहा है फिर भी फारसी लिपि या नस्तालेख में अपने ग्रन्थों की रचना करना इन कवियों की सुविधा का ही द्योतक है। इसके आधार पर यह कहना कि आलोच्य काल में फारसी लिपि ही प्रधान थी, निरर्थक है।

हिन्दी के सूफ़ी साहित्य की भाषा का रूपनिर्धारण करने में कुछ कठिनाइयाँ हैं। उनमें से अधिकांश का कारण इन काव्यों की रचना फारसी लिपि में होने के कारण है। फारसी लिपि भारतीय भाषाओं के लिये सर्वथा अवैज्ञानिक घोषित कर दी गई है, यही कारण है की अधिकांश ग्रन्थों का अभीतक सम्पादन नहीं हो सका। ग्रन्थों की ठीक-ठीक प्रतिलिपि करना भी सहज नहीं है। साधारणतः प्रतिलिपिकार सूफ़ी प्रेमाख्यानों के विषय एवं परम्पराओं से क्रमशः अपरिचित होते गये, अतः उनके द्वारा भूलें होना स्वाभाविक था।

सम्पूर्ण सूफ़ी साहित्य उपलब्ध नहीं है। एक ही कवि की सभी रचनायें प्राप्त नहीं हैं, अतः उस कवि की भाषा का क्रमिक अध्ययन नहीं हो पाता। इतना होते हुये भी भाषा सम्बन्धी एक सुविधा अवश्य है कि इन कवियों ने अपने समय का स्पष्ट निर्देश कर दिया है। लगभग सभी प्रेमाख्यान जन भाषा अवधी के ठेठ बोली रूप या ब्रज भाषामिश्रित स्वरूप में लिखे गये हैं। 'कथा कामरूप' की रचना अवश्य खड़ी बोली में की गई है जिसका स्वरूप भी लोक भाषा का है।

१. सुष आनी जो जिय में आई, भाषा जो आनी सो आनी।

रहबो बागर भाउ, किम भाषा आवै भली।
पै दिन ढिग ज्यों साम् तैसी भाषा उकति ढिग।

उकति विसेष साबु कै जानहु, भाषा जो आवै सो मानहु।
ससकित ग्वाररे मिलायो, मध विलायकै साज बजायो।
यह कवल चामें कठिनाई, ताने कहु यह जुगति जनाई।

जान कवि कंवलावती।

इन सूफ़ी कवियों ने या तो भाषा सरलता के कारण अथवा के शुद्ध बोलचाल के स्वरूप का प्रयोग किया है, या प्रेमकथा को भाषा में कइ कर उसे सर्वजनग्राह्य बनाने के उद्देश्य से प्रेरित होकर। वचन का मूल्य इन सूफ़ी कवियों की दृष्टि से बहुत है। ये वचन की अमरता में ही विश्वास करते हैं एवं और इस लिये भाषा में प्रेमकथा के महत्व एवं अमरत्व की चर्चा करके अमर होना चाहते हैं, यशलाभ करना चाहते हैं^१। कहा भी है कि 'कविहि अरथ आखर वल साचा', सूफ़ियों का अर्थ उनकी सरल भाषा में पूर्ण सुरक्षित है।

अपभ्रंश की साहित्यिक परम्पराओं पर दृष्टिनिक्षेप करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि दो प्रकार की परम्पराये उत्तर भारत में प्रचलित थीं, पूर्वी और पश्चिमी अपभ्रंश को मागधी का पूर्व रूप कहना अधिक उपयुक्त होगा। राहुल नाट्टकृत्यायन के विचारानुसार बारहवीं तेरहवीं शताब्दी में द्रविड़ भाषा भाषी आन्ध्र, तमिल, केरल और कर्नाटक को छोड़कर, भारत के सभी प्रान्तों की एक सम्मिलित भाषा थी^२। पूर्वी एवं पश्चिमी अपभ्रंश का भेद बना रहने पर भी पश्चिमी अपभ्रंश की यही परम्परा अधिक प्रचलित हुई, तथा पूर्वी अपभ्रंश की परम्परा विरल होनी गई। इसका स्वरूप बोलियों एवं लोक साहित्य में सुरक्षित रहा। इन सूफ़ी साधकों ने पौराणिक आख्यानों के बदले इन्हीं लोक प्रचलित कथानकों का आश्रय लेकर ठेठ अथवा में जनता तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास किया है। आख्यानों की यह परम्परा 'अथवा' भाषा की एकान्त निधि है किन्तु मानस की अथवा एवं सूफ़ी कवियों की अथवा में अन्तर है। एक में साहित्यिक परम्पराओं एवं स्वरूप का पालन है दूसरी में साधारण जनजीवन की बोली का प्रतिनिधित्व है।

अधिकांश हिन्दी के सूफ़ी कवि अथवा प्रान्त के रहने वाले थे, अतः काव्य में अथवा का प्रयोग उनके लिये स्वाभाविक था। अथवा का अर्थ होता है अथवा या अथवा-विषयक, किन्तु साहित्य या भाषा के क्षेत्र में जब अथवा का प्रयोग होता है तब इस शब्द का अर्थ होता है अथवा प्रवेश के अन्तर्गत बोली जाने वाली बोली या विभाषा। हिन्दी की प्रादेशिक बोलियों में अथवा का विशेष स्थान रहा है।

भाषा सर्वे के आधार पर अथवा, फैजावाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ, उन्नाव, लखीमपुर, खेरी आदि जिलों में बोली जाती है। 'लिंग्विस्टिक सर्वे आफ इन्डिया' के अन्तर्गत सर जार्ज ग्रियर्सन ने सबसे अधिक अथवा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या का उल्लेख किया है। डा० बाबूराम सक्सेना ने 'इवाल्याशन आफ अथवा में अथवा की परिधि निर्धा-

१. वचन अरथ है वाच समाना. कवि मोता है भँवर समाना।

नूरमुहम्मद इन्द्रावती पृ० २।

वचन समान सुधा जग नहीं, जेहि पाए कवि अमर रहौहीं।

उममान, चित्रावली पृ० १२

२. हिन्दी काव्य धारा राहुल नाट्टकृत्यायन।

रित करते समय इसके उत्तर में इसे नैपाल की भाषाओं, पूर्व में भोजपुरी, दक्षिण में मराठी, पश्चिम में पछाहीं हिन्दी कन्नौजी एवं बुन्देलखरडी भाषाओं की स्थिति मानी है।

कालक्रमानुसार अवधी अर्धमागधी प्राकृत से विकसित जन-भाषा मानी गई है। अर्धमागधी, जैसा कि शब्द विशेष स्पष्ट करता है, शौरसेनी प्राकृत की अपेक्षा मागधी प्राकृत के अधिक निकट थी, परन्तु तत्प्रसूत अवधी धीरे धीरे शौरसेनी की पुत्रियों, ब्रज एवं खड़ी बोली से प्रभावित होती गई और इसी प्रभाव की दृष्टि से अवधी दो भागों में विभाजित की जा सकती है :—

१. पश्चिमी अवधी (वैसवाड़ी) : भौगोलिक दृष्टि से ब्रज, खड़ी बोली के निकट होने के कारण इन बोलियों का पर्याप्त प्रभाव अवधी के इस स्वरूप पर पड़ा है। तुलसी के रामचरित मानस में अवधी के इसी रूप के दर्शन होते हैं।

२. पूर्वी अवधी : पश्चिमी हिन्दी से दूर होने के कारण एवं विहारी बोलियों के सन्निकट होने के कारण यह पश्चिमी हिन्दी, साहित्यिक ब्रजभाषा से कम प्रभावित है। संस्कृत एवं तत्कालीन साहित्यिक बोली के परिष्ठित न होने के कारण, जायसी आदि सूफी कवियों में अवधी के इसी प्राकृत पूर्वी स्वरूप के दर्शन होते हैं। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि अधिकांश सूफी कवियों की जन्मभूमि यहीं थी। जायसी का जायसनगर, कासिमशाह का दरियाबाद, कवि निसार का शेखपुर, ख्वाजा अहमद का बाबूगंज तथा शेख रहीम का जरवल गाव सभी अवध प्रान्त में है। उसमान एवं कवि नसीर का गाजीपुर तथा नूरमुहम्मद का जौनपुर जिले से सम्बन्ध है।

‘मानस’ और सूफी कवियों की भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करने से एक अन्तर और स्पष्ट होता है। तुलसी की कृतिया पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं तथा स्वयं ब्रजभाषा एवं संस्कृत के प्रकाष्ठ परिष्ठित होने के कारण और साहित्यिक परम्पराओं का पालन करते रहने से तुलसी की भाषा जनबोली का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

भारतीय आर्य भाषाओं ने संस्कृत काल में ही भूतकाल क्रियाओं के साथ एक कृदन्त प्रयोग अपना लिया था। कर्तृ प्रयोग में क्रिया कर्म के वचन एवं लिङ्ग के अनुसार बदलती थी। इस कर्म प्रयोग को पश्चिमी भारतीय आर्य भाषाओं ने कृदन्त रूप में ही अपनाया है, जबकि पूर्वी भाषाओं ने, जिसमें अवधी, विहारी बोलियाँ तथा बङ्गाली उड़िया आदि आती हैं, इस प्रयोग को पुरुषवाची प्रत्यय जोड़कर तिङन्त के रूप में बदल लिया है। अवधी का यह विशिष्ट प्रयोग रामचरितमानस में पश्चिमी हिन्दी से प्रभावित है, जहाँकि सूफी काव्य में लगभग पूर्णतः सुरक्षित है। इन रचनाओं में स्थान विशेष की कुछ शब्दावली तथा व्याकरण सम्बन्धी विशिष्ट प्रयोग भी मिलते हैं।

जनभाषा का स्वरूप तद्भव शब्दों के बहुल प्रयोगों पर विशेष रूप से आश्रित है। इन कवियों की भाषा में तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है, केवल कवि नूरमुहम्मद

ने संस्कृत का प्रयोग बहुलता से किया है। नूरसुहम्मद ने भी संस्कृत शब्दों का प्रयोग तत्सम शब्दों में न करके उच्चारण सरल रूप में किया है। इस प्रकार ये अर्थ तत्सम शब्द, लोकरुचि के नायक होकर ही आये हैं।

कुछ अर्थ तत्सम शब्द :—

परसुन	(प्रसून)
सरव	(सर्व)
सिरेयस्	(श्रेयस्)
दिस्टि	(दृष्टि)

पर इन कवियों की प्रवृत्ति अधिकांशतः तद्भव शब्दों की ओर रही है जैसे :—

कमला	कंवला	कौल
सुमिरत	सौरत	
सामने	सौह	

संयुक्त व्यञ्जनों के शुद्ध उच्चारण में कठिनाई पड़नी है, ऐसे व्यञ्जनों के स्थान पर भी इन कवियों ने अर्धतत्सम रूपों का प्रयोग किया है:—

इस्तरिन	(स्त्री),	दिर्गन	(दृगन)
वरती	(व्रती),	परतिहारि	(प्रतिहारी)
सासतर	(शाल्त्र)	आदि ।	

इस प्रकार के प्रयोगों से जहाँ भाषा लोकरुचि की अनुकूलता ग्रहण करनी है, वहीं कुछ अस्त व्यस्त भी हो जाती है। एक ही 'हृदय' शब्द को कवि उसमान ने हिरदै, हिरदय, हिय, हिअ, हियर कई रूप में लिखा है। इसी प्रकार नूरसुहम्मद ने इन्द्रावती में 'तपी' के लिये तपि, तपा, तपिय, तपसि, तपिसी एवं तप शब्द का प्रयोग किया है।

इसी प्रकार सुपन, स्वाप तथा सप का प्रयोग 'स्वप्न' के लिये तथा दिवस, देवस, दोसा का प्रयोग 'दिवस' के लिये हुआ है।

कहीं-कहीं यह उच्चारण सुलभता, अर्थ क्लिष्टता भी उत्पन्न कर देती है, जैसे 'चिन्ता' तथा 'चित्त' दोनों के लिये 'चित्त' का प्रयोग :—

कुसुम सेज जानहु चित्त जोरी (चिन्ता)
(चित्रावली : उसमान पृ० ५०)

चित्त अकुलाइ चलन कहं चाहा (चित्त)
(चित्रावली . उसमान पृ० ५०)

इनमें से कुछ प्रयोगों का उत्तरदायित्व तो फारसी लिपि पर भी हो सकता है।

संज्ञा तथा विशेषण पद :

हिन्दी की पश्चिमी बोलियों में संज्ञा तथा विशेषण पद दीर्घ रूप में मिलते हैं, जबकि अवधी की प्रवृत्ति ह्रस्व पदों की ओर है ।

नारी (हिन्दी खड़ी बोली), नारि (अवधी)
नैना (ब्रज), नैन (अवधी)

अवधी में 'य' एवं 'व' लगाकर एक लम्बा पद भी बना लिया जाता है । नारिया, अहिरवा, घोडवा आदि ऐसे ही शब्द हैं । ऐसे प्रयोग सूफ़ी काव्य में अधिक नहीं मिलते हैं । सर्वनाम में अवश्य जहं तहं के स्थान पर जहवा तहवा का प्रयोग पाया जाता है । विशेषण पदों में निरर्थक प्रत्यय 'क' एवं 'र' लगाकर भी वृद्धि की गई है

कछुक थोरक
हियर हरियर

अपभ्रंश में संस्कृत के अकारान्त पद कर्ता एवं कर्म के रूप में उकारान्त हो गये थे । प्राचीन अवधी तथा ब्रजभाषा में भी सम्भवतः इसीलिये आधुनिक उकारान्त पद कभी-कभी उकारान्त रूप में प्रयुक्त हुये हैं ।

विशेषण पदों में, एक विशिष्ट प्रयोग भी मिलता है, जहाँ बलाघात प्रत्यय 'ही' का योग भी शब्द में रहता है :

१. का जो बहुतै हिन्दी भाखेउं । (अनुराग वॉसुरी, पृ० ८६)
२. इहै समुफ़ि मैं रोइउं । (इन्द्रावती)
३. सवद पाइ इन्द्रावती अधिकौ रही तवाइ ।
चिन्ता मन्दिर कीन्हा अपने मन्दिर आइ ।
(इन्द्रावती पृ० ६५)

जायसी की भाषा का विश्लेषण करते हुये आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है कि 'पारना और 'आछना' क्रिया के रूप, जो कि अब केवल बगाल में ही सुनाई देते हैं जायसी के काव्य में प्राप्त होते हैं । अन्य सूफ़ी कवियों ने भी 'पारना' का प्रयोग किया है, किन्तु ऐसे प्रयोग विरल हैं । 'आछना' का प्रयोग केवल नाममात्र को है ।

१. सीषक एक कहै नहिं पारइ । (इन्द्रावती)
२. तव गढ उंच बखानै पारै । (इन्द्रावती पृ० ८)
३. कहत न पारौं कुंवर बखानू । (अनु० वॉसुरी पृ० ६२)

सकना का भी प्रयोग मिलता है :

१. वरनि न सकौं मीत निर्मलाई । (इन्द्रावती पृ० ८)
२. राखि न सकै कोउ एक घरी । (पुद्गुपावती)

निश्चयार्थक शब्द 'पै' भी जिसका आचार्य शुक्ल जी ने निर्देश किया है यत्र नत्र मिलता है :

जो विधि करै होय पै सोई ।

(कुवरावत : अली मुराद)

संस्कृत की विभक्ति बहुलता का धीरे-धीरे लोप होता गया। विभक्तियों के लोप से पदों में एकरूपता आती गई जिससे कहीं-कहीं अर्थ स्पष्टता में बाधा पड़ती थी। फलस्वरूप प्राकृत काल से ही इन एकरूप पदों में विशेष शब्दों के योग से अर्थ स्पष्ट किया जाने लगा। आधुनिक आर्य भाषाओं के कारक चिन्ह अधिकांशतः इन्हीं प्राकृत काल में जुड़े हुये शब्दों के अवशिष्ट हैं। वैसे भी संस्कृत की मूल विभक्तियों के धिसे रूप भी लगे लिपटे भाषा में चले आ रहे हैं। इस प्रकार अवधी के कारकों को दो भागों में बाटा जा सकना है :

१. संस्कृत की विभक्तियों के संश्लिष्ट रूप।

२. प्राकृत काल से जुड़े शब्दों के धिसे रूप।

प्रथम के अन्तर्गत संस्कृत से विकसित मध्ययुग की 'हि' विभक्ति है। इस 'हि' के विभिन्न रूप 'हिं' या 'ह' कारकों में पाये जाते हैं। कर्ता कारक को छोड़कर, सब कारकों में तुलसी की भाषा में तथा ब्रजभाषा कवियों में यह प्रयोग पाया जाता है, किन्तु कर्ता में इस विभक्ति का प्रयोग इन कवियों की अवधी का विशिष्ट प्रयोग है :

१. राजै कहा जहा मुख होई । (चित्रावली पृ० ४३)

२. विधिनै अपने हाथ जो लिखा होइ तो होइ । (चित्रावली ४८ पृ०)

६. कौलै राता चीर उतारा । (चित्रावली पृ० १३३)

४. धर्मरूप विधिनै उपराजा । (चित्रावली पृ० १८)

इस 'हि' का संश्लिष्ट रूप विधिनाहि > विधिनाइ > विधनै, आदि रूप में स्पष्ट हुआ है। अन्य कारकों में भी इसका प्रयोग मिलता है.—

कुंवर आनि राजहिं जुहरावा (कर्म)

एहि विधि अहनिसि कौलहि जाई (सम्बन्ध) (चित्रावली पृ० १३४)

सक संकोच न एकौ हियें (अधिकरण)

जोतिहि मिलि जोति ठहरानी (अषादान)

सर्वनामों में भी यह 'हि' रूप पर्याप्त मिलता है।

कारक चिह्नों के प्रयोग इस सूफी साहित्य में अत्यन्त मिलते हैं। पूर्वी अवधी की प्रमुख विशेषता 'कर्तृत्व प्रत्यय' 'ने' का सर्वथा अभाव है, क्योंकि पूर्वी हिन्दी की सभी क्रियायें तिङन्त रूप में प्रयुक्त हुई हैं। एकाध स्थलों को छोड़कर 'ने' का प्रयोग नहीं मिलता। यद् 'ने' छापे या प्रतिलिपिकार की अशुद्धि भी हो सकती है।

'विधि ने अपने हाथ जो लिखा होइ नौ होइ'

‘विधि ने’ के स्थान पर ‘विधिनै’ पाठ सम्भव है, जो युक्तिसंगतों ज्ञात होता है, क्योंकि पुरानी ‘हि’ विभक्ति का योग कर्ता में भी होता था, जैसे यह ‘हि’ विभक्ति सभी कारकों में प्रयुक्त की जाती थी। इस प्रकार विधिनाहिं > विधिनाइ > विधिनै कर्ता में इस ‘हि’ का प्रयोग कई स्थलों पर हुआ है —

१. देवहि मन महं परा विचारा । (चित्रावली पृ० २७)
२. राजै राजकाज तजि दीन्हा । (इन्द्रावती पृ० ११)
३. धर्म रूप विधिनै उपराजा । (चित्रावली पृ० १८)

हिन्दी भाववाचक क्रिया के कर्म के साथ जो ‘की’ कारक चिह्न रहता है (उसने राम को देखा) वह भी पूर्वी अवधि में प्राप्त नहीं होता, (ते देखे दोउ भ्राता) ‘रामायण’ तथा (धर्म रूप विधिनै उपराजा) किन्तु इन कवियों ने यत्र तत्र इसका प्रयोग भी किया है।

१. जो वहि मुख को परगट देखा । (इन्द्रावती पृ० १८)
२. सो दीन्हा जिउ को वह दोसू ।

आधुनिक अवधि में इस ‘को’ एवं ‘ते’ का प्रयोग होने लगा है:—

‘जेहि ने वहि मुंह का देखा’

बहुत सम्भव है कि यह पश्चिमी हिन्दी का प्रभाव हो।

सम्बन्ध कारक चिह्नों में यह प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार पुलिग सम्बन्धकारक का चिह्न ‘कर’ और स्त्रीलिग का ‘के’ है। अधिकांश स्थानों पर यही चिह्न प्रयुक्त हुये हैं जैसे :

१. आया मान तपी कर ।
२. रक्त कै धारा ।

पर ‘पितु के राजू’ ऐसे प्रयोग भी उपलब्ध हैं, साथ ही पश्चिमी हिन्दी के प्रभाव स्वरूप स्त्रीलिग ‘की’ का प्रयोग भी पर्याप्त हुआ है।

१. ते सुवहान अली ‘की’ भाखा । (अनुराग बाँसुरी पृ० ८६)

और पुलिग में ‘का’ तथा ‘को’ भी प्रयुक्त हुये हैं। दूसरे रूप ‘कर’ ‘केरा’ (पुलिग) और ‘केरी’ (स्त्रीलिग) भी प्राप्त होते हैं। मात्रा का ध्यान रखने के कारण पुलिग ‘को’ का एक लघुतम रूप ‘क’ भी मिल जाता है। तुलसी ने भी अपनी भाषा में इसका प्रयोग किया है। सर्वनामों में इस प्रकार का प्रयोग विशेष नहीं खटकता (जेहिक, तेहिक आदिक) जब प्रश्नवाचक सर्वनाम ‘का’ (हिन्दी ‘क्या’) के लघु रूप ‘क’ के साथ मिलकर आता है तब अर्थ में भ्रम उत्पन्न कर देता है।

१. हस्ति क भार क गदहा लेई । (चित्रावली पृ० १६)
६. गूंग क सपन भयो मोर लेखा । (चित्रावली पृ० ४०)

लघु करने की प्रवृत्ति न केवल सम्बन्ध कारक तक ही सीमित है वरन् अधिकरण कारक चिह्न ‘मों’ को ‘म’ और अव्यय ‘तो’ का ‘त’ भी हुआ है।

१. अंक म गहो जो हिय सियराई । (चित्रावली पृ० १५५)
२. नगर म होत धरम को काजा । इन्द्रावती पृ० १५)

ऊपर उदाहरण 'हस्ति'क भार क गदहा लेईं' मे दूसरा 'क' 'कि' भी हो सकता है ।

इन कवियों द्वारा प्रयुक्त कारक चिह्न निम्न प्रकार से हैं । 'हि' का प्रयोग तो सभी कारकों में हुआ है जैसा कि आचार्य शुक्ल जी ने भी निर्देश किया है कि यह प्रयोग अपभ्रंश काल से ही चला आ रहा था जो अब नष्टप्राय है शेषः—

कर्ता :

कर्म : कहं (का) के, को ।

करण : सन् से, सों, सेतीं ।

सम्प्रदान : कहं (का) लागि (विद्या लागि) हुते, (मरन हुते)

अपादान : से, ते तैं, (चन्द्रहुते तैं)

सम्बन्ध : कर, कै, की, क, को, केर, केरा केरी ।

अधिकरण : महं (मा) पट, पे, (मो, में) ।

परहि, परदेसे, हिएं, हियरैं में भी अधिकरण का कारक चिह्न लुप्त रहता है ।

सर्वनामों के प्रयोग में उल्लेखनीय बात यह है कि एक ही सर्वनाम के कई रूपों का प्रयोग एक ही स्थान के लिये पाया जाता है ।

उत्तम पुरुष एक वचन में 'मैं' 'हम' तथा बहु वचन में 'हम' 'हम्ह' ।

एकाध स्थल पर व्रजभाषा का हौं (मैं) भी प्रयुक्त हुआ है जैसे :—

हौं आखर होइ चली न साथी । चित्रावली पृ० १७५ ।

हौं तो बही चित्र कर मारा । चित्रावली पृ० ५५ ।

मध्यम पुरुष: एक वचन (तूई, तैं)

मध्यम पुरुष: बहु वचन (तुम, तुम्ह)

प्रथम पुरुष: (ओ, वह, उन, उन्ह, सो)

प्रथम पुरुष. (ता; इह, तिन, इन, इन्ह, यह)

१. ओहि मूरत का चीन्हा ।

२. सो निर्प को भूपनि नाऊँ ।

३. ता मुख केरा ।

४. तिन मग कीन्हि ।

बलाघात (Emphatic Particle) के साथ मिलकर मध्यम एवं उत्तम पुरुष कर्ता के रूप भी त, म रह जाते हैं जैसे तहीं (तूने ही), महीं (मैंने ही) ।

१ तहीं सरग ससि सूर बनावा ।

२. कहेमि मूहँ निकमकै जाऊँ । चित्रावली पृ० १३० ।

३. आठों में मन्त्री एक रहा, राजा माने ताकर कहा । इन्द्रावती पृ० ११२ ।
४. रहित रही इन्द्रियपुर नाजं । अनुरागवाँसुरी पृ० १२ ।
५. बुद्धसेन रह ताको नाउं (था) इन्द्रावती पृ० १२ ।
६. पूंजी रही तइस में लीन्हा (थी) इन्द्रावती पृ० ३० ।
७. आगन वीच रहा जो सोवा ।

सम्भव है कि इस प्रकार के बोलचाल का प्रयोग पहले 'रहता था' से प्रारम्भ हुआ हो पर अब 'था, थी' का ही अर्थ सुस्पष्ट है । 'वह आवा रहा' आधुनिक अवधी में इसका प्रयोग पाया जाता है ।

यहाँ पर इन कवियों के वर्णलोप की चर्चा करना असङ्गत न होगा । कवियों के कुछ प्रयोग अमपूर्ण है :

१. 'कुंवर अंधेरे हा जहं परा'

(वहाँ अंधेरा था जहाँ कुंवर जा पड़ा)

२ 'मैं जस हा तस कीन्ह गुसाइ'

'हा' के पहिले निश्चय ही 'अ' अथवा 'ऐ' रहा होगा क्योंकि दोनों ही 'था' के अर्थ में प्रयुक्त हो सकते हैं । प्रारम्भिक 'र' का लोप अनुमान प्रमाण के आधार पर ठहरता नहीं है अत 'अ' का लोप मानना ही न्यायसङ्गत है ।

'हा' तथा 'ही' का प्रयोग ब्रजभाषा में हुआ है । अतः इन ग्रन्थों में 'हा' का प्रयोग ब्रजभाषा का प्रभाव हो सकता है ।

(१) अकर्मक भूतकाल में हिन्दी क्रियायें कृदन्त हैं और ये कर्ता के अनुसार लिङ्ग, वचन, भेद रखती हैं । पुरुष भेद नहीं रहता है ।

जैसे राम गया, सीता गई (लिङ्ग भेद)

राम गया, राम और सोहन गये (वचन भेद)

राम गया, मैं गया, तू गया (पुरुष भेद नहीं)

पूर्वा हिन्दी की बोलियों की भाँति इन कवियों की भाषा में अकर्मक भूतकाल की क्रियायें कृदन्त नहीं रह गई हैं, प्रत्युत तिङन्त में परिणत हो गई हैं । इस प्रकार क्रिया कर्ता के लिङ्ग वचन भेद के अनुसार तो बदलती ही है, पुरुष भेद के अनुसार भी बदलती है ।

१. गौरी पेस सों वौरी भई (भएउ) अनुराग वाँसुरी पृ० ६१ ।

२. एक सखी आएउ धन ओरा । इन्द्रावती पृ० ३६ ।

३. चले भवानी और महेछ । चित्रावली पृ० १७ ।

४. लगीं साथ आगमपुर वारीं । इन्द्रावती पृ० १८ ।

५. मैं फूल चुनै पर आएउ ? इन्द्रावती पृ० ६ ।

६. आएउं भलो लाभ फुलवारी ।

यहाँ १ २ एवं ३ ४ में लिङ्ग भेद है ।

१ ३ एवं २ ४ में वचन भेद है।

२ और ५ में पुरुष भेद है।

(२) सकर्मक भूतकाल में हिन्दी क्रियाएँ हैं तो कृदन्त ही पर कर्म के अनुसार लिङ्ग वचन भेद रखती हैं। कर्ता के अनुसार नहीं।

मैंने रोटी खायी	}	लिङ्ग भेद
मैंने फल खाया		
मैंने पपीते खाये)	वचन भेद

किन्तु पूर्वी बोलियाँ यहाँ भी तिङन्त रूप धारण करती हैं। अर्थात् पुरुष और वचन के अनुसार बदलती हैं पर लिंग भेद के अनुसार नहीं। कर्ता के अनुसार ही इनका रूप बदलता है तथा कर्म के अनुसार नहीं :

१. आली खोलेउ द्वारा।	}	कर्म के अनुसार क्रिया का रूप का परिवर्तित नहीं हुआ।
२. सपन कहानी कहेउ न कोई।		
३. गाएउ होरिय विरहिन गोरी।		
४. भोर होत धन सखिन हंकारी।		

भूतकाल में प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग में दो प्रयोग रूढ पाये जाते हैं।

प्रथम		द्वितीय
एक वचन	भइ, हंकारी	भयेउ हंकारेउ
बहु वचन	भइ	भइहि
१. गौरी प्रेम सों बौरी भइ	}	एक वचन
२. एक सखी अ.एउ धनि ओरा		
१. लगीं साथ आगमपुर वारी	}	बहु वचन
२. चले भवानी और महेसू		

पहले रूप आधुनिक हैं और यही अधिक प्रचलित भी हैं। कर्ता के अनुसार तिङन्त रूप में जहाँ क्रियाएँ बदलती हैं वे रूप इस प्रकार हैं :

प्रथम पुरुष. दोप न पाइस कुंवर सरीरा । पुरुष एक वचन
रहति रानि जव देखिसि चेत् । स्त्रीलिंग एक वचन

मध्यम पुरुष: आजु आस तैं पुरएसि मोरी ।

किन्तु पश्चिमी बोलियों की भाँति कृदन्त रूप भी क्रियाओं के मिलते हैं :

१. नेगिन्ह साजी वेगि रसोई । कर्म के अनुसार एक वचन है,
कर्ता के अनुसार बहुवचन नहीं।

२. भाववाच्य में क्रिया की गति प्रधान होती है। हिन्दी में भाववाच्य के समान प्रयोग की तटस्थ क्रिया (Impersonal Construction) कहना उचित है।

मैंने राम को देखा	}	लिंग भेद नहीं है।
मैंने सीता को देखा		

के रचयिता शेख रहीम ने वहराइच में प्रयुक्त शब्दों एवं मुहाविरों का प्रयोग किया है। बाद के ग्रन्थों में कुछ अंगरेजी के शब्दों सीन, डबल आदि का भी प्रयोग मिलता है।

मुहाविरों का प्रयोग भाषा में प्रवाह ला देता है साथ ही भाव भी सुगमता से स्पष्ट हो जाता है। इन कवियों की भाषा में मुहाविरों का ऐसा ही सजीव प्रयोग है, कहीं भी चमत्कार के लिये इनका प्रयोग नहीं हुआ है। लोकोक्तियों एवं सूक्तियों का सहज प्रयोग भाषा की विशेषता है। नित्य जीवन में प्रयुक्त लोकोक्तियों और मुहाविरों का ही प्रयोग अधिक मिलता है :

१. टर गई पाव तरे से धरती ।
२. जैसे कञ्चन पाइ सुहागा ।
३. सुलन सेज काट अस खरके, नीद कहा तुम बिन हिया दरके ।
४. आञ्जु सिरान हिया दुख जरा, मुए धान जनु पानी परां ।
५. पुनि मन कछु गियान उपराजा, जात्र उधारे मरिये लाजा ।
६. कौन सुनै अस को मति देई, हस्ति क भार क गदहा लेई ।
७. धोवहु बेगि आहि जो लोना, कान टूट का करिये सोना ।
८. तिय बिन घर नाहिन बनै, ज्यों मोती बिन सीप ।
९. भई है वात छलून्दर नाग ।
१०. हमहूँ दूध पान सौं नाहीं, जो कोई अँचै जाय पल माहीं ।
११. पेट पचै नहिं पान ।
१२. जो जेहिके जस लिखा लिलारा ।
१३. मारु न छीर भात मो लाता ।
१४. वातहिं हाथी पाइये, वातहिं हाथी पाव ।
१५. दिवस चार की चादनी, फिर अंधियारो पाख ।

मुहाविरों की भाषा को सङ्गठित और सुलभ बनाते हैं। भाषा की लाक्षणिकता का चमत्कार बहुत कुछ इन प्रयोगों पर निर्भर रहता है।

कुछ सूक्तियों का प्रयोग भी है :

१. सत्य समान पूत जग नाहीं, सत सौं रहै नाउं जग माहीं ।
कोखि पूत एक देस वखाना, सत्य पूत चारौ खण्ड जाना ।
२. सील बिना कवि जान कहि, घर - घर रूप बिकाइ ।

ये सूक्तियाँ, लोकोक्तियाँ एवं मुहाविरों की भाषा की लोकरुचि को और अधिक स्पष्ट कर देते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के सम्पर्क के कारण इन सूफी कवियों की भाषा में अरबी, फारसी एवं संस्कृत शब्दों का प्रयोग होना स्वाभाविक है। ऐसे मिश्रणों को स्वीकार कर लेना भाषा की शक्ति तथा सजीवता का परिचायक है।

शैली :

प्रत्येक प्रकार के काव्य की आत्मा रस होते हुये भी भावों को सुष्ठु, क्रमबद्ध तथा प्रभावोत्पादक बनाने के लिये एक विशिष्ट शैली की आवश्यकता होती है। बुद्धि, राग और कल्पना के अतिरिक्त जिस तत्व का महत्व काव्य में है, वह शैली या रूपचमत्कार ही है। इन सूफ़ी प्रेमाख्यानों की कथावस्तु, पूर्ण रूप से चरित काव्य के उपयुक्त होते हुये भी इन प्रेम गाथाओं की रचना भारतीय चरित काव्यों की सर्गबद्ध शैली पर न होकर, फारसी की मसनवियों के ढङ्ग पर हुई है। मसनवी की कथावस्तु के लिये महाकाव्य की भाँति ऐतिहासिक होना आवश्यक नहीं है। मसनवी को सीधे-सादे शब्दों में हम प्रेमाख्यान कह सकते हैं। इन प्रेमाख्यानों की कथावस्तु अध्यात्म एवं रहस्यवाद से सम्बन्धित भी हो सकती है और शुद्ध प्रेम की व्यञ्जना भी इसका लक्ष्य हो सकता है। मसनवी के विद्वानों का कहना है कि भारत में मसनवी की रचना, प्रारम्भ में रहस्यवाद से सम्बन्धित होती थी, जैसे 'बहरी' की 'मनलगन' आदि, किन्तु बाद में सामन्तीय प्रभाव के कारण केवल प्रेमव्यञ्जना के हेतु प्रेमाख्यानों की रचना भी हुई। ऐसे ही शुद्ध प्रेमाख्यानों के अन्तर्गत 'ख्वाबोख्याल' की गणना होती है।

हिन्दी के सूफ़ी प्रेमाख्यान में इन दोनों ही प्रवृत्तियों का परिचय पाया जाता है। आरम्भिक प्रेमाख्यान रहस्य भावना से अनुप्राणित हैं, जबकि बाद के कुछ प्रेमाख्यानों में शुद्ध प्रेमव्यञ्जना अधिक मुखरित है। जान कवि के अनेक प्रेमाख्यान, कवि निसार का 'यूसुफ जुलेखा' तथा नसीर का 'प्रेमदर्पण' ऐसी ही कृतियाँ हैं।

इसके अतिरिक्त मसनवी के सम्बन्ध में ध्यान देने की बात यह भी है कि मसनवी की रचना किसी एक छन्द या बहर में होनी है, अनेक छन्दों का प्रयोग वर्जित है। इन सूफ़ी कवियों ने इस क्षेत्र में फारसी बहरों या छन्दों को नहीं अपनाया प्रच्युत अपभ्रंशकालीन चरित काव्यों की पद्धति पर लगभग सभी ने दोहा, चौपाई छन्दों में अपनी कथा कही है। किसी-किसी कवि ने, जैसे नूरमुहम्मद ने अपनी 'अनुराग वाँसुरी' में दोहे के स्थान पर बरवै का प्रयोग किया है। कवि नसीर ने पट्त्रुतु वर्णन में ब्रजभाषा के प्रिय छन्द कवित्त का प्रयोग किया है।

कथा के आरम्भ में परमेश्वर की वन्दना, मुहम्मद साहब का गुणगान भी मसनवी की परम्परा है। इसके बाद सुन्नी कवियों के द्वारा मुहम्मद साहब के चार मित्रों, एवं शियाओं के द्वारा मुहम्मद साहब की पुत्री उनके पति एवं पुत्रों का वशोगान रहता है। शाहेचकत की प्रशंसा भी एक आवश्यक अंग है। सभी सूफ़ी प्रेमाख्यानों में मसनवी की इस परम्परा का पालन किया जाता है, केवल जान कवि के उन प्रेमाख्यानों को छोड़कर, जहाँ कवि केवल किसी भाव विशेष की व्याख्या एवं महत्व प्रदर्शित करना चाहता है।

कवि अपना आत्मपरिचय देने के साथ ही, कथा रचना का उद्देश्य भी कहता रहता है। गुरु-परम्परा का निर्देश भी इन प्रेमाख्यानों में उपलब्ध होता है।

कथा का विभाजन सर्गों या अध्यायों में विस्तार के अनुसार न होकर स्थान-स्थान पर घटनाओं या प्रसंगों के अनुसार रहता है। यह उल्लेख भी किसी-किसी मसनवी में केवल संकेतात्मक और किसी में विस्तृत होता है। किन्हीं मसनवियों में कथा सीधे-सादे ढंग से आरम्भ कर दी जाती है और किसी में कुछ पंक्तियाँ वस्तु निर्देश करती हुई पाई जाती हैं।

सूफी प्रेमाख्यानो में यह सभी लक्षण यथास्थान प्राप्त होते हैं।

सूफियों का उद्देश्य परमप्रेम की प्राप्ति था और उसी के हेतु लोकजीवन में प्रेम की पीर जगाना उनका साधन था। इन्होंने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए खण्डनात्मक पद्धति की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। यदि कहीं ऐसा किया भी है तो वहाँ दृष्टान्त अलंकार का आधार लेकर अपने खण्डन को भी साधु बना दिया है। ऐसे स्थल मूर्तपूजा या पाषाण पूजन के विरोध में ही अधिक आते हैं, अन्यथा इन सूफी कवियों की कथन शैली खण्डनात्मक नहीं है।

फारसी मसनवियों को कुछ लोग चार वर्गों में विभक्त करते हैं—१. लम्बे-लम्बे महाकाव्य २. प्रेमाख्यानक काव्य ३. साधारण आख्यानक काव्य ४. किसी विशेष दृष्टिकोण से लिखी गई छोटी-छोटी कहानियाँ जिनका संकलन किसी सूत्र के आधार पर कर दिया जाता है।

हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यान, प्रेमाख्यानक मसनवी काव्य की भाँति ही हैं। उनकी कथन शैली भी वर्णनात्मक अधिक है। इन प्रेमाख्यानो में विषय-प्रधान शैली का स्वरूप ही दृष्टिगोचर होता है। विषय प्रधान शैली में विषय वर्णन ही प्रधान होता है, कृतिकार की स्वकीय वैयक्तिकता पृथक लक्षित नहीं होती।

अतः शैली की दृष्टि से ये प्रेमाख्यान फारसी मसनवी पद्धति पर लिखे गये हैं जिनमें भारतीय काव्य के तत्वों का भी सन्निवेश है। इनमें वर्णन शैली की मार्मिकता एवं प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है।

भाषा की दृष्टि से संक्षेप में ये काव्य लोकभाषा में लिखे गये। अधिकांश प्रेमाख्यान अवधी में लिखे गये हैं। जान कवि एवं हुसेनअली के ग्रन्थों पर ब्रजभाषा का प्रभाव है तथा 'कथा कामरूप' की रचना खड़ी बोली में हुई है।

सूफ़ी-काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ

सूफ़ी प्रेम-कथाओं की रचना विशेष लक्ष्य-सिद्धि के हेतु की गई। लौकिक प्रेमाख्यानों की भांति केवल प्रेम या रति का वर्णन इनका ध्येय नहीं रहा। इन कवियों को काव्य के माध्यम से अपने सिद्धान्तों को प्रसारित करना था। इनका लक्ष्य जनजीवन में अपनी साधना का स्थान बनाना, तथा लोकमत को अपनी ओर आकृष्ट करना था। अतएव उन्होंने सिद्धान्त प्रतिपादन के हेतु आकर्षक कथानक चुना तथा उसे रस, अलंकार, छन्द एवं प्रचलित भाषा से समन्वित करके मनोहर रूप प्रदान करने का प्रयास किया इस प्रकार अपनी भावाभिव्यक्ति को काव्य का सरस परिधान इन कवियों ने पहनाया।

कथानक अधिकांश भारतीय हैं। बहुत सम्भव है कि लोक प्रचलित कहानियों को जैसे का तैसा इन कवियों ने ग्रहण किया हो, अतः स्वाभाविक रूप से पात्र भी भारतीय हो गये हैं। हिन्दू देवी देवताओं का अवतार तथा उनके प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करना, भारतीय वातावरण एवं संस्कृति, भावों तथा परम्पराओं के सम्यक् निर्वाह के द्वारा एक ओर तो कथानक में स्वाभाविकता का समावेश हुआ है तथा दूसरी ओर कवि का लक्ष्य सिद्ध हो कर, उसका काव्य जन-जीवन की वस्तु बन गया है।

कुछ सूफ़ी कवियों ने इसके अतिरिक्त भी अपनी मनोवृत्ति प्रदर्शित की है, कथानक को शामी परम्परा से चुनना एवं कथा प्रसंग के व्याज से हिन्दू मूर्तियों एवं हिन्दू मान्यताओं की अवहेलना करना तथा स्वयं को कट्टर मुसलमान और इस्लामानुयायी घोषित करना आदि इसी के अन्तर्गत हैं। नूरसुहम्मद ने 'अनुराग-वासुरी' में स्पष्ट रूप से अपनी कट्टरता की घोषणा की है। उन्होंने इस्लाम की वासुरी के सम्मुख हिन्दू देवी देवताओं को मूर्छित होते दिखाया है। कवि नसीर एवं निसार ने प्रेमदर्पण, तथा यूसुफ़ुलुला का कथानक शामी परम्परा से ही चुना। मूर्तिपूजा का विरोध तो लगभग सभी कवियों ने किया है, मंझन, उममान, जान, कासिमशाह, शेख रहीम, अलीमुराद, कवि नसीर एवं निसार, किमी ने भी इस विषय को नहीं छोड़ा है। ये कवि सम्भवतः बहुदेवोपासना के स्थाप

पर एकदेवोपासना की स्थापना करना चाहते थे और साथ ही पाषाणमूर्तिपूजन के किसी आदर्शात्मक स्वरूप को स्वीकार नहीं करते थे। सूफी कवियों की इस मनोवृत्ति का संक्षिप्त परिचय देने के बाद उनके काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों की चर्चा उपयुक्त होगी।

प्रेमकथाएं :

भारतवर्ष में प्रेमाख्यानों की परम्परा बड़ी प्राचीन है। ऋग्वेद के यम यमी, पुरुखा उर्वशी आदि कथा के बीज उपनिषत् काल में कथा के रूप में व्यक्त हुये, संस्कृत के ललित साहित्य में कुमार सम्भव, मेघदूत, कादंबरी, अभिज्ञान शाकुन्तल आदि प्रमुख प्रेमाख्यान उपलब्ध हैं। इसके पश्चात् अर्धश कालीन जैन एवं बौद्ध साहित्य में प्रेमाख्यानों के द्वारा नीति और निर्मापदेश देने का प्रयास दिखाई देता है। अन्त में हिन्दी साहित्य में प्रेमाख्यानों की एक पृथक परम्परा ही दृष्टिगोचर होती है जिसकी चर्चा 'सूफी काव्य की पृष्ठभूमि' अध्याय में हो चुकी है।

सूफियों के प्रेमाख्यान, उपमिति कथा के समान, योरोप की धार्मिक सुखान्त कथाओं (Religious comedies) की कोटि में आते हैं। अधिकांश भारतीय प्रेमाख्यान योरोप के प्रेम महाकाव्यों (Love Epics) तथा धार्मिक सुखान्त कथाओं के समान हैं। प्रेम व्यंजना को छोड़कर भारतीय और विदेशी प्रेमाख्यानों में कथानक-संगठन लगभग एकसा है। इन दोनों में राजकुमारों और राजकुमारियों की प्रेम कहानी वर्णित रहती है, किन्तु सूफी प्रेमाख्यानों में वर्णित प्रेम, पाश्चात्य प्रेमाख्यानों की भाँति सामन्तीय प्रेम नहीं है। पाश्चात्य अद्भुत एवं प्रेमतत्त्व पूर्ण कथाओं में जिस प्रकार जादू की शक्तियों एवं अप्सराओं का वर्णन रहता है, उससे कहीं अधिक सूफी प्रेमाख्यानों में, दैत्य दानव, अप्सराओं, वनदेवियों, अदृश्य संत ख्वाजा खिज़्र एवं इलियास तथा गुरु की अद्भुत चमत्कारिक शक्तियों का समावेश रहता है।

लगभग सभी सूफी प्रेमकथायें प्रबन्धकाव्य की कोटि में आती हैं। इन प्रेमकथाओं का कथानक किसी राजपरिवार से सम्बन्ध रखता है। कथानकों के चुनाव में तथा प्रमुख घटनाओं के यथासम्भव स्वाभाविक चित्रण में कवियों ने बड़ी सतर्कता प्रदर्शित की है। बीच बीच में ऐसे प्रसंगों का समावेश किया गया है जिनसे पूरे प्रबन्ध में रोचकता आ जाती है। परिस्थितियों के संयोजन में विशृङ्खलता नहीं है प्रत्युत कार्यकारण सम्बन्ध है। ऐतिहासिक कथानकों के विकास में कल्पना का भी विशेष योग है। कथानिर्वाह की इस स्वाभाविकता के साथ ही कवियों को सदैव यह भी ध्यान रखना पड़ा है कि घटनायें तथा परिस्थितियाँ किसी प्रकार से उनके कथारूपकों और अध्यात्मिक उद्देश्य के विरुद्ध तो नहीं पड़तीं, वे किसी भी प्रकार से कथारूपक के आदर्श को विकृत या अंगहीन तो नहीं कर देतीं।

सारी घटनाओं को स्वाभाविक स्वरूप प्रदान करना तथा अन्त में घटनाओं को एक रूपक का अंग बनाकर उससे अध्यात्म की व्यंजना करना सरल काम नहीं था। इस दोहरे

प्रयत्न में हर सूफ़ी कवि सफल नहीं हो सका। स्वयं जायसी भी इस प्रयत्न में सफल नहीं हो पाये हैं। उन्हें अपने कथारूपक की व्याख्या करने को बाध्य होना पड़ा और फिर भी कहीं कहीं घटनाओं में विरोध लक्षित होता है। जायसी अपने कथारूपक के निर्वाह में पूर्ण सजग हैं, किन्तु जान ऐसे सूफ़ी कवि हैं जिन्हें अपनी प्रेमकथा को रूपकात्मक स्वरूप देने की अधिक चिन्ता नहीं जात होती, फलस्वरूप उनको कथायें प्रेमकथायें ही जान पड़नी हैं तथा सूफ़ियों का अन्तिम लक्ष्य 'वस्ल' इन प्रेम कथाओं से पूर्णतः सिद्ध नहीं हो पाता। हिन्दी सूफ़ी प्रेमकथाओं में घटनाओं की संयोजना भारतीय चरित काव्यों की भाँति ही है, किन्तु कथारूपकों की इस पद्धति पर जैनचरित काव्यों के साथ ही साथ फारसी की मसनवी परम्परा का भी प्रभाव है। सूफ़ियों का सिद्धान्त प्रचार के हेतु प्रेमकथाओं को ही प्रश्रय देना इन दोनों ही कारणों से सम्भव है। जायसी की 'यूसूफ़-जुलेखा' में इसी प्रकार प्रेम के अध्यात्मिकरण का प्रयास किया गया है।

चरित्र चित्रण :

प्रबन्ध काव्यों में चरित्र चित्रण का विशेष महत्त्व है। पात्रों के चरित्र और अनेक कार्यों से उत्पन्न समताओं और विषमताओं के मध्य पात्र का उत्थान पतन प्रदर्शित करने में कवियों को जहाँ एक ओर कथा में संगति बैठाने का प्रयत्न करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपने अध्यात्मिक उद्देश्य को भी सिद्ध करने का प्रयास करना पड़ा है। कथा के अन्त में इन सूफ़ी कवियों ने अपने चित्रित पात्रों को कथारूपक के अनुसार प्रदर्शित करने की चेष्टा की है। यहाँ पर कवि-कथन तथा कथा की स्वाभाविकता पर विचार करने का अवसर पाठक को प्राप्त होता है।

ऐतिहासिक कथानकों से सम्बन्धित प्रेम कथाओं में कवि ने ऐतिहासिक पात्रों के साथ साथ काल्पनिक पात्रों की अवतारणा की है। इन पात्रों की अवतारणा कवि ने केवल प्रधान पात्र के चरित्र को उत्कृष्टता देने या घटनाओं में स्वाभाविकता का समावेश करने के लिये ही नहीं की है, प्रत्युत वे कवि के अन्तिम उद्देश्य अध्यात्मिक तत्व की व्याख्या में भी सहायक हैं। जायसी के पद्मावत में तोते की अवतारणा कथा प्रवाह की स्वाभाविक गति में सहायक होने के साथ ही 'गुरु सुआ जेइ पन्थ देखावा' की दृष्टि से सूफ़ी मत के सिद्धान्त विशेष की व्याख्या करता है। ऐसे पात्रों के लिये, प्रायः सभी प्रेमकथाओं में, परी परेवा, नपी या ब्राह्मण आदि की अवतारणा सूफ़ी कवियों ने की है, तथा ऐसे कुछ पात्रों का समावेश भी हुआ है जिनकी आवश्यकता केवल कथा की स्वाभाविक गति के हेतु है, जैसे राजम, दूती, मालिन, जोगी, वनचर आदि।

चरित्र चित्रण की दृष्टि से जायसी, नूरमुहम्मद आदि कवि जितने सफल हुये हैं उतने अन्य कवि नहीं हो सके। इसका प्रधान कारण सम्भवतः इन कवियों का शामी परम्परा से अनुप्राणित अलिफ लैला आदि मसनवियों की अनुकरण प्रवृत्ति है, जिनमें परियों, मिहो, अजरों, दानवों और अन्य अलौकिक तत्वों की भरमार मिलती है। इन अलौकिक

तत्वों के समावेश से घटित अस्वाभाविक घटनाओं को केवल कल्पना की सहायता से ही सत्य समझकर, कथा-कौतूहल को जाग्रत रक्खा जा सकता है।

कुछ सूफी कवियों ने पात्रों का नामकरण अपने अध्यात्मिक उद्देश्य के आधार पर ही किया है। इस अवस्था में कथा की स्वाभाविकता तथा कवि का अभीष्ट 'इश्क हकीकी' का स्पष्टीकरण भी सरल हो जाता है। कवि नूरमुहम्मद ने 'अनुराग बाँसुरी' में पात्रों की योजना इसी प्रकार की है। राजा 'जीव' का पुत्र 'अन्तःकरण' है, तथा पुत्र के सखा हैं बुद्धि, चित्त एवं अहंकार आदि। इस प्रकार कवि को एक सुगमता प्राप्त हो जाती है, और वह कथा की मनोरञ्जकता के साथ-ही-साथ अध्यात्म का भी स्पष्टीकरण सरलता पूर्वक करता जाता है, किन्तु इस प्रयत्न में चरित्रचित्रण की उत्कृष्टता लक्षित नहीं होती। व्यक्तित्व एवं चरित्र की दृष्टि से किसी काव्य ग्रन्थ की आलोचना करना आधुनिक प्रणाली है। पुरानी परिपाटी के इन कवियों का ध्यान भी चरित्र का सूक्ष्म विश्लेषण करने की ओर नहीं था।

भाव-व्यंजना :

चरित्र चित्रण में कहीं कहीं असफल होने पर भी भाव-व्यञ्जना में सूफी कवि अधिकांश सफल हुये हैं। सूफी प्रेमकथा की प्रचलित परम्परा के कारण इन कवियों की भाव-व्यञ्जना अधिकांश रूढिगत ही है। उसमें किसी मौलिकता का समावेश करने का अवसर कवि को नहीं मिल पाता। ऐसी रचनाओं के प्रमुख पात्र एक परिस्थिति विशेष में जन्म लेते हैं। एक ही ढङ्ग के प्रेम में पड़ते तथा आतुर होकर मार्गप्रदर्शक के अनुसार प्रेममार्ग में अग्रसर होकर विरह वेदना सहते हैं, और अन्त में संयोग हो जाता है। नायक के जीवन की अधिकांश बातें परम्परागत ज्ञात होती हैं। नवीन घटनाओं का समावेश, विरोध की भयंकरता, प्रेम-व्यञ्जना की उत्कृष्टता आदि सहायक कथा की मौलिकता में ही प्राप्त हो सकती हैं अन्यथा प्रेमियों का प्रेमभाव अतिशयता की कोटि में पहुँच कर, पारस्परिक मिलन के अभाव में, विरह पीड़ित रहना और फिर उसी के चिन्तन में धुलधुल कर कालयापन करना इन कथाओं का प्रधान विषय है। ऐसे विषयों का वर्णन करते समय कवियों ने अधिकांश ईरान तथा भारत की रूढिगत परम्पराओं का ही अनुसरण किया है।

विरहदशा का वर्णन करते समय कवि यदि कहीं नवीनता का समावेश कर पाता है तो या तो वह ऊहा के आधार पर नवीन उत्प्रेक्षा और अत्युक्तियों का आश्रय लेता है, या कहीं-कहीं गूढ भावों के सूक्ष्म विश्लेषण में प्रवृत्त होता है। प्रेम और विरह के अतिरिक्त ईर्ष्या, उत्सुकता, सहानुभूति, विवशता आदि भावों की व्यञ्जना भी उपलब्ध होती है। भावों का सफल निरूपण केवल उन्हीं कवियों से सम्पन्न हो सका है जिन्होंने चरित्रचित्रण का महत्व, घटनाप्रवाह से अधिक समझा है।

वस्तु एवं घटना वर्णन :

इन सूफ़ी कवियों के वस्तु तथा घटना वर्णन में भी कोई नवीनता दृष्टिगोचर नहीं होती। सरिता, समुद्र, उद्यान, महल आदि के रूढिगत वर्णन ही इन काव्यों में उपलब्ध होते हैं। इन वस्तुवर्णनों में कवि को अवसर प्राप्त होता है कि वह अपनी नवीन कल्पना और परिस्थिति से लाभ उठाकर सजीव वर्णन करे, किन्तु अधिकांश कवियों ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। कहीं-कहीं वर्णन इतना विस्तृत है कि उनसे कवियों के वस्तु ज्ञान के अतिरिक्त कौतूहल, आकर्षण या प्रभावशीलता में किञ्चित् भी वृद्धि नहीं हो पाती। जायसी का बारहमासा प्रसिद्ध है तथा लगभग सभी सूफ़ी प्रेमकथाओं में बारहमासे वर्णित है, परन्तु अधिकांश कवियों ने परम्परा का पालन किया है। नवीनता या मौलिकता का दर्शन विशेष नहीं होता।

इसी प्रकार प्रेममार्ग या साधनामार्ग में प्रवृत्त साधक की कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति उद्भूत होने के पूर्व ही एक निश्चित उद्देश्य और वर्णनसाम्य के कारण जिजासा शान्त हो जाती है। प्रतिनायक या विरोधी दैत्य दानव आदि से युद्ध वर्णन लगभग सभी कथाओं में उपलब्ध हैं, किन्तु वहाँ भी नायक के प्रभुत्व एवं शौर्य को प्रकट करने की शीघ्रता ने वीररस का सम्यक परिपाक नहीं होने दिया है।

भाषा एवं शैली :

सूफ़ी कवियों ने अपने काव्य में अधिकांश अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है। प्राप्त कथाओं में केवल कथा 'कामरूप' की भाषा खड़ी बोली है। इस क्षेत्र में जायसी, कवि जान, उसमान और नूरमुहम्मद अधिक सफल हुये प्रतीत होते हैं, यद्यपि जान कवि के काव्य में ब्रजभाषा और पञ्जाबी का पुट अधिक है। जायसी द्वारा शुद्ध लोक भाषा अवधी का मुहाविरेदार प्रयोग तथा नूरमुहम्मद का संस्कृत ज्ञान विशेष उल्लेखनीय है। जायसी की भाषा में जहाँ सादगी और स्वाभाविकता अधिक है, वहीं ऐसे प्रौढ स्थल भी हैं जहाँ अलंकारों की छटा तथा शब्द योजना दर्शनीय है।

कवि उसमान की भाषा में भोजपुरी के शब्द तथा मुहावरे भी प्राप्त होते हैं, फलस्वरूप इनकी उक्तियों में सरसता अधिक है।

जान कवि का भाषा पर सर्वाधिक अधिकार है। भाव तथा पात्र के अनुकूल भाषा का संयोजन, अवयव और ब्रज दोनों ही भाषाओं का प्रयोग तथा अलफ खा की पेंडी आदि में राजस्थानी और पंजाबी का मिश्रित प्रयोग उल्लेखनीय है। हुंसेन अली कृत 'पुहपावनी' की भाषा पर भी ब्रज भाषा का प्रभाव है। नूरमुहम्मद का संस्कृत ज्ञान उच्च कोटि का जान पड़ता है। वे बहुज कवि थे जिनके काव्य में यमक बाहुल्य पाया जाता है। सूफ़ी कवियों द्वारा प्रयुक्त फारसी, अरबी एवं तुर्की आदि भाषा के शब्दों और

मुहाविरों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है। सरसता तथा सहृदयता का समावेश सर्वाधिक कवि भंभन के वर्णनों में प्राप्त होता है।

छंद योजना में इन सभी कवियों ने दोहा चौपाई की प्रचलित पद्धति को अपनाया है। कवि नूरमुहम्मद ने अनुरागबासुरी में चौपाई और बरवै क्रम रक्खा है।

इन काव्यों में अधिकांश शृंगार रस का परिपाक हुआ है, जिसमें संयोग तथा विप्रलम्भ दोनों का यथास्थान वर्णन है। शृंगार रस प्रधान इन काव्यों में नायक के उत्कर्ष को अंकित करने के लिये कहीं कहीं, वीर, वीभत्स और भयानक रसों का वर्णन भी हुआ है, किन्तु उनसे शृंगाररस-चर्वण में किसी भी प्रकार का व्यवधान उपस्थित होता नहीं जान पड़ता।

अलंकार योजना में अधिकांश इन कवियों ने रूपक, अनन्वय, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, उपमा, यमक या अनुप्रास का प्रयोग किया है, किन्तु अन्य अलंकारों का भी अभाव नहीं है।

सभी प्रेमाख्यानों की रचना मसनवी पद्धति पर हुई है।

सूफ़ी प्रेम कथाओं की प्रमुख विशेषतायें

यद्यपि हिन्दी साहित्य में सूफ़ी प्रेमकथाओं के पूर्व भी प्रेमाख्यानों की परम्परा प्रचलित थी किन्तु सूफ़ी कवियों ने इन प्रचलित प्रेमाख्यानों के स्वरूप को ज्यों का त्यों ही ग्रहण नहीं किया, प्रत्युत इन प्रेमगाथाओं की विशेषताओं को ग्रहण करते हुए उनमें विशेषता एवं नवीनता का समावेश कर दिया है। सूफ़ीमत के इश्क से संबन्धित विचारों के प्रचार के हेतु इन कवियों ने अपने प्रेमाख्यानों को कथा-पक का रूप दे डाला है।

इस प्रकार के प्रेमाख्यानों में पौराणिक आख्यान केवल भारतीय स्रोतों से ही न आकर इस्लामी एवं शामी परम्परा के यूसुफ जुलेखा ऐसे उपाख्यानों के रूप में भी आते हैं। इन प्रेम कथानकों के वर्णन में भी भारतीय वातावरण तथा संस्कृति का चित्रण रहता है। भारतीय पौराणिक आख्यान में 'नल एव दमयन्ती' प्रेमोपाख्यान विशेष प्रिय रहा है। इसी प्रकार सूफ़ी कहानियों में चित्रदर्शन, स्वप्नदर्शन, साक्षात्दर्शन तथा सौन्दर्य-कथन के आधार पर उनके प्रेम के चित्रण में उस शुद्ध एवं नैसर्गिक प्रेम व्यञ्जना का आभास मिलता है जो भारतीय लोक गीतों की अपनी विशेषता है।

ऐतिहासिक कथानकों के रूप में सूफ़ी कवियों ने रत्नसेन एवं पद्मावती, तथा देवलदेवी एवं खिज्रला की प्रेमकथा का वर्णन अधिक किया है। अन्यकथाओं के मध्य भी इन कवियों ने ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया है। कवि जान एव अलीमुराद इस कला में सर्वाधिक निपुण प्रतीत होते हैं। ऐतिहासिक घटना के स्थान पर कहीं कहीं केवल ऐतिहासिक नाम ही मिल जाता है। जैसे 'छीना' प्रेमोपाख्यान में अलाउद्दीन का नाम ऐतिहासिकता का परिचायक है किन्तु उसका चरित्र ऐतिहासिक न होकर कविकल्पित

है। इसी प्रकार ख्वाजा अहमद की 'नूरजहाँ' का ऐतिहासिक नाम होते हुये भी रचना पूर्णरूपेण काल्पनिक है। अधिकांश सूफी कथायें, मधुमालत, चित्रावती, इन्द्रावती, अनुराग वासुरी, नूरजहाँ, हंसजवाहर, भापा प्रेमरस, पुहुपावती, कुंवरावत, जानदीप, आदि कल्पना प्रसून हैं।

इन कथारूपकों का वास्तविक उद्देश्य 'इश्क मजाजी' के द्वारा 'इश्क हकीकी' का प्रतिपादन करना रहता है, जिनमें प्रेम भावना की उत्पत्ति स्वप्नदर्शन, चित्रदर्शन गुणभ्रमण या साक्षात् दर्शन से होती है। नायक नायिका के सौन्दर्य पर विमोहित होकर, मिलन के लिये ग्रातुर हो जाता है और फिर लक्ष्य प्राप्ति के हेतु सर्वस्व त्याग, कठिन तप वाधाओं को सहर्ष सहने को सन्नद्ध हो जाता है। विघ्न वाधाओं को भेदता हुआ वह अग्रसर होता है और सफलता प्राप्तकर पुनः अनेक अब्चनों को पार कर वह स्वदेश प्रत्यावर्तन करता है।

ऐसी प्रेमगाथाओं के रचयिताओं ने इसी मूलसूत्र के आधार पर लगभग सभी रचनाओं का ढाँचा खड़ा किया है तथा यह पुष्ट करनेका प्रयत्न किया है कि प्रेमका भूला साधक किस प्रकार सर्वप्रथम प्रेम-तत्व का संकेत पाता है तथा उससे प्रभावित होकर विभिन्न साधनाओं में प्रवृत्त होता है। साधक अपनी सिद्धिप्राप्ति के हेतु अब्चनों की भयंकरता एवं दुरुहता पर ध्यान नहीं देता और न किसी प्रलोभन में पड़ता है तथा अन्त में सफलता प्राप्त कर ही लेता है। प्रस्तुत कथानकों में प्रेमी का पथ सहायक कोई परी, देव अथवा पत्नी आदि रहते हैं जो कठिनाई के समय मार्ग का विवरण देकर सहायता करने हैं। इसी प्रकार साधक का मार्ग प्रदर्शन कोई गुरु या पीर करता है। मार्ग में आने वाली विघ्न वाधाओं से, साधना में विघ्न उपस्थित करने वाले प्रलोभनों का संकेत इन प्रेमकथाओं में प्राप्त होता है। विकट दुर्गों पर विजय प्राप्त करना अथवा घोर युद्धों में सफल होना साधक की शारीरिक एवं मानसिक वृत्तियों के विरोध में उसकी सफलता होने का सूचक है तथा प्रियमिलन से ईश्वरोपलब्धि का आभास होता है।

कथारूपक के इस प्रकार के रहस्य का उद्घाटन कभी-कभी कवि स्वयं कर देता है। जायसी, कासिमशाह तथा कवि नसीर ने ऐसा ही किया है। नूरसुहम्मद ने 'अनुराग वासुरी' में पात्रों का नामकरण गूढार्थ स्पष्ट करने के लिये किया है।

प्रेम और रूप का अनिवार्य सम्बन्ध इन कहानियों की एक अन्य विशेषता है। अधिकांश प्रेमरम्भ का मूल कारण रूप सौन्दर्य ही है जो वस्तुतः 'खुदा के नूर' की ओर संकेत करता है। ईश्वरीय सौन्दर्य की अवतारणा अधिकांश सूफी कवियों ने अपनी नायिकाओं में की है। यह सौन्दर्य ही साधक को साधना की ओर प्रेरित करता है और अन्त में उस अग्रन्त सौन्दर्यशाली परमेश्वर में वह साधक अवस्थित हो जाता है। उपलब्ध प्रेमकथाओं में 'यूसुफ' ही एक ऐसा नायक है जो उस खुदा के नूर का प्रतीक है। कवि निसार तथा नसीर ने इस प्रकार इन भारतीय प्रेमकथाओं में एक नवीन प्रयोग किया जो पूर्णतः शागी परम्परा से प्रभावित है। अन्य प्रेमकथाओं में भी कवियों ने अपने नायक को नायिका के रूपगुण के अनुसार ही चित्रित करने का प्रयास किया है जिससे

सम्भवतः यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य खुदा के नूर का प्रतिबिम्ब है। नायक का सुन्दर एवं आकर्षक होना इस धारणा को भी बल प्रदान करता है कि सच्चे साधक के प्रति ईश्वर स्वयं आकृष्ट होता है।

प्रेम कथाओं का नायक अधिकांश अपने सासारिक सम्बन्धों के प्रति उदासीन रहता है। उसे पारिवारिक बन्धन नहीं बाध पाते। नायक तथा नायिका दोनों ही अपने माता पिता या किसी निकट सम्बन्धी के प्रति आकर्षित प्रतीत नहीं होते। उनके लिये सम्बंधियों की सलाह की अवहेलना करना साधारण सी बात है, सम्भवतः कविगण इस प्रकार के व्यवहार द्वारा 'इश्क हकीकी' के सम्मुख 'इश्क मजाजी' को हेय प्रदर्शित करना चाहते थे।

उपरोक्त विषयगत विशेषताओं के अतिरिक्त सूफी प्रेमकथाओं की रचना शैली भी कुछ विशेषतायें लिये हुये है। सूफी प्रेम कथा का रचयिता आरम्भ में ईश्वरवन्दना करता है। वह उसकी सृष्टि रचना के कार्य की चर्चा करके उसकी महानता के सम्मुख नत होता है, फिर क्रमशः रचयिता मुहम्मद साहब तथा उनके चार साथियों एवं प्रारम्भिक चार खलीफा, की प्रशंसा करता है। इस प्रकार के परिचय में 'शाहेवक्त' या तत्कालीन शासक की प्रशंसा आना भी अनिवार्य है, और अन्त में लेखक अपना व्यक्तिगत परिचय भी देता है।

रचना के आकार के अनुरूप ही परिचय आदि भी छोटा-बड़ा होता है और कहीं कहीं किसी किसी का परिचय छूट भी जाता है। कथा प्रधान पात्रों के परिचय से प्रारम्भ होती है। नायक का जन्म अनेक पूजा, दान एवं यत्न के पश्चात् होता है और अधिकतर वह एकलौता ही रहता है। स्वप्न दर्शन, साक्षात् दर्शन आदि के बाद क्रमशः नायक और नायिका का प्रेमभाव जाग्रत होता है। गाम्भीर्य के हेतु उनकी लगन और विरह का वर्णन बड़ा विस्तारपूर्ण रहता है।

लगभग सभी ग्रन्थों में वारहमासे का समावेश होता है। वस्तु वर्णनों में हाटवर्णन, समुद्र-यात्रा वर्णन तथा जलक्रीड़ा वर्णन विशेष हैं।

कथा का अन्त संयोग हो जाने पर भी अधिकांश दुखान्त होता है। इस प्रकार सम्भवतः कवि ससार की अनित्यता की ओर संकेत करता है। इसके विपरीत कुछ रचयिता कथा को दुखान्त करने की परम्परा पर खेद प्रकट करते हैं और अपनी रचना को सुखान्त बनाते हैं। ऐसे कवियों में कवि मञ्जन, कवि जान, उसमान, नूरमुहम्मद, ख्वाजा अहमद एवं शेख रहीम का नाम उल्लेखनीय है।

भाषा के विचार से सूफी कवियों ने अवधी का प्रयोग किया है, सम्भवतः इस कारण कि इनका निवासस्थान अधिकांश अवध का कोई स्थान या पूर्वी उत्तर-प्रदेश ही रहा। दोहा, चौपाई छन्दों की परिपाटी का विशेष महत्व अवधी में ही था और उनका प्रयोग क्रमशः फारसी तथा उर्दू की गसनवी के स्थान पर, परम्परानुसार किया जा रहा था। कुतबन एवं मञ्जन के निवासस्थान के विषय में अधिक ज्ञान नहीं किन्तु इतना अवश्य

प्रतीन होता है कि ये दोनों भी अवध प्रदेश के किसी नगर से ही सम्बन्धित थे। मलिक मुहम्मद ज़ायस नगर के, कासिमशाह दरियावाद के, कवि निसार शेखपुर के, ख्वाजा अहमद वाचूगङ्ग तथा शेख रहीम जरवल ग्राम के निवासी थे। उपरोक्त स्थान अब भी अवध में वर्तमान हैं। कवि उसमान एवं नसीर गाजीपुर जिले से तथा नूरमुहम्मद जौनपुर से सम्बन्धित थे। कवि ज़ान ही सुदूर जयपुर के अन्तर्गत फतेहपुर के निवासी जात होते हैं। ज़ान कवि ने ब्रजभाषा का प्रयोग अधिक किया है। कवि निसार ने भी 'यूसुफ जुलेखा' में विरह वर्णन के अन्तर्गत कवित्त सवैयों का प्रयोग ब्रजभाषा में किया है।

सूफ़ी-काव्य रचयिताओं ने अधिकांश दोहा चौपाई के क्रम से काव्य-रचना की है, तथा चौपाइयों के क्रम में विशेषकर पाँच चौपाइयों से लेकर सात या नौ तक के अन्तर में दोहा रखा है। चौपाई का प्रयोग भी एक अर्द्धाली के समान हुआ है जिसके अन्त में दोहे का प्रयोग है। ज़ान कवि ने बरवै, कवित्त, चौपाई आदि छन्दों में भी अपनी काव्य रचना की है। कवि निसार ने वारहमासे के अन्तर्गत कवित्त और सवैये प्रयुक्त किये हैं, अन्यथा उपरोक्त विशेषतायें लगभग सभी प्रेमगाथाओं में समान हैं।

प्रेमाख्यानों की विषयगत एवं शैलीगत इन विशेषताओं के अतिरिक्त कुछ और प्रवृत्तियों सूफ़ी प्रेमकथाओं में लक्षित हैं। कविगण बहुधा अपनी बहुजता का परिचय देने के लिये, दान, क्षमा, दया, शौर्य आदि भावों का विस्तृत वर्णन यथास्थान करते हैं। संगीत-समाओं, भिन्न राग रागिनियों की विशेषता एवं समय का निर्देश भी ये कवि करते हैं।

इनके अतिरिक्त कामशाल खण्ड नाम से कवि उसमान ने एक पूरा अध्याय ही रच डाला है। नायक नायिका भेद की चर्चा भी कम नहीं, जिसमें रूपगर्विता, स्वाधीनभक्तिका, मध्या, मुग्धा एवं प्रोपितपत्तिका आदि के वर्णन विस्तार से हैं।

माता पिता की सेवा, स्त्री का समाज में स्थान, श्वसुरगृह का भय आदि सामाजिक समस्याओं पर भी कवियों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। नूरमुहम्मद ने राजधर्म का वर्णन विस्तार से किया है।

हिन्दी के प्रायः सभी सूफ़ी कवियों की लोकदृष्टि बड़ी सजग थी। अपने आस पास के विस्तृत वातावरण से कहीं पर अदृश्य की निराधार कल्पना इन कवियों ने नहीं की, वरन् इनकी रचनाओं में भारतीय जीवन एवं संस्कृति का बड़ा सजीव चित्रण हुआ है। प्रकृति-चित्रण के अन्तर्गत भी भारतीय प्रकृत छटा के ही दृश्य हैं। पट्त्रुत एवं वारहमासे के वर्णन में भारतीय गार्हस्थ्य जीवन की समस्यायें एवं प्रकृति के उपकरणों का चित्रण है। उपवन, वाटिका एवं अमराइयों का वर्णन इन सूफ़ी कवियों के द्वारा बड़ा सजीव हुआ है। नूरमुहम्मद ही ऐसे कवि हैं जिनको विदेशी उपमान, 'नरगिस' ही श्रौख के लिये भाया, किन्तु अलंकार योजना में अधिकांश साधारण जीवन से सम्बन्धित प्राकृतिक उपकरण ही अन्य कवियों के समान नूरमुहम्मद ने भी उपमान के निमित्त लिये हैं। भारतीय मामा-निक जीवन में आनन्दोत्सव एवं गर्वादा के प्रतीक त्योहारों, उत्सवों एवं रीतिनीतियों का वर्णन भी इन प्रेमाख्यानों में यत्र तत्र प्राप्त होता है। छठी, नामकरण, लग्न विचार,

पाटी पूजन, सगाई, व्याह (भावर, लहकौर एवं सुहागरात) तथा अन्त में निधन तथा सती होने का उल्लेख तक इन कवियों ने यथास्थान बड़ा ही सजीव एवं मार्मिक किया है। ज्ञात होता है कि इन कवियों को हिन्दू जन्मान्तरवाद पर भी विश्वास था। 'मधुमालत' का नायक 'मालती' से प्रथम मिलन पर अपने पूर्वजन्म की प्रीति की चर्चा करता है।

प्रेमाख्यानों के अतिरिक्त सूफ़ी कवियों ने स्फुट रचनायें भी की हैं जिनमें से कुछ का सम्बन्ध सिद्धान्त सम्बन्धी विषयों के प्रतिपादन एवं नीतिकथन से है, तथा अन्य कुछ ग्रन्थ कवियों का बहुज्ञान भी प्रदर्शित करते हैं। अपनी स्फुट रचनाओं में कविगण स्पष्टरूप से चेतावनी देने में सजग ज्ञात होते हैं।

स्फुट रचनाओं की भाषा भी अधिकांश अवधी ही रही है। पंजाबी एवं राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग स्फुट रचनाओं में पर्याप्त है। प्रेमाख्यानों में दोहा, चौपाई या बरवै का प्रयोग अधिक हुआ है किन्तु स्फुट काव्य में सवैया, कवित्त, सिंहावलोकन, पद, दोहे एवं फारसी की वज्रें आदिक समानरूप से प्रयुक्त हुये हैं।

स्फुट रचनाओं में भाषा की सफाई एवं कथन शैली की सजीवता दर्शनीय है। इनमें निजी अनुभव की गम्भीरता के साथ साथ स्वाभाविक उद्गारों की सरलता भी है जो कवि तल्लीनता के कारण चित्ताकर्षक एवं तन्मय कर देने वाली है। सूफ़ी साहित्य का यह अंग व्यावहारिकता की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। नीति तथा सिद्धान्त सम्बन्धी गम्भीर विषयों के साथ ही 'रोटी' के महत्व तक की चर्चा इस काव्य में मिल जाती है। गुरु के महत्त्व एवं सम्मान में लिखे गये पद अधिक हैं।

जान कवि ने सूफ़ी प्रेमाख्यानों के अतिरिक्त शुद्ध प्रेमाख्यान एवं भावविशेष के स्पष्टीकरण के हेतु भी प्रेमकथायें लिखी हैं।

यहाँ सूफ़ी प्रेमाख्यानों एवं स्फुटकाव्य की वस्तुगत तथा शैलीगत विशेषताओं का संक्षेप में निर्देश हुआ है। वास्तव में जीवन की भाँति ही सूफ़ी काव्य भी विस्तृत है।

सूफी कवियों की बहुज्ञता

सूफी प्रेमाख्यान रचयिताओं ने अपने प्रबन्धों में इतिवृत्त एवं रसात्मक स्थल दोनों का सम्यक् निर्वाह करते हुये भी कहीं कहीं कथा की गति को अवरुद्ध सा कर दिया है। विराम के लिये ऐसे पाण्डित्यपूर्ण स्थल केवल कवि की बहुज्ञता का परिचय मात्र देते हैं। इन कवियों की बहुमुखी प्रतिभा सराहनीय है। काव्य-मर्मज्ञ होने के साथ ही साथ इनका साधारण-ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान, संगीत-ज्ञान, कामशास्त्रज्ञान, पुराणज्ञान एवं औपधिज्ञान भी उच्चकोटि का था।

साधारण ज्ञान के अन्तर्गत हम उनके दान, नम्रता, वचन-महिमा, उपकार, याती, साहस, द्रव्य, परदेश गमन ऐसे विषयों पर प्रकट किये गये विचार ले सकते हैं। दान प्रसंग की चर्चा इनके साधना-पक्ष के अन्तर्गत भी आती है। ऐसे प्रसंगों को रुचिकर बनाने के लिये ऋविगण या तो उनके प्रति अनुराग, श्रद्धा, विरक्ति आदिक भाव व्यञ्जित करते हैं या केवल चमत्कार की सृष्टि करते हैं। भावविशेष के उत्कर्ष या अपकर्ष प्रदर्शन के हेतु कवि को अधिकांश अत्युक्ति का सहारा लेना पड़ा है, साथ ही सूक्ति-रूप में भी इन कवियों ने अपने विचारों का प्रदर्शन किया है।

दान-महिमा :

दिये बिना कछु काहु न पावा, दिया असि सब इच्छ पुरावा ।
दिया धरे तप करै अंजोरा, दिया हुतै घर मुसे न चोरा ।
एहि जग साह सार है दीआ, जे न दिया ते अमिरत जीआन
दिया हुते निमि आगे सूझा, दिया हुते पर आपन वूझा ।

उसमान : चित्रावली ।

वचन-महिमा :

वचन समान मुधा जग नारीं, जेहि पाये कवि श्रमर रहारीं ।
श्री जो यह अमिरत सों पागे, सोऊ श्रमर जग भये उभागे ।

पठि गुनि देखा मान कवि, बैठि खोइ संसार ।
 और जगत सब थोथरा, एक वचन पै सार ॥

उसमान . चित्रावली ।

सत्य-प्रशंसा :

सत्य समान पूत जग नाहीं, सत सों रहै नाउं जग माहीं ।
 कोखि पूत एक देस बखाना, सत्य पूत चारों खगड जाना ।

उसमान : चित्रावली ।

मित्र-चर्चा :

मीतहि होई मीत की चिन्ता, चारि भौंनि जग कहिये मित्रा ।
 नैन मीत एक जग आवा, नैन देखि कै मीत कहावा ।
 मुख फेरत भा औरै लेखा, गयो भूलि जनु सपना देखा ।
 इच्छा मीत होइ एक दूजा, तौ लहु मीत इच्छ जव पूजा ।
 हींछा पूजी गई मिताई, बहुरि बार नहिं भाके आई ।
 वैन मीत वैन रस रसा, वैनहि लागि रहै मन वसा ।

प्राण मीत वहि कहिन है, पर न सकै निरवाहि ।

सो दुख आवै आप जिय जा महं सुख हो ताहि ॥

विदेश-गमन :

उत्तर दीन्ह परदेशी जोभा, जिष्णु पराज दच्छ जनु सोभा ।
 जनम भूमि सों जव लागि कोई, तव लागि गुनी विदग्ध न होई ।
 सुमन तोरि जव वाहर आवै, उन्नत ठौरि पाग तव पावै ।

नूरसुहम्मद : अनुराग वासुरी ।

काल-महिमा :

अपनी समय पपीहा बोले, सुनि ता वचन बहुत मन डोले ।
 अपनी समय मेघ जल डारा, हरित होय धरनी संसारा ।
 समय पाय जोवन तन आये, सुन्दरता छवि देह बढावे ।
 समय पाय तव गालनि कृने, तव मधुकर मन तापर भूले ।

नूरसुहम्मद अनुराग वासुरी ।

थाती-चर्चा :

जो थाती काहू सो नासै, आपुइ आप न ताही प्रासै ।
जो थाती थाती लै धरई, नासै उत्तर ताहि को करई ।
जो थाती दूसर धर माहीं, डर सो डारा कर तेहि नाहीं ।
हंसजवाहिर : कासिमशाह ।

ब्रह्म-महिमा :

दरबहि ते यह राज पसारा, दरब लागि जग आई जोहारा ।
उसमान : चित्रावली ।

लालच :

लालच बाधा सब संसारा, लालच सों मृदु होइ पहारा ।
लालच हस्ती कर बल हरा, लालच सों हरनाकुस धरा ।
उसमान : चित्रावली ।

भूगोल-ज्ञान :

उत्तर दिसा दीप अति भला, धौलागिरि पर्वत कंह चला ।
प्रथमहि नगर कोट कर फेरी, काशमीर पुनि तिन्वत हेरी ।
हरद्वार पै गंग नहावा, मागी हींछा सिधु मनावा ।
सिरी नगर गढ देखि कुमाऊं, खसिया लोग वसेह तेहि गाऊं ।
पुनि बदरी केदार सिधारा, हूँडा फिरि फिरि सकल पहारा ।

इसके अतिरिक्त काबुल, वदरशा खुरासान, रूम, मक्का, मदीना, बगदाद इस्तम्बोल, मिश्र, लद्दाख, गुजरात, सेतुबन्ध-रामेश्वर, लंका, वरार, देवगिरि, चित्तौर, मथुरा, वृन्दावन, दिल्ली, आगरा, प्रयाग, काशी, रोहिताश्वगढ आदि का वर्णन क्रम से किया गया है । विभिन्न स्थलों में पाई जानी वाली जातियां, उनकी विशेषता, एवं स्थल विशेष से सम्बन्धित आचार विचार का वर्णन भी कवि उसमान ने किया है ।

बलंदीय देखा अंगरेजा, जहां आई नहि कठिन करेजा ।
जंच नीच धन सम्पति हेरा, मद बराह भोजन जिन केरा ।

अंगरेजों का भारत में आगमन सन १६०० में हुआ सन १६१२ में सूरत में कंपनी के गुदागों की स्थापना हुई । चित्रावली का रचना काल सन १६१३ है । काव्य में उनकी विशेषता के साथ अंगरेजों का वर्णन कवि की सजगता का सूचक है ।

बंगाल प्रदेश के अन्तर्गत अंग्रेजों के नगरों और बन्दरगाहों का वर्णन भी मिलता है। वेलीबन्दर की चर्चा ऊपर हो चुकी है, इसके अतिरिक्त पोर बन्दर, सोनारगाव, मलुआ, चटगाव, सोनादीप, मनीपुर, कूचकछार, आदि का वर्णन भी मिलता है। बंगालियों की भोजन विशेषता का उल्लेख भी कवि उसमान ने एक ही दोहे में पूर्णरूप से कर दिया है।

सब कह अमरिन पाच हैं, बंगाली कंह सात।

केला, काजी, पान, रस, साग, माछरी भात ॥

मगहर प्रदेश की वर्जित यात्रा, एवं तिरहुत के प्रसिद्ध कवि विद्यापति का उल्लेख करना भी कवि नहीं भूला है।

‘मगह देखि फिरा सिर धुनी, तिरहुति में विद्यापति सुनी’।

प्रयाग और काशी की धार्मिक विशेषताओं का कवि ने उल्लेख किया है।

आइ प्रयाग कीन्ह तिरबेनी, करवट देखी सरग निसेनी।

कासी माह विसेसर पूजा, जाहि देव सर आहि न दूजा।

इसी प्रकार कवि उसमान, जहा अपने भूगोल-ज्ञान का पूर्ण परिचय देते हैं वहीं दूसरी ओर हंसजवाहिर के रचयिता का मन कथा के इतिवृत्त में अधिक रमा है, वे चीन से बलख देश तक का वर्णन करने में भी अपने भौगोलिक ज्ञान का विशेष परिचय नहीं देते।

पौराणिक कथा-ज्ञान :

कथा के मध्य, विशेष भावों की पुष्टि के हेतु दृष्टान्त रूप में इन कवियों ने कई पौराणिक आख्यानों का उल्लेख किया है, जिनमें नल दमयन्ती, उषा-अनिरुद्ध, अर्जुन-द्रोपदी, समुद्र एवं अगस्त्य, राघव-सीता, कृष्ण-बहेलिया, रति एवं तिलोत्तमा का उल्लेख है। फारसी के प्रेमाख्यान लैला-मजनून, शीरी-फरहाद, मेहरशाह और दिलाराम, एवं पौराणिक प्रेमाख्यान युसुफ जुलेखा का भी उल्लेख आया है। लोक कथाओं में, विक्रम, भोज और हरिश्चन्द्र की दानशीलता और सत्यवादिता का उल्लेख है। साधना सम्बन्धी महान व्यक्तियों, गोपीचन्द्र, मानिकचन्द्र, गोरखनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ आदि का भी वर्णन है।

मनोविज्ञान : (स्वप्न विश्लेषण)

स्वाप आप नहि राखत काया, हैं वह जाग लोक के छाया।

स्वाप नगर गो हैं परछाहीं, काया मूल तहा है नाहीं।

नूरमुहम्मद . अनुराग वासुरी।

षट ऋतु :

ऋतु वर्णन के अन्तर्गत इन कवियों ने अपने नक्षत्र-ज्ञान का भी परिचय दिया है। वर्षा काल के अन्तर्गत कई नक्षत्रों की चर्चा होती है। कवि नूरमुहम्मद ने आद्रा, पुनर्वस, अश्लेष, स्वाती, पुष्य, मघा और हथिया का वर्णन किया है।

पुष्य नक्षत्र अस धन भरलाई, चला सरेखा सेज नहाई।
वरसै मघा अवनि भर लाई, वूड़ा वूड़ जगत जल छाई।
हथिया वरसै पवन भुकोरी, नैन चुवै जिमि छपरा ओरी।

नूरमुहम्मद : इन्द्रावती।

इन कवियों को प्रचलित रोग और उनके निदान का भी ज्ञान था। कवि नूरमुहम्मद और उसमान का इस श्रेणियों विशेष भुकाव ज्ञात होता है। उसमान ने मूर्च्छा के जिस उपचार की चर्चा अपनी 'चित्रावली' में 'चित्र धोवन' प्रसंग के अन्तर्गत की है वह आधुनिक है।

सुन न कळू कहै जो कोई, जनु मनि खोई भुयंगिनि सोई।
कोई सखि दसन खोलि जल नावै, कोट गहै नाकि सास जेहि आवै।
कोई अश्रल गहि पौन डुलावै, कोइ करतल पातल सुहरावै।
कोइ चंदन घसि पोतै काया, वरत अगिन जानौ धिउ नाया।

धरी चारि वीतै वहुरि, भयो चेत कछु तासु।
नैन उघारि निहारि तब, कहेसि ऊभि लै सासु॥

उसमान : चित्रावली।

नूरमुहम्मद ने 'इन्द्रावती' के अन्तर्गत एक पूरा खण्ड ही 'श्रौषधिखण्ड' रक्खा है। इसके अतिरिक्त अपनी कथा में जहाँ कहीं भी उन्हें अवकाश मिला है वहाँ अपनी दोनों ही रचनाओं 'इन्द्रावती और अनुराग बाँसुरी' में कवि ने रोगों और उनकी श्रौषधियों की चर्चा की है। जान कवि ने एक पृथक ग्रन्थ 'वैदिक सन' के नाम से रोगों पर लिखा है।

वायु-पित्त असलेखन खोनित, रोग उपजावै कुन्धुद जो निन।

नूरमुहम्मद . अनुराग बाँसुरी।

पित्त बढ़ै नो श्रौखट पावै, चन्दन और गुलाब मिटावै।
जो मारुत तन दुख उपजावै, मृगमद बेसर ताहि नसावै।
जहँ अमलेखन व्याधि नरीरा, ग्रंथि मागधी नासै पीरा।

अजा दुग्ध महँ माती, पीसि पियै जो कोइ।

मागे चार तीन दिन, सबल नेहिक मन होइ।

स्वाद तजै जो रसना, वात न सुधरै जाहि ।

भुंज सोंठ औ हरदी, मिर्च पीस मल ताहि ।

इस प्रकार कवि नूरमुहम्मद ने अनेक रोगों की औषधि का वर्णन बड़े विस्तार से किया है । बहुत सम्भव है कि नूरमुहम्मद का वैद्यकशास्त्र में प्रवेश हो । इसके अतिरिक्त ज्योतिष शास्त्र की चर्चा भी इन सूफी कवियों ने मनोयोग से की है ।

ज्योतिष-ज्ञान :

मिथुना लगन अंस औनीसी, उदै पुनर्वसु अति सुभ दीसी ।
तिसरे सुर्ज चन्द्रमा नएँ, दुसरे बुद्ध सुक्र संग लएँ ।
सनमुख सूर सती पुनि देखा, चौथ चरन सतभिषा सरेखा ।
राहु जनम दसए पुनि सनी, जिउ एगारहँ जासौँ धनी ।
भौम एगरहै पुनि सुख देखा, गढपति हनै विट गढ लेखा ।
राहु केतु दोउ अपने ऊँचा, सीस छत्र गए सर्ग पहुँचा ।

मीन माये हरदै नषत, गनि गुन कीन्ह वखान ।

होड़ा चक्र विचारि कै, राखौ नाउ सुजान ।

उसमान . चित्रावली ।

इसके अतिरिक्त कवि नूरमुहम्मद ने सामुद्रिक शास्त्र की भी चर्चा की है ।

वाम कपोल मसा जेहि होई, सुखी सोहागिन नारी सोई ।

भौंह दुइज के चाद सम, लघु अंगुली सम नाक ।

प्रीत बहुत तेहि कन्त सों, सुख संपति को आक ॥

नूरमुहम्मद : इन्द्रावती ।

दिशाशूल-विज्ञान :

देखें परिष्ठत वेद विचारी, अदिन शूक पछिम दिशि मारी ।

मङ्गल बुध उत्तर दिशि गाढा, समहुँ काल कटक लिये ठाढा ।

सोम सनीचर पूरव हीना, वेफै दखन सो औगुन चीना ।

जोरे उताहिल चहै सिधावै, औपध खाय मिये सुख पावै ।

बुध दवि औ वेफै गुड़ मीठा, रवि तावूल खाय सुख दीठा ।

राई खाय शूक पग धारै, दर्पण देख सो सोम सिधारै ।

वायविडंग शनीचर मृरी, मङ्गल धनियों खा दुग्व दूरी ।

कासिमशाह हंसजवाहिर ।

राशि-चर्चा :

मेघ सिंह धन पूरव शशी, सुता मकर वृष दक्खिन लसी ।
 तुला मिथुन घट पश्चिम में वस, कर्क मीन वृश्चिक उत्तर वस ।
 धनो मकर साकर दुख लिये, देखे पाप जो पाछे दिये ।
 चले विदेश औ गिरह बतावै, समहँ चाँद महासुख पावै ।
 उत्तरकाल अदित कहं रहै, सोमकाल वायव फल कहै ।
 पश्चिम निरतकाल भव माहा, दक्खिन अग्नि शुक्र गुरु ताहा ।
 सोम काल पूरव मा रहै, काल पीठ दे चल सुख लहै ।
 छीजै निर्मल चन्द्रमा, हुये वली औतार ।
 ऐसे विन लक्षण कहे, धनी करे करतार ॥

कासिमशाह : हंसजवाहिर ।

ग्रहण-विचार :

पहिले सखी पियारी, रविससि गहन विचार ।
 फेर कहानी भापेउ, चाहा जीव हमार ॥
 कहा मेघ के बीच पियारी, जो रवि गहन होइ अंधियारी ।
 अग्नि टरै पसु भरै बहूत, घटै सुफल अनपढे अकूता ।
 बाढै विग्रह मानुष माही, मलिन प्रीत रहै कछु नाहीं ।
 जो ससि गहन मेघ में होई, दुख के फाद परै सब कोई ।
 सिंहासन पति जीत न पावै, तापर जो रिपुता पर आवै ।

नूरमुहम्मद : इन्द्रावती ।

इसी प्रकार प्रत्येक राशि के मध्य सूर्य और चन्द्र ग्रहण की चर्चा की गई है ।

योगिनि-चक्र :

सत्तादस उत्रिस वारह चारी, योगिनि पश्चिम चली विचारी ।
 इन नौ सोरह चौविष माही, पूरव दक्खिन कोण विच माहीं ।
 छव्विम अठारह ग्यारह तीन; योगिनि देन्यै पाँच प्रवीन ।
 दुइ पचीस सत्रह दस होई, दक्खिन पछिम विच जानों सोई ।
 चौदह सात उनीस औ वादस, योगिन पूरव सहँ जिन जाउस ।
 पन्द्रह तीस आठ बत्तीसा, योगिनि उत्तर सहँ महं दीसा ।
 बीस पाँच और तेरह जानो, योगिनि वायव महं पहिचानो ।

कासिमशाह : हंसजवाहिर ।

संगीत-ज्ञान :

सूफ़ी कवियों का संगीत-ज्ञान बहुत पूर्ण ज्ञात होता है। विभिन्न राग, रागिनिया, भेद, उपभेद, ताल, स्वर, गायनकाल आदि सभी का निर्देश इन कवियों ने अपने काव्य में किया है। संगीत वर्णन में उनकी आध्यात्मिक कल्पना भी सजग है।

जहाँ-जहाँ चलि पग धरै, उठै छतीसो राग ।
मोहि इन्द्र सों सब्द सुनि, जगत भयो वैराग ।

उसमान : चित्रावली ।

हैं षट् राग, छतीस रागिनी, और संग पुत्र पुत्रभामिनी ।
प्रथम राग भैरों की जानहु, मालकोस दूसर पहिचानहु ।
पुनि हिण्डोल दीपक अहही, श्री राग धरती को कहही ।
षष्ठमराग मलार कहावै, पुत्र भारजा कौन गनावै ।

ताल एक सै सात हैं, सात भात सुर जान ।
तीन लाख सत्रह सहस, नौ तीस मतान ।

इसी प्रकार सभी रागों की चर्चा है। प्रति राग के अन्तर्गत रागिनियों और उनके वादन समयों का वर्णन है।

भैरों गुनन सखिन सहेली, गुजरी, रामकली रंग खेली ।
टोड़ी संग जान देवगिरी, वरनि न जाय सो धन शिरी ।

कन्त राग भैरव तहा, नारि मेखी मोर ।
सखी गूजरी और श्री, रामकली यकठौर ।

कातिक क्वार शरदऋतु माहा, प्रथम राग भा भैरों नाहा ।

नूरमुहम्मद : इन्द्रावली

कवियों के नायक नायिका सम्बन्धी साहित्यशास्त्र ज्ञान की चर्चा काव्य-तत्त्व के अन्तर्गत की गई है। यहा एक और विशेष ज्ञान, कामशास्त्र का परिचय देना असीध है। कवि उसमान ने अपनी चित्रावली में एक पूरा खण्ड 'कामशास्त्र' का रक्त्ता है, जिसमें भिन्न जाति के पुरुष, एवं स्त्रियों की चर्चा के अतिरिक्त कामकेलि, उनका काल एवं प्रतिफल सभी विषयों की चर्चा की गई है, अतः स्पष्ट है कि जिन विषयों का वर्णन इन कवियों ने अपने काव्य में किया, लगभग उन सभी का ज्ञान इन सूफ़ी कवियों को स्वयं था। 'काम-शास्त्र' की महत्ता प्रतिपादित करते हुये कवि उसमान कहते हैं।

जो यह वान सौंह होइ खावा, णहि जग जिअन अमरपद पावा ।
काम भेद जो जानै कोइ, दम्पति सेज महासुख होई ॥

सुनहु पदुमिनी केर वखाना, थ्यानन पूरन इन्दु समाना ।
 हेम कंवल तन सुन्दरताई, फूल सरखि गात कुंवराई ।
 चित्रा सारंग सावक नैनी, सुफ नासिक मराल सुभ गैनी ।
 पुहुप सरोज वास तन वामा, लज्जावति मानति विसरामा ।
 तीन रेख कटि त्रिवली बनी, हंसमुखी और अलपासनी ।

इसी प्रकार प्रत्येक विषय का विस्तार से वर्णन इन कवियों ने किया है ।

जान कवि ने अपनी एक और विशेषज्ञता का परिचय 'पाहन परीक्षा' ग्रन्थ की रचना करके दिया है, जिसमें कवि ने भिन्न प्रकार के पत्थरों की पहचान और उनके उपयोग की चर्चा की है । ग्रन्थ की रचना दोहों में है । इस ग्रन्थ में उन्होंने भारतीय और तुरकी दोनों ही प्रकार के पत्थरों की चर्चा की है । नीलकण्ठ, चतुरवक्र, गररमनि, मनिराजा, हंसचर्म, मोहन मनि, सेपनाग मनि, कउस्थ मनि आदि भारतीय एवं सेतमुहत्, गौहरासा, सलवानह, हमजा कलवा, पाइनहर बर्न, लात्रवरद, पाहन ऊद, पाहन जंगार आदि तुर्की पत्थरों की चर्चा है ।

शंबरी पाहन गुन :

तीन भानि विन्दुका अभिराम, तापर सेत पीति पुनि स्याम
 वाकौ भाजन करिकै खाई, वात सन्न कौ रोग घटाई ।
 कीरपंथ सौ नीलौ होत, छिटके बीच सेत निन जोत ।
 सुरुमुप जानहु ताको नाम, पुजवन मन इच्छा भव काम ।

जान कवि: ग्रन्थ पाहन परीक्षा ।

उपरोक्त विषयों पर हिन्दी के सूफ़ी कवियों के विशेष ज्ञान का परिचय मिलना, उनकी बहुमुखी प्रतिभा का द्योतक है । वास्तव में ये कवि केवल काव्य-मर्मज्ञ ही न थे, इनकी दृष्टि अपने चतुर्दिक व्याप्त जगत और जीवन के प्रति जागरूक थी ।

सूफियों का स्फुट साहित्य

हिन्दी के सूफ़ी कवियों ने केवल प्रेमाख्यानों की ही रचना नहीं की है। प्रेमाख्यानों के अतिरिक्त इन कवियों की अन्य रचनायें भी उपलब्ध हैं जिनकी विषयगत विवेचना करने पर उनके कई प्रकार प्राप्त होते हैं।

विविध प्रकार

स्वतन्त्र एवं भावमूलक प्रेमाख्यान :

सूफ़ी प्रेमाख्यानों, जिनमें प्रेम के अध्यात्मिक स्वरूप के दर्शन होते हैं, के अतिरिक्त ऐसे स्वतन्त्र प्रेमाख्यान भी मिलते हैं जिन्हें फिर हम दो प्रकारों में बाँट सकते हैं। प्रथम तो अविवाहित नायिका से प्रेममूलक, द्वितीय विवाहित नायिका से व्यभिचार मूलक प्रेम-प्रयास की कहानियाँ। ऐसे स्वतन्त्र प्रेमाख्यानों की अधिक रचना जानकवि ने की है। उसके सूफ़ी प्रेमाख्यानों के अतिरिक्त कथा पीतमदास, कथा कलन्दर, कथा देवल देवी, कनकावती कथा, कथा कौतूहली की, कथा सुभटराइ की, कथा निर्मल देवी, कथा सतवन्ती, कथा शीलवन्ती, कथा कुलवन्ती, कथा तमीम अन्सारी, कथा बलूकिया विरही आदि प्रेम कथायें उपलब्ध होती हैं। कथा निर्मल देवी में व्यभिचार मूलक प्रेम का वर्णन है किन्तु निर्मल देवी के सतीत्व के कारण नायक को अपनी निम्न वासना का सुधार करना पड़ा, और ऐसा शक्त होता है कि कवि कथा के माध्यम से सतीत्व एवं पातिव्रत की महिमा स्थापित करना चाहता है। जान कवि ने ऐसी कई प्रेम कथायें लिखी हैं जिनमें कवि का उद्देश्य वास्तव में किसी भाव विशेष का स्पष्टीकरण ही है। ऐसी कहानियों के अन्तर्गत हम कथा शीलवन्ती, कथा कुलवन्ती आदि को ले सकते हैं, इन कहानियों में कवि ने शील, कुल एवं सतीत्व-धारण के महत्व का प्रदर्शन ही अधिक किया है। इसी प्रकार 'चन्द्रसेन राजा शीलनिधान की चौपड़' के अन्तर्गत भी कवि नारियों के मध्य शील की महत्ता का ही प्रदर्शन करना चाहता है। उसका कथन है कि सभी नारिया 'शीलवन्ती' नहीं होती और अपने इसी

विचार की पुष्टि के हेतु उसने अपने नायक का परिचय चार स्त्रियों से कराकर उनमें से केवल एक जो अपेक्षाकृत अन्य पत्नियों से असुन्दर थी, को ही शीलवती प्रदर्शित किया है। वह शील और कुल का भी अद्भूत सम्बन्ध मानता है। उच्च एवं भद्रवंश की महिला ही शीलवती होती है। इसी प्रकार कथा कुलवन्ती, कथा शीलवन्ती, कथा सतवन्ती आदि में भी कवि ने व्यभिचार-मूलक प्रेम का वर्णन कर उसे शील, कुल एवं सतीत्व के सम्मुख पराभूत होते प्रदर्शित किया है।

पद्यात्मक सिद्धान्त-ग्रन्थ :

स्वतन्त्र एवं भावमूलक प्रेमाख्यानो के अतिरिक्त, सूफी साहित्य में उन स्फुट दोहों, चौपाइयों एवं पदों का भी महत्व है जिनमें कवि ने वर्णमाला के क्रम पर रचना करके, सूफी सिद्धान्तों को स्पष्ट करना चाहा है। जायसी की अखरावट ऐसी रचनाओं में अकेली नहीं है। जायसी के अतिरिक्त जानकवि का 'वर्ननामा' एवं यारी साहब का 'अलिफनामा' तथा वजहन का 'वजहननामा' उल्लेखनीय हैं जिनमें जान कवि ने नागरी वर्णान्तरक्रम से तथा यारी साहब और वजहन ने फारसी वर्णान्तरक्रम से इन ग्रन्थों की रचना की है^१। जायसी ने भी अपनी 'अखरावट' की रचना हिन्दी वर्णमाला के क्रम से की थी। इन सूफी काव्यों में अलिफ आदि वर्णों की महत्ता की ओर भी कहीं कहीं संकेत मिलता है। नूरसुहम्मद ने इसका उल्लेख अपने दोनों उपलब्ध ग्रन्थ इन्द्रावती एवं अनुरागवांसुरी में किया है। सूफीमत पर अपने विचार विस्तारपूर्वक व्यक्त करने वाले पाश्चात्य पंडितों में श्री ए० जे० आरबरी ने 'रॉयल एशियाटिक सोसाइटी' के वाम्बे ब्रांच वाले जरनल में सूफियों के दृष्टिकोण से वर्णमाला की चर्चा की है।

लोकगीतात्मक सिद्धान्त एवं चैतावनी सम्बन्धी पद :

कुछ ऐसी रचनायें भी हैं जिनका स्वरूप एवं विषय, लोकगीतों की भाँति है। ये पद विभिन्न राग रागिनियों के अनुसार लिये गये हैं अतः इनकी गीतात्मकता में किञ्चित् सन्देह नहीं है। ऐसी रचनाओं में मुराद कवि रचित वसन्त एव होरी गान सम्बन्धी पद आते हैं। कवि अब्दुलसमद आदि ने भी ऐसे गीतों की रचना की है।

१. टट्टे टेकु गहे नाम की, जपहु अलप दिन रैन।

मंतनि की यहू रीति है सुमिरन हो मे चैन।

जान कवि वर्ननामा।

जीम जगत पती हीर डैर्य रागहु, हे हलीम होय नरहरी भापहु।

से सालक छाडहु मय फुडा, दाल वआल सुमिरहु अरुटा।

यारी साहब अलिफनामा।

की बड़ी प्रशंसा की है। अरबी, फारसी, तुर्की एवं हिन्दी भाषा में कुल मिलाकर इन्होंने ६६ ग्रंथ रचे हैं जिनमें से केवल २२ ही अभी तक उपलब्ध हो सके हैं इनकी हिन्दी रचनाओं के विषय अधिकतर दैनिक अनुभवों से सम्बन्ध रखते हैं। डा० रामकुमार वर्मा के अनुसार खुसरो की कविता में गम्भीरता के लिये कोई स्थान नहीं, किन्तु इनके कुछ दोहों और पदों में रहस्यात्मक ढंग से जीव और ब्रह्म की चर्चा की गई है।

‘खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग।

तन मेरो मन पिऊ को, दोऊ भये इक रंग ॥

तथा

बहुत रही बाबुल घर दुलहिन, चल तेरे पी ने बुलाई।

बहुत खेल खेली सखियन सों, अन्त करी लरकाई ॥

न्हाय धोय के बस्तर पहिने, सबही सिंगार बनाई।

विदा करन को कुटुम्ब सब आये, सिगरे लोग लुगाई ॥

चार कहारन डोली उठाई संग पुरोहित नाई।

चले ही बनैगी, होत कहा है नैनननीर बहाई ॥’

अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु का इन्हें अत्यन्त शोक था और सम्भवतः उन्हीं के वियोग में इनकी मृत्यु संवत् १३८१ में हो गई।

शेख फरीद फरीदउद्दीन चिश्ती के वंशधर थे। इनके कई नाम (फरीद सानी, तलीम फरीद, शेख इब्राहीम) सुने जाते हैं। डा० मैकालिफ ने खुलासानुत्तवारीख के प्राधार पर इनकी मृत्यु २१ वीं रज्जब हिजरी १५६० अर्थात् सन् १५३ में निश्चित की है। दो बार इनकी भेंट गुरु नानक से हुई थी, तथा इनकी स्फुट रचनायें आदिग्रन्थ में संग्रहीत हैं, जिनमें कुछ सलोक एवं पद हैं।

काशी नागरी प्रचारिणी सभा के हस्तलिखित ग्रंथ संग्रह में भी शब्दसागर नामक एक संग्रह ग्रन्थ है, जिसमें सन्तों एवं भक्तों जैसे दादू, सेन, नानक, रज्जव फरीद, सूरदास एवं गरीबदास के पदों और सलोकों का संग्रह है। परमात्मा के अन्तर्धामी स्वरूप का परिचय फरीद साहब इस प्रकार देते हैं—‘फरीद शाखाओं और काटों को अलग करता हुआ जंगल जंगल क्यों भटकता है। ससार का कर्ता तेरे हृदय में निवास करता है फिर तू जंगल से उसे क्यों ढूँढता है’^१। इसीलिये संभवत वे किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहते।

१. फरीद जगलु जगलु क्रिया भवहि वणि वडा मौडेहि ।
फरीद रवु हिआलीए जगलु क्रिया दुदेहि ॥

वे लिखते हैं कि हर हृदय एक रत्न के समान है, उसे दुखाना किसी भी प्रकार अच्छा नहीं है। अगर तू वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करता है तो किसी के हृदय को न दुखा^१। वास्तव में परमेश्वर के सच्चे साधक वे ही हैं जो दैन्य, धैर्य एवं शील को धारण करते हैं^२। ये संसार एक तालाब की भाँति है जिसमें निवास करने वाले पक्षी को फंसाने के लिये माया रूपी पचास जाल हैं। इस जीवात्मा को एक परमेश्वर का सहारा है^३। परमेश्वर के प्रति प्रेम वही कर सकता है जिसके हृदय में लोभ न हो। जहाँ लोभ है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। भला-वर्षा श्रुत में टूटे छप्पर के नीचे मेह से कोई कब तक बच सकता है^४। शेख फरीद ने मृत्यु को जीवात्मा और परमात्मा के बीच का व्यवधान हटाने वाले के रूप में चित्रित किया है। धनवती के व्याह का दिन पहले ही निश्चित हो चुका था। जिस दूल्हे के वारे में बहुत दिन से चर्चा थी वह अपना मुँह दिखाने आ पहुँचा। 'हृदियों को कड़काकर वह उसको अपने साथ बरबस ले जायगा। तू अपनी जीवात्मा को समझा दे कि नियत षड़ी बदली नहीं जा सकती। विदा होते समय वह वेचारी किसके गले बाँधे डालेगी। क्या जानते नहीं कि दुलहिन बाल से भी अति सूक्ष्म है। फरीद जब तेरा बुलावा आये उठ कर खड़े हो जाना, अपने को धोखा न देना^५'

अन्य सूफियों की भाँति शेख फरीद भी विरह को महत्व प्रदान करते हैं, जिस हृदय में विरह उष्ण नहीं होना वह शरीर रश्मिशांन के समान है। 'मेरा शरीर तंदूर की भाँति तप रहा है, हृदियाँ ईंधन की भाँति जल रही हैं। मेरे पैर अगर थक भी जायें तो भी अपने

१. संभना वन माणिक ठाहणु मलिय चागवा ।
जे तारु पोरी असिक हिश्वाठ न ठाहे कहीदा ॥
२. निवणु सु अखरु खवण गुणु जिहवा मणिया मन्तु ।
पेन्रै भेंडे वैस करि तावसि आवी कंतु ॥
३. सरवर पखी हेकड़ी फाहीवाल पचास ।
रहु तनु लहरी गुणु तिया सचे तेरी आस ॥
४. फरीदा जा लबु त नेहु किया लबु त कड़ा नेहु ।
किचरु मायि लघाईये छपरि तुटै मेहु ॥
५. जितु दिहांदे धनवरी साहे लमे लिखाई ।
मलकु जिंकनि सुनी दा, मु ह डेराले आद ।
जिन्दु निगाणी कर्डी ये, हदा कु कड़काइ ।
साहे लिखे न खलनि जिन्दुकु समझाइ ।
जिन्दु बहरी करणु वरु, लै जास्यो परणाइ ।
आपण हयौ जौनि रे, वैवलि लैगधाइ ।
पालुहु निका पुरमलाल, कसी न सुनी आइ ।
फरीदा कि, पी पवन दर्ह, खदा न आप मुदाइ ।

की बड़ी प्रशंशा की है। अरबी, फारसी, तुर्की एवं हिन्दी भाषा में कुल मिलाकर इन्होंने ६६ ग्रंथ रचे हैं जिनमें से केवल २२ ही अभी तक उपलब्ध हो सके हैं इनकी हिन्दी रचनाओं के विषय अधिकतर दैनिक अनुभवों से सम्बन्ध रखते हैं। डा० रामकुमार वर्मा के अनुसार खुसरो की कविता में गम्भीरता के लिये कोई स्थान नहीं, किन्तु इनके कुछ दोहों और पदों में रहस्यात्मक ढंग से जीव और ब्रह्म की चर्चा की गई है।

‘खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग ।
तन मेरो मन पिऊ को, दोऊ भये इक रंग ॥

तथा

बहुत रही बाबुल घर दुलहिन, चल तेरे पी ने बुलाई ।
बहुत खेल खेली सखियन सों, अन्त करी लरकाई ॥
न्हाय धोय के बस्तर पहिने, सबही सिंगार बनाई ।
विदा करन को कुटुम्ब सब आये, सिंगारे लोग जुगाई ॥
चार कहारन डोली उठाई संग पुरोहित नाई ।
चले ही बनैगी, होत कहा है नैनननीर बहाई ॥’

अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु का इन्हें अत्यन्त शोक था और सम्भवतः उन्हीं के वियोग में इनकी मृत्यु संवत् १३८१ में हो गई।

शेख फरीद फरीदउद्दीन चिश्ती के वंशधर थे। इनके कई नाम (फरीद सानी, सलीम फरीद, शेख इब्राहीम) सुने जाते हैं। डा० मैकालिफ ने खुलासावृत्तवारीख के आधार पर इनकी मृत्यु २१ वीं रज्जब हिजरी १५६० अर्थात् सन् १५३३ में निश्चित की है। दो बार इनकी भेंट गुरु नानक से हुई थी, तथा इनकी स्फुट रचनायें आदिग्रन्थ में संग्रहीत हैं, जिनमें कुछ सलोक एवं पद हैं।

काशी नागरी प्रचारिणी सभा के हस्तलिखित ग्रंथ संग्रह में भी शब्दसागर नामक एक संग्रह ग्रन्थ है, जिसमें सन्तों एवं भक्तों जैसे दादू, सेन, नानक, रज्जब फरीद, सूरदास एवं गरीबदास के पदों और सलोकों का संग्रह है। परमात्मा के अन्तर्यामी स्वरूप का परिचय फरीद साहब इस प्रकार देते हैं—‘फरीद शाखाओं और काटों को अलग करता हुआ जंगल जंगल क्यों भटकता है। संसार का कर्ता तेरे हृदय में निवास करता है फिर तू जंगल में उसे क्यों ढूँढता है’^१। इसीलिये सम्भवतः वे किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहते।

१. फरीद जगलु जगलु क्रिया भवहि वणि कडा मौँदेहि ।
फसो रबु हिथालीएँ जगलु क्रिया दुँदेहि ॥

वं लिखते हे कि हर हृदय एक रत्न के समान है, उसे दुखाना किसी भी प्रकार अच्छा नहीं है। अगर तू वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करता है तो किसी के हृदय को न दुखा १। वास्तव में परमेश्वर के सच्चे साधक वे ही हैं जो दैन्य, वैय एवं शील को धारण करते हैं २। ये संसार एक तालाब की भाँति है जिसमें निवास करने वाले पत्नी को फंसाने के लिये माया रूपी पचास जाल हैं। इस जीवात्मा को एक परमेश्वर का सहारा है ३। परमेश्वर के प्रति प्रेम वही कर सकता है जिसके हृदय में लोभ न हो। जहाँ लोभ है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। भला वर्षा ऋतु में टूटे छप्पर के नीचे मेह से कोई कब तक बच सकता है ४। शेखफरीद ने मृत्यु को जीवात्मा और परमात्मा के बीच का व्यवधान हटाने वाले के रूप में चित्रित किया है। धनवती के व्याह का दिन पहले ही निश्चित हो चुका था। जिस दूल्हे के वारे में बहुत दिन से चर्चा थी वह अपना मुँह दिखाने आ पहुँचा। 'हड्डियों को कड़काकर वह उसको अपने साथ बरबस ले जायगा। तू अपनी जीवात्मा को समझ दे कि नियत षड़ी बदली नहीं जा सकती। विदा होते समय वह बेचारी किसके गले बाँधे डालेगी। क्या जानते नहीं कि दुल्हिन बाल से भी अति सूक्ष्म है। फरीद जब तेरा बुलावा आये उठ कर खड़े हो जाना, अपने को धोखा न देना ५।'

अन्य सूफियों की भाँति शेख फरीद भी विरह को महत्व प्रदान करते हैं, जिस हृदय में विरह उष्ण नहीं होता वह शरीर श्मशान के समान है। 'मेरा शरीर तंदूर की भाँति तप रहा है, हड्डियाँ ईंधन की भाँति जल रही हैं। मेरे पैर अगर थक भी जायें तो भी अपने

१. सभना वन माणिक ठाहणु मलिय चागवा।
जे तारु पौरी असिक हिआउ न ठाहे कहीदा ॥
२. निवणु सु अखरु खवणु गुणु जिहवा मणिआ मन्नु।
ऐत्रै भैंडे वैस करि तावसि आवी कतु ॥
३. सरवर पखी हेकड़ो फाहीवाल पचस।
रहु तनु लहरी गुणु तिया सचे तेरी अम्म ॥
४. फरीदा जा लबु त नेहु किय्रा लबु त कूदा नेहु।
किचरु मायि लघाईये छपरि तुटे मँहु ॥
५. जितु दिहोए धनवरी साहे लये लिखाई।
मलकु जिक्नि सुनी दा, मुँह देगाले आइ।
जिन्दु निगाणी कडी ये, हदा कु कड़काइ।
साहे लिखे न चलनि जिन्दुकु समकाइ।
जिन्दु बहरी करणु वरु, लै जासी परणाइ।
आपण हयौ जौलि रे, बैचलि लंगधाइ।
पालहु निका पुरसलाल, वन्नी न सुनी आइ।
फरीदा किरी पचन दर्द, रदा न आप मुहाइ।

प्रीतम से मिलने, सिर के बल चलकर जाऊँगी १।' फरीद ने शरीयत या कर्मकाण्ड की चर्चा भी की है किन्तु हृदय की स्वच्छता उन्हें विशेष रूप से मान्य है। सबेरे डठकर वजू करने के पश्चात्, नमाज पढ़, वह सर काटकर फेंक देने के योग्य है जो मालिक के आगे न भुके २। धन संग्रह एवं विलासमय जीवन विताना साधक का कर्तव्य नहीं। किसी के पास तो खाने को सूखी रोटी नहीं और किसी के पास अन्न ही अन्न है। लेकिन यह तो उनके यहाँ से जाने के बाद ही मालूम होगा कि दंड कसे भुगतना पड़ेगा। काठ की जैसी रोटी और नमक ही मेरा भोजन है। जो घी चुपड़ी खाते हैं, उन्हें बहुत दुःख उठाना पड़ेगा ३।

इसके अतिरिक्त शेख फरीद के राग-रागिनियों में लिखे गये भी पद उपलब्ध होते हैं।

राग मत्तानी टोड़ी

क्यू क्यू क्यूं मैंडे सजना क्यू
मैनन जोबन तो कू संज्यो, सब रस रस रस यूं।
टेक नैन प्राण तौंऊं परिवारूं, जिमु तरसै धू यूं यूं यू।
सेख फरीद औसी ल्यौ लाई, ज्यूं रब रखै त्यूं त्यूं त्यूं।

राग सही

तपि तपि लुहि लुहि हाथ मरोरउं, बावलि होइ सो सहु लोरउं।
तैं सहि मन महि कीआ रोसु, मुके अवगुन राह नहीं दोसु।
तैं साहिव की मैं सार न जानी, जो वनु खोइ पाछे पछितानी।
कालीकोयल तू कित गुन काली, अपने प्रीतम के हउ विरहै जाली।

१ विरहा विरहा आखीये विरहा तू सुह्तानु।
फरीदा जिन तयु विरहु न ऊपजै से तनु जाण मसाणु।
तनु तपै तनूर जिउ, बालण हड बलन्हि।
पैरि धंका सिरिजुवा जे मू पिरी मिलन्हि।

२ उठु फरीदा एजूसाजि सुवह निवाज गुजारि।
जो सिरु साई ना निवै सो सिरु कपि उतारु।

३ फरीदा इकना आटा अगला, इकना नाहीं लोणु।
अन गये सिआसपन्हि चोंटा खासी कोणु।
फरीदा रोटी मेरी काठकी लावणु मेरी भुख।
जिन्हा ग्वाधी चौपटी घणे सहनिगे दुख।

पिरोह विह्वन कनहि सुखु पाए, जा होइ कृपालु ता प्रभु मिलाए !
विधण, कुही मुंघ अकेली, ना कोइ साथी ना कोइ वेली ।
वाट हमारी खरी उडीणी, खनिअहु तिखी बहुतु पिडेणी ।
अमु ऊपीर है मारगु मेरा, सेख फरीदा पंयु तम्हारि सवेरा ।

(विरह प्वर से मेरा अंग अंग जल रहा है और मैं अपने हाथों को मरोड़ती हूँ ।
प्रीतम से मिलन की लालसा ने मुझे बावली बना दिया है ।

प्यारे, तू अपने मन में मुझसे रुठ गया था :
सो इसमें मेरा ही दोष था प्यारे, तेरा नहीं :
मेरे स्वामी, मने तेरे गुणों को पहचाना नहीं ।
मैंने अपना जीवन गवा दिया और बहुत पीछे पछुताई ।
री काली क्रोयल तू किस कारण काली हुई ?
अपने प्रियतम के विरह में जल-भुनकर
अपने प्यारे से विलग होकर क्या किसी को कभी सुख मिला ?
उय प्रभु से मिलना उसी की कृपा से बन सकता
कुआ यह बहुत दुखदाई है और वह बेचारी अकेली उसमें जा पड़ी है ।
न उसकी वहाँ कोई सहेली है, न कोई वेली ।
मेरी बड़ी ही विकट बात है
दोधारी तलवार से भी तेज और बहुत पैनी ।
उस पर मुझे चलना है
शेख फरीद, तैयार हो जा उस मार्ग पर चलने को
अभी समय है)^१

यारी साहब का मूल नाम यारमुहम्मद था । इनके पूर्वज दिल्ली के शही घराने में सम्बन्धित थे । पहले ये सूफी थे किन्तु बाद को दिल्ली की बावरी साहवा के शिष्य बीरू के शिष्य हो गये जिन्होंने इनको चेताकर शब्दमार्ग का रक्ष्य बताया था । इनकी बहुत सी बानियों अब भी प्रचलित हैं । दिल्ली में ये वि० अठारहवीं शताब्दी में रहते थे, जहाँ इनकी एक गद्दी अब भी वर्तमान है । इनके मुरीदों में खोपास, रोखनशाह, सूफीशाह, हस्त मुहम्मद, बूलासाहब बहुत प्रसिद्ध हैं । कहा जाता है कि इनके गुरुमुख गिष्य बुलासाहब ने इनके पंथ की एक शाखा बुरकुड़ा जिला गाजीपुर में स्थापित की थी । पन्थ परम्परा के अनुसार इनका केवल इतना ही परिचय प्राप्त होता है ।

‘रत्नावली’ के नाम से यारी साहब का एक छोटा सा संग्रह ‘वैलवेडिवर’ प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है । सम्पादक महोदय ने बड़ी रोज से गाजीपुर, बलिवा दिल्ली के आठ-पास से इनकी बानियों का संग्रह किया है । इनकी कुछ फुटकर बानी अन्य

संग्रह ग्रन्थों में भी मिल जाती हैं। इन्होंने भजन, कवित्त, साखी, भूलने आदि के अतिरिक्त एक अलिफनामा भी लिखा है जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा के हस्तलिखित ग्रन्थों में उपलब्ध है।

मुख से नाम स्मरण करते-करते जब हृदय स्वाभाविक गति से नाम जपने लगता है, दृष्टि वहिर्मुख न होकर अन्तर्मुखी हो जाती है तभी प्रभु-दर्शन होता है।

शब्द

रसना राम कहत तैं थाको,

पानी कहे कहँ प्यास बुझत है, प्यास बुझै यदि चाखो।

पुरुस नाम नारी ज्यों जानै, जानि बूझि नहिं भाखो।

दृष्टी से मुष्टी नहिं आवै, नाम निरञ्जन वाको।

गुरु परताप साधु की सङ्गति, उलटि दृष्टि जब ताको।

यारी कहै सुनो भाई संतो, वज्र वेधि कियो नाको ॥

उस परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है। उसके विषय में विभिन्न मत होने का यही कारण है। सब के विचार अंधों के द्वारा हाथी के विवरण के समान है।

कवित्त

आंधरे को हाथी हरि हांथ जाको जैसे आयो,

बूझो जिन जैसे तिन तैसेई बतायो है।

रका टोरि दिन रैन हिये हू के फूटे नैन,

आंधरे को आरसी में कहा दरसायो है।

मूलि की खवरि नाहिं जासों यह भयो मुलक,

वाकों विसारी भोंदू डारेन अरुभायो है।

आपनो सरूप रूप आप माहिं देखै नाहिं,

कहै यारी आंधरे ने हाथी कैसे पायो है ॥

परमात्मा हर घट में व्याप्त है। घट में ही उसकी खोज की जा सकती है। अंड में ही ब्रह्माण्ड समाया है :—

हेली जोति सरूपी आत्मा घट घट रह्यो समाय हेली।

परमन तुम न भाव नो हेली नेकु न इत उत जाय हेली।

रूप रेख का भखौं हेली कोटि सुर प्रकास।

अगम अगोचर रूप है कोज पावै हरि को दास।

नैनन आग देखी ये रहैमी तेज पुन्ज जगदीस ।
वाहर भीतर रमी रखी सो धरी रखी सीम हेभी ।
कहेइ यारी घट ही मिलो जाकंह खोजन दुरी है ।
आठ पहर नीरखत रहो, रहेली सन्मुख मद्रा हजुर हेली ॥

(काशी नागरी प्रचारिणी की हस्तलिखित प्रति मे)

इस संसार मे परमेश्वर की सेवा ही तत्व है । विना सेवा के खाना हराम है । वही भक्त है जो आठों याम सेवा करता है । जीवनान्त में तो कब्र मे सो ही रहना है अतः जीन जी बंदगी करना श्रेय है ।

भूलना

विन बंदगी इस आलम मे खाना तुम्हे हराम है रे ।
बंदा करै सोइ बंदगी, खिदमत मे आठो जाम हैरे ।
यारी मौला विसारिके, तू क्या लागा बेकाम हैरे ।
कुछ जीते बंदगी करलौ, आखिर को गोर मुकाम हैरे ।

ज्योतिस्वरूप परमात्मा प्रत्येक घट में निवास करना है । वह ज्योति, मनभावन परम-तत्व थोड़ा भी इधर उधर नहीं जाता है । उस परमेश्वर की रूप रेखा का क्या वर्णन करूँ वास्तव में वह करोड़ों सूर्य के प्रकाश के सदृश है । वह अलख एवं अगम्य है । उसे कोई बिरला हरि का दास ही पा सकता है ।

साखी

जोतिसरूपी आतमा, घट घट रही समाय ।
परमतत्त मनभावनो, नेक न इत उनु जाय ।
रूप रेख वरनो कफा, कोटि सूर परगाम ।
अगम अगोचर रूप है, कोउ पावै हरि को दाम ।

अपने अलिफनामे मे यारी साहब ने फारसी की वर्णमाला के क्रम से, नीति एवं उप-देश सन्बन्धी कथन किये हैं । नागरी प्रचारिणी सभा के संग्रहालय में प्राप्त अलिफनामा पूर्ण नहीं है ।

अलिफ नामा

आलोक येक देहु अनेका आदी अन्न केरी एकै एक ।
इन्ह मन मे मनीना मनत्यागी, आवा मेट्री चरनममी लारी ।
हमजा नरहरि तुनिरन करै, वीनु प्रयाम भवनागर नरे ।
जीन जगपनी ही दैने सापहु, हे हलीन होय नरहरी भापहु ।

खे खालक छाड़हु सब भूठा, दाल दयाल सुमिरिहु अनूठा ।
जाल जीव मंह राषहु प्रीती, राम सुमरु मनतजी जग चीती ।
गाफ गुरु का सिर पर हाथ, लाम लाज तुम छोड़हु साथ ।
ऐ इयारी हरी हीये में राखहु, बड़े इअार सों सत्ये भाषहु ।

वह एक ही इस व्यक्त संसार में, अनेक रूप से दिखाई दे रहा है। मन की ममता का त्याग करके, अहं को नष्ट करके, साधक को चाहिये कि वह अपने को उसके चरणों में लगा दे। उस नरहरि का स्मरण करके, साधक बिना प्रयास ही भवसागर पार कर लेता है। जगतपती का हृदय में स्मरण करना चाहिये। इस संसार का त्याग उचित है, और उस दयालु का स्मरण ही सार है। जीव मात्र से प्रेम अभीष्ट है। राम का स्मरण, एवं जग का त्याग ही श्रेय है। संसार की मर्यादा एवं लज्जा का त्यागकर केवल गुरु की सहायता से उस परमात्मा तक पहुँचा जा सकता है। हृदय में हरि का स्मरण अभीष्ट है।

मिश्रबन्धु विनोद में, अहमद नाम के एक और कवि का उल्लेख प्राप्त होता है जिसका समय संवत् १६६६ के लगभग कहा जाता है। मिश्रबन्धुओं के कथनानुसार इनका मन सूफी या वेदातियों जैसा है। स्फुट रचनाओं के अतिरिक्त, काशी नागरी प्रचारिणी सभा को इनका 'रस विनोद नामक' एक ग्रन्थ और मिला है जिसमें विभिन्न रोगों की औषधियाँ लिखी हुई हैं। इसके अतिरिक्त इनका कुछ परिचय शात नहीं होता।

स्फुट दोहा

कहा करौं वैकुण्ठ लै, कल्प वृक्ष की छाह ।
अहमद ढाक सुहावने, जंह प्रीतम गलबाह ।

ताज नामक एक और कृष्णभक्त कवि का उल्लेख होता रहा है। पंडित भावरमल शर्मा का अनुमान है कि प्रसिद्ध ताज, नवाब अलफ खा जो कवि जान के पिता कहे जाते हैं के पितामह की सहोदरा भगिनी थी। गोविन्द गिला-भाई, इन्हें स्त्री न मान कर पुरुष मानते हैं। जान कवि के साथ इनका सम्बन्ध होने पर भी इनकी सूफी विचारसम्बन्धी कोई रचना प्राप्त नहीं होती। ये प्रसुख रूप से कृष्ण भक्त थे या थीं।

अठारहवीं शताब्दी के दरिया साहब, जिनका जन्म मारवाड़ के जैतारन नामक गांव में भादों वदी अष्टमी संवत् १७३२ में हुआ था, भी स्वतंत्र विचार के कवि थे। ये जाति के धुनिया थे। उन्होंने स्वयं कहा है।

‘जो धुनिया तौ भी मैं राम तुम्हारा ।
अधम कमीन जाति मति हीना, तुम तौ हौ सिरताज हमारा ॥’

सात साल के थे जब इनके पिता की मृत्यु हुई। रैन नाम के एक गाव में, जो मेड़ता परगने में था, इनके नाना नानी ने इनको पाला पोसा। ये पढ़े लिखे नहीं थे। ईश्वर भक्ति की पिपासा इन्हे बचपन से ही थी। कई मुल्लाओं पन्डितों से कुछ सीखना चाहा, किन्तु भक्ति से का भेद कहीं नहीं पाया। अन्त में दरिया साहब, प्रेम जी महाराज के पास पहुँचे जो एक पहुँचे हुये सन्त थे। यह खिमानसर गाव (चीकानेर राज्य) में रहते थे और दादू दयाल जी के शिष्य थे। दरिया साहब ने इन्हीं से प्रेम पन्थ सीखा।

कनिपय दरियापन्थी भक्तों का विश्वास है कि दरिया साहब महात्मा दादू दयाल के अवतार थे, उनका कहना है कि दरिया साहब के प्रकट होने से सौ वर्ष पहले यह साखी कही थी।

देह पंडतां दादू कहै, सौ वरसा इक संत ।
रैन नगर में परगटै, तारै जीव अनन्त १ ।

कवीर की भांति राम, परब्रह्म एवं सतगुरु की महिमा मानते हुये भी ये इस्लाम से अधिक प्रभावित थे। इनके कुछ साखी एवं शब्द प्राप्त होते हैं। अपनी एक साखी में उन्होंने 'लाइलाही इललिल्लाह मुहम्मदउर्रसूललिल्लाह' की व्याख्या नवीन ढंग से करके अपने मत को स्पष्ट किया है।

साखी

ररां तौरव आप है, मामा मुहम्मद जान ।
दोय हरफ मे माइना, सवहीं वेद पुरान ।
मतवादी जानै नहीं, ततवादी की वात ।
खुरज ऊगा उल्लुआ, गिनै अंधेरी रात ।

प्रेम पंथ के लिये सतगुरु की आवश्यकता है। गुरु ही राम रहीम के पन्थ पर लगाना है :

नहिं था राम रहीम का, मे मतिहीन अजान ।
दरिया सुध बुध ग्यान दे, सतगुर किया सुजान ।
सोना था बहु जन्म का, सतगुर दिया जगाय ।
जन दरिया गुर सव्द सौं, सब दुख गये विलाय ।

यह संसार नश्वर है। काल हिन्दू मुसलमान का भेद नहीं करता :

मुसलमान हिन्दू कहा, वर दरसन रंक राव ।
जन दरिया हरिनाम विन, सब पर जम का दाव ॥

परमेश्वर का शब्द, रसना से उतरकर जब हृदय में निवास कर लेता है, तो बारहों मास प्रेम की वर्षा होती रहती है .—

रसना सेती ऊतरा, हिरदे कीया वास ।
दरिया वरसा प्रेम की, षट्श्रुतु वारा मास ।
दरिया हिरदे राम से, जो कभु लागे मन ।
लहरे उठ्टे प्रेम की, ज्यों सावन वरषा धन ।

कुछ राग रागिनीयों के अन्नर्गत भी इनके पद प्राप्त होते हैं :—

राग बिहंगड़ा

राम नाम नहीं हिरदै धरा, जैसा पसुवा तैसा नरा ।
पसुवा पर उद्यम कर खावै, पसुआ तो जङ्गल चर आवै ।
पसुआ आवै पसुवा जाय, तो पसुवा चरै व पसुवा खाय ।
रामध्यान ध्याया नहीं भाई, जनम गया पसुवा की नाई ।
राम नाम से नाही प्रीति, यह सबही पसुवों की रीति ।
जीवत सुख-दुख में दिन भरै, मुआ पछै चौरासी पवै ।
जन दरिया जिन राम न ध्याया, पसुवा ही ज्यों जनम गवाया ।

‘मुआ पछै चौरासी परै’ में जन्मान्तरवाद की भावना पाई जाती है ।

प्रेम प्रकास नाम की एक पुस्तक और प्राप्त होती है जिसमें ‘प्रेमी’ नाम का उल्लेख कई स्थान पर आता है । ऐसा ज्ञात होता है कि ये कवि का नाम न होकर उपनाम है । इस ग्रन्थ में पहले सूफ़ी परम्परा के अनुसार खुदा एवं रसूल की वन्दना या स्तुति की गई है । मुरशीद के रूप में किसी शाह मुहीउद्दीन की प्रशंसा भी है । बहुत सम्भव है यह शाह मुहीउद्दीन चिश्ती ही हों । पुस्तक में कवित्त, छप्पय तथा दोहों के अतिरिक्त रागरागिनीयों का भी समावेश है । कवि ने अपना परिचय केवल इतना ही दिया है कि मैं श्रीनगर का निवासी हूँ और ‘मारहर’ ऐसे नगर में आ बसा हूँ जहाँ न तो साह रहते हैं न चोर । वह अपने को पुरविया कहता है, जिसकी जात-पात कोई नहीं पूछता । इस परिचय में अध्यात्मिक संकेत भी हो सकता है । पुस्तक का रचनाकाल वह औरङ्गजेब का शासनकाल वताना है^१ ।

दोहे

बुधि आवे जव भिन्त कां, औ होत सुरत में ऐन ।
 मोती माला आस की, नौछावर करें नैन ॥
 मन पारा तन की खरी, ध्यान जान रस मोय ।
 विरह अगन सू फूंक दै, निरमल कुन्दन होय ॥
 तुम सूरज हम दीप निस, अजुगत कहै सुनाय ।
 विन देखे नाहीं रहि सकूं, देखे रहो न जाय ॥

बुल्लेशाह कादिरि शक्तारी सम्प्रदाय के अनुयायी थे तथा सूफ़ी इनायतशाह को अपना पथ-प्रदर्शक पीर स्वीकार करते थे । इनका जन्म लाहौर जिले के परडौल नामक गाव में संवत् १७७३ में मुहम्मद दरवेश के यहाँ हुआ था । आजन्म ब्रह्मचारी रहकर कुसूर नामक स्थान में साधना करते रहे । इनकी रचनाओं में लीहर्फी, अठवारा, वारामासा, काफी, दोहरे आदि अधिक प्रसिद्ध हैं । इनकी रचनाओं का विषय अधिकांश चैतावनी में सम्बन्धित है । इनकी आलोचना बड़ी स्पष्ट एवं कटु होती है । भाषा पर पञ्जाबीपन का प्रभाव अधिक है । विरह की तीव्रता का वर्णन एक पद में उन्होंने इस प्रकार किया है :—

कद मिलसी में विरह सताई नूं ।
 आप न आवै न लिखि भेजै भट्टि अजेही लाई नूं ।
 तें जेहा कोइ हरि न जाणा, में तनि सूल सवाडे नूं ।
 रात दिनेँ आराम न भेनूं, खावै विरह कसाई नूं ।
 बुल्लेशाह धृग जीवन मेरा, जौ लग दरस दिखाई नूं ।

दीन दरवेश का समय उन्नीसवीं सदी का पूर्वार्ध बताया जाता है । वे गुजरात तथा पालनपुर के अन्तर्गत रहने वाले एक साधारण लोहार थे तथा कुछ दिनों तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी में भित्ती का काम भी करते थे । फौज से इनका सम्बन्ध अपांग हो जाने पर ही छूटा । एक हाथ बेकार हो जाने पर ये साधुसङ्गति में रहकर विरक्त हो गये । इन पर सूफ़ियों का विशेष प्रभाव था । अपने अन्तिम समय में काशी में आकर रहने लगे थे । वे उपदेशपूर्ण रचनायें अधिक करते थे । इनके दो ग्रन्थ 'दीन प्रकाश' एवं 'भजन भद्राका' का उल्लेख मिलता है किन्तु वे उपलब्ध नहीं हैं । इन्होंने दुन्दुलियों की रचना भी की है ।

कुण्डलियां

हिन्दू करै सो हम बड़े, मुसलमान करै हम्म ।
 एक मुंग दो फाट्ट है, कुण जादा कुण कम्म ।

कुण जादा कुण कम्म, कवी करना नहिं कजिया ।
एक भगन हो राम, दूजो रेमान से रजिया ।
कहे दीन दरवेश, दोय सरिता मिल सिन्धु ।
सवदा साहब एक, एक मुसलमान हिन्दू ।

नजीर अकबरावादी का मूल नाम शेख वली मोहम्मद तथा पिता का नाम मुहम्मद फारूख था जो दिल्ली के रहने वाले थे, किन्तु नजीर के अकबरावाद या आगरा को अपना निवास स्थान बनाने के कारण ये अकबरावादी कहलाये । इनका जन्म सन् १७४० ई० के लगभग हुआ था । इनका जन्म अमीरवंश में न होने के कारण ही सम्भवतः इनके काव्य में अत्यन्त सरलता है । ये जीविकोपार्जन के हेतु लड़कों को शिक्षा दिया करते थे, विशेषकर आगरे में माईथान मुहल्ले में सेठों और महाजनों के लड़कों को पढाने जाया करते थे । जिस समय पेशवा के लड़के आगरे में नजर बन्द थे उस समय ये उन लड़कों को भी पढाया करते थे ^१। इनका हृदय अत्यन्त कोमल और दयापूर्ण था । अभावग्रस्त व्यक्तियों की सहायता ये बहुधा किया करते थे । इनमें धार्मिक उदारता बहुत थी । अरबी एवं फारसी के अच्छे विद्वान थे, साथ ही बोलचाल की सीधी सादी भाषा में भी काव्य रचना-करके ये अत्यन्त जनप्रिय हो गये । इन्होंने परिचिन तथा नित्य संसर्ग में आने वाले विषयों पर कवितायें लिखी हैं । तरबूज तथा ककड़ी पर लिखे गये पद तो अक्सर बेचनेवालों के मुंह से थोड़े बहुत परिवर्तित रूप में सुनने को मिल जाते हैं ।

फैलन साहब ने नजीर के व्यक्तित्व तथा काव्य की बहुत प्रशंसा की है, वहीं सर जार्ज ग्रियर्सन इनके काव्य में अश्लीलत्व पाते हैं और इसी कारण उन्हें श्रेष्ठ कवि नहीं समझते ^२। नजीर की कविताओं का वह भाग जो राग सागरोद्भव, राग कल्पद्रुम में छपा है अश्लील अवश्य है किन्तु अश्लीलता का मापदण्ड भी परिस्थिति तथा सामाजिक नियमों के अनुसार परिवर्तित होता है । नजीर के समय का अधिकांश काव्य ऐसे ही चित्रों से भरपूर है जिसे अब हम अश्लील कह सकते हैं ।

नजीर स्वभाव से संतोषी, विनोदप्रिय तथा विचार स्वातन्त्र्य के प्रेमी थे । अपने समय के अन्य कवियों की भाँति इन्होंने कभी किसी की खुशामद नहीं पनन्द की । धन का लोभ

१ कवि नजीर . रघुराजकिशोर वी ए

२ 'नजीर का कविता निस्सन्देह एक विशेष प्रकार के पाठकों में प्रचलित है किन्तु सूत्रदास, तुलसीदास, मलिक मुहम्मद जायसी तथा उस समय के धुरन्धर कवियों की भाँति साधारण में ग्राह्य नहीं हुईं । उनकी कविता साधारण बोलचाल में होने पर भी ऐसी अश्लील है कि उसको अंग्रेजी के शिष्ट और शिक्षा प्राप्त लोग पढ़ने के योग्य नहीं समझते ।'

उन्हें न था, अतः उनका जीवन पूर्ण स्वच्छन्दता से बीतता था। इस संसार में केवल प्रेम ही वास्तविक है, सौन्दर्य अस्थिर होने पर भी आराधना की वस्तु है।

ऐश कर खूँवा में ऐ दिल शादमानी फिर कहा।
शादमानी गर रही, तो जिन्दगानी फिर कहं।
लज्जतें जन्नत के मेवों की बहुत होंगी वहा।
पर ये मीठी गालियां खूँवा की खानी फिर कह।

नजीर सूझी होते हुये भी विरहजन्य नैराश्य से दूर रहते थे। सदैव प्रसन्न चित्त रहकर ईश्वर का स्मरण करना उनकी विशेषता थी।

शाहवाज साहब, औरंगावादी ने अपने दविस्ताने नजीर की भूमिका में इनकी बहुत प्रशंसा की है और इन्हें समाजसुधारक तुरु कहा है। कवि नजीर अपने समय की जनता में खूब प्रसिद्ध थे। इन्हें लोग शाह नजीर के नाम से अब तक स्मरण करते हैं। इनका देहान्त सन् १८२० ई० के लगभग अपने निवास स्थान आगरे के ताजगंज मुहल्ले में हुआ। इनकी कब्र पर हर साल होली के दिनों में मेला लगा करता था जब लोग रतजगा करते और इनकी कवितायें गाते थे, किन्तु कुछ दिनों से यह मेला बन्द हो गया है।

कवि नजीर स्वतन्त्र विचारों के पक्षपाती तथा सूझी विचारधारा से प्रभावित थे अतः इनकी रचनाओं में धार्मिक पक्षपात के दर्शन नहीं होते हैं। काली और भैरव की स्तुति भी ये उसी दृढता से करते हैं जिस गम्भीरता से मुहम्मद तथा कलमे की प्रशंसा। साधारण से साधारण विषयों पर अत्यन्त प्रभावपूर्ण काव्य रचना इनकी विशेषता है। इनकी रचनायें बढ़ी सजीव हैं। उनमें प्रभाव तथा स्वाभाविकता के गुण सर्वत्र व्याप्त हैं। इनका काव्य ही इनका जीवन चरित्र है, उसमें इनके व्यक्तित्व एवं गहरी स्वानुभूति की स्पष्ट छाप है। इनकी भाषा अपनी सादगी, और प्रभाव में अद्वितीय है। इनके काव्य के कुछ उदाहरण निम्नांकित हैं।

ईश्वर के विरह में आत्मा सदैव तड़पती रहती है और आश्चर्य तो यह है कि वह एक होते हुये भी अनेक में सर्वत्र वर्तमान है :

उधर उसकी निगाह का नाज में आकर पलट जाना।
उधर मुड़ना, तड़पना, गश में आना, दग उलट जाना।
ये एकनाई, ये यकरंगी, निस ऊपर यह क्यामत है।
न कम होना, न बटना और हजारों घट में बट जाना।

इनकी कृष्ण जन्म तथा बाल लीला की कवितायें प्रसिद्ध हैं। होली, दिवाली, राखी इत्यादि त्योहारों पर भी इन्होंने कवितायें लिखीं हैं।

प्रेम ही इस जीवन का साध्य है। इस संसार के कण में सर्वत्र वही प्रियतम भाकता दृष्टिगोचर होता है। ऐसे सर्वशक्तिमान प्रियतम के प्रेमी को भी कभी कोई अभाव या चिन्ता हो सकती है ? वह तो सदैव आनन्द मग्न रहता है ।—

जिस सिम्त नजर देखे है उस दिलवर की फुलवारी है ।
कहीं सब्जी की हरियाली है और कहीं फूलों की गुलपारी है ।
दिन रात मगन खुश बैठे हैं, और आस उसी की भारी है ।
बस आप ही वह दातारी है और आप ही वह भंडारी है ।
हर आन हंसी हर आन खुशी हर वक्त अमिरी है वावा ।
जब आशिक मस्त फकीर हुये, फिर क्या दिलगीरी है वावा ॥

यह जीवन तथा इसकी चिन्तार्ये केवल भार हैं । जीवन की कोई वस्तु अन्तिम क्षणों में साथ नहीं देती, केवल वही परमेश्वर सबका साथी है अतः उसी का स्मरण कर ।

डुक हिर्सहवा को छोड़ मिया मन देश विदेश फिरै मारा ।
कजाक अजल फा लूटे है दिन रात वजाकर नकारा ।
क्या वधिया भैंसा घैण गुतर, क्या गोनी पक्षा सर मारा ।
क्या गेहूँ चावल मोठ मटर, क्या आग धुआ और अंगारा ।
सब ठाठ पड़ा रह जायगा, जब लाद चलेगा बन्जारा ॥

समाधिस्थ होकर ब्रह्म में लीन हो जाने की चर्चा भी इन्होंने की है। इस छन्द में उनकी भाषा की सरलता तथा भाव की गम्भीरता दोनों ही सराहनीय है ।

था जिसकी खातिर नाच किया जब मूरत उसकी आय गई ।
कहीं आप कहा कहीं नाच कहा और तान कहीं लहराय गई ।
जब छैल छर्बीले सुन्दर की छवि नैनों भीतर छाय गई ।
एक मुरछागति सी आय गई, और जोत में जोत समाय गई ।
है राग उन्हीं के रंग भरे, और भाव उन्हीं के साचे हैं ।
जो वेगत वे सुरताल हुये, विन ताल पखावज नाचे हैं ॥

प्रेमी का वतन क्या और देश क्या, धर्म क्या और स्थान क्या, सब कुछ प्रिय की प्रसन्नता पर आश्रित है ।

और वतन पछ हमारा तो या सुन रख वावा ।
या गली दोस्न की या यार के घर आँगन ।

× × × ×

जब से उस शेख के फन्दे में फँसे टूट गये ।
जितने ये मजहबी मिलत के जहाँ में बन्धन ।

नाम को पूँछे तो हे नाम हमारा आशिक ।
सबसे आजाद हुये आर का लेकर दामन ।

× × × ×

जा पढ़ें याद में उस शेख की जिस वस्ती में ।
वही गोकुल है हमें, और वही वृन्दावन ।

यह संसार मिथ्या है । यहाँ की सारी वस्तुओं का अस्तित्व कुछ नहीं, केवल एक वही सत्य है । यह दुनिया की पैँठ भी अजीब है । यहाँ नित्य नये होने वाले कार्य व्यापारों के मध्य भी जड़ता है । यहाँ का सौन्दर्य बाह्य है जो नष्ट हो जायगा । वास्तव में यह दुनिया केवल धोखे की टट्टी है :—

यह पैँठ अजब है दुनिया की, और क्या-क्या जिन्म टकट्टी है ।
यां माल किसी का मीठा है और चीज किसी की खट्टी है ।
कुछ पकता है, कुछ भुनता है, पकवान मिठाई पट्टी है ।
जब देखा खूब तो आखिर को नै चूल्हा भाड़ न भट्टी है ।
गुल शोर बबूला आग हवा और कीचड़ पानी मिट्टी है ।
हम देख चुके इस दुनिया को यह धोखे की सी टट्टी है ।

× × × ×

कोई नाज खरीदे हँसकर कोई तख्त खड़ा बनाना है ।
कोई फपड़े रंगे पहने है कोई गुदड़ी ओढे जाना है ।
कोई भाई, बाप, चचा, नाना कोई नाती पूत कहाता है ।
जब देखा खूब तो आखिर को ना रिश्ता है ना नाता है ।
गुल शोर बबूला आग हवा और कीचड़ पानी मिट्टी है ।
हम देख चुके इस दुनिया को यह धोखे की सी टट्टी है ।

× × × ×

कोई सेठ महाजन लाखपती बजाज कोई पंमारी है ।
या वोभ किरी का हल्का है और न्येप किरी की भारी है ।
मग जाने कौन गरीबेगा और किमने जिन्म उतारी है ।
जब देखा खूब तो आखिर को दसाल न कोई ब्योपारी है ।
गुल शोर बबूला आग हवा और कीचड़ पानी मिट्टी है ।
हम देख चुके इस दुनिया को यह धोखे की सी टट्टी है ।

केवल इतना ही ज्ञात होता है कि वे कसबा नूढ इलाका
 रचना क्या समय था एवं प्रेमनामा के अतिरिक्त उन्होंने कोई
 है, इसका कोई विवरण नहीं मिलता। मिश्रबन्धु विनोद के तृतीय
 रचयिता का नाम केवल हाजी दिया हुआ है। उसकी कविता के
 है कि वह संवत् १६१७ के पूर्व की रही होगी किन्तु इसका कोई
 है। इनकी 'प्रेमनामा' पुस्तक नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, द्वारा
 है। रचना के आरम्भ में ईश्वर स्तुति के पश्चात् कवि ने अपने पीर सैयद
 तथा अपने गुरु शेख अहमद बिन कुतुबउद्दीन का नाममात्र का परिचय
 है।

दोहे

एक कहूँ तो एक है दोग कहूँ तो दोग ।
 हाजी पूजा दूर कर रहे अवेत्ता होय ।।
 जो कुछ गढे सो आज गढ, हाजी लागा दाव ।
 जनम सेराना जात है, लोहे का सा ताव ॥
 मुख दरपन है आसरित, हाजी दरस अलेख ।
 जो तू चाहे आप को, आप - आप में देख ॥
 रैन अधेरी पीउ दुख केकिल करत कलोल ।
 विरहिनि जरती देखिके सरग हंसो मुख खोल ॥

फारीगवल्खा भी बीसवीं सदी के सूफ़ी कवि ज्ञात होते हैं। ये कस्बा मानिकपुर तहसील
 पुन्दा जिला प्रतापगढ के रहने वाले थे। इनके पीर का नाम शाह मुहम्मदी अता था।
 'प्राग्गा की, परमात्मा की खोज तथा उसके ब्रह्म के सम्बन्ध में कवि कवीर की
 भांति ही रूपक वाँधता है। 'हर है। सती का से विमुख होकर
 प्रियतम की सेवा करना है। 'हये कि संसार ध्यान न रखकर
 परमेश्वर के चिन्तन में कालध

✽

कैसे तुम

काम कियो नित निज मनमानी,
 पिया की सुधि काहे विसराये ।
 गारी का तोरे हिय में समानी,
 टेढी चाल अजहुँ तज मूरख ।
 चार दिना की तव जिन्दगानी,
 गुन ढङ्ग सों जो पियाको रिभावे ।
 करीम वही है सखी सयानी ।

अब्दुल समद का नाम हजरत साह साहब, किवला मुहम्मद अब्दुल समद साहब, उर्फ रहमान खा लिखा हुआ मिलता है। इनके पूर्वम सम्भवतः अफगानिस्तान से आये थे। समद साहब का जन्म लगभग १८१० ई० के कोरा जहानाबाद फतेहपुर हसवा जिले में हुआ था। बचपन से ही इनमें धार्मिक भावना का उदय हुआ और ये मानव समाज की सेवा में रत रहने लगे। इन्होंने तहसील साहाबाद जिला मथुरा में एक चपरासी की नौकरी कर ली। तब इनकी उम्र केवल चौदह साल की थी। किन्तु नौकरी इनकी पूजा, उपासना एवं भजन चिन्तन में बाधक थी, अतः इन्होंने उसे शीघ्र छोड़ दिया। अब इन्होंने 'रियाज' प्रारम्भ कर दिया और 'तजकिय नफस' (आत्मशुद्धि) और 'तरके लज्जात' (सुखों का त्याग) करने लगे क्योंकि ये वानें खुदा की ओर बढ़ने के आवश्यक साधन हैं। इस दशा में ये केवल एक छटाक चना खाकर ही रहते थे। कुछ दिनों बाद इन्होंने जंगल में शरण ली और चिन्तन में अधिक रत रहने लगे जिसमें तरह-तरह की कठिनाइयों सामने आईं। इनको अब अनुभव हुआ कि दरखन परिवरिशा पा गया है केवल फन आना बाकी है। निदान आपको गुरु की तलाश हुई। टोंक के इलाके में डीक स्थान पर अमानुल्ला शाह बहुत प्रसिद्ध थे। राजा भरतपुर उनका आदर करते थे। ये केवल लाल मिर्च खाकर रहते और यदि राजा उन्हें रहने को भोपड़ी देता जला उालते और थोढने को दुशाला भेजता तो फाड़ डालते। समद साहब इनसे मिले। इन्होंने बताया कि तुम्हारा स्थान दूसरी जगह है। इस उत्तर से समद साहब को बड़ी निराशा हुई और ये बेचैन रहने लगे। एक दिन ख्वाब में इन्हें एक बुसुर्ग के दर्शन हुये जिसने बताया कि उनका हिस्सा हमारे पाम है। अब स्वप्न में देखे गये व्यक्ति का पता पृच्छना इन्होंने शुरू कर दिया। थोड़े दिन बाद किसी ने बताया कि 'पीर शाह नामदार' साहब नथियाल जिला रावलपिन्डी में हैं, जो ख्वाब के बुसुर्ग जान पड़ते हैं। इन्होंने उनके लिये दुआव से पंजाब तक की पैदल यात्रा की तथा निम्नांकित पद गाते हुये ये वहां तक जा पहुँचे।

आतिशे इश्क कू कत असरश

अकल आतिश बदफ्नर अन्दाजन ।

हाजी वली के सम्बन्ध में केवल इतना ही ज्ञात होता है कि वे कस्बा नूड इलाका ग्वालियर के निवासी थे। उनका क्या समय था एवं प्रेमनामा के अतिरिक्त उन्होंने कोई और भी रचना की है, इसका कोई विवरण नहीं मिलता। मिश्रवन्धु विनोद के तृतीय भाग में 'प्रेमनामा' के रचयिता का नाम केवल हाजी दिया हुआ है। उसकी कविता के सम्बन्ध में लिखा है कि वह संवत् १६१७ के पूर्व की रही होगी किन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं दिया है। इनकी 'प्रेमनामा' पुस्तक नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, द्वारा प्रकाशित है। रचना के आरम्भ में ईश्वर स्तुति के पश्चात् कवि ने अपने पीर सैयद मुहम्मद अबूसईद तथा अपने गुरु शेख अहमद बिन कुतुबउद्दीन का नाममात्र का परिचय दिया है।

दोहे

एक कहूँ तो एक है दोग्य कहूँ तो दोग्य ।
 हाजी पूजा दूर कर रहे अकेला होय ॥
 जो कुछ गढे सो आज गढ, हाजी लागा दाव ।
 जनम सेराना जात है, लोहे का सा ताव ॥
 मुख दरपन है आसरित, हाजी दरस अलेख ।
 जो तू चाहे आप को, आप - आप में देख ॥
 रैन अधेरी पीउ दुख कोकिल करत कलोल ।
 विरहिनि जरती देखिके सरग हंसो मुख खोल ॥

करीमवख्सा भी वीसवीं सदी के सूफी कवि ज्ञात होते हैं। ये कस्बा मानिकपुर तहसील कुन्दा जिला प्रतापगढ के रहने वाले थे। इनके पीर का नाम शाह मुहम्मदी अता था। आत्मा की, परमात्मा की खोज तथा उसके ब्रह्म के सम्बन्ध के बारे में कवि कबीर की भौंनि ही रूपक बौधता है। यह संसार नैहर है। सती का कर्तव्य नैहर से विमुख होकर प्रियतम की सेवा करना है। आत्मा को चाहिये कि संसार का अधिक ध्यान न रखकर परमेश्वर के चिन्तन में कालयापन करे।

साखी

कैसे तुम आ नैहरवा भुलानी,
 सैया का कहना कवहुँ नहिं मानी ।

काम कियो नित निज मनमानी,
 पिया की सुधि काहे विनराये ।
 गारी का तोरे हिय में समानी,
 टेढी चाल अजहुँ तज मूरख ।
 चार दिना की तव जिन्दगानी,
 गुन ढङ्ग सों जो पियाको रिभावे ।
 करीम वही है सखी सयानी ।

अब्दुल समद का नाम हजरत साह साहब, किवला मुहम्मद अब्दुल समद साहब, उर्फ रहमान खा लिखा हुआ मिलता है। इनके पूर्वम सम्भवतः अफगानिस्तान से आये थे। समद साहब का जन्म लगभग १८१० ई० के कोरा जहानाबाद फतेहपुर हसवा जिले में हुआ था। बचपन से ही इनमें धार्मिक भावना का उदय हुआ और ये मानव समाज की सेवा में रत रहने लगे। इन्होंने तहसील साहाबाद जिला मयुरा में एक चपरासी की नौकरी कर ली। तब इनकी उम्र केवल चौदह साल की थी। किन्तु नौकरी इनकी पूजा, उपासना एवं भजन चिन्तन में बाधक थी, अतः इन्होंने उसे शीघ्र छोड़ दिया। अब इन्होंने 'रियाज' प्रारम्भ कर दिया और 'तजकिय नफस' (आत्मशुद्धि) और 'तरके लज्जात' (सुरों का त्याग) करने लगे क्योंकि ये याने खुदा की ओर बढ़ने के आवश्यक साधन हैं। इस दशा में ये केवल एक छटाक चना खाकर ही रहते थे। कुछ दिनों बाद इन्होंने जंगल में शरण ली और चिन्तन में अधिक रत रहने लगे जिसमें तर-तर की कठिनाइयाँ सामने आईं। इनको अब अनुभव हुआ कि दरखन परिवारिशा पा गया है केवल फल आना बाकी है। निदान आपको गुह की तलाश हुई। टोंक के झलाके में डीक स्थान पर अगानुल्ला शाह बहुत प्रसिद्ध थे। राजा भरतपुर उनका आदर करते थे। ये केवल लाल मिर्च खाकर रहते और यदि राजा उन्हें रहने को भौपड़ी देता जला डालते और थोढ़ने को दुशाला भेजता तो फाड़ डालते। समद साहब इनसे मिले। इन्होंने बताया कि तुम्हारा स्थान दूसरी जगह है। इस उत्तर से समद साहब को बड़ी निराशा हुई और ये बंचैन रहने लगे। एक दिन ख्वाब में उन्हें एक बुजुर्ग के दर्शन हुये जिनमें बताया कि उनका हिस्सा हमारे पास है। अब स्वप्न में देखे गये व्यक्ति का पता पछाना इन्होंने शुरू कर दिया। थोड़े दिन बाद किसी ने बताया कि 'पीर शाह नामदार' साहब नथियाल जिला रावलपिन्डी में हैं, जो ख्वाब के बुजुर्ग जान पड़ते हैं। इन्होंने उनके लिये बुआब से पंजाब तक फी पैदल यात्रा की तथा निम्नांकित पद गाते हुये ये वहाँ तक जा पहुँचे।

आतिशे इश्क कु फज असरश

अकल आनिश बदफ्तर अन्दाजन ।

शाम होते होते ये अपनी मंजिल पर जा पहुँचे। नामदार साहब बीमार थे। मालूम हुआ कि वे अब्दुल समद साहब की प्रतीक्षा चिरकाल से कर रहे थे और कहा करते थे कि एक दिन उनका हिन्दी बेटा अवश्य आजायेगा। आते ही उन्होंने कहा तुमने हमको बहुत इन्तजार कराया, फिर हाथ मुँह धोने की आज्ञा दी नमाज़ पढवाकर खिलाफत की इजाजत दी फिर वापस भेज दिया और कहा कि रास्ते में कोई बुरी खबर सुनना तो लौटना नहीं। रास्ते में अपने गुरु की मृत्यु का समाचार इन्हे मिला। वापस आकर ये अतरौली जिला अलीगढ़ आये जहाँ मिया जी मदेह खा का मदरसा था। खा साहब से इनकी भेंट हुई और उनकी लड़की से उनका ब्याह भी यथा समय हो गया। यहीं से समद साहब को कुतुबखाने से 'नक्शवंदिया' गुरु परम्परा मिली। इनके खास मुरीद खलीफा मीर कुर्बान अली हुये जो आगरे और अलीगढ़ में सरकारी वकील थे, और उसके बाद जयपुर में मिनिस्टर हो गये। वकील साहब के परपोते इस समय भी गद्दी पर हैं। इनके पिता अनवारुद्दौलत के समय से इस शाखा में चिश्तिया सम्प्रदाय का प्रभाव हो गया था। बाबा साहब १८६३ ई० तक जीवित रहे और ५२ साल की अवस्था में हि० सन् १९८०, रविवार, ३ मुहर्रम को ११ बजे दिन में इनकी मृत्यु हो गई^१।

अब्दुल समद साहब या बाबा साहब के दो ग्रन्थ तुहफतुल आशकीन एवं 'मंसाकुल आरफीन' प्रकाशित हैं। पहला ग्रन्थ मसनवी है दूसरा सिद्धात प्रतिपादन के हेतु लिखा गया गद्य ग्रन्थ है। अभी हाल में एक ग्रन्थ 'मक्तुबाते समदिया' मिला है जिसमें आपके लिखे छः पत्र भिन्न व्यक्तियों के नाम हैं।

अपनी मसनवी के अन्त में इन्होंने कुछ हिन्दी के स्फुट पद भी लिखे हैं जिनका विषय हृदय की शुद्धता, एवं सरलता तथा कर्मकाण्ड की निंदा है और साथ ही संसार की चर्चा भी है। षट में ही ब्रह्मोपासना की बात कई तरह से समझाई गई है। इन्होंने कुछ राग रागनियों के आधार पर भी पद लिखे हैं किन्तु विषय का सम्बन्ध चेतावनी एवं सिद्धान्त निरूपण से ही है। कुछ दोहरे भी लिखे हैं। एक स्थल पर वे जीव को संसार से विमुख होकर हृदय में ही परमेश्वर का ध्यान लगाने की चेतावनी देते हुये लिखते हैं।

जाग रे मूरख सोवत का है

देखतो जग में होवत का है।

लाख बार कष्टो समझायो, ध्यान में तेरे एक ना आयो।

मुँह फाड़े धरती तो है वैठी, औरन को तो रोवत का है।

नीन तिलोक और साहब तो मैं डूढी है मैं तो मैं।

अघरा मूरख देखत नहीं, तो मैं बोलत का है।

१ इनके जीवनवृत्त में लेखिका को अब्दुल समद की जिव्य परम्परा के डा० शमशेर वहादुर समदनी (अरबी विभाग) लखनऊ विश्व० वि० से ज्ञात हुआ।

नहनों अकरव मालिक बोला, मन करफाने याकौ खोला ।
याकौ वृक्ष रे मस्ता, नाहक जन्म तू सोचत का है ।

तया

या दुनिया है रंग विरंगी, यामे बचकर चलना रे ।
जो तू आशिक सार्दिक मस्ता सब परलानत करना रे ।
लाख तरह से तेरे होये, तू मत इनका होना रे ।

परमेश्वर के ध्यान के हेतु स्मरण या जिक्र की महत्ता अद्भुत समझ भी मानने हैं । उनके पदों से ऐसा ज्ञात होता है कि वे हठयोग की साधना से अत्यधिक प्रभावित थे, वह बाह्य पूजापासना की अपेक्षा हृदय में परमात्मा का स्मरण उत्तम समझते थे इसके आगे इन्द्रिय संयम, जागृ एवं अनहदनाद की चर्चा करने के पश्चात् कवि 'सोऽहं' की चर्चा भी करता है; जिस प्रकार 'फना' के बाद 'वका' की अवस्था में साधक परमेश्वर में ही स्थित हो जाता है उसी प्रकार अनहद नाद जब न सुनाई दे तब एक 'वही' अवशेष रह जाता है ।

अजपा जाप जपे जो भाई, हर का दरसन वेग वह पाई ।
पहले ध्यान तिहुकुई बाधे, ओउम कंबल में चित्त छो राधे ।

×

×

×

जेते तकन विलाई मूसा, ऐसे ताक लगाई ।
अग्नि की चन्द्रा ऊँचे, चाद् सुरज ये दो हूँवे ।
सुन्दर मूरत शब्द जान की अनहद साध बुनाई ।
अनहद मिट्टी जान मिट जावे, सोऽहं पूरन जब फिर जावे ।
या मे आगे करा कही मस्ता, एक ही एक लखाई ।

सच्चे साधक की कोई जातिपाति नहीं होती । वह जाति वर्ण से परे केवल उस परमसत्ता का उपासक होना है :—

ना हम हिन्दू ना हम तुर्क, ना हम बालक ना हम पुर्वा ।
मव में हम हैं मव है मो मे, जो जाने सो पूरे गुरका ।

अद्भुत समझ बाह्य पूजापासना के भी विरोधी थे । उन्होंने पंडित जोगी, गोमाई शाह एवं मुल्लाओं के कर्मकाण्ड का विरोध किया है । चाण्डाल्य से हृदय शुद्धि नहीं होती, और यदि हृदय शुद्ध न हुआ तो साधना व्यर्थ है । ऐसी ही भावनाओं को व्यक्त करते हुये रंगस्त रा लिखते हैं :—

अपनी कथा जाने नहीं, पंडित हुआ तो म्या हुआ ।
जोगी गोमाई केवड़े, कपड़े रंगे हैं मन्दे ।

मन को तो रंगते ही नहीं, कपड़े रंगे तो क्या हुआ ।
 शैली व अलफी डालके बन बैठे होंगे शाह जी
 दिल का कुफ्र तोड़ा नहीं जो शाह हुये तो क्या हुआ ।
 ठाकुर द्वारे जाये क पूजै सभी हैं मूरतें ।
 कर में तो हर जाना नहीं पूजा किया तो क्या किया ।
 जो पाठ पूजा करते हैं और नाम पाया गुरु का
 उस गुरु से तो महरम नहीं जो गुरु हुये तो क्या हुआ ।
 चिल्ले में बैठे जायके और मन फिरे है सब कहीं ।
 पर दिल तो चिल्ले में नहीं जो तन हुआ तो क्या हुआ ।
 भंगे शरावें पीवते चिलमें उड़ती चरस की
 पर वह नशा पिया नहीं भगड़ हुआ तो क्या हुआ ।
 ठठरी बाकी है सिपाह, लड़ते हैं सब जा जाय के ।
 घर का तो ठग मारा नहीं बाका हुआ तो क्या हुआ ।
 पढकर कितावें बहुत सी कहता फिरे है और को
 हक्कुल यकी जाना नहीं आलिम हुआ तो क्या हुआ ।

कवि ने नक्शवंदिया एव चिश्तिया सम्प्रदाय के सिद्धान्तों की चर्चा भी एक स्थल पर की है । नक्शवंदिया सिद्धान्त में ईश्वर की सर्वव्यापकता तथा चिश्तिया में योग साधना की प्रधानता लक्षित होती है :

दर सुलूके तरीके नक्शवंदिया
 हर-हर करे और गुरु को देखे, उसको मिलता प्यारा है ।
 नाम निरंजन का सुख दीजे, ध्यान करौ मधवारा है ।
 पाक रसूल का आशिक होवे, वही सुख मतवारा है ।
 अलख लिखे और सबको मेटे, उसने ज्ञान संवारा है ।
 पट भीतर के चित्र से खोले, फिर क्या साहब न्यारा है ।
 क्या ही अचरज देखो साधू, बूद में समुन्द्र समाया है ।
 जो कोई इसको पी जाये मस्ता वही गुरु हमारा है ।

चिश्तिया समप्रदाय की साधना के सम्बन्ध में कवि लिखता है -

क्या ही मजा है साधू, अनहद वाजा वजता है ।
 इस अनहद में लाखों वाजे, इसको कोई न सुनता है ।
 इस अनहद को जो कोई सुनले रयूयत से शाह बनता है ।
 पहले दिल में चन्दा ऊभै जगजग जगजग करता है ।
 उसके अन्दर है एक मूरत विरला कोई लखता है ।
 सब है मस्ता दिल के अन्दर गुरु से सीखो इसका मन्तर ।
 विना गुरु में ज्ञान न आवे, निगुरा सिर को धुनता है ।

इस प्रकार कवि गुरु के ममत्व को भी सर्वत्र मानता है ।

अहं और परमात्मा इन दो का अस्तित्व- एक साथ नहीं रह सकता । जब 'मैं' रहता है तब 'वह' नहीं जब 'वह' रहता है तब 'मैं' का विनाश हो जाता है ।

मोहन मेरा है नियरे, हर देखन में नहीं आवे रे ।
हर आवे हम जावे माधू, हम आवें हर जावे रे ।
मस्ता ऐसे आवागमन में देखन कहा से पावे रे ॥

शिवसिंह ने अपने ग्रन्थ 'सरोज' में वजहन का नाम निर्देश करके रचनाओं के उदाहरण स्वरूप केवल एक दोहा दे दिया है । इसी प्रकार मित्रबंधु विनोद के तीसरे भाग में इनका नाम लिखकर नीचे केवल साधारण श्रेणी लिख दिया गया है । नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित फारसी के एक संग्रह में इनका 'अलिफवाये' नामक एक ग्रन्थ मिलता है । इसमें दो अर्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम रचना के अन्त तक निवाहा गया है । काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संग्रहालय में इनका एक ग्रन्थ 'वजहननामा' भी उपलब्ध है जिसमें सिद्धान्तकथन एवं उपदेश ही प्रधान हैं । सम्भवतः ये दोनों ग्रन्थ एक ही हैं ।

वजहननामा के आरम्भ में एक और दोहा 'संवत वीनइसै वर्ष तैता लिस दिन मान । चैत कुदी दसवीं को लिखी भक्ति हेतु कर शान ।' प्राप्त होता है । इस दोहे में वजहन नामा के रचनाकाल की अपेक्षा ग्रन्थ के प्रतिलिपिकाल का ही परिचय मिलना संभव है क्योंकि वजहन का स्थितिकाल सत्रहवीं शताब्दी निश्चित होता है । 'दक्खिनी हिन्दी' के लेखकों में वजहन का स्थान महत्वपूर्ण है । उन्हें गद्य और पद्य, दोनों में समान रूप से सफलता प्राप्त हुई है । जिन दिनों गोलकुण्डा में द्वादाहीम कुली कुतुबशाह का शासन था, वजहन ने कविता लिखना आरम्भ किया । वजहन ने सन् १६३६ में अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ 'शवरस' समाप्त किया जो उस समय तक लिखे गये हिन्दी गद्य का श्रेष्ठतम उदाहरण है । अब्दुल्ला कुतुबशाह के समय आप अपनी कीर्ति के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे । मुहम्मद कुली कुतुबशाह के समय भी ये जीवित थे । कुतुबशाही वंश के लगातार तीन नरेशों के वंश इनको प्रशंस मिलती रही मुहम्मद कुली कुतुबशाह पर उन्होंने 'कुतुबमुस्तरी' नामक मसनवी लिखी है, जिसमें उस समय के रीति रिवाजों और स्थिति का परिचय मिल सकता है । वजहन फारसी एवं अरबी के विद्वान थे । उन्होंने सूफी ग्रन्थों के साथ साथ वेदान्त दर्शन का भी अच्छा अध्ययन किया था । हिन्दी का ज्ञान भी उन्हें था । हिन्दी भाषी क्षेत्र के मुहावरों का प्रयोग भी उन्होंने किया है । अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वजहन ने स्थान स्थान पर सूक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग किया है । 'वजहन नामा' या 'रिमातये अलिफ वाये' की रचना अरबी वर्णाक्षरक्रम में हुई है । अरबी में अलिफ की एक दूसरी आह्वान भी है जिन्से वजहन ने उसे छोड़ा है । कवि वजहन ने जीवन परिचय के सन्दर्भ में यह जानकारी सन् १६५३ ई० की दिल्लीबाद में प्रकाशित 'अजन्ना' नामक पत्रिका में प्राप्त की है ।

इस पत्रिका में 'वजही का रिसाला अलिफ वे' शीर्षक निबन्ध गवर्नमेन्ट कालेज गुलवर्गा के श्री रामशर्मा जी ने लिखा था ।

श्री शर्मा जी ने कवि को दक्खिनी हिन्दी का कवि माना है, किन्तु 'वजहननामा' में खड़ी बोली हिन्दी, ब्रजभाषा एवं कहीं-कहीं अवधी के शब्दों का भी प्रयोग है । प्रचलित मुहावरों के प्रयोग में भी कवि बहुत पटु है । कुछ उद्धरण उनके विचारों को स्पष्ट कर सकेंगे । 'वह परमेश्वर एक है किन्तु अनिक रूप धारण करके विभिन्न स्वरूपों में प्रकट हो रहा है । वजहन कुछ कह सकने में असमर्थ है । समुद्र बूंद में समाया है यह अत्यन्त आश्चर्यजनक होते हुये भी सत्य है ।'

अलिफ एक बहुरंगी साई, हर घट में वाकी परछाहीं ।
जहाँ देखो तहाँ रूप है न्यारा, ऐसा है बहुरंगी प्यारा ॥
वजहन कहें तो क्या कहै, कहने की नहिं बात ।
सिन्धु समानी विन्दु में अचरज बड़ा देघात ॥

अन्य सूफियों की भाँति वजहन भी गुरु का महत्व मानते हैं । प्रेम मार्ग में प्रवेश करने के पूर्व साधक को गुरु-दीक्षा ले लेना आवश्यक है । यदि साधक गुरु विहीन है तो चाहे वह धरती से लेकर आकाश तक यत्न करे, उसे सिद्धि नहीं मिलती । गुरु विहीन साधक स्वार्थ और परमार्थ दोनों से हाथ धो बैठता है ।

वे बिनु गुरु कोई भेद न पावै, धरती से अकास को धावै ।
पहिले प्रीत गुरु से करै, प्रेम डगर में तव पगु धरै ॥
बिनु गुरु वजहन जो कोई लेत है वसन रंगाय ।
यह तुम निश्चय जानियो तो दोउ और से जाय ॥

'स्वामी का रूप अद्भुत है, उसके रूप का दर्शन वही कर पाता है जो इन्द्रिय दमन कर लेता है । यदि योग सफल हो गया तो 'अनहद नाद' या आनन्द प्रदान करने वाला वाजा वजता है । साधक सिद्धि प्राप्त करना है । इस तन में सभी साज वजते एवं सभी राग सुनाई देते हैं । कोई विरला ही इस नाद को सुन पाना है, उसके भाग्य धन्य हैं ।

पे षाविन्द का रूप है न्यारा, मूंद देव तू दशौ दुआरा ।
सुन परिहै अनन्द का वाजा, परजा से होइ जइहै राजा ॥

सभी साज तन में वजै, ऐसी मन्ची है राग ।
वजहन जाको सुन परै, वढे हैं वाके भाग ॥

इसके अनिरिक्त 'अल्लानामा' नाम की एक अज्ञात कवि की रचना प्राप्त होती है । यह रचना ममनवी के ढंग पर लिखी गई है, इसमें अल्लाह के नामस्मरण का उपदेश दिया गया है । कवि ने इस तथ्य को कड़े प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयास किया है ।

जग फानूस की शकल बनाया, आपको चातर होय जनाया ॥
 हाथी - घोड़े वामे बनाये, दीपक बल सब सैर दिखाये ॥
 जब दीपक हो वामे आया, वह मन्दिर सब जग को भाया ॥
 दीपक हो जब आया अन्दर, सूफे तारे सुरज अन्दर ॥
 जब लग दीपक वामे रहे, हँसी खुसी जग वाको करे ॥
 जब दीपक फानूस से जाये, काहू को फानूस न भावे ॥
 कहीं बुलबुल कहीं फूल होआया, कड़े भात अपनारूप दिखाया ॥
 कहीं लैली कहीं मजन् हुआ, कहीं कली कहीं मधुवन हुआ ॥
 कहीं रोवे कहीं दिलखिल हँसे, वह प्यारा कई रंग में बसे ॥
 कहीं अज्ञा कहीं राम कहाया, कहीं चन्दा पूजन आया ॥
 आप ही गंग में नीर बहाया; फिर सेवक हो पूजन आया ॥
 आप अनलहक आप पुकारा, किया बदनाम मंसूर विचारा ॥
 फिर काजी हो कायल कीना, और वाको खूली पर दीना ॥
 कौन चढ़ा औ कौन चढ़ाया, आपही यह कई रूप में आया ॥

(यह सारा संसार फानूस के समान है जिममें चारों ओर तरह तरह के आकार बने हुये हैं। उसके मध्य परमात्मा दीपक रूप में स्थित है। जब तक यह तब उसमें वर्तमान रहता है फानूस की शोभा है। दीपक ही, परमात्मा ही इस जगत की शोभा है। इस संसार में एक उमी की ध्याप्ति है। फूल एवं बुलबुल में उपवन और कली में प्रिय और प्रेमी में, एक उरी के दर्शन होते हैं। राम और रहीम एक ही हैं, वह स्वयं ही उपासक एवं उपास्य भी है। भिन्न रूपों में वही अवस्थित है।)

काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संग्रहालय में मरमद एवं शाह फकीर के कुछ बेंत एवं पद प्राप्त होते हैं।

बेंत सरमद की 'दया गुरु'

नागाह नयकीगड से हरफान न सोहरा हुआ ॥
 जाने जिमी पैदा हुं और आसना चरपा हुआ ॥
 हमभी अदमले चीक उठे हस्ती का जब गौगा हुआ ॥
 कि समन पा दफ्तर सा हुआ कोई गथा फोटे साह हुआ ॥
 गर बो हुआ तो क्या हुआ गर बो हुआ तो क्या हुआ ॥ १ ॥

कोई इमवी कोई नूखवी फोटे चिल्ली के ऐ टिन में ॥
 फोटे राफु जी फोटे पार जी फोटे रुद्र के प्राशन में ॥
 हादी नेह नमके हिदी आ, पहिले दि मय तलवान में ॥
 नैरंग या जिल्ला के सबडेग प्राकमे रंगीन में ॥
 गर बो हुआ तो क्या हुआ गर बो हुआ तो क्या हुआ ॥ २ ॥

मुद्दत तलक पढते रहे हम दरसले कुराआन का ॥
 इसलोक हमको याद था गीता का और कुछ ज्ञान का ॥
 यहाँ नेम है और धर्म है वहाँ जीक है ईमान का ॥
 जो गौर करके देखिये सब दीद है पहिचान का ॥
 गर यो हुआ तो क्या हुआ गर वो हुआ तो क्या हुआ ॥ ३ ॥

कोई सलातो सौम में मसगुल सुवा औ साम है ॥
 कितनों को तसवी है पुदा कितनो के सुमरन राम है ॥
 कोई पढ़ाव हमस्त है और षत्क में बदनाम है ॥
 जो गौर करके देखिये दोनों का एक अज्ञाम है ॥
 गर यो हुआ तो क्या हुआ गर वो हुआ तो क्या हुआ ॥ ४ ॥

इस आलमे रंगी से ती आजादगी उमेदकर ॥
 मुहलद नवा भव हो अगर उसकी तू मत तकलीद कर ॥
 तू इस फलक की सैर में फिखाक की उमेद कर ॥
 आजादगी भंजूर है कमकर तमासा दीद कर ॥
 गर यो हुआ तो क्या हुआ गर वो हुआ सो क्या हुआ ॥ ५ ॥

अब उदा मन चल निकल उलभावे से फिर काम क्या ॥
 फिराउन और रहाम हुआ इसकाम में आराम क्या ॥
 मन से दुई जव दूर की फिर कुफ्र और इसलाम क्या ॥
 जव हक उजाग्र हो गया अल्लाह और फिर राम क्या ॥
 गर यो हुआ तो क्या हुआ गर वो हुआ तो क्या हुआ ॥ ६ ॥

इसी प्रकार अपनी अन्य बातों में भी कवि ने परमात्मा एवं संसार की सत्ता का विवेचन किया है। यह संसार उसी का प्रतिबिम्ब है और परमात्मा एक है। जो जिस मार्ग का अनुयायी है उसकी मुक्ति उसी मार्ग से होती है। यदि परमतत्व का ज्ञान साधक को हो गया है तो फिर राम और रहीम के विवाद में पढ़ना अभीष्ट नहीं है। साध्य तो केवल उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है यदि वह उपलब्ध हो गया तो फिर धर्म और सम्प्रदाय के चक्र में पढ़ना श्रेय नहीं है। इस प्रकार कवि अपनी उदारता का परिचय देता है।

शाह फकीर के कुछ पद नागरी प्रचारिणी सभा के संग्रहालय में मिलते हैं किन्तु उनके जीवन चरित्र के बारे में कुछ सूचना नहीं मिलती।

साह फकीर 'जीव'की' राग काफी

नदीआ जोरव होरी मे कैसे के उतरव पार।
 नार्ही मोरे नदया नार्ही मोरे भइया न मोरे खेवनी हार।

मुरनी नीरनी सो मृतु बनायो येही त्रीधी उतरो पार ।
 नाभी कमल ते पन चलावहु, मन लगावहु त्रीपुनी द्वार ।
 एह मत मेडुक जाने कोइ रहनी बहिग्रम मार ।
 जोर जो जमुना अनिहि मन्नावनो पनीया बहन न थीर ।
 बीना नावरी बीना पावरी उत्तरे मादव फकीर ।

हिन्दी का सूफी स्फुट साहित्य अभी अधिक प्राप्त नहीं हो सका है, यद्यपि बहुत संभव है कि सूफी प्रेमाख्यानों की अपेक्षा मुक्तक काव्य की रचना अधिक हुई हो। विविध साहित्य के अन्तर्गत विषयगत विभेद होते हुये भी कवियों ने विभिन्न प्रकार के छन्दों का प्रयोग नहीं किया है। अधिकांश प्रयुक्त छन्द, नागरी, शब्द, पद, कुंडलिया, दोहे, सीदर्पा, बारहमाह, अठवारा, एव फारसी वजनों पर लिखे गये पद हैं।

जानकवि को छोड़कर, जिन्होंने चैतावनी, आलोचना एवं सिद्धान्त निरूपण के अतिरिक्त काव्य शास्त्र सम्बन्धी, शुद्ध प्रेम सम्बन्धी, बहुजता सम्बन्धी ग्रन्थों की रचना भी की है, लगभग सभी कवियों ने सिद्धान्त निरूपणात्मक, चैतावनी एवं उपदेशात्मक, रचनायें ही की हैं। इन सूफी कवियों ने भी कर्मकांड एवं भूटे प्रदर्शन की निन्दा की है, किन्तु वह कवीर की भांति कटु नहीं है।

भाषा का बहुविध प्रयोग सूफी विविध काव्य में मिलता है, क्योंकि अधिकांश स्फुट काव्य गुरुओं और शिष्यों के मौखिक कथन में स्थान पाता रहा है, अतः वक्ता की प्रादेशिक बोलियों का उस पर प्रभाव पड़ा है, साथ ही, संग्रहकर्ता की बोली का प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक था, अतः इस भाषा परिवर्तन के बारे में निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता। अरबी, ब्रज, पंजाबी मिश्रित त्वड़ी बोली का पूर्वस्वरूप एवं राजस्थानी से प्रभावित ब्रज का ही अधिक प्रयोग सूफी काव्य में हुआ है।

भाषा, छन्द एवं विषय की विविधता एवं व्यापकता देखते हुये सूफी विविध साहित्य अपना पृथक महत्व गनता है।

सूफ़ी कवियों की देन

सूफ़ी प्रेमाख्यानों के आधार पर चौदहवीं से बीसवीं शताब्दी तक की साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रवृत्तियों का अध्ययन सुगमता से किया जा सकता है।

एक ओर जहाँ इन काव्यों में लोक गीतों के तत्व सुरक्षित हैं वहीं दूसरी ओर साहित्यिक परम्परार्यों भी। लोक गीतों की सामान्य प्रवृत्तियाँ, जैसे प्रेमी को पाने के लिये नायक अथवा नायिका का प्राणप्रण से प्रयत्न करना और अनेक बाधाओं के रहते हुये भी प्रेम के उल्लास में मग्न रहना, वीरत्व की प्रशंसा, आश्चर्य तत्वों में विश्वास, पहिलियाँ सुलभाना, पुनर्जन्म एवं भाग्य पर विश्वास, व्यक्ति के अनेक सम्बन्धों की चर्चा, कहानी में उपदेश का निहित होना, पशुपत्तियों द्वारा मानवहित संपादन आदि तत्वों का समावेश सूफ़ी काव्य में है। रस चर्चा, सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग, प्रकृति चित्रण, वर्णन प्रियता, काव्य शास्त्र सम्बन्धी चर्चा, भूगोल, ज्योतिष, वैद्यक सम्बन्धी ज्ञान इन कवियों की रचनाओं को साहित्यिक श्रेणी में ला देता है। अपभ्रंश के चरितकाव्यों की परम्परार्यों इन प्रेमाख्यानों में सुरक्षित हैं।

प्रत्येक प्रबन्ध में एक प्रधान प्रेमकथा अवश्य है। प्रेम, विवाह के पूर्व गुणभ्रवण, चित्रदर्शन, साक्षात् दर्शन या स्वप्न दर्शन से उद्भूत होता है। सिंहलयात्रा या उसके अभाव में किसी अन्य यात्रा का वर्णन अवश्य रहता है, लौकिक कथाओं में अध्यात्मिक तत्व निहित रहता है। इनके अतिरिक्त अपभ्रंश के चरित काव्यों से इन कथाओं का साम्य, किसी हाथी या राजस से सुन्दरी को छुड़ाने, उजाडनगर या वन में किसी सुन्दरी से साक्षात्कार, नायिका चित्र-निर्माण, पशुपत्तियों का मनुष्य की बोली में बोलना एवं उनकी भाषा समझना, नायक नायिका के मिलन में अधिकांश शुक का योग इत्यादि रूढियों भी हैं।

इन कवियों ने अपने प्रेमाख्यानों में लोककथाओं को प्रश्रय दिया है। एक ओर जहाँ प्रबन्ध काव्य की भाँति इन कथाओं का विस्तार एवं सम्बन्ध निर्वाह है, वहीं मसनवी काव्य शैली की भाँति इन कवियों ने अपनी कथा का विभाजन भी किया है। कथा

निरन्तर एक गति से चलती रहती है, बीच बीच में घटनाओं का उल्लेख हो जाता है। कथा में गतिशीलता बनाये रखने के लिए कवि शुरु, परी या क्रिमी गन्त के अनुग्रह की अपेक्षा रखता है। महाकाव्य में रमचर्चा की दृष्टि में काल्पनिक कथानक को प्रथम नहीं दिया जाता है, किन्तु इन कवियों ने काल्पनिक कथानक को भी बड़े विस्तार एवं रमणीयता प्रदान की है कि कथानक प्रबन्धभाव के अनुकूल हो गया है। ग्रन्थों के घटना एवं वर्णन प्रधान होने के कारण दृश्य-काव्य की भाँति चमत्कार भी वर्तमान रहता है।

कवियों ने चमत्कार एवं कथा में कानूहल को निरन्तर बनाये रखने के लिये कुछ आश्चर्य तत्वों की योजना भी की है जिनमें परी, पशु (हाथी, अश्व) पत्नी (नोता, गन्ध, हुदहुद), वनमानुष, अजगर, देव, दानव, चुड़ैल आदि प्रधान हैं। ये पशु, पत्नी, देव, दानव आदि मनुष्य की भाषा बोलते एवं समझते हैं। कहीं पर इनका महायक और कहीं विरोधी स्वरूप प्रकट होता है। इन आश्चर्य तत्वों की योजना में भी कवि ने भारतीय भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विवरणों का ध्यान रखा है। एक ओर जहाँ इन आश्चर्य तत्वों की योजना से कथा में कानूहल एवं जिज्ञासा की वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर कहानी को लोककथा का स्वरूप प्राप्त होता है।

यूक्ती कवियों ने लोककथाओं का वर्णन करके मौलिक-कथा-परम्परा को नष्ट होने से बचा लिया।

अपनी प्रेम कहानियों को, बोलचाल की भाषा में कहने के कारण, उन्होंने हिन्दी साहित्य की भी अभिवृद्धि की। प्रान्तीय एवं प्रादेशिक बोलियों में काव्य रचना करते, इन कवियों ने हिन्दी के बोली साहित्य को पुष्ट किया है। मन्दि में प्रचार करने वाले कवियों ने सिन्धी, पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली एवं दक्षिण में दक्षिणी हिन्दी में रचना की। हिन्दी में काव्य रचना करने वाले सूफियों ने अरबी ब्रज, गरी बोली, राजस्थानी एवं ब्रज-मिश्रित अरबी आदि ठेठ बोलियों में काव्य रचना की। ये कवि साहित्यिक परम्पराओं से भी अवगत थे यही कारण है कि इनके काव्य में साहित्यिक पुष्ट भी पाया जाता है। कुछ कवियों ने तो अपनी काव्यशास्त्र सम्बन्धी योग्यता का परिचय नत्सम्बन्धी ग्रन्थों की रचना में दिया है, जान कवि एवं नूरसुरम्हद ने अपनी बहुजता एवं साहित्यिक ज्ञान का परिचय संस्कृत मिश्रित साहित्यिक भाषा के प्रयोग में दिया है। लोकभाषा या जनभाषा का सनादर करने वाले इन कवियों का साहित्य में विशिष्ट स्थान है। लोक भाषा की मान्यता के सम्बन्ध में 'प्रेमनिवासी' में एक दृष्ट उल्लेख है —

हिन्दी भाषा में करै, हिन्दी जण रमार ।

सिन्धी करै सिन्धि में, दुमिरन नोर दु गार ।'

अन्त में प्रकल्पित कथाओं को उन्हीं की ठेठ भाषा में बतकर इन कवियों ने प्रान्तीय मान्यता को गिद्ध कर दिया है।

सूफ़ी प्रेमाख्यानों के अतिरिक्त जो भारतीय प्रेमाख्यान परम्परा है उसमें प्रेम के लौकिक स्वरूप के दर्शन होते हैं। यही कारण है कि हम ऐसे ग्रन्थों की गणना शुद्ध प्रेमाख्यानों की कोटि में करते हैं, किन्तु सूफ़ी कवियों के प्रेमाख्यानों में एक अध्यात्मिक अर्थ भी व्यंजित रहता है। कथानक एवं उसका संगठन, लौकिक प्रेमप्रबन्धों की भाँति ही है किन्तु ग्रन्थ-रचना का उद्देश्य अलौकिक तत्व की व्यंजना है। कवि लौकिक प्रेम-वर्णन के द्वारा अलौकिक प्रेम की प्रतिष्ठा करना चाहता है। इन काव्यों में वर्णित लौकिक-प्रेम अलौकिक-प्रेम का सोपान है। वह विषम से सम की ओर अग्रसर होता है। इसी कारण इन काव्यों का हम अन्यापदेशिक, या उपमिति कथाओं के अन्तर्गत लेते हैं, इस प्रकार सूफ़ी कवियों ने अपने प्रेमाख्यानों के द्वारा हिन्दी प्रेमाख्यान साहित्य के एक नवीन स्वरूप की पुष्टि की।

सूफ़ियों ने केवल उपमिति कथाओं की ही रचना नहीं की है। उनके साहित्य को देख कर स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने हिन्दी साहित्य का संवर्द्धन एवं विकास कई क्षेत्रों में किया है। उपमिति कथाओं के अतिरिक्त सूफ़ियों के स्वतन्त्र एवं भावमूलक प्रेमाख्यान भी प्राप्त होते हैं जिनमें किसी एक भाव की व्यंजना एवं स्थापना ही कवि को अभीष्ट है। ऐसे प्रेमाख्यानों के अन्तर्गत हम कथा सनवन्ती, कथा सीलवन्ती, कथा कुलवन्ती आदि ले सकते हैं।

इन कवियों ने प्रेम के भव्य स्वरूप का ही चित्रण अधिकांश किया है, किन्तु कहीं कहीं इनमें व्यभिचार मूलक प्रेम की भी व्यंजना है यद्यपि कवि का उद्देश्य उसमें भी उत्पन्न की विजय दिखाना है। 'कथा निरमलदे' में ऐसे ही प्रेम का वर्णन है। विजय निरमलदे के सतीत्व की ही होती है जिसके प्रभाव में आकर नायक को अपनी वासना का परिष्कार करना पड़ता है।

उन स्वतन्त्र एवं भावमूलक प्रेमाख्यानों के अतिरिक्त सूफ़ी साहित्य में उन स्फुट दोहों, चौपाइयों एवं पदों का महत्व है जिनमें कवि ने वर्णमाला के क्रम पर सिद्धान्त निरूपण का प्रयास किया है। जान कवि का वर्णनामा, यारी साहब का अलिफनामा, वजहन का अलिफवा ए या वजहननामा तथा शाहनजफ़अली सलोनी की अखरावटी ऐसी ही कृतियों के अन्तर्गत आती हैं। इस प्रकार सिद्धान्तनिरूपण के लिये इन सूफ़ी कवियों ने एक नवीन शैली प्रारम्भ की जो हिन्दी साहित्य को इनकी मौलिक देन है।

प्रबन्ध काव्यों में लोक गीतों के तत्वों के समावेश के अतिरिक्त, इन सूफ़ी कवियों ने विभिन्न राग-रागिनियों के आधार पर कुछ गीतों की रचना भी की है। अलीमुराद इस कला में विशेष पटु थे। उनके होरी, बसन्त और मल्हार प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इन गीतों में भी कवि ने अध्यात्मिक तथ्यों का उद्घाटन किया है। इसी परम्परा में हम इन कवियों के द्वारा लिखे गये वारहमासा आदि ले सकते हैं। लोक-गीतों की इस परम्परा को बनाये रखकर, सूफ़ी कवियों ने निस्सन्देह हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि की है।

इन कवियों की काव्यशास्त्र सम्बन्धी रचनायें भी मिलती हैं। विरह, प्रेम एवं संयोग के विभिन्न स्वरूपों पर भी इन कवियों ने लेखनी उठाई है। ग्रन्थ 'विषोग सागर' जान कवि का संग्रह ग्रन्थ है।

जान कवि ने बहुगता प्रदर्शनार्थ बाजनामा, कवृत्तरनामा, गूढग्रन्थ वांटीनामा, देगावली एवं पाहनपरीक्षा आदि ग्रन्थों की रचना भी की है।

इसके अतिरिक्त ऐसे स्फुट पद एवं दोहे प्रचुरता से उपलब्ध होते हैं जिनमें संस्कार की निस्सारना, गुरु की वन्दना, जीवन का लक्ष्य, निर्गुण या निराकार की उपासना आदि विषयों पर विचार प्रकट किये गये हैं।

सूफ़ी साहित्य में विषयगत विभिन्नता होते हुये भी विभिन्न काव्य-शैलियों का प्रयोग नहीं हुआ है। सूफ़ी प्रेमाख्यान लगभग सभी दोहे चौपाई, चौपाई वरचै, दोहा चौपाई के छन्द क्रम पर लिखे गये हैं जिनमें भारतीय प्रबन्धकाव्य एवं फारसी की गमनवी काव्य शैली का मिला जुला रूप दृश्य है।

इस प्रकार सूफ़ी कवियों ने लोक कथाओं एवं लोक गीतों की लोक भाषा में रचना करके जहाँ अपने जन कवि होने का परिचय दिया है वहीं समय के साथ बदलते हुये काव्य विषयों पर लेखनी उठाकर अपनी सजगता का परिचय भी दिया है। कवि जान ने रीतिकालीन, अलफनामा, वादीनामा आदि से लेकर पारिड्यत्वप्रदर्शनार्थ भावसति आदि की भी रचना की है। उसकी भाषा पर तत्कालीन साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रचुर प्रभाव है; इसी प्रकार कवि निगार के पदश्रुतु वर्णन में कवित्त एवं ब्रजभाषा का प्रयोग, तत्कालीन साहित्यिक प्रभाव को सूचित करता है।

'भाषा प्रेमरस' के रचयिता शेखरदीम ने प्रेमकथा के साथ-ही-साथ गांधी युग की अहिंसा एवं सत्य प्रेम का उपदेश भी दिया है। उसके विचार से किसी भी धर्म का अनुयायी होकर मनुष्य सदाशय रह सकता है क्योंकि सत्यप्रेम, दया और धर्म ही मनुष्यत्व का द्योतक हैं। मनुष्य को बाल क्रिया कलाप से दूर रहना चाहिये।

समय की गति विधि के प्रति उनकी यह जागरूकता उनके ग्रन्थों को साम्प्रदायिकता से ऊपर उठा देती है।

इन कवियों ने अपने ग्रन्थों में भारतीय संस्कृति के मूलस्वम्भ सामाजिक लोकान्तरों की सम्पन्न अभिव्यक्तता की है। इनकी लोकोद्दिष्ट सचेत थी। जीवन के विभिन्न पक्षों के सर्वांगीण चित्र उनके काव्य में मिलते हैं। व्यक्तिगत जीवन के अनिश्चितता, नाश, भगिनी के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य एवं उनका निर्वाह, परम प्रेम की महत्ता, नारियों का समाज में स्थान, उनकी शिक्षा, विवाह संस्कार एवं उनकी परिश्रम, विभिन्न त्यौहार एवं उत्सव, चन्द से लेकर मनुष्य पर्यन्त के विभिन्न संस्कार, मनोविनोद के माध्यम, लोकगीतों के स्वल्प आदि का विषयस्थान विवरण इन काव्यों में उपलब्ध होता है। उपासना के विषयों में सामाजिक जीवन में स्थान की महत्ता, जो उस समय की बड़ी विज्ञेयता है, का परिचय भी इनके काव्यों में मिलता है।

कुछ धार्मिक विश्वासों एवं अंधविश्वासों का भी विवरण इन प्रबन्धों में है। हठयोगियों के समाज पर कुप्रभाव की चर्चा भी है तथा साथ ही जन्म मन्त्र, जादू, टोना, आदि के विश्वासों का भी वर्णन है।

रीतिकालीन उन्मुक्त वातावरण के बीच भी ये कवि सामाजिक पक्ष को नहीं भूले हैं। लोक मर्यादा और आदर्शमय जीवन का दृष्टिकोण सामाजिक क्षेत्र में इन कवियों की सबसे बड़ी देन है।

भारत और इस्लाम के सम्पर्क होने पर दो विरोधी संस्कृतियों का संघर्ष हुआ। अन्य संस्कृतियों की भाँति मुस्लिम संस्कृति का भारतीय संस्कृति में खप जाना सम्भव न था। कर्मकाण्ड एवं बाह्य पूजोपासना के विधानों को अत्यधिक महत्व देने के कारण भारतीय संस्कृति की समन्वयवादिनी प्रवृत्ति क्षीणप्राय थी। ऐसे समय में सन्त कवियों ने बुद्धिवादिता के सहारे खरडन-मखडन पद्धति का आधार लेकर हिन्दू और सुसलमान दोनों के विरोधी तत्वों में सामञ्जस्य स्थापित करने का प्रयास किया। भक्त कवियों ने केवल उपासना के क्षेत्र में प्राणिमात्र की समानता स्वीकार की। सन्तों की व्यक्तिगत साधना के द्वारा समाज सुधार न हो सका किन्तु सूफियों की रचनाओं, फुटकल पदों तथा गजलों आदि ने समाज संस्कार में सहायता की। सन्तों की स्पष्टवादिता निराश और क्लान्त जनता के विचारों को केवल धक्का लगा सकी, किन्तु सामान्य जड़ीभूत जनता के जीवन में आशा, प्रेरणा एवं आस्था की चेतना का जागरण सूफी साधकों द्वारा ही सम्भव हो सका।

सूफियों ने आचार विचार, रुढियों और परम्पराओं को अधिक महत्व नहीं दिया। शुद्ध हृदय से सदाचार सम्बन्धी नियमों का पालन करते हुये प्रेमस्वरूप जगत के कण-कण में व्याप्त ब्रह्म की उपासना ही इनका ध्येय था। इनका उद्देश्य अधिकाधिक सामञ्जस्य एवं समन्वय था। इनका ब्रह्म अलख और निरञ्जन, वाहिद और लाशरीक है, निर्गुण भी है, सगुण भी। हृदय की शुद्धि एवं प्रेम की व्याप्ति ही सूफियों की कसौटी है।

मध्यकालीन संस्कृति, हिन्दू मुस्लिम संस्कृति का समन्वित रूप है। साहित्यिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा संगीत और कला सम्बन्धी क्षेत्रों में समन्वय स्पष्ट लक्षित होता है और इस समन्वय में सूफियों का बड़ा हाथ है।

सूफियों की इस महत्वपूर्ण देन के साथ उन पर एक बड़ा लाछन भी है कि राजनीति के क्षेत्र में जब अत्याचार, साम्राज्यवादिता तथा अमीरों का बोलवाला था, आये दिन दुर्भिक्ष, महामारी आदि का प्रकोप था, राजा और प्रजा में कोई सम्पर्क न रह गया था। फिर क्यों ये सूफी कवि इन परिस्थितियों के प्रति मौन रहे। इसका स्पष्ट कारण संभवतः यह है कि ये सूफी राजसत्ता के विरोध में पहले ही परास्त हो चुके थे। ये जान गये थे कि राजसत्ता के विरोध में ये फलफूल नहीं सकते, साथ ही भारत में जिस समय सूफीमत का आगमन हुआ वह इस्लाम का एक अग्र वन चुका था और उसका एक उद्देश्य इस्लाम का प्रचार भी था, यद्यपि यह प्रचार 'मिशनरियों' की भाँति राजसत्ता से संचालित नहीं था। इनका प्रचार प्रच्छन्न था, फिर भी इन कवियों ने कहीं किसी विशेष सम्राट की राजनीति की

तराहना नहीं की है। गगनवी काव्य-रुद्धियों के अनुसार शाहवंश की प्रशंसा की है, पर भी वर्गानुकूलता की दृष्टि से। ये राजा को 'दीन क थूनी' कहकर सन्तुष्ट हो जाते थे। कवि नूरमुहम्मद ने एक स्थल पर 'राजधर्म' पर भी अपने विचार प्रकट किये हैं।

कहने का तात्पर्य यह है कि सूफी कवियों ने प्रेमाख्यानों में जनसाधारण के प्रचलित लोकगीतों की परम्परा को अपनाकर, लोककथाओं को लोक भाषा के माध्यम से कहकर, उनकी रत्ना की, साथ ही भाव भाषा, अलङ्कार एवं छन्द विधान आदि में प्रचलित साहित्यिक परम्पराओं को अपनाकर इन काव्यों को हिन्दी साहित्य की अनुपम निधि बना दिया। इन कवियों ने सूफी सिद्धान्तों के प्रचार के साथ ही शुद्ध मानव अनुभूतियों का चित्रण करके इन्हें जन-समाज की वस्तु बना दिया। अर्धशकालीन लुप्तप्राय चरित काव्यों की परम्परा को पुर्नजीवन मिला।

सूफी कवियों ने प्रेम प्रबन्धों की रचना करके एक और जहाँ साहित्यिक विकास में योग दिया वहीं दूसरी ओर उनके काव्य में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं गार्हस्थ्य जीवन का प्रतिबिम्ब मृत्पर है।

था, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। बहुत सम्भव है कि वे केवल प्रेमाख्यानों का ही उल्लेख कर रहे हों।

यह निश्चित नहीं कि 'मधुमालती' के उल्लेख से कवि का आशय मंभन की 'मधुमालत' से ही था। क्या अन्य किसी कवि के द्वारा 'मधुमालती' ग्रन्थ की रचना सम्भव नहीं है? यह भी नहीं कहा जा सकता कि जिन प्रेमाख्यानों का जायसी ने उल्लेख किया है उनके निर्माणकाल के सम्बन्ध में वे पूर्णतः जानकारी पा चुके थे।

स्वर्गाय जगन्मोहन वर्मा जी ने मंभन को जायसी का पूर्ववर्ती मानने में एक और प्रमाण दिया है कि 'मिरगावति' में पाँच चौपाइयों के बाद दोहा मिलता है और पद्मावत में सात चौपाइयों के बाद। 'मधुमालत' में भी पाँच चौपाइयों के बाद एक दोहा मिलता है अतः यह निश्चित है कि मंभन और कुतबन, जायसी के पूर्ववर्ती कवि हैं।

दोहे चौपाइयों के क्रम से किसी कवि का काल निर्णय करना ठीक नहीं है। यदि इसी आधार पर कवियों का काल निर्णय किया जाय तो 'इन्द्रावती', जो 'पद्मावत' के बहुत बाद की रचना है, भी 'पद्मावत' की पूर्ववर्ती रचना मानी जाती। अतः यह तर्क भी युक्तिसंगत नहीं ज्ञात होता। तीसरी बात श्री जगन्मोहन जी ने कवि की भाषा के सम्बन्ध में कही है। उनका कहना है कि 'मधुमालत' की भाषा 'पद्मावत' से प्राचीन है, साथ ही वे यह बात भी मानते हैं कि 'मधुमालत', 'मिरगावति' और 'पद्मावत' के बीच की रचना है। मिरगावति का रचनाकाल ६०६ हिजरी, एवं पद्मावत का रचनाकाल ६२७ हिजरी माना जाता है। इस सोलह सत्रह वर्ष के अन्तर में क्या भाषा सम्बन्धी कोई विशेषता ऐसी हो सकती है जो सहज ही पृथक्ता स्थापित कर सके। मंभन के जायसी से पूर्ववर्ती होने के तर्क को लगभग सभी लेखकों ने मान लिया है। इतिहास ग्रन्थों एवं आलोचना पुस्तकों में मंभन को जायसी का पूर्ववर्ती लिखा गया, किन्तु वास्तव में मंभन जायसी के परवर्ती कवि थे यह एक और हस्तलिखितप्रति से पुष्ट होता है। यह प्रति रामपुर रियासत के राजकीय पुस्तकालय की सम्पत्ति है। इस प्रति का केवल प्रथम पृष्ठ ही प्राप्त नहीं है ऐसा ज्ञात होता है।

इस प्रति में पद्मावत की भाति ईश्वर वन्दना, मुहम्मद साहब एवं उनके चारों मित्रों की प्रशंसा है। शाहेवक्त के स्थान पर शाह सलीम का उल्लेख है। शेख बदी, शेख मुहम्मद एवं गुलाम गौस की प्रशंसा भी पीर के रूप में हुई है। इन सबके अन्त में निर्गुण की महिमा का गान है। जो प्रतिया 'कला भवन' के स्वाधिकार में हैं। वे यहाँ से आरम्भ होती हैं। अतः उनमें रचनाकाल, पीर, शाहेवक्त, मुहम्मद एवं उनके मित्रों का प्रसंग उपलब्ध नहीं होता।

रचना-काल :

रामपुर रियासत के राजकीय पुस्तकालय वाली उम प्रति से यह निश्चित हो जाता है कि इस ग्रन्थ का रचनाकाल शेरशाह के पुत्र शाह सलीम का राज्यकाल

या १। यह शाह मलीम अपनी दानशीलता के कारण विख्यात था। मलीमशाह गेरशाह को मृत्यु के पश्चात् ६५२ हिजरी या मंघ्व १३०२ विक्रमी, १५४५ ईसवी में राज्यनिहासन पर बैठा था और तभी कवि मंभन के हृदय में कथा रचना की इच्छा जाग्रत हुई। इस प्रकार 'मधुमालत' का रचना काल मग १५४५ निर्दिष्ट हो सकता है।

गुरू या पीर :

मंभन के गुरू और पीर कौन थे यह निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता, किन्तु पीर के रूप में शेख मोहम्मद जेज बदी, एवं मोहम्मद गीस आदि का परिचय मिलता है। इनमें कौन उनका गुरू या यह स्पष्ट नहीं होता।

माता पिता आदि :

मलिक मंभन के माता, पिता एवं मित्रादि का कोई परिचय नहीं प्राप्त होता। उनके सामाजिक जीवन पर भी इस ग्रन्थ से कोई प्रकाश नहीं पड़ता।

निवासस्थान :

मंभन कवि के निवासस्थान के बारे में एक स्थल पर संकेत प्रवक्ष्य मिलता है जिसे ध्यान देना है कि 'मधुमालत' नामक कोई नगर उनका निवासस्थान या जो सम्भवतः गढ़ी

१. साह मलेम जगत था (था) तिहारी, तेहीं यह बरनें मन्ड न मारी।
जोरी × × जाप, इन्डर का इन्द्र मन काप ॥

न्याय करत जग उच और चंगा, भेद हुंनर चरित्त एक मंगा।
केदि मुनर कहे जान ई याता, रायन यात मुक्त कर डाता।

× × ×

सुन नौरम धायन जय भण, सने दरमगुल परिहर गण।
तय इन ती उपजी शभिलादा, कथा एक राधी यम भादा।

२. शेख बदी जग विश्व पिचारा, म्यान ममुन्द और वतपाता।
जेव मुहम्मद पीर बनारा, मात मकत जय वंजहारा।
मा की शायर विद्वान शयारा, गुरु होय तो नारै पारा।

ये दोहे हिः निरमद सिद्धि रात जग पीर।
तेदि तेने मन्ड उपर प्रात मुहम्मद पीर।

की भाति सुरक्षित एवं सुदृढ था, जिसकी पूर्व दिशा में बहरायच नगर है, तथा उत्तर-पश्चिम में लका गढ के सदृश सुदृढ खाई है^१।

कथा-सारांश :

कनेसर नगर के राजा सूरजमान के पुत्र मनोहर को सोते समय कुछ अप्सरायें रातों रात मधुमालती की चित्रसारी में ले गईं। मधुमालती महारस नगर के राय विक्रम की पुत्री थी। जागते ही दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गये। पृच्छने पर मनोहर ने अपना परिचय देने के पश्चात् अपने प्रेम की दृढता बताई कि मनोहर का ऐम मधुमालति के प्रति जन्म जन्मान्तर का है। बातचीत करने के पश्चात् दोनों प्रेमनिन्द्रा में निमग्न हो गये। मधुमालति को प्रेम पूर्वक सोते देखकर अप्सरायें चिन्ता के वशीभूत हो गई क्योंकि उन दोनों को यदि अलग करती तो उनके विरह की चिन्ता थी, यदि दोनों को एक साथ ही रहने देती तो कुंवर मनोहर के माता पिता को दुःख होने का भय था, क्योंकि वह उनका एक मात्र पुत्र था। अन्त में सबने यही सोचा कि राजकुंवर को उसके माता पिता के पास पहुँचा दिया जाय। इस प्रकार मनोहर एवं मधुमालति को अप्सराओं के कारण संयोग एवं वियोग दोनों ही भोगना पड़ा।

जागने पर मनोहर अत्यन्त विकल हुआ और माता पिता के समझाने बुझाने पर भी वह मधुमालति की प्राप्ति के लिये यह त्याग करके चल दिया, मनोहर समुद्र के मार्ग से चला, उसके साथ हाथी घोड़े आदि राज्य वैभव था, जो मार्ग में बोहित के लहर में पड़ जाने के कारण नष्ट हो गया, एवं मनोहर अपने मित्रों से बिछुड़ कर अकेला ही एक काठ का सहारा लेकर किनारे पर पहुँचा और एक अग्रगम्य वन में अग्रसर हुआ। उसी वन में उसे एक पलंग पर एक सुन्दरी लेटी हुई दिखाई दी। जागने पर उसने मनोहर से उसका परिचय पाकर अपनी दुःखकथा सुनाई कि वह चित्तविसरामपुर के राजा चित्रसेन की पुत्री, प्रेमा थी। एक बार वह अपनी सखियों के साथ अमराई में खेल रही थी तभी एक राक्षस उसे उठा लाया और तब से वह यहीं जंगल में अकेली रहती थी। उसे उस जंगल में रहते हुये एक साल हो गया था। प्रेमा ने मनोहर से अपनी मधुमालति की मैत्री की चर्चा की और बताया कि वर्ष में एक बार मधुमालति उसके घर आती है। मनोहर ने प्रेमा को वहाँ छोड़ कर आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया और उस राक्षस को मारकर प्रेमा को भी साथ लेकर चित्तविसरामपुर की ओर प्रस्थान किया।

१ गढ अतप बस नगर डो, कलजुग मंह लका सौं गाडी।
पुरव दिमा जाकी वहराई। उत्तर पछिम लकागद खाई,
नगर प्रनप मोहावन और गढ खेम अगम।
परत हाय नहि आये तिन जम पुत्र करम।

प्रेमा के घर पहुँचने में उसके माता पिता हृषित हुए और दूसरे ही दिन दुःख होने के कारण मधुमालति के घर आने का समाचार पाकर मनोहर अत्यन्त प्रसन्न हो उठा। प्रेमा को हटकारा दिलाने के उपकार स्वरूप प्रेमा के माता पिता ने प्रेमा का विवाह मनोहर से करना चाहा किन्तु 'प्रेमा' एवं मनोहर ने अपने भार-वहन के सम्बन्ध को दृढता से निवाहा।

दूसरे दिन जब मधुमालति अपनी माता रूपमञ्जरी के साथ प्रेमा के घर आई तो प्रेमा ने यत्नपूर्वक चित्रकारी में उन्हें मिला दिया। रूपमञ्जरी देर होते देख व्यग्र होकर स्वयं उन्हें देखने गई तो उसने मनोहर तथा मधुमालति को एक साथ पाकर प्रेमा को बहुत भला बुरा कहा और दोनों को वियुक्त कर दिया। मधुमालति मनोहर के प्रेम में शुली जा रही थी, उसे इस प्रकार प्रेमपीड़ा में व्यथित देखकर उसकी माँ ने उसे समझाना चाहा किन्तु उसने न मानने पर रूपमञ्जरी ने उसे चिड़िया हो जाने का शाप दे दिया। मधुमालति चिड़िया होकर मनोहर की खोज में उड़ चली। इधर मनोहर भी अत्याग कर भटक रहा था।

एक दिन मधुमालति जब उड़ी जा रही थी तो पिपनेर मानगढ के राजकुंवर ताराचन्द के रूप का मनोहर से साम्य देखकर वह उसकी छत पर बैठकर उसे निहारने लगी। ताराचन्द ने उसे पकड़ लिया और नित्य अपने साथ रखने लगा। प्रसंगवश मधुमालति ने अपनी चारी प्रेमकथा बताई; ताराचन्द अत्यन्त मर्माह्न होकर मधुमालति का पिंजरा लेकर उसकी माँ के पास मजारख नगर पहुँचा। उसकी माता ने प्रसन्न होकर मधुमालति को फिर से राजकुमारी कर दिया और प्रेमा के पान मधुमालति के पुनरागमन तथा मनोहर से विवाह का संदेश भेजा। अत्रस्तान् मनोहर भी उन्नी समय वहाँ प्रा पहुँचा, समाचार पाकर मधुमालति के माता-पिता उसे लेकर चल दिये। इसी प्रकार मधुमालति और मनोहर का पाणिग्रहण हो गया।

एक दिन ताराचन्द और मनोहर जब जिकार करके लौट रहे थे तब ताराचन्द की दृष्टि प्रेमा पर पड़ी जो मधुमालति के साथ भूला भूल रही थी। ताराचन्द उसके प्रेम में व्याकुल हो गया। मधुमालति ने प्रेमा के पिता से कहकर दोनों का विवाह करा दिया। दोनों मित्र अपनी पत्नियों सहित आनन्द भग्न रहने लगे। कुछ समय पश्चात् मनोहर एवं मधुमालति तथा ताराचन्द और प्रेमा अपने घर लौटकर राजकीयभोग करने लगे। इस प्रकार जया का अन्त सुख एवं सन्तुष्टि में होता है।

कथा-संगठन :

'कथा मधुमालति' के पूर्व भाग दूरी प्रेमाकथानों में 'मंगल (मृगायनी)' एवं 'परनायक' का नाम आता है। इन कथानों के कथानक में 'मधुमालति' के कथानक में अन्तर है। प्रसन्न कथा के साथ साथ अपने एक ही अन्तररथा का संयुग्मन है। इस प्रकार उभयकथा और

उपनायिका की योजना करके कथा को विस्तृत करने के साथ ही प्रेमा और ताराचन्द के चरित्र के द्वारा सच्ची सहानुभूति, निस्वार्थ प्रेम, एवं संयम का आदर्श भी उपस्थित किया गया है। भाई बहिन के इस आदर्श प्रेम को सम्मुख रख कर कवि ने भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल पक्ष का उद्घाटन किया है जो उसकी सहृदयता का परिचायक है।

आश्चर्यतत्व की योजना इन सभी कथाओं में होती रही है। 'मधुमालती' में भी अप्स-राओंका महत्वपूर्ण भाग है। इसके अतिरिक्त मधुमालती की मा का उसे मन्त्र फूककर पक्षी बना देना तथा पुनः पूर्वरूप प्राप्त होना ऐसी ही घटनायें हैं जो कथा को गति देने के साथ ही साथ उसे आकर्षक भी बनाती हैं।

कवि मम्मन ने अपने नायक एवं नायिका के प्रथमदर्शन में ही उद्भूत प्रेम की अस्वाभाविकता को समझा था। उन्होंने नायक एवं नायिका को प्रथम तो साक्षात् दर्शन कराया और फिर प्रेम की शाश्वतता का परिचय देते हुये उन्होंने उसे स्वाभाविक बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार कथा का आरम्भ अत्यन्त आकर्षक एवं स्वाभाविक ढंग से हुआ है। एक राजकुंअर का एक राजकुमारी से परिचय और वह भी परियों के द्वारा उड़ाये जाने पर एक ऐसी घटना है कि जितना आश्चर्य एवं हर्ष राजकुमार को जागने पर राजकुमारी को देखने पर होता है उतना ही आकर्षण एवं कुतूहल पाठक को आरम्भ से ही हो जाता है। इसके बाद कथा की गति स्वाभाविक है। मिलन के बाद विछोह, नायक का प्रयास, उसकी कठिनाइयाँ, उसके सहायक, दर्शन, पुनः विछोह, प्रेम की तीव्रता एवं शाश्वत मिलन इसी क्रम से कथा आगे बढ़ती रहती है। कई स्थलों पर पाठक का कुतूहल अत्यन्त-वृद्धि पाता है, जैसे जंगल में प्रेमा को पाने पर पाठक को मनोहर एवं प्रेमा के सम्बन्ध को लेकर जिज्ञासा होती है, क्योंकि कवि प्रेमा के रूप सौंदर्य का वर्णन मधुमालती से कम नहीं करता है। दूसरी बार जब रूपमंजरी मधुमालती को पक्षी बनाकर उड़ा देती है तब पाठक की मनःस्थिति डावाडोल हो जाती है। वह सूफी प्रेमकथाओं के दुखान्त होने का स्मरण कर व्यथित होता है, किन्तु आशा का सम्बल ले आगे बढ़ना है। 'मधुमालती' का पक्षी होकर मनोहर या प्रिय की खोज में उड़ते फिरना योरोपीय दुखान्त रोमांस, 'प्रिमस' एवं 'थिसवी' का स्मरण कराता है। आशांकी होती है कि कहीं 'प्रासने' और 'फिलमिला' जिस प्रकार 'स्वालो' एवं 'नाइटिगेल' के रूप में अपनी व्यथा सुनाती फिरती हैं उसी प्रकार 'मधुमालती' भी सम्भवतः अपने प्रियतम की खोज में इसी प्रकार घूमती एवं वेदना गायन न करती रहे।

इन सब बातों के अतिरिक्त कथा का अन्त विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। कवि मम्मन अत्यन्त सहृदय हैं तथा 'इस सरव सार जग प्रेम' के अनुसार सार में केवल प्रेम ही सार है, मिद्वान्त को मानते हैं। प्रेम अमृत है अतः जो कोई प्रेम करता है वह अमर हो जाता है। अन्य कवियों ने अपनी कथा में नायक का निधन कराके नारी को सती होने दिया है, किन्तु कोमल हृदय मम्मन ऐसा न कर सके, उन्होंने अपनी कथा को सुखान्त ही

रचना है। अतः कथा का अन्त भी मौलिक एवं नवीनता लिये हुये है^१। कवि ने जान बूझकर कथा को सुखान्न बनाया है, यह उसके कथा-संगठन की मौलिकता है। इस स्थल पर प्रयुक्त भाषा उसकी सहृदयता का परिचय देती है, 'म छोहन्त येइ मार न पारे' में कितनी कोमल एवं स्पृहणीय भावना है।

कथा वर्णनात्मक अधिक है, किन्तु जहाँ कहीं भी प्रेम एवं विरह का वर्णन कवि करता है वहाँ अधिक रहस्यात्मक एवं सतानुभूतिमय हो उठा है, वहाँ उसकी उक्तियाँ भी काव्यात्मक तथा मार्मिक हैं।

यह कथा बहुत लोकप्रिय रही है। उसमान ने अपनी चित्रावली में इसका उल्लेख किया है^२।

जैन कवि बनारसीदास ने संवत् १६६० के आसपास की रचना अपने 'आत्मचरित' में इसका उल्लेख किया है। दक्षिण के शायर नगरती ने दक्खिनी उर्दू में 'गुलशने-इश्क' नाम से मधुमालति एवं मनोहर के प्रेम की चर्चा की है।

प्रेम-पद्धति :

'मधुमालत' की प्रेमपद्धति भी नवीन एवं स्वाभाविक है। इसकी अपनी विशेषता है— गाल्ता दर्शन में प्रेम का उद्भूत होना। कवि ने नायक एवं नायिका दोनों का मिलन रात्रि में कराया है अतः क्लिञ्चित न्यन्तुन्दता के साथ दोनों में वार्तालाप होता है, किन्तु कहीं भी मर्यादा या संयम का उल्लंघन नहीं है। दोनों में प्रेमोदय ही नहीं होता, पुष्ट भी हो जाता है, और वे अत्यन्त भयम पूर्वक सदैव एक दूसरे के प्रेमी बने रहने का निश्चय कर लेते हैं। गहिदानी रूप में वे दोनों एक दूसरे की अंगूठी की धारण करने हैं जबकि मधुमालति के माता-पिता उनका कन्यादान करके उसे मनोहर की पत्नी बनने की आज्ञा नहीं देते। इस प्रकार प्रेमोदय या वृद्धि में कर्ण भी अस्वाभाविकता दृष्टिगोचर नहीं होती।

१. कथा उमान जेगी कवि शार्द, पुरद मारि प्रज सती ररार्त ।
मैं छोहन्त येइ मार न पारे, मरिहाहि मदि जो कलि शीपारे ।

जेहि मैं प्रेम शर्मा मम परसै कान करै का पार ।

उदधि महसदस काल की तरशहि प्रेम शरार ।

प्रेम मरनि जिन शाय उघारा, सो न मरै बाहु का मारा ।

एव वार जो मरि जिष पारै, काल बहुरि तेहि निधरे नाहि शारै ।

मधुमान . मन्मन ।

२. मधुमालति होइ न्य शेषारा, प्रेम मनोहर होइ न्य शारा ।

उदमाना : चित्रावली ।

विद्योह हो जाने पर प्रयत्न नायक मनोहर की ओर से ही होता है। मधुमालति की विरह-व्यथा के प्रदर्शन में कवि ने समय से काम लिया है। अतिवर्णन या वीभत्स चित्र उपस्थित नहीं होते। मधुमालति की व्यथा मूढ सुलग-सुलग कर काली हो रही है, उसमें मुखरता एवं अधिकार याचना की नहीं, समर्पण एवं त्याग प्रधान है। कुञ्जर मनोहर का प्रेम एकान्तिक है, पिता के महत्व को मानता है, लोककर्तव्यों को जानता है फिर भी मधुमालति को श्रेय समझकर उनका स्नेह-त्याग करता है, मधुमालति की उपलब्धि गृहत्याग करता है। उसके प्रेम की दृढता में कहीं भी शिथिलता नहीं आती से ही उसका विशिष्टोन्मुख प्रेम कहीं भी दुग्धि में नहीं पड़ता। वह प्रेमा के सहन के सम्बन्ध को, अत्यन्त संयम से निवाहता है। संयमी एवं शुष्क मनोहर, म को पाकर पुन आकाँक्षाओं से पूर्ण हो सुखोपभोग में रत, शिकार एवं राज्य दत्तचित्त हो जाता है।

मंभन की प्रेमपद्धति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रेम की अखण्डता है जन्मान्तर और योन्यन्तर के बीच की अखण्डता दिखाकर मंभन ने प्रे व्यापकता एवं नित्यता का परिचय दिया है, उसमें रहस्यात्मकता के दर्शन में और साथ ही यह पूर्णतः भारतीय भावना के अनुकूल भी है। मंभन के अनुसार जगत एक ऐसे रहस्यमय सूत्र में बँधा है जिसका अवलम्बन लेकर जीव उ तक पहुँच सकता है, इस सारे जगत में उसी एक की ज्योति छिपी है। उसी पाकर खुदा के बन्दे मग्न हुआ करते हैं। जगत और ब्रह्म की एकात्मकता क इन सूफी कवियों ने सर्वत्र दिया है। कवि मंभन लिखते हैं कि ब्रह्म का रूप ही सम्पूर्ण सृष्टि में व्याप्त है।^१ यह सारा संसार उस एक से मिलने के लिये व्य ईश्वर का विरह ही सूफियों की सम्पत्ति है, वे जीवन देकर भी उसके विरह लेते हैं।^२ आत्मा उत्पन्न होते ही, परमात्मा के विरह में व्याकुल हो जाती

१. देखत हीं पहिचान्यो तोही, एही रूप जिन छन्दरयो मोही।
एही रूप बुत अहो छिपाना, एही रूप अब सृष्टि समाना।
एही रूप सकती और सेवज, एही रूप त्रिभुवन कर जीज।
एही रूप प्रगटे बहु भेसा, एही रूप जग ररु नरेसा ॥

एही रूप त्रिभुवनवर असी, महि पताल अकास।
सोई रूप प्रगट त ह मानहीं, देख्यौ कहा हवास।

एही रूप प्रगट बहु रूपा, एही रूप जेहि भाव अनूपा।
एही रूप सब नैनन्ह जोती, एही रूप सब सागर मोती।
एही रूप सब फूलन्ह वासा, एही रूप रस भवर वरासा।

- २ यह जग जीवन मोह ते लाहा, मैं जिव टे तीर दुख बेसाहा।

या विरह की एक रात्रि पर सुख की सहस्त्रों रात्रियों न्योछावर करने योग्य हैं^१। वासुकि, इन्द्र एवं कुबेर के अतिरिक्त यह सारी प्रकृति भी उसी परमसत्ता के वियोग में विकल है। ऐसे स्थलों पर कवि हेतुप्रेक्षा का आश्रय लेकर भावाभिव्यक्ति करता है। इसी प्रकार कमल का रक्ताभ होना, अनार के दानों का विछिन्न होना, नीवू का पीला पड़ना, खजूर की गुठली में दरार होना, आग का दुखातिरेक से वौराना, महुये का निष्पात होना, टेसू में आग लगना, जामुन का विरह से श्याम वर्ण होना एवं कटहल की छाल का कौटेदार होना सब एक उसी वियोग-दुःख के परिचायक हैं^२। कवि प्रेमी के विरह का वर्णन ऐसी मार्मिक उक्तियों के द्वारा करता है।

विरह ही सुफियों का जीवन है। विरह ही इस सृष्टि का आदि है, साथ ही सृष्टि का अन्त हो जाने पर केवल विरह ही अवशिष्ट रहता है। विरह की कथा का कभी अन्त नहीं हो सकता^३। ऐसे स्थलों पर कवि का 'विरह' से तात्पर्य 'प्रेम' से है।

'मधुमालती' में वर्णित प्रेम कहीं अमर्यादित नहीं है। कवि को लोकाचार, समाज एवं कुल की मर्यादा का पूर्ण ध्यान है। मधुमालती अपनी सखी प्रेमा के कुरेद कर पूछे जाने पर भी उसे अपने प्रेमसम्बन्ध के विषय में कुछ नहीं बतानी। वह चुपचाप अपने समाज एवं कुल की मर्यादा को संभाले, अपनी वेदना सहती रहती है, किन्तु सखी, एवं बाद में माता रूपमंजरी द्वारा उसके रहस्य परिज्ञापन के बाद मधुमालती का चुपचाप

१. मोहि न आज उपज्यो दुख तोरा, तोर दुख आदि सेंवाती मोरा।
मैं यह दुख की रैन बलिहारी, सहस सुख यह दुख पर वारी।

२. सुरज चन्द तराइन वासुक इन्द्र कुबेर।
प्रेमा दुक्ख सम रोई, धरती गगन सुमेर।

प्रेमा नैन रक्त ज्यों रोवा, सोते ताहि रक्त मुख धोवा।
कमल गुलाल भई रतनारे, फूल सर्वाहि तन कापर फारे।
देख अनार हिया भरि आना, नीवू तरु निज डार पेयराणा।
नारंगि कत खूंट भइ राती, खाई खजूर फार गई छाती।

आम भयो दुख बठरा, महुआ भयो विन पात।
उख भई दुख टकटक, सुन पेमां उतपात।

टेसू आभि लागि सिर रहा, कलैं वदन दुख सम्पत कहा।
जामुन भई डार दुख कारी, कटहर पहिर कांट के सारी।

३. कहहूँ पै मोहि कही न जाइहि, विरह कथा का कहत सिराइहि।
उतपत विरह ने सबै कहाहो, अन्त विरह चारिहुं जुग माही।

सातो समुन्द जो हांहि मसि, कागज सात अकास।
जुग जुग लिखत न निबटे, प्रेमां विरह अदाम।

सहन करना असम्भव हो जाता है। किन्तु कहीं भी फारसी मसनवियों की भाँति, वस्त्र फाड़ना, सिर पर धूल डालना एवं हथकड़ियों में बंधक भी अनाप शनाप बकने की स्थिति नहीं देखी जाती। वह अति उन्माद की दशा को प्राप्त नहीं होती।

इसी प्रकार प्रेमा एवं मनोहर की दृढता भी सराहनीय है। एक ओर, जहाँ कवि दाम्पत्य प्रेम में एकनिष्ठता की महत्ता प्रदर्शित करता है, दूसरी ओर वहीं वह सदाचार का आदर्श भी उपस्थित करता है। इसी प्रकार ताराचन्द एव मधुमालति का सम्बन्ध भी सराहनीय है। माता पिता के अनुमोदन के पश्चात् भी, ताराचन्द का मधुमालति एवं मनोहर का प्रेमा से विवाह करने से इन्कार करना उनकी चारित्रिक दृढता का द्योतक है।

मनोहर एव मधुमालति के प्रेम की दृढता का परिचय उनके कष्टसाध्य प्रयासों एवं व्यवधानों के रहते हुये भी, स्थिरता से किया जा सकता है, अन्यथा 'पद्मावत' की भाँति इस कथा में कोई खल प्रतिनायक न होने के कारण नायक या नायिका को अपने शौर्य एवं पातिव्रत प्रदर्शन का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। कवि ने अपनी कथा को सुखान्त बनाया है, अतः सतीत्व के निर्वाण एवं आनन्दमय प्रशान्त वातावरण का भी कथा में अभाव है।

मधुमालति के नवअंकुरित प्रेम, एवं उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि के दर्शन ही मधुमालत में अधिक होते हैं। मधुमालति के प्रेमिका स्वरूप के अतिरिक्त उसके गार्हस्थ्य परिपुष्ट प्रेम के दर्शन नहीं होते। वास्तव में प्रेम की तीव्रता का वर्णन करने के पश्चात्, कवि को नायक एवं नायिका के मिलन का दृश्य उपस्थित करते ही अपने उपनायक एवं नायिका ताराचन्द एवं प्रेमा की चिन्ता हो गई और वह अपनी कथा की गति में मनोहर एवं मधुमालति के लौकिक जीवन एव गार्हस्थ्य जीवन की भाँकी प्रस्तुत नहीं कर सका।

रस :

'मधुमालत' कथा में पूर्णरूप से रसराज शृंगार का राज्य है। अन्य कथाओं की भाँति इसमें युद्धवर्णन, सतीवर्णन एवं वीभत्स चित्रणों का सर्वथा अभाव है, अतः करुण, वीर एवं भयानक रस, जिनका वर्णन सूफी प्रेमाख्यानों में शृंगार के अतिरिक्त मिल जाता है इस प्रेमाख्यान में नहीं प्राप्त होते। इसमें केवल शृंगार के ही दोनों पक्ष, संयोग एवं वियोग का वर्णन है।

विप्रलम्भ शृंगार :

जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, सूफियों की साधना में विरह का बहुत महत्व है, यही कारण है कि सूफी प्रेमाख्यानों में विरह या वियोग का वर्णन प्रचुरता से मिलता है। ऐसे स्थलों पर कवि का हृदय बहुत रमा है। उसकी संपूर्ण सहृदयता ऐसे ही स्थलों पर

बिखरी पड़ी है। कवि मंभन ने भी विरह के ऐसे ही हृदयस्पर्शी दृश्य उपस्थित किये हैं।

मनोहर और मधुमालति को जब अप्सराओं ने पृथक कर दिया, उस समय, तथा प्रेमा के मधुमालति से विरह दुख पूछने के समय, मधुमालति के विरहप्रदर्शन में संयम प्रधान है। सखियों के पूछने पर वह बात बनाकर कहती है :—

कुंअर एक सपने में देखा, सपन रूप सौतुख कर लेखा।
जुम की मृतु खनके दुख देई, विरह मरन तिल तिल जिव लेई।
अब न सकूँ रहि वहि चिन घड़ी, अचक काज यह मोहि सिरपरी।
विरह दगाध श्री कुल की लाजा, परयो अग्र्य मोहि दुहुँ सौँ काजा।

इसी प्रकार प्रेमा से बार बार पूछे जाने पर भी, वह कुल एवं प्रेम दोनों की मर्यादा का ही वर्णन करती है।

एक दिस पीर प्रेम की, एक दिसि कुल की कान।
मोहि दोऊ दिसि दोभर, इत कुल, उत जी हान।

किन्तु कुल और प्रेम की मर्यादा उस समय नष्ट हो जाती है जब उसे ज्ञात होता है कि मनोहर अपने लोक कर्तव्यों एवं मर्यादों को त्यागकर इतने कष्ट सहता हुआ उसकी प्राप्ति के हेतु वहा तक आया है। उसके विछुड़ने से मधुमालति को बहुत व्यथा होती है और वह लज्जा एवं मर्यादा का ध्यान न रखकर अपनी व्यथा प्रदर्शित करती है। उसके बिखरे हुये केश, भादों की काली रात्रि है; उसके वहते हुये नेत्राश्रुओं से संसार को दो वर्षा ऋतुओं का भय होता है :—

मधुमालत जो सोवत जागी, विरह अग्नि नखसिख तन लागी।
नैन मरन धार जनु छूटी, सेन पवरि जनि वीर बहूटी।
जवही दसन दुफरत खोला, दामिन चमक चमक जनि बोला।
विकलित केश नैन अंधियारी, सहज भाव भादों छिटकारी।

रोदनि करत मधुमालति, विरह विधा तन साल।
लोकहि अचज वरखा सदा, अब वरखा दुइ काल।

कनक देह मव मिल गइ माटी, नैन नीर धोयन बुध पाती।
फारयो तार तार तन चोला, रोवत भइ रानी दुइ डोला।

उस प्रकार कवि मंभन ने विरह जन्य रुदन एवं कुशता का वर्णन अधिक किया है। कवि ने कहीं भी शास्त्रीय ढंग से, केवल विप्रलम्भ शृंगार के अंग उपागों की गणना कराने का प्रयास नहीं किया है, किन्तु विरह वर्णन के अन्तर्गत 'वारहमासे' की पद्धति का अनुकरण करना कवि मंभन नहीं भूल सके। वारहमासे में वर्ष के वारह महीनों का वर्णन विप्रलम्भ

शृंगार के उद्दीपन की दृष्टि से है। संयोग की आनन्दप्रद वस्तुयें ही वियोग में दाहक हो जाती हैं। एक ओर तो विशेष माह के प्राकृतिक व्यापारों एवं वस्तुओं का वर्णन इनमें होता है, दूसरी ओर उनसे प्रेमी के दुखों के तीव्रतर होने का भाव वर्णित रहता है। कहीं तो प्रकृति के व्यापारों से साम्य प्रदर्शित किया जाता है, और कहीं विरोध। कहीं प्रकृति का सहानुभूतिमय दृश्य सम्मुख आता है कहीं खीभभरा। वास्तव में प्रकृति के इन नाना रसों की निर्णायक, प्रेमी की दृष्टि ही रहती है। मधुमालति के आसुओं एवं सावन की भङ्गी, तथा वीर बहूटी का साम्य देखिये :—

सावन घटा घोर घहरानी, सुमिरि प्रेम आनौ चख पानी ।

• तथा

आस रक्त ढर परी जो टूटी, सावन भई ते वीर बहूटी ॥

आसुओं की वर्षा की बूंदों से सीधी उपमा न देकर उन्हें रक्त के आसू बनाकर वीर बहूटी से साम्य प्रदर्शन करना फारसी की परम्परा है, जहा विरह में प्रेमी खून के आसू पीते और कलेजे का मास खाते हैं। कवि संभन्न ने यद्यपि फारसी की मसनवियों की भांति विरह वर्णन में वीभत्स चित्रों का अधिक प्रदर्शन नहीं किया है, फिर भी वे आसुओं को रक्त के आसू बनाना नहीं भूले।

वारि, शरद् ऋतु की स्वच्छ चादनी, शीतलता एवं स्वाति अमृत किस प्रकार विरही को दाहक एवं नाशक प्रतीत होते हैं, इसका वर्णन भी कवि ने सुन्दर किया है, जिन प्राकृतिक व्यापारों को देखकर, एवं सुविधाओं को पाकर संयोगी सुखी होते हैं, उन्हीं को देख मुनकर वियोगी को अपना अभाव खटकता है और वह अत्यन्त दुखी हो जाता है।

कातिक सरद सताई जारा, अमी बुन्द वरखै विख धारा ।

मोहि तन विरह अगिन प्रचारा, सरद चाद मोहि सेज अंगारा ।

सरद रैन तेहि सीतल, जेहि पिय कंठ निवास ।

सब कंह परब देवाली, मो कंह सखी बनवास ॥

फागुन में पतभङ्ग हुये वृद्धों को, चैत में फिर नव जीवन दान मिलता है। सभी को दुख के बाद सुख मिल गया किन्तु विरही को केवल विरह से ही काम है। उसका सुख, अगहन के दिन की भांति घटता है, और दुख रात्रि की भांति बढ़ता है।

फागुन हते जो तरु पतिभारी, ते सब भये चैत हरियारी ।

तथा

सुख दिन भाति घटत नन जाई, दुख औ निसि तिल निल अधिकाई ।

इस प्रकार कवि मंभन ने वारहमासे में त्रिरही की दुखानुभूतियों का बड़ी सफाता से चित्रण किया है। एक स्थल पर मधुमालति बड़े ही मर्मपूर्ण शब्दों में कहती है कि मुझे आश्चर्य यह है कि मैं सदा रोती ही रही किन्तु नेत्रों में बसी मनोहर की मूर्ति थुल नहीं गई, नष्ट नहीं हुई, वह अब भी वहीं उसी रूप में स्थित है।

अचज ऐह में सन्नत रोई, पै न गयहु तुम्ह चख सों धोई।

संयोग शृंगार :

सूफो कवियों के संयोग वर्णनों पर अश्लीलता का आरोप लगाया जाता है, किन्तु कवि मंभन इस आरोप से पूर्णतः मुक्त हैं। 'मधुमालत' में संयोग चित्रण तीन स्थलों पर मिलता है। सबसे आरम्भ में जब राजभवन में मनोहर और मधुमालति मिलते हैं। उसके बाद प्रेमा के प्रयास से फुलवारी में उनका संयोग होता है। अन्त में विवाहोपरान्त वे यथाविधि संयोग प्राप्त करते हैं, किन्तु कहीं भी वर्णन में अश्लीलता नहीं है। संयोग की सुखद अनुभूति का ही भावात्मक चित्रण है। आत्मा और परमात्मा की रहस्यात्मक अनुभूति का आभास भी ऐसे स्थलों पर मिलता है।

संयोग वर्णन :

सहज परम मद दोनों माते, प्रेम रंग पूरव के राते।
प्रेम भाव दुहुँ अस अनसरेऊ, पर आपन भय जी नहि धरेऊ।
कवहुँ आलिंगन रस देडे, कवहुँ कटाछ जीव हर लेई।
कहत सुनत रस वचन सुहाई, लोयन अबल नीद भर आई।

रहस्यात्मक संयोगानुभूति वर्णन :

उठि दोऊ गहि अंकम लागे, ओटे जिमि दोउ सोन सोहागे।
प्रेम विठोहे जाहि दिन, दुहुँ मिल पूजी आस।
तोन्ह लोक वधावरा, महि पनाल अकास।

संयोग का भावात्मक वर्णन :

दगध दुहुँ हिय केर जुझनी, मिलत उरहि उर तपत सिरानी।
नैन-नैन स्यों लोभे, मन सों मन अरुमान।
दुह हिये मिल एक भय, भज्यो सो प्रानहि प्रान॥

संयोग शृंगार के अन्तर्गत वाकचातुर्य, हास परिहास एवं पहेली वृत्तने की परम्परा भी कवियों में रूढ रही है किन्तु कवि मंभन ने इसका आश्रय नहीं लिया है, अवश्य विदा के समय कुछ अध्यात्मिक उक्तियाँ कहलवाई गई है, जैसे :

आज सखी तुम गवन सोहागे, काल्हि बहुरि यह दिन हम आगे ।

सूफी कवियों का प्रेम विषमता से समता की ओर अग्रसर होता है, यही समता संयोग में प्राप्त होती है, समता से उत्पन्न आनन्द की अनुभूति अनिर्वचनीय है, वह 'गूंगे केरी सर्कार' है, प्रेमा इसी भाव को कितने सीधे-सादे शब्दों में व्यक्त करती है ।

दुइ जी बीच जो निर्वही, विलस सनेही कन्त ।

सो कैसे नहिं आवै, सखी ये जीभ कहन्त ॥

नखशिख वर्णन .

रूप सौन्दर्य की चर्चा सभी सूफी प्रेमाख्यानों में प्रचुरता से मिलती है। रूप ही प्रेम को उकसाता है, प्रेम और विरह ही जीवन का सार है, अतः रूप वर्णन में नखशिख की परिपाटी का सहारा लगभग इन सभी कवियों ने लिया है। उपमानों की योजना भी काव्य रूढियों के अनुसार ही हुई है।

निरकलंक ससि दुइज लिलारा, नव खन्ड तीन भुवन उज्यारा ।

वदन पसेव वूद चहुँ पासा, कच पेचै जनु चान्द गारासा ॥

मृगमद तिलक ताहि पर धारा, जानहि चान्द राह वस पारा ।

कहीं-कहीं कुछ वर्णन अधिक आकर्षक हो गये हैं जैसे सोते हुये किञ्चित् मुस्कान की समता :

तकि विसनाइ नीद मंह हंसी, जान स्वर्ग से दामिन खसी ।

इसी प्रकार प्रेमा के रूप का वर्णन भी परम्परागत है। उसमें नवीनता नहीं है। नायिका के रूप सौन्दर्य का वर्णन करते समय सूफी कवियों की रहस्य भावना सजग हो जाती है और वे उसके रूप सौन्दर्य में उस परम सौन्दर्यशाली परमात्मा के स्वरूप का आरोप करते हैं, किन्तु कवि मंफन को मधुमालति या प्रेमा दोनों में से किसी के रूप वर्णन में, इस ओर विशेष आग्रह नहीं है।

इसके अतिरिक्त, नगर, जलक्रीड़ा, वन विहार, समुद्रयात्रा, युद्ध-यात्रा, युद्ध, भोज, विवाह आदि के वर्णन सूफी प्रेमाख्यानों में पाये जाते हैं, उनका भी लगभग इस ग्रन्थ में अभाव सा ही है। कवि मंफन चमत्कार प्रदर्शन को सराहनीय नहीं समझते थे। कथा में लगभग सभी स्थलों का समावेश हुआ है किन्तु कवि की दृष्टि इन वर्णनों में आक्रांति नहीं रही है। नगर, गढ़, हाट आदि का केवल संकेत मात्र कवि ने किया है। युद्ध एवं युद्धयात्रा प्रसंग की चर्चा कथा में आती ही नहीं है। मनोहर के राजस से युद्धप्रसंग में अवश्य कवि चाहता तो युद्ध की सज्जा और गति का वर्णन कर सकता था, किन्तु वहाँ भी कवि ने आश्चर्यतत्त्व का आश्रय अधिक लिया है। विवाह वर्णन को भी अधिक विस्तार नहीं प्राप्त हुआ है। पक्षी होकर मधुमालति जो एक वर्ष तक भटकती रही

यी उसी का विवरण देते हुये कवि ने 'वारहमासे' का वर्णन किया है, किन्तु यहाँ भी ऐसा जात होता है कि कवि एक परम्परा का निर्वाह मात्र कर रहा है। दो चार चौपाइयों में एक माह का वर्णन समाप्त कर वह आगे बढ़ता है, नागमता के वारहमासे का जो विस्तार एवं व्यापक प्रभाव है, वह मधुमालति के वारहमासे में दृष्टिगोचर नहीं होता है।

भाषा :

अन्य सूफी प्रेमाख्यानों की भंगति 'मधुमालत' की भाषा भी बोलचाल की अवधी है :

सदा ठाव जी भीतर तोही, मोर दुख नैं का पूँछस मोही ।
 हियें माहिं जेहि केर वसेरा, सो का दुख पूँछस तेहि केरा ।
 छोटे हाथ न पहुँचे पारूँ, तौ मुख ऊपर सौं कच टारूँ ।
 जो कोइ देखि चहै मम रूपा, सुनहु वान एक कहूँ अनूपा ।
 × × × ×

जहाँ न तोर रूप उजियारा, तहं दीअंर आछत अंधियारा ।
 सदा हँई मोहि रहन तुम्हारी, का मोसौं गोपन मुख वारी ।

छन्द :

'मधुमालत' की रचना भी दोहे चौपाड़े के क्रम में हुई है। पांच अर्द्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम निर्वाह किया गया है।

अलङ्कार :

अलंकारों की ओर भी कवि का विशेष आग्रह नहीं है। कवि की लेखनी से कथा-प्रवाह के मध्य जो-अलंकार निःसृत हुये हैं, वे सरल एवं स्वाभाविक हैं। ऐसे अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक, अनन्वय आदि का प्रयोग ही अधिक हुआ है।

उत्प्रेक्षा :

सम्मुख में केलि जिन करहीं, की जनु दुइ खज्जन उबलरहीं ।
 ताकि विमनाइ नीद मँहँ हँसी, जानि स्वर्गसे दामिनि खनी ।

दृष्टान्त :

नरियल जइस प्रीत करूँ वारा, ऊपर कटकट हियें रसारा ।

आज सखी तुम गवन सोहागे, काल्हि बहुरि यह दिन हम आगे ।

सूफ़ी कवियों का प्रेम विषमता से समता की ओर अग्रसर होता है, यही समता संयोग में प्राप्त होती है, समता से उत्पन्न आनन्द की अनुभूति अनिर्वचनीय है, वह 'गूंगे केरी सर्कारा' है, प्रेमा इसी भाव को कितने सीधे-सादे शब्दों में व्यक्त करती है

दुइ जी बीच जो निर्बही, विलस सनेही कन्त ।
सो कैसे नहिं आवै, सखी ये जीभ कहन्त ॥

नखशिख वर्णन .

रूप सौन्दर्य की चर्चा सभी सूफ़ी प्रेमाख्यानों में प्रचुरता से मिलती है। रूप ही प्रेम को उकसाता है, प्रेम और विरह ही जीवन का सार है, अतः रूप वर्णन में नखशिख की परिपाटी का सहारा लगभग इन सभी कवियों ने लिया है। उपमानों की योजना भी काव्य रूढियों के अनुसार ही हुई है।

निरकलंक ससि दुइज लिलारा, नव खन्ड तीन भुवन उज्यारा ।
वदन पसेव वूंद चहुँ पासा, कच पेचै जनु चान्द गरासा ॥
मृगमद तिलक ताहि पर धारा, जानहि चान्द राह वस पारा ।

कहीं-कहीं कुछ वर्णन अधिक आकर्षक हो गये हैं जैसे सोते हुये किञ्चित् मुस्कान की समता .

तकि विसनाइ नींद मंह हंसी, जान स्वर्ग से दामिन खसी ।

इसी प्रकार प्रेमा के रूप का वर्णन भी परम्परागत है। उसमें नवीतता नहीं है। नायिका के रूप सौन्दर्य का वर्णन करते समय सूफ़ी कवियों की रहस्य भावना सजग हो जाती है और वे उसके रूप सौन्दर्य में उस परम सौन्दर्यशाली परमात्मा के स्वरूप का आरोप करते हैं, किन्तु कवि मंभन को मधुमालति या प्रेमा दोनों में से किसी के रूप वर्णन में, इस ओर विशेष आग्रह नहीं है।

इसके अतिरिक्त, नगर, जलक्रीड़ा, वन विहार, समुद्रयात्रा, युद्ध-यात्रा, युद्ध, भोज, विवाह आदि के वर्णन सूफ़ी प्रेमाख्यानों में पाये जाते हैं, उनका भी लगभग इस ग्रन्थ में अभाव सा ही है। कवि मंभन चमत्कार प्रदर्शन को सराहनीय नहीं समझते थे। कथा में लगभग सभी स्थलों का समावेश हुआ है किन्तु कवि की दृष्टि इन वर्णनों में अधिक नहीं रमी है। नगर, गढ़, हाट आदि का केवल संकेत मात्र कवि ने किया है। युद्ध एवं युद्धयात्रा प्रसंग की चर्चा कथा में आती ही नहीं है। मनोहर के राक्षस से युद्धप्रसंग में अवश्य कवि चाहता तो युद्ध की सज्जा और गति का वर्णन कर सकता था, किन्तु वहाँ भी कवि ने आश्चर्यतत्त्व का आश्रय अधिक लिया है। विवाह वर्णन को भी अधिक विस्तार नहीं प्राप्त हुआ है। पत्नी होकर मधुमालति जो एक वर्ष तक भटकती रही

थी उसी का विवरण देते हुये कवि ने 'वारहमासे' का वर्णन किया है, किन्तु यहाँ भी ऐसा ज्ञात होता है कि कवि एक परम्परा का निर्वाह मात्र कर रहा है। दो चार चौपाइयों में एक माह का वर्णन समाप्त कर वह आगे बढ़ता है, नागमती के वारहमासे का जो विस्तार एवं व्यापक प्रभाव है, वह मधुमालति के वारहमासे में दृष्टिगोचर नहीं होता है।

भाषा :

अन्य सूफी प्रेमाख्यानों की भांति 'मधुमालत' की भाषा भी वोलचाल की अवधी है।

सदा ठाव जी भीतर तोही, मोर दुख तैं का पूंछस मोही ।
हियें माहिं जेहि केर वसेरा, सो का दुख पूंछम तेहि केरा ।
छोटे हाथ न पहुँचे पारूँ, तौ मुख ऊपर सों कच टारूँ ।
जो कोइ देखि चहै मम रूपा, सुनहु वान एक कहूँ अनूपा ।

× × × ×

जहाँ न तोर रूप उजियारा, तहं दीअंर आछत अंधियारा ।
सदा हँई मोहि रहन तुम्हारी, का मोसों गोपन मुख वारी ।

छन्द :

'मधुमालत' की रचना भी दोहे चौपाई के क्रम में हुई है। पाच अर्द्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम निर्वाह किया गया है।

अलङ्कार :

अलंकारों की ओर भी कवि का विशेष आग्रह नहीं है। कवि की लेखनी से कथा प्रवाह के मध्य जो अलंकार निःसृत हुये हैं, वे सरल एवं स्वाभाविक हैं। ऐसे अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक, अनन्वय आदि का प्रयोग ही अधिक हुआ है।

उत्प्रेक्षा :

सम्मुख में केलि जिन करहीं, की जनु दुइ खन्नन उइलरहीं ।
ताकि विसनाइ नीद मँ हँसी, जानि स्वर्ग से दामिनि खमी ।

दृष्टान्त :

नरियल जइस प्रीन करूँ वारा, ऊपर कटकट हियें रमारा ।

उपमा :

सुधा समान जीभमुख वाला, औ बोलत अति वचन रसाला ।

रूपकातिशयोक्ति :

सजग भई मृग दुहँ दिमि हेरी, चीन्ह कीहिस सदोरा हेरी ।

गम्योत्प्रेक्षा :

लवँ दुऊ पूर जल भरे, सीप फूट जिन मोती भरे ।

हेतुत्प्रेक्षा :

आम भयो दुख वउरा, महुआ भयो बिन पात ।
ऊख भई दुख टकटक, सुन पेमा उत्पात ।

यमक :

निभ्रम चित्त अकेली, बन महेँ भइ रहस निरसंक ।
हरि नैनी, हरि वैनी, हरि वदनी, हरि लक ।

स्वभाव-चित्रण :

प्रत्येक पात्र के शील विकास का स्वतन्त्र अवकाश इन प्रेमाख्यानों की रूढिबद्ध कथा के कारण नहीं रहता है, अतः सभी कथाओं के पात्र लगभग एक से ही ज्ञात होते हैं किन्तु 'मधुमालत' के पात्र, आदर्श रूप में अधिक हैं । किसी एक ही पात्र में शक्ति शील एवं सौन्दर्य का संग्रहीत आदर्श कवि मग्भन प्रतिष्ठित नहीं कर सके, किन्तु उनका मनोहर प्रेम का आदर्श है । ताराचन्द एवं प्रेमा सच्चे मित्र एवं सहायक के आदर्श हैं । मनोहर एवं प्रेमा, ताराचन्द एवं मधुमालति का निःस्पृह प्रेम-सम्बन्ध भी सर्वथा भारतीय आदर्शों के अनुकूल है । मनोहर को कहीं-कहीं अपने जातीय गौरव का भी ध्यान आता है जैसा कि वह प्रेमा को दैत्य से मुक्त करते समय कहता है कि रविवंशी किसी भी कठिनाई से भयभीत नहीं होते, किन्तु वह किसी भी जाति स्वभाव का प्रतीक नहीं है ।

'मधुमालत' प्रेमाख्यान अपने कथा संगठन एवं प्रेम पद्धति दोनों ही दृष्टियों से नवीन एवं आकर्षक है, साथ ही कवि मग्भन की सहृदयता ने इस ग्रन्थ को रूढिबद्ध प्रेमकथा मात्र होने से बचा लिया है । कवि का भारतीय संस्कृति एवं जीवन से घनिष्ट परिचय ज्ञात होता है, जो सराहनीय है ।

चित्रावली

(कवि उसमान कृत)

निवास स्थान :

कवि 'उसमान' गाजीपुर नगर के निवासी थे। गाजीपुर का वर्णन करते समय कवि ने उसकी भौगोलिक स्थिति, उसके निवासी, तथा वहाँ की सुख शांति का वर्णन किया है। वह लिखता है कि गाजीपुर गंगा और गोमती के संगम पर बसा है। द्वापर में वहाँ देवताओं ने तपस्या की थी। कलियुग में भिन्न जाति वर्ग के व्यक्तियों के बस जाने से यह प्रमरपुरी की भांति सुखसमृद्धि पूर्ण हो गई, जहाँ देवताओं का ध्यान करते समय शानी, युद्ध के समय वीर, तपस्या के समय मौन एवं सभा स्थलों में वाक्पटु, शत्रु के सम्मुख सिंह के समान व्यवहार करने वाले वीर एवं ज्ञानी विद्वान रहते हैं। मुगल, पठान, राजपूत, खंडवाहे ऐसे वीर सुभट, तथा पिंगल और संगीत में पारंगत कलावंत भाट एवं अमीर उमराव सभी निवास करते हैं। ब्राह्मण धार्मिककृत्यों, वेद पठनपाठन एवं होम यज्ञादि में लगे रहते हैं, वैश्य धनवान तथा शूद्र पटु खेतिहर होते हैं। इस प्रकार गाजीपुर का चित्र कवि बड़ा समृद्धपूर्ण प्रस्तुत करता है।¹

१. गाजीपुर उत्तम अस्थाना, देवस्थान आदि जग जाना ।
गंगा मिलि जमुना तंह आई, बीच मिलि गोमती सुहाई ।

×

×

×

वसहि लोग बुध बहु विज्ञानी, सैयद सेख वसै गुरु ज्ञानी ।

ज्ञान ध्यान कहं देवता, सुमर सगै पुन सूर ।

तप मह मौन सभा चातुर, अरि मुख सिंह सदूर ।

पुनि तह लोग वसै सुखवासी, घर घर देखि इन्द्रासन भासी ।

मोगल, पठान, वसहि पंडवाहै, रन अमेत जिन्ह साह सराहै ।

पुनि रजपूत वसहि रन रुरै, और गुनी जन सब गुन पूरै ।

ताजी, तुरकी, चडि चलहि, जानुहु उमरा मीर ।


सब सुखवाय नगर मह, परमन वामी तीर ।

ब्राह्मन मत्र पन्डित श्री ज्ञानी, चारों वेद वात जिन्ह जानी ।

होम जाप अस्नान विकाला, तजहि न एकै तिनहु कहाला ।

माता पिता भाई आदि :

कवि उसमान ने अपने निवास स्थान के बाद अपने पिता एवं भाइयों का परिचय दिया है। इनके चार भाई शेख अजीज, इमानुल्लाह, शेख फैजुल्लाह, शेख हसन नाम के थे। कवि ने अपना परिचय सबसे अन्त में दिया है। ये पाँचों भाई अपनी पृथक विशेषता वाले थे। शेख अजीज विद्वान, शीलवान तथा दानशील थे, इमानुल्लाह योग साधना में रत थे, शेख फैजुल्लाह पीर थे एवं शेख हसन सगीतज्ञ थे। कवि अपना परिचय साहित्यिक के रूप में देता है। उसका कहना है कि इस नश्वर संसार में केवल वचन ही अमर है, वचन उस अमृत के समान है जिसे पीकर कविगण भी अमर हो जाते हैं, अतः उसने विद्यालाभ करके साहित्य रचना की ओर ध्यान दिया।^१



स्थिति एवं रचना काल :

कवि ने 'शाहवक्त' की प्रशंसा के अन्तर्गत जहाँगीर की प्रशंसा की है। उसके राज्य विस्तार तथा न्यायप्रियता की चर्चा भी कवि ने यथेष्ट की है, व्यापारिक सम्बन्ध तथा सुख समृद्धि का वर्णन मिलता भी है। जहाँगीर के दान की प्रशंसा सुनकर सम्भवतः

खत्री बेस सबै पुनि धनी, नैन न फेरहि देखे अनी।

घर घर नगर यधावरा, गलियन सुगध बसाइ।

एक दिस वाजत आवै, एक दिस वाजत जाइ। पृ० ११, १२।

- १ कवि उसमान बसै तेहि गाऊ, शेख हुसैन तनै जग नाऊ।
पाचा भाइ पाचो बुधि हीये, एक इक भाति सो पाचो लीये।
शेख अजीज पढ़ै लिखि जाना, सागर सील ऊच कर दाना।
मानुल्लाह विधि मारग गहा, जोग साध जो मौन होइ रहा।
शेख फैजुल्लाह पीर अपारा, गनै न काहु गहै हथियारा।
शेख हसन गाएन भल आहा, गुन विद्या कहै गुनी सराहा।
शील उदधि पुनि सबै सुजाना, जो कोउ मिला सोई पै जाना।

सुते नाउ उल्साह चित, मिले होइ जिय साति।

पाच भाइ जगु पाच भिय, अपनी अपनी भाति।

आदि हुता विधि माथे लिखा, अच्यर चारि, पढ़ै हम सिखा।

मोह चाउ उठा पुनि हीए, होउ अमर यह अमिरित पोए।

कवि स्वयं भी एक वार उसके दरवार में गया था। जहागीर का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर नूरुद्दीन मुहम्मद था। उसका शासन काल सं. १६६२-१६८४ था, अतः कवि का स्थिति काल भी यही हो सकता है। जहागीर की न्यायप्रियता के हेतु उसके घण्टे की चर्चा ऐतिहासिकों ने की है। कवि उसमान ने भी इस ओर संकेत किया है।

कवि ने सन् १०२२ हि० में कथा का आरम्भ किया था, वह इस जग की काली अज्ञान रात्रि को सरलता से विताने के लिये एक इच्छा-तरु रूपी प्रेम-कथा कहती है। कथा को लिखने में कवि ने अपने हृदय का समस्त रस पुञ्जीभूत करके उड़ेलने का प्रयास किया है। हृदय के लहू का पानी करके कवि ने कथा कही है। कवि अत्यन्त विनीत होकर, अपनी त्रुटियों की क्षमा चाहता है और विद्वत्तवर्ग से प्रार्थना करता है कि वे स्वयं एक दूसरी कहानी लिख लें^२। इस प्रकार निश्चित यह होता है कि कवि ने वचन की अमरता तथा अज्ञान निशा के कालयापन के हेतु ही इस प्रेम-कथा की रचना की है। इसका रचना काल सन् १०२२ ई० है।

१. नूरुद्दीन महीपति भारी, जाकर आन मही मंह सारी।
 आवहि अरबी और इराकी, रस मिसिरी कस्तुरी खता की।
 आवहि चली चीन की चीनी, सहस्रन मांह एक इक बीनी।
 सांत खन्ड विनवई सेवकाई, फिरी चलइ हर थोग दुहाई।
 तपइ साह जस रधि उजियारा, ग्रीषम होइ रहा संसारा।
 भानु सीह वरु चख ठहराई, संमुख साह निहारि न जाई।

पुनि कलि अदल उमसम कीन्हा, धन सो पुरुष जो यह जप लीन्हा।
 पुहुमी परै न पावै काटा, हस्ती चापि सकै नहिं चाटा।

सहस्र खार कंचन के साजे, पाटडोर तेहि वार बिराजे।
 दुखिया बुअत होय सनकारा, उठै कापि सकटक खन्धारा।
 पात साह सुन निकट बुलावै, दरसन पाय दाद पुनि पावै।
 कल्प विरिछ भा यह जग माहीं, कोस सहस्र दस पसररी छांही।
 एकहि बेर एक कह देई, दूसरि बेरि न कोऊ लेई।
 आयो सोई वार सुनि लिए गरीबी साज।
 कहत जो मागु गरीब है, साह गरीब नेवाज ॥

पृ० ६, ७, ८, ९।

२. सन् सहस्रत्र वाइस जव अहै, तव हम वचन चारि एक कहै।

कहत करेज लोहू भा पानी, सोई जान पीर जिन्ह जानी।
 मोरी बुद्धि जहा लहु अही, जह लहु सुम्कि कथा में कही।
 जाकी बुद्धि होइ अधिकाई, आन कथा एक कहै बनाई।

में अज्ञान जग वाल सम, आन न कसू सोहाय।

रुहीं कहानी प्रेम की, जेहि निति जाय विहाय। पृ० १४, १५।

गुरु :

गुरु परम्परा का वर्णन करते समय कवि ने सिद्धदायक शाह निजाम पीर की प्रशंसा की है, इनका निवासस्थान नारनौलि नामक स्थान था। शाह निजामुद्दीन चिशितया ही, कवि के पीर थे। इनकी कृपा या आशीर्वाद, व्यक्ति को जीवनमुक्त बना देता था। कवि उसमान के दीक्षा-गुरु बावा हाजी थे। इनके पास हिन्दू मुसलमान सभी अपनी इच्छा पूर्ति के लिये आते थे। इन्हीं ने एक दिन दया करके कवि उसमान को भी दीक्षा दी थी।

कवि उसमान विनीत स्वभाव के, तथा एक गुणी परिवार के सदस्य थे। इनके निवास स्थान, ग्रन्थ रचनाकाल, स्थिति काल, गुरु पिता एवं भाइयों के नाम के अतिरिक्त, सामाजिक जीवन का और कुछ परिचय ज्ञात नहीं होता।

कथा सारांश :

अन्य सूफी प्रेमाख्यानों की भांति इसका आरम्भ कवि निरन्जन ब्रह्म, मुहम्मद साहब, उनके चार मीत और शाहेवक्त एवं गुरु की प्रशंसा के पश्चात् करता है। नेपाल देश के राजा धरनीधर तथा रानी हीरा के कोई संतान न होने के कारण वे अत्यन्त चिन्तित रहते थे। राजा धरनीधर ने एक दिन बहुत निराश होकर राज-पाट छोड़कर तपस्या करनी चाही, किन्तु उसके मंत्रियों ने उसे घर पर ही शिवाराधना करने को कहा और दान पुण्य की महिमा को समझाकर उसे घर पर ही रोक लिया। उसके दान की प्रशंसा शिवलोक तक पहुँची और पार्वती सहित शंकर ने उसकी दृढता तथा एकनिष्ठता की परीक्षा करनी चाही। शिवपार्वती साधू वेश धारण कर राजा धरनीधर के पास पहुँचे और कहा कि यदि राजा अपना सिर उन्हें दान कर दे तो वे उसे शंकर पर चढाकर श्री आशुतोष को प्रसन्न कर लेंगे। विचार करने के पश्चात् राजा ने सिर दान करना स्वीकार कर लिया, और उन तपस्वी वेश धारी शंकर-पार्वती से कहा कि वे उसे मन्दिर तक ले चले जहाँ वह अपनी रुधिरधार श्री शंकर पर चढा कर शंकर को तपस्वियों के लिये प्रसन्न कर सके।

१ शाह निजाम पीर सिधदाता, टिष्ट तेज जिमि रवि परभाता।
नारनौलि भीतर अस्थाना, उदे अस्त लइ सब कोइ जाना।

गहि भुज कीन्हें पार जे, बिनु साहस बिनु दाम।
करती सकल जहाज के, चस्ती शाह निजाम ॥

बावा हाजी पीर अपारा, सिद्ध देत जेहि लामा न बारा।
हिन्दू तुरक सबै कोइ जाना, निसि दिन जाचहि इच्छादाना।

मोहिं मया के एक दिन, श्रवन लामा गहि माय।
गुर मुख रचन सुनाय के, कलि मह कीन्ह सनाय।

शिव पार्वती उसकी दृढता देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुये और स्वयं अपने अंश को राजा के यहा पुत्र रूप में अवतरित होने का आश्वासन दिया । यथासमय राजा के यहा पुत्र उत्पन्न हुआ, लगन नक्षत्र आदि का ज्योतिष से विचार करने के पश्चात् उसका नाम सुजान रक्खा गया । सुजान अत्यन्त गुणशाली तथा कुशाग्रबुद्धि था, उसने अनतिकाल में ही अनेक विद्यायें सीख लीं ।

कुंवर बहुत अच्छा अश्वारोही था । उसे शिकार का बहुत चाव था । एक दिन मृगया के पश्चात् जब वह दलबल सहित घर लौट रहा था तो मार्ग में आधी के कारण मार्ग भूलकर एकाकी, एक पर्वत पर स्थित किसी देव की मढ़ी में जा सोया । वह देव अपने देश के राजा के एक मात्र पुत्र की रक्षा के हेतु मढ़ी के द्वार पर बैठ गया किन्तु इसी समय उसका एक मित्र आया और उसने रूपनगर की चित्रावली के वर्णगाठ के उत्सव का अत्यन्त आकर्षक वर्णन करके उससे भी देखने चलने को कहा । कुमार की रक्षा का प्रश्न देव को मढ़ी से न जाने को बाध्य कर रहा था । तभी उसके मित्र ने कुंवर को साथ ले चलने की सलाह दी, निदान कुंवर को इन दोनों ने चित्रावली की चित्रसारी में लिटा दिया और स्वयं उत्सव देखने में संलग्न हो गये ।

इधर कुंवर की नींद खुली और अपने को नवीन स्थान पर देखकर वह आश्चर्य चकित हो गया । चित्रावली का चित्र देखकर वह मन्त्रमुग्ध सा हो उसे निहारने लगा । उस रूप-सौन्दर्य ने उसके हृदय में प्रेमोन्मेष कर दिया । चित्रसारी में चित्र-रचना का सामान देखकर उसने अपना भी एक चित्र वहीं, उसके चरणों के पास बना दिया और फिर निद्रा के वशीभूत हो गया ।

उत्सव समाप्त हो जाने पर देव कुंवर को लेकर फिर मढ़ी में आगया । प्रातःकाल जागने पर कुंवर अत्यन्त दुखी हुआ और प्रेम में विह्वल हो ज्ञानगर्व खो बैठा । उसके साथी दूढ़ने के पश्चात् उसे इस अवस्था में देखकर अत्यन्त चिन्तित हुये और उसे नगर में ले आये । सुजान के माता पिता उसकी यह अवस्था देखकर अत्यन्त विकल हो गये; किन्तु कुंवर किसी से कुछ नहीं कहता था । अन्त में उसके गुरुपुत्र सुबुद्धि ने उससे सब हाल जान लिया और परामर्श करने के पश्चात् यह स्थिर किया कि वे फिर उसी मढ़ी पर जाकर रहें । ये दोनों मित्र उसी मढ़ी की नवीन रचना करवा कर रहने लगे तथा दान का प्रभाव श्रमिट मानकर इन्होंने भी अन्नसत्र आरम्भ कर दिया ।

दूसरे दिन रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली, अपनी सखियों के साथ स्नान तथा शृंगार करने के पश्चात्, जब चित्रसारी में पहुँची तो वहा कुंवर का चित्र पाकर उस पर प्रेमासक्त हो गई वह अपना सारा दिन चित्रदर्शन में तथा रात्रि अपने महल धौराहर पर बिताने लगी किन्तु एक नपुंसक ने रानी हीरा से उसकी शिकायत करदी और उसकी मा ने कुंवर के चित्र को धो डाला । चित्र की अनुपस्थिति में चित्रावली की वैचैनी और अधिक बढ गई, उसने उस कुटीचर को दण्ड देने के पश्चात् चार नपुंसकों को कुंवर की खोज में भेजा ।

परैवा नाम का एक दूत योगी का भेष धारण कर उत्तर के देशों में भ्रमण करता हुआ नेपाल जा पहुँचा, वहाँ उसके भोजनपान न करने पर चिंतित होकर जब कुँवर ने उसे अपने पास बुलाया तो वह उसे पहचान कर अत्यन्त हर्षित हुआ। परैवा ने कुँवर को रूपनगर के मनोहर वैभव तथा भव्य सौन्दर्य का विवरण सुनाकर उसे रूपनगर के लिये प्रस्थान करने को आतुर कर दिया। परैवा गुरु के प्रताप तथा 'लुक अंजन' के प्रभाव से कुँवर अदृश्य होकर रूपनगर की ओर चला। मार्ग में मन की वृत्तियों को रमाने वाले कई आकर्षक स्थानों को पारकर हृदय में केवल एक चित्रावली के दर्शन-लाभ की इच्छा लेकर कुँवर रूपनगर तक पहुँचा। परैवा कुँवर से शिवमन्दिर पर ठहरने के लिये कहकर स्वयं चित्रावली को सूचित करने गया।

चित्रावली कुँवर आगमन का समाचार पाकर अत्यन्त हर्षित हुई किन्तु नारी सुलभ लज्जा के कारण उससे मिलने स्वयं वहाँ न जा सकी, परैवा से कहला मेजा कि 'शिवरात्रि के दिन मैं जोगियों को भोजन कराऊँगी, तभी भरोखे से तुम्हें दर्शन भी दूँगी। तब तक दर्पण में तुम उस मूर्ति का प्रतिबिम्ब देखकर अपने ज्ञान तथा चर्म चक्षुओं को दृढ़ कर लो क्योंकि एकाएक कोई चित्रावली के अनन्त सौन्दर्य का दर्शन नहीं कर सकता। इस सन्देश के साथ परैवा ने वह दर्पण कुँवर को दे दिया।

शिवरात्रि के दिन सम्पूर्ण शृङ्गार करके चित्रावली ने कुँवर को दर्शन-लाभ दिया। कुँवर प्रथम छवि को देखकर मूर्च्छित हो गया किन्तु 'उपचार' के पंश्चात् चेत आने पर परैवा ने उसे फिर दर्शन-लाभ पाने की सूचना दी, सुनकर कुँवर अत्यन्त हर्षित हुआ और चित्रावली नित्य इसी प्रकार भरोखे से कुँवर को दर्शन देने लगी।

इसी समय जिस कुटीचर को चित्रावली ने दण्डित करके निकाल दिया था उसके मन में नित्य अन्नसत्र की बात सुनकर सन्देह उत्पन्न हुआ और वह भी योगी का भेष धारण करके वहाँ गया। कुँवर के चित्र को पहले देख चुकने के कारण उसने शीघ्र ही कुँवर को पहचान लिया और उसे वहकाकर अपने साथ ले गया तथा धोखे से उसे अन्धा करके एक निर्जन वन की गुफा में डाल दिया। इस प्रकार योगियों का जमघट हट गया और चित्रावली को विरह का दुख सहना पड़ा। वह अत्यन्त पीड़ा से व्याकुल हो अपना समय विताने लगी।

इधर जंगल में कुँवर अकेला भटक रहा था और ईश्वर का स्मरण कर रहा था। तभी एक अजगर उसे निगल गया किन्तु उसकी विरहाग्नि की ज्वाला से घबड़ाकर उसने कुँवर को उगल दिया। एक वनमानुष इस घटना को देख रहा था, उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कुँवर से सारी कथा जान ली। सारा हाल जानकर उसने कुँवर को एक अजन दिया जिसे लगाने से उसकी नेत्रज्योति पुनः पूर्ववत् हो गई। इसी समय उसे एक मत्त हाथी ने पकड़ लिया। उसका जीवन समाप्त होने ही वाला था कि एक पक्षिराज हाथी को ले उड़ा। हाथी ने घबड़ाकर कुँवर को छोड़ दिया और वह एक समुद्रतट पर जा गिरा। वहीं एक फुलवारी में वह विश्राम कर रहा था तभी सागरगढ की राजकुमारी कौलावती उसे देखकर रूपासक्त हो गई।

कुँवर चित्रावली के वियोग में एक क्षण कहीं रुकना नहीं चाहता था, किन्तु कौलावती ने उसे रोकने का अन्य उपाय न पाकर योगियों को भोजन खिलाने के बहाने उसके भोजन में हार छिपाकर उसे चोरी के दण्ड में बन्दी बना लिया। कुँवर सुजान कैद में ही था और किसी भी प्रकार से कौलावती के अनुकूल नहीं हो रहा था कि कौलावती के रूप-सौन्दर्य को सुनकर सोहिलनरेश ने सागरगढ पर आक्रमण कर दिया। चार महीने गढ के घिरे रहने के कारण राजा सागर को जीतने की आशा नहीं रह गई, तभी कुँवर सुजान को कौलावती पर दया आई; उसने संग्राम में अपने पराक्रम से सोहिल नरेश को मृत्यु के घाट उतार कर सागरगढ की रक्षा की। सागर नरेश ने सुजान के साथ कौलावती का विवाह कर दिया, किन्तु साथ ही कुँवर ने कौलावती से यावत् चित्रावली मिलन तक प्रतीक्षा करने की प्रतिज्ञा करवा ली थी।

इधर चित्रावली वियोग से पीड़ित थी। उसने कुँवर को ढूँढने के लिये फिर परेवा को भेजा, वह सारे देशों में खोजता हुआ गिरनार पर्वत पर पहुँचा। वहीं उस समय कुँवर और कौलावती भी शंकर पूजन के हेतु गये थे। योगी ने कुँवर को पहचान कर, उसे फिर रूपनगर के लिये प्रस्थान करने को प्रेरित किया। कुँवर कौलावती से फिर मिलने की प्रतिज्ञा करके रूपनगर की ओर चल दिया।

इसी अवसर पर राजा रूपनगर को एक कथक ने सागर राजा और सोहिलनरेश के युद्ध तथा कुँवर सुजान के पराक्रम की कथा सुनाई जिसे सुन राजा को कन्या के विवाह की चिन्ता उत्पन्न हुई और उसने चार चित्रकार राजकुमारों के चित्र लाने के लिये भेजे। इसी बीच रानी को चित्रावली की उदासी देखकर चिन्ता हुई और एक चेरी के द्वारा उसे परेवा के द्वारा सन्देश भेजने का समाचार ज्ञात हो गया।

परेवा जब कुँवर को सीमा पर बैठकर चित्रावली को सुसम्बाद देने आ रहा था तभी वह परेवा, रानी हीरा के दूतों द्वारा पकड़ लिया गया। परेवा के सन्देश लेकर न आने पर कुँवर विरह से अत्यधिक संतप्त होकर पागलों की तरह चित्रावली का नाम ले-लेकर इधर-उधर दौड़ने लगा। राजा ने अपयश के भय से उसे उन्मत्त हाथी के द्वारा मरवाना चाहा किन्तु कुँवर सुजान ने उस हाथी को भी पछाड़ डाला। उसकी वीरता देखकर चित्रावली के पिता को भय उत्पन्न हुआ और उसने चारों ओर से घेर कर उसे पकड़ लिया।

इसी अवसर पर सागरगढ से आये हुये चित्रकार ने कुँवर सुजान का चित्र उपस्थित किया जो इस योगी से पूर्णरूपेण मिला था तथा रानी हीरा ने परेवा को बन्दीरह से मुक्त कराकर सब हाल पूछा तो ज्ञात हुआ कि यही कुँवर सुजान है। राजा को यह जानकर हर्ष हुआ और उसने चित्रावली का विवाह सहर्ष सम्पन्न किया। चित्रावली ने, कौलावती के सन्देश से कुँवर को बखित रक्खा और रंगनाथ पांडे तथा चित्रावली दोनों कुँवर को रस-चर्चा में मग्न रखने लगे।

कौलावती ने हंसमित्र को अपना दूत बनाकर विरह-व्यथा सुनाने रूपनगर भेजा। वहाँ उगने भ्रमर पर आक्षेप करके कुँवर को कौलावती का स्मरण करवाया।

कुंवर ने अपने माता-पिता और कंवलावती का स्मरण करके रूपनगर के राजा से विदा मागी। चित्रावली की विदा का वर्णन बड़ा मार्मिक है। वहाँ से विदा कराके कुंवर मार्ग में कंवलावती को लेता हुआ अपने घर की ओर चला। समुद्र में तूफान आया किन्तु सकट पार करके वे जगन्नाथपुरी पहुँचे। वहाँ कुंवर की भेंट पुरोहित केशी पाँडे से हुई जिन्होंने उसे पाँच अमूल्य नग भी दिये। वहाँ से सब प्रकार से सुसज्जित हो, कुंवर अपने देश आया जहाँ उसके माता पिता पुत्र विधोग में अन्धे हो गये थे। पुनः पुत्र को प्राप्त कर उनके के नेत्र खुल गये और राजा ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके स्वयं शिवाराधना में ध्यान लगाया।

कवि उसमान कथा को दुःखान्त नहीं बनाना चाहता था। उसने अपनी कथा का अन्त इसी कारण राज्याभिषेक के बाद ही कर दिया है।

कथा-संगठन :

अन्य सभी सूफ़ी कवियों की भाँति कवि उसमान ने भी अपने सम्बन्ध में कुछ शातव्य बातों का परिचय चित्रावली के आरम्भ में दिया है। सर्वप्रथम निर्गुण निरन्जन परमात्मा की प्रशंसा, तथा महत्व का वर्णन एक चित्रकार के रूप में किया है। उसके कर्ता एवं दाता स्वरूप की स्तुति भी कवि ने की है। इसके बाद कवि ने मुहम्मद साहब के अवतार एवं महत्व का वर्णन किया है। परमात्मा ने पहले अपने ही अंश से 'नूरुल मुहम्मदिया' उत्पन्न किया। इबलीस द्वारा आदम के विरोध की चर्चा भी कवि करता है। मुहम्मद साहब की परछाहीं नहीं थी तथा उन्होंने चाँद के दो टुकड़े किये थे। उनको जब किसी ने विष दिया तो विष का ग्रास हाथ में बोल उठा था। ये सभी चमत्कार मुहम्मद साहब के महत्व की स्थापना करते हैं।^१

इसके अतिरिक्त कवि ने मुहम्मद साहब के चार मित्रों की स्तुति की है। इन चारों का क्रम लगभग सभी ग्रन्थों में 'अबूवरक, उमर, उसमान एवं हजरत अली' इसी रूप में रहता है। अली की प्रशंसा शूरवीर के रूप में हुई है।^२ इसके पश्चात् कवि ने

१. आपन अस कीन्ह दुह ठाऊं, एक क धरा मुहम्मद नाऊं ।
जो परान ससारक माहीं, कस न भई तेहि सग परछाहीं ।
संया करन चाद् मनियारा भा विखण्ड जानै संसारा ।
जो कपटी भोजन विषविसा, बोलि उठा कर माह गिरासा ।

करनी खोटी मोर सब, का कहि बिनवाँ तोहिं ।

अपनी उम्मति जानि कै, लै निरवाहव मोहिं ।

२. पहले अव्वर सतयादी, सन्त जान जो भो अनवादी ।
दूने उमर न्याउ प्रतिपारा, जे विष करन सुतहि सघारा ।
तीने उसमा पडित ज्ञानी, जे करि ज्ञान लया विधि वानी ।
चाये अली मिह रन सूरा, दान खड़ा जे तिहु जग पूरा । पृ. ६ ।

शाहेवक्त (जहाँगीर) एवं अपने पीर शाह निजाम तथा वावाहाजी की प्रशंसा की है। आत्मपरिचयात्मक रूप में गाजीपुर तथा अपने पिता एवं भाइयों का परिचय भी कवि देता है।

कवि ने कथा के आरम्भ में प्रस्तावना लिखते समय रूप, प्रेम और विरह तत्वों की चर्चा की है, अन्य कथाओं में परम्परा निर्वाह के बाद कवि सीधे से कथा के पात्रों का परिचय दे कथा आरम्भ कर देता है, किन्तु यह इस दृष्टि से नवीन है।

इस संसार में रूप और प्रेम का साथ है। जहाँ रूप है वहीं प्रेम है। रूप प्रेम के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है, उसी की स्वाभाविक प्रक्रिया विरह है। इस प्रकार रूप, प्रेम, विरह इन तीनों का चिरन्तन साथ है। इन्हे सृष्टि के मूल स्तम्भ मानकर कवि अपनी कथा आरम्भ करता है। कथारम्भ में वर्णनात्मक है किन्तु फिर भी रूप, प्रेम और विरह की चर्चा से सरसता आ गई है। कथा-रचना के हेतु का वर्णन करते हुये भी कवि ने कथा में रुचि उत्पन्न करने का प्रयास किया है। इस कलिकाल की अज्ञाननिशा में वही पुरुष धन्य हैं, जो जागते हैं राजा राजसुखोपभोग करते हुये जागता है। सेवक सेवा करता है, चोर चोरी करता है। विरही व्यथा पीड़ित रहता है। जुआरी जुआ खेलता है। सिद्ध ध्यान लगाते हैं। दुखी दुखानुभव करते हैं। पंडित अध्ययन अनुशीलन करते हैं और अवोध बालक कहानी सुनकर रात्रि विताना चाहता है। कवि अपने को ऐसे ही अज्ञान बालक की भाँति बताता है जो प्रेमकथा कहकर अज्ञान अंधकार का निवारण चाहता है^१।

इसके अनन्तर कवि अपनी कथा आरम्भ करता है। मंभन के विपरीत कवि उसमान को, घटनाओं का विस्तृत वर्णन करना ही अधिक प्रिय लगा। कवि ने राजा धरनीधर का पुत्राभाव, दान, शम्भू परीक्षा, पुत्रोत्पत्ति, उसकी शिक्षा, चित्रदर्शन, विरह, परेवा की खोज, राजकुमार सुजान का स्वदेश प्रस्थान, मार्ग की कठिनाइया अन्त में प्रिय प्राप्ति आदि सभी परम्परायुक्त घटनाओं का वर्णन किया है किन्तु कुछ घटनाओं और आश्चर्य तत्वों की संयोजना अवश्य नवीन रूप में हुई है। कुछ यौगिक क्रियाओं का समावेश हुआ है, जैसे लुकअज्ञान लगाने से लोगों की दृष्टि में अदृष्ट होना आदि।

१. रूप प्रेम विरहा जगत, मूल सृष्टि के यम्भ।
हाँ तीनहु के भेद कहू, कथा करों आरम्भ ॥

जागें राठ राजसुख करहँ, सेवक जगि सेवा छित धरहँ।
जागें चोर जो परधन चहा, विरही जगि विरहानल दहा।
जागें जवाही खेलत जुआ, काहु एक काहु मन दृआ।
जागहि सिद्ध ध्यानधरि हीण, जागहि दुखी दुख मन होण।
जागें पंडित पदत हरिवानी, जागहि बालक कहँ कहानी।

मैं अज्ञान जग बाल सम, ध्यान न कहु सोहाय।

कहाँ कहानी प्रेम की, जेहि निसि जाय विहाय। पृ० ५४।

कुंवर ने अपने माता-पिता और कंवलावती का स्मरण करके रूपनगर के राजा से विदा मागी। चित्रावली की विदा का वर्णन बड़ा मार्मिक है। वहाँ से विदा कराके कुंवर मार्ग में कंवलावती को लेता हुआ अपने घर की ओर चला। समुद्र में तूफान आया किन्तु संकट पार करके वे जगन्नाथपुरी पहुँचे। वहाँ कुंवर की भेंट पुरोहित केशी पाँडे से हुई जिन्होंने उसे पाँच अमूल्य नग भी दिये। वहाँ से सब प्रकार से सुसज्जित हो, कुंवर अपने देश आया जहाँ उसके माता पिता पुत्र वियोग में अन्धे हो गये थे। पुनः पुत्र को प्राप्त कर उनके के नेत्र खुल गये और राजा ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके स्वयं शिवाराधना में ध्यान लगाया।

कवि उसमान कथा को दुःखान्त नहीं बनाना चाहता था। उसने अपनी कथा का अन्त इसी कारण राज्याभिषेक के बाद ही कर दिया है।

कथा-संगठन :

अन्य सभी सूफ़ी कवियों की भांति कवि उसमान ने भी अपने सम्बन्ध में कुछ शातव्य बातों का परिचय चित्रावली के आरम्भ में दिया है। सर्वप्रथम निर्गुण निरन्जन परमात्मा की प्रशंसा, तथा महत्व का वर्णन एक चित्रकार के रूप में किया है। उसके कर्ता एवं दाता स्वरूप की स्तुति भी कवि ने की है। इसके बाद कवि ने मुहम्मद साहब के अवतार एवं महत्व का वर्णन किया है। परमात्मा ने पहले अपने ही श्रंश से 'नूरुल मुहम्मदिया' उत्पन्न किया। इबलीस द्वारा आदम के विरोध की चर्चा भी कवि करता है। मुहम्मद साहब की परछाहीं नहीं थी तथा उन्होंने चाँद के दो टुकड़े किये थे। उनको जब किसी ने विष दिया तो विष का ग्रास हाथ में बोल उठा था। ये सभी चमत्कार मुहम्मद साहब के महत्व की स्थापना करते हैं।^१

इसके अतिरिक्त कवि ने मुहम्मद साहब के चार मित्रों की स्तुति की है। इन चारों का क्रम लगभग सभी ग्रन्थों में 'अबूवकर, उमर, उसमान एवं हजरत अली' इसी रूप में रहता है। अली की प्रशंसा शूवीर के रूप में हुई है।^२ इसके पश्चात् कवि ने

१. आपन श्रंस कीन्ह दुइ ठाऊं, एक क धरा मुहम्मद नाऊ ।
जो परान ससारक माहीं, कस न भई तेहि सग परछाहीं ।
संग्या करन चाद मनियारा भा विखण्ड जानै ससारा ।
जो कपटी भोजन विषविषा, वोलि उठा कर माह गिरासा ।
करनी खोटी मोर सब, का कहि दिनवों तोहि ।
अपनी उम्मत जानि कै, लै निरवाहव मोहि ।

२. पहले अबूवकर मतवादी, सन्त जान जो भो अनवादी ।
दूने उमर न्याउ प्रतिपारा, जे विश्व कारन सुतहि संधारा ।
तीने उसमा पडित ज्ञानी, जे करि ज्ञान लखा विधि वानी ।
चाँधे अली मिह रन सूरा, दान खडग जे तिहु जग पूरा । पृ० ६ ।

शाहेबकत (जहाँगीर) एवं अपने पीर शाह निजाम तथा वावाहाजी की प्रशंसा की है। आत्मपरिचयात्मक रूप में गाजीपुर तथा अपने पिता एवं भाइयों का परिचय भी कवि देता है।

कवि ने कथा के आरम्भ में प्रस्तावना लिखते समय रूप, प्रेम और विरह तत्वों की चर्चा की है, अन्य कथाओं में परम्परा निर्वाह के बाद कवि सीधे से कथा के पात्रों का परिचय दे कथा आरम्भ कर देता है, किन्तु यह इस दृष्टि से नवीन है।

इस संसार में रूप और प्रेम का साथ है। जहाँ रूप है वहीं प्रेम है। रूप प्रेम के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है, उसी की स्वाभाविक प्रक्रिया विरह है। इस प्रकार रूप, प्रेम, विरह इन तीनों का चिरन्तन साथ है। इन्हें सृष्टि के मूल स्तम्भ मानकर कवि अपनी कथा आरम्भ करता है। कथारम्भ में वर्णनात्मक है किन्तु फिर भी रूप, प्रेम और विरह की चर्चा से सरसता आ गई है। कथा-रचना के हेतु का वर्णन करते हुये भी कवि ने कथा में रुचि उत्पन्न करने का प्रयास किया है। इस कलिकाल की अज्ञाननिशा में वही पुरुष धन्य हैं, जो जागते हैं राजा राजसुखोपभोग करते हुये जागता है। सेवक सेवा करता है, चोर चोरी करता है। विरही व्यथा पीड़ित रहता है। जुआरी जुआ खेलता है। सिद्ध ध्यान लगाते हैं। दुखी दुखानुभव करते हैं। पंडित अध्ययन अनुशीलन करते हैं और श्रवण बालक कहानी सुनकर रात्रि विताना चाहता है। कवि अपने को ऐसे ही अज्ञान बालक की भाँति बताता है जो प्रेमकथा कहकर अज्ञान श्रंशकार का निवारण चाहता है^१।

इसके अनन्तर कवि अपनी कथा आरम्भ करता है। मंभन के विपरीत कवि उसमान को, घटनाओं का विस्तृत वर्णन करना ही अधिक प्रिय लगा। कवि ने राजा धरनीधर का पुत्राभाव, दान, शम्भू परीक्षा, पुत्रोत्पत्ति, उसकी शिक्षा, चित्रदर्शन, विरह, परेवा की खोज, राजकुमार सुजान का स्वदेश प्रस्थान, मार्ग की कठिनाइयाँ अन्त में प्रिय प्राप्ति आदि सभी परम्परायुक्त घटनाओं का वर्णन किया है किन्तु कुछ घटनाओं और आश्चर्य तत्वों की संयोजना अवश्य नवीन रूप में हुई है। कुछ यौगिक क्रियाओं का समावेश हुआ है, जैसे लुकअज़न लगाने से लोगों की दृष्टि से अदृष्ट होना आदि।

१. रूप प्रेम विरहा जगत, मूल सृष्टि के शम्भ ।
हाँ तीनहु के भेद कहु, तथा करौँ आरम्भ ॥

जागै राठ राजसुख करई, सेवक जगि सेवा चित धरई ।
जागै चोर जो परधन चहा, विरही जगि विरहानल दहा ।
जागै ज्वारी खेलत जुआ, काहु एक काहु मन दृआ ।
जागहि सिद्ध ध्यानधरि हीण, जागहि दुख दुख मन होण ।
जागै पंडित पदत हरिवानी, जागहि बालक कहँ कहानी ।

मैं अज्ञान जग बाल सम, अज्ञान न कहूँ मोहाय ।

कहाँ कहानी प्रेम की, जेहि निसि जाय विहाय । पृ० १४ ।

आश्चर्य तत्वों की योजना में कवि ने केवल एक देव की ही ऐसी योजना की है जो अपने रूप से ही आश्चर्यजनक है, साथ ही उसके कृत्य भी ऐसे हैं कि राजकुमार सुजान को लेकर चित्रसेन के राज्य रूपनगर उड़ जाना और फिर दूसरे ही दिन सबेरे उसे लाकर मढी में लिटा देना आदि । दूसरे प्रकार के आश्चर्य तत्वों में वे हैं जो अपने नाम या रूप से आश्चर्यजनक नहीं है किन्तु जिनके कार्य अवश्य आश्चर्यजनक हैं, जैसे अजगर का राजकुंवर सुजान को विरह ज्वल्ला के कारण उगल देना, हाथी का राजकुंवर को सँड में लपेटना, एक पक्षी का सुजान और हाथी दोनों को लेकर आकाशमार्ग से उड़ना आदि । ये ऐसे कार्य हैं जो कथा को परियों की कहानी का स्वरूप प्रदान करते हैं ।

मसनवी-रचना की एक और पद्धति पाई जाती है कि नायक का परिचय प्रत्येक कठिन स्थल पर एक सुन्दरी से होता है और वह अपने लक्ष्य परमसौन्दर्य के प्रतीक प्रिय तक पहुँचने के पूर्व उन सभी से विवाह कर लेता है । मलिक मंभन ने भी अपने नायक का परिचय एक सुन्दरी से करवाया, किन्तु नायक मनोहर और रेमा के भाई-बहन के सम्बन्ध की स्थापना, उनकी मौलिकता एवं भारतीय परम्परा से परिचय को स्पष्ट करती है । कवि उसमान ने सुजान से कौलावती का परिचय कराके कई उद्देश्यों की पूर्ति की है । एक ओर तो उसने सुजान की कौलावती के प्रति उपेक्षा तथा गौ, नारी एवं ब्राह्मण की रक्षा के हेतु क्षत्रिय धर्म पालन दिखाकर नायक के चरित्र का उत्कर्ष दिखाया है । दूसरी ओर नायक के अविवाहित होने के कारण उसके गृहत्याग से नायक की दृढता का परिचय नहीं होता था, किन्तु सुजान ने कौलावती से विवाह करके भी चित्रावली की प्राप्ति के पूर्व संयोगसुख लाभ नहीं किया, यह उसके लक्ष्य की एकात्मकता है । अतः कौलावती से नायक का प्राणिग्रहण केवल परम्पराभुक्त नहीं है ।

कवि नूरमुहम्मद की भाँति उसमान ने अपने कथा के पात्रों का नाम संकेतात्मक नहीं रखा है किन्तु कुछ नाम अवश्य ऐसे हैं जो प्रतीक रूप में आते हैं । गुरुपुत्र 'सुबुद्धि' का नाम ऐसा ही है जो विवेक का परिचायक है । सुजान के, चित्रावली की खोज में प्रस्थान करने पर सुबुद्धि, राजा धरनीधर को दान धर्म करने की सम्मति देता है जिससे सुजान का साधना-मार्ग सरल हो जाय । रूपनगर के बीच पड़ने वाले नगरों के नाम भी प्रतीक रूप में आये हैं : भोगपुर, इन्द्रियपुर, गोरखपुर, नेहनगर और फिर रूपनगर आदि शारीरिक विषय-वासना, उनके दमन, आनन्द वृत्ति और रमणवृत्ति के परिचायक हैं । कथा का संगठन एवं घटनाओं का क्रम लगभग एक सा ही है । इन सभी कथाओं का विभाजन स्थूल रूप से तीन भागों में हो सकता है, प्रेमारम्भ, प्रयास एवं प्रिय-प्राप्ति ।

चित्रावली का अन्त अवश्य ध्यान देने योग्य है । जिस प्रकार कवि मंभन ने अपनी 'मधुमालत' को जानबूझ कर सुखान्त बनाया है, उसी प्रकार कवि उसमान ने भी । कवि उसमान का विश्वास है कि प्रेमी गण, जो एक-दूसरे के ऊपर मर-मर कर ही जीते हैं, इस संसार में अमर हैं । अन्य कवियों की भाँति वह अपने उन नायक

नायिका को दुखी नहीं देख सकता जो जीवन भर दुःख भोगते रहे हैं, और दीर्घ दुःख के पश्चात् ही जिन्हें सुख प्राप्त हुआ है^१ ।

कथानक पूर्णतः काल्पनिक है इसका कोई ऐतिहासिक या पौराणिक आधार नहीं है ।

राजा धरनीधर की परीक्षा के पश्चात् शिव का आशीर्वाद, तथा उसके यहा स्वयंश के पुत्र रूप में अवतरित होने का वरदान मनु और शतरूपा को दिये गये विष्णु के वरदान का स्मरण कराता है । कंवलावती के राज्य का यह नियम, कि चोर को वह व्यक्ति, जिसकी वस्तु चोरी गई है, बन्दी रख सकता है, साथ ही उसकी इच्छा चोर के दण्ड निर्धारण में महत्वपूर्ण सहयोग देती है, कुरान में वर्णित यूसुफ जुलेखा के आख्यान का स्मरण कराता है । यूसुफ ने अपने भाइयों के सामान में अपना कटोरा रखवाकर अपने छोटे भाई को अपने पास बन्दी रूप में रक्खा था, उसी प्रकार कंवलावती ने जोगी के भोजन में अपना हार छिपाकर उसे अपने पास बन्दी बनाकर रक्खा, दोनों ही कृत्यों में प्रेरक, द्वेष की भावना न होकर प्रेम है ।

हंसमित्र के द्वारा कंवलावती का संदेश भेजना, तथा उसका भ्रमर पर आक्षेप करके कुंवर को कंवलावती का स्मरण कराना साहित्यिक संदेशप्रेषण परम्परा के अन्तर्गत आता है, कवि का हंसमित्र नाम संकेतात्मक श्राव होता है । अन्य प्रमाख्यानों की अपेक्षा "चित्रावली" की एक और विशेषता यह है कि नायिका का वर्णन परम्परा के अनुसार पद्मिनी रूप में न होकर, चित्रिनी रूप में है ।

प्रेम-पद्धति :

कवि उसमान ने चित्रदर्शन के द्वारा नायक के हृदय में प्रेमोन्मेष दिखाया है, किन्तु उसमें अस्वाभाविकता नहीं है । सुजान चित्रावली के चित्र सौन्दर्य को देखकर मुग्ध हो जाता है और उसके स्मरण में विकल रहता है । इस बीच उसकी भावनाओं का परिष्कार भी होता है । दूसरी बार परेवा के मुख से चित्रावली का गुणश्रवण कर, उसका पूर्वाग पूर्ण परिपक्व होकर मंजिष्ठाराग हो जाता है, वह एकनिश्चयी होकर, केवल चित्रावली की प्राप्ति के हेतु निकल जाता है, किन्तु सम्भवतः चित्रावली इससे भी अधिक दृढ प्रेम का आग्रह करती है और वह नित्य भरोखे से सुजान को दर्शन देकर, उसको नीवतर

१. मनाहि कहेउ ते अति दुख देखा, अरु जिउ मानहि सुख कर देखा ।
कवित्तन्ह मरन कया के माई, सोहि मरत हिय लागु झोहाई ।
औ जे प्रेम अमी रस पीया, मरें न मारे जुग जुग जाया ।
एक जियन एक मरन ससारा, मरि मरि जियाहि ताहि को मारा ।

ज्ञान ध्यान मद्रिम सर्वै, जप तप सज्जम नेम ।

मान सो उत्तम जनत जन, जो प्रतिपारें प्रेम ।

एवं उन्नत बनाती है। चित्रावली के दर्शन के पश्चात् सुजान के हृदय में किसी अन्य के लिए स्थान नहीं रह जाता और वह कंवलावती के अनेक प्रयासों के बाद भी उसके प्रति उदासीन रहता है, यही उसके प्रेम की दृढ़ता है अन्यथा कथा में किसी प्रतिनायक या परीक्षा करनेवाली समुद्र-पुत्री तथा अप्सराओं की योजना नहीं है।

चित्रावली का प्रेम भी आदर्श है, वह सुजान के चित्र को देखकर उस पर मोहित हो गई और चित्रदर्शन से ही शान्तिलाभ कर रही है। उसकी माता के चित्र धो देने से उसका वियोग बढ गया, और प्राप्ति का प्रयास पहले चित्रावली की ओर से ही आरम्भ होता है। परेवा के सुजान सहित रूपनगर आ जाने से चित्रावली को प्रसन्नता होती है और वह मर्यादा का उल्लङ्घन न कर, नित्य सुजान के दर्शन मात्र से सन्तुष्ट हो जाती है; किन्तु कुटीचर की दुर्भावना से सुजान और चित्रावली का वियोग हो जाता है। चित्रावली एक ओर तो विरह से कृश होती जाती है दूसरी ओर सुजान की खोज में भी तत्पर रहती है। गिरिनार के मेले में वह अपने भी कुछ चरों को खोज में भेजती हैं और वहाँ से समाचार पाकर, उसके नाम पत्र लिखकर, अपनी व्यथा प्रदर्शित करती है। अब तक सुजान यथेष्ट प्रतिष्ठा पा चुका होता है, निदान राजा चित्रसेन को चित्रावली एवं सुजान के विवाह में विरोध नहीं होता।

कवि ने चित्रावली और सुजान के प्रेम को लगभग एक साथ ही उद्भूत कराके नवीनता का परिचय दिया है। अन्य कथाओं में नायक के विरह पीड़ित हो जाने पर ही नायिका के हृदय में अभाव का अनुभव, तथा दर्शन हो जाने पर प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, किन्तु चित्रावली में दोनों ओर प्रेम जाग्रत होता है। दूसरी नवीनता यह है कि सुजान का मठी-प्रस्थान एक प्रकार से वेदना-शक्ति का प्रयास था, किन्तु चित्रावली के खोज-प्रयास से ही नायक सुजान सही मार्ग पर अग्रसर हो सका।

सुजान, चित्रावली एवं कंवलावती का प्रेम, पूर्णतः लोकबाह्य नहीं है। उसमें लोक कर्तव्य एवं सम्बन्धों का भी समन्वय है। सुजान को व्यथित देखकर उसकी माता का :

उठि अकुलाह मात दुख भरी, कुंअर पास आई एक सारी ।
सीस लाइ के वैठी कौरा, पूछै वात देखि मुख ओरा ।
नैन उघारुं पूत कहु पीरा, केहि कारन भा धीन सरीरा ।
काहे पीत भयो मुख राता, कहहु वात बलिहारी माता ।

पृ० ३८ ।

विलपना तथा सुजान का अपनी विवशता प्रदर्शित करना, उसके प्रेम में लोक-पक्ष का दर्शन करा देते हैं। मा के वात्सल्य भाव का भी स्वाभाविक वर्णन है। सुजान के नेत्र ऐसी जगह अटकते हैं जहा शरीर ही नहीं, मन भी नहीं पहुँच सकता :

माता पीर सो ऊपजी, ताहि न मूरि उपाइ ।
लोयन अटके तहा पै, मन न सके जहं जाइ ॥पृ० ३९ ।

इसी प्रकार, चित्रावली के सुजान के चित्राभाव में मूर्छित हो जाने पर, उसकी स्त्रियों का उसका उपचार करना; तथा माता का उसके प्रेम में वृद्धि हो जाने पर अपनी असमर्थता का ध्यान करना आदि प्रेम के ऐसे ही पक्ष हैं १ ।

प्रेमतत्व :

कवि ने स्थान स्थान पर प्रेम के स्वरूप की चर्चा की है। प्रेम का आधार रूप है। जहाँ भी सौन्दर्य या रूप होना है वहीं प्रेम उत्पन्न हो जाता है। दीपक की ज्योति पर पतंग जिस प्रकार वरवस आकृष्ट होता है उसी प्रकार रूप की ओर प्रेम आकृष्ट होता है। फेतकी की कली पर भ्रमर के गुन्जन के सदृश ही, रूप और प्रेम का सम्बन्ध है। २

परमात्मा के रूप या सौन्दर्य की ओर साधक भी आकृष्ट होता है। वह इस सृष्टि के सौन्दर्य को देखकर, इसके कर्ता के रूप का स्मरण करता है। इस प्रकार साधक का प्रेम भी रूप की ओर आकृष्ट हो कर जन्म पाता है। ३

प्रेम को बल एवं गति देने वाला विरह है। प्रेम की आग सुनगते ही, विरह रूपी पवन उसे बढ़ावा देता है; प्रेम रूपी अंकुर के उत्पन्न होते ही, विरह रूपी नीर उसे पनपाता है। प्रेम दीपक की ज्योति को विरह निरन्तर उकसाता है। प्रेम और विरह का निरन्तर साथ है।^४

प्रेम की सफलता के लिये धैर्य एवं दृढ़ निश्चय आवश्यक है। धैर्यवान् व्यक्ति सुमेरु पर्वत की चोटी पर भी चढ़ सकता है *। लक्ष्य के दूर होने पर भी

१. सुनि रानी मन कीन्ह विचारा, उपजत वीरौ जो न उपारा।
भएँ विरह पुनि हाथ न आवे, जो बल करै सोई दुख पावै ॥ पृ० ५० ।
२. जहाँ रूप जग बनिज पसारा, आइ प्रेम तहं कीय व्योहारा।
दीपक जोति प्रेम उजियारा, प्रेम पतंग ज्ञानि त'ह जारा।
रूप वास भा केतिक केवा, प्रेम भौर भौ जिव परछेवा ॥ पृ० ५३ ।
३. जेहि क चित्र अस जिउ लेनिहारा, दुहुँ कस होइहि सिरजनहारा।
४. रूप प्रेम मिलि जाँ सुख णवा, दुनहुँ मिलि विरहा उपजावा।
जेहि तन प्रेम आगि सुलगाई, विरह पोन होइ ते सुलगाई।
प्रेम अंकुर जहँ सिर काटा, विरह नीर सो दिन-दिन वाटा।
प्रेम दीप जहँ जोति दिरसाई, विरह देइ छिन-छिन उसकाई।
एहि विधि प्रेम विरह एक सगा, एकमते भौ मानहुँ रगा। पृ० ५३ ।
५. धीरज धरि जो लेइ पय हेरी, चढ़े जाइ रह भंग सुमेरी ॥

प्राप्ति का दृढ निश्चय उसे पास ला देता है ^१ । इनमें सर्वोपरि परमात्मा की कृपा दृष्टि है ^२ ।

अन्य वर्णन-प्रसंग :

कथा में इतिवृत्त के मध्य, विराम रूप से, रसात्मकता उत्पन्न करने के लिये कविगण कुछ वर्णन करते हैं । इनमें से कुछ तो परम्परायुक्त होते हैं, और कुछ कवि की नवीन उद्भावना फलस्वरूप । इसके अतिरिक्त, काव्यों में विस्तृत वर्णन दो रूपों में उपलब्ध होते हैं ।

१. कवि द्वारा वस्तु वर्णन के रूप में ।

२. पात्र द्वारा भाव व्यञ्जना के रूप में ।

कवि द्वारा जिन वस्तुओं का वर्णन विस्तार से हुआ है, उनमें गाजीपुर नगर वर्णन, आखेटवर्णन चित्रावली सौन्दर्य वर्णन, जलक्रीड़ा, रूपनगर यात्रावर्णन, वारहमासा युद्धयात्रा, युद्धवर्णन, भोजवर्णन, कंवलावती सौन्दर्य वर्णन, भरतखण्ड यात्रावर्णन आदि प्रमुख हैं । इसके अतिरिक्त, कवि ने केवल अपनी बहुज्ञता प्रदर्शित करने के लिये विभिन्न रागरागिनियों, वाद्यों, देशगत विशेषताओं एवं कामशास्त्र सम्बन्धी भेदोपभेदों का वर्णन किया है ।

आखेट-वर्णन :

आखेट की क्रियाओं का वर्णन करके कवि अपने विचार प्रकट करता है । सुजान की आखेट में रुचि थी । एक पारधी सदैव उसके पास रहता था जो उसे शिकार की सूचना देता, फिर चारों ओर से घेरकर पशु पक्षियों को मारता था ।

अस अहेर कह मन चित वाधा, निसि दिन रहहि पारधी राधा ।

पहिले पारधि जाई वन, घात करै चहुँ फेर ।
सवरि कुंअर तव कटक ले, खेलै जाइ अहेर । पृष्ठ २५-।

शिकार मार लेने के पश्चात् जब लोग उसे भून कर खाते तथा बखानते हैं, तो कवि की उक्तिर्यो दर्शनीय हैं :

१. जेहि काहु खोजे कोऊ, एरु मन एक चित लाइ ।
होइ दूरि जो अति तऊ, नियरहि मिले सो आइ ।

२. पाये खोज तुम्हार सो, जेहि टेखलावहु पन्थ ।
कहा होइ जोगी भए औ पुनि पटे गरन्थ । पृ० ४५

सेवकन्ह मांस भूजि के कहा, आपन मीठ मोछ कर गहा ।
हंसि हंसि करहि अहेर बखाना, नैना हिएं न होवै ज्ञाना । पृ० २५ ।

भूजहि मांस जीभ रस लाहू, आपन माँस न सूझै काहू ।
भूजत चुवै सरागन पानी, रोवै मास हिये अस जानी ।
हम खर खास निचंत जो सोई, एहिसें गात सराग परोई ।
फिर फिर जारहि छाड़हि नाहीं, होइहि कहा मास जो खाहीं । पृ० २६ ।

दया और अहिंसा की यह भावना, इन कवियों में सर्वत्र पाई जाती है ।

जल-क्रीड़ा :

जल-क्रीड़ा वर्णन में कवि आत्मा के द्वारा परमात्मा की खोज का रूपक ही स्पष्ट करना चाहता है । वर्णन में काव्यात्मकता भी अधिक है । चित्रावली के अपनी सत्वियों के साथ सरोवर में प्रवेश कर जाने पर कवि कल्पना करता है :

तीर धरिन सब चीर उनारी, धाड़ धंसी सब नीर मंभारी ।
कनकलता फैलीं सब वारी, पुरइनि तोर जानु जल डारी ।
मानहुँ ससि संग सरग तराई, केलि करन अति लाग सोहाई ।
हंस देखि जलहर तजि गए, पद्मम सबै दिन कुमुदिनी भए ।
आइ चकोर देखि मुख रहा, सरवर नाहिं गगन सब कहा ।
भूले गगन अचक रहे तहा, अब निसि नपत कहहि दिन कहा । पृ० ४७ ।

इस प्रकार सरोवर वर्णन में कवि ने एक ओर जहां काव्य-सौन्दर्य विखेरा है, वहीं दूसरी ओर आत्मा परमात्मा की खोज का रूपक निवाहा है ।

बूझि बूझि हेरहिं सबै, जेहि जस भाग सो पाउ ।
कोउ घोंघा कोउ मोति ले, कोउ छूँछे वहराउ ।
सरवर ढूँढि सबै पचि रहीं, चित्रिनि खोज न पावा कहीं ।
निकरि तीर भई वैरागी, धरी ध्यान सब विनवै लागी ।
गुपुन तौहि पावहिं का जानी, परगट मंह जो रहहि छपानी ।
चतुरानन पढि चारौ वेदू, रहा खोजि पै पाव न भेदू ।
संकर पुनि हारे कै सेवा, वाहि न मिलिठ और को देवा ।
हम अंधी जेहि आपुन सूझा, भेद तुहार कहा लों वृभा ।
कौन सो ठांड जहा तुम नाहीं, हम चपु जोति न देखहि काहीं ।

पावै खोज तुम्हार सो, जेहि देखलावहु पन्थ ।
कहा होइ जोगी भए, और पुन पढे गरंध । पृ० ४७, ४८ ।

इस प्रकार कवि ने परमात्मा-प्राप्ति की अगम्यता, तथा जीव की अज्ञमता, दोनों का वर्णन करके परम अनुग्रह को ही एकमात्र सफल साधन माना है, जो सूफी-साधना का प्रमुख अंग है।

रूप-नगर वर्णन :

कवि ने रूपनगर का वर्णन करते समय, वहा के वैभव विलास की चर्चा के अतिरिक्त चित्रावली की वाटिका, सरोवर एवं चित्रशाला का विस्तृत वर्णन किया है। इन वर्णनों में, काव्य सौन्दर्य अधिक न होकर कवि का पाण्डित्य प्रदर्शन अधिक है जैसे चित्रावली की वाटिका का वर्णन कवि इस प्रकार करता है।

सरवर तीर पछिम दिसि जहा, चित्रावलि की वारी तहा !
सीतल सधन सुहाधन छाहीं, सूर किरिन तंह संचरै नाहीं।
मंजुलडार पान अति हरे, और तंह रहहि सदा फर फरै।

तुरंज जमीरी अति बहुताई, नेबू डारन गलगल जाई।
अमिरित फर औ दाढ़िम दाखा, सतति जियै निमिष जो चाखा।
नरियर और सोपारी लाई, कटहर बड़हर कोऊ न खाई।
आव जमुनि लै एक दिसि लाए, बर पीपर तंह गनत न आए। पृ० ६१।

कवि इसी प्रकार फलों के नाम गिनाना चला गया है।

नखशिख वर्णन :

चित्रावली के सौन्दर्य का वर्णन तो कई स्थलों पर आया है, किन्तु नखशिख के रूप में, केवल एक ही स्थल पर परेवा के द्वारा वर्णित है। कवि उसमान ने नखशिख वर्णन विस्तार से किया है। केश से लेकर चरणों तक, अंग प्रत्यंग का वर्णन कवि ने किया है। बरौनी, दात, जीभ एवं ठोड़ी के गड्ढे तक की चर्चा कवि ने की है। उपमान अधिकांश रूढि गत ही हैं। कहीं कहीं कवि ने बड़ी स्वाभाविक एवं सरल व्यञ्जना की है। पके आम को अंगुली से दवाने पर जिस प्रकार गड्ढा पड़ जाता है उसी प्रकार चित्रावली की ठोड़ी में गड्ढा है।

आव सुल सम ठोड़ी भई, वह आमिल यह अमिरत भई।
तेहि तर गाड अप्रव जोवा, पाक आवे जनु अंगुरी टोवा। पृ० ७३।

कहीं कहीं कवि की कल्पना, ऊहात्मक तथा अस्वाभाविक भी है जैसे कटि-चर्चा करते समय उमकी उपमा वाल की सक्षमता से देना।

अति सुकुंवारि लक पुनि छीनीं, दिग्ग न परै वारहु तव खीनी।
देखत सकुचै देखनहारा, दृष्टि न परै दिष्टि के भारा। पृ० ७६।

सौन्दर्य-वर्णन में परमार्थिक सकेत अधिक नहीं है, फिर भी वरुनी वर्णन करते समय, कवि जगत की ब्रह्म प्राप्ति लालसा का वर्णन करता है। उसका कथन है, कि जिस पदार्थ को उन वरौनियों का वान नहीं लगा, उसका अस्तित्व ही व्यर्थ गया। वह सारा संसार स्वेच्छा से उनका लक्ष्य बनना चाहता है।

लाग न वरुनि वान जेहि हीया, सो जग माह अभिरथा जीया ।

जेते अहै जीव जग माहीं, साधन जाइ वान मो खाहीं । पृ० ७१ ।

इसी प्रकार चित्रावली के चरणों का वर्णन करते समय, साधक की पलक पावड़ बनने की आकांक्षा की ओर संकेत किया है :

चरन कंचल पर मन बलि गए, जेहि मगु चले तहाँ रज भए ।

मकु तेहि पन्थ गौन पुनि करइ, भूलि पौव इन्ह नैनन धरइ । पृ० ७७ ।

कवि की बहुज्ञता :

उपरोक्त वर्णनों के अनिरीकृत, कवि ने, केवल अपने पाण्डित्य प्रदर्शन या परम्परा निर्वाह के लिये कुछ प्रसंगों का समावेश किया है। जैसे राग-रागिनियों एवं वाद्यों का वर्णन :

महुअर सुर जनु मट महुअरा, लुकटी माह करे मतवारा ।

चग अतंक सुनत न भूले, वंसी धुनि सुनि अहि कुल भूले ।

पुनि बुधि हरन कमाइचि साजी, डोल मुमेरुवनि जव बाजी ।

गहि पिनाक जानहुँ सुर गहा, जत कत जगत वेभ होइ रहा ।

हुड्ढक वाज जलजन्त वजावा, को न जन्तु वै सबद भुलावा ।

डफ वजाइ मुनिवर चितहरा, को न जाइ तेहि घेरे परा ।

वाजे भांभ मंजीरा तूरा, राजहि भाव सोई सुर पूरा । पृ० २६ ।

राग-रागिनी वर्णन :

सिरी राग की रागिनि अही, कहौ वनाइ जो गिरिजै कटी ।

गौरी मधु माधवी केदारी, तरिवन औ मालवी विहारी । पृ० ३० ।

इसी प्रकार सभी राग-रागिनियों की चर्चा कवि ने की है। जिस प्रकार नूरमुहम्मद ने अपनी इन्द्रावती में एक 'औपधि खरड' लिखकर अपने वैद्यक ज्ञान का परिचय दिया था, उसी प्रकार कवि उसमान ने 'कामशास्त्र खरड' में छपने कामशास्त्र का परिचय दिया है। इसी के अन्तर्गत कवि चित्रिनी नारी का वर्णन इस प्रकार करता है :

नैन चपल पुनि चित्रिनि नारी, पानर मुख और अलय अहारी ।

मोट न पातर वीचहि वनी, जेहि घर होइ पुरुष मो धनी ।

अति कटि छीन मृदुल पुनि होई, सवद मंजोर कण्ठ सुर होई ।
 सुभग नितम्ब पयोहर खीना, कामिनि सुघर बजावै वीना ।
 चित्र लिखै चतुराई करई, सुन्दर बचन सेज मन हरई ।
 छोट बड़े सों मया जनावै, स्याम चिहुर सिर भौर न पावै ।
 अल्प काम जल मद की बासा, अल्प रोम तन काम निवासा ।

सुन्दर जंघा पातरी, अछुवाई पुनि चाउ ।

अंग बास पै अधिक है, चित्रिनि माह सुभाउ ।

पृ० २११ ।

कवि को भौगोलिक ज्ञान भी आधिक था । सुजान को ढूँढने के लिये, जब परेवा चला उस समय कवि ने दिशा एवं देशों का यथार्थ वर्णन किया है । इसके साथ ही नगरों की विशेषता का भी वर्णन है जो कवि के विविध ज्ञान का परिचय देता है :

‘जे पूरव दिस कहं मुंह फेरा, पहिलेहिं आइ सो मथुरा हेरा ।
 बिन्द्रावन महं ढूँढे योगी, जैसे गोपी कृष्ण बियोगी ।
 दिल्ली तखत जो साहन केरा, सो देखा अगरा पुनि हेरा ।
 आइ पयाग कीन्ह तिरवेनी, करवट देखी सरग निसेनी ।
 कासी माहिं विसेसर पूजा, जाहि देवसर आहिन दूजा ।
 रहि दिन चारि फिरा पंच कोसी, पूछे फिरिफिरवाभन जोसी ।
 आस न पाएसि चला निरासा, हेरेसि चढिके गढ रोहितासा ।

× × × ×

मगह देखि फिरा सिरधुनी, तिरहुति में विद्यापति सुनी । पृ० १६० ।

कवि उसमान ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने नगरों की वास्तविक भौगोलिकस्थिति तथा विशेषताओं का उल्लेख किया है । इसके अतिरिक्त अंग्रेजों के खान-पान का भी वर्णन है । सन् १६१२ में अंग्रेजों की सूरत में कम्पनी वनी और ग्रन्थ का रचनाकाल सन् १६१३ है, अतः कवि को अपने समय की पूरी जानकारी होना भी सिद्ध होता है । वह लिखता है .

बलदीप देखा अगरेजा, जहा जाइ नहिं कठिन करेजा ।

ऊँचनीच धन सम्पति हेरा, मद वराह भोजन जिन केरा । पृ० १६० ।

वह बंगालियों के भोजन की भी चर्चा करता है

सब कह अमिरित पाच है, बंगाली कहं सात ।

केला काजी पान रस, साग माछरी भात । पृ० १६१ ।

इसके अतिरिक्त कवि को ज्योतिष त्रिपयक ज्ञान भी है, जिसका परिचय वह सुजान की जन्मकुण्डली बनते समय देता है । इन कवियों का सूफी माधना के अतिरिक्त अन्य

योग साधनाओं से भी सम्बन्ध था जिसका परिचय ये स्थलस्थल पर श्री गोरक्ष, गोपीचन्द्र आदि के स्मरण द्वारा तथा विन्दु, नाद और त्रिकुटी का परिचय देने में करते हैं। कवि उसमान की चित्रावली में ऐसे स्थल निम्नांकित है :

विनन्त विनन्त औ सिखर पुनि, अन्त परे पुनि तार ।

पाचौ, सबद जो जगत महं, होइ रहा भनकार । पृ० २६ ।

X X X X

मृगमद माह वास ज्यों रहदे, त्यों घट माह निरञ्जन अहई ।

करहु कान जनि एकहु, कहै कोज जो लख ।

पहिरि लेहु पग पावरी, बोलहु सिरि गोरक्ष । पृ० ८५ ।

X X X X

जो सेना गौनत एहि पंथा, गोपिचन्द्र नहि पहिरत कंथा ।

कवि को शास्त्र विषयक इस ज्ञान के अतिरिक्त लौकिक ज्ञान भी अधिक था, वह तत्कालीन रीति-रिवाजों, छठी, बरहा, वर्षगांठ, विवाह, मण्डप, कोहवर आदि का वर्णन बड़ा सजीव करता है। वर्षगांठ के त्यौहार में वर्ष गिनने के हेतु डोरे में गांठ लगाना, सम्भवतः तब भी प्रचलित था :

वरप गये जो जन्मदिन आवा ।

गांठि देहि और करहि वधावा । - पृ० २८ ।

कवि को राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा के विषय का भी अच्छा ज्ञान है :

अस चित लाइ गुरु समझावा, थोरे दिवस गुन हिरदै छावा !

अमरकोश व्याकरण वखाना, जोग वैदकन्हि कै सब जाना ।

पिंगल लघु दीर्घ दिढनायी, कंठहि मास छन्द चौरासी ।

पढी संगीत ताल देखरावा, एक सुर महं दस राग सुनावा ।

जोतिप महं कोइ वाद न आटा, एकपल सहस वार कै वाटा ।

अंस भुगोल वखानि सुनावा, पल महं मनु पुहुभी फिरि आवा ।

पठि गुनि चौदह वरप लगु, दस औ चारि निधान ।

निपुन दुवा दस भाव महं, सब पठि वैठु सुजान । पृ० २३ ।

क्षत्रिय वर्ग गो, ब्राह्मण तथा नारी की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता था, इस पर भी कवि ने प्रकाश डाला है :

क्षत्री सुनि जो ना करै, तिय अरु गाय गोहारि ।

पहुमी कुल गारी चढै, सरग होइ मुज कारि । पृ० १४८ ।

रस :

चित्रावली में प्रमुख रूप से शृङ्गार रस विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, 'वीररस' का भी वर्णन है। शृङ्गार रस के दोनों, संयोग एवं वियोग, पक्षों का सम्यक् परिपाक हुआ है। नायिकाओं के भेदों के भी कुछ नाम गिनाये गये हैं, किन्तु उनकी चर्चा अधिक नहीं है। इसी प्रकार शास्त्रीय ढंग से संयोग या वियोग की अवस्थाओं एवं स्थितियों के वर्णन करने का कवि आग्रह नहीं करता है, किन्तु उद्दीपन की दृष्टि से, षट्शतु एवं वारहमासे का वर्णन कवि ने किया है।

विप्रलम्भ शृंगार :

विरह वर्णन में सूफी कवियों का मन अधिक रमा है। साथ ही, नायक और नायिका, दोनों को ही विरह पीड़ित प्रदर्शित किया है। मठी में जागने पर कुंवर की विरह दशा का वर्णन करते समय, कवि उसकी कृशता का परिचय इस प्रकार देता है।

अरुन बदन पियराय गा, रुहिर सूखिगा गात ।

रहा भापि लोचन दोऊ, कहै न पूछै बात ॥ पृ० ३७ ।

अति विरह में नायक या नायिका की पागलों सी स्थिति, या उन्माद का वर्णन भी कविगण किया करते हैं। कुवर सुजान भी कुछ ऐसा ही अनुभव करता है।

कल न परे पल अति विकरारा, हाथ पाव सिर दै दै मारा । पृ० ३८ ।

मूर्च्छा का वर्णन भी उसमान ने किया है :

अतंक विरह आइ जिउ हरा, धर विनु जीउ पुहुमि खस परा ।

प्रिय की उपस्थिति में जो वस्तु सुखद होती है, वही उसकी अनुपस्थिति में दुःख दायक हो जाती है। सुजान के चित्र की उपस्थिति के कारण जो चित्रशाला चित्रावली को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, वही उसकी अनुपस्थिति में काली नागिन, तथा फूल अंगार, बन गये।

चित्रावलि कंह सो चितसारी, जानहु भई भुंझगिनि कारो ।

फूल अंगार भये फुलवारी, कछु न सुहाय विरह की मारी ॥ पृ० ५४ ।

कवि ने, षट्शतु तथा वारहमासे का वर्णन करके एक ओर जहाँ कवि-परम्परा का पालन किया है, वहीं दूसरी ओर विरह की व्यापकता का परिचय भी दिया है। चित्रावली सुजान को पत्र लिखते समय लिखती है कि उमका विरह सारी मृष्टि में व्याप्त है।

जो न पसीजसि जिउ मोर भाखी, पृछु देखु गिरि कानन साखी ।
करै पुकार भँजोरन गोवा, कुहुकि कुहुकि वन कोकिल रोवा ।
गयो सीखि पपीहा मन बोला, अजहूँ कोकत वन वन डोला ।
उड़ा परेवा सुनि मम वाता, अजहूँ चरन रकत सों राता । पृ० १६७ ।

वह अपने निरंतर अश्रुप्रवाह की ओर बढ़ी चतुराई से संकेत करती है कि :

लोयन सिंधु थाह को पावै , बुद्धिबे के डर नौद न आवै ।

जायसी की नागमती वर्षा ऋतु में जहाँ 'हाँ विनु नाह मंदिर को छाया' कहकर अपने अभाव का संकेत करती है, वहीं चित्रावली 'मोर कंत जोगी वन वासी, मंदिर संवार करी का हासी' कहकर संतोष कर लेती है। आनन्द के पर्व एवं त्योहारों पर विरहिणी का विरह और तीव्र हो जाता है। कार्तिक मास में, दीपावली के अवसर पर, लोग पूजन करते, गाते और आनन्दित होते हैं, किन्तु विरहाग्नि और प्रज्वलित होती है :

'मानहिं परव देवारी लोगू, पूजहिं गाइ करहिं रस भोगू ।
जग सेरान यहि समय सोहाई , हम तन दीन्ह टचां जनु लाई ।' पृ० १७२ ।

अपनी कृशता और पतझड़ में गिरे पत्तों की समता करते हुये वह कहती है :

'फागुन विरह पवन अधिकाना, हम तनु जस तरु पात पुराना ।' पृष्ठ १७३ ।

सुजान के अश्रुप्रवाह को कवि पर्वतीय जलप्रपात के समान वर्णित करना है ।

'भये सुनत चित्रावलि वरना , कुंवर नयन पर्वत के भरना ।'

संयोग वर्णन :

संयोग वर्णन में कवि ने पहिली ब्रूमने एवं वाक्चातुर्य की भी चर्चा की है। चित्रावली कुंवर सुजान के जोगी होने पर व्यंग करती है, तथा अंत में समर्पण कर देती है। अन्य कवियों की अपेक्षा इनका यह वर्णन अश्लोक अधिक है।

घूँट खोलि रूप अस देखा , सो देखा जेहि सीस सुरेखा ।
अधर घूँट सो अमिरित पीथा , जेहिके पियत अमर भा हीया ।
राहु गरास कलानिधि कापा , लोचन पल आनन पट भ्रूपा ।
पुनि मनमथ रति फागु संवारी , खोलि अछूत कनक पिचकारी ।
रंग गुलाल दोड लै भरे , रोम रोम तन मोनी भरे ।

मेढ थंभ रोमंच नन, आगु पतन नुरांग ।

प्रपग सभागन जो क्रियो, मीनल भा मव प्रंग ॥ पृ० २०४ ।

संकेत की भाँति कवि उसमान के संयोग चित्रण भावात्मक नहीं हैं। कुछ नायिकाओं के प्रकारों का उल्लेख भी कवि ने किया है।

मुग्धा :

सब मुग्धा जीवन अंगिराता, कोई ज्ञाता कोई अज्ञाता।

वासकसेजा :

कंत वचा परतीति पर, सोरह साजि सिगार।
वासकसेजा होइ रही, लाइ नैन दुइ बार। पृ० ३२८।

धीरा :

परी चोँक लागे कर सीरा, दच्छिन नाहिं नायका धीरा। पृ० २२६।

अलंकार :

सादृश्यमूलक अलंकार में प्रतीप, हेतुप्रेक्षा, अतिशयोक्ति, उल्लेख, रूपक, उपमा का प्रयोग विशेष है।

रूपक :

ज्ञान डोरि करु हिया मथानी, सँस लेत डोरी लपटानी।
उल्टी दृष्टि रहे टुक लाई, सजग रहै जेहि तन्हु न जाई।
तौ लहु मथै वैठि दे जीऊ, निसरै छाछ मही ते घीऊ।

निजुसो मथनी एक दिन, मथत-मथत गा फूटि।
तत्वमसी पुनि तत्व सौं, जाय नरक सब छूटि ॥

उपमा :

यह जग जस पानी कर धावा, जो कछु गा सो बहुरि न आवा।

अतिशयोक्ति :

वैठे पंछी रैन के, भयो जानि जग भोर।
उठे जागि सब दिवस गे, फिरन लगे चहुँओर ॥

उत्प्रेक्षा :

छूटहि अलकावलि वदन, भौंहे चढा कमान।
जाल रोपि कुसमेखु जनु, मारन चाहति प्रान ॥

प्रतीप :

बदन जोति केदि उःमा लावौं, ससिहर पटतर देत लजावौं ।
ससि कलंक पुनि खण्डित होई, हे निकलंक सम्पूरन सोई ।

छन्द :

चित्रावली की रचना दोहे-चौपाई के क्रम में हुई है। सात अर्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम, सम्पूर्ण ग्रन्थ में निवाहा गया है :

भाषा :

चित्रावली की भाषा भी अथधी है। बोलचाल के शब्द जैसे आला, थोयरा, वेगर, केव, लोन, मेहरिह के साथ संस्कृत के भी शब्दों का प्रयोग है। ग्रन्थ में अरबी या फारसी के शब्दों का प्रयोग भी है जैसे साफ तथा सीना। कवि ने कहावतों का प्रचुर प्रयोग किया है।

संस्कृत शब्दों में 'तत्वमसि', 'कलभ', 'पनच', ऐसे शब्दों का प्रयोग है। सौरि, राउत एवं लोयन ऐसे तद्भव शब्द भी प्रयुक्त हुये हैं।

कहावतों के प्रयोग से भाषा अधिक व्यवहारिक हो गई है और साथ ही भावों की सफल व्यञ्जना हुई है। प्रयुक्त कहावतों में से कुछ ये हैं :

१. धोवहु बेगि आहि जो लोना, कान टूट का करिये सोना ।
२. आजु सिरान हिया दुख जरा, मुए धान जनु पानी परा ।
३. ऐसे केत विगचे पाए, थोरा छाड़ि बहुत बंह धाए ।
४. पुनि मन कहु गियान उपराजा, जाघ उघारे मरिये लाजा ।
५. भूख न मानै लावन सेती, नींद न मानै सोरि सवेती ।
६. सत्य समान पूत जग नाहीं, सत सौं रहै नाउं जग माहीं ।
कोरि पूत एक देस बखाना, सत्य पूत चारौ खन्ड जाना ।
७. विनु रस अवनि जनम जे पावा, सूने घर जस पाहुन आवा ।

लोकोवितयां :

काहुहि मोहि देखाद न जाई, छेरी मुंटे कोहंठा न समाई ।
कौन सुनै अस को गति देई, दस्ति क भार क गदहा लेई ।

पिगान्त कौल न चारभट, गयो अथै नग भान ।
नारेसि ईंट देखाद गुट, मोडे भा उपतान ।

भाव-व्यञ्जना :

यद्यपि प्रेमाख्यान में इतिवृत्त की चर्चा अधिक है, किन्तु कवि के अनुभव एवं सतर्क लेखनी के फलस्वरूप भावों की व्यञ्जना सफल हुई है।

आतुरता का वर्णन करने में कवि ने जिस उपमा का सहारा लिया है, वह स्वयं अपने में ही बहुत अधिक समर्थ है। कुंवर सुजान को चित्रावली को प्राप्त कर लेने की उत्कट आकांक्षा है, वह अपने इस कार्य में सोचविचार या ऊहापोह की आवश्यकता नहीं समझता। सुजान उसी प्रकार परेवा के साथ चल दिया जिस प्रकार विच्छिन्न पत्र वायु-वेग के साथ चल देता है।

जोगी चला कुंवर संग लाई, जैसे पौन पात लै जाई। पृ० ८८।

चित्रावली के नखशिख वर्णन को सुनकर कुंवर के हृदय में जो अभिलाषायें, आकांक्षायें जाग्रत हो गईं, उनका परिचय कवि इन शब्दों में देता है।

कहिसि कुंवर सुनु गुरु परेवा, सुनि सो पन्थ उपजे उर केवा। पृ० ८३।

चित्रावली की परिच्छाहीं को दर्पण के मध्य देखकर कुंवर अपनी चेतनता खो बैठा और मूर्च्छित हो गया, उसकी इस अवस्था का उल्लेख कवि अपने ज्ञान का परिचय देते हुये इस प्रकार करता है :

सूर जोति दरपन मंह अई, महि दुहु बीच कुंवर भा रुई। पृ० १०६।

अत्यन्त हर्ष एवं आनन्द में शरीर का रोमांचित होना, नयन का सुखातिरेक से तरल होना, तथा पीतवदन का रक्ताभ हो जाना आदि भावों एवं क्रियाओं का कवि ने अत्यन्त स्वाभाविक वर्णन किया है :

अव पिउ आइ चाह तोह' दीन्हा, सुनि सुख हंस फुरहुरी लीन्हा।

तेहि की पाख, पानि जो अरा, सो दुहु लोचन कै मगु ढरा।

कौल आइ दिनकर पहिचाना, भा रतनार वदन पियराना। पृ० १२७

भय का वर्णन भी कवि ने बढ़ा स्वाभाविक किया है। सुजान के पराक्रम को सुनकर, चित्रसेन का भय इन शब्दों में साकार हो जाता है :

सुनि के राजा थकि रहा, रुहिर सूखि गा गात।

हिए' थरथरी, पेट डर, मुख नहि आवै वात। पृ० १६०।

चित्रावली की यह आकांक्षा कि उससे तो पत्र ही अधिक भाग्यशाली है जो प्रिय के हाथ में पहुँचेगा, यदि वह ही अक्षर हो सकती तो प्रियतम तक पहुँच जाती —

‘पाती चढिहि जाए पिय हाया,
हौं आखर होइ चली न साथी ।’ (पृ० १७५)

शब्दों में साकार हो जाती है ।

कुछ अन्य प्रसंग

दान-महिमा :

दिये बिना कुछ काहु न पावा, दिया आनि सब इच्छ पुरावा ।
दिया धरें तम करै न जोरा, दिया हुते घर मुसै न चौरा ।
एहि जग माह सार यह दीया, जे न दिया वे अविख्या जीया ।
दिया हुते निशि आगे सूझा, दिया हुते पर आपन वूझा ।
दिया हुते घर पावै सोभा, आइ पतंग दीप पर लोभा ।
दीया बाजु मग जाइ न जोवा, दिया होइ नौ पावै खोवा । पृ० १६ ।

सत्य-महिमा

सत्य समान पूत जग नाहीं, सत सो रहै नाउ जग माहीं ।
कोखि पूत एक देख बखाना, सत्य पूत चारौ खंड जाना ।
निश्चय सत्य अमर की मूरी, प्रगट देखियै हरिचन्द पूरी ॥ पृ० १८ ।

मित्र-भेद :

मीतहि होई मीत की चिन्ता, चारि भानि जग कहिये मिता ।
नैन मीत एक जग आवा, नैन देखि कै मीत कहावा ।
मुख फेरत भा औरे लेखा, गयो भूमि जनु सपना देखा ।
इच्छा मीत होइ एक दूजा, तौ लहु मीत इच्छ जब पूजा ।
होछा पूजी गई मितई, बहुरि वार नहिं भाकै आई ।
वैन मीत वैन रस रसा, वैनहि लागि रहै मन बसा ।
प्रान मीत वहि वहिन है, पर न सकै निरवाहि ।
सो दुख आनै आप जिय, जा मंद मुन्य हो ताहि । पृ० ३१ ।

पाप :

पाप न रहै छिपाएं छिपा, छिपै पुन्य जो अहनिनि जवा ।
पापहि गोइ कहां कोउ नोवा, आपहि पाप जनम तेहि खोवा ।
तजहु पाप पंथहि त्रिय जानी, करहु पुन्य औ रहै कहानी ।
पुन्य करत जनि लाखहु धोखा, जासौ होइ दुह जग मोखा । पृ० ५४ ।

न्यामतखाँ (जान कवि) के ग्रन्थ

जीवन-चरित :

कवि जान के जहाँ अन्य सूफ़ी कवियों की अपेक्षा इतने अधिक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, वहीं उनके जीवन-चरित के सम्बन्ध में बहुत सी ज्ञातव्य बातें स्पष्ट नहीं हो पातीं।

‘जान’, कवि का मुख्य नाम नहीं ज्ञात होता केवल उपनाम मात्र विदित होता है, किन्तु उनका वास्तविक नाम क्या है इस सम्बन्ध में कुछ विवाद हैं। स्व० पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने ‘जान’ को फतेहपुर (जयपुर) के नवाब अलफ ख़ाँ का उपनाम समझा था, तथा उसे बादशाह शाहजहाँ का बहुत ही कृपापात्र व सम्बन्धी बतलाया था। कुछ अन्य लोगों ने उसे उक्त बादशाह का साला होना भी माना था^१। श्री अग्ररचन्द नाहटा ने अपनी खोजों के द्वारा यह सिद्ध किया है कि यह उपनाम वास्तव में उनका न होकर उनके पुत्र न्यामत खाँ का है। वे ‘जान’ का वास्तविक नाम न्यामत खाँ बताते हैं जो उचित ज्ञात होता है। इस निर्णय के आधार निम्नांकित हैं :

(१) श्री अग्ररचन्द नाहटा जी को ‘अलिफ ख़ाँ’ की पैड़ी नाम का एक जान रचित ग्रन्थ प्राप्त हुआ है जिसकी रचना कविवर जान ने अपने पिता अलिफख़ाँ की वीरता की स्मृति में की थी। इसमें नगरकोट के युद्ध का वर्णन है। भाषा पंजाबी मिश्रित हिन्दी है जिसका अधिक परिचय इनके अन्य ग्रन्थों में नहीं मिलता है। इस ग्रन्थ की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :

पहले अल्लुहु सुमिरिये, जिन्ह सभट उपजाया ।
बोल जिलावंग कारणै, रक्खे नहीं काया ।
मान सदै सारै नहीं, सो कर सु भाया ।
सोई जिन्से जान कहि, जिस वोडखुदाया ।
कयाम ख़ाँ दादा, अलिफख़ाँ ० ० ० ।
सोलाह सै ईकईस में जनमें दीवाण ।
कीये उजले कयाम खा, चकवै चौहाँण ।
संवत् हुआ तियासिया, लेखै परवाण ।
वैकुंठ पहुँचे अलिफ ख़ाँ, छड़ड दिया जहाँण ।

इस प्रकार इस ग्रन्थ से यह निश्चित होता है कि अलिफखॉ, जो कवि 'जान' के पिता माने जाते हैं, का जन्म समय संवत् १६२१ है, तथा उनका निधन काल संवत् १६८३ है।

(२) दूसरा ग्रन्थ बुद्धिसागर है। इसे अग्ररचन्द नाहटा जी पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ का स्वतंत्र अनुवाद सा मानते हैं और इसके आधार पर यह सिद्ध करते हैं कि कवि 'जान' का नाम न्यामत खॉ था क्योंकि ग्रन्थ के मध्य 'जान' नाम प्रयुक्त हुआ है, एवं उसके अन्त में 'इति क्यामखानी न्यामत खॉ कृत ग्रन्थ बुद्धि सागर समाप्त' लिखा हुआ है। यह ग्रन्थ हिन्दुस्तानी एकेडेमी वाले कवि 'जान' के ग्रन्थ संग्रह में नहीं है। लेखिका को इसी कवि का ग्रन्थ बुध-सागर प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नवलगढ (जयपुर) के कुंवर संग्रामसिंह को प्राचीन चित्र संग्रह करने की रुचि है। इसी मध्य वे उपलब्ध हस्तलिखित ग्रन्थों को भी संग्रहीन करते रहे हैं। उन्हीं के पास 'बुद्धिसागर' न होकर एक ग्रन्थ 'बुधसागर' नाम का है। इस ग्रन्थ में कहीं भी कवि जान का नाम 'न्यामत खॉ' उल्लिखित नहीं है। ग्रन्थ के अन्त में भी 'सोरह सै पचयानवे संवत्तु हो दिन मान। अगहन सुदि तेरसहुती ग्रन्थ कियो कवि जान ॥ इति श्री ग्रन्थ बुधसागर कवि जानकृत संपूर्ण ॥ संवत् १८३३ वर्षमिती आसाढवदिदृश निवास राते लिपतमं भित्त कूराम फतेपुर मध्ये ॥ और वाचे पढ़े ताकूं हमारी जै श्री कृष्ण छै जी ॥ श्रीरस्तुकल्याणमस्तु ॥' लिखा है।

इस ग्रन्थ की रचना शैली भी पंचतंत्र जैसी ही है।

(३) एक और ग्रन्थ 'कायमरासों' की चर्चा अग्ररचन्द नाहटा जी करते हैं जिसमें

कहत जान अब वरनिहों, अलिफ खान की बात।

पिता जानि वढ़ि ना कहीं, भाखों साची बात ॥

पंक्तियाँ पाई जाती है। ऊपरलिखित पंक्तियाँ जान के पिता अलिफखान थे, यह सूचित करती हैं।

उत्तररासों में अलिफखॉ के पाँच पुत्र बतलाये गये हैं दौलत खॉ, न्यामत खॉ, शरीफखॉ, जरीफखॉ एवं फकीरखॉ। कायमरासों, एवं अलिफखॉ की पैड़ी, ये दोनों ग्रन्थ अग्ररचन्द नाहटा जी के पास हैं। अतः उनके कथनानुसार यह सिद्ध होता है कि 'जान' का वास्तविक नाम न्यामतखॉ था, एवं वे अलिफखॉ (फतेहपुर के नवाब) के पुत्र थे।

इनके पूर्व पुरुष चौहान राजपूतों से धर्मान्तरित होकर मुसलमान बने थे। न्यामतखॉ को अपने पूर्व राजपूत संस्कारों के लिये बड़ा गर्व था।

कविजान कृत प्रेमाख्यान :

जान कवि के लगभग ६० ग्रन्थ उपलब्ध हुये हैं जो इन समय 'हिन्दुस्तानी एकेडेमी' (प्रयाग) संग्रहालय में सुरक्षित हैं, जिनमें से २६ की गणना प्रेमाख्यानो के अन्तर्गत

हो सकती है यद्यपि सभी प्रेमाख्यान सूफी परम्परा में नहीं आते हैं। सूफी परम्परा में आने वाले प्रेमाख्यानो में 'कथा रतनावती', 'कथा कनकावती', 'ग्रंथ बुधिसागर', 'कथा कंवलावती' प्रमुख हैं। मसनवी पद्धति पर आरम्भ में निर्गुण निरन्जन की वन्दना, मुहम्मद साहब की प्रशंसा, उनके चार मित्रों की वन्दना, शाहेवक्त का गुणगान एवं आत्मपरिचयात्मक पंक्तियों से आरम्भ होने वाले ग्रन्थों की संख्या अधिक है, यद्यपि इन ग्रन्थों में सूफी विचारधारा का स्पष्टीकरण अधिक नहीं होता है। ऐसे ग्रन्थों में 'कथा मोहिनी,' कथा 'नल दमयन्ती,' 'ग्रन्थ लैलै मजनू' 'कथा कलावती' 'कथा रूपमंजरी' 'कथा खिन्न खा साहिजादे व देवल दे की चौपाई' 'कथा कलन्दर' 'कथा तमीम अन्सारी' 'कथा अरदसेर पातिसाह की,' आदि प्रमुख हैं। कुछ ऐसे प्रेमाख्यान भी हैं जिनमें मसनवी परम्परा का पालन नहीं है। ग्रन्थ का आरम्भ केवल कथारम्भ से ही हो जाता है जैसे कथा छविसागर, कथा निरमल दे, कथा काम रानी आदि। कुछ मुक्तक ग्रन्थों में भी कवि ने मसनवी परम्परा का पालन किया है जैसे ग्रन्थ विरहसत, ग्रन्थ वारहमासा, ग्रन्थ वियोगसागर आदि।

गुरु :

कथा कंवलावती में, जिसकी रचना कवि ने जहागीर के समय में की थी, अपने गुरु का परिचय देते हुये कवि लिखता है .

पीर सैख महमद है चिस्ती, वदन नूरि भाषतु है फिस्ती ।
रहन गांव जानहु तिहि हासी, देखत कटै चित्त की फासी ।

इन्हीं पीर के कुतुबों की चर्चा भी कवि करता है जिसके अन्तर्गत। क्रमशः कुतुब जमाल, शेख बुरहान एवं नूरदीन आते हैं। ग्रन्थ वियोग सागर में गुरु चर्चा के अन्तर्गत—

'साहि मुहदी औलिया सब कुतबनि सुलितानं ।
तिन सुत पीर जलालमुहिदी विद्या गुन ग्यानं ।'

कवि, पीर जलाल मुहीउद्दीन की चर्चा करता है। कथा बुधसागर में :

सेख महमद पीर हमारो, जाकौ नाव जगत उजियारो ।
रोज उपपर वरसत नूर, करामात जग भई जहूर ।
ज्यारत करन फिरिस्ते आवत, मनुसन की को वात चलावन ।
नई नाहिं क्तु होती आई, इनके कलमें आदि बढाई ।
कुतुब भये इनके कुल चारि, तिनको जानत सब संसार ।
पहिले जानत कुतुब जमाल, जेहि तन तक्यो सु भयो निहाल ।
दूजे भये कुतुब बुरहान, प्रगथ्यो जाको नाव जिहान ।

×

×

×

×

कुतुब नूरदी पूरजहान प्रगट भये जगु जैसे भान ।
हासी में इनको विसराम, ज्यारन किये सरें मन काम ।

हासी ऐसी ठौर है, कुक्षित जु रोवत जाय ।
इच्छा पूजे सुखि तकै, दसत खेलत घरि ध्राय ।

प्राप्त ऊपर लिखित पंक्तियां शेख मुहम्मद का ही गुणगान करनी हैं । इसके अतिरिक्त 'कथा पुहुपवरिया' में भी कवि ने अपने पीर का नाम 'शेख मुहम्मद' ही लिखा है ।

‘सेप मुहम्मद मेरो पीर, हासी ठाव गुननि गंभीर ।

इन ग्रन्थों में जहाँ कहीं भी पीर का वर्णन आया है वहाँ शैवक्त के रूप में जहागीर, एवं शाहजहाँ का परिचय उपलब्ध होता है, अतः निश्चित होता है कि शेख मुहम्मद चिश्ती इनके गुरु थे जिनका समय जहाँगीर के शासन का अन्तिम काल एवं शाहजहाँ के शासन काल का आरम्भ रहा होगा । इनका निवासस्थान 'हाँसी' था तथा इनके चार पुत्र कुतुब, जमाल, शेख बुरहान (नाम अस्पष्ट है) एवं शेख नूरुद्दीन थे ।

स्थिति-काल :

कवि ने अपने ग्रन्थों में शाहवेक्त की प्रशंसा करते समय जहाँगीर, शाहजहाँ एवं औरंगजेब की प्रशंसा की है अतः यह निश्चित होना है कि कवि को दीर्घायु प्राप्त हुई थी, तथा उसने इन तीनों राजाओं का शासनकाल देखा था ।

कथा कनकावनी में कवि :

सोलह सैं पचसत्तरै, जहाँगीर के राज ।
तीन धौस में जान कहि, यहु साज्यौ सब साज ।

लियकर स्वयं को जहाँगीर के शासन काल में स्थित धोपित करता है । कथा पुहुपवरिया में वह शाहवेक्त के स्थान पर 'शाहजहाँ' की प्रशंसा करता है :

‘सुन बखान अब छत्रपती को, चिरंजीव बंगनाकोरी को ।
साहिजहा, साहिन को साह, जहागीर सुन जगन पनाह ।
नाकी मनुन करी नहि आवै, सागरवाडन को कृपावै ।

कहत जान हों मुलपमति, करन न आवै बंधान ।
चिरंजीव जुग जुग रहौ सहित तीन टेमान ।

‘कथा नल दमवन्ती’ के आरम्भ में कवि औरंगजेब का परिचय इन शब्दों में देना है

दीनदार कवभूमौ भूभार, औरंगजेव साहि मूछार ॥

‘जफरनामानौसेरवा का’ ग्रन्थ में भी कवि औरंगजेव का स्तुतिगान करता है। इस प्रकार कवि के दीर्घजीवन का परिचय मिलता है। अपने ग्रन्थों के रचनाकाल का निर्देश करते हुये कवि जिन तिथियों का उल्लेख करता है वे इस प्रकार हैं।

संवत् सोरह सै पच्चासी, अगहन मास कथा प्रकासी ।

(कथा रूपमन्जरी)

सोरह सै इक्कहत्तरै, जहागीर जगसाह ।

दोइ धौस में जान कवि, कियो भाव अरवगाह ॥

(ग्रन्थ भावसति)

नये पुराने आपुने, कवितु किये संजोग ।

सन संहस अरुध्यासठै कीनों उदधि वियोग ॥

(ग्रन्थ विधोग सागर)

सोरह सै इक्यानुवै ह फिगन वद येक ।

जानि कवि कीनी कथा करिकै ग्यान विवेक ॥

(ग्रन्थ बुधिसागर)

रतनमंजरी जान कवि भाषी विसवावीस ।

तवहिं सन्न यों कहत है येक सहस चालीस ॥

(कथा रतनमञ्जरी)

सोरह सै इक्यानुवे वरष, रतनावति वाँधी मैं हरष ।

अगहन वदि सातैं कहि जान, कथा संपूरन करयो बखान ।

(कथा रतनावति)

नाव धरयो वरिषा पुहुप, सुनि रीभक्त अलि प्रान ।

सन् सहंस सैतीस मैं कथा कथही यह जान ॥

(कथा पुहुप वरिषा)

द्वादस दिन में जान कवि, करी सुमिर जगदीस ।

तवहिं सनु यों कहत है, येकस सन् सत्तेइस ॥

(कथा कंवलावती)

संवत् १७०० में ग्रन्थ ‘सिंगार तिलक’, संवत् १६६७ में ‘रस कोप’ का निर्माण हुआ। अतः, निश्चित होना है कि कवि का स्थितिकाल सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से

लेकर अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ तक था। यही समय जहागीर से लेकर औरङ्गजेब के शासनकाल के अन्तर्गत भी आता है अतः कवि का उस समय स्थित होना सिद्ध हो जाता है।

कवि के स्थिति काल, पिता एवं भाई, गुरु तथा ग्रन्थ संग्रह के सम्बन्ध में अन्तर्माद्य के द्वारा इतना ही ज्ञात होता है।

कवि स्वभाव एवं योग्यता के सम्बन्ध में भी कुछ ज्ञातव्य बातों का संकेत इनमें मिल जाता है। कवि स्वभाव से विनीत एवं उतावला होते हुये भी अपनी उम्मत का गर्व रखता है। वह स्पष्ट कहता है :—

मुसलमान मन नवी न ध्यावै, मुसलमान क्यों नाम कहावै।

इसके अतिरिक्त कवि ऐसे प्रेमाख्यानों की रचना में अत्यधिक दक्ष था। वह दो-ढाई पहर से लेकर बारह दिन की अवधि तक में अपने ग्रन्थों को पूर्ण कर लेता था। अपनी लेखनी की शीघ्रगति की ओर उसने संकेत भी किया है। कवि ने एक स्थल पर अपने ज्ञान का परिचय भी दिया है। कंवलावती के आरम्भ में वह संस्कृत एवं प्राकृत की गुरुहता को चर्चा करके 'भाषा' में काव्य रचना करने का कारण स्पष्ट करता है। अतः बहुत सम्भव है कि कवि को संस्कृत एवं प्राकृत का भी ज्ञान रहा हो।

कवि जान रचित ग्रन्थ .

कथा रतनावती ग्रन्थ लैले मजनू, कथा कामलता की चौपाई, कथा कनकावती की चौपाई, कथा छविसागर, कथा मोहिनी, चन्द्रसेन राजा सीलनिधान की कथा चौपाई, कथा नल दमयन्ती, कथा कलावती, कथा रूपमंजरी, कथा पिजरपा साहिजादे वा देवल दे की चौपाई, कथा निरमल दे, कथा कलन्दर, कथा तमीम अन्सारी, कथा कामरानी, कथा अरदेसर णतिसाह की, कथा सुभटराई की, ग्रन्थ बुधिसागर, कथा कंवलावती, छीना, कथा पीतमदास, कथा देवलदेवी, कथा कौतूहली, कथा सतवन्ती, कथा सीलवन्ती, कथा कुलवन्ती, कथा बलूञ्चिया विरही, ग्रन्थ बारहमासा, सबडैया वा भूलनाह कवि जानकिते, पट्कृतु बखा, पट्कृतु पवंगम, धूँघटनासा, सिंगार सत, भावसत, विरह सत, दरसनामा, अलकनामा, प्रेमसागर, वियोग सागर, कंद्रपकलोल, भावकलोल, मानविनोद, विरही के मनोरथ, प्रेमनामा, रसकोप, शृङ्गार तिलक, रसतरंगिनी, चैनतनामा, सिपयन्य, मुधासिप, बुद्धिदायरु, बुधिदीप, सतनामा, वर्ननामा, उत्तमसवद, निपसागर, वंदनामा, जफरनामा, अनेकार्थ नाममाला, वाजनामा, कवूतरनामा, गूट ग्रन्थि, देमावली, वैदिक ग्पिनामा, पाहन परीक्षा।

ये ग्रन्थ 'हिन्दुस्तानी एन्डेडमी' में सुरक्षित हैं। इसके अनिर्दिष्ट कथा बुधिसागर की हस्तलिखित प्रति लेखिका के पास है तथा ग्रन्थ बुधिसागर, अलिफ सा की पैरी तथा कायम रामो, ग्रन्थों का उल्लेख श्री अग्रचन्द्र नाट्टा जी ने किया है।

कथा रतनावती

कथा सारांश :

अमृतपुरी नामक नगर के राजा का नाम जगतराइ था। उसका राज्य अत्यन्त समृद्ध तथा वह बहुत ऐश्वर्यशाली था किन्तु निस्सन्तान होने के कारण वह निरन्तर चिन्तित रहता था। एक बार चिन्ताग्रस्त होकर उसने बनवास ग्रहण करने का विचार किया। तभी उसके ज्योतिषियों ने कहा कि वे तीसरे दिन ग्रन्थों में खोजकर राजा के भविष्य की सूचना देंगे। तीसरे दिन ज्योतिषियों का उत्तर आशाजनक था। उन्होंने कहा कि उदैमान राजा की पुत्री जगरानी से विवाह करने पर तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा। हर्षित होकर राजा ने अपने मन्त्री जगजीवन को उदैमान के पास रत्न पदार्थ से सम्पन्न हाथी और ऊंट आदि की भेंट के साथ भेजा। दो माह पश्चात् जगजीवन जब वहाँ पहुँचा तो उदैमान ने उसका अत्यन्त सम्मान किया और राजा जगतराइ की इच्छानुसार, अपनी पुत्री को राजा के हेतु, मन्त्री के साथ भेज दिया।

ज्योतिषियों के कथनानुसार राजा के यथासमय पुत्र उत्पन्न हुआ तथा लगन देखकर ज्योतिषियों ने बताया कि इसे चौदहवर्ष के उपरान्त कष्ट भोगना पड़ेगा। इसके कारण अनेक मनुष्यों की मृत्यु होगी, तुमसे विछोह होने के बाद इसे अभीष्ट प्राप्त होगा। तत्पश्चात् यह सब सुखों का भोक्ता तथा राजा होगा। इसी समय मन्त्री जगजीवन के यहाँ भी एक पुत्रोत्पन्न हुआ। दोनों का नाम क्रमशः 'महिमोहन' तथा 'उत्तिम' रक्वा गया।

राजा और मन्त्री के पुत्र साथ रहते थे। यथासमय राजोचित शिक्षा राजकुंवर को मिली। राजकुंवर जब चौदह वर्ष का हो गया, तब राजा ने एक दिन कुंवर तथा मन्त्री-सुत दोनों को बुलाया और राजपुत्र को एक जामा तथा मुद्रिका दी और कहा कि इन दोनों को अत्यन्त संभाल कर रखना क्योंकि मुझे यह नवी सुलेमान ने अत्यन्त प्रेमपूर्वक दी हैं। उत्तिम को भी राजा ने सरपाव देकर विदा किया।

मोहन को रात्रि में नींद नहीं आई। वह बार-बार उस जामे को ही देखता था। उसी जामे पर चित्रित एक चित्र को देखकर महिमोहन उस पर आसक्त तथा विरह पीड़ित होगया। पुत्र की व्यथा से पीड़ित होकर राजा ने वैद्योपचार का विधान किया। कोई लाभ न देखकर राजा ने उत्तिम को भेद लेने भेजा। उसने सब भेद जानकर राजा को सूचना दी। राजा को जामे के चित्र की कथा याद आई और वह उस चित्र की नारी रतनावती की उपलब्धि अलभ्य समझ कर अत्यन्त चिन्तित हो गया। उसने बताया कि जब यह जामा और मुद्रिका देने सात अम्बरार्यों मेरे पास आई थी तब मैंने भी साश्चर्य पछा था कि क्या यह केवल चित्र है या किसी सत्य का प्रतिबिम्ब है।

तब उन अप्सराओं ने कहा कि फुलवारी नामक नगर के राजा सूरज की पुत्री रतनावती का यह चित्र है। यह अत्यन्त श्रेष्ठ अप्सरा है तथा इसका केवल नाम सुना है, ज्ञात नहीं कि वह कहाँ और कैसी है ?

राजा ने कुंवर को इस अलम्ब्यता की सूचना न देकर अनेक खोजियों को भेजा किन्तु उन्हें कहीं कोई पता न लगा। लोगों के इस प्रकार असमर्थ हो जाने पर कुंवर स्वयं पिता से आज्ञा लेकर रतनावती की खोज में निकल पड़ा। राजा ने अर्ध लाख व्यक्तियों का समूह कुंवर के साथ कर दिया जिसमें सभी प्रकार के गुनी कलावंत थे। उत्तम तथा अन्य सप्त भोपाल उसमें प्रमुख थे। नौकररूढ़ होकर ये सब रतनावती की खोज में चल दिये। सर्व प्रथम कुंवर चीन देश पहुँचा। वहाँ के चित्रकारों से रतनावती का कोई पता न चला, वह चित्रपुरी की ओर चला। वहाँ भी कुछ स्पष्ट सूचना न प्राप्त हुई किन्तु वहाँ के चित्रकारों ने कहा कि यदि कुंवर वन में जाकर वहाँ अवस्थित एक वृद्ध से पूछेगा तो तत्त्वदर्शा होने के कारण वह सब कुछ बता देगा। किन्तु दो सौ सत्तर वर्ष का वह वृद्ध भी रतनावती के बारे में कुछ न बता सका और उसने कुंवर से 'रूपदेश' जाने को कहा और साथ ही यह भी बता दिया कि वहाँ मार्ग में अत्यन्त कष्ट है।

कुंवर महिमोहन को रतनावती से मिलने की तीव्र चाह थी अतः वह कष्ट और विघ्नों की परवाह न करके आगे बढ़ा। मार्ग में तूफान आने से नाव फट गई। पचास हजार व्यक्ति डूब गये, तथा कुंवर, सप्तभूपाल एवं उत्तम से विरुद्ध गया।

कुंवर उत्तम के वियोग में अत्यन्त दुखी होकर आगे बढ़ा, और किसी 'जागी' के हाथ में पड़ गया। जागी कुंवर को अपने घर ले गया। वहाँ उसकी स्त्री कुंवर पर मोहित हो गई। कुंवर के विरोध करने पर उसने उसे कष्ट देना प्रारम्भ किया। एक बार जबकि 'जागिन' के कथनानुसार, सप्त भूपालों के साथ कुंवर वन में लकड़ी बीनने गया ये सब वहाँ से भाग निकले। किन्तु उनमें से पाँच को मगर ने निगल लिया और मोहन फिर स्वानान प्रेत, पंछी, अप्सरा, दानव, दानवी, चमत्कार युक्त पत्थर तथा घोड़ा आदिसे मिला और कई वर्ष इन्हीं के चक्कर में भटकता और दुःख उठाता रहा। अनेक कष्ट उठाने के बाद कुंवर की ख्वाजा खिज़्र से भेंट हुई जिन्होंने कुंवर पर दया करके उसे फिर दोनों भूपाल मित्रों के पास वाग में पहुँचा दिया।

कुंवर इसी प्रकार अनेक कौतुक देखता और भटकता हुआ भ्रमण करना था कि उसे एक महल में दैत्य के द्वारा नजरबन्द की हुई पद्मिनी से भेंट हुई। दोनों ने एक दूसरे से अपना हाल कहा और पद्मिनी ने रतनावती का पूरा पता देकर कहा कि वे दोनों घनिष्ठ मित्र हैं।

कुंवर ने सयान चतुराई से दैत्य का विनाश करके पद्मिनी को वहाँ से छुड़ाया और सिहल की ओर प्रस्थान किया। सिहल में कुंवर का अत्यन्त सम्मान हुआ और पद्मिनी ने उसे 'रतनावती' का दर्शन दिखाने का वादा किया। संयोगवश उसे वहाँ अपना मित्र उत्तम भी मिल गया जो स्वयं भी कुंवर की ही भाँति भटकता और कष्ट उठाता रहा था।

उसकी कथा को संसार में अद्वितीय कहा। तभी 'हसन' नाम का उनका मन्त्री हंस पड़ा। तब महमूद ने उसकी और उन्मुख होकर कहा कि वह यदि इमसे सुन्दर कथा उसे नहीं सुनायेगा तो वह उसे मंत्रीपद से न्युत कर देगा। 'हसन' ने सातों द्वीप में दूत भेजे, किंतु उन्हें कहीं सफलता नहीं मिली। एक दिन रूम में जहा अनेक पंडित निवास करते थे एक 'महागुनीराय' नामक पंडित मिला जिसने एक हजार सुहरं लेने पर कथा कही। इस कथा का भेद वही समझ सकता है, जिसे हृदय में ज्ञान हो, अन्यथा मूर्ख तो केवल उसे 'बतकही' समझता है^१।

इस प्रकार उन महागुनीराय के मष्तिष्क में उद्भूत यह कथा महमूद गजनवी की राजसभा में आई। यह कथा सब कवियों के मन में घर कर गई और उन कवियों ने इसे नज्म और नसर के बंध में बाँधकर सुनाया। यह कथा फिर हिंदुस्तान भी आई और दिल्ली सम्राट जहागीर ने इसे सराहा। कवि जान ने भी इसे सुनकर भाषाबन्ध किया, तथा इसे भारतीय नामालंकारों से विभूषित कर भारतीय आवरण प्रदान किया। यही इस कथा की कथा है जिसका वर्णन कवि जान ने किया है।

जहागीर बादशाह की रुचि की चर्चा करके कवि ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इसे भाषा बद्ध करने के पूर्व ही यह कथा जनप्रिय हो चुकी थी। सरल भाषा में अत्यन्त मनोहर विषय का प्रतिपादन ही इस कथा की विशेषता है। इस कथा में चमत्कार तथा अलौकिक पात्रों और आश्चर्यमयी घटनाओं का आधिक्य है। कथा का महत्व सामाजिक दृष्टिकोण से अधिक है। राजा की जीवन चर्या, उसकी शिक्षा, दीक्षा, विवाह सम्बन्ध, मार्ग की कठिनाइया, अनजाने व्यक्तियों का अविश्वास आदि ऐसी बातें हैं जो उस समय की परिस्थितियों का परिचय देती हैं। कथा में कौतूहल की सृष्टि आश्चर्यजनक घटनाओं, जादू के घोड़े, परियों एवं तरह तरह के जीव जन्तुओं के द्वारा ही हुई है। वर्णनात्मक स्थल अधिक हैं। भावात्मक स्थलों का अभाव है।

कथा पुहुपवरिषा

परम्परा के अनुसार इसमें भी कवि ने अलख स्तुति, मुहम्मद की प्रशंसा, चार मीत वर्णन तथा शाहेवक्त शाहजहा का वर्णन करने के उपरान्त कथा आरम्भ की है। इस कथा को लिखने के पूर्व कवि सात कहानिया लिख चुका था। संवत् १६८५ में श्रावणमास की प्रथम पंचमी को कथारम्भ की गई।

१ भेद बात को समझें मोह, ग्याल जाह के हिरटे होड ।
सुरप आगे कहियै बात, बहु जानत है वाजे बात ॥

कथावस्तु :

चौहान वंशीय सिरीनगर के प्रतापी सम्राट का नाम भूपाल था, तथा पार्वती नामक अपनी पटरानी से वह अत्यन्त प्रसन्न था। अन्य कथाओं की भाँति इसमें भी दम्पति पुत्र वियोग से अत्यन्त व्याकुल थे। दान पुण्य के पश्चात् उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके गुणों के आधार पर ज्योतिषियों ने उसका नाम पुरुषोत्तम रक्खा। एक बार जब राजकुंवर राजसभा में बैठा नाद और संगीत में मग्न हो रहा था, तभी एक अनेक वर्षों और गुणों से विभूषित पत्नी उसे दृष्टिगोचर हुआ। कुंवर उस पत्नी को पाने के लिये अत्यन्त व्याकुल हुआ; किन्तु पत्नी भी असाधारण गुणसम्पन्न था। 'जाल' में रक्ये गये दाना चारे ने उभे मोह न था। जब पत्नी को पकड़ने की तत्परता में राजकुंवर का मुकुट गिर गया तभी वह पत्नी वशीभूत हो सका।

कुंवर दिन रात उसी पत्नी की देखरेख में रहता था। एक बार वह पत्नी बोला कि मैं भाग्य की अत्यन्त मन्द हूँ तभी तो छत्रपती मेरी सेवा करता है और मैं उसका प्रतिदान नहीं कर पाती।

उसके दुःखपूर्ण वचन सुनकर राजा ने उसकी कथा सुननी चाही और अत्यन्त सौच संकोच के पश्चात् पत्नी ने इस प्रकार कहना आरम्भ किया।

प्रेमपुरी में जगमन नामक राजा राज्य करता है। उसकी रानी अनिन्द्य सुन्दरी 'रूपनिधि' है, मैं उन्हीं की पुत्री सुकेसी (सुवासी) नाम की हूँ। अब आगे पत्नी होने की बातों को सुनो। कंकनपुरी नगर का राजा पंवार गोत्र का उदय सिंह है, उसकी रानी का नाम दुर्गावती तथा पुत्र का नाम सुरपति है। एक बार उसी कुंवर की राजसभा में सुन्दर नारियों की चर्चा होने लगी। अपनी अपनी सम्मति के अनुसार कोई पद्मिनी कोई इन्द्राणी के गुण गाने लगा। एक वृद्ध पुरुष ने सुकेसी के रूप का वास्तविक वर्णन किया।

उसका रूप वर्णन सुनकर कुंवर अत्यन्त शिथिल हो गया और उसके हृदय में विरह की चिन्तनी सुलग गई। विरह रोग की श्रौषधि करने में सभी असमर्थ रहे। राजा ने अत्यन्त चिन्तित होकर सुकेसी की खोज की, किन्तु कोई उसे नहीं जानता था। राजकुंवर अपने एक वचन के मित्र महानन्द को साथ लेकर सुकेसी की खोज में चला। इसी प्रकार खोज में एक वर्ष बीत गया, समुद्र में कुंवर अपने मित्र महानन्द से बिछुड़ गया, किन्तु कुंवर ने हिम्मत न हारी। वह थकेला दृढ़ता फिरा। एक दिन एक धार जगल में उमने एक पलंग पर एक स्त्री को सोते हुए देखा। उस स्त्री ने अपनी दुःखकथा कुंवर में नहीं कि उसके पिता का चतुर्भुज नाम है तथा भाता को गिरिजा करने है। निरमल दे, और परमल दे, नामक हम दो उनकी पुत्रियाँ हैं। हम अम्बरा गोत्र को हैं। निरमल दे ने उम सुकेसी का पना बनाने का वादा करके आगे बढ़ने में रोक दिया। उसने कहा, कि एक बार सुकेसी मेरी नां दूध मिला रही थी तभी एक स्त्री आई और मेरी बान परमल दे को दूध मिलाने लगी। मेरी भाता के पृष्ठने पर उसने बताया कि मैं प्रेमपुरी की रत्नरानी नारिनी हूँ।

नामक अप्सरा हूँ। मेरी पुत्री का नाम सुकेसी है, तबसे मेरी माता और वह मित्र हैं। पूरे एक वर्ष के पश्चात् वह अपनी पुत्री को लेकर आती है और कई दिन रहती है। यदि तुम नगर चतुरपुर जाओ तो वहाँ 'परमल दे' को पाओगे। वह मेरा समाचार और संदेश पाकर सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करेगी। कुंवर ने कहा कि मैं तुम्हें इस प्रकार यहा छोड़कर नहीं जाऊँगा। उस दानव को मारकर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। युद्ध में दानव मारकर निरमल दे को लेकर कुंवर आगे चला। चतुरपुरी के पास आकर निरमल दे ने सदेशा भेजा।

माता और पुत्री मिलकर अत्यन्त हर्षित हुईं। निरमल दे ने अपनी माता से सुकेसी को बुलाने के लिए कहा। वहीं चतुरपुर में पुरुषोत्तम की भेंट अपने मित्र महानन्द से भी हो गई।

एक दिन फुलवारी में निरमलदे ने सुकेसी को बुलाया और सुकेसी के पछूने पर उसने सारी कथा कह दी। सुकेसी को कुंवर की व्यथा सुनकर दुख हुआ। कुंवर को देखकर सुकेसी के हृदय में भी कुंवर के प्रति प्रेम जाग्रत हुआ। कुछ लाज संकोच के बाद दोनों ही निश्चित होकर प्रेममग्न होगये। देर होने पर सुकेसी की माता आई और उसने निरमल दे तथा परमल दे को डाटा। अप्सरायें उन दोनों को अलग अलग देशों में ले गईं। सुकेसी कुंवर के विरह में अत्यन्त दुखी रहने लगी तब उसकी माता ने लोक-लज्जा वचाने के लिये पत्नी बना दिया।

एक साल हो गया, मैं इसी प्रकार प्रियतम की खोज में भटक रही हूँ तुम्हें देखकर कुछ भ्रम व मोह उत्पन्न हो गया और मैं तुम्हारे जाल में आगई।

पुरुषोत्तम ने उसे धर्म की वहन बनाया और कहा कि वह उसे उसके प्रिय से मिलाने का प्रयास करेगा। यही निश्चय करके कुंवर सिर पर पिंजड़ा रखकर सुरपति की खोज में चला। दो बरस के पश्चात् वह प्रेमपुरी पहुँचा। उसकी माता अपनी पुत्री को पाकर अत्यन्त हर्षित हुई। उसने उसे फिर अप्सरा बनाकर उसका व्याह सुरपति से करना चाहा। किन्तु सुरपति का कोई पता न होने के कारण निरमल दे के पास खबर भेजी गई महानन्द और निरमल दे का भी उसका कोई पता न था, किन्तु उसी समय संयोगवश सुरपति भी वहा आगया।

इस प्रकार पुरुषोत्तम की परोपकारी भावना ने सुकेसी और सुरपति का संयोग करवा दिया। इसी समय पुरुषोत्तम और निरमल दे, तथा महानन्द और परमल दे का भी प्रेम होने के कारण विवाह संबन्ध होगया। इस प्रकार सुख में इस कथा का अवसान होता है।

पुहुप वरिषा की कथा को सुनकर अलि रूपी प्राण मुग्ध हो जाते हैं।

विशेषतायें .

कथा पुहुपवरिषा का कथानक मभक्तकृत 'मधुमालत' से बहुत साम्य रखता है। जिस प्रकार 'मधुमालति' की मा ने उसे पत्नी बना दिया था, उसी प्रकार सुकेसी की मा ने उसे

पत्नी बना दिया। मनोहर को मार्ग में जिन परिस्थितियों के मध्य 'प्रेमा' मिली थी, उन्हीं परिस्थितियों के मध्य 'निरमलदे' और सुरपति का मानात्कार हुआ। सम्पूर्ण कथा की कथन शैली में अन्तर है, तथा मधुकर के मित्र की भाँति सुरपति के मित्र महानन्द के विवाह की चर्चा नहीं है, अन्यथा कथानक में बहुत साम्य है।

रचनाकाल :

कथा पुद्गुपवरिषा की रचना कवि ने 'शाहजहाँ' के शासन काल में की।

छन्द :

पाँच चौपड़े के बाद एक दोहे का क्रम निर्वाह है।

रस :

इसमें शृंगार रस की ही प्रधानता है।

कथा में आये हुए नखशिख, पनघट, बारहमासा आदि वर्णन रुचिगत हैं किन्तु कवि ने कथा को सुखान्त बनाने के साथ ही 'परोपकार' की महिमा का गुणगान भी किया है जो उसकी विशेषता है :

इंद्रिया तिहं पुरवे करतार ।

जाते हुवे आवे उपगार ॥

काँऊ थिर नाहिन रहे जो उपज्यो सँमार ।

अमर रहत है जगत में जान मुजस उपकार ।

रीतिकालीन परम्परा का भी कवि पर प्रभाव है। एक दोहा इस प्रभाव को स्पष्ट कर देगा।

जाके अंग-संग लाल है, सुफल वई जग नारि ।

विरहनि वपुरी लागि है ज्यों फागुन तरमारि ।

कथा रतनमञ्जरी

इस कथा के प्रारम्भ के सात पृष्ठ नहीं हैं। प्राग्ज कथा का आरम्भ नरसिंह वर्णन में होता है। रतनमञ्जरी नामक एक सुन्दरी नारी को, मधुसूदन नामक मूर्खराज के कुंवर ने स्वप्न में देखा। चेत आने पर कुंवर प्रेम बाधा में पीड़ित हो गया। अन्ततः

उपचार के पश्चात् कुंवर ने अपनी माता से अपने हृदय की व्यथा कही। माता-पिता ने संगीत, अध्यात्म आदि सभी प्रकार से कुंवर का मन बहलाने की चेष्टा की, किन्तु उसे किसी भी प्रकार शान्ति न प्राप्त होती थी। उसने एक चित्रकार से अपने मन में बसी स्त्री का चित्र खिचवाया और निरन्तर उसी को देखकर कालयापन करने लगा।

रतनमञ्जरी भी इसी प्रकार जागने पर अत्यंत दुखी हुई। उसने अपनी सखियों से अपनी व्यथा कही, और एक चित्र बनवाया जिसे देखकर चित्त में चैन रखती थी। माता-पिता के पूछने पर उसने सत्य न बताकर अपना दुःख छिपा लिया।

इधर कुंवर को एक पारधी ने बताया कि जंगल में बहुत से सिंह और गायें आई हैं। कुंवर शिकार करने गया और एक सोते हुये सिंह को उसने छोड़ दिया। इसी समय पारधी के हंकारने पर शेर जाग गया और कुंवर का घोड़ा भाग गया। कुंवर ने अत्यन्त साहस से कटार के द्वारा सिंह को मार डाला।

कुंवर ने अपने पिता के पास संदेश भेजा किन्तु पिता के आने के पूर्व ही कुंवर को एक पत्नी ले उड़ा। पिता ने पुत्र को न पाकर आत्मघात कर लिया, और रानी चन्द्रावती अत्यन्त दुःखित हो गई।

दो तीन सहस्र कोस चले जाने के पश्चात् कुंवर ने पत्नी के पैर छोड़ दिये किन्तु वहा उसे अपना कोई मित्र न दिखाई दिया। इसी प्रकार धूमते हुये उसे वहा एक बाग और उसके बाच में सुन्दर भवन स्थित दिखाई दिये और उनका स्वप्न से साम्य देखकर कुंवर अत्यन्त हर्षित हुआ। उसने निश्चय करके उस पत्नी को अपना गुरु मान लिया। यहीं पर गुरु की महिमा का भी वर्णन है।

कुंवर हर्षित हो वृद्ध के पीछे से तालाव के पास बैठी हुई रतनमञ्जरी का स्वरूप निहारने लगा। रतनमञ्जरी के सौन्दर्य को देखकर वह मूर्छित हो गया। रतनमञ्जरी ने उसे पकड़वा मंगाया और उससे पूछा कि किन प्रकार वह मार्ग की भूत प्रेत बाधाओं को पार करता हुआ यहां तक आ पाया है तथा उसका क्या परिचय है।

कुंवर ने बताया कि वह चंदपुरी के राजा अजयचन्द का प्रिय पुत्र मधुसूदन है, तथा उसने अपनी सारी स्वप्न और विरह की कथा कह सुनाई।

राजकुमारी अत्यन्त क्रोधित हुई और उसने उसे मृत्यु का भय दिखाकर भाग जाने को कहा किन्तु कुंवर भी अपने प्रेम में दृढ़ था। उसके प्रेम की दृढता देखकर राजकुमारी ने उसका प्राणाधार चित्र देखना चाहा। कुंवर के पास अपना ही चित्र देखकर राजकुमारी अत्यन्त हर्षित हुई। उसके माता-पिता से सखियों ने सारा समाचार कहा।

राजा को अत्यन्त हर्ष हुआ और दोनों का व्याह पुण्य नक्षत्र में निश्चित किया गया। दोनों का विवाह सुखपूर्वक समपन्न हुआ और आनन्द में दिन व्यतीत हो रहे थे

तभी एक दिन एक पत्नी को देखकर रतनमञ्जरी उस पर मोहित हो गई। कुंवर ने जैसे ही उसे पकड़ने का प्रयास किया कि पत्नी उसे ले उड़ा। रतनमञ्जरी विरह से पीड़ित हो अपने वस्त्र इत्यादि फाड़ने लगी।

पत्नी कुंवर को उड़ाकर उसी स्थान पर छोड़ आया जहाँ से उड़ा लाया था। कुंवर दुःख में वावला हो भटक रहा था कि तभी उसे एक जोगी दिखाई दिया जिसे देना ले वह जोग में निरत हो गया।

कुंवर जंगल जंगल भटक रहा था तभी एक रूपधारी देव उसे दृष्टिगोचर हुआ। कुंवर ने उसके कहने पर अपनी विरह से श्रोतप्रोत वीन बजाई जिसे सुनकर वह वशीभूत हो गया। मृग जंगल से आकर वहाँ एकत्र हो गये।

संगीत मुग्ध देव ने कुंवर का भेद जानकर उसका उपकार करने की इच्छा प्रकट की। उसे रतनमञ्जरी का पति जानकर देव अत्यन्त क्रोधित हुआ क्योंकि वह स्वयं रतनमञ्जरी का प्रेमी था जिसे उसने कई बार प्रणय याचना करने पर निराश किया था। उपकार का वचन देकर देव उसके प्रतिकूल कार्य न कर सका और उसने कुंवर से रातभर अपने यहाँ ठहरने को कहा, प्रातःकाल रतनमञ्जरी के निवासस्थान उदयपुरी की ओर प्रस्थान करना निश्चित हुआ।

रात्रि में उस देव ने कुंवर को उसी वन में छोड़ दिया जहाँ पत्नी उसे छोड़ आया था कुंवर विलाप करता हुआ फिर उसी मार्ग पर चल दिया। मार्ग में वही देव उसे फिर मिला, कुंवर के प्रणय प्रदर्शन पर उसने कहा कि रतनमञ्जरी उसके भाग्य में नहीं है। कुंवर प्रेम मार्ग पर अडिग रहा। उसकी इस दृढ़ता को देखकर देव अत्यन्त क्रोधित हुआ और उसने कुंवर को उठाकर पहाड़ में फेंक दिया।

एक दिन पहाड़ों में भटकते भटकते कुंवर को एक गुफा में एक सिद्ध मिला, कुंवर ने उसके पैर पकड़कर दया याचना की। सिद्ध ने बताया कि उदयपुरी का मार्ग अत्यन्त दुःसाध्य है अतः मैं तुम्हें दो वाण देता हूँ जो तुम्हें मार्ग प्रदर्शित करेंगे। कुंवर फिर आगे बढ़ा। मार्ग में वही देव फिर मिला जिसे कुंवर ने भस्म कर दिया तथा मार्ग में आने वाले अन्य विघ्नों को भी कुंवर ने उन्ही वाणों की सहायता से परास्त किया।

मार्ग में आने वाले राक्षसों को मारकर कुंवर ने उदयमान के भाँटे को मुक्त किया तथा उनके विचारानुसार एक वर्ष पश्चात् वे उदयमान के पशु जानने वाले थे कि उदयमान स्वयं वहाँ प्रागये और नीनों मिलकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। उदयपुरी आकर रतनमञ्जरी और कुंवर फिर सुगमपूर्वक रहने लगे।

कुंवर को अपने माता पिता की स्मृति आजाने पर विदा कराके घर की ओर चल दिया तथा अपनी माता से मिलकर वह सुखपूर्वक राज्य तथा कालयापन करने लगा ।

विशेषता :

कवि जान ने अपनी प्रेमकथाओं में आश्चर्य तत्व की योजना अधिक की है। कथा रतनमञ्जरी में भी देव, राक्षस, हाथी, दरवेश, अग्निबाण, पवनबाण आदि हैं। कथा संगठन एवं कथानक में कोई नवीन बात नहीं है। किन्तु 'देव' के चरित्र का चित्रण आदर्श हुआ है। कुंवर को सहायता का वचन दे चुकने के कारण उसने उसका कोई निष्पत्ति नहीं किया इससे अधिक एक राक्षस से और क्या आशा की जा सकती है।

छन्द :

पाच अर्द्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम है।

रस :

शृंगार रस प्रधान है।

अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा रतनमञ्जरी की अपनी विशेषता यह है कि कवि ने नखशिख वर्णन किया है। राग रागिनियों की चर्चा के साथ ही कवि ने गुरु, जीवन, जगत इत्यादि के सम्बन्ध में भी अपने विचार प्रगट किये हैं।

श्रव नैनन की सुनहु निकाई, षंजन वरन मोन चपलाई ।
कै संग भूलि पर्यो म्रिग छौना, कै कछु इन में टामन टोना ।

नेत्रों के वर्णन में इस प्रकार सभी प्रयुक्त उपमानों की योजना तो समझ में आती है, किन्तु कपोल के लिये कुकुम और ईशुर रचित होने की कल्पना उपयुक्त नहीं :

दोऊ कपोल अमोल सुहाये, कुकुम ईशुर घोरि बनाये ।

रतनमञ्जरी का सौन्दर्य अवर्णनीय है। रतनमञ्जरी के सौन्दर्य के लिये 'गिरा अनयन, नयन विनु वानी' (तुलसीदास) की भांति कवि जान को भी कहना पडा ।

नैननि कै रसना नहीं, वरनत रूप सुभाइ ।
रसना विन देखी कहै, तातै कही न जाइ ॥

इस नश्वर एवं माया विवश संसार में गुरु ही एकमात्र आधार है। उसके बिना सफलता प्राप्ति असंभव है। अपने इन विचारों को कवि ने कई स्थानों पर व्यक्त किया है।

गुर विन मारग कौन बतावै, को प्रीतम दरसन परभावै ।
कठिन पन्थ पुनि दुचित कुहेला, गुर किरपौ विन चलत न चेला ।

काम क्रोध तिसना लुवध, माया मोह जंजार ।
मारग चलि नाहिन सकै जो सिर परि यह मार ॥

गुरु विन को भेटै चित चिन्त, गुर विन कौन मिलावै मित ।

प्रेम मार्ग में सफलता उमी को मिलनी है जो 'आपे' एवं 'अहं' का त्याग कर देता है ।

जाप कीजिये आप तजि, तो पिय पड़ेये आप ।
जब लै आपु न दूर है, कौन काज को जाप ।

अपनी इन विशेषताओं के अतिरिक्त कथा 'रतनमन्जरी' में भी वर्णन प्रसंग परम्परागत हैं ।

कथा छीता

कथा-सारांश

देवगिरि के राजा देव की अपार रूपराशि सम्पन्न एक कन्या थी । उसका नाम छीता था । राम नाम के एक राजा को छीता के रूप सौन्दर्य को देखने की इच्छा हुई । अपनी इमी इच्छा की पूर्ति के हेतु वे धोती धागा धारण कर के और तिलक लगा के एक विप्र के वेप में देवगिरि में राजा देव के पुरोहित के यहाँ रहने लगे । कुछ दिन बाद राजा राम को पुरोहित ने पहचान लिया और राजा राम की इच्छा पूर्ति में सहायता देने का वचन दिया ।

छीता को एक दिन पूजा करने के अवसर पर राजा राम ने देखा और वह उसके सौन्दर्य से अत्यन्त प्रभावित हुआ । राजा राम ने अपने नगर को अपना सब समाचार कहला भेजा, और वहाँ से अपने स्वजनों और परिजनों को पूर्ण सज-सज के साथ बुला भेजा । उन लोगों के आ जाने पर उसने अपने को प्रकट कर दिया तथा राजा देव में उनका इस रूप में अत्यन्त स्वागत किया । राजा राम ने अपनी इच्छा राजा देव पर प्रकट कर दी । राजा देव को सम्बन्ध स्वीकार था और उन्होंने तीन साल की मगाई कर दी । राजा राम अपने देश को लौट गये और वहाँ किसी प्रकार लाख युग के मगान इन तीन वर्षों को मारने लगे ।

इधर राजा देव की यह इच्छा हुई कि वह अपनी पुत्री और जमाता के लिये एक चित्र महल बनवाये, अतः उसने राजा अलाउद्दीन के यहाँ से अच्छे अच्छे चित्रकारों को बुलवाया। चित्रकारों ने अत्यन्त सुन्दर चित्र बनाये, किन्तु संयोगवश उन्होंने छीता को भी देख लिया और उसका एक चित्र बनाकर अलाउद्दीन के पास भेज दिया। अलाउद्दीन उस चित्र से प्रभावित होकर छीता के सौन्दर्य का साक्षात् करने के हेतु देवगिरि आया। राजा देव के विरोध करने पर युद्ध छिड़ गया। गढ के न टूट सकने पर राघव चेतन के परामर्श के अनुसार बादशाह अपने दूत के चाकर के वेश में गढ में पहुँच गया।

छीता जब उद्यान में पूजा करने आई तो उसने बादशाह को पत्तियों पर गुलेल फेंकते समय पहचान लिया। उसने बादशाह को पकड़वा मंगाया और उसे समझाकर दिल्ली लौट जाने को कहा। वह एक प्रकार से लौट ही चला था, कि राजा देव की, उसके बचे हुए लोगों को लूट लेने की इच्छा जानकर, वह फिर क्रुद्ध होकर लौट आया और गढ घेर लिया। इस बार उसने गढ के भीतर तक एक सुरंग खुदवाई और उद्यान में उमका एक आदमी रहने लगा।

एक दिन छीता के वहाँ आने पर उसने छलपूर्वक उसे दिल्ली पहुँचा दिया। अलाउद्दीन ने छीता को प्रसन्न करने के अनेक प्रयास किये किन्तु वह उदासीन रही। एक दिन उसने अपनी सगाई की बात अलाउद्दीन से कही।

उधर राजा देव ने छीता के अपहरण का समाचार राजा राम से कहला भेजा। वह अत्यन्त दुखी होकर जोगी का वेष धारण करके दिल्ली पहुँचा। उस जोगी का समाचार जानकर अलाउद्दीन ने उसे अपने दरबार में बुला भेजा। उसकी बीन सुनकर छीता आँसू वहाने लगी जिनसे उसकी भस्म धुलने लगे।

बादशाह प्रेम का प्रभाव तथा प्रगाढता देखकर अत्यन्त प्रभावित हुआ और उसने छीता को राजा राम के साथ पुत्रीवत् विदा कर दिया।

विशेषता :

छीता कथा की विशेषता उसके पात्रों के चरित्र चित्रण में है। राघव चेतन और अलाउद्दीन ऐतिहासिक पात्रों का वर्णन 'रतनसेन पद्मावती' कथा में भी आ चुका है। राघव चेतन का वर्णन एक मेदिन्ये के रूप में हुआ है। अलाउद्दीन के चरित्र को जो कवि ने उत्कर्ष प्रदान किया है, वह कवि की अपनी मौलिकता है। सुन्दर रूप को देखने की चाह स्वाभाविक है। राजा राम भी छीता के सौन्दर्य-दर्शनार्थ देवगिरि गये थे और अलाउद्दीन भी, किन्तु राजा देव की कुमंत्रणा की सूचना पाकर उसने छीता का अपहरण करवाया। छीता के शील एवं चरित्र की दृढता से प्रभावित होकर, तथा उसके प्रेम की गंभीरता का परिचय पाकर, अलाउद्दीन ने पुत्रीवत् छीता को विदा कर दिया। अलाउद्दीन के चरित्र को ऐसा उत्कर्ष कहीं प्राप्त नहीं हुआ होगा।

दस चौपड़्यों के बाद एक दोहे की योजना कवि ने की है ।

कथा कामलता

कवि जान ने यह कथा 'चौपड़ी' छन्द में लिखी है । हंसपुरी में रसाल नामक एक राजा रहता था । उसके मंत्री का नाम बुधवन्त था । एक दिन रात में राजा ने अपने को एक सुन्दरी से मिलते देखा । वह अभी स्वप्नावस्था में ही था कि प्रधान ने आकर जगा दिया । राजा का क्रोध तथा विरहाकुलता देखकर प्रधान ने राजा के द्वारा वर्णित छवि के अनुसार एक चित्र बनवा कर मार्ग में रख दिया । इस प्रकार चित्र को मार्ग में रखने का कारण था कि कोई पथिक संभवतः चित्र को देखकर वास्तविकता का पता दे सके । एक दिन एक पथिक ने उस चित्र को देखकर बताया कि वह चित्र सुन्दरपुरी की शासिका कामलता का है, किन्तु वह व्याह या पुरुष मैत्री के नाम से भी चिह्नी है ।

इस समाचार को पाकर बुधवन्त और रसाल सुन्दरपुरी की ओर चले । वहा भी बुधवन्त ने वही उपाय सोचा । राजा रसाल का एक चित्र बनवा कर मार्ग में रख दिया कामलता उस चित्र को देखकर मोहित हो गई और उसने रसाल को बुलवा मेजा । अन्त में उन दोनों का विवाह सम्बन्ध हो गया । जान कवि की अन्य रचनाओं की भाँति यह भी सुखान्त है ।

इस कथा के आरम्भ में ही कवि ने ब्रह्म की स्तुति चित्रकार रूप में की है । उसके निर्मित चित्रों की प्रशंसा ही कवि का उद्देश्य सा है । कथा में सुन्दरचित्रों का प्रभाव स्पष्ट है । रानी कामलता, राजा रसाल के सुन्दर चित्र को देखकर मोहित हो गई । उस अनुपम चित्रकार तथा उसकी सुन्दर सृष्टि की प्रशंसा ही कवि का उद्देश्य शायद होता है । इसमें पाँच चौपड़ के बाद एक दोहा का क्रम है ।

कथा कनकावती

अपनी अधिकांश कथाओं के आरम्भ में जान कवि ने कथा की प्राचीनता की दुहाई दी है । इस कथा के सम्बन्ध में भी यही निर्देश करके प्रेम प्रभाव के स्पष्टीकरण के हेतु ही यह कथा-वर्णन करता है । भरथ नामक एक राजा अपनी राजधानी 'भरथनेर' में रहता था । राजा के कई रानिया थीं किन्तु किसी के भी सन्तान नहीं थी । अनेक धार्मिक

अनुष्ठानों के पश्चात् राजा के एक अत्यन्त सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम 'परमरूप' रखा गया। परमरूप ने स्वप्न में एक अर्निद्य सुन्दरी को देखा और उसके विरह में व्याकुल हो गया।

कुंवर की व्याकुलता देखकर उसकी सान्त्वना के लिये उसी सुन्दरी का चित्र बनवाया गया। एक विप्र ने उस चित्र को देखकर बतलाया कि वह चित्र सिंहपुरी के राजा की पुत्री कनकावती का है जिसका व्याह बिना जगपति राय की आज्ञा के किसी से नहीं हो सकता तथा सिधपुरी भरथनेर से केवल ४०० कोस की दूरी पर है।

इस सूचना को पाकर, परमरूप को कनकावती का परिचय तथा प्राप्ति का साधन भी ज्ञात हो गया। अतः कुंवर ने प्रधान से सेना के साथ चलने को कहा तथा वह स्वयं जोगी का वेष धारण करके चल दिया। उधर ब्राह्मण ने जाकर कनकावती के समक्ष 'परमरूप' का सौन्दर्य वर्णन करके उसके हृदय में परमरूप के लिये अनुराग उत्पन्न कर दिया।

भरथराय ने पहले अपने मन्त्री के द्वारा जगपतिराय के पास कनकावती को पुत्रवधू रूप में पाने का प्रस्ताव भेजा किन्तु जब वह सम्मत नहीं हुआ तो दोनों में युद्ध आरम्भ हो गया। युद्ध में भरथराय हार गया तथा परमरूप को एक सन्यासी अपने साथ जङ्गल में ले गया।

विप्र ने भरथराय तथा कनकावती दोनों को धैर्यपूर्वक जीवन बिताने के लिये कहा और वह स्वयं परमरूप को ढूँढने के लिये निकला। उसे सन्यासी के आश्रम में पाकर विप्र ने उस दिन कनकावती और परमरूप के मध्य सन्देशवाहक का कार्य करना आरम्भ कर दिया। फलस्वरूप दोनों का प्रेम प्रगाढतम होता गया। उधर सन्यासी ने कुंवर को 'कच्छप निधि' नाम की विद्या सिखला दी जिसको पाकर एक दिन कुंवर अदृश्य होकर विप्र के साथ सिधपुरी जा पहुँचा। वहाँ विप्र ने उन दोनों का विवाह सम्बन्ध सम्पन्न करवाया तथा परमरूप और कनकावती आनन्दमग्न रहने लगे। एक दिन भरथनेर का स्मरण हो आने पर कुंवर कष्टसाध्य मार्ग पार करके स्वदेश पहुँच गये।

जब राजसिध को पुत्री का इस प्रकार अदृश्य होना ज्ञात हुआ तो उसने जगपतिराय से भव समाचार कहला भेजा। जगपतिराय ने क्रुद्ध होकर भरथनेर पर आक्रमण कर दिया और एक सुरङ्ग के सहारे नगर के आधे भाग को ध्वंस कर दिया। नगर के लोग पानी में वहने लगे। कुंवर परमरूप और रानी कनकावती भी इन्हीं में थे। कुंवर वहसा हुआ जगराय तथा कनकावती जगपतिराय को प्राप्त हुईं। दोनों ने उन्हें पुत्र और पुत्रीवत् ग्रहण कर लिया, दोनों विरह में तड़पा करते थे कि संयोगवश जगराय ने जगपतिराय को इन दोनों प्राप्त हुये पुत्र और पुत्री का व्याह करने के लिये लिखा। इस प्रकार ये विरही फिर मिल गये। कथा का अन्त अन्य कथाओं की भाँति सुखान्त ही है।

ग्रंथ बुधिनागर या कथा मधुकर मालती

ग्रन्थ के नाम से प्रेम कहानी का आभास नहीं होता किन्तु है यह प्रेम कहानी ही ।

अयोध्या नगर में रतन नामक एक सौदागर का पुत्र मधुकर रहता था जो नित्य गुरु के पास पढ़ने जाता था । एक बार उसको दृष्टि चटसार को जाती हुई लड़कियों में से मालती नामक एक लड़की पर पड़ गई जो अतीव सुन्दरी थी । मधुकर तथा मालती दोनों ही एक-दूसरे पर मोहित हो गये । मधुकर ने पिता से बहाना करके अकेले पढ़ने में मन न लगने के कारण चटसार पढ़ने जाने की आज्ञा पा ली । अब मधुकर और मालती दोनों साथ हो गये । मालती की यौवनावस्था देखकर उसके पिता ने उसे घर पर ही शिक्षा देनी चाही और चटसार के गुरु से उसके लिये उपयुक्त अध्यापक मागा । गुरु ने इस कार्य के लिये मधुकर को ही नियुक्त कर दिया ।

मधुकर के पिता को इन दोनों के प्रेम का पता लग गया और वह मधुकर को लेकर विदेश चला गया । फलस्वरूप दोनों प्रेमियों को विरह दुख भोगना पड़ा । इधर मालती को किसी विलायत के बादशाह ने एक सहस्र मुद्रा देकर खरीद लिया । मालती उस बादशाह के पास से उसके वजीर के पास चली गई और विरहिणी के समान कालयापन करने लगी ।

मधुकर का पिता वहीं विदेश में मर गया और मधुकर अपनी माता के पास लौट आया तथा मालती की खोज करने लगा । गुरु के द्वारा उसे पता लगा कि मालती बेच दी गई है । वह खोजता हुआ वजीर के यहाँ भी पहुँचा । वहाँ उसे पता लगा कि वह वजीर की चेरी उसके यहाँ नहीं रहना चाहती थी । इसी अपराध पर वह उसे मारना चाहता था किन्तु बादशाह द्वारा उसे अपने यहाँ बुला लेने के कारण वह मारी नहीं जा सकी । मालती ने बादशाह के यहाँ रहने से भी इन्कार कर दिया और अनेक प्रलोभनों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । तब बादशाह ने क्रोधित होकर उसे मरवा डालने का विचार किया, किन्तु असफल रहने पर उसने मालती को तुर्किस्तान के छत्रपति के हाथ बेच दिया ।

मालती को लेकर छत्रपति तुर्किस्तान जाने लगा । किसी प्रकार बहाना करके मधुकर भी उसके साथ तुर्किस्तान पहुँच गया । वहाँ छत्रपति ने मालती को अपनी लड़की की सेवा में रक्खा । मालती के सौन्दर्य पर छत्रपति का दामाद मोहित हो गया । मालती ने उसका तिरस्कार किया । फलस्वरूप उसने क्रोधित होकर आधी रात के समय मालती को सन्दूक में बन्द करवा के पानी में फिक्वा दिया । मधुकर भी हर तरह मालती के संकटों में साथ था । मालती के सन्दूक को एक अरमनी ने पानी से निकाल लिया और उसे अपने साथ नाव पर ले चला । सन्दूक से मालती के निकलने पर अरमनी ने उसे

करने को कह कर भीतर सोने चला गया। जब यह दम्पति धो रहे थे तभी सुरपति ने अपनी सभा में चरों से कहा कि एक अत्यन्त रूपमान दम्पति को मेरी 'इन्द्रसभा' देखने के लिये ले आओ और चर इन दम्पति को अत्यन्त रूपवान देखकर उठाकर इन्द्रसभा में ले गये। वहा अनेक प्रकार के वाद्य राग रागनियों को सुनकर कुंवर विमोहित हो गया। सभा समाप्त होने पर इन्द्र के चर उसे फिर धौराहर पर छोड़ गये। दूर से एक देव इन दम्पति को देख रहा था। वह कंवलावती को उठा ले गया। कुंवर जब नींद से जागा तो कंवलावती को न पाकर अत्यन्त पछताने लगा। उसने तोते को कंवलावती की खोज में भेजा किन्तु कई दिनों तक तोता लौटकर नहीं आया। तब कुंवर जोगी होकर कंवलावती की खोज में बन बन घूमने लगा; इस प्रकार घूमते हुये उसे वन में एक मस्त हाथी मिला वह कुंवर को मारने दौड़ा तब वह पेड़ पर चढ़ गया। हाथी ने पेड़ उखाड़ लिया। भगवान से प्रार्थना करने पर हाथी पागल हो गया और भाग चला। इस श्रापति से छुटकारा पाकर अभी वह सास ही ले रहा था कि उसे एक साप अपने आगे और एक पीछे दिखाई दिया। एक साप आपस में लड़ मरा। एक को पेड़ की जड़ से निकल कर एक न्योले ने मार डाला। इसी समय एक नाहर कुंवर के ऊपर दौड़ा और भगवान ने चक्र से उसकी गर्दन अलग कर दी। इसी प्रकार उसे अनेक भूत, प्रेत, पिशाच, आदि विपत्तियों का सामना करना पड़ा। अन्त में अपनी इस विपत्ति और दुख से पूर्ण असफल यात्रा से थक कर, वह बैठा था कि एक पत्नी उसे ले उड़ा, किन्तु आगे बैठे गरुड़ ने उस पत्नी को मार भगाया और शरणागत को न मारने का आश्वासन देकर उसे गुरु के पास ले गया। गुरु ने कंवलावती का पता कुंवर को बता दिया।

कुंवर खोजता हुआ कंवलावती के पास पहुँचा और फिर पूर्व निश्चय के अनुसार रात्रि में कंवलावती ने देव से उसके मरने का उपाय पूछ लिया। दूसरे दिन कुंवर जब देव को मारने का प्रयास करने लगा तो देव घबड़ाया और उसने वादा किया कि अब वह कभी नहीं सतायेगा। ऐसा कहकर वह इन्द्रपुरी चला गया।

कंवलावती को पा लेने के बाद कुंवर पहले राजकुमारी के घर गया और वहा से अपने माता पिता के पास संदेश भिजवाया। इसी बीच कंवलावती की रूप प्रशंसा सुनकर एक बलसागर नाम का राजा उस पर मोहित हो गया और उसने कुंवर पर आक्रमण दिया किन्तु वह स्वयं हार कर लौट गया और इन दम्पति के दिन सुख में व्यतीत होने लगे।

एक बार आनन्द विहार करते हुये इन की नाव भंवर में पड़कर टूट गई दोनों अलग अलग होकर नदी में बह गये। कंवलावती बहते बहते पति के नगर पहुँची। वहा के महर्ष्या ने उसे राजा की भेंट कर दिया। राजा ने उससे पुत्री की भांति सुखपूर्वक रहने को कहा। कालान्तर में राजा ने अपनी वधू को पहचान लिया कंवलावती विरह में अपने दिन बिताने लगी।

उधर कुंवर बहते बहते अप्साराओं के हाथ लगा जो उमसे प्रणय याचना करने लगीं। निराश होने पर कुंवर को कष्ट पहुँचाने लगीं। कुंवर ने पूरा एक वर्ष विरह तथा विपत्ति में बिताया।

इसी समय पहले कुंवर का भेजा हुआ तोता कंवलावती के पास पहुँचा और कंवलावती की नवीन व्यथा सुनकर वह फिर कुंवर को ढूँढने निकल पड़ा। उसने कुंवर से कंवलावती का समाचार सुनाया और कुंवर से कंवलावती के लिये पत्री लेकर उड़ा। कंवलावती ने भी एक पत्र कुंवर के लिये भिजवाया।

कुंवर ने तोते से कुछ उपाय सोचने को कहा, तभी उसे गरुड़ की कृपा का ध्यान आ गया और कुंवर ने एक बार फिर गरुड़ से कृपादृष्टि की प्रार्थना की। गरुड़ ने दया पूर्वक उसे माता-पिता के यहाँ पहुँचा दिया। उसके बाद वे दोनों अत्यन्त सुख पूर्वक अपने दिन व्यतीत करने लगे।

अन्य कथाओं भाँति कवि जान ने इस कथा में भी चमत्कार उत्पन्न करने के लिये साप, हार्थी, नाहर, भूत पिशाच, इन्द्रसभा, देव और अप्सराओं की योजना की है कंवलावती और ससि दोनों की विवाह सम्बन्धी स्वतंत्र भावना भी ध्यान देने योग्य है।

इस कथा की रचना कवि ने जहागीर के शासन काल में की थी।

इस ग्रन्थ में कवि ने ६ चौपाइयों के बाद एक दोहे की योजना की है। अन्त में एक सवैये की रचना भी है।

कथा मोहिनी

कथा का आरम्भ कवि मसनवी की परम्परा से करके परमात्मा के मोहिनी रूप की प्रशंसा करता है। उस मोहिनी की चाह संसार के सभी ज्ञानियों को है। प्राची देश के राजपुत्र मोहन को भी उसकी चाह है। वह उनकी व्यथा में पीड़ित था। वह एक दिन रात्रि को घर से निकल पड़ा। मोहिनी पहेली रूप में सबसे प्रश्न पूछती थी। मोहन से भी उसने ऐसे ही प्रश्न पूछे जिनका उत्तर मोहन ने सफलता पूर्वक दिया। अन्त में मोहिनी ने मोहन के ज्ञान की परीक्षा हो चुकने पर उससे पाणिग्रहण कर लिया। यहाँ पर कवि कथा का अन्त कर देता है।

कथा की विशेषतायें

कथा का आरम्भ अन्य सूफी प्रेमाख्यान की भाँति ही होना है किन्तु कवि का उद्देश्य पहेलियाँ बुझाने का अधिक ज्ञात होता है। वह पहेलियों के द्वारा ही नायक के

ज्ञान को परखना चाहता है। इस पहेलियों वाले स्थल को पढकर 'कालिदास और विद्योत्तमा की कथा का ध्यान आ' जाता है इसके अतिरिक्त कवि का परमात्मा की भावना 'मोहिनी' रूप में करना भी उचित है जो खुदा के सौन्दर्यमय स्वरूप का प्रतीक है। कथा में सूफी विचारधारा या अध्यात्मिक तथ्यों का स्पष्टीकरण अधिक नहीं है। ऐसे स्थल एकाध ही है।^१

कथा नलदमयंती

निषध देश का राजा वीरसेन था। उसके नल और पुहकर दो पुत्र थे। वीरसेन का निधन हो जाने के पश्चात् नल राजा हुआ। विदर्भ देश के राजा भीम की कन्या दमयन्ती थी जो अत्यन्त सुन्दरी थी। नल और दमयन्ती दोनों में स्वप्न दर्शन गुणश्रवण चित्रदर्शन के कारण प्रेमारम्भ हुआ। नल दमयन्ती के प्रेम में विह्वल था। वह कभी पवन से और कभी हंस से अपने प्रेम संदेश भेजना चाहता था। अन्त में हंस के द्वारा उसने अपना संदेश दमयन्ती तक पहुँचाया। दमयन्ती ने भी पत्र के द्वारा अपना विरह कहला भेजा। रानी और राजा को इन दोनों का प्रेम व्यवहार ज्ञात हो गया और उन्होंने दमयन्ती का स्वयंवर रचा। देवताओं के नल का रूप धारण करने के कारण नल के पाँच रूप प्रकट हुये थे, किन्तु दमयन्ती ने वास्तविक नल को पहचान कर उसके गले में माला डाल दी। पाणिग्रहण हो चुकने के पश्चात् दोनों सानन्द रहने लगे, किन्तु जुआ में अपना सब कुछ हार जाने के कारण उन्हें देशत्याग करना पड़ा। मार्ग में उसकी एक बहेलिया एवं अजगर से भेंट, का वर्णन भी कवि करता है। वह जंगल में भ्रमण करती हुई कुछ ऋषियों के पास पहुँची जहाँ पर उसे यह ज्ञान हुआ कि अशोक वृक्ष की पूजा से उसे अभीष्ट लाभ होगा। वह अपने सत् एवं शील पर दृढ़ रही अन्त में उसकी भेंट कुछ सौदागरों से हुई जिनके साथ वह अपनी जन्मभूमि पहुँची।

१ रूपवन्त अति मोहिनी, मोह्यो सब-सँसार।
और इसे पर ग्यान को, श्रावत नाहिन पार।
ससिक्कित पुनि प्राक्किन पढी, यदो ग्यान की जोति।
कोविट जिते जहान में, कोऊ नासम होत।

वाक्री वाते अति विन्ट अरथ सहत घट कोइ।
बुद्धि आगट नागरि सुभग, ऐसी भई न होई।
जेते ग्यानी जगत में, सवकों उपजी हाँस।
जप मोहनी मोहनी रोचन हैं निस धाँस।

कवि जान - कथा मोहिनी।

इधर नल को भी भारी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। अन्त में जाकर वह अयोध्या नगर में रितुवर्न के यहाँ देवव्रत नाम से सारथी का कार्य करने लगा। दमयन्ती ने नल की खोज की और अन्त में स्वयंवर के वहाने उसने नल को पा लिया। नल ने फिर जुआ खेला और राज्य पाकर आनन्द से रहने लगा। कुछ समय पश्चात् उसका निधन हो जाने पर दमयन्ती सती हो गई और कथा यहीं समाप्त हो जाती है।

कथा-संगठन :

कथा का आरम्भ कवि मसनवी पद्धति पर ही करता है। वह कहता है कि उसने नल-दमयन्ती की कथा कई ग्रन्थों में भिन्न प्रकार से वर्णित पाई है, किन्तु उन ग्रन्थों के नाम का उल्लेख कवि नहीं करता है। यह अवश्य कहता है कि उसने उन सभी से सार लेकर अन्त में नल दमयन्ती की कथा को अपने ढङ्ग से वर्णित किया है :

वाँची मैं जु ग्रन्थन माहि येक भाँति पाई पै नाहिं ।
सवही कौ मति चुनि-चुनि लीयौ चतुरन हेत अरगजा कीयौ ।
बहुत मिलौनी मिलै सुवास, अति सुगन्ध है लेत प्रकास ।

किन्तु कवि ने कथा में किन भिन्न कहानियों का समावेश किया है, स्पष्ट नहीं होता, केवल 'अशोक वृक्ष' के पूजन को छोड़कर अन्य कोई नवीन घटना का समावेश भी नहीं मिलता सूफी साधना या सिद्धान्त का स्पष्टोक्ति भी इस कथा में कहीं प्राप्त नहीं होता है। यह ग्रन्थ शुद्ध प्रेमाख्यान की कोटि में आता है। कथा पूर्णरूप से वर्णनात्मक है। दोहे चौपाई के अतिरिक्त सवैया का भी प्रयोग कवि ने किया है जिनमें रीतिकालीन काव्य की स्पष्ट छाप है। दमयन्ती का नल को लिग्या हुआ पत्र .

भूपन प्यास उदास रहै नित, भोजन भूलेहु नाहिंन वैहै ।
फूल की माल जो सँघत बाल, जरै तत्काल उसास जुलैहै ।
जीवन कैसे वनै वनिता कौ, अवै जु पियारे को नाहन पैहै ।
मैन करी अति मैन तैं कोमल, ज्यों प्रित धाम ढरी तन जैहै ।

कथा पौराणिक है। ग्रन्थ का रचनाकाल हि० सन् १०७२ है।

ग्रंथ लैला मजनुं

लैला और मजनुं की प्रेमकथा अत्यन्त प्रसिद्ध है। लैला और मजनुं के प्रेम का आरम्भ पाठशाला से होता है। दोनों एक ही साथ रहने तथा पढ़ने के कारण एक-दूसरे से प्रेम करने लगे। तभी लैला की माता ने यह भेद जानकर लैला का पाठशाला में पटना

बन्द कर दिया। इस विछोह से मजनु बहुत दुखी हुआ और उसने भिखारी का रूप धारण करके लैला के दर्शन किये। मजनु ने पवन द्वारा अपना संदेश भिजवाया।

मजनु के पिता ने भी उसके प्रेम की बात सुनी और उसे सीख दी किन्तु मजनु ने अपने उत्तरों से उन्हें परास्त कर दिया। वह मजनु को साथ लेकर मक्के चला गया और वहीं रहने लगा। लैला भी मजनु के विरह में दुखी रहती थी। मजनु के पिता ने लैला के पिता से लैला का मजनु के साथ व्याह कर देने को कहा, किन्तु वह सहज ही सहमत न हुआ और लैला की प्राप्ति के लिये कुछ शर्तें रखीं। जब मजनु उन शर्तों को पूर्ण करने के प्रयास में लगा हुआ था तभी इब्नसलाम लैला पर आसक्त हुआ और उसका व्याह लैला के साथ हो गया।

एक बटोही के द्वारा इब्न और लैला के व्याह का संवाद मजनु को प्राप्त हुआ। दोनों ने पत्र व्यवहार के द्वारा अपनी व्यथा प्रदर्शित की। इसी बीच मजनु के पिता की मृत्यु हो गई, और मजनु ने स्वप्न में सूर्य चन्द्र एवं तारों से बातें करते हुए अपने को देखा। कुछ दिन बाद उसे इब्नसलाम की मृत्यु का समाचार उपलब्ध हुआ। लैला अपने पति के विरह से अत्यन्त दुखी हुई और विलाप करती हुई सती हो गई। लैला की समाधि के पास मजनु ने भी अपना प्राणत्याग कर दिया और इस प्रकार उनका मिलन अबाध तथा शाश्वत हो गया।

विशेषतायें :

कवि का यह ग्रन्थ भी शुद्ध प्रेमाख्यान है। कथा में रसात्मक स्थल बहुत थोड़े हैं, वर्णनात्मक ही अधिक हैं। अन्य कथाओं की अपेक्षा कवि ने इसमें प्रत्येक भावी घटना का निर्देश प्रसंग के आरम्भ में कर दिया है।

रचना दोहे चौपाई में है।

कथा का रचना काल संवत् १६६१ है।

कथानक फारसी मसनवियों में अति प्रसिद्ध है।

कथा कलावती

कथा का आरम्भ परम्परागत है।

विलापुर का राजा सिंघरथ था, उसकी रानी का नाम कनकावती था। निस्सतान होने के कारण वे सदैव दुखी रहता थे। एक दिन स्वप्न में सुरपति ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। थोड़े दिन पश्चात् उनके पुरन्दर नामक पुत्र हुआ जो अत्यन्त विद्वान तथा सुन्दर था। उसे अपने सौन्दर्य का बड़ा गर्व था। उसने आठ विवाह

किये थे । एक दिन मृगया के समय जंगल में उसने एक मनुष्य को रोते हुये देखा । पंछने पर उसे ज्ञात हुआ कि गिरिवर्त गढ़ के राजा सुषरास रत्नचूर और रानी रत्नाव्रत की कलावती नाम की पुत्री अनुपम सुन्दरी है । कुंवर उसके नखशिख को सुनकर आसक्त हो गया और वीन लेकर घर से निकल पड़ा, उसने वीन में ही अपनी विरह व्यथा गाकर सुनाई जिसे सुनकर राजा रत्नचूर मोहित हो गया तथा राजकुमारी कलावती का भी मन उसने हर लिया । पिता का विरोध न होने पर सहज ही उन दोनों का पाणिग्रहण हो गया ।

कथानक में कोई नवीनता नहीं है, अतिरिक्त इसके कि नायिका का पिता व्याह का विरोध नहीं करता और सहज ही नायक और नायिका का मिलन हो जाता है । कवि ने न तो सूफी विचारधारा की चर्चा ही इसमें की है और न नायक नायिका के प्रेमोत्कर्ष प्रदर्शन का प्रयास ही है । दोहे चौपाई के अतिरिक्त कवि ने वारहमासे के अन्तर्गत प्लवगम छन्द का प्रयोग भी किया है ।

कथा छोटी है तथा कवि जान ने इसकी रचना केवल दो पहर में ही कर ली थी । रचनाकाल हि० सन् १०२३ है ।

कथा रूपमञ्जरी

कवि ने इस कथा की रचना कहीं से सुनकर की है ।

हस्तिनापुरी गाँव का राजा हस्तिमल था । उसकी अनेक पत्नियाँ थीं किन्तु उन सबकी पटरानी परमावती थी । उनके ग्यानसिंह नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसकी मित्रता न्यायसिंघ से थी, वे दोनों घनिष्ठ मित्र थे और ज्ञान-चर्चा में ही अपना समय व्यतीत करते थे । एक दिन आधी रात तक इसी प्रकार की चर्चा करने के पश्चात् जब वे सो गये तो राजकुंवर ग्यानसिंह ने एक स्वप्न देखा । कुछ दिन पश्चात् उसने द्वितीय स्वप्न फिर देखा । पूछने पर ज्ञात हुआ कि स्वप्न में आने वाली सुन्दरी कंकनपुर के राजा कर्न एवं रानी हंसगवन की पुत्री, रूपमञ्जरी है । राजकुंवर उसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील होकर घर से निकल पड़ा । चार मास पश्चात् वह अपने ननिहाल पहुँचा और वहाँ उसका एक चित्र देखा । उससे प्रेरित होकर वह फिर अपनी साधना में लग गया, और दो महीने के बाद कंकनपुर पहुँच गया । वहाँ उपवन में राजमहल की मालिन से भेंट हुई जिसे उपहार देकर कुंवर ने अपना कार्य करवाने को मना लिया । मालिन के कहने पर रूपमञ्जरी उपवन में कंवर से मिलने आई । कुंवर को देखकर वह भी रूपासक्त हो गई । इसी बीच कुंवर का साथ कुछ तपस्वियों से हुआ जिन्होंने राजकुंवर को सफलता का आर्शावाद दिया । रूपमञ्जरी और ग्यानसिंह

बन्द कर दिया। इस विछोह से मजनु बहुत दुखी हुआ और उसने भिखारी का रूप धारण करके लैला के दर्शन किये। मजनु ने पवन द्वारा अपना संदेश भिजवाया।

मजनु के पिता ने भी उसके प्रेम की बात सुनी और उसे सीख दी किन्तु मजनु ने अपने उत्तरों से उन्हें परास्त कर दिया। वह मजनु को साथ लेकर मक्के चला गया और वहीं रहने लगा। लैला भी मजनु के विरह में दुखी रहती थी। मजनु के पिता ने लैला के पिता से लैला का मजनु के साथ व्याह कर देने को कहा, किन्तु वह सहज ही सहमत न हुआ और लैला की प्राप्ति के लिये कुछ शर्तें रखीं। जब मजनु उन शर्तों को पूर्ण करने के प्रयास में लगा हुआ था तभी इब्नसलाम लैला पर आसक्त हुआ और उसका व्याह लैला के साथ हो गया।

एक बटोही के द्वारा इब्न और लैला के व्याह का संवाद मजनु को प्राप्त हुआ। दोनों ने पत्र व्यवहार के द्वारा अपनी व्यथा प्रदर्शित की। इसी बीच मजनु के पिता की मृत्यु हो गई, और मजनु ने स्वप्न में सूर्य चन्द्र एवं तारों से बातें करते हुए अपने को देखा। कुछ दिन बाद उसे इब्नसलाम की मृत्यु का समाचार उपलब्ध हुआ। लैला अपने पति के विरह से अत्यन्त दुखी हुई और विलाप करती हुई सती हो गई। लैला की समाधि के पास मजनु ने भी अपना प्राणत्याग कर दिया और इस प्रकार उनका मिलन अबाध तथा शाश्वत हो गया।

विशेषतायें :

कवि का यह ग्रन्थ भी शुद्ध प्रेमाख्यान है। कथा में रसात्मक स्थल बहुत थोड़े हैं, वर्णनात्मक ही अधिक हैं। अन्य कथाओं की अपेक्षा कवि ने इसमें प्रत्येक भावी घटना का निर्देश प्रसंग के आरम्भ में कर दिया है।

रचना दोहे चौपाई में है।

कथा का रचना काल संवत् १६६१ है।

कथानक फारसी मसनवियों में अति प्रसिद्ध है।

कथा कलावती

कथा का आरम्भ परम्परागत है।

विलापुर का राजा सिंघरथ था, उसकी रानी का नाम कनकावती था। निस्सतान होने के कारण वे सदैव दुखी रहता थे। एक दिन स्वप्न में सुरपति ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। थोड़े दिन पश्चात् उनके पुरन्दर नामक पुत्र हुआ जो अत्यन्त विद्वान तथा सुन्दर था। उसे अपने सौन्दर्य का बड़ा गर्व था। उसने आठ विवाह

क्रिये थे। एक दिन मृगया के समय जंगल में उसने एक मनुष्य को रोते हुये देखा। पूछने पर उसे ज्ञात हुआ कि गिरिवर्त गढ़ के राजा सुषरास रत्नचूर और रानी रत्नावत की कलावती नाम की पुत्री अनुपम सुन्दरी है। कुंवर उसके नखशिख को सुनकर आसक्त हो गया और वीन लेकर घर से निकल पड़ा, उमने वीन में ही अपनी विरह व्यथा गाकर सुनाई जिसे सुनकर राजा रत्नचूर मोहित हो गया तथा राजकुमारी कलावती का भी मन उसने हर लिया। पिता का विरोध न होने पर सहज ही उन दोनों का पाणिग्रहण हो गया।

कथानक में कोई नवीनता नहीं है, अतिरिक्त इसके कि नायिका का पिता व्याह का विरोध नहीं करता और सहज ही नायक और नायिका का मिलन हो जाता है। कवि ने न तो सूफी विचारधारा की चर्चा ही इसमें की है और न नायक नायिका के प्रेमोत्कर्ष प्रदर्शन का प्रयास ही है। दोहे चौपाई के अतिरिक्त कवि ने वारहमासे के अन्तर्गत प्लवर्गम छन्द का प्रयोग भी किया है।

कथा छोटी है तथा कवि जान ने इसकी रचना केवल दो पहर में ही कर ली थी। रचनाकाल हि० सन् १०२३ है।

कथा रूपमञ्जरी

कवि ने इस कथा की रचना कहीं से सुनकर की है।

हस्तिनापुरी गाँव का राजा हस्तिमल था। उसकी अनेक पत्नियों थीं किन्तु उन सबकी पटरानी परमावती थी। उनके ग्यानसिंह नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसकी मित्रता न्यायसिंह से थी, वे दोनों धनिष्ठ मित्र थे और ज्ञान-चर्चा में ही अपना समय व्यतीत करते थे। एक दिन आधी रात तक इसी प्रकार की चर्चा करने के पश्चात् जब वे सो गये तो राजकुंवर ग्यानसिंह ने एक स्वप्न देखा। कुछ दिन पश्चात् उसने द्वितीय स्वप्न फिर देखा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि स्वप्न में आने वाली सुन्दरी कंकनपुर के राजा कर्न एवं रानी हंसगवन की पुत्री, रूपमञ्जरी है। राजकुंवर उसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील होकर घर से निकल पड़ा। चार मास पश्चात् वह अपने ननिहाल पहुँचा और वहाँ उसका एक चित्र देखा। उससे प्रेरित होकर वह फिर अपनी साधना में लग गया, और दो महीने के बाद कंकनपुर पहुँच गया। वहाँ उपवन में राजमहल की मालिन से भेंट हुई जिसे उपहार देकर कुंवर ने अपना कार्य करवाने को मना लिया। मालिन के कहने पर रूपमञ्जरी उपवन में कंवर से मिलने आई। कुंवर को देखकर वह भी रूपासक्त हो गई। इसी बीच कुंवर का साथ कुछ तपस्वियों से हुआ जिन्होंने राजकुंवर को सफलता का आशीर्वाद दिया। रूपमञ्जरी और ग्यानसिंह

का विवाह उनके मातापिता के अनजाने में ही इन तपस्वियों के द्वारा सम्पादित हुआ रूपमन्जरी राजकुंवर के साथ चल दी, मालिन के द्वारा राजपरिवार में यह बात व्यक्त हुई और जबतक उन्हें पाने या खोजने का प्रयास हो तपस्वियों के आशीर्वाद से वेष परिवर्तन करके जोगी जोगिन के वेष में दोनों हस्तिनापुरी पहुँच गये और प्रेमपूर्वक कालयापन करने लगे ।

अन्य छोटे प्रेमाख्यानों को अपेक्षा कथा रूपमन्जरी में रसात्मकता अधिक है, वैसे नायक के कष्टों या प्रेम की उत्कर्षता का वर्णन इसमें भी अधिक नहीं मिलता । कथा वर्णनात्मक ही अधिक है । 'रूपमन्जरी' के उपवन में ग्यानसिंह का मिलने आने पर कवि का वर्णन कुछ रहस्यात्मक हो गया है ।

पात वसन की सोभा रूपन, फूले सो पहिरि आभूषन ।
मधुर बचन मधुकर बटु बोलें, अवर पत्र पौन लागि भोले ॥

येक पाव तरवर खरे तकन चौप मन माहिं ।
रूपमन्जरी आइहै करे विछौना छाहिं ॥

गुरु की महिमा का भी वर्णन है, जो गुरु की सेवा एकाग्रचित्त से करता है, उसकी सब इच्छायें पूर्ण होती हैं । गुरु जिस प्रेमगाठ को बाध देता है वह इतनी घुल जाती है कि फिर खुल नहीं सकती ।

जो गुरु की सेवा करे इक मन इक जिय होइ ।
इच्छया पूजे प्रान की चिन्ता रहे न कोइ ॥

तथा

पैमुगाठि पुनि गुरु की दई, घुलत न नेकु महाधुरि गई ।

यह कथा भी कवि जान ने अत्यन्त अल्पकाल में ही पूर्ण कर दी थी ।

देतप्याली मन्जरी, कुवर करत है पान ।
खवन सुनी मुष ऊचरी, लगे तीन ही जाम ॥

इस कथा का रचनाकाल नहीं दिया गया है ।

कथा बिजरषाँ साहिजादे, व देवल दे की चौपई

इस कथा में अलाउद्दीन के पुत्र खिज़्रखा तथा कर्णभूधार की पुत्री देवल दे की प्रेम कथा वर्णित है । अलाउद्दीन अत्यन्त प्रतापी और वीर राजा था । राज्य पाने के पश्चात्

उसने मानिकपुर, देवगिरि, दिल्ली, रणथम्भौर, चित्तौर, मालवा आदि देशों को जीत लिया। सागर के पास राजा कर्ण निवास करता था, उसके आधिपत्य न स्वीकार करने पर अलाउद्दीन ने स्वयं उस पर आक्रमण किया। राजा कर्ण हारने की संभावना देखकर भाग खड़ा हुआ उसकी रानी कंवला को अलाउद्दीन ने अपनी पटरानी बनाया। देवलदे जो राजा कर्ण की पुत्री थी, अपने पिता के पास गुजरात गई। देवगिरि के राजा सिंहदेव को उसकी चाह थी। राजा कर्ण ने देवल दे को देवगिरि भेज दिया। मार्ग में ही अलफखा ने, जो अलाउद्दीन का पुत्र था उसे घेर कर देवल दे को पकड़ लिया और उसे लेकर दिल्ली आया। यहाँ खिज्रखौं में अपने भाई की रूप की छवि पाकर देवलदे खिज्रखौं से प्रेम करने लगी, खिज्रखौं की माता अपने भाई की पुत्री से उसका विवाह करना चाहती थी और इस इच्छा की पूर्ति के लिये उसने चार चेरियों के द्वारा देवल दे को मरवाना चाहा। देवलदे कैद में अत्यंत दुखी थी और खिज्रखौं उसके बाहर। गुप्त रूप से उनका कभी कभी मिलन होता था, देवलदे को यह जानकर कुछ संतोष हुआ कि खिज्रखौं उसके विरह में दुखी है।

कथा वर्णनात्मक अधिक है जिसपर इस्लामी संस्कृति का प्रभाव है। कथा के आरम्भ में कवि ने 'रूप' की प्रशंसा करते हुये 'प्रस्तावना' लिखी है जो उसकी अन्य रचनाओं में प्राप्त नहीं होता। वह लिखता है कि सौन्दर्य इस संसार को आकर्षक बनाता एवं प्रेमोदभूत करता है :

पवन्त कीने नर नार, धरनी को छवि भई अपार।

रूपवन्त मुख दर्पन वान, जिय कौ रूप दिखायौ आन।

रूपवन्त कौ देषि कै ताकत सव संसार।

नैननि कौ ज्यौं रूप है, जीवत इहीं अधार ॥

कवि ने कथा के मध्य अपनी शृंगार प्रियता का परिचय भी स्थल स्थल पर दिया है। एक स्थल पर वह राजा कर्ण के अन्तःपुर की चर्चा करते हुये लिखता है :

पान भार है अधर कौ, नैननि अजन भार।

भूपन अति भारी लगै, नारि रही थकि हार।

कथा कलन्दर, कथा तमीम अन्सारी, कथा अरदसेर पानिसाह की, कथा कौतूहली की, कथा कुलवन्ती की, कथा सीलवन्ती की, कथा मतवन्ती की, बलुकिया विरही की कथा आदि प्रेमाख्यानों का न तो कथा-क ही स्फीपरम्परा में आता है और न स्वरूप ही।

कथा कलन्दर, कथा तमीम अन्सारी, कथा अरदसेरपातिसाहि की, कथा कौतूहली की कथायें शुद्ध प्रेमाख्यान हैं। इनमें कवि का उद्देश्य केवल एक कथा की वर्णनात्मक ढंग से रचना करना है।

कथा कुलवन्ती, कथा सीलवन्ती, कथा छविसागर, कथा निर्मलदे आदि ऐसी कथायें हैं जिनके द्वारा कवि किसी भाव को (पातिव्रत, शीलरक्षा या सदाचरण का) स्पष्ट करना एवं उसका महत्व प्रदर्शित करना चाहता है। इन कथाओं में कवि नायक के चरित्र को मर्यादा से गिरा हुआ दिखाता है। वह लोभी, कामी एवं क्रोधी होता है। उसकी ओर से नायिका के शील, कुल एवं सत्त को डिगाने का भरसक प्रयत्न होता है, किन्तु नायिका प्रलोभन और प्रवंचनाओं के मध्य भी, अपने धर्म की रक्षा करती है। कथा कुलवन्ती में सौदागर की पुत्री कुलवन्ती कामुक 'कुतुबदी' के दर्शनार्थ नहीं जाती और उसका आकर्षण अस्वीकार कर कुल की रक्षा करती है। उसके चरित्र के वशीभूत हो कुतुबदी उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लेता है।

'कथा सीलवन्ती' में एक सौदागर की पत्नी अत्यन्त 'शीलवान' है। उसके सौन्दर्य को एक बाजदार उसे पति को विदा करते समय देख लेता है। नारी स्वभाव से सुन्दर वस्त्रालंकार पर मोहित होती है। बाजदार ने भी सुनारिन तथा रंगरेजिन के द्वारा सीलवन्ती पर अपना प्रभाव डालना चाहा किन्तु उसने एक न सुनी और वह अपने शील पर अडिग रही।

सीलवन्ती का रंगरेजिन को यह उत्तर :

सीलवन्ती कवि जान कहि, रंगी लाल के रंग।

जौ लौं जीवै ना मिटै, पीति चटक अंग अंग ॥

बड़ा ही मार्मिक है।

कथा सतवन्ती में भी मन्सूर नामक सौदागर की पत्नी 'सतवन्ती' पनवारिन, कलालिन, मालिन और जोगिन इन चार दूतियों के प्रयास करने पर भी अपने सत्त की रक्षा करती है।

कथा निरमलदे में, निरमलदे क्षत्रिय विधवा है, जिस पर वहा का राजा रूपासक्त हो गया। राजा ने दूती के द्वारा उसका पातिव्रत डिगाना चाहा, किन्तु वह अडिग रही। राजा ने जब कामासक्त होकर उसे बलात् पाना चाहा, तो उसने आकर्षण के मूल अपने दोनों नेत्र निकाल दिये जिससे प्रभावित होकर उस राजा ने भी भविष्य में फिर कभी ऐसा नहीं किया।

यह कथा भी पूर्ण रूप से वर्णनात्मक है तथा सूफी प्रेमाख्यान परम्परा में नहीं आती।

भाषा :

कवि की भाषा ब्रजभाषा से अधिक प्रभावित जात होती है। कवि ने प्रयासपूर्वक किसी साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहा है। भाषा के सम्बन्ध में कवि का एक

निश्चित दृष्टिकोण है। उसका विचार है कि काव्य-रचना उसी भाषा में होनी चाहिये जो सहज ही बोली और पढ़ी जाती हो^१। सफल काव्य के लिये साहित्यिक भाषा का प्रयोग आवश्यक न होकर उसमें उक्ति प्रधान होती है। साधारण बोली में जो कोमलता एवं माधुर्य है, वह संस्कृतमिश्रित भाषा में नहीं। यही कारण है कि कवि काव्य में दैनिक प्रयोग की भाषा का उपयोग उचित मानता है^२।

ब्रजभाषा का प्रयोग उसके 'हों, वामें, तातें, वतिया, विही' ऐसे प्रयोगों में स्पष्ट देखा जा सकता है। कवि ने संज्ञा क्रियापद का निर्माण भी किया है, जैसे कथा से कथी।

जान ने श्रवणी, फारसी या संस्कृत शब्दों का प्रयोग अधिक नहीं किया है। लोकोक्तियों का प्रयोग भी है 'तिय विन घर नाहिन वनै, ज्यों मोती विन सीप' तथा 'भई है वात छलून्दर नाग' 'शील विना कवि जान कहि घर घर रूप विकाइ'। शब्दों के तद्भव प्रयोग भी पाये जाते हैं जैसे 'हरनंषी'।

छन्द :

कवि ने अन्य सूफी प्रेमाख्यान रचयिताओं की अपेक्षा छन्दों के प्रयोग में उदारता का परिचय दिया है। उसके प्रेमाख्यानों में प्रयुक्त छन्द, चौपाई, दोहा, चौपई, सबैया सवङ्गम मुख्य हैं।

अलंकार :

कवि की विशेषता रचनाओं की पंक्तियों की द्रुतगामिता में ही देखी जा सकती है और यही कारण है कि कवि का ध्यान अलंकार की ओर अधिक नहीं है। उसके काव्य में स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त अलंकार ही प्रमुख हैं।

१. भाषा आनी जो मुख आई, ग्वारेरी हू मनसा धाई।
लिखत हाथ नाहेन अकुलावै, पढत नहीं रसना अरसावै।
कथा कनकावती।
२. मुख आनी जो तिय में आई, भाषा जो आई सो आनी।
रहवो बागर भाऊ किम, भाषा आवै भली।
पै दिन ढिग ज्यों साँस, तैसाँ भाषा उकति ढिग।
उकति विसेष साँसु के जानहु, भाषा आवै सो रानहु।
उकति भली भाषा में आवै, तौ वह सोना सुगन्ध कहावै।
सस्कृत, ग्याररे मिलावौ, मद्य विलाय के साज बजवौ।
यह ठंवल वामें कठिनाई, ताते कहि बहु जुगति जताइ।
कथा कंवलवती।

रस :

जान कवि के ग्रन्थों में खड्गार रस का पूर्ण प्रसार दृष्टिगोचर होता है। इनके दुखान्त ग्रन्थों में भी करुणरस के दर्शन नहीं होते। कवि घटना का उल्लेख मात्र करके कथा का अन्त कर देता है। वीर रस का भी किञ्चित् परिचय जान के किसी-किसी ग्रन्थ में हो जाता है।

विरह एवं विप्रलम्भ शृंगार :

अन्य सूफी प्रेम प्रबन्धों की भाँति जान कवि के प्रेमाख्यानों में विरह की व्यापकता नहीं रहती। कुछ प्रेमाख्यानों में वर्णन की प्रचुरता के कारण केवल विरह-व्यथा का संकेतमात्र रहता है, किन्तु कुछ प्रेमाख्यानों जैसे कथा पुहुपबरिषा, कथा कंवलावती, कथा कनकावती आदि में इसका विस्तार लक्षित होता है। विरह-व्यथा का वर्णन करना असम्भव है। प्रथम तो वह उस वेदना में इतना निमग्न रहता है कि वह स्वयं भी उसका वर्णन करने में असमर्थ रहता है दूसरे उस वेदना को सुनने वा वा भी सुन नहीं सकता।

पिय को भेदु जीव ही जानै।

जौ हूँ कहीं आपनो भेदु, सुनत करेजा पीर है छेदु।

सो जानै जेहि अङ्ग में विरह लेत विस्तार।

एक बार विरह उद्भूत हो जाने पर फिर उसको शान्त करने का कोई उपाय नहीं है, चाहे स्वयं धन्वन्तरि ही क्यों न उसकी औषधि करना चाहें।

विरह-रोग उपज्यो घट माहि, ताकी औषध तुम पहि नाहि।

जौ उठि आवै आप धन्वन्तर, जानत नाहि कहा मन अन्नर।

विरह या प्रेम का रोग चाहे कितना ही असाध्य क्यों न हो, वह है साध्य ही। कवि जान तो स्पष्ट कहते हैं :

कोन काज मनु पैसु विनु, कहा दीप विन गेहु।

जैसे वरती मेह विनु, नेह विना ज्यों देहु।

जिसके हृदय में विरह या प्रेम उत्पन्न हो जाता है वह प्रिय के अतिरिक्त और किसी का चिन्तन नहीं कर सकता। विरह दवाने से और बढ़ता है, व्यापक होता है, विस्तार पाता है।

विरह वसै जाके मुख नैन, देखै पिय भापै प्रिय वैन।

विरह रोग उपनै जेहि कान, मीत नाव विनु सुनै न आन।

प्रम वस्यो जेहि प्रान में, ताकौ आनन चिन्त ।
जहँ-जहँ नैन पसारिहै, तहँ-तहँ देपै मिन्न ॥

प्रेम जाग्रत हो जाने पर मर्यादा पालन एक समस्या बन जाती है ।

सुकेसी भी इसी प्रकार कुंवर से विछड़कर दुखी हुई और उसे घर बन्धन प्रतीत होने लगा :

घर मोपर घेरो कियो घरो न छानत पास ।
प्रान पतो प्रीतम बिना निस दिन रहौं उदास ।

कहीं कहीं विरह की व्यञ्जना अति को सीमा तक पहुँच गई है, जैसे विरही के तप्त पैर रखने के कारण पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु होने को कल्पना :—

“चरन धरत धस्ती जरि जाइ, तातें कीनीं ग्रीषमताइ ।”

वेदना के फलस्वरूप, निरन्तर अश्रुप्रवाह होने पर भी शरीर की तपन नहीं बुझती :—

भरे नैन रहे भर लाइ, तौऊ तन की तपनि न जाइ ।

पट्ऋतु एवं वारहमासे की चर्चा उद्दीपन विभाव के अंतर्गत होती है । कवि जानने भी इसकी चर्चा की है । सावन ऐसे सुखद एवं क्रीड़ा पूर्ण महीने में भी, त्रिरहिणियों की अवस्था कितनी दुखद होती है :

बहुरो भयो जगत में सावन, व्याकुल कीनीं विनु मन भावन ।
बोलत पिक चातक घन घोर, कौंधा कौंधत नाचत मोर ।
मेष बंद से तीछन वान, छेदत विरहिन के तन प्रान ॥

अरुन वसन रंन संजोगिनी, पेन्हत है करि चाह ।
आसूं रक्त में विरहनी, पहरत वसन रंगाइ ।

कार्तिक की शीतल चन्द्रिका उसे अग्नि से भी अधिक दुखदायी है .

चंद्र चोदनी देखिके सजोगिनी हुलास ।
विरहनि भाये जरि उठे धरनी और अकास ।

कहीं कहीं कवि की उपमा हास्यास्पद हो गई है जैसे .

विरहिन को कोइल की कूक, लागत मानहु गोली बन्दूक ॥

कथा पुहुपवरिपा के अतिरिक्त कथा कंवलावती में भी, कवि ने विरह पर अपने विचार प्रगट किये हैं । जब कुंवर का पत्र लेकर तोता कवलावती के पास जाने को उड़ा

तो कुंवर का मन दुविधा में था। उसका संदेशभार हल्का हो गया था किन्तु तोता क्या कंवलावती के पास तक पहुँच सकेगा या कंवलावती भी उसकी वेदना समझ सकेगी आदि शंकायें उसके हृदय में थीं।

पंजी लेइ गयो जब पाती, कछु मलीन कछु निरमल छाती।

कंवलावती का पत्र पाकर कुंवर ने उसे अतिशीघ्रता से नेत्रों के ऊपर रख लिया, कितनी स्वाभाविक व्यञ्जना है। प्रेम भाव की, उन्माद की यह छटा कहीं कहीं ही प्राप्त होती है :

‘पाती कंवलावत की दीनी, देषति कुंवर नैन धरि लीनी।’

जिन वस्त्रों का सम्पर्क कंवलावती से हो चुका था, कुंवर ने उन्हें न तो देह से पृथक ही किया और न धुलाया ही। उन वस्त्रों से ही उसे कंवलावती का संसर्ग प्राप्त होता था :

‘जिन बसन तुम्ह ते भये हाते, नाहिं उतारे धोये नाते।

प्रिय का रूप सौन्दर्य प्रेमी को नित्य आकर्षित करता रहता है किन्तु यदि कोई कहे कि प्रेमी उसका पूर्ण वर्णन कर दे तो यह सम्भव नहीं। बहुत कुछ तुलसी के अनुसार ही कवि जान ने भी कथा रतनमंजरी में ऐसी भावाभिव्यक्ति की है :

नैनिन कॅ रसना नहीं, बरनत रूप सुभाइ।

रसना बिन देखीं कहैं, तातें कही न जाय ॥

जो लोग विरह व्यथा में पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं उन्हें ही संयोग सुख लाभ होता है .

विरह पन्थ जो मरि मरि जीवे ।

अंत्रत अधर महारस पीवे ।

२

जिसके हृदय में एक बार वह नैन कोर गड़ जाती है, वह फिर जीवन भर उसकी कसक नहीं भूलता :

नैन वान कवि जान कहि, जिह उर लागत आइ ।

सालि करेजे में रहे करक न कवहें जाइ ॥

कथा कलावती में तो कवि स्पष्ट कह देना है कि सुख की प्राप्ति के लिये माधक को मुख सहना ही पड़ता है :

यह पुरानन में लिख्यो जान लेहु कहि जान ।

सुष काजे दुख देखिये तो सुषु होइ निदान ॥

इस प्रकार कवि ने विरह की चर्चा अपने प्रेमाख्यानों में यथेष्ट की है। साथ ही उसने मुक्तक ग्रन्थों के रूप में भी विरहसत, वारहमासा, वियोगसागर आदि की रचना की है।

संयोगशृंगार :

संयोग पद्म के वर्णन विशेष आकर्षक नहीं हो सके हैं क्योंकि उनमें केवल वर्णनात्मकता है, कहीं सुखानुभूति की भावात्मक व्यञ्जना नहीं।

‘वरके गहि गर गई लगाई, इक भये दूसर कस्यो न जाई’ कहकर कवि रतिक्रियाओं के वर्णन आरम्भ कर देता है जिनमें अश्लीलता के साथ ही केवल परम्परापालन का आग्रह ही अधिक ज्ञात होता है। कवि ने अपनी इस सम्बन्ध की पूर्ण जानकारी का परिचय कंद्रपकलोल, मान विनोद, रसकोष, रसतरिगिनी आदि ग्रन्थों में दिया है। कहीं-कहीं नायिका भेद का भी उल्लेख है :

घूँघट पट, मेती नऊढा, अति निरसाई दुराइ ।

वरिषा रित के चन्द ज्यों, भाकि-भाकि फिरि जाइ ।

प्रत्येक प्रबन्ध में नखशिख वर्णन की परम्परा का पालन है। अधिकांश वर्णन रूढिवद्ध हैं। उपमानों की संयोजना नवीन नहीं है, जैसे :

माग सेन मुकताहल भरी, मधि कालिन्दी के सुरसरी ।

× ×

कहा स्वामता वार बखानौं, मधुप कि निसा सँवरी मानौं ।

× ×

नाक कीर मुकता अधिकार, मोलन में मोलत संसार ।

(कथा पुहुप वरिषा)

कपोल की अरुणिसा के वारे में कवि की कल्पना देखिये :

दोऊ कपोल अमोल सुहाये, कुंकुम इंगुर धोरि बनाये ।

× ×

देवि नासिका रखो न धीर, चप्यौ करी मकरी मनु कीर ।

(कथा रतनमञ्जरी)

औरंगजेब के अपने भाइयों को मारकर राज्यसिंहासन पर बैठने की घटना का संकेत कथा 'नलदमयन्ती' में है।

सामाजिक तत्व :

कवि जान कृत रचनाओं में लोक-जीवन के तत्व कुछ अधिक हैं। व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण तक के प्रमुख संस्कारों का वर्णन है। जन्म होने पर चौक पुराना, मंगलकलश रखना, बधाई गाना आदि आज भी प्रचलित हैं।^१ विद्यारम्भ करना तथा क्षत्रियवर्ग की शिक्षा के विषय आदि की चर्चा भी इनके ग्रन्थों में है।^२

विवाह के सम्बन्ध में उदार धारणाओं का प्रारम्भ इनके समय में हो चुका था। कन्या इच्छावर प्राप्त करना चाहती थी, किन्तु ऐसा करने में कुलमर्यादा एवं लोक लज्जा बाधा डालती थी। कभी कभी तो कन्या दैवी घटनाओं का सहारा लेकर अपनी इच्छापूर्ति में तत्पर होती थी और कभी पहेलियों या प्रश्नों के उत्तरों से वर की योग्यता का परिचय पाती थी। विवाह का अर्थ सुख माना जाता था और यह तभी प्राप्त हो सकता था जब वर एवं कन्या का मतसाम्य हो, अतः कन्या और वर की सम्मति विवाह की समस्या में महत्वपूर्ण होती थी। विवाह की तिथि आदि का शोधन भी होता था। जन्म होने पर ज्योतिषियों, पंडितों द्वारा बनाई गई जन्मपत्री जीवन संबंधी घटनाओं का सही लेखा देती थी। वैवाहिक संस्कारों का विस्तृत वर्णन इनके काव्य में नहीं मिलना है, किन्तु लगन आदि का उल्लेख आजाता है।

जीवन का आनन्द संयोग ही था। पुत्र के लिये पत्नी की आवश्यकता थी। पत्नी का अनुगामी होना हेय था। पनघट लोक सौन्दर्य का जमघट था। वहाँ नारियँ अपनी चपलता एवं सौन्दर्य से जीवन विखेर देती थीं। नारी का शील, कुल एवं सत् की रक्षा परमकर्तव्य था। वही नारी धन्य थी जो शील की रक्षा कर सके। राजा स्वेच्छाचारी भी होते थे। अपनी कामलिप्सा की पूर्ति के लिये वे तरह तरह के उपाय करते थे। राजा

१. पिंगल अमर व्याकरण मरथु सब ग्रंथनि के भाषतु अरथु।
कवहुँ हाथी कूट लरावहिँ, कवहुँ हरन जुगयो मैं भावे।
(कथा कलावती)
- वहुते नीकी सभा वनावें, सुरपात धके कौतिक आवे।
(कथा पुहुपवरिया)

२. व्याह विना सतान न होई, मुये नाम न लेहै कोई।
(कथा छविसागर सीलनिधान की)

जाके अग-सग लाल है सुफल वहै जग नारि।
(कथा पुहुप वरिया)

निरंकुश था, वह अपने मन्त्री से लेकर निम्न अनुचर तक पर एक छत्र शासन करता था^१। उनकी मर्यादा का ध्यान उसे न था।

जीवन के अंत पर कवि ने कहीं दुःख प्रकट नहीं किया है प्रत्युत ग्रन्थ लैलेमजंनू में मृत्यु के उपरान्त शाश्वत मिलन की ओर संकेत किया है।

स्फुट प्रसंग :

पाहन सेती कैसी प्रीत, समभत नाहि नेहु की रीति ।
जो तू मया के पीर हो पाय, हाथ पकरि ना लेत उचाइ ।
वाका जै हम आसूं परि हैं, वाके नैन तीर न भरि हैं ।
जो तुम्ह वकहो सब दिन रात, येक तुम्हारी सुने न वात ।
नैन सहज यहु अंधरी आहि, कछु रंचक सूके ना ताहि ।
खन आहि पै सुनत न नेक, सिल्पकार कीने हैं छेक ।

शैली एवं विषयों की विविधता के कारण, रीतिकालीन साहित्य में जान कवि का विशिष्ट स्थान है। जितने प्रेमाख्यान जानकवि ने लिखे हैं, उतना ग्रन्थ सम्पूर्णा हिन्दी सूफी-कव्य में उपलब्ध नहीं होते।

१. आगे भाजत आर्याकारी, पाछें राइ देत बहु गारी ।

कथा कमलता की चौपाई ।

ज्ञानदीप

(कवि शेखनबी कृत)

जीवनचरित् :

कवि के जीवन-चरित्र सम्बन्धी कुछ ही तथ्य 'ज्ञानदीप' में अन्तर्साक्ष्य रूप में उपलब्ध होने हैं। कवि का नाम 'शेख नबी' था। इनका स्थिति काल सम्राट जहागीर का शासन काल ज्ञात होता है। ग्रन्थ का रचना काल हि० सन् १०२६ दिया हुआ है अतः सन् १६१६ ग्रन्थ का रचनाकाल निश्चित होता है। कवि जौनपुर सरकार के दोसपुर थाने के अन्तरगत अलदेमऊ को अपना निवासस्थान बताता है^१।

कवि अपने ग्रन्थ के सम्बन्ध में लिखता है कि उसने इसमें 'शब्द भ्रमर, गुण, पिंगल वीर, सिंगार, विरह आदि वर्णनों के अतिरिक्त जोग का वर्णन भी किया है।' कवि अत्यन्त विनम्र है। वह अपने को तृष्णा, लोभ, क्रोध आदि का भांडार मानता है। संसार में जितने भी अवगुण हैं वह उन सबको अपने में पुञ्जीभूत हुआ देखता है, उन सब अवगुणों के मध्य केवल एक गुण है कि वह परमात्मा का स्मरण करता है^२। उसी एक

१ मुराद्दीन दिनपति जहागीर नित नेम ।

कुलदीपक द्रुति सरुल की साहेब सहित सलेमा।

साहि सलीम छत्रपति छौनी, दल के मार कंवल दस द्रोनी ॥

रूम सामपति दण्ड पठावौ, खण्ड खण्ड के क्षत्री आवैं ।

निसदिन डरै विभीषन लका,

अल सदल चारि खण्ड माला, अदल रूप भौं निरमाला ।

सोध सुभग सपूरन गली, जूथ जूथ बहु बनिता चली ॥

काम वाम सी जाइ जोहारी, हसि पाये दासी साम्कारी ॥

एक हजार सन् रहै छबीसा, राज सुलही गनहु बरीसा ।

सवत सौलह से छिहरा, उक्ति गरत कीन्ह अनुसारा ॥

अलदमऊ दोसपुर याना, जाउतुपुर सरकार सुजाना ॥

तहवा शेष नबी कवि कहीं, शब्द अमर गुन पिंगल महीं ।

वीर सिंगार विरह किहु पावा, पूरन पद लै जोग सुनावा ॥

× × × ×

२ हौ अजान मूरख दुखदयापी, अधम अंधीन हियै जद पापी ॥

तूना लोभ क्रोध जिय कीन्हें, मोर मोर लाए लव लीन्हें ।

मत्र गेगुन हं भौहि पह, एकै गुन गर्भीर ।

ले ल नाव रावरो, पोयऊं अधम सरीर ॥

× × × ×

को वह आत्मसमर्पण कर देता है^१। वह पाठकों से अपनी चूटियों की क्षमा चाहता है, साथ ही अमरकोश से ललित शब्दों की योजना में उसे सहायता मिली है इस मत्व को भी स्वीकार करता है। इस कथा के कहने में उसका एक ही उद्देश्य है आनन्द का सृजन। यदि इस कथा से पाप का नाश एवं पुण्य का उदय हो सका तो वह अपने को धन्य समझेगा^२। कथा के सम्बन्ध में कवि कहता है कि उसने इस कहानी को सुना था और उसी को उसने अपनी भाषा शैली के अनुसार लिख दिया है^३। कवि परमात्मा के निर्गुण स्वरूप का ध्यान करता है^४। मुहम्मद साहब की प्रशंसा करते हुये कवि उनके नूर का उल्लेख करता है, उन्हें कलियुग के पापियों को तारने वाला कहा है, कलमा पाप नाश का साधन है, मुहम्मद मनुष्य के सहायक है^५।

कथा-सारांश :

आरम्भ में परम्परानुसार निर्गुण ब्रह्म की उपासना एवं शाहवेक़्त की प्रशंसा करके कवि ने कथा आरम्भ की है। नैमिसार मिश्रिक का राजा राय सिरोमनि था। शङ्कर जी की कृपा से उसके ज्ञानदीप नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ज्ञानदीप बहुत योग्य और प्रतिभाशाली था। एक दिन, आखेट खेलते हुये वह अकेला मार्ग में भटक गया। सिद्धनाथ जोगी ने उसे प्रतिभाशाली देखकर संसार से विमुख करना चाहा, किन्तु नीरस सिद्धान्तों की ओर उसे आकर्षित न होते देखकर सिद्धनाथ ने उसे राग-रागिनियों या सङ्गीत के द्वारा वश में करना चाहा।

१. सोइ कतो कृपानिधि, रहै हमारी लाज ।
तुम सो अवर न मन मंह, महागरीब नेवाज ॥

२. वृष्णि विचारी टोष, मांहि लाएहु, धोख होय तो मैटि बंयायहु ॥
ललित रूप जो आखर गढ़े, सुनि सुनि अमरकोस से काटे ।
सब रस पाइ किहेउ सनमाना, जो आनन्द हिय होइ निदाना ॥
बिनती एक किहेउ विधि पाहीं, मिटै पाप, पुनि उपजै ताहीं ॥

३. पोथी वाच नबी कवि, कही, जो कुछ सुनी कहूँ से रही ।
आखर-चारि कहा मै जोरी, मन उपराजा न कीन्हैउ चोरी ॥

४. प्रीति मुहम्मद रचेउ अकस, कीन्हैउ लोक ओक चहुँ पास ॥
मित् लोकि मंह तोही अवतारे, कलजुग के पापी सब तारे ।
कलि में कलमा कलुष नेवारन, सलावदीन कीन्ह जगतान ॥

५. सब घट घट मंह उहे प्रधाना, सब मंह जोति उहे सतनामा ।
वोहि के रूप सब होत सरूप, केहै निरूप नहि काहु के रूप ॥
वोहि सब मंह वोहि मंह कोउ नाहीं, वोहै निरूप सब जग उपराहीं ।
वोही के गुन सब गुनी कहावै, निरगुन होइ गुन सबै सिरावै ॥

विद्यानगर का राजा सुखदेव बहुत ज्ञानी एवं संगीत विशारद था, उसके यहाँ नित्य संगीत का अखाड़ा होता था। राजा सुखदेव के देवजानी नाम की एक विदुषी कन्या थी, जिसकी सहेली का नाम सुरज्ञानी था। ज्ञानदीप को जोगी के मेष में अत्यन्त वेसुध अवस्था में पाकर सभी उसकी चेतना के हेतु चिन्तित हो गये। सुरज्ञानी ने अपने संगीत एवं नृत्य से उसे विमोहित करना चाहा। चेत आने पर ज्ञानदीप ज्ञानपूर्ण वार्तालाप करके अपनी कुटिया में जाकर ध्यानमग्न हो गया। सुरज्ञानी ज्ञानदीप के सौन्दर्य-पर मुग्ध हो गई, उसने राजभवन में जाकर देवजानी से सारा वृत्तान्त कहा किन्तु उसे विश्वास न होने पर सुरज्ञानी झरोखे में से ज्ञानदीप को दिखाने के लिये ले चली। इसी बीच में उसने दूटे माले का बहाना करके देवजानी को माला, सुई, डोरा लाकर दिया। देवजानी ज्ञानदीप के सौन्दर्य को देखकर इतनी मोहित हुई कि उसे माला का ध्यान ही न रहा, और अंगुली में सुई चुभने की पीड़ा भी उसे न मालूम हुई।

देवजानी को ज्ञानदीप का विरह सताने लगा। उसे किसी प्रकार भी चैन न आती थी। अन्त में सुरज्ञानी उसे अपने वशीकरण मन्त्र का सम्बल दे रात्रि में शृङ्गार कराके ज्ञानदीप के पास ले चली। ज्ञानदीप समाधिस्थ था, सुरज्ञानी और देवजानी दोनों ही अपनी सारी चेष्टाएँ करके हार गई किन्तु उन्हें किसी प्रकार भी सफलता न मिली। राजमहल में लौटकर जोगी की उदासीनता के कारण देवजानी का विरह और तीव्र हो गया। सुरज्ञानी ने फिर एक उपाय किया और कागज का मन्त्राभिषिक्त एक घोड़ा बनाकर पार्वती की कृपा से उसे जीवन दान दिलाया, स्वयं मेष बदल कर उसकी रास थामे सहायता की याचना करनी हुई ज्ञानदीप की कुटी के पास गई। ज्ञानदीप उसे विकट अवस्था में देखकर दयार्द्र हो गया और उसने घोड़े की रास थाम ली, उसके घोड़े पर सवार होते ही घोड़ा उसे आकाश मार्ग पर ले चला और देवजानी के महल की छत पर रुक गया। वहाँ सुरज्ञानी और देवजानी को एकत्र देखकर वह इनकी चाल समझ गया और इनकी चेष्टाओं से विमुख होने जा ही रहा था तभी देवजानी की संस्कृत भाषा में पाण्डित्यपूर्ण बात-चीत सुनकर वह देवजानी के प्रति आकर्षित हो गया। अब नित्य ही इस प्रकार घोड़े पर कुंवर ज्ञानदीप देवजानी के पास पहुँचने लगा। महल के रत्नों ने नित्य ही एक घोड़े को आकर छत पर उतरते देखा तो राजा से शिकायत की। राजा एक दिन रात्रि को धनु-बाण लेकर खड़ा हो गया और जैसे ही ज्ञानदीप घोड़े पर बैठकर महल की ओर जाने लगा। राजा ने बाण चला दिया, आहत होकर ज्ञानदीप भूमि पर गिर गया। ज्ञानदीप को बन्दी बनाकर राजा ने सारा वृत्तान्त पूछा तो देवजानी की मर्यादा का स्मरण कर वह झूठ बोल गया कि देवसभा में संगीत का अद्भुत अखाड़ा आज हो रहा है और ज्ञानदीप को वहाँ उपस्थित होने का आदेश मिला है, इसी हेतु वह देवलोक जा रहा था कि राजा ने आहत कर दिया। राजा को तो इस बात पर विश्वास हो चला था किन्तु अङ्गरत्नों के बार-बार कहने से राजा ने ज्ञानदीप को प्राणदण्ड की आज्ञा दे दी। मन्त्री ने राजा को हत्या की सलाह न दी। तब राजा सुखदेव ने उसे एक काठ की पेट्टी में बन्द करके नदी में बहा दिया। बहना हुआ ज्ञानदीप राय मानराय की राजधानी मानपुर

में जा लगा। उस पेट्टी से निकालकर ज्ञानदीप राजसभा में लाया गया। राजा के द्वारा प्रश्न किये जाने पर उसने अपना सारा वृत्तांत बता दिया। राजा भीमराय निस्संतान था उसने ज्ञानदीप को अपने यहाँ पुत्रवत् रख लिया।

इधर देवजानी को ज्ञानदीप का समाचार ज्ञात होने पर बहुत व्यथा हुई और वह अग्निकुण्ड में भस्म होने के लिये कूद पड़ी, किन्तु शङ्कर एवं पार्वती की कृपा से बच गई। उसी रात्रि को शङ्कर जी ने राजा सुखदेव को ज्ञानदीप की निर्दोषिता का स्वप्न दिया। राजा सुखदेव ने ज्ञानदीप की खोज का कोई उपाय न पाकर कुमारी देवजानी के स्वयम्बर की सूचना सर्वत्र भिजवा दी, इस आशा में कि यदि ज्ञानदीप जीवित होगा तो अवश्य आयेगा। राजा भीमराय सूचना पाकर ज्ञानदीप को लेकर स्वयम्बर की ओर चल दिये। देवजानी ने वरमाला ज्ञानदीप के गले में डाल दी और देवजानी एवं ज्ञानदीप का विवाह सुसम्पन्न हो गया। राजा सुखदेव शीघ्र ही अपनी एकमात्र सन्तान को विदा करने के लिये नैयार नहीं हुये और इसी भ्रमे में वरात वहाँ लगभग सात माह तक रही। इसी बीच राय सिरोमनि गुरु सिद्धनाथ के साथ विद्यानगर आ पहुँचे। वहाँ ज्ञानदीप को देखकर उन्होंने उसे अपने साथ लेना चाहा, इस प्रश्न पर कुछ देर विवाद होने के पश्चात् यही तय रहा कि ज्ञानदीप राय सिरोमनि का पुत्र है। ज्ञानदीप के सम्भावित विरह से पीड़ित होकर राजा मानराय की मृत्यु हो गई। ज्ञानदीप उसका अन्तिम संस्कार करने के लिये मानपुर गया, वहाँ राजा की तीन-सौ-साठ रानियाँ अपनी सखियों के साथ सती हो गईं। इस प्रकार माता-पिता दोनों के निघ्न हो जाने से उनकी पुत्री दामावती अकेली रह गई। ज्ञानदीप को अपने कर्तव्य का ध्यान था, वह उसे अकेली छोड़कर नहीं लौटा। उसने दामावती का योग्य वर से विवाह कर दिया और स्वयं राजपाट संभालने लगा। इधर देवजानी उसके विरह में अत्यन्त दुखी थी, उसका दुख न देख सकने के कारण सुरजानी ज्ञानदीप की खोज में जोगिन होकर घर से निकली और मार्ग में अत्यन्त थक जाने के कारण एक स्थान पर विश्राम के हेतु वृक्ष की छाह में लेट गई, वहाँ की भिन्न-भिन्न वनस्पतियों प्रकट होकर उसे समझाने लगीं और वनस्पती रानी ने उससे उसकी कथा जाननी चाही।

उसका दुख समझ कर वनस्पती रानी को दया आ गई और उसने तुरन्त ही अपनी शक्ति से पलभर में उसे मानपुर पहुँचा दिया। ज्ञानदीप ने उसे शीघ्र ही पहचान लिया और दोनों मिलनसुख से आनन्दित हो उठे; किन्तु सुरजानी को देवजानी का वरावर ध्यान था और वह शीघ्र ही ज्ञानदीप को लेकर विद्यानगर की ओर चल दी। मार्ग में वनस्पती की भेंट इनसे भी हुई, मार्ग के सारे विघ्न को पार करके ये देवजानी के पास पहुँचे।

देवजानी के पिता से विदा होकर जब ज्ञानदीप स्वदेश जा रहा था तो मार्ग में एक स्थान सुन्दरपुर में विश्राम के हेतु ठहर गया। उस नगर में स्थित सरोवर, फुलवारी, एवं हंसपंक्ति को देखने के लिये सुरजानी तथा देवजानी भी वहाँ गईं, और स्नान किया। सुन्दरपुर की त्रियों ने नगर में जाकर इन दोनों रूपवती नारियों की चर्चा की। चर्चा

सुन्दर नगर का राजा सुन्दरसेन स्त्रीरूप धारण करके सरोवर के निकट पहुँचा और देवजानी को देखकर उसका पूर्व प्रेम जाग्रत हो गया। देवजानी के स्वयम्बर में, सुन्दरसेन भी गया था किंतु उसे निराश ही लौटना पड़ा था तभी से देवजानी का सौंदर्य उसे भूलता न था। सुन्दरसेन ने अबसर देखकर छलपूर्वक देवजानी को अपनाना चाहा।

इधर देवजानी की सखियों से सूचना पाकर ज्ञानदीप ने सुन्दरसेन पर आक्रमण कर दिया और सुन्दरसेन को हराकर देवजानी के साथ वह स्वदेश लौटा। माता पिता पुत्र को पुनः पाकर बहुत प्रसन्न हुये। सुरजानी तथा देवजानी दोनों बहुत प्रेम से रहती थीं। ज्ञानदीप शासन में दत्तचित्त रहने लगा। कथा सुखान्त है।

कथा-संगठन :

अन्य कथाओं की अपेक्षा ज्ञानदीप का कथा-संगठन कुछ अंतर रखता है। कवि ने साक्षात् दर्शन के द्वारा प्रेम का आविर्भाव दिखाया है। साक्षात् दर्शन भी अकस्मात् नहीं होता, प्रत्युत गुरु सिद्धनाथ ही उसे सिद्धि (देवजानी) के निकट तक पहुँचाते हैं। सिद्धिनाथ जोगी उसे योग साधना के लिये उपयुक्त ठहराते हैं, किंतु नीरस ज्ञान-चर्चा इश्क हकीकी में साधारणतः किसी का मन नहीं लगता, ज्ञानदीप का भी मन नहीं लगा तथा उसे ज्ञानचर्चा से विमुख होते देख सिद्धनाथ ने उसे रसरग (इश्क मजाजी) की ओर आकर्षित किया और इसी हेतु गुरु ने उसे परम सौंदर्य के प्रतीक स्वरूप देवजानी के निकट पहुँचाया। कथा का यह प्रारम्भिक भाग अन्य कथाओं से कुछ अंशों में अंतर रखता है, नायक विरह पीड़ित होकर स्वेच्छा से गृह त्याग नहीं करता। गुरु के द्वारा उपयुक्त पात्र समझा जाकर वह गृह त्याग करता है तथा बाद में उसकी वृत्तियों के अनुकूल ही परम मार्ग का प्रदर्शन गुरु के द्वारा होता है। कथामें आश्चर्यतत्वोंकी योजना भी कम नहीं है। सुरजानी को मंत्र-सिद्ध है, वह एक मायाअश्व निर्मित करती है जो आरम्भ में छलपूर्वक और फिर नित्य स्वेच्छा से ज्ञानदीप को देवजानी के पास पहुँचाता है। राजा सुखदेव क्रोधित होकर ज्ञानदीप को पेट में बन्द करके नदी में फिकवा देता है, बाद में ज्ञानदीप से पुत्रवत् प्रेम हो जाने पर राजा भानराय की पुत्र वियोग में मृत्यु होती है। इन घटनाओं की संयोजना में एक ओर तो कवि देवजानी और ज्ञानदीप का विरह प्रदर्शित कर उनके प्रेम का महत्व प्रदर्शित करता है, दूसरी ओर राजा भानराय ऐसे सहृदय पात्र की संयोजना से कथा में करुण भावों का संचरण करता है।

कथा की गति को लेखक जहाँ भी कहीं उद्देश्य या लक्ष्य की ओर मोड़ना चाहता है वहाँ सर्वत्र उसे शंकर की कृपा की आवश्यकता हुई है। नायक की उत्पत्ति एवं नायिका मिलन दोनों ही अवसरों पर शंकर जी की कृपा ही अभीष्ट सिद्ध करती है। एक स्थल पर वनस्पति रानी की कृपा भी हुई है किन्तु उसका घटना प्रवाह पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि सुरजानी का अन्ततः ज्ञानदीप तक पहुँचना निश्चित था। इससे प्रकृति की मानव वेदना से सहानुभूति अवश्य सिद्ध हो जाती है।

कथा सुखान्त है। कवि ने कथा के सुखान्त करने के कारण को प्रगट नहीं किया है। यूसुफ जुलेखा आख्यान में जिस प्रकार मिश्र देश की नारियों को तरबूज काटते समय हाथ कटने का ध्यान नहीं रहा था, उसी प्रकार देवजानी को भी अंगुली में सुई का चुभना ज्ञात नहीं हुआ। नलोपाख्यान की भांति ज्ञानदीप की खोज का भी एक मात्र साधन स्वयम्बर की घोषणा समझा गया। काल्पनिक कथानक के साथ ही, आश्चर्य तत्वों की योजना कौतूहल वृद्धि में महायक होती है।

प्रेम-पद्धति :

कवि ने प्रेम का आविर्भाव साक्षात्-दर्शन से कराया है, प्रेमोदय पहले नायिका के हृदय में होता है। देवजानी जिसे सुरजानी के कहे हुये रूप गुण वर्णन पर विश्वास ही नहीं होता था, ज्ञानदीप को देखकर सुध बुध खो बैठती है। प्रथम दर्शन के बाद ही उसकी विरह वेदना तीव्र हो जाती है; जब किसी प्रकार उसे शान्ति लाभ नहीं होती तब सुरजानी उसे अभिसारिका का रूप धारण कराकर रात्रि में ज्ञानदीप के पास ले चली, किन्तु अभी तक ज्ञानदीप के हृदय में प्रेम का आविर्भाव नहीं हुआ और वह देवजानी से विमुख रहा इधर देवजानी की व्यथा बढ़ती गई और सुरजानी ने फिर अपने मन्त्रबल से छलपूर्वक ज्ञानदीप को महल में बुला लिया। ज्ञानदीप दोनों को एकत्र देखकर धवड़ाकर भागने को हुआ तभी देवजानी ने उससे संस्कृत में वार्तालाप किया जिसे सुनकर ज्ञानदीप रुक गया 'और वह भी देवजानी के प्रति आकर्षित हुआ, नित्य दोनों के मिलने से यह प्रेम वृद्धि पाता गया। प्रेम की पुष्टि हो जाने के बाद उन्हें विरह सहना पड़ता है।

देवजानी के पिता सुखदेव ने ज्ञानदीप को दण्ड देने के लिए नदी में बहा दिया। जिस प्रकार नल की खोज के लिए स्वयम्बर की घोषणा की गई थी, उसी प्रकार ज्ञानदीप की खोज के लिये स्वयम्बर की घोषणा करवा दी गई। ज्ञानदीप के आने पर दोनों का पाणिग्रहण हो जाता है किन्तु राय मान की मृत्यु के कारण कर्तव्य के वशीभूत होकर उसका भानपुर जाना आवश्यक हो जाता है। ज्ञानदीप कभी भी प्रेम में कर्तव्य को नहीं भूला। राय सुखदेव ने जब ज्ञानदीप को बन्दी बनाकर उससे उड़ने के बारे में पूछा तो उसने युक्तिपूर्वक कहा कि वह योगबल से इन्द्र की सभा में उड़ कर जा रहा था। उसने अपने मोन्माद का वर्णन नहीं किया और शान्तिपूर्वक दण्ड सहन किया। भानपुर में अपनी भगिनी सदश दामा का व्याह करके ही वह फिर देवजानी के पास लौट कर आया। देवजानी के प्रेम का बड़ा स्वाभाविक विकास कवि ने दिखाया है। वह ज्ञानदीप पर मोहित होकर उसे सब प्रकार से पाने का प्रयास करती है। ज्ञानदीप के नदी में बहाये जाने के पश्चात् वह अत्यन्त विरह पीड़ा से पीड़ित हो 'जहवा ढरा तोमर पमेऊ, ढारों रकन हसोवर कोऊ' कहकर अग्निकुंड में कूद पड़ती है।

रस :

ज्ञानदीप में भी शृंगार रस के ही दर्शन प्रधान रूप से होते हैं। कवि ने विरह की चर्चा अधिक की है। संयोग का वर्णन कवि ने अवकाश होते हुये भी नहीं किया है। नायक नायिका के मिलन का वर्णन मात्र उपलब्ध है।

विरह-वर्णन :

प्रेम का आरम्भ मर्यादा त्याग करके होता है।

नबी प्रेम मद सो पियै जो खोवे कुलकानि ।
मानिक देइ कलाल कहँ, सदा जो पत की हानि ॥

देवजानी ज्ञानदीप के सौन्दर्य को देखकर मर्यादा का विस्मरण करके विमोहित हो गई और उसकी वेदना निरन्तर वृद्धि पाती गई।

प्रकृति-वर्णन :

कवि ने प्रकृति का वर्णन उद्दीपन रूप में किया है, कोयल की कूक, मोर का शोर एवं पपीहा की पीपी से विरह का उद्दीप्त होते हुये वर्णन है।

एही जुगुनि दिन वीतेउ भारी, निसि आये विरहिन दुखभारी ।
देखत चन्द चन्द विरारा, पपिहा बोल सवद जिउ मारा ।
बोलहि मोर सोर वन माहा, भीलीभूकति काम तन ढाहा ॥
कोकिल कूकत कलरव बोली, विरह पसीजि भीजि तन चोली ॥

इन विरहोद्दीपक उपकरणों को दूर करने के लिये सुरज्ञानी जो उपचार करती है उसमें ऊहा एवं बुद्धि का चमत्कार अधिक है।

चैननि सो लिखेसि भुमिइ राहु, चात्रिक कह से चाननी वाहु, ॥
लिखि मजारी मोर डेरवावा, भीलनिकोउ पूख वनवावा ॥
लिखि भुयंगं औ सोहिल लिखा, विरह समुंद्र जेइ सोखे सीखा ।

इसी प्रकार सुर की भाति शेख नवी ने भी वीणा वादन पर मुग्ध होकर चन्द्रमा की गति का अवरुद्ध होते दिखाया है।

कवहुँ वनि का ठाठ वनावे, मधुर मधुर सुर गाइ मुनावे

प्रीग थकित होइ चन्द को, रैन षटत वढ जाय ।
मदन सूता नव जागे, तेहि गुन दिरेसि अड़ाइ ॥

कहाँ कहीं कवि उपमानों की योजना में अति कर बैठा है और हृदय की वेदना का परिचय अंगीठी के दहकने से देता है।

अब नित हिये अंगीठी बरई, तुम्हरे विरह अग्नि नित जराई

विरह वर्णन के अन्तर्गत कवि ने वारहमासे की भी चर्चा की है। वारहमासे का आरम्भ-कवि ने आसाठ मास से किया है। प्रकृति के जो उपकरण संयोगियों को सुखद होते हैं, वही वियोगियों की व्यथा को तीव्र करते हैं। सावन महीने के संयोग सुखद एवं वियोग दुखद स्वरूपों का वर्णन कवि इस प्रकार करता है:—

संयोग सुखद :

सधन मेघ रचि रहा लुकाई, निस पति निसा नहीं देषराई।
हरिअर पुहुमी भइ चहुँ ओरा, राजहि सखी विराजि हिंडोरा।
भुलहिँ औ मलार रस गावहि, रीकि कंत सो रीकि भुलावहिँ।
दंपति मदन चहहिँ संग्रामा, रति सनेह चाहे वर वामा।
मानिनि तिय हिय भुष अनुहारी, लाज वीच नहिँ मानिहिँ हारी।
सुप समेत सब रैन बिहाई, चैन चाउ रस भाउ अघाई ॥

सारंग मोर मपीहा, विरह भरे मुष बैन।
सुनि सुनि सुष संयोगिनि, देपि देषि पिय नैन ॥

वियोग दुखद :

एहि सावन विरहिन तन तावन, बरसत जल दुप वीच जमावन।
मेचक मेघ मनो कज सैना, अंकुस चड़ित महाउत मैना।
पिक नकीव चात्रिक हरवाहे, सोक सबद बोलहिँ पडवाहे ॥
बुंद वरन वरसे चहुँ ओरा, दुख प्रान चडि त्रास हिंडोरा ॥
त्रिपति विरह चडि दीन्ह दंमामा, बोलहिँ धन माजहि डरि वामा ॥
भरा न धाम पैठि विश्रामी, नैन मुँदि संवरसि सुप सामी।
कवन उवारे नायक, वौड़न हिया हने दुख सायक ॥

एह दुप वितवै नायका, नायक जेनहिँ विदेश।

भूल सबै सिंगार रस, भई सो जोगिनि बैस ॥

विरह के इस परम्परगत वर्णन के साथ ही, कवि ने पूर्वरग का भी उल्लेख किया है। ज्ञानदीप के सौन्दर्य पर मुग्ध हो, देवजानी अपने प्रेम का वर्णन इस प्रकार करती है:—

हैं बहि दरसन देखि विलानी, जैसे लोन मिलत विन पानी ॥

पीरि खांड जस भए मिलावा, कहु केहि भानि जाहि बिलगावा ॥

रूप समुद्र जिउ बूढ़ सेवाती, परा परत मिलिगा तेहि भानी ॥
जौ जीव निउउं न छोबौ रंगू, जोगी भोगी भए एक रंगू ॥

संयोग वर्णन में कवि की वृत्ति अधिक नहीं रमी है, किन्तु मिलनाश्रुओं का उल्लेख अवश्य है:—

देखत पिय मुख लोचन भरे, नलिन नील जनु जलमधि परे ॥
मानहु खंजन, नीर नहानी, बूढ़ि उठी ऊपर फहरानी ॥
कोकिल सुर धरि, दूनउ रोई, नएन नीर-मों चीर निचोई ॥

कवि ने एक स्थल पर कृष्णाभिसारिका का भी चित्र खींचा है। देवजानी कृष्णा-भिसारिका का रूप धारण करके कुवर जानदीप से मिलने गई।

आगे भई सुरजानी बोली, काढहु ललित रंगीली चोली ॥
धोलटु सुरंग छबीली सारी, नील बसन पहिरहु तन बारी ॥

विछिवा वजनी काढिके, छुद्रधटिका षोलु ।
कंगन टाढ़ छपाइ लेई, रसना नेकु न वोळु ॥

कुल की दीपक जगत पियारी, परवल काम कीन्ह अभिसारी ॥
चरन चादि कुछ सकुच न आनी, अंग अंग ढापि चली देवजानी ॥
तनिक सो तन जंह होइ उधारी, चन्द्र जगुति प्रकटै उजियारी ॥
नील बसन मधि सोभित अंग, सीसी भरी काक जस संग ॥
साय जलधि विच दामिनि जैसी, दुरत सुरत अधियारी तैसी ॥

शृंगार रस के अतिरिक्त ग्रन्थ में वीर रस की भी किञ्चित् चर्चा सुन्दरसेन और जानदीप के युद्ध वर्णन में हुई है। युद्धोत्साह आदि का वर्णन न होकर, सेनाओं की सज्जा एवं युद्ध की वीभत्सता का ही वर्णन अधिक है:

भए संजोइल तुएन चढे, हस्तिन पधरी लोहेन मढे ॥
धुमरहिं घटा जनु सावन आये, अंकुस कीन्ह तुरत चमकाये ॥
धुमरहिं धन जनु बाजु निसाना, जनु वगुपाति, फरहरा वाना ॥
मारु वाजन में सहनाई, मानहु सारंग, सबद सुनाई ॥

इस प्रकार सेनाओं के उपस्थित हो जाने पर युद्ध हुआ। युद्ध की भयानक गति एवं वीभत्सता, जोगिनी, एवं गीधों के वर्णन से और बढ़ जाती है:

भरहिं तो नैन परग बहु टूटै, वपतर जेव गासी नहिं फूटै ॥
टूटहिं कन्ध भुजा एक तोरी, उठहिं कवन्ध पेलु जनु होरी ॥
धोनिन धार जानु पिचकारी, हाहा हृत, न्ह होइ हहारी ॥

हंमहि षषाहि मसान मसुरी, कलकलाहि जंमुक सुरपूरी ॥
जोगिनि जोरि ज्मातै जुरी, सूरन. दूँ दुँकै सव सुरी ॥

गीघन माइँ छायउ, महि चोचन विवियात ।

आपु आपु कहँ पाचहि, मनहु सरमा पाच ॥

भाषा :

ज्ञानदीप की भाषा अबधी है ।

छन्द :

ज्ञानदीप की रचना दोहे चौपाई के क्रम से हुई है । मान अर्द्धालियों के बाद एक दोहे का क्रमनिर्वाह ग्रन्थ में है ।

अलंकार :

अधिकांश अनुप्रास, अनेन्वय, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदिक अलंकारों का प्रयोग कवि ने किया है ।

अनुप्रास

नवी नवी निन रटत हैं, निनहि नवी की आस ।
करता करिहि से होइही, चित. मति करो उदास ॥

अनेन्वय

आयु रूप वोह करता, जानै कौन खानै रूप ।
बौहिका, रूप वोही उपमा, जस वोह अहै अनूप ॥

उत्प्रेक्षा

धुंधट पट के वोट मधि दुलाहिनि निरखत नाहि ।
कनन सरीके पीजरे, लंजनु जनु अकुलाहि ॥

ज्ञानदीप में अन्य प्रेमाख्यानों की भांति वस्तु वर्णन की अधिकता नहीं है । कवि ने नगर गढ और जलक्रीडा आदि का वर्णन नहीं किया है । देवजानी के सौंदर्य का वर्णन, रामरागिनी वर्णन, एवं मन्त्र-ज्ञान चर्चा अवश्य उपलब्ध होती है ।

देवजानी के सौन्दर्य का वर्णन करते समय कवि ने परम्परायुक्त उपमानों का प्रयोग

किया है। अन्य प्रेमाख्यानों की भांति नखशिख वर्णन अधिक नहीं है।^१ शृंगारसज्जा का वर्णन करते समय कवि ने कुछ आभूषणों, कर्णकुण्डल, हार, गुलूबन्द, खौर, टङ्किया, बाहुत, छुद्रावलि, चूरा एवं बिछिया आदि की चर्चा की है।

कवि ने बहुशता प्रदर्शन के लिये भैरों, मालक्रोष, हिरडोल, मेघमलार, दी-क, विलावलि, सूही, गालसिरी, माहुर, सिन्धु, सोरठ, टोड़ी, गूजरी, मरहठी आदि राग रागिनियों का उल्लेख किया है।

सुरज्ञानी अपने मन्त्र-ज्ञान का भी परिचय देती है :

सुरज्ञानी कहू राजदुलारी, मोहनमंत्र मैं जानत भारी।

मोहन जोहन वसिकरन, विरह तवान उचाट।

पाँच वान सरसिज के, जेहि तन जान जेकाट।

समाज एवं संस्कृति :

इस दृष्टिकोण से 'शानदीप' महत्वपूर्ण है। विद्यानगर के राजा सुखदेव की पुत्री देवजानी जब बारह वर्ष की हुई तो वह चौदहों विद्या में निपुण हो गई। सम्भवतः कन्या की

१. अति कोमल लहकारे केसा, स्याम वरन चकिन जुनु सेसा ॥
ता मुख भूपन सीस अथा, तापर बाजन वैठेड सूआ।
अजन सलिल एक सग बहा, मानहु कामसूत कर किहा।
कुच कचन जस तिल जीरी, सकसी वसनी अधर बटोरी।
थग लाइ तेहि लंक निसकी, केसरि पीसि अरगजनु अंकी।
जंघ जुगल जुनु वैदली जोरी, कै हस्तीक केसरि बोरी।
२. प्रथमहि अजन सोधे कीन्हा, यहुरि वसन घसि ता घसि दीन्हा।
मुख तमोल देइ अजन नैना, जुनु सहरस अजन सुख चैना।
पाएन जावक सोभा दीन्हा, जावक जग सोभा कह लीन्हा।
आछे चिहुर चीर सम गूँदा, चन्दन चेति अरुन सुत मूदा।
तिलक तमोल अधर मधि तिला, सीस लिलाट विद्रमभिलमिला।
नामिक छवि मुक्काहल, मुकुता अधर परोस।
नवी कवल के कोस पर, मनो बुन्दि दुति श्रोस ॥
सखन वीर हरि जैरि आरे, जरत सूर वीरन से हारे।
गलै गुलबन्द जलजसुत माला, जलसुत चाहि अधिक उजियाला।
आइ लिलार टाड़ भुज माहा, कनक जडित याहुट भुजमाहा।
छुद्रावलि बाधै मधि लड्का वरनि न जाय मदन की सङ्का।
पाएन पाएल चूरा सोहै, वरनत वरन सरस्वती मोहै।
चन्द सूर मानहु मनीयारी, थिछुआ उडुगन निसि उजियारी।

विवाह योग्य अवस्था उस समय आठ वर्ष की जगह बारह वर्ष मानी जाने लगी थी ; संस्कृत का समादर तब भी समाज में अधिक होता था । संस्कृतभाषी पण्डित समझे जाते थे, जब देवजानी ने (सासकिरत महं बोलेउ बोला) संस्कृत में वार्तालाप किया तभी ज्ञानदीप प्रभावित हुआ ।

पण्डित पण्डित मिलै जो कोई, बहुत सवाद बात कर होई ।

बालक के जन्म के पश्चात् छठी संस्कार का वर्णन कवि उसमान के बाद शेखनबी ने ही किया है । राजा के रनिवास में रानियों की संख्या बढ़नी जाती थी, राजा मानराय के की मृत्यु पर उसकी तीन सौ साठ रानिया सती हुईं ।

कवि ने समाज में प्रचलित शकुनों का वर्णन भी किया है । इनमें गाय, घोषी, मृग, मालिन, वंशी, नीला, खेमकरी, लोआ, अहीरिन, धीमर, पूर्णगट, ब्राह्मण आदि का विशेष उल्लेख है ! ज्ञानदीप के विद्यानगर की ओर प्रस्थान करने पर ये सभी शकुन हुये थे ।

दहिने काग सवरिया बोला, जबकि मिलै धन होइ निडोला ।
रजक परोहन भारे आवा, दहिने ओर मिरग देखरावा ।
मालिनि आइ फूल कर दीन्हा, वंसी वजाइ काहु सुर लीन्हा ।
नीला खेमकरी देखराइ, लौआ नाचत ढिग मा आइ ।
दहिउ अहीरिन लेउ पुकारी, धीमर आइ मच्छ लेइ मारी ।
बाएँ दिसि बोला पतिहारा, तरुनी सीस कलस जलभरा ।
बाभन तिलक दुआदस कीन्हें, सिद्धि-सिद्धि मुख असीस दीन्हे ।

चली सगुन सुभ देखिकै, सुरज्ञानी विहसाइ ।
भावत मिलीहिण नवी, निज विधि मेरइहि आइ ॥

इसके अतिरिक्त कवि ने विवाह संस्कार का विस्तृत वर्णन किया है । परदप, वेदी, सेंदुरदान, गठबन्धन, कोहवर आदि वैवाहिक संस्कारों का उल्लेख है :

माझौ छाइ सरग लेइ आवा, एक खम्भ कस माझौ छावा ।
चाद सुरज नहा धरा उरेही, उडहन बन्दनवार सनेही ।

वेदी सात सर्ग पर नवी चौठहों भौनि ।
धूप धूप नथ बोभेउ उपजे उत्तम कान्ति ॥

दुलहिन सिर पर सोहै मौरी, लोग ठगे जनु साह ठठोरी ।
दुलहिन करके दीन्हे सिधोरे, बाभन आइ पढा गठि जोरें ।
मौरि टारि कुंवर कर लीन्हा, अति अनन्द सों मँदुर दीन्हा ।

हंसजवाहिर

(कवि कासिमशाह कृत)

कासिमशाह ने ग्रन्थ 'हंसजवाहिर' में अपना थोड़ा बहुत परिचय दिया है।

निवासस्थान :

कवि का निवासस्थान अबध सूबे के अन्तर्गत लखनऊ जिले का 'दरियावाद' नामक नगर था।^१

जाति पांति एवं मातापिता :

किसी भी सूफी कवि ने अपनी माता का परिचय नहीं दिया है, कवि कासिमशाह केवल अपने पिता इमानुल्ला के नाम का उल्लेख करते हैं। इनके पिता का नाम इमानुल्ला था तथा ये जाति के हीन, या नीच जाति के थे^२। इतने पर भी प्रेम-ज्ञान के ऊँचे पन्थ की चर्चा करके उच्च वर्ग के मध्य सम्मानित होने की इनकी आकांक्षा थी। कवि स्वभाव से विनीत है, साथ ही जायसी की ही भांति 'बिनती सकल पन्डितन आगे, हों सेवक जिन कर पुछ लागे' कहकर अपनी त्रुटियों का परिभार्जन चाहता है।

रचना एवं स्थिति काल :

कवि अपने ग्रन्थ का रचनाकाल हि० सन् ११४६ लिखता है।^३ शाहेवक्त की प्रशंसा करते हुये वह दिल्ली सुल्तान मुहम्मदशाह के रूप एवं ऐश्वर्य का वखान करता है। कवि सम्राट मुहम्मदशाह को सुन्दरता, वीरता एवं बुद्धिमता में अपूर्व मानता है।

१. है लखनऊ अबध मंफियारा, दरियावाद नगर उजियारा ॥ पृ०७।

२. दरियावाद मारु मम ठाऊ, इमानुल्ला पिता कर नाऊ।
नहदां मोहि जन्म विधि दीना, कासिम नाच जात का हीना। पृ०७।

३. ग्यारह से उनचास जो भ्राजा, तब यह कथा प्रेम कवि साजा। पृ० ८।

सुलतान के सम्मुख हिन्दू एवं तुर्क सभी नत होते थे तथा उसका राज्यकाल सुख शान्ति का युग था ।^१

मिश्रवन्धुओं ने हंसजवाहिर का रचनाकाल सं० १६०० माना है, साथ ही उन्होंने दरियाबाद को जिला वाराणसी के अन्तर्गत बताया है। मुहम्मदशाह का शासनकाल सन् १७७६-१८०५ है साथ ही कवि ग्रन्थ का रचनाकाल हि० सं० ११४६ या सन् १७६३ बताया गया है, अतः कवि का स्थितिकाल मुहम्मदशाह का राज्यकाल ही निश्चित होता है।

गुरु :

अपने पीर की चर्चा करते समय कवि करीमशाह की बन्दना करने के पश्चात् सलोन नगर के पीरमुहम्मद एवं पीरअशरफ का गुण गान करता है। ऐसा ज्ञात होना है पीर मुहम्मद के पुत्र पीर अशरफ ही कासिमशाह के दीक्षा गुरु थे। इनकी दया, महानता एवं चमत्कारशक्ति का परिचय भी कवि देता है। अन्त में कवि मुहम्मद अशरफ के पुत्र पीर अता का गुणगान भी करता है। इन चारों में कौन इनका गुरु था, यह स्पष्ट नहीं होता, फिर भी रेखांकित पंक्तियों के कारण मुहम्मद अशरफ ही इनके दीक्षा गुरु ज्ञात होने हैं^४। कवि उन्हीं को पार लगाने वाला और सुमिरन का आधार मानता है।

१. महम्मदशाह देहली सुल्तान, कामी गुण वह कीन बचानू।
छाजै पाट चीर सरताना, नावहिं शीश जगत के राजा।
रूपवन्त दरशन मुहराता, भागवन्त वह कीन विधाना।

द्रव्यवन्त धर्म मुह पूरा, ज्ञानवन्त खरग मंह सूर।
होय बलवन्त कटक कहि घोर, देशवन्त चितवै चहुँ शीरा।

नावै शीश हिन्दू तुस्काना, को देश देश के थाना।
देश देश तहं के अमराज, कीन अचल होय करै नियाज।

बैठा आप सुपाट पर राज करै सुख भोग।
सुखी भई सब पिरषवी, राय रंक जन लोग।

पृ० ६।

२. सुमिरै नम करीम सो पीरा, जेहि की नाव चढ़े वहि वीरा।
हौं केहि योग जो करौं बखाना, वह न कलंक जगत कर भाना।
वेहि ज्योति में दीपक वारा, पीर महम्मद जग उजियारा।
पुनि वहि ज्योति दिये उतारा, जो कछु लाग चला ससारा।

धर्मवन्त निरमल गुरु, अलख दुलारे पीर।
तिन घर दीपक बुध रहा, अशरफ जोत शरीर ॥

अरु चितवन गिरि कञ्चन होई, कस पग परस तरै नहिं कोई।
जो न होत अस कबहुँ हारा, को मम पन्थ लगावत पारा।

है अघार सुमिरनमेरे, महमद अशरफ नाव।
यहिं मग रस्ता नहिं चलत, ज्यहिमा है नहिंनाव ॥

कथा-सारांश :

बलखनगर के सुल्तान बुरहानशाह की एकतीस सुन्दर-नारियाँ थीं। पुत्र के अभाव में सुल्तान अत्यन्त दुखी रहता था। एक दिन अत्यन्त उदास होकर वह घर छोड़कर निकल गया, मार्ग में उसे हजरत खिज़्र ख्वाजा मिले जिन्होंने सुल्तान को पुत्रप्राप्ति का आशीर्वाद दिया। फलस्वरूप यथासमय उसके हंस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ज्योतिषियों ने हंस के नक्षत्र देखकर यह बतलाया कि एक बार कारणवश यह स्वदेश से विछुड़ जायगा किन्तु अन्त में यह फिर बलख लौटेगा और यहाँ का सुल्तान बनेगा। कुछ समय पश्चात् बुरहानशाह का देहावसान हो जाने पर देश में अशान्ति व्याप्त हो गई। सर्वत्र अनबन फैली थी। हंस अभी बालक ही था। वह भी बन्दी बना लिया गया। उसकी मा किसी प्रकार यत्न से उसे वहाँ से बाहर लाई और बलख-देश छोड़कर चल-पड़ी। मार्ग में अनेक प्रकार के कष्ट भेलने के उपरान्त, किसी प्रकार हजरत-खिज़्र-ख्वाजा के परामर्श से वे रूम-देश के शाह तक पहुँच गये जहाँ उन्हें यथोचित-सम्मान प्राप्त हुआ।

एक वर्ष उपरान्त जब हंस अपनी फुलवारी में सो रहा था उसे स्वप्न में एक सुन्दरी देख पड़ी जिसके सौन्दर्य पर वह तत्काल ही विमोहित हो गया।

इधर चीन देश के राजा आलमशाह की रानी मुक्ताहर के गर्भ से जवाहर नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। एक दिन जब वह उपवन में विचरण कर रही थी, एक परी तालाब में स्नान करने आई। स्नान करते समय वह अपना चीर किनारे पर ही छोड़ गई थी। जवाहर ने उसका चीर कहीं छिपवा दिया और फिर परी को लौटते समय उससे सखीरूप में रहने का वादा ले लिया। वह परी जवाहर की अन्य सखियों के साथ 'शब्द' नाम से वहीं धौराहर में रहने लगी। जवाहर के वयस्क होने पर उसके पिता को उसके ब्याह की चिन्ता हुई और उसने किसी देश के सुल्तान भोलाशाह के पुत्र दिनौर से उसका सम्बन्ध स्थिर किया। 'शब्द' परी होने के कारण दिनौर के सम्बन्ध में शीघ्र ही सब कुछ जान गई। उसने दिनौर की अत्यन्त निन्दा की और अपनी प्रिय सखी जवाहर के लिये योग्य वर ढूँढने परेवा बनकर उड़ चली।

'शब्द' उड़ते हुये रूम देश में हंस के निकट पहुँच गई और वहाँ अन्य पक्षियों से वार्तालाप में जवाहर के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया। हंस उस वर्णन को सुनकर 'शब्द' के प्रति आकृष्ट हुआ और उसे अपने हाथ पर विठाकर उसने क्रमशः जवाहर का

नगर सलोन ठान त्यहि केरा, चहुदिशि जग भाहै उजियेरा।

तेहि घर रतन प्रीत तस्मला, पीर अता सब पूरण कला।

X X X

पीर दुलारे करीम के, अशरफ पीर के नन्द।

निरमल टोऊ जगत महै, निहकलक्ष जस चन्द ॥

(पृ० ५-६)

सारा वृत्तान्त जान लिया। 'शब्द' के किये गये नख-शिखर वर्णन से वह अत्यन्त प्रभावित हुआ और उस सौंदर्य को स्वप्न में देखे गये सौंदर्य के समान ही मानकर जवाहर का वियोगी बन बैठा। वह जोगी होकर प्रियतम की खोज में निकल जाने को हुआ किन्तु 'शब्द' ने उसे सान दिन तक ऐसा न करने के लिये मना कर दिया और स्वयं हंस के पास उड़ चली। वहाँ उसने सारा वृत्तान्त जवाहर को बताया किन्तु किसी के शिकायत कर देने पर रानी ने 'शब्द' को बंदिनी बना लिया तथा उसका चीर भी छीन लिया। अब वह उड़ सकने में असमर्थ थी। इस घटना के कारण जवाहर अत्यन्त दुखी और विरहाकुल हुई क्योंकि उसने भी स्वप्न में हंस के सौंदर्य का दर्शन किया था।

इस प्रकार 'हंस और जवाहर के प्रेम-विकास में व्यवधान उपस्थित हो गया और जवाहर के विवाह की तैयारियाँ दिनौर के साथ होने लगीं। इधर जवाहर चिन्तित थी उधर हंस 'शब्द' द्वारा जवाहर के सौन्दर्य को सुनकर अत्यन्त विकल था। शाह ने अनेक सुन्दरियों को उपस्थित किया किन्तु वह सन्तुष्ट न हुआ; इसी बीच में उसका प्रिय सखा बाज भी खो गया, जिसकी खोज में दुखी होकर वह भटकते हुये किसी पहाड़ पर जाकर सो रहा। वहाँ से उसे परिया उठाकर ले गई और केवल कौतुक के लिये दिनौर को सजी सजाई बरात से उठा ले गई और हंस को उसके स्थान पर बिठा आई। इस प्रकार वास्तव में हंस और जवाहर का विवाह हो गया। दोनों प्रेमियों की भेंट अचानक गई। उन दोनों ने अपनी अँगूठियाँ बदल डालीं और आन्नदकेलि के पश्चात् वे सो गये। इसी समय परियाँ फिर हंस को वहाँ से उठा ले गई और उसकी जगह दिनौर को लिटा आईं।

जवाहर ने दिनौर को वर के रूप में स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। परीक्षा के पश्चात् भी दिनौर असफल रहा और दिनौर बदला लेने के लिये जोगी होकर निकल पड़ा। वह गुरु वीरनाथ से मिलकर अपनी ध्वंसकारी साधना में संलग्न हुआ। इस जागकर फिर विरह पीड़ित हो गया और जवाहर भी विरह दुःख से सन्तप्त रहने लगी; जवाहर का दुःख निवारण करने के लिये उसकी माता से अनुमति लेकर एक बार फिर 'शब्द' अपना चीर लेकर उड़ी और हंस के हाथ पर आकर बैठी। शब्द के द्वारा जवाहर का वृत्तान्त सुनते ही हंस जोगी होकर निकल पड़ा और उसके साथ कई अन्य साथी भी हो लिये, शब्द उनका मार्गप्रदर्शन करने लगी। मार्ग की अनेक बाधाओं को पार करते हुये किसी प्रकार वे समुद्र पार कर गये। समुद्र पार करते ही 'शब्द' ने जाकर जवाहर को सब हाल सुनाया और हंस फिर जवाहर से मिल, अपने दिन सुख में बिताने लगा। इसी आनन्दकेली के मध्य हंस को अपने देश रुम का स्मरण हो आया और वह जवाहर के साथ अपने देश की ओर चल दिया किन्तु मार्ग में वीरनाथ के चले ने अवसर पाकर उन्हें फिर अलग कर दिया। हंस जोगी होकर भ्रमण करने लगा और जोगी वेश में घूमना हुआ भोलाशाह के यहाँ पहुँचा। वहाँ उसकी पुत्री एवं दिनौर की बहन से उसका विवाह हो गया और 'शब्द' के प्रयत्न से उसे जवाहर भी मिल गई। हंस दोनों पत्नियों को लेकर रुम देश को लौट आया। उसने रुम का अधिपति बनकर बलख को पुनः प्राप्त किया। यहाँ उसके घर जवाहर के गर्भ में 'हमीन' नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ।

मीरदौला, जो उसके विरोधियों में से था, के पुत्र ने अन्य सुलतानों द्वारा उस पर आक्रमण करवाया और युद्ध में स्वयं उसे छूरी से मार डाला। उसकी दोनों पत्नियों ने भी प्राण त्याग किये और तीनों की एक साथ समाधि बना दी गई। बाद में हसीन राजा हुआ।

कथा—संगठन :

‘हंसजवाहिर’ का कथानक पूर्णरूप से काल्पनिक है। कवि ने घटनास्थलों के लिये बलख, चीन एवं रूस प्रदेशों को चुना है किन्तु इन स्थलों के निवासी पात्रों का नामकरण भारतीय ही है। ज्ञात होता है कि कवि इन दूरस्थित देशों के नामों के द्वारा केवल चमत्कार एवं कौतूहल की सृष्टि करना चाहता है।

कथा की घटनाओं में विशेष अन्तर नहीं है। राजा का पुत्राभाव, आशीर्वाद के द्वारा पुत्रोत्पत्ति, जन्मकुंडली, प्रेमोत्पत्ति, मार्ग की कठिनाइयाँ, गुरु, शब्द या परेवा की सहायता, विरोधी तत्वों का दमन, जीवन की निस्सारता, शाश्वत मिलन आदि घटनाओं में कोई विशेष नवीनता लक्षित नहीं होती है, किन्तु कवि की संयोजनों में नवीनता है।

साधक के दो विरोधी हैं। एक लौकिक और दूसरा अध्यात्मिक। मीरदौला उसे लौकिक उत्तराधिकार से वंचित करना चाहता है तथा दिनौर उसकी जवाहिर प्रामि में बाधक है। हंस को मार्ग की कठिनाइयों, एव बिछुड़े के का दुःख तीन बार सहना पड़ता है। एक बार वह ‘शब्द’ की प्रतीक्षा में चिन्तित हो खर से निकल पड़ता है, दूसरी बार अप्सराओं के द्वारा संयोग सुख प्राप्त कर लेने के पश्चात् उसे फिर वियोग दुःख-सहना पड़ता है। तीसरी बार दिनौर की कुचेष्टा उसे जवाहिर से वियुक्त कर देती है। जीवन के अन्त का वियोग, शाश्वत मिलन की लालसा में वियोग नहीं रह जाता।

आश्चर्यतत्वों की योजना में कवि ने अप्सरा, एवं परी का ही उल्लेख किया है। ‘मधुमालत’ में जिस प्रकार अप्सराओं ने मधुमालती एवं मधुकर का संयोग करवा दिया था, चित्रावली में देव के कारण सुजान और चित्रावली का मिलन हुआ, ठीक उसी प्रकार अप्सराओं के कौतूहल के कारण हंस और जवाहिर का अकस्मात् मिलन हो गया। अन्तर केवल इतना है कि मधुकर एवं मालती, सुजान एवं चित्रावली का प्रेम उनके प्रथम मिलन के पूर्व उद्भूत नहीं हुआ था, किन्तु हंस और जवाहिर इस मिलन की प्रेमव्यथा से पीड़ित थे।

अन्य कथाओं में ‘गुरु’ या किसी सिद्ध की चर्चा सहायक के रूप में होती रही है किन्तु गुरु वीरनाथ की चर्चा विरोधी रूप में होती है। गुरु वीरनाथ का पर्वत पर निवास, उनके अनेक चेलों एवं सिद्धियों की चर्चा कवि जटा करना है वहा सिद्धों की साधना स्मरण हो आती है।

जायसी की 'पद्मावत' के पश्चात् प्रमुख रूप से दूती का वर्णन 'हंस जवाहिर' में आता है यद्यपि जान कवि ने भी अपने प्रेमाख्यानों में इनका उल्लेख किया है। चित्रावली में जिस प्रकार जोगी मेष में भ्रमण करते हुये सुजान पर कंवलावती विमोहित हो गई थी ठीक उसी प्रकार भोलाशाह की पुत्री हंस के सौन्दर्य पर मोहित हो जाती है। कवि हंस के चरित्र की उत्कृष्टता का परिचय इस स्थान पर नहीं दे पाता है। उसका विवश होकर व्याह करना फिर अति निष्ठुरता एवं उतावली से गौना लेकर वहा से चलना नायक के चरित्र को उत्कृष्टता नहीं प्रदान करता।

कथा का सगठन बहुत कुछ 'पद्मावत' से मिलता है किन्तु एक में ऐतिहासिक तथ्यरक्षा आवश्यक थी और दूसरी पूर्णतः काल्पनिक है, अतः अन्तर स्वाभाविक है। जायसी ने ऐतिहासिक तथ्यरक्षा के हेतु पद्मावत को दुखान्त बनाया। नूरमुहम्मद ने 'इन्द्रावती' में परदुःख कातरता का आदर्श उपस्थित करते हुये कथा को दुखान्त रक्खा। कासिमशाह ने संसार एवं जीवन की नश्वरता का प्रदर्शन करने के लिये अपनी कथा को विपादान्त बनाया। पद्मावत और हंसजवाहिर इन दोनों ग्रन्थों की प्रसिद्धि लगभग समान रूप से रही है। कवि शेखरहीम अपनी शिक्षादीक्षा का परिचय देने हुये लिखते हैं :

पद्मावत देखों निरथाई, मलिक मुहम्मद केर बनाई।

हंस जवाहिर कासिम केरी, पढयो सुन्यो पुस्तक बहुतेरी।

कथा के अन्त में कवि ने पद्मावत की भाँति कथारूपक की ओर संकेत किया है।

कासिम कथा जो प्रेम बखानी, वूमे सोई जो प्रेमी जानी।

कौन जवाहिर रूप सोहाई, कौन शब्द जो करत बड़ाई। पृ० (२७२)

कौन हंस जो दरशन लोभा, कौन देश जेहि ऊँचे शोभा।

कौन पंथ जो कठिन अपारा, कौन शब्द जो उतरे पारा।

कौन मीत जिन संग जिव दीना, कौन सो दुर्जन अतिछल कीना।

को जानी जिनवानि सुनावा, कौन पुरुष जिव सुन चित लावा।

कौन दुष्ट जेहि दरशन जूभा, कौन भेद जेहि शब्दहि वूभा।

1. पातहि पात सोवाय की, देह उपर तें छार।
छानहि करत ओटाय के, अन्त छार की छार।

कासिम जक्त जान सब धोखा, जो जग भूल गयो सो खोखा।
धोखा गगन फिर दिन राती, धोखा देखि बुलबुला भाँती ॥

वाच कथा पोथी सुवन परसन तेहि जगदीश ।
हमहिं बोल सुमिरे सोई, कासिम दई अशीश । (पृ० २७२)

और इस प्रकार कवि कथा के पाठक को आशीर्वाद भी देता है कि इस जीवन एवं शक्ति का एक ही उपयोग है कि प्रेम-ज्ञान में चित्त लगाया जाय :

कासिम यौवन हाथ है, चहे-सो काज सवार ।
पुनि हस्तीबल जायगो कौन उठावे भार । पृ० २७३

सूफ़ी प्रेम-काव्यों का संगठन पूर्णरूप से प्रबन्ध काव्यों के अनुसार हुआ है। प्रबन्ध काव्य में मानव जीवन की पूर्ण प्रतिच्छवि होती है। उसमें घटनाओं की संबद्ध शृंखला और स्वाभाविक क्रम के सम्यक निर्वाह के साथ ही, मार्मिक स्थलों का समावेश होता है। घटनाओं का यथातथ्य वर्णन, रस की निष्पत्ति नहीं कर सकता। अन्य सूफ़ी प्रेम काव्यों की भांति हंस-जवाहर में भी कथा प्रवाह के मध्य मार्मिक स्थलों का अभाव नहीं है। बलख के शाह बुरहान का निधन, हंस की मां की व्यथा, प्रेम मार्ग के कष्ट, हंस और जवाहर का संयोग, चीन से लौटते समय हंस और जवाहर का वियोग, जवाहर की असहाय स्थिति तथा अन्त में हंस की छल से असामयिक मृत्यु आदि ऐसे ही स्थल हैं जिनका कथा में इतिवृत्त या घटनाओं का उल्लेख तो होता है किन्तु उनकी सफलता इन्हीं रसात्मक स्थलों पर आधारित होती है। पूरी कथा में संबन्ध-निर्वाह भी अच्छा है यद्यपि आश्चर्य और अद्भुतत्व, परी आदि की सहायता से कवि का मनोनीत सिद्ध होता है, किन्तु कहीं भी घटनाओं में सम्बन्ध विच्छेद नहीं होता। परी के चीर चुराने की घटना, उसके 'शब्द' रूप में जवाहर के साथ रहना, हंस का परियों के द्वारा अपहरण, हंस का जवाहर-वियोग हो जाने के पश्चात् जोगीरूप में भ्रमण करते हुये दिनौर शाह की वहन से भेंट आदि घटनाएँ ऐसी हैं जिनकी संभावना तथा सार्थकता पर कथा के कई महत्वपूर्ण स्थलों का होना टिका हुआ है।

कथा की घटनाएँ भिन्न तथा दूर स्थित देश रूम-बलख तथा चीन में घटित होती हैं। पात्रों के नाम तथा स्थान, सभी काल्पनिक हैं। कथा के पूर्ण रूप से कल्पित होने पर भी उसका सम्बन्ध लोक जीवन से है।

प्रेम-पद्धति :

दाम्पत्यप्रेम-आविर्भाव वर्णन करने की विभिन्न पद्धतियों का उल्लेख पीछे हो चुका है। सूफ़ी कवियों ने आविकाश स्वप्न दर्शन, चित्रदर्शन, गुणश्रवण एवं साक्षात् दर्शन के द्वारा विवाह के पूर्व ही प्रेम के आविर्भाव का वर्णन किया है, हंसजवाहिर में भी कवि ने स्वप्न-दर्शन के द्वारा प्रेम के आविर्भाव का वर्णन किया है। हंस के हृदय में स्वप्न में एक अज्ञात सुन्दरी को देखकर उसके प्रति प्रीति का आविर्भाव हुआ। प्रेम की चिनगी सुलग जाने के पश्चात्, वह सभार के रागरंग से उदासीन रहने लगा। इसी

मध्य, जवाहिर के पिता के द्वारा निश्चिन्त वर के 'शब्द' परी के द्वारा अयोग्य प्रमाणित हो जाने के बाद, उसके योग्य वर ढूँढने के लिये 'शब्द' ने प्रस्थान किया और संयोग से वह 'हंस' को ही सर्वाधिक योग्य मान उसे जवाहिर का रूप-सौन्दर्य सुना बैठी। कुंवर पहले से ही एक अनुपम रूपवती पर आसक्त था और उसी सौन्दर्य का विवरण 'शब्द' से सुनकर उसे विश्वास हो गया कि स्वप्न में देखी गई सुन्दरी जवाहर ही है।

शब्द के हंस के पास से लौटकर आने पर, जवाहर भी हंस के गुणों तथा रूप पर मोहित हो गई।

कासिमशाह ने प्रेम का आविर्भाव स्वप्न दर्शन, तत्पश्चात् गुणश्रवण के आधार पर कराया है। मानसिक पक्ष अधिक प्रधान है, हृदय के उल्लास और वेदना को जितना विस्तार मिला है, उतना रति क्रियाओं के विवरण को नहीं। अन्य सूफी कवियों की भांति वस्ल के द्योतक प्रथम संयोग के वर्णन में भी कवि ने अनावृत रति का वर्णन नहीं किया है। प्रयत्न नायक की ओर से अधिक है और इसी के आधार पर कवि ने उसकी साधना या प्रेमभावना का अनुमान किया है।

नायक के मन में स्वप्न-दर्शन से प्रेम-भावना का उदय अस्वाभाविक नहीं ज्ञात होता। स्वप्न में अनुपम सुन्दरी को देखकर उसे प्राप्त करने की 'अभिलाषा' का जाग्रत होना तथा उसकी प्राप्ति का कोई साधन न पाकर, चिन्ताग्रस्त होना स्वाभाविक है। निरन्तर उसी सौन्दर्य का ध्यान, चिन्तन करते रहने के कारण हंस के हृदय में उत्पन्न 'पूर्वराग', 'शब्द' के द्वारा जवाहर के सौन्दर्य वर्णन के सुनने तक 'मंजिष्टा राग' की अवस्था को पहुँच चुका था। पूर्वराग रूपगुण प्रधान होने के कारण सामान्योन्मुख होता है, वही आगे चलकर प्रिय के स्वरूप निश्चय हो जाने पर विशेषोन्मुख हो जाता है। प्रेम में निश्चयात्मकता है। बुद्धि तथा तर्क की प्रेम के सम्मुख नहीं चलती। प्रेम की एकनिष्ठता के लिये एक निर्दिष्ट भावना आवश्यक है जो पूर्णरूप से साक्षात् दर्शन के द्वारा ही सम्भव हो सकती है, किन्तु कविगण इस हेतु चित्रदर्शन की भी योजना करते हैं। हंसजवाहिर में कवि ने चित्रदर्शन की पद्धति को न अपनाकर अद्भुत-तत्व परी इत्यादि की सहायता से साक्षात् दर्शन की योजना की है। हंस और जवाहर का विवाह हो जाने के पश्चात् जब हम जवाहर से अलग होता है, तभी उसके प्रेम के अलौकिक स्वरूप के दर्शन होते हैं।

विवाह होने के बाद जवाहर के प्रेम की उत्कृष्टता का दर्शन होता है। व्याह को आये हुये वर दिनौर को अयोग्य प्रमाणित करके, उमने साहस तथा धैर्य का परिचय दिया। उसे इस बात की शंका पहले से ही थी, अतः उसने पुष्टि के हेतु अंगूठियाँ बदल ली थीं। हंस के वियोग में वह अपना सुख भूलकर केवल उसके पुनरागमन की प्रतीक्षा में अपना समय बिताती है। दिनौरशाह की माता तथा दूतियों के सारे प्रयत्न निष्फल होते हैं और वह पतिव्रता के धर्म का पूर्ण पालन करते हुये कभी अपनी विरह-दशा पर शोक प्रकट करती है और कभी प्रियतम के कष्टों का स्मरण कर चिन्तित हो जाती है। 'शब्द' के द्वारा फिर

उसने एक बार 'हंस' से मिलने का सफल प्रयास किया और हंस के निधन पर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया ।

सूफी कवि प्रेम के अधिकांश ऐकांतिक स्वरूप का वर्णन करते हैं, जिसका कारण है साधक का साध्य के प्रति उत्कट प्रेम का प्रदर्शन करना । पारलौकिक प्रेम में लौकिक तत्व का निराकरण यदाकदा हो ही जाता है । फारसी मसनवी-पद्धति का भी यह प्रभाव इन कवियों पर पड़ा किंतु प्रेम के इहलोक एवं वाह्य-पक्ष का चित्रण 'यूसुफ जुलेखा' में ही अधिक निखरता है । अन्य ग्रंथों में लोकतत्व का समन्वय हो गया है । हंस के जवाहर के हेतु प्रस्थान करने पर उसकी मा का विलखना एवं बलख के सुल्तान का समझाना इसी तत्व के द्योतक हैं । जवाहर का हंस के प्रति प्रेम तथा दिनौर की स्पष्ट अवहेलना न कर सकने का सङ्कोच, परमप्रेम में लोकतत्व का समावेश कर देता है ।

अलङ्कार :

कवि ने अधिकांश प्रचलित अलङ्कारों का प्रयोग किया है । अलङ्कार-योजना प्रयासजन्य नहीं है । साधारण जनबोली में काव्यरचना करते समय कवि की रचना में अलङ्कारों का स्वतः प्रयोग हो गया है । कष्टसाध्य तथा अपरिचित उपमानों का प्रयोग नहीं के बराबर है ।

रूपकातिशयोक्ति :

तहाँ ठाढ शशि कमल शरीरा, लहरैँ लेय लाग जल तीरा ।

हेतुत्प्रेक्षा (गम्य) :

हुलसि नीर जो लहर उठावैँ, उमडैँ चरण चहुँ का धावैँ ।

सम्बन्धातिशयोक्ति :

केहि सर देऊँ जगत महं कोऊ, चाँद सुरज सरि करहि न दोऊ ।

निदर्शना :

जस घन महं दामिनि चमकाहै, तस वह गाग शीश उपराहै ।

व्यतिरेक :

खड्ग वाण पै खड्ग न होई, नौन वाण जेहि वरण न कोई ।
टोट मुआ पै टोट न होई, वह सौँ कैवल सर करै न कोई ।

। तीप :

शुक सो नासिक देखि लजाना, का परवत पर कोन्ह पयाना ।

उत्प्रेक्षा :

सुनो हस मन वीच मां, ऐस जवाहिर जोत ।

काया मनो समन्द विच, हिया सीप बुधि मोत ॥

भ्रानुप्रास :

टीका मिलि भा ललित लिलारा, फीका भयो रङ्ग रतनारा ,

छन्द :

‘हंसजवाहिर’ की रचना भी दोहे चौपाइयों के क्रम से हुई है। सान अर्द्धालियों के बाद एक दोहे के क्रम का निर्वाह किया गया है।

रस :

हंसजवाहिर शृंगार रस प्रधान काव्य है। कथा के अन्त एवं आरम्भ में कुछ कश्य-रस का परिचय भी मिलता है, किंतु व्यापकता शृङ्गार रस की ही है। हंस एवं उसके प्रति-द्वर्दियों के मध्य युद्ध-वर्णन के अंतर्गत वीर रस का परिचय मिलता है।

विप्रलम्भ शृंगार :

विरह की आग सुलगकर किसी भी प्रकार से शांत नहीं होती। उसकी उष्णता ही उसका जीवन है ;

कासिम आगी विरह की, पड़ी बहुत तन धाव ।

दहकी विरह किकोर वटु, अब केहि वार बुझाय ॥ (पृ० ३०)

इसी कभी न शान्त होने वाली अग्नि में पड़कर सूफ़ी साधक को अपनी परीक्षा देनी होती है। जवाहर ने जब शब्द को अपने योग्य वर की खोज में भेजा उस समय उसे अपना अभाव, खटक, रहा था। उसका हृदय सूना था और वह उसमें प्रिय को स्थान देने के लिये उसी प्रकार उत्सुक थी जिस प्रकार सीप त्वाति बूंद के लिये निरन्तर उर्ध्वमुखी होकर समुद्र में पड़ी रहती है। वह अपने प्रिय की प्रतीक्षा में बेचैन थी। उसकी इस बेचैनी एवं उत्सुकता का वर्णन कवि कितने सीधे सादे शब्दों में करता है :

भय अधराति ठाठ पछिनाई, खन आगन खन भीतर जाई।

मग जोवत वीते दिन राती, समुद्र माझ जस सीप सुवाती। पृ० ६०

जवाहर 'शब्द' के द्वारा अपने प्रिय हंस के पास अपने स्वेच्छाउत्सर्ग का समाचार 'नयनन माझ चरण दै लेऊँ, हिरदय माझ ठाऊँ दै देऊँ' कहकर भेजती है।

विरह में व्यक्ति जड़ चेतन का भेद खो बैठता है। इस अवस्था में विरही का पशुपक्षियों लता गुल्मों से वार्तालाप तो अन्य कवि भी दिखाते आये हैं, किन्तु इन पदार्थों का भी प्रत्युत्तर देना या सहानुभूति प्रदर्शित करना इन सूफी प्रेमाख्यानों में ही मिलता है। पपीहे को 'पीपी' रटते देख, हंस उससे पूछते हैं कि वह किस वियोग में है जो पी की रट लगा रहा है 'सुन चातक रे चातुर पाखी, तू केहि सोग न लावत आखी'— और वह इस उत्तर

‘छोड़यो कारन पीउ सब, भयो पपीहा पाख
रटते फिरौं पिउ पिउ सदा, पलक न लाऊँ आख’

के द्वारा वह हंस के प्रति अपनी अवस्था प्रदर्शित करता है। इतना ही नहीं, पपीहा हंस का शुभचिन्तक है, वह उसे सदमार्ग पर जाने का आदेश देता है :

दुविधा का मग छाड़ि के, एक पन्थ तू साज।
कै निज लेउ जवाहिरे कै रूमी कर राज ॥ पृ० ७६

ऐसी स्वाभाविक न्यञ्जनाओं के अतिरिक्त, कवि ने बारहमासे की विरह परम्परा का पालन भी किया है। प्रिय के वियोग में आश्रयहीनता एवं दुःखकातरता का भाव, इसमें पूर्णतः व्यञ्जित है। कहीं तो कवि प्रकृति के क्रियाव्यापारों से उसका सादृश्य प्रदर्शित करता है और कहीं संयोगियों के सुख से उसके विरह को उद्दीप्त हुआ प्रदर्शित करता है :

नैन चुवै जस सावन ओरी, पिउ विन नाउ को खेवै मोरी।
सखी कन्त संग करे किलोला, राधा पहिरि सु भुल्लै हिंडोला।
मोर सिंगार सो लैगा नाहा, गही को वाह पड़ेउ औगाहा।

पवन भुलावे मनहि मम, विरह भुकोरे देय।
गगन चढे उतरे अवनि, पिउ विन थाम को लेय ॥ पृ० (१३१)

तथा

चहुँ दिशि चाचर होय धमारी, हौं सो रहिउ छार शिरवारी ॥ पृ० (१३३)

विरह की यह व्यथा घरती स्वर्ग सभी स्थलों में व्याप्त है :

उठी आग नहिं जाय बुझाई, घरती लाग स्वर्ग का धाई ॥ (पृ० १३५)

शब्द जब जवाहिर का विरह-संदेश लेकर जा रही थी तो मार्ग में पड़ने वाले वनखण्ड जल गये, सरिता सूख गई, पत्तियों का वर्ण श्याम होगया :

लै सन्देश चली जेहि श्रोरा, विरहलोक धाई चहुँ श्रोरा ।
कूटन जाय विरह की ज़ारा, वनखण्ड जरैँ हुये पतभारा ॥
पंखी सहुँ न वाँचे कैकेई, जो वाँचे तन श्याम सो होई ।
सूखे सरवरसरिता पानी, जेहि दिशि जाय सो पंखी उड़ानी । पृ० १३७-३७

कहीं कहीं ऐसे मार्मिक वर्णनों के अतिरिक्त, वीभत्स चित्रण भी मिल जाते हैं जैसे :

विरह आग ते जारे मासू, भरना भये नैन के आसू ।
कन्त बिछोह श्रौटगा मासू, हियरा फाट रक्त भा आसू ॥ (पृ० ८२)

विरह पक्ष में कवि रहस्यवाद का परिचय भी देता है। यह सारी पृथ्वी, आकाश उसके विरह में व्याकुल हो उसे प्राप्त करना चाहता है, किन्तु उसकी अममर्थना सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है :

घन वियोग सोग जग बोवा, धरती स्वर्ग जरा दुख रोवा ।
खुला जो देख समंद पहारा, रोवन लाग जगत संसारा ।
ठाउंहि ठाउं भूमि जो रोई, सोत सोत निकसी जल सोई ।
रोवा गिरि भरना भये आसू, रोवैँ वनपत्ती वन वासू ।
अहि रोवत गये वैठि पनारा, टपके आस कृप वलधारा ।
रोवैँ वृक्ष भरैँ पुनि पाती, रोवैँ नखन तराईराती ।
रोवत चन्द भयो हियकारा, रोवैँ मच्छ समन्द भयो खारा ।

मेघ सो रोवैँ ताहि दुख, भूमि चुवावैँ आस ।
जग जाने बरसा भई लागो भादौँ मास । (पृ० २०४)

कवि के संयोग वर्णनों में अश्लीलता नहीं है। वर्णनात्मकता का अभाव है तथा काव्य-सौन्दर्य एवं भावात्मक मिलन के चित्रण अधिक हैं ।

गई सो लाग हिये लपटाई, जेहि विधि फूलन वास मुहाई ।
मानहि मिली चन्द उजियारी, होइ गइ एक न जायनिहारी ।
जानो धिरत दूध के माहीं, मेंहदी रंग लखे कोट नहीं ॥ (पृ० ६७)

संयोग वर्णन में पहेली वृक्षना वाक्चातुर्य एवं शतरञ्ज आदि खेलने का वर्णन भी कविगण करते हैं। कासिमशाह ने भी ऐसा ही किया है। जवाहिर योगी शब्द को लेकर हंस पर व्यंग करती है :

केहि गुन रहो रहस के माहीं, तुम तन दया मया कछु नाहीं ।
जिउ मारत नहिं करौ विचारा, छलत फ़िरो सिगरो संसारा ।
सुनो नाथ तुम योगी भेखा, सीख्यो छन्द जगत बहु देखा ।
अब मोहि शोच अधिक हिय माहीं, तुम योगी रहियो थिर नाहीं ।

किन्तु यह वर्णन कहीं भी पाण्डित्यप्रदर्शन के हेतु नहीं जान पड़ता । इसी प्रकार हंस एवं जवाहिर का शतरंज खेलना भी कवि ने दिखाया है ।

ले आई सतरंज धन, चतुराई के हाथ ।
जो हारूँ तो नाह की, जो जीतूँ तो नाथ ॥ (पृ० १८२)

कवि ने संयोग का वर्णन तीन स्थलों पर किया है । एक स्थल पर वह कुछ अधिक स्पष्ट हो गया है :

छिटकी माग छिटक गे वारा, दूटा गा गज मुक्कन हारा ।
टीका मिलि भा ललित लिलारा, फीका भयो रङ्ग रतनारा ॥
टूक-टूक भइ कंचुकि चोली, पवन वास भइ कोकिल बोली ।
छुटिगये बन्द जो छतियनसाजे, खुलिगये पायल पायनबाजे ॥
ठावहिं ठाव मसकि गा जोरा, जहं-जहं हाथ कंत गहि वीरा । (पृ० १८४)

वीर रस :

हंस जब अपनी माता के साथ बलख को छोड़कर रुम की ओर प्रस्थान कर रहा था तब उसके पिता के शत्रु दौलामीर, माहश्रली और माहरूप ने मिलकर उसको रोकना और बन्दी बनाना चाहा । यहीं पर कुछ युद्ध का वर्णन भी आता है । इसमें युद्धोत्साह, वीर दर्पपूर्ण वार्तालाप, सेना की सजावट या युद्ध सज्जा का वर्णन नहीं प्राप्त होता है । केवल अस्त्र शस्त्रों का चलना एवं धायलों की चर्चा मात्र है ।

माहरूप कर गही कमाना, खँचा तीर सो कीन सकाना ।

माहश्रली पुनि खड्ग संवारा, और न लीन और कीनसंधारा ।

× × × ×

निकसी खंग वज्र की धारा, काप उठा सव स्वर्ग प्रतारा ।

माहरूप के छूटे तीरा, फूटी पुरुस वीर एक तीरा ।

जो कोउ निवट हम के आवा, मारि वाण तेहि छार मिलावा । (पृ० २२-२३)

हंस के बलख सम्राट हो जाने पर एक बार पुनः युद्ध वर्णन आता है । इस स्थल पर युद्ध का वर्णन विस्तृत नहीं है । छल के द्वारा मीरबहादुर ने हंस को मार डाला और उसके बाद माहश्रली के दल तथा हंस की सेना में हुये युद्ध का भी संक्षिप्त वर्णन है ।

तबलौं बटक पार कहं रोका, गोला वान कोटि यक भौका ।
लोहैं लोह पड़ी घमसाना, लियै लोथ उठी घर आना ।
जो जेहि गली चहै वह भागै, ईट ईट सो वरसै लागै ।
जो जेहि ठाव, तहैं सो मारा, रुग्ड मुग्ड भये हाट वजारा ।

लोथन खानौ वाटकी, रक्त भरे सब ताल ।

दीपक हंस बुझाय गा, जक्त रक्त सौं लाल ॥ (२६६)

'हंस के द्वारा बलख राज्य की प्राप्ति का विस्तृत वर्णन मिलता है। हंस को युद्ध का उत्साह अपनी माता से प्राप्त हुआ जिसने वैरियों के दुष्कर्म का वर्णन करके हंस को प्रेरित किया। हंस की युद्ध सज्जा तथा पत्र भेजकर देश विदेश के राजाओं को एकत्रित करने का विस्तृत वर्णन है। तोप, बाण, हारी, ऊँट, घोड़ों आदि का वर्णन हुआ है।

चली घटा हस्तिन की भारी, राती हरिअरि छाव थियारी ।
निकसे तुरी छाड़ि कैलामा, चरण भूमि गर लाग अकासा ।
ताजी तुर्की कल्युक इराकी, गरभो जो धर कनक बुलाकी ।
निकसी कटक जो बखतर डारे, स्वर्ग चढे तन तीरस मारे ।

विदा भयो सुल्तान जोर जो कटुक अपार ।

वजे नगाड़े दुन्दुभी कापा स्वर्ग पतार ॥

युद्ध वर्णन :

भये सहैं दल दूनौ वाजे, वजे वीर रन जूझ जो वाजे ।
बोले भाट बीच रन वाना, पुरुष चेत भये लोह समाना ।
निकसी खड्ग बीज की वानी, खनहि हाथ खन गगन समानी ।
अली अली की भई पुकारी, उठे तुरी भइ घन अंधियारी ।
वरसै लाग लोह चहुँ ओरा, मिल गइ खेत घमुर घनओरा ।
अरभौ वीर वीर वरवण्डा, वरसैं तीर और करवैं खण्डा ।
लोहैं लोह उठै भनकारा, रक्तनै रक्त देश रतनारा ।

हांकै हांकै चहुँ दिशा, घटै छुटै मार ।

कोउ काहू संवार नहिं, आपन कौन परार ॥

करुण रस :

करुण रस का चित्रण हंस के निधन पर कवि ने किया है :

केहि गुन भरै चीन की नारी, सबे पतंग को भिन हारी ।
काई तो मंग हंस की लेन्या, सीस उतारि चरण पर दीन्दा ।

कोई सीस फोड़ भई छारा, कोई लै छुरी पेट मंह मारा ।
कोइ मुछिं पड़ी भई मारी, कोइ तो ठाड़ि हिये की फारी ।

चन्द्र सूर अथये दोऊ, नखत भये अंधियार ।

जगत महा परलौ भयौ, सून सकल संसार ॥ (पृ० २६६)

भाषा :

ग्रन्थ की भाषा अशुद्धी है । कालिदासशाह दरियावाद के रहने वाले थे अतः उनकी भाषा में स्थानीय शब्द खाग, खुखा, विनियाँ, टोंट भी प्रयुक्त हुये हैं, साथ ही तिहुअन, तुरय, ऐसे तद्भव शब्द भी पाये जाते हैं । हसीन, अता, आतिश, फिसाद आदि फारसी के शब्द उनके ज्ञान का परिचय देते हैं । साधारण लोकोक्तियों के प्रयोग ने भाषा में प्रवाह एवं प्रभाव उत्पन्न कर दिया है ।

‘हमहूँ दूध पान सों नाहीं जो कोउ अंचै जाय पलमाहीं,’
‘पेट पचै नहिं पान,’ ‘नहिं लावत आंखी,’ ‘गाज पढ़ै,’ एवं
‘जो जेहि के जस लिखा लिलारा, सो सो भय को मेटनहारा,’

‘जिन’ और ‘नेक’ ऐसे शब्द भाषा में ब्रजभाषापन का पुट देते हैं, अन्यथा भाषा साधारण जन बोली अशुद्धी है । कहीं कहीं ध्वन्यात्मक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है जैसे :

भिमिक भिमिक जो वरसै मेहा ।

पवन भुकोर दहै मम देहा ॥

भाषा अत्यन्त सरल एवं दैनिक व्यवहार में आने वाली अशुद्धी है :

कहि यह वचन जो कीन्ह जोहारा ।

गा पङ्गी उड़ि भा भिनुसारा ॥

हंस सो हेर गहिय सो नाना, कस पङ्गी केहि देश उझाना ।

रैन माफ मोहि भेद बताया, भोर भये वह दृष्टि न आवा ।

साचे शब्द जो कहिगा पाखी, दैगा भेंट होउं की साखी ।

‘अहूँ मो योगी भेसू, होय भिवार हेरू’ सब देखू ।

वस्तु-वर्णन :

हाट का वर्णन करते समय कवि ने उम समय के कुछ खेलों के साथ ही वाणिज्य-व्यापार का भी वर्णन किया है । इसी प्रसङ्ग में कर्मानुसार फल प्राप्ति की चर्चा भी आ जाती है :

कन्हूँ चढाय नाच नचावै, कहुँ सुवस वा चाटक लावै ।

कहुँ भगवती भेप जो कीन्है, कहुँ गहकटा सो फासी दीन्है ।

कोउ नचाय मिरदंग वजावे, कहुँ मरकट बहु भाति देखावे ॥
 कहुँ भेदियन वासन चट्टे, कहुँ सुवसवा कंचन मढे ॥
 ऐसी हाट वसत उजियारी, वेचें तहाँ चतुर सुपियारी, ।
 सहम अनूपम वसत लुकाई, कोऊ लेय कोऊ पछितार्ई ।
 एक तो सोच करे वन साठी, एक तो लीन द्रव्य जेहि गाठी ।
 एक वेस हैं माणिक मंग एक तो मूरख होय भये गूंगा ॥ (पृ० ३१-३२)

इसके अतिरिक्त कवि ने नगरगढ, घडियाल, कविलास एवं अन्तःपुर आदि का भी वर्णन किया है, किंतु वह न तो काव्यात्मक ही है और न विस्तृत ।

जलक्रीड़ा :

जलक्रीड़ा का वर्णन लगभग इन सभी प्रेमाख्यानों में आता है । इस प्रसंग का उद्देश्य कहीं तो मायके की स्वच्छन्दता प्रदर्शित करना होता है कहीं नायिका का सौन्दर्य चित्रण, और कहीं आत्मा-परमात्मा की खोज के रूपक का स्पष्टीकरण । कवि कासिमशाह का उद्देश्य केवल जवाहिर के रूप-सौन्दर्य और मायके की स्वच्छन्दता का प्रदर्शन करना ही है, वह स्पष्ट कहता है :

भोर कहा आवो फुलवारी, जब सब जाव गवन ससुरारी,
 खेल लेव जो खेलव गोरी, जब लग रहौ पिता घर मोरी । पृ० ३६

सब अबला औ वारी मोरी, खेलैं खेल जो सावर गोरी ।
 कौतुक खेल करे जल माहीं, काली लट ऊपर पैराहीं ॥ (पृ० ३६)

इसके अन्तर्गत काव्य चमत्कार एवं स्वाभाविक भावव्यञ्जना के दर्शन भी होते हैं । अत्यन्त सुन्दर वस्तु को देखकर व्यक्ति (अचक) आश्चर्य चकित रह जाता है । सखियों के साथ जाती हुई जवाहिर के सौन्दर्य को देखकर श्लीगण आश्चर्यचकित रह गये ।

चला चन्द फुलवार ज्यों, लिये नखत सब नार,
 पंखी देखि मुलान मुधि, रहिगो पंख पसार ॥ (पृ० ३४)

कहीं कहीं जवाहिर के ईश्वर स्वरूप के भी दर्शन होते हैं । तट पर लड़ी हुई जवाहिर के चरणस्पर्श की लालसा लहरें करती हैं ।

नहाँ ठाट शशि कमल गरीरा, लहरें लेय लाग जल नीरा ।
 हुलसि नीर जो लहर उठावैं, उमड़े चरण नहें का धारैं ॥ (पृ० ३४)

नखशिख-वर्णन

नखशिख वर्णन में नवीनता नहीं है। उपमान परम्परागत ही है जिनकी योजना भी लगभग परम्परा से चले जाते हुए ढंग पर हुई है। कहीं कहीं पर कुरुचिपूर्ण उपमान भी पाये जाते हैं, जैसे हथेली एवं अंगुलियों की रक्तिमता का वर्णन कवि रक्त में झूवी मूंगफली से करता है।

अंगुरी पहिरत कनक अंगूठी, जगकर प्राण लीन्ह तुहि मूठी ।
भय तेहि से अंगुरी रतनारी, मनहुँ रक्त मंह और निकारी ।
मूंगफली अंगुरी सबै, रक्त बोड़ रतनार ।
जानौ हियरा खोलकै, नीनेसि प्राण निकार ॥ (पृ० ५४)

ग्रीवा में पान की लीक का वर्णन :

अति निरमल वह दई बनाई, पड़ गई लीक पान जो खाई ।

नखशिख वर्णन के मध्य कवि का अपने रूपक को स्पष्ट करने का प्रयास सराहनीय है। कवि स्थल स्थल पर संकेत करता है कि जवाहिर ही परमात्मा के स्वरूप का प्रतीक है।

जग महं छाई किरन सब, ज्योति माभ कौलास ।
तपसी थकित जगत के, बैठ सो तेहि की आस ॥ (पृ० ५०)

+

+

सब जग वहि कर आशा करई, भगकर लिये वास पुनि लेई ।
को जिव देव और साधै योगू, जेहि पावै अउ अमृत भोगू ॥ (पृ० ५२)

+

+

हारे हिये सो जगत चितेरा, लिखि नहिँ सकै रूप तहि केरा । (पृ० ५५)

अन्य प्रसंग :

कवि ने कथा प्रवाह के मध्य विराम रूप से कुछ ऐसे प्रसंगों का समावेश भी किया है जो उसकी बहुशता के परिचायक हैं।

संसार की नश्वरता :

कामि जवन जान भव धोखा, जो जग भूल गयो मो खोखा ।
धोखा गगन फरै दिन राती, धोखा देखि बलवला भानी ।

धोखा नगर कोटि धर वारा, धोखा द्रव्य और रूप मिंगारा
 धोखा राजकाज सुख भोगू, धोखा सब लक्षण कुल लोगू ।
 धोखा किया पुरुष जहं पाई, धोखा अहै सबै दुनियाई ।
 धोखा अहै मर्म पट दिया, छाड़ सो धोख खोल पट दिया ।
 धोखा छाड़ि सुमिर करतारा, वही सो साज धोख संसारा । (पृ० २७१)

छार-महिमा :

कायिम छार सबै गुन पावा, छारहि लै सब जक्त फिरावा ।
 छारहि महं वह मोल समाना, छारहि वृक्ष जक्त अस जाना ।
 छारहि जोति आनि परकासी, छारहि वीरपती संन्यासी
 छारहि भाग भक्त सब कीन्हा, छारहि-योग जक्त तव लीन्हा ।
 छारहि फिसै सकल संसारा, छारहि भई कीर्त्ति करतारा ।
 छारहि अर्थ सकल जग साजा, छारहि शुन औगुन उपराजा ।
 छारहि रूप स्वरूप देखावा, छारहि माँह जक्त वौरावा ॥ (पृ० २७१)

दान-महिमा :

दान दियो नहिं होहु उवारा, दान बिना बूढ़ो मंभधारा ।
 दान सुपत ऊपर पति होई, दान शुद्ध पावै सब कोई ।
 दान देत दोऊ जग केरा, जिन दीना तिन कीन उजेरा ।
 मोक्षहु दान द्रव्य ते पावै, दियो दान विधि पार लगावै ।
 चालिस अंश महं एक निकारो, देउ दान तो पार सिधारो ॥ (पृ० २६८)

तप-महिमा :

तपसी से डर मानिस राजा, कर सेवा जनि वृद्धस काजा ।
 तपसी शाप जगत जरि जाई, भयो शाप तिनहीं बिलमाई ।
 तपसी शाप वरस कर भीरा, गयो हिराय न काहू धीरा ।
 तपसी शाप अजम कर देश, ररा न कोउ तंह शाह नरेश ।
 तपसी शाप अन्त कर राजा, दार भयो तेहि काट्ट न साजा ।
 तपसी शाप लंक भई चारा, कंस विलान तपसि कर मारा ।
 तपसी शाप न बाचा कोई, वे संहार सहस तो होई ॥ (पृ० १६२)

इसके अनिर्दिष्ट कवि ने सामाजिक संस्कारों एवं राजनीति की चालों का भी परिचय दिया है। पुत्र के बड़े होने पर राजा के निधनोपरान्त शत्रु का साम्राज्य पर आधिपत्य तथा पुत्र की शिक्षा दीक्षा में अवरोध आदि ऐसी घटनाएँ हैं जो साधारणतः घटित होती हैं।

माता एवं पुत्र के देश छोड़ने में दौलामीर के द्वारा उसे पकड़ने की घोषणा करवाना तथा हंस के द्वारा अपना राज्य प्राप्त कर लेने के पश्चात् मीरदौला के पुत्र का उसे छल करके मार डालना भी राजतीति के दोंवपेचों में कोई नवीन बात नहीं है। सामाजिक संस्कारों में से जन्म, लगन, विवाह एवं पुत्रनिधन का विस्तृत वर्णन है।

सामाजिक तत्व :

पुत्र के उत्पन्न होनेपर हर्ष प्रदर्शित किया जाता था^१। कन्यायें ससुराल की अनिश्चितता के कारण विवाह विषयक स्वतंत्रता चाहती थीं^२। उनके स्वेच्छाचरण में कुल मर्यादा के साथ ही माता पिता का भय भी बाधक था^३। कन्या के वयस्क-हो जाने पर उन्हें घर से बाहर निकलने की स्वतंत्रता नहीं रह जाती थी^४। लड़कियों के प्रिय खेलों में धमारी मुख्य था^५। उच्चवर्ग के मध्य शतरंज और चौसर प्रिय मनोरंजन के साधन थे। दूतिया^६ अपनी अनेक चालों से कन्याओं एवं सुन्दरी विवाहित नारियों के सतीत्व डिगाने का प्रयास करती थीं।

जन्मोत्सव पर बधाई एवं सोहर तथा ब्याह में सोहाग गाने का प्रचलन था। कवि वैवाहिक ज्योनार आदि का विस्तृत वर्णन करता है^७।

१. धनि वह रैन पुत्र की होई, धरती स्वर्ग हुलस सब कोई ॥ (पृ० ११)
२. सुनत नाम ससुराल को, घड़कि उठा मम जीव । (पृ० ४१)
३. हौं सो वारी पिता घर,बोलत बचन लजाऊ ।
तब मैं बचौं कलक ते, प्राण काप मर जाऊं ।
मात पिते मोंहि दीन बहाई, हौं का करौं मरौं विसखाई । (पृ० ४१)
४. दिष्ट परी वारी तबै, लिए फूल भण्डार ।
करौ वह कित घर बाहिरे, कस निकसी ये वार ।
देहौं अभी धौरहर वासा, औ सब सखिन रहैं तेहिं पासा । (पृ० ३८)
५. आवैं तहाँ भरन पनिहारी, भूलैं कोट औ देखि धमारी ।
६. पदत भरोसे मन्डिल चढी, सीढ़ी परऊ धरत कुछ पदी ।
अमरन पानी तेल सुवासा, लेके चली जवाहिर पासा ।
दूखिन सखी चढी तेहि साया, अक्षत लिए पदत केहि हाया । (पृ० १२६)
७. सखी हुलसि सोहाग जो गावैं, कमल सवार चदाव चढावैं ।
घर घर बाज नन्त बधाया, मगलचार लोग सब गाया ।
गंठे लोग दृतीमां जाती, जां त्रेहिं भंति सो तेहि तेहि पाँती । (पृ० ४०)

समाज में कई प्रकार के साधू सन्यासी पाये जाते थे। रूपवान योगियों पर कन्याएं आसक्त हो जाती थीं।

कुछ समाजिक विश्वासों की ओर भी कवि संकेत करता है^१।

पति की निरंकुशता पर पत्नी कुछ नहीं कह सकती थी। कभी कभी क्रोधावेश में पति पत्नी को मायके से बलात् ले आता था।

अन्य कवियों ने मुसलमान पात्रों के मध्य भी हिन्दू पंडित को व्याह आदि संस्कार सम्पादित करते दिखाया है, जबकि कासिमशाह ने काजी को यह कार्यभार सौंपा है^२।

कवि ने कामाख्या देवी की पूजा का वर्णन भी किया है^३।

स्त्रियों का सम्मान समाज में नहीं था, उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था^४।

अत्याचारी शासक के राज्य में चोर, ठग बढ जाते थे, अशान्ति का साम्राज्य हो जाता था^५।

१. गंगा मर बहुतर रहै, अहै सो अचरज खेल (पृ० २)

घरे भोग जो सबै कखानी, आस्वाद चौंसठ विधि आनी।
जंह लकोय लो मठ मन्डप वह ठाऊ, उठ धाये सुनि योगी नाऊं।
महा महत जो नाथ गुसाईं, तेहि संग सब योगी जंह ताईं।
उरध वाह नाना जववारी, पूरी गिरि जल वास तिवारी।
जग डंडी श्रौधड कनकटा, सेउरा यती विरही शरकटा।
बहवार सेउरा सन्यासी, पाच अगन निर्जला अकासी।

दूधाधारी संगमी, सूफ़ी द्रश कवीर।
भये सहाय योगिनी के आय महापति तीर। (पृ० १६१)

ठाठी सरियाँ मिलन का, मिले न पावै चारि।
ऐसे कन्त उताहिली, सुनें न कहु मनुहारि। (पृ० २३५)

२. काजी महा जो पडित ज्ञानी, बंठा निकट दुहल के आनी। (पृ० ८७)

३. तहों मूर्ति कमित्या केरी, पूजे राय राय शौर चेरी। (पृ० १६४)

४. तिरिया चरित न कान्ह विचारा, तिरिया मते रूढ़ मसारा।
तिरिया जल मंह आत लनावं, तिरिया सुखे नउ चलायं।
तिरिया छार पुरुष मुन्न मेले, तिरिया छल नादरु खेले। (पृ० १८४)

५. देश उजाड शौर लोग गवांरा, चाल कुचाल भाप शरियांरा।
पन्थी पन्थ चलत नहिं रांचा, ररे न न्याय कोई पुनि सांचा।

हंसजवाहिर ग्रन्थ का महत्व कई दृष्टियों से है। सूफी सिद्धान्तों की सम्यक विवेचना इस ग्रन्थ में हुई है साथ ही कथा के घटनास्थल चीन, बलख एवं रूम ऐसे दूरस्थित देशों में होने के कारण, कथा में चमत्कार एवं कौतूहल अधिक है। समाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से ग्रन्थ महत्वपूर्ण तथा काव्यत्व की कसौटी पर खरा उतरा है।

—

नगर सुनि जानौ बिन राजा, करता कठिन करै सब काछा।
 दूतन मिला रहै कोतवारा, दिन दोपहर लुटे बटापरा।
 क्रोध दिवान मन्त्र अभिमानी, लोभि भडार दया बिन रानी।
 भोला शाह भोग गन लोभा, करै न न्याव इहै नहि शोभा।
 सुनेन फेरु दुखी की वाता, चहै तो यकदिन रहै न छाता।

देखा शहर नगर अस, सेवक चचल चोर।

देग मोर रोबो बहुत, तब देखा बर तोर।

(पृ० ४२)

इन्द्रावती

(कवि नूरमुहम्मद कृत)

कवि नूरमुहम्मद 'इन्द्रावती' में अपने जीवन सम्बन्धी तथ्यों का उद्घाटन करते हैं। अनुरागवाँसुरी, उनकी इन्द्रावती के बाद की रचना है। इसमें आत्मकथा, शाहेबकत एवं मुहम्मद साहब की प्रशंसा के क्रम पर उतना आग्रह नहीं है यद्यपि कर्बला की घटना को कवि शिया होने के कारण प्रत्येक स्थल पर स्मरण करता है।

निवासस्थान :

'इन्द्रावती' में कवि आत्मकथा के अन्तर्गत लिखता है कि जिस स्थान को कवि ने अपना निवासस्थान बनाया उसका नाम 'सवरहद' है। सवरहद को कवि अपनी जन्मभूमि नहीं कहता और न अपने पूर्व पुरुषों के निवासस्थान की ओर संकेत करता है किन्तु बहुत सम्भव है कि कवि की भाषा एवं वाच्य के कारण यह शंका हो, और कवि स्वयं 'सवरहद को निवासस्थान बनाया' के स्थान पर 'सवरहद मेरा निवासस्थान है' कहना चाहता हो।

कवि 'सवरहद' स्थान की स्थिति का परिचय देने का भी प्रयास करता है। 'सवरहद' की पूर्व दिशा में 'नसीरुद्दीन' का थाना या स्थान है, एवं सवरहद में पहुँचकर व्यक्ति को ऐसा ही आनन्द एवं शान्ति प्राप्त होती है जैसी एक बटोही को कठिन यात्रा के पश्चात् घनी छाह प्राप्त करने पर होती है। साथ ही, कवि यह भी कहता है कि इस जगत में पथिक की भाँति रहना ही उचित है एवं यहाँ से 'आगम' लाभ करने का प्रयास करना ही श्रेय है। यदि 'इद्दासों' शब्द का सम्बन्ध 'सवरहद' से किया जाय तो यह निश्चित होता है कि नसीरुद्दीन भी कोई सूफी सन्त रहे होंगे जिनका या तो निवास स्थान सवरहद के पूर्व में वर्तमान होगा या कोई समाधि अथवा मजार होगी। 'अनुरागवाँसुरी' के सम्पादक अपनी 'वीनीवान' के अन्तर्गत कहते हैं कि 'आपका स्थान सवरहद

- 1 कवि अस्थान कीन्ह जेहि ठाऊ, सोवह ठाऊ सवरहद नाऊ।
पुरव दिम कइलाम ममाना, अहं नसीरुद्दीन को थाना।
उ भल जग मंत पंथिक रहना, लेहु इद्दासों आगम लहना।

(शाहगंज जौनपुर) था ^१। यह सबरहद गाँव जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में वर्तमान है किन्तु इसके पूर्व की ओर किी नसीरुद्दीन का थान वर्तमान होने की सूचना नहीं है। श्री चन्द्रबली पाण्डेय जी की एक और स्थापना है कि कवि अपने अन्तिम दिनों में भादों (फूलपुर, आजमगढ) में रहने लगे थे। यहीं आपकी सुसराल थी। फारसी में 'कामयाब' नाम से कविता करते और लगभग सन् १७८५ ई० तक विराजमान थे। अपने इस सन् का आधार लेखक ने अपनी स्मृति के अनुसार कवि के लिखे हुये किसी फारसी दीवान में लिखे हि० सन् ११६३ (सन् १७७६ ई०) माना है। 'कामयाब' उपनाम का प्रयोग कवि ने इन्द्रावती में भी कई स्थलों पर किया है।

रचनाकाल :

नूरसुहम्मद 'इन्द्रावती' में यह भी बताते हैं कि इन्द्रावती की रचना के समय अभी वह 'नया तरुण' ही है। कवि का अभी लड़कपन नहीं छूटा है अतः उससे बहुत चूकें हो सकती हैं किन्तु वयोवृद्ध परिचित उन अशुद्धियों पर ध्यान न देकर उन्हें यथास्थान सुधार लें^२। इन्होंने इन्द्रावती का रचनाकाल सन् ११५७ हि० दिया है^३। संवत् १८५१ में कवि अपने तरुण होने का उल्लेख करता है। अतः इन्द्रावती को कवि की प्रारम्भिक रचना कहा जा सकता है। 'इन्द्रावती' के बाद उसने 'नलदमन' प्रेमाख्यान एवं उसके अनन्तर 'अनुरागबाँसुरी' की रचना की^४। अनुरागबाँसुरी का रचनाकाल कवि ने सन् ११७८ ई० अर्थात् संवत् १८२१ दिया है*।

सन् ११५७ हि० तथा हि० सन् ११७८ के मध्य इन्होंने नलदमन की रचना की होगी जो अभी अप्राप्त है। हि० सन् ११७८ तक नूरसुहम्मद के रचनाकाल का विवरण प्राप्त हो जाता है अतः श्री चन्द्रबली पाण्डेय जी की स्मृति में उनके दीवान का समय यदि हि० सन् ११६३ है तो उसमें शंका का बहुत स्थान नहीं रह जाता। इस प्रकार नूरसुहम्मद का रचनाकाल हि० सन् ११०७ से हि० ११६३ तक ठहरता है।

१. अनुराग बासुरी, 'बीतीवात' पृ० ६

२. है कवि समै नई तरुनाई, छूट न अथहीं कवि लरिकाई।
जाके हिणु लरिक बुधि होई, बहुतै चूक कहत है सोई।
विनवत कविजन कह कर जोरी, है थोरी बुधि पु जिया मोरी ॥

३. सन् इग्यारह सै रहेउ, सत्तावन उपनाह।
कहै लगेउ पोथी तवै, पाय तपी कर बाह।

४. आगे हिंड ममुट तिराना, भाखा इन्द्रावति जो जाना।
फेर कहा नलदमन कहानी, कौन गनावे दसरि बानी।

५. यह इग्यारह सै अठहत्तर, फेर सुनाएउ वचन मनोहर।

‘इन्द्रावती’ में कवि ने शाहेवक्त की प्रशंसा करते समय ‘मुहम्मदशाह’ की प्रशंसा की है।^४ अनुरागवासुरी में शाहेवक्त की प्रशंसा नहीं है। बहुत सम्भव है कि दोनों ग्रन्थों की रचना मुहम्मदशाह के शासनकाल में ही हुई हो और कवि ने अनावश्यक समझकर मुहम्मदशाह की प्रशंसा न की हो। मुहम्मदशाह का शासन काल सं० १७७६-१८०५ है।

नूरमुहम्मद फारसी भाषा में ‘कामयाव’ उपनाम से कविता किया करते थे एवं इस भाषा के माधुर्य के बड़े प्रशंसक थे, किन्तु ‘इन्द्रावती’ की सफलता ने उन्हें ‘नलदमन’ और अनुरागवासुरी की रचना को प्रेरित किया।

ये कट्टर मुसलमान तथा शिया सम्प्रदाय के थे। यथास्थान ये अपने पक्के मुसलमान होने, और भाषा के माध्यम से केवल दीनेइस्लाम के प्रचारक होने की पुष्टि करते हैं^२। ऐसा ज्ञात होता है कि आरम्भिक दर्वेशों का गुप्त मन्तव्य नूरमुहम्मद की वाणी में मुखर हो गया^३।

नूरमुहम्मद ने अपने ग्रन्थों में कहीं भी अपनी गुरु परम्परा का उल्लेख नहीं किया है। इनकी ‘इन्द्रावती’ में केवल नसीरुद्दीन का नाम आता है। कहा नहीं जा सकता ये नसीरुद्दीन कौन हैं? इतिहास में एक काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी, जिन्हें श्रवण के नवाब शुजाउद्दौला से सनद मिली थी, का वर्णन आता है किन्तु इन्हीं का सम्बन्ध ‘सवरहद’ से है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता।

सूफ़ी मुसलमान फकीर तथा दर्वेशों के अतिरिक्त अन्य और कई सम्प्रदायों गोरख-पंथियों, वेदान्तियों आदि से भी इनका सम्बन्ध रद्द ज्ञात होता है। इन्होंने सत्संग की बड़ी महिमा गाई है। हठयोग की इला आदि नाडियों के अतिरिक्त दशम द्वार की भी चर्चा इन्होंने की है। अन्य सूफ़ी कवियों की भांति इन्होंने केवल शैतान की चर्चा ही नहीं की है प्रत्युत माया के स्वरूप और कार्यों की ओर भी सकेत किया है। सिंहलद्वीप

१. कहीं मुहम्मदशाह खलानू, है सूरज दिल्ली सुलतानू।
सब काहू पर टाया धरई, धरम सहित सुलतानी करई।

२. जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा।
हिन्दू मग पर पाव न राखेउ, का जो बहुत हिन्दी भाखेउ।
मन इसलाम मसल के भाजेऊं, दीन जेवरी कररुप भाजेऊ।

(अनुरागवासुरी पृ० ८६)

३. ‘इन बुजुगों के घरों में भी हिन्दी बोलचाल का ग्वाज था और चू कि यह इनके मुफ़ीदे मतलब था इसी लिये वह अपनी तालीम व तफ़लीन में भी इसी में काम लेते थे।
दक्खिनी हिन्दी डा० चाचूराम मधयेना।
डा० पट्टुलहरु की पुस्तक “टट्टूकी इक्ति-
दाई नशो व नुमा में सुफ़ियान कराम का काम’ में उद्धृत।

में योगियों का सिद्धि के लिये जाना तथा मछन्दरनाथ का असफल होना आदिक कथाओं की ओर भी लक्ष्य है। अतः जात होता है कि ये एक जिज्ञासु सूफी थे और अन्य सम्प्रदायों के साधकों से मेल जोल रखते थे। इन्हें सत्संग के सुफल का ज्ञान था।

अपनी मिल्लत या उस समाज में जिसमें इनका जन्म हुआ था, पर इन्हें पूरा विश्वास था। मुहम्मद साहब के मार्ग पर इनका दृढ विश्वास कष्टरता की सीमा को पहुँच गया था। 'अनुरागवासुरी' में इन्होंने लिखा है कि यह अनुरागवासुरी 'मुहम्मदीजन' की बोली है जिसे सुनकर देवता विमोहित हो जाते हैं, मंदिर गिर जाते हैं और शंखनाद आदि पूजोपकरण मिट जाते हैं^१।

इतना होते हुये भी नूरमुहम्मद तरुणावस्था में लिखी गई इंद्रावती में विनयपूर्वक अपनी अशुद्धियों की ओर संकेत करके ग्रंथ को केवल अपनी बालक्रीडा कहता है^२।

कथा सारांश :

कालिञ्जर राज्य के राजा का नाम 'भूपति' था उसकी एक मात्र संतान 'राजकुंवर' नामक कुमार था। कुमार के कुछ वयस्क होने पर उसकी माता का देहान्त हो गया। भूपति ने राजकुमार की शिक्षा दीक्षा बड़ी तत्परता से की, तथा उसे सब भाति योग्य देखकर उसका विवाह एक सुन्दर कन्या से कर दिया। अपने पिता के बाद राजकुंवर राज्यसिंहासन पर बैठा तथा एक योग्य शासक सिद्ध हुआ, एक रात्रि को राजकुमार ने स्वप्न में, दर्पण के अंदर किसी सुन्दरी का प्रतिबिम्ब देखा। दूसरी रात को उसने फिर उसी सुन्दरी को स्वप्न में देखा, किन्तु इस बार उसके सुन्दर मुख पर लट्टे विखरी हुई थीं। राजकुंवर उस अनुपम सुन्दरी पर विमोहित हो गया एवं राज्यकार्य की ओर से उदासीन होकर उसका विरही बन गया। राजा की चिंता तथा उदासीनता से सभी दुखी हुये। उसके मंत्री बुद्धसेन

- १ यह मुहम्मदी जन की बोली, जामों कंद नवातें घोली।
वहुत देवता को चित हरें, बहु मूरति अंधी होइ परें।
बहुत देवहरा दाहि गिरावैं सख वाद की रीति मिटावैं।

अनुरागवासुरी पृ० २२।

- २ कवि हे नूर मोहम्मद नाऊ, है पछलग सबको जग ठाऊ।
हो हीना विद्या बुधि सेती, गरब गुमान करौं केहि जेती।
हौं मैं लरिकाई को चेला, कहीं न पोथी खेलउ खेला।
गुरुजन सौं यह विनदिय मोरी, कोप न मानहि भौंह सिहोरी।

मोहि विवेक कछु नाहीं, नहि विद्या बल आहि।
खेलत हौं यह खेल एक डिप्टा न्येय निवाहि।

इन्द्रावती पृ० ५।

ने कई चित्रकारों द्वारा चित्र बनवाये और सौन्दर्य शास्त्रियों द्वारा भिन्न भिन्न सुन्दरियों का वर्णन करवाया, किन्तु राजा पर बुद्धसेन की इन युक्तियों का कोई प्रभाव न पड़ा। वह निरन्तर उसी की चिन्ता में मग्न रहने लगा। अन्त में राजा की फुलवारी में ठहरे हुये एक तपस्वी ने राजा के स्वप्न का अर्थ विचार कर बताया कि राजा की स्वप्नसुन्दरी समुद्रपार वसे हुये, आगमपुर नामक नगर के जगपति नामक राजा की रतनजोत इन्द्रावती नाम की कन्या है। गुण तथा सौन्दर्य में वह अद्वितीय है।

इन्द्रावती का जन्म शिवाराधना के पश्चात् उन्ही के आर्शावाद से एक रत्न से हुआ था। उसका सौन्दर्य रत्न की भाँति ही ज्योतिर्मय था।

राजा को इन्द्रावती का सौन्दर्य वर्णन सुनकर विश्वास हो गया कि उसी सुन्दरी को स्वप्न में देखा है। तपस्वी की बातों से अत्यन्त प्रभावित होकर राजकुंवर ने तपस्वी 'गुरुनाथ' को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और इन्द्रावती के हेतु जोगी होकर गृहत्याग को तत्पर हो हुआ। कालिङ्ग निवासियों ने मार्ग की विपदाओं तथा गुरु की बातों के असत्य होने की सम्भावना की और लक्ष्य करके उसे जोगी बनने से रोकना चाहा किन्तु राजकुंवर दृढ़ निश्चयी था, उसने केवल अपने आठ साथियों को लेकर 'आगमपुर' की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में मान वीहड़ वन पड़े जिनमें क्रमशः इन्द्रियों को आकर्षित करने वाले रस तथा भोग प्रधान थे, किन्तु राजकुंवर को इनके प्रति कोई आसक्ति न थी और वह आगे बढ़ता गया। मार्ग में उसकी कायापति नामक वनजारे से भेंट हुई और आगे मार्ग पर वे दोनों एक साथ अग्रसर हुये। कुंवर इसके पूर्व ही बुद्धसेन के अतिरिक्त अन्य साथियों को छोड़ चुका था। समुद्र पार करके दोनों 'जिउपुर' पहुँचे। यहाँ राजकुंवर की विरह-व्यथा अत्यन्त तीव्र हो उठी और वह बुद्धसेन को वहीं छोड़कर सारङ्गी लेकर चल दिया। मार्ग में उसकी भेंट एक यती से हुई। यती ने आगमपुर के विश्रामस्थानों की चर्चा करते हुये शिवमन्दिर की ओर भी संकेत किया। उसी मन्दिर में राजकुंवर को शिवाराधना करते समय आकाशवाणी के द्वारा प्रेमपुर में स्थित इन्द्रावती की मनफुलवारी में जाने का आदेश हुआ। राजकुंवर दूसरे ही दिन वहाँ पहुँच गया।

उधर अगमपुर में होली का उत्सव मनाया जा रहा था। एक सखी के कहने पर इन्द्रावती ने काजल लगाकर अपना सौंदर्य दर्पण में देखा। स्वयम् अपने पर मुग्ध होकर उसे अपने सौंदर्योपासक का अभाव खटकता तथा इसके बाद ही उसने क्रमशः दो स्वप्न देखे। प्रथम स्वप्न में उसने एक अर्धविकसित कमल को मधुकर के साथ जाते हुये देखा, तथा द्वितीय में एक जोगी को समुद्र से प्रण मोती को खोज निकालने तथा अपनी माँग में सिन्दूर भरते हुये देखा।

उधर राजकुंवर की भेंट मनफुलवारी में पहुँचकर चेता नामक मालिन ने हुँडे जिग्ने राजकुंवर की व्यथा सुनकर इसकी सूचना राजकुमारी इन्द्रावती को दी और साथ ही उसे राजकुंवर के दर्शनार्थ प्रोत्साहित किया। इन्द्रावती निश्चित समय पर वाटिका में पहुँच गई और युक्तिपूर्ण राजकुंवर के दर्शन किये। इन्द्रावती के बदन पर एक लट को

देखकर राजकुंवर मूर्च्छित हो गया। प्रयास करने पर भी जब राजा को चेत न हुआ तो इन्द्रावती एक पत्र में जिव-कहानी नामक एक कथा-रूपक को लिखकर उसके पास छोड़ गई।

‘जिव-कहानी’ स्वयं अपने में एक उपदेशपूर्ण कथा थी जिसमें मन का केवल रूप पर मुग्ध न होकर प्रीति की उपासना का भाव था, एवं ‘दुर्जन’ शत्रु के परास्त करने के हेतु बुद्धि, साहस, क्रिया एवं आनन्द आदि सद्गुणों की सराहना थी। ‘जिव-कहानी’ का मर्म समझना राजकुंवर के लिये कठिन था। सयोगवश उसी समय राजकुंवर का मन्त्री बुद्धसेन उसके निकट आ पहुँचा और उसने जिवकहानी के कथारूपक को राजा के प्रति स्पष्ट किया। इसके पश्चात् राजकुंवर तथा इन्द्रावती के मध्य पत्र-व्यवहार आरम्भ हुआ और ‘चेता’ उनके मध्य सन्देशवाहक का कार्य करती रही।

इसके अनन्तर राजकुंवर इन्द्रावती को प्राप्त करने की अभिलाषा से उसके धौराहर के पास, स्नेहपादप्र के नीचे जा बैठा। अकस्मात् इन्द्रावती अपने झरोखे में आई और दोनों के पारस्परिक दर्शन से राजकुंवर की प्रेम-वेदना तीव्रतर होगई। वह समुद्र से प्रणमोती निकालने के हेतु आतुर हो उठा। किंतु मार्ग में ही दुर्जनराय ने उसे बंदी बना लिया। राजकुंवर ने तोते के द्वारा इन्द्रावती के पास अपने बंदी होने का समाचार भेजा। इन्द्रावती ने उसी के द्वारा कृपा नामक राजा की सहायता से उसके मुक्त होने का उपाय लिख भेजा। बुद्धसेन ने कृपा नामक राजा की सेवा करके, उसे दुर्जनराय के ऊपर आक्रमण करने को प्रेरित किया। घमासान युद्ध में दुर्जनराय मारा गया और राजकुंवर बंधन मुक्त होगया। मोती निकालने के लिये वह फिर आगे बढ़ा इधर इन्द्रावती राजकुंवर का बंदी होना सुनकर अत्यंत दुःखित हुई और उसकी सखियाँ उसे नित्य रात्रि को ‘मधुकर मालती,’ ‘हीरामानिक’ आदि प्रेमकथाओं को सुनाकर उसकी विरहाग्नि शांत करने का प्रयास करती थीं। इसी मध्य उसे राजकुंवर के मुक्त होने का समाचार प्राप्त हुआ।

राजकुंवर के पुनः प्रणमोती निकालने के प्रयास में राजा जगपति के परामर्शदाताओं ने राजकुंवर के क्षत्रियत्व को प्रमाणित करने के लिए कहा। इसी मध्य, तपस्वी गुरूनाथ के आगमन से राजकुंवर को इन समस्त कठिनाइयों से मुक्ति मिल गई और वह समुद्र से मोती निकालने को चल पड़ा। अपनी इस यात्रा में भी उसे तूफान आदि प्राकृतिक विघ्नों के अतिरिक्त, अपने प्रेम की परीक्षा भी देनी पड़ी और समुद्र में निवास करने वाली देवी कमला ने, उसे प्रेम में दृढ पाकर, प्रसन्न होकर वह मोती प्रदान किया। राजकुंवर के द्वारा वह मोती प्राप्त करने के पश्चात् इन्द्रावती के पिता जगपति ने उन दोनों का विवाह कर डाला।

यहीं पर कथा का पूर्वार्ध समाप्त होता है जो काशीनागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित है। इस का उत्तरार्ध अप्रकाशित है।

इन्द्रावती उत्तरार्ध

कथासारांश :

इन्द्रावती का उत्तरार्ध काशीनागरी प्रचारिणी सभा (आर्य भाषा पुस्तकालय) में सुरक्षित है। पूर्वार्ध इन्द्रावती और राजकुंवर के विवाह हो जाने पर समाप्त हो जाता है। उत्तरार्ध का आरम्भ राजकुंवर और इन्द्रावती के समागम से होता है। इधर इन्द्रावती और राजकुंवर संयोग सुख में लीन थे उधर राजकुंवर की पहली रानी सुन्दर कालिञ्जर में अत्यन्त कष्ट से जीवनयापन कर रही थी। जिस समय राजकुंवर ने कालिञ्जर से प्रस्थान किया, सुन्दर रानी गर्भवती थी। यथा-समय रानी के कीर्तिराय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब रानी पर दुहरा भार था। एक तो राज्य शासन का भार, दूसरा पुत्र के लालन-पालन का भार, यह दोनों ही कर्तव्य विरहिणी के लिये भार स्वरूप हो गये थे। कभी कभी वह अत्यन्त दुखी होकर जोगिन हो जाने को सोचती थी और कभी आत्महत्या का निश्चय करती थी। रानी की सखियां युक्तिपूर्वक उसे इन कार्यों से विरत करती थीं। एक दिन एक सखी ने एक तोते की कहानी रानी को सुनाई, जो वर्जित फल खाने के कारण, आगमपुर से पृथ्वीपुर में आ पड़ा था। उसने वहीं, पिंजड़े में से एक पत्नी के द्वारा आगमपुर संदेश भिजवाया था। इस कहानी को सुनकर रानी के मन में संदेश भेजने की बात उदय हुई।

कथा को सुनकर रानी को निद्रा आ गई और उसने स्वप्न में शुभ सूचक सूर्य चन्द्र और ग्यारह तारे देखे। जगने पर रानी सुन्दर का विरह और तीव्र हो उठा। रानी की सखिया प्रति रात्रि उसे कहानी सुनाकर मूलाने की चेष्टा करती थीं। दूसरी रात्रि को उसकी सखी ने चन्द्रदान और राजाहंस की कहानी कहना आरम्भ किया। राजाहंस के राज्य में एक रम्भानामक अतिसुन्दरी गणिका का आगमन हुआ। सूचना पाकर राजा ने उसे बुलाया और उसका वृत्तान्त जानकर उसे अत्यन्त सुन्दर मोती की माला भेंट की। रम्भा ने एक चतुर सुवा, उसकी सेवा के हेतु दिया। उस गणिका से हंसपुर के राजदम्पति चित्रसेन और रूपवती की पुत्री मालती के सौन्दर्य का वर्णन सुनकर हंसराज उम पर मोहित हो गया, किंतु तोते के ममझने पर वह फिर राजकाज में दत्तचिन्त हुआ। कुछ समय पश्चात् एक वनिजारे के मुंह से पुनः मालती की सौन्दर्य चर्चा सुनकर वह जोगी होकर उसकी प्राप्ति के लिये घर से निकल पड़ा। मार्ग में उसे महावली नाम का एक और राजा मिला जो उदयपुर के राजा इन्द्र की राजवत्सली नामक राजकुमारी के हेतु, घर छोड़ चल दिया था। राजवत्सली भी स्वप्न में महावली को देखकर उस पर मोहित हो चुकी थी। जब ये दोनों राजा वहा पहुँचे तो राजवत्सली के पिता ने महावली को सब प्रकार से उपयुक्त वर पाकर अपने कन्या का विवाह कर दिया। राजहंस का संदेश लेकर सुवा मालती के पास गया। वहा जाकर उसे ज्ञात हुआ कि रम्भा का निधन हो चुका है जिसे सुन कर उसे वैराग्य हो गया और

वह मालती का संदेश हंसराज से कहकर तप करने के हेतु वन में चला गया। राजहंस ने हंसपुर जाकर मालती का पाणिग्रहण किया और वहीं श्रानन्दमग्न रहने लगा। इधर उसकी पहली रानी चन्द्रवदन राजाहंस के विरह में अत्यन्त दुखी थी। एक दिन अत्यन्त दुखी होकर उसने सुखदेव मिश्र के द्वारा अपना सन्देश राजा हंस के पास भेजा, तब राजा हंस चित्रसेन से विदा लेकर, मालती एवं महाबली और राजवल्लभी के साथ स्वदेश लौट आया। जिस प्रकार राजाहंस को पाकर चन्द्रवदन पुलकित हो उठी थी उसी प्रकार सखियों ने रानी सुन्दर को भी प्रसन्न होने की दिलासा दिलाई।

ऐसी ही कहानिया सुनाकर सखिया रानी को ढाढस बंधाती थीं। उसी समय कालिञ्जर में रहने वाली 'लोभ' नामक कुटिल स्त्री ने कीर्तिराय पर टोना किया जिसके फलस्वरूप रानी ने उसे देशनिकाला दे दिया। लोभ वहा से जैतपुर गई जहा उसने रानी सुन्दर के सौन्दर्य का विस्तृत वर्णन किया। फलस्वरूप जैतपुर के राजा कामसेन ने मोहिनी मालिन को जोगिन के भेष में रानी सुन्दर के पास भेजा। मोहिनी आगमपुर की जोगिन होने के बहाने रानी के पास पहुँच गई और वहा उसने अपना जाल फैलाना आरम्भ कर दिया, किन्तु सुन्दर ने उसे अत्यन्त तिरस्कृत करके वहा से हटा दिया। इस पर क्रोधित होकर राजा कामसेन ने कालिञ्जर पर आक्रमण कर दिया जिसका सामना रानी सुन्दर ने सफलता से किया और कामसेन मारा गया। रानी सुन्दर ने दुःखित होकर एक दिन पवन के द्वारा अपना संदेश राजकुंवर के पास भेजा, जिसे जानकर राजकुंवर इन्द्रावती की विदा व राके स्वदेश को चल दिया। मार्ग में उदधि की कन्या कमला ने इन्द्रावती से भेंट करके राजकुंवर के प्रेम की परीक्षा ली। राजकुंवर अपनी परीक्षा में सफल हुआ।

राजकुंवर के लौट आने पर सुन्दर अत्यन्त प्रसन्न हो गई। इन्द्रावती और सुन्दर दोनों अत्यन्त प्रेम से रहने लगीं। एक बार राजकुंवर आखेट करके थका हुआ एक वृद्ध की छाया में विश्राम कर रहा था तभी उसने एक तोते से एक विरह की कथा सुनी कि वल्लभ नाम के कुंवर से प्रेमा का व्याह हुआ था। वे दोनों अत्यन्त सुखी थे, किन्तु थोड़े ही दिनों में वल्लभ का देहान्त हो जाने पर प्रेमा दुःखित होकर सती हो गई और उसने इस सुजान नामक तोते को स्वतंत्र कर दिया। राजकुंवर इस कथा को सुनकर अत्यन्त दुःखित होगया और कुछ समय पश्चात् उसकी मृत्यु होगई। राजकुंवर के निधन के उपरान्त दोनों रानिया भी सती हो गईं। इस प्रकार प्रेम में विरह की महता सिद्ध करके नूरमुहम्मद ने कथा का अन्त कर दिया।

कथारूपक :

नूरमुहम्मद अन्य सूफी कवियों की भांति किसी ऐतिहासिक या पौराणिक कथा का आधार ले अपने मिद्धान्तों का प्रतिपादन नहीं करते हैं। प्रत्युत कथावस्तु पूर्णतः काल्पनिक और रूपक के गुणों से समन्वित है। पात्रों के भावात्मक नामकरण ने कवि के रूपक को स्पष्ट करने में पूर्ण योग दिया है। कथावस्तु तथा पात्र पूर्णतः काल्पनिक हैं।

‘राजकुंवर’ साधक है। गुरुनाथ तपस्वी मार्ग प्रदर्शक, एवं आठ सखा शरीर के साथ रहने वाले इन्द्रिय विकार हैं। ‘राजकुंवर’ की रानी ‘सुन्दर’ मानसिक भोग का आकर्षक स्वरूप है जिसकी उपेक्षा करके साधक को रतनजोत या परमेश्वर्य, सौंदर्य, शक्ति एवं शीलवान इन्द्रावती की प्राप्ति का प्रयास उचित है। राजकुंवर को मार्ग में सान वीहड़ वन मिलते हैं। क्रमशः सातों वनों की विशेषता का वर्णन करते समय कवि ने इन्द्रिय विकारों, रूप, गन्ध, स्पर्श, रस, शब्द आदि का वर्णन किया है। उन सभी वनों पर राजकुंवर श्री विजय, ‘शारीरिक वासनाओं’ पर विजय का प्रतीक है। शरीर की इन वासनाओं पर विजय का उपाय केवल नामस्मरण में संलग्नता या जिक्र है। सातों वनों को पार कर जाने के बाद राजकुंवर कहता है :

निस्त्रा मारि पन्थ जो चला, ताकर होइ पन्थ महँ भला ।

एवं

हों मैं तासु गलिय कर जोगी, जा सुमिरन सों जगन मंजोगी ।

देह जनित विषय-वासनाओं एवं इन्द्रिय जनित भोगों की आकाक्षा लेकर माधना में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। इसी सत्य का उद्घाटन राजकुंवर अपने शब्दों में करता है।

‘तुम सब कहँ मैं साथ लगाएउं, जाइ न सकउं लाज मै पाएउं ।

ऐसा कहकर राजकुंवर अपने आठों साधियों को ‘देहन्तपुर’ में छोड़ देना है। देहन्तपुर वह स्थान है जहाँ से आगे साधना के क्षेत्र में देह की या शरीर की गम्य नहीं है, जहाँ से साधक अपने शरीर को विस्मृत कर देता है और केवल प्राणों में एवं श्वाभो में उसी का स्मरण करता है।

‘देहन्तपुर’ में दैहिक वासनाओं के त्याग के पश्चात् आगे के मार्ग में राजकुंवर या साधक का सहायक है कायापति। सहायक का नाम कवि ने बड़ी मर्मज्ञता से ‘कायापति’ रक्खा है। शारीरिक वासनाओं का स्वामी ही साधना में सबसे बड़ा योगदान है। इस प्रकार कायापति के साथ समुद्र पार करके, माधना के मार्ग में अग्रसर होकर ‘जाइ वगा जितपूर वियोगी’ साधक की सारी चेतनायें आत्मकेन्द्रित हो जाती हैं। वह परमात्मा के विरह का निरन्तर अनुभव करता हुआ हृदयदर्पण में उसके दर्शन का प्रभाव करता है^१।

१. जितपूर माह प्रेमी राजा, गुप्त जाय घट में उपराजा ।

जेह मुरत तेहि प्रम बनाण्ड, स्वात पत्र पर ताहि बनाण्ड ।

तेहि उपर अम लाण्ड ध्याना, रहि गई मुरत थाप हेराना ।

साधक का मन केवल गुप्त जाप में लग्न रहता है। उसकी सारी बाह्य चेष्टायें रुद्ध हो जाती हैं। वह हृदय पर अपने प्रियतम आराध्य के दर्शन करने में मग्न रहता है। इसी गुप्त जाप को सूफी शब्दावली में 'जिक्रे खफी' कहते हैं।

इस आत्मकेन्द्रित अवस्था के बाद साधक को उस परमसौन्दर्य के रूप का आभास हो जाता है। उस परमरूप के सौन्दर्य का आभास पाकर साधक चेतनाविहीन हो जाता है। प्रेम के मार्ग में बुद्धि या तर्क सबसे बड़ा बाधक है, अतः यदि एक बार भी साधक को उस परम सौंदर्य की झाकी मिल जाती है, वह बुद्धि का आश्रय छोड़कर केवल परमप्रेम की भावना के सहारे उतक पहुँचने का प्रयास करता है। बुद्धि ही मनुष्य का सबसे बड़ा सङ्गी है किन्तु यदि यह सासारिक लाभ हानि के मापदण्डों से ग्रसित रहती है तो सबसे बड़ी परमार्थविरोधनी भी है। यही कारण है कि राजकुंवर जिअन्तपुर के आगे अपनी बुद्धि का भी त्याग कर देता है^१।

जिअन्तपुर में त्यक्त बुद्धि धैर्यधारण कर स्वपरिमार्जन का प्रयास करती है और आगे चलकर राजकुंवर के परमार्थमार्ग की सहायिका भी बनती है।

तर्कवितर्क, ऊहापोह का आश्रय छोड़ते ही साधक को आगमपुर या परमतत्व के निवासस्थान की प्राप्ति का आभास होने लगता है। आगमपुर में पहुँचकर राजकुंवर गौरीपति के ध्यान में मग्न हो जाता है। एकाग्र होकर ध्यान करने से उसके हृदय में जानोदय का आरम्भ होता है। हृदय में इस प्रकार जानोदय होने की भावना का स्पष्टीकरण, कवि आकाशवाणी के द्वारा करता है। उसे आकाशवाणी होती है कि मन फुलवारी में, चेता नामक मालिन के सहयोग से, उसे इन्द्रावती के दर्शन प्राप्त होंगे। मन के पूर्ण-चेतन होने पर सजग होकर आराध्य की आराधना से उसके दर्शन सम्भव हैं। इसी तथ्य को कवि ने दूसरे शब्दों में स्पष्ट किया है कि प्रेमपुर में स्थित मनफुलवारी में ही आराध्य के दर्शन सम्भव हैं।

मनफुलवारी में चेता नामक मालिन के सहयोग से राजकुंवर को इन्द्रावती के दर्शन होते हैं और इन्द्रावती भी राजकुंवर का वियोग अनुभव करती है। आत्मा के प्रेम में परिपक्व हो जाने पर परमात्मा भी आत्मा को अपने पास बुलाने को आतुर हो जाता है किन्तु उसके लिये सबसे बड़ी आवश्यकता 'मरजीया' होने की होती है। प्रेम के समुद्र में पूर्णरूप से 'आभा' या 'अहंभाव' का विस्मरण

१ जय जाता मोहा अनुरगी, अधिकौ प्रेमअग्नि मन लागी।

× × ×

जब जिअन्तपुर पहुँचा राजा, बुद्धिहि छाड़ तहा सौ भाजा।

× × ×

आप जिअन्तपुर मह रहा, धीर्ज गहा विहुरन दुख सहा। पृ० ३१।

कर देने वाला ही 'प्ररुनोवी' या लक्ष्मणा की पूर्णता को प्राप्त कर आराध्य को प्राप्त कर पाता है। 'जिन खोजा जिन पाइयां गहरे पानी पैठ', प्राप्ति के लिये गहरे पानी में निमज्जित होकर पूर्णत्वच्छ होना आवश्यक है। इस प्रकार अपने पात्रों एवं त्यागों के भावव्यञ्जक नामकरण द्वारा कवि ने कथारूपक को लक्ष्य करने का प्रयास किया है। 'नरजीया' होने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधक अनिश्चयात्मक हृदि तथा दुर्जन का लड़ होता है। यह अनिश्चय की भावना भी त्यागार्पण के द्वारा आरम्भ होती है। इसके स्पष्टीकरण के लिये कवि ने दुर्जनराय तथा पत्नी नोहिनी का उन्मोहक उद्घोष किया है। उद्घोष निश्चयी लक्षक राजकुंवर अन्त में सब पर विजय पाकर नरजीया होकर आराध्य को प्राप्ति करता है।

कवि ने इन्द्रावती और राजकुंवर के विवाह पर ही अपनी कथा का पूर्वाह्न समाप्त कर दिया है। विवाह सूनी काव्यों में आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। अधिकांश सूनी प्रेमाख्यानों में सानाजिक रुढ़ियों के कारण पत्नी पर पति के श्रेष्ठत्व के प्रतिपादन में अल्पाभाविता आ जाती है। इन्द्रावती इस दोष से मुक्त है और इन दोनों का विवाह केवल मिलन का प्रतीक है।

प्रेम-पद्धति :

इन्द्रावती के कथा चारांश से स्पष्ट है कि यह एक प्रेमकथा है। भारतीय साहित्य में दाम्पत्य प्रेम के आविर्भाव से सम्बन्धित कई परम्पराएँ प्रचलित हैं। उन्हीं में से अधिकांश सूक्तियों ने स्वप्नदर्शन, चित्रदर्शन, गुरुरक्षण आदि के द्वारा प्रेमाविर्भाव की पद्धति को अपनाया है। इस परम्परापालन के द्वारा सम्भवतः ये सूक्ती आत्मा की परमात्मा मिलन की अनायास उत्पत्ति की ओर संकेत करना चाहते थे।

इन्द्रावती के नायक के हृदय में भी प्रेम भावना का आविर्भाव स्वप्नदर्शन से होता है। राजकुंवर ने ब्रह्म-स्वरूपा इन्द्रावती का सौन्दर्य स्वप्न में देखा। वही एक नारी उसे स्व आदर्श या दर्पण के नध्य प्रतिबिम्बित दिखाई दी। पहली रात्रि में इन्द्रावती का प्रतिबिम्ब एक दर्पण के नध्य पड़ रहा था किन्तु दूसरी रात्रि में उसके नत्क पर लट भी बिखरी हुई थी साथ ही उसका प्रतिबिम्ब कई दर्पणों पर पड़ रहा था। इन्द्रावती

१. एक रात मंह कुंवर सरेखा . सपन बीच दर्पण एक देखा।

दरपन मों एक सुन्दर नारी, देखेहु चन्द्रहु ते उचियारी।

जस दरपन निमल रहे, तस देखा परिहार।

दरसन एकै नारि कौ, सब सादरन मनार। (पृ० १०)

के इस सौन्दर्य को देखकर राजकुंवर स्वप्न में ही मूर्च्छित हो गया एवं जागने पर उसे ज्ञात हुआ कि उसके हृदय में प्रेम जाग्रत हो उठा है^१ ।

भारतीय प्रेमपरम्परा में प्रेम का वेग नायिका में अधिक तीव्र प्रदर्शित किया गया है जबकि फारसी भाषा में लिखित मसनवियों में प्रेम भावना की तीव्रता नायक में अधिक दिखाई जाती है। हृदियों की ठठरी लिये हुये फरहाद, शीरी की प्राप्ति के लिये टाकियों से पहाड़ खोद डालता है। उनके प्रेम की तीव्रता 'पगन में छाले परे, नाधिवे को नाले परे तऊ लाल लाले परे रावरे दरस को' भारतेन्दु की नायिकाओं से समानता रखती हैं। नूरमुहम्मद ने इन्द्रावती में इन दोनों पद्धतियों का समन्वय किया है। आरम्भ में राजकुंवर ही 'इन्द्रावती' के रूप को स्वप्न में देखकर विमुग्ध होकर उसे प्राप्त करने के लिये व्याकुल हो जाता है। मार्ग के अनेक विघ्नों को पार करके एवं 'प्रणमोती' निकालने की आतुरता दिखाकर कवि ने नायक की प्रेमभावना का उत्कर्ष दिखाने का प्रयास किया है। इधर इन्द्रावती राजकुंवर की उत्कट साधना से प्रभावित होकर राजकुंवर की प्राप्ति के लिये व्याकुल हो उठती है और जब 'प्रणमोती' निकालने के प्रयास में राजकुंवर की नाव समुद्र में अदृश्य हो जाती है तो प्राण त्याग देने के लिये तत्पर होती है।

फारसी की मसनवियों का प्रेम ऐकात्मिक तथा लोकबाह्य होता है जिसका अनुसरण अधिकांश भारतीय सूफी कवियों ने नहीं किया है। राजकुंवर का प्रेम भी सासारिक सम्बन्धों के मध्य है। उसका कोई पृथक स्वरूप नहीं। यद्यपि मसनवो पद्धति पर कवि ने राजकुंवर के आदर्शात्मक परमप्रेम का निरूपण किया किन्तु उसमें सासारिक सम्बन्धों की ओर पूर्ण विमुखता नहीं है। जायसी का नायक जोगी होकर गृह त्याग करता है और नागमती उसे अपनी व्यथा सुनाकर रो रोकर रोकने का प्रयास करती है, किन्तु सुन्दर राजकुंवर के जाते समय अपनी व्यथा को लाज के कारण व्यक्त नहीं कर पाती। वह भाग्य पर विश्वास करके अपने दुर्दिन व्यतीत करने को तत्पर हो जाती है। यह अन्तर सामाजिक परिस्थिति के कारण ही है। राजकुंवर के बन्दी हो जाने पर इन्द्रावती सुआ के द्वारा उसकी मुक्ति का उपाय लिख भेजती है।

ऐकात्मिक प्रेम की गूढता और गम्भीरता के बीच, कवि ने जीवन के अन्य अंगों का समावेश भी किया है। इनकी प्रेमागाथा इसी कारण सामाजिक जीवन से विच्छिन्न होने से बच गई है। दाम्पत्य प्रेम के अतिरिक्त, मनुष्य की अन्य वृत्तियों का भी समावेश है। मा के यहाँ की स्वच्छंदता, सतीत्व की महत्ता, स्वामिभक्ति, वीरता, यात्रा, युद्ध आदि के वर्णनों को उचित स्थान प्राप्त हुआ है। इन सबके होते हुये भी, इन्द्रावती प्रेमभावना या शृंगार-रस प्रधान काव्य है।

इन्द्रावती का स्वप्न में दर्शन करके राजकुंवर के मन में इन्द्रावती की प्राप्ति के लिये 'अभिलाषा' जाग्रत हो जाती है। वह अन्य ऐश्वर्य तथा कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाता है एवं उसे केवल स्वप्न सुन्दरी के दर्शन की चिन्ता रहती है। नूरसुम्माद के 'पूर्वराग' में जायसी की भौंति अत्युक्ति नहीं दिखाई देती। राजकुंवर ने यद्यपि 'इन्द्रावती' को स्वप्न में ही देखा है किन्तु उसकी प्रेम भावना निश्चित तथा दृढ़ है। चित्रकारों के द्वारा अनेक चित्र प्रस्तुत किये जाने पर भी उसकी प्रेम भावना में कोई अन्तर नहीं आता, प्रत्युत उसका प्रेम क्रमशः तीव्र होता जाता है।

तपस्वी गुरुनाथ ने जब राजा के स्वप्न को सुनकर इन्द्रावती के रूप गुण की चर्चा की, तो राजकुंवर के मन को संतोष हुआ और उसका 'पूर्वराग' व्यक्तिप्रधान होकर विशेषोन्मुख हो उठा।

मनफुलवारी में इन्द्रावती के स्वरूप की झलक देखकर राजकुंवर वेसुध हो जाता है। अब तक राजकुंवर के उद्देश्य में दृढता तथा प्राप्ति के प्रयास में तत्परता अवश्य थी, किन्तु एक बार दर्शन पा लेने के बाद उसका विरह अत्यन्त तीव्र होजाता है और वह अतिशीघ्र 'प्रणमोती' खोज लाने को आतुर हो जाता है। अपने इस प्रयास में उसे दो बार अपने प्रेम की विशिष्टता का प्रमाण देना पड़ता है। दुर्जनराय की पत्नी मोहिनी राजकुंवर के लिये महल बनवाने तथा सब ऐश्वर्य और भोगों की व्यवस्था करने को कहती है, यदि इन्द्रावती का ध्यान राजकुंवर विस्मृत करदे। राजकुंवर का यह उत्तर

काह करौं कंचन और रूपा,
कंचन रूप पन्थ भौं कृपा।

उसकी मनोवृत्तियों के परिष्कार का परिचय देता है। सामाजिक प्राणियों को प्रेमियों के कार्य में असंबद्धता के दर्शन हो सकते हैं। लैला और मजनू के प्रेम पर खलीफा को भी आश्चर्य हुआ था। किन्तु प्रेमियों की भावना का परिचय कोई दूसरा नहीं पा सकता। प्रेमीजन ही एक दूसरे के सबसे बड़े हिनचिन्तक हैं।

हित चिन्ता का जानइ कोई, में जानों को जाने सोई।

इसी प्रकार समुद्र में 'प्रणमोती' निकालने के प्रयास में 'कमला' ने राजकुंवर की परीक्षा ली। वह मार्ग में राजकुंवर के सम्मुख 'इन्द्रावती' का रूप धारण करके गई। 'कहा अहर्कं मैं इन्द्रावती, तोहि मधुकर कारन मालती।' कमला के इस प्रकार विरह प्रदर्शन करके विश्वास दिलाने पर भी राजकुंवर की भावना में किञ्चित भी द्विविधा उत्पन्न नहीं हुई। उसने सहज भाव से, 'कहा कंचल दूसर है मोरा, ताके रंग रंग नहिं तोरा।' कमला के छल को पराल कर दिया।

इन्द्रावती के हृदय में पूर्वराग का उदय, चेता मालिन के मुख से जोगी का रूप वर्णन सुनकर होता है। इसके पहले इन्द्रावती के हृदय में काम जाग्रत हो चुका था।

वह सुग्धा से मध्या नायिका हो गई है। यौवन की सहज लज्जा उसके नेत्रों में समाविष्ट है। यहीं पर कवि मध्या के गुणों का भी वर्णन करता है^१। इसके बाद क्रमशः स्वप्न में एक जोगी को इन्द्रावती के प्रेम का वियोगी देख चुकने के बाद, उसी प्रकार के रूप गुण से सम्पन्न एक राजकुंअर को जोगी के भेष में इन्द्रावती दर्शन की लालसा का वर्णन, चेता के मुंह से सुनकर इन्द्रावती के हृदय में उसके प्रति प्रेम भावना का आविर्भाव स्वाभाविक था।

इन्द्रावती के प्रकाशित प्रथम भाग में राजकुंअर और इन्द्रावती का विवाह हो जाने के बाद का जीवन वर्णित नहीं है किन्तु इन्द्रावती के प्रेम की उत्कृष्टता का दर्शन उसके पहले ही दो अवसरों पर हो जाता है। राजा दुर्जनराय के द्वारा राजकुंअर के बन्दी हो जाने पर, विरह संतप्त इन्द्रावती तोते के द्वारा उसकी मुक्ति का उपाय लिख मेजती है और अत्यन्त दुःखित होते हुये भी वह आशापूर्वक राजकुंअर के पुनरागमन की प्रतिज्ञा करती है। वही इन्द्रावती प्रणामोत्ती निकालने के समय राजकुंअर की नाव के तूफान में फँसकर अदृश्य हो जाने का समाचार पाकर प्रणत्याग करने को तत्पर हो जाती है^२।

‘इन्द्रावती’ का चरित्र अपनी प्रेम भावना की उत्कृष्टता के कारण सराहनीय है। वहीं ‘सुन्दर’ राजकुंअर की विवाहिता पत्नी का चरित्र अपनी त्याग भावना के कारण महान् है। राजकुंअर के स्वप्न दर्शन के पूर्व ‘सुन्दर’ रूपगर्विता और प्रेमगर्विता दोनों ही थी^३। ये दोनों प्रकार के गर्व दाम्पत्य सुख के द्योतक हैं। राजा के जोगी होकर निकल जाने के बाद प्रोषितपतिका के रूप में कवि ने उसे चित्रित किया है। राजकुंअर के प्रस्थान के समय उसके चरित्र की भव्यता के दर्शन होते हैं। राजकुंअर और सुन्दर का

- १ जीवन लाज नयन मों दीन्हा, सुग्धा सों मध्या तेहि कीन्हा।
गइ चचलताई थिरताई, आई लाज निरुह्य पाई।

धन सूधै चितवत रहीं, निस दिन जेहि अखियान।
सो तीछैं चितवन लगौं, जीवन के अभिमान।

- २ प्रीतम मरम सुनत धनप्यारी, उभा आस लै अंसुक कारी।
कहा सखिन सों मों विष दीजै, खाइ मरउ एतौ जस लीजै।

- ३ श्रति सरूप रानी सुन्दरी, धरती पर अरछर औतरी।
देखा पिउ धन की सुधराई, मद्र सों मया करे अधिकाई।

प्रिय की प्रीत बखाने, एक न रास गोई।
रप गरबता सुन्दरी, प्रेम गरतवा होई।

सम्बन्ध शरीर और प्राण का सम्बन्ध था^१। किन्तु उसके प्रस्थान के समय भी सुन्दर ने अपने शोक का प्रदर्शन रुदन द्वारा नहीं किया क्योंकि उससे प्रिय के प्रस्थान में अशकुन होने का भय था^२।

‘सुन्दर’ लज्जावश अपनी व्यथा का प्रदर्शन तक न कर सकी और न राजकुंवर की दृढ़ता देखकर उसे प्रस्थान करने से रोक सकी। वह भयवश, संकोचवश इस सारे कार्य व्यापार को ठगी सी देखती रह गई। इसके आगे कवि ने सुन्दर के चरित्र पर कोई प्रकाश नहीं डाला है।

रस-चर्चा :

इन सूफ़ी प्रेमकथाओं में शृंगार रस ही प्रधान है यद्यपि कहीं कहीं ब्रह्म की अद्भुत शक्तियों के वर्णन में अद्भुत-रस का भी परिचय मिलता है, किन्तु वह अत्यन्त न्यून तथा पूर्ण रसदशा को प्राप्त नहीं हो सका। प्रेम की पीर व्यञ्जित करने वाली इन कथाओं में अधिकांश विप्रलम्भ शृंगार के ही दर्शन होते हैं। नायक एवं प्रतिनायक के युद्ध में, नायक एवं विरोधी उपकरणों के युद्ध वर्णनों वीररस में प्रधान है। पूर्ण कथा में शृंगार-रस की ही व्याप्ति है।

विप्रलम्भ शृंगार :

नूरमुहम्मद ने विप्रलम्भ शृंगार के अन्तर्गत न तो विहारी ऐसी ऊहा की ही योजना की है और न जायसी की भाँति उसमें काव्यात्मक चमत्कार ही प्रदर्शित किया है। सीधे सादे शब्दों में हृदय की पीड़ा का वर्णन है। भारतीय परम्परा में वियोग की पीड़ा प्रदर्शन केवल नायिका के मत्थे मड़ा गया है किन्तु इन सूफ़ी कवियों ने वियोग का वर्णन दोनों ही ओर से किया है। इन्द्रावती के दर्शन पाकर राजकुंवर को विरह और अधिक सताता है। ‘प्रीत आग सों जरा परानूँ, वेधा हियेँ नयन कर वानूँ’ ऐसी पंक्तियों में सहज ही इन्द्रावती के कटाक्ष का प्रभाव वर्णित है।

विरह की भावना का वर्णन करने में कवि ने परिचित उपमानों का ही आश्रय लिया है।

१. बसत सदन सई सत्रु उजारा, हरि लेइ चला परान हमारा। (पृ० २५)

२. राजा पंथ अगम पर चला, रोएँ ताहि न होइह भला।
रोएँ सो पिय फेरि न आवहि, करु मोई जासो सुख पावाहि।

चटुँ दिम सब समुझावै, गईं जनहुँ उग मार।

यसा मंदिर कत्रिलाम सम, प्रीतम कीन्ह उजार। (पृ० २६)

हैं सनेह के जलमो, यहै प्रान को मीन ।
बाहेर काठि न डारहु, ना तौ मरे मलीन ॥

कहीं कहीं वियोग पद के अन्तर्गत फारसी मसनवियों के प्रभाव के कारण किन्चित् वीभत्सता आ गई है, किन्तु ऐसे स्थल बहुत कम हैं :

राजें आंसू रक्त की डारा, भा इंगुर, गेरु रतनारा ।

वियोगावस्था की काव्यशास्त्र में दश दशाएं कहीं गई हैं, अभिलाषा, चिन्ता, गुण-कथन, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता तथा मरण । इनमें से मरण अवस्था का केवल उल्लेख मात्र कविजन कर दिया करते हैं । इन दश दशाओं के अतिरिक्त इनमें से कुछ से मिलती हुई प्रवास विरह की दशस्थितियाँ काव्य शास्त्र में और बताई गई हैं, असौष्ठव अथवा मलिनता, सन्ताप, पाहुता अथवा विवृत्ति, कृशता, अरुचि, अधृति अथवा चित्त की अस्थिरता, विवशता अथवा अनावलम्ब, तन्मयता, उन्माद तथा मूर्च्छा ।

इन अवस्थाओं एवं दशाओं के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न श्रुतियों में प्रेमी के विरही मन की जो दशा होती है तथा अपने चतुर्दिक वातावरण एवं सम्पर्क की वस्तुओं से जो विरह में उद्दीप्ति या सान्त्वना प्राप्त होती है, उसका वर्णन भी कविगण अधिकांश बारहमासे या षटश्रुतवर्णन के अन्तर्गत किया करते हैं । नूरसुहम्मद ने 'इन्द्रावती' के उत्तरार्ध में षटश्रुत या बारहमासे का वर्णन किया है । जहाँ इन्द्रावती के विरह का वर्णन है वहाँ विरह की अज्ञस्थाओं एवं दशाओं की ओर केवल संकेत मात्र है । उसमें भावों की तीव्रता या प्रभावोत्पादकता अधिक नहीं है ।

अभिलाषा :

रोह दीपसुत डारै धोई, अभिलाषिन अनुरागिन होई ।

व्याधि :

दुर्वल भइउ व्याध सों नारी, बल घटिगा भा जीवन भारी ।

असमर्थता :

सुमिरै सोवत बैठी - ठाड़ी, गन असमर्थ अवस्था बाड़ी ।

जड़ता :

सुकरव भयेउ दुखदायक, सुधिमत रहेउ न साथ ।

परी जगत प्रानेसरी, जड़ता केरी हाथ ॥

उद्वेग :

सुन्दर वाक मनाक न भावै, गगन चाक उद्वेग सतावै ।

उन्माद :

उन्माद सो रोवइ - हंसई, आँसू धरती मोती खसई ।

मरण :

जियत रहइ धेयान के बाहा, ना तो होत मर न पल साहा ।

गुराकथन :

धन कहं अन्तरपट भयेउ, गगन ऊँच महि नीच ।
छाँड़ि सकल धन्धा कहं, परि गुन कथन बीच ॥

चिन्ता :

चिन्ता कथन बीच धन परी, चिन्ता करै घरी - औ - घरी ।

बारहमासे का वर्णन कवि ने संयोग एवं वियोग दोनों ही शृङ्गार भावनाओं के उद्दीपन रूप में किया है। एक ओर कवि राजकुंवर एवं इन्द्रावती के सुखद मिलन में प्रकृति को सहयोग देता हुआ चित्रित करता है। दूसरी ओर राजकुंवर की पूर्वपत्नी सुन्दर को वियोग पीड़ित चित्रित करता है। कवि का कथन है कि वियोग के कारण ही संयोग सुख का आनन्द उपभोग्य है।

नूरसुहम्मद जगत महँ, जो नहिँ होत वियोग ।

तो पहिचान न जानै, यह सिगार संयोग ॥ (उत्तरार्ध)

संयोग-शृङ्गार :

राजकुंवर और इन्द्रावती के विवाह द्वारा कवि आत्मा और परमात्मा के मिलन का संकेत करता है। परम्परागत अश्लीलता का अधिक आभास इनके काव्य में नहीं मिलता, यद्यपि फलाहार के रूपक बाँधने में कवि अवश्य कुछ अश्लील हो गया है जैसे :

नौं वर्ना चाहीं फरहारा, अहँ मिठाई अघर तुम्हारा ।

वरनी कहँ फरहार करावहु, दोड जग बीच धरम तुम पावहु ।

कुच श्रीफल,बादाम दृग, अघर खाड सम आहि ।

चाहौं सो फरहार में, पावौं लेउं सराहि ॥ (उत्तरार्ध)

कवि ने हास-परिहास के मध्य भारतीय जीवन की सच्ची भाकी प्रस्तुत की है । इन्द्रावती की सखियाँ राजकुंवर को छेड़कर उसकी बहन को संकेत करके हास्य करती हैं । भाभियों का ननद से हास-परिहास करना स्वाभाविक है ।

जानि परत है भगिनि तुम्हारी, होइहि पेयारी अतिछवि धारी ।

तिरछी चितवन सों धन सोई, न जनहि कतिक हरे मन सोई । (उत्तरार्ध)

कवि नूरमुहम्मद ने संयोग शृङ्गार के अन्तर्गत भी षट्श्रुत वर्णन का उद्दीपन की दृष्टि से वर्णन किया है जो इनकी अपनी विशेषता है । 'पावस' ऋतु वर्णन से कवि ने आरम्भ किया है । कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करके संयोगिन इन्द्रावती के सुख का वर्णन करता है ।

रितु पावस पानी लैं आयेउ, सावन औ भादौं भरि लाएउ ।

पावस ऋतु आयेउ पानी लैं, सावन - भादौं नीर वरीसै ।

हरिअर भई नीर सौं भूमी, पहिरेउ प्यारी चीर खुसुभी ।

चमकै दामिनि जामिनि कारी, डरै न पिय सङ्ग कामिनिप्यारी ।

चढी चौपार मलार अलापै, प्यारी - प्यारी पारी थापै ।

जग हिंडोल को पदमिनी वारी, भूलै अनंद हिंडोल प्यारी ।

चिंता एक न मानहिं, मानहिं अनन्द हुलास ।

भोग सुखद हंसि खेल भो, वीति गएउ चौमास ॥ (उत्तरार्ध)

उसी प्रकार कवि ने शरद, हेमन्त, शिशिर एवं वसन्त ऋतु का वर्णन किया है ।

ईश्वरोन्मुख प्रेम :

नूरमुहम्मद सूफी मतानुयायी होने के कारण अपनी प्रेमकथा को अन्योक्ति के रूप में कहते हैं । जीवात्मा और परमात्मा में पारमार्थिक भेद न माना जाने पर भी साधकों के व्यवहार में ईश्वर की भावना प्रियतम के रूप की जाती है । बीच बीच में प्रेम वर्णन लौकिक पद से अलौकिक की ओर भी संकेत करता है । जायसी की भाँति इनके काव्य में इस अलौकिक प्रेम की व्यंजना अत्यधिक नहीं हुई है एव विरह भावना की अति उत्कृष्ट अभिव्यंजना के अभाव में इस रहस्यभावना का स्वरूप निखर सका है, फिर भी ऐसे स्थल अनेक हैं जिनमें इन्द्रावती के परमात्मा स्वरूप की व्यंजना होती है, जीवात्मा परमात्मा के संयोग की सदैव चाह रखती है । इस मसार का प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का प्रेम चाहता

है, इसी के साथ कवि ने प्रतिबिम्बवाद का भी बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। प्रत्येक मानव उस परमसौन्दर्यशाली परब्रह्म का दर्पण बनना चाहता है^१।

संयोग एवं वियोग दोनों ही वर्णनों में कवि इस प्रकार के संकेत करता है। राजकुंवर इन्द्रावती-विरह की चर्चा करते हुए कहता है कि वह उस उत्तम का वियोगी है जिसके दर्शन पाकर 'आपा' या अहंभाव का विस्मरण हो जाता है, एवं केवल उसी का अस्तित्व रह जाता है, परमसत्ता में जीवात्मा की पृथक सत्ता विलीन हो जाती है^२।

वह इन्द्रावती ही परम सत्य है। उसी एक के प्रेम पर इस संसार का कण कण प्राण देता है। वह दीपक ज्योति के समान है और यह संसार उस पर प्राणविसर्जन करने वाले पतिंगे के सदृश है^३। राजकुंवर के प्रेम की सराहना चेता मालिन इन्हीं शब्दों में करती है।

इन्द्रावती का सौन्दर्य इतना अधिक प्रभावशाली है कि जिस किसी पर वह दृष्टि निक्षेप करती है वही इस संसार से विमुख हो जाता है। अलौकिक प्रेम के लिए सासारिक आशाओं एवं सुखों का परित्याग करना ही पड़ता है। वह परमात्मा या इन्द्रावती इतने अमित प्रभाव एवं सौन्दर्य वाली है कि उसे सब कोई बिना देखे ही सराहता है^४। इस संसार में किसी ने उस परमेश्वर को देखा नहीं है किन्तु उसकी प्राप्ति की चाह सबको है।

उसी एक परमात्मा की परम ज्योति से सूर्य एवं चन्द्र प्रकाशवान हैं। रात्रि अपने असंख्य नेत्ररूपी तारों से, उसी का सौन्दर्य दर्शन करती है। इस संसार का कण कण उस सौन्दर्य पर मुग्ध है^५।

इसी प्रकार इन्द्रावती जब दर्पण में अपने स्वरूप को देखकर विमोहित हो गई तो तो कवि हदीस के वचनों का आरोप इन्द्रावती की इस क्रिया पर करके, उसके ब्रह्मत्व को सिद्ध करने का प्रयास करता है। हदीस है कि अल्लाह ने अपने स्वरूप पर मुग्ध हो

१. सब मानुख मन प्रीत घनेरी, उपजी इन्द्रावति मुख केरी।
मुकुर बने चाहा सब कोई, जामो आइ परै मुख सोई।
२. जोहि उत्तम दरसन के कारन, आपुंड नांघि मेरु दधि आन।
जा दिन में दरसन वह पाबजं, होई आप, आपुहि देखावड। (पृष्ठ ४४)
३. जोहि दरसन के दीप पर है पतन मंमार।
प्रेम तेहिक तुम लान्हा, मरै न नाम तोहार। पृष्ठ ४५
४. जो काहुअ पर डारे डीटो, सो जन देख जगत दिस पीटो।
अस रूपवन्ती सुन्दर आहै, यिनु देखे सज ताहि सराहै ॥ पृष्ठ ४५।
५. हे तेहि चन्द्र बदन लखि, जगत नयन डँजियार।
गगन सहस लोचन सों, निरखे तेहिक मिंगार। पृष्ठ ४६।

कर सृष्टि रचना की थी, वह दर्पण में अपने सौन्दर्य को देखकर स्वयं ही मोहित हो गया था। इसी प्रकार इन्द्रावती भी दर्पण में अपने सौन्दर्य को देखकर रीझ गई^१।

राजकुंवर इन्द्रावती को पत्र लिखते समय अपने अलौकिक प्रेम का परिचय देता है। यह सारा संसार स्वच्छ दर्पण की भाँति है जिसमें परमेश्वर के सौन्दर्य की प्रतिच्छवि पड़ रही है^२। इसी प्रकार झरोखे से इन्द्रावती के सौन्दर्य को देखकर राजकुंवर के यह वचन कि 'आज बदन में देखा जाको, है यह जगन झरोखा ताको' परमेश्वर की सर्वव्यापकता के परिचायक हैं।

फुलवारी में इन्द्रावती के दर्शन करके जब राजा वेसुध हो गया तो वहीं साधना में जागरूक रहने की भावना को कवि बड़े सीधे शब्दों में व्यक्त करता है। ईश्वरसदैव सम्मुख रहता है, किन्तु जो इस संसार की माया में लिप्त होकर सोये रहते हैं उन्हें साक्षात्कार नहीं होता। ध्यान के साथ जो अज्ञान रूपी निशा में भी जागने का प्रयास करते हैं, वही परमेश्वर का साक्षात् कर पाते हैं^३।

कन्या का मा के यहाँ से पति गृह जाना एवं जीव का इस संसार से परमेश्वर के पास जाना आदि प्रसंगों में साम्य की कल्पना निर्गुण कवियों ने की है। कबीर के तो इस भावना पूर्ण कई पद हैं। नूरसुहम्मद ने भी इस प्रसंग का समावेश इन्द्रावती का अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के मध्य किया है।

नइहर देश कहा फिर आवन, कह यह पन्थ चले यह पावन।
सो गुन एकउ हाथ ना आवा, जासों होह प्रीतम दाया।

इस प्रकार लौकिक प्रेम वर्णन के मध्य, कवि नूरसुहम्मद बराबर अलौकिक संकेत देते गये हैं।

प्रमत्तत्व :

प्रेम के स्वरूप का दर्शन इन सूफी प्रेमाख्यानों में स्थल स्थल पर होता है। कहीं यह प्रेम लौकिक रूप में दिखाई देता है और कहीं लोकवन्धन के परे।

१. कोउ नाहीं बीच सों, अपने रूप लोभान।
अपनो चित्र चितेरा, देखि आप अरुमान। पृष्ठ ७१

२. मोहिं लखैं आठरस्य है, निर्मल यह ससार।
तामों देखत हों सदा, सुन्दर बदन तोहार। पृष्ठ ७२

३. जो सो जो जागै रयना, मन पर धरै ध्यान को नयना।
ध्यान समेत रयन जो जागै, ताको हाथ मनोरथ लागै। इन्द्रावती पृष्ठ ६०।

प्रिय से सम्बंध रखने वाली वस्तुयें कितनी प्रिय होती हैं, राजकुंअर के विरह में पीड़ित इन्द्रावती उसकी सारंगी बनने की लालसा करनी है। सारंगी सदैव जोगी के साथ रहती है अतः इन्द्रावती को भी वही स्वरूप प्राप्त होता तो सम्भवतः निरन्तर साथ का संयोग उसे प्राप्त हो जाता :

बड़े भाग सारंगी, रहती प्रीतम पास ।
मोहि कलेस विछुड़न को, है प्रछन्न परकास ॥

इसी प्रकार राजकुंअर भी इन्द्रावती की पगरज के ऊपर अपने प्राण निछावर करने तक को प्रस्तुत है :

जेहि प्रानप्यारी के अमी भरे अधरान ।
ता पगुरज के ऊपर, वारों आपन प्रान ॥

प्रेम-पथ का पथिक अपने जीवन का मोह नहीं करता, सर्वस्व त्याग कर आगे बढ़ता है। प्रिय की प्राप्ति होने तक वह कभी विश्राम नहीं करना चाहता :

प्रेम विथा पर जो खुबुधाना, चाहे मरन न चाहे प्राना ।
सूरी ऊपर देहि जो, तवहुँ न छाड़े नाम ।
प्रेम पन्थ का पन्थिक, कहाँ चहे विसराम ॥

जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है उसका धैर्य खो जाता है, वह आतुर होकर लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करता है :

चिनगी प्रेम आग की लावा, धीरज को खरिदान जरावा ।

प्रेम भाव पर मन्त्र, जन्त्र, तन्त्र, या किसी औपधि का प्रभाव नहीं होता। प्रेम की पीर एक बार उत्पन्न होकर केवल अपनी ही व्याप्ति या प्रसार चाहती है, उस पर अन्य किसी भाव या विचार का प्रभाव नहीं पड़ता :

नूरसुहम्मद प्रेम पर, लहे न मन्त्र न जंत्र ।
प्रेम पीर जंह उपजे, तहाँ न औपद मन्त्र ॥

प्रबन्ध-कल्पना :

कवि ने इन्द्रावती में कथा-संगठन की नवीनता दिखाई है। अन्य सूफ़ी प्रबंधों की भाँति, निर्गुण ब्रह्म, रसूल मुहम्मद, उनके चार मित्र शाहेवस्त आदि की प्रशंसा करने के पश्चात्, वह वचन की महिमा का वर्णन करता है। करतार के एक वचन 'कून' से ही इस संसार की सृष्टि हुई है। वचन मनुष्य को आनन्दित

एवं दुखी करता है। वचन से ही कीर्ति प्रमार सम्भव है। इसी के साथ कवि ने अपनी कथा रचना का कारण भी दिया है कि स्वप्न में एक तपस्वी ने कवि को रचना करने का आदेश दिया था। उसके बाद कवि प्रेम के महत्व का वर्णन करता है।

कथा का आरम्भ वर्णनात्मक है, उसमें कुतूहल की मात्रा अधिक नहीं है। कथा की गति में कोई भी व्यवधान उपस्थित नहीं होता। जायसी की 'पद्मावत' की भांति इन्द्रावती के नायक को भी समुद्रयात्रा करनी पड़ती है, किंतु एक विशेषता अवश्य है कि कवि को समुद्र में डूब कर 'रत्न' खोजना पड़ा है।

कवि ने प्रमुख कथा के साथ, कई अंतर्कथाओं की संयोजना की है। कवि की यह मौलिकता 'सहस्र रजनी चरित एवं 'वेतालपचीसी' ऐसी कथाओं का स्मरण दिलाती है। इनमें से कुछ कथायें प्रमुख कथा की गति में सहायक होती हैं। उनका प्रभाव, घटना प्रवाह पर पड़ता है। ऐसी कथाओं के अंतर्गत रानी सुन्दर की सखियों का तोते की कहानी कहना तथा सुजान नाम के तोते के द्वारा 'वल्लभ और प्रेमा' की प्रेम कहानी का वर्णन, प्रमुख है। 'तोते की कहानी' के द्वारा रानी सुन्दर को राजकुंअर को संदेश भेजने का संकेत मिलता है तथा 'वल्लभ एवं प्रेमा' की दुखान्त प्रेमकहानी का राजकुंअर के हृदय पर घातक प्रभाव पड़ता है और यही आन्तरिक शोक, उसके निधन का कारण बनता है। 'जिव कहानी' का वर्णन कवि ने केवल चातुर्य प्रदर्शन के हेतु किया है। वह स्वयं लिखता है कि 'जो चाहत तो करत गरन्था। पै कवि चला कुंवर के पंथा ॥ दिन्हेउं मैं एक भीत उठाई। कोठ कवि चित्र संवारे भाई ॥' अवकाश पाते ही कवि नई कथाओं का समावेश करता है। एक स्थल पर कवि रानी इन्द्रावती की सखियों के द्वारा उसकी विरह पीड़ा को शान्त करने के हेतु और दूसरे स्थल पर सुन्दर की सखियों के द्वारा उसकी विरह व्यथा कम करने के लिये, नवीन कथाओं की उद्भावना करता है। ऐसी ही कथाओं के अन्तर्गत 'मधुकर एवं मालती' 'हीरा मानिक' 'हंसराज और चन्द्रवदन' की कथायें आती हैं।

कवि ने राजकुंवर की पूर्व पत्नी 'सुन्दर' के जीवन पर कथा के उत्तरार्ध में पूर्ण प्रकाश डाला है। वह राज्य शासन भी करती है और कामसेन ऐसे विरोधी राजा को युद्ध में परास्त भी करती है :

आपै चातुरि सुन्दर आछें, राज सम्हारें पिय के पाछें ;

अन्य प्रवन्धों में पूर्व पत्नी के चरित्र को यह उत्कर्ष प्राप्त नहीं हुआ है।

कथा का अन्त दुखान्त होते हुये भी अपनी विशेषता रखता है। जायसी ने अपनी 'पद्मावत' को ऐतिहासिक मृत्यु की पुष्टि के लिये दुखान्त बनाया। कुतवन ने 'भृगावती' का दुखद अन्त जीवन का अन्त मृत्यु ही है, यह सत्य प्रदर्शित करने के लिये किया, किन्तु 'इन्द्रावती' का अन्त इन सबसे भिन्न है। दूसरे के दुख एवं शोक से सहानुभूति

प्रदर्शन का भाव इसमें प्रमुख है। राजकुंवर 'प्रेमा एवं वल्लभ' की शोक कथा को सुनकर हतना करुणाविभूत हुआ कि वह फिर प्रमत्त होकर गति या आनन्द प्राप्त न कर सका और रुग्ण होकर संसार से चल बसा। उसकी पत्निया भी उसकी मृत्यु पर सती हो गई।

जायसी ने अपने ग्रन्थ की समाप्ति पर अपनी रचना का उद्देश्य स्पष्ट किया है एवं मंभन ने कथा का अन्त सुखान्त करके मौलिकता का परिचय दिया है, किन्तु कवि नूरमुहम्मद ने उसके महत्व का वर्णन करके कथा के सङ्गठन में एक और नवीनता आरम्भ की। इस ग्रन्थ की रचना से कवि अपने काले मुख को उज्ज्वल तो करना ही चाहता है^१, साथ ही पाठक वर्ग के लाभ की चर्चा भी करना है 'जो कोई इस ग्रन्थ को पढ़ेगा उसकी सुखवृद्धि होगी। निर्धन को द्रव्य, दुखी को सुख प्राप्त होगा। अज्ञानी को ज्ञान, वियोगी को संयोग लाभ होगा। रोगी का इस ग्रन्थ के पठन से स्वास्थ्य एवं विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है। यह ग्रन्थ बुद्धिमानों के द्वारा जब तक, पृथ्वी आकाश स्थित है, पढ़ा जायगा^२।

वस्तु-वर्णन :

वर्णन कौशल से कथा के इतिवृत्तात्मक अंशों में भी सरसता एवं प्रभावात्मकता का समावेश हो जाता है। वस्तुतः इन काव्यग्रन्थों में नवीन वस्तुओं का वर्णन न होकर उनकी योजना ही नवीन रूप में होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुये यह मानना पड़ता है कि नूरमुहम्मद ने अधिकांश वर्णन कवियों की रूढ़ पद्धति पर ही किये हैं यद्यपि कहीं कहीं वे अपने अलौकिक तत्त्वों के कारण सारगर्भित एवं मर्मस्पर्शी भी हो गये हैं। नूरमुहम्मद के द्वारा वर्णन विस्तार के लिये चुने गये स्थलों में से कुछ निम्नांकित हैं :

नगर-वर्णन :

इसके अन्तर्गत कवि ने कालिंजर एवं आगमपुर का वर्णन विशेषरूप से किया है।

1. देख स्याम मुख आयउं, मैं तेरी दरगाह।
कर मेरो मुख उज्ज्वल, करता जगत पनाह ॥
2. श्री यह पोथी क जो कोठ पढई, तोनि टाया सों तेहि सुख यह।
होइ सुखी जो पढई दुखारी, होइ धनी जो पढई मिखारी।
पढ़े विपत माँ सम्पत पावै, याउर पढ़े ज्ञान मन आवै।
पढ़े वियोगी होय संजोगी, नासै रोग पढ़े जो रोगी।
विद्यार्थी पढ़े चित साई, होइ ताहि विद्या अधिकारै।
भयउ सगूरन पोथी, पूजी मन की आय।
पढ़े रोग मेधावी, जय लग, माहि अकाम ॥
नूरमुहम्मद • इन्द्रावती

कालिंजर नगर वर्णन के अन्तर्गत कालिंजरगढ, राजमंदिर, सेना, कोष, -उपवन, हाट एवं नगर के शासन का उल्लेख आता है। ऐसे वर्णनों में कवि ने शाब्दिक चमत्कार कहीं कहीं प्रदर्शित किया है :

‘भूधर के भूधर गढ ऊपर, भूधर ऊपर सोहैं भूधर ।’

हाट-वर्णन :

इसके अंतर्गत कवि ने हाट को संसाररूपक के रूप में वर्णित किया है जिसमें कर्मानुसार फलप्राप्ति का भी संकेत है।

‘वरनों हाट महीपति केरी, ता महँ लाख वस्तु की देरी ।’

‘जो कोऊ कछु लेवै चाहै, जस पूंजी तस मोल बेसा है ।’

आगमपुर का वर्णन :

इसे कवि ने विस्तारपूर्वक वर्णित किया है। इस वर्णन में अधिकांश अध्यात्मिक संकेत हैं। आगमपुर इन्द्रावती का निवासस्थान है, इसी कारण ‘कविलास’ के समान आनन्द एवं सुखों का केंद्र है। आगमपुर के वर्णन में कवि नगरस्थिति, वन, उपवन, देवस्थान, गढ घड़ियाल, विश्रामस्थल, हाट, साधक, तपस्वी एवं मनतारा सरोवर का वर्णन करता है।

आगमपुर यात्रा वर्णन :

आगमपुर की यात्रा, साधक की सिद्धि लाभ करने की यात्रा है। इस यात्रा का महत्व, अध्यात्मिक दृष्टि से ही है। प्रकृति वर्णन की ओर सूफी कवियों का मन अधिक नहीं रम सका। मार्ग में पड़ने वाले वनों, समुद्र एवं पर्वतों की कठिनाइयाँ, विषय-वासना के आकर्षण, साधक के साहस की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

युद्ध-वर्णन

धर्मासन युद्ध का वर्णन नूरमुहम्मद के अन्य इतिवृत्तों से अन्च्छा हुआ है। ढाल एवं खड्ग की चमक, घोड़ों की हिंनिहिनाहट, तलवार की ठेंनाठन आदि प्रभावशाली दृश्य से वर्णन है

भयउ घटा ढालन मो कारी, खरगन भये वीज चमकारी ।

रौंदा मीस खरग चौगान्, खेलहि वीरहि चडि मैदान् ।

हाल आपनो आपनो चाहै, अरि को हस्त चलान सरोहै ।

भाला खरग हनै सब कोई, वोडन खरग ठेनाठन होई ।

गगन खरग घटा सों ठन गयऊ, तिन दिन औ धुन हन हन भयऊ ।

ओनई घटा धूर मों, दिन मनि रहा छिपाय ।
तहा महाभारत्य भा, सबद परेउ हू हाय ॥ (पृ० ६८)

जल-क्रीडा वर्णन :

इन सूफी कवियों ने सरोवर स्नान का वर्णन कौमार्य अवस्था के स्वाभाविक उल्लास एवं मायके की खल्लन्दता-प्रदर्शन के लिये किया है, किन्तु साथ ही नैहर और ससुराल के द्वारा इहलोक और परलोक की व्यञ्जना करने का भी प्रयास किया है। सरोवर में प्रविष्ट इन्द्रावती के सौन्दर्य वर्णन में कवि बहुत सफल हुआ है, स्नान की विभिन्न क्रियाओं के वर्णन में भी कवि नहीं चूकता। इन्द्रावती पहले नित्य के पहनने वाले वस्त्र उतार कर स्नान वसन धारण करती है और फिर जल प्रवेश करती है :

अब जूरा इन्द्रावति छोरा, भयउ घटा सों चाद अंजोरा ।
पैठिहु जब जल भीतर रानी, पानिष पायेउ तारा पानी ।
× × ×
मनुतारा भा गगन समानू, भयेउ मयंक समावह प्रानू ।'

सुरज उग्या आकास ही, चन्द्र उग्या जल माह ।
कुमुद तामरस फूले, दोउ मित्र के पाह । (पृ० ६०)

फाग वर्णन :

उत्सव या त्योहारों का वर्णन भी इन सूफी कवियों ने यथास्थान किया है। नूरमुहम्मद ने फाग का वर्णन अत्यन्त विस्तृत एवं स्वाभाविक रूप से किया है। चाचर का दृश्य उपस्थित करते समय उसमें सहज उल्लास का प्रदर्शन होता है :

आगमपुर कविलास मभाररा, फागुन आह आनन्द पसारा ।
एक दिस पुरुष एक दिस गोरी, हिलमिल गावहिं चांचर जोरी ।
डंफ वजावहिं औ मिरदंगू, पिचकारिन सों भयई सुरंगू ।
× × ×

रंग अवीर भरा सब कोई, जो जहा रहा भरा तहा होई । पृ० ३४ ।

भारतीय फाग का बड़ा मजीब चित्रण है। अब भी चाचर गाते समय डंफ और मिरदंग बजाये जाते हैं।

रूप-सौन्दर्य वर्णन :

रूप और प्रेम ही सूफी प्रेमाख्यानों का आधार है। इस कारण प्रसंगवश रूप वर्णन इन आख्यायिकाओं में बहुत रहता है। नायिका का नग्नशिल्प वर्णन अधिकांश परम्परा-

मुक्त हैं। परम्परा से चले आते हुये उपमानों का प्रयोग हुआ है, ऐसे ही स्थलों पर नूरमुहम्मद को प्रकृति के सौन्दर्य का ध्यान आता है। इन्द्रावती का सौन्दर्य अलौकिक है। संसार का प्रत्येक कण उसका दर्पण बनाना चाहता है।

मुकुर बने चाहा सब कोई, जामों आइ परै मुख सोई ॥

उसके रूप सौन्दर्य की एक भलक तपस्वी के द्वारा सुनकर राजकुंअर जोगी होकर गृह त्यागने को तत्पर हो जाता है।

इन्द्रावती के रूप का वर्णन कई स्थलों पर है। नूरमुहम्मद ने पूर्ण नखशिख वर्णन के अनुसार रूप का वर्णन नहीं किया है। तपस्वी जहा राजा से इन्द्रावती का वर्णन करता है वहा—

‘दिर्गन हरा मान मृग केरा, मन लजाह वन लीन्ह बसेरा।

×

×

×

कोमलताइ सुन्दरताई, रसना सों बरन न जाई।’

कहकर चुप रह जाता है। इसी प्रकार फुलवारी में चेता मालिन राजकुंअर से इन्द्रावती के सौन्दर्य की चर्चा करती है

खोलै मुख परभात दिखावै, खोलै केस सांभ होइ आवै।
अस रूपवन्ती सुन्दर आहै, विनु देखें सब ताहि सराहै।

इसमें इन्द्रावती के परम देवत्व की भलक ही अधिक स्पष्ट है।

राजकुंअर पवन एवं तोते के द्वारा अपना संदेश इन्द्रावती के पास भेजता है और उनके पहचान के हेतु इन्द्रावती के स्वरूप की चर्चा करता है, तब भी इसी अध्यात्मिक तत्व का परिचय हमें मिलता है। केवल एक ही ऐसा स्थल है जहा मनतारा में स्नान करती हुई इन्द्रावती के रूप सौन्दर्य की प्रशंसा, उसकी सखिया परम्परामुक्त उपमानों के आधार पर करती हैं

‘केस कस्तुरी हिर्दें फादू, अहै लिलाट अंजोरा चादू।
अहै भ्रिकुटी धनुक समानू, है वरुनी विसनू कै वानू।
नामिक मनहे कीर वेठी है, बरुक अकार कलानिधि कौ है।

इस प्रकार के वर्णन में भी कवि तीव्रगति से आगे बढ़ता है और दो तीन दोहों के बाद, उमकी सखियाँ अनावश्यक विस्तार न करके ‘सुन्दरता के लच्छन जेते, प्यारी तेरे चरे तेने’ कहकर चुप हो जाती है।

बहुज्ञता :

नूरमुहम्मद ने अपनी बहुज्ञता प्रदर्शन के लिये एक पूरा अध्याय ही विभिन्न रोगों की शोषधियों के वर्णन के लिये लिखा है जिससे उनका वैद्यक ज्ञान सिद्ध हो जाता है :—

उपजै देह वाय जर जाको । होइ कम्प जमुहाई ताकौ ॥
मोह मरम और मुख कल्लाई । औरो गात्र होइ अधिकई ॥
अभया सौंठ चिरायत कना । सोचर मिचहिं चूरन बना ॥
मारत जर यह चूरन ह्यई । प्रात समै जो भोजन करई ॥
तीनि देवस ताई हो प्यारी । देहु न ओषद जानि दुखारी ॥

बहुन न सोऊ देवस कंह । थोर न रैन मभर ॥
खाहु न उदर भरे पर । पियहु न निस कंह वार ॥

अलंकार :

अलंकारों का विधान अधिकांश सादृश्य के आधार पर होता है। इस सादृश्य की योजना भी दो दृष्टियों से की जाती है। प्रथम तो वर्णित विषय के स्वरूप बोध के लिये; दूसरे भावों में तीव्रता लाने के लिये। नूरमुहम्मद ने अधिकांश सादृश्यमूलक अलंकारों का ही प्रयोग किया है। जिस प्रकार जायसी का आग्रह 'उत्प्रेक्षा' अलंकार पर अधिक था, उसी प्रकार नूरमुहम्मद के काव्य में 'उल्लेख' के उदाहरण अधिक मिलते हैं। प्रयुक्त अलंकारों में उपमा, रूपक, उल्लेख, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, यमक, सन्देह आदि अलंकारों का प्रयोग अधिक हुआ है।

कहीं कहीं विप्रलम्भ शृंगार के अन्तर्गत उपमानों की योजना में कवि फारसी परम्परा से प्रभावित हो गया है एवं रक्त मांस ऐसे उपकरणों की संयोजना उसने की है। राजकुंवर की व्यथा वर्णन करते समय रुधिर के फव्वारे और नेत्रों से प्रवाहित आँसुओं की समता की गई है :—

रक्त आँसू आँखिन सों द्वारा, नैन भये खोनित फौंवारा !

रति के अन्तर्गत जुगुप्सा ऐसे विरोधी भाव की योजना इन सूफ़ी कवियों ने कहीं कहीं की है।

रूपाकतिशयोक्ति :

काहे बिना भक्रारा बयारा । पियरो ललित गुलाब तुम्हारा ।

सन्देह :

दसन बीज टाड़िम को, की मोती लर होइ ।
की हीरा की नयत है, चमक बीज अस होइ ।

भुक्त हैं। परम्परा से चले आते हुये उपमानों का प्रयोग हुआ है, ऐसे ही स्थलों पर नूरमुहम्मद को प्रकृति के सौंदर्य का ध्यान आता है। इन्द्रावती का सौन्दर्य अलौकिक है। संसार का प्रत्येक कण उसका दर्पण बनाना चाहता है।

मुकुर बने चाहा सब कोई, जामों आई परै मुख सोई ॥

उसके रूप सौन्दर्य की एक झलक तपस्वी के द्वारा सुनकर, राजकुंअर जोगी होकर गृह त्यागने को तत्पर हो जाता है।

इन्द्रावती के रूप का वर्णन कई स्थलों पर है। नूरमुहम्मद ने पूर्ण नखशिख वर्णन के अनुसार रूप का वर्णन नहीं किया है। तपस्वी जहा राजा से इन्द्रावती का वर्णन करता है वहा—

‘दिर्गन हरा मान मृग केरा, मन लजाह वन लीन्ह बसेरा।

×

×

×

कोमलताइ सुन्दरताई, रसना सों वरन न जाई।’

कहकर चुप रह जाता है। इसी प्रकार फुलवारी में चेता मालिन राजकुंअर से इन्द्रावती के सौन्दर्य की चर्चा करती है

खोलै मुख परभात दिखावै, खोलै केस सांभ होइ आवै।

अस रूपवन्ती सुन्दर आहै, विनु देखें सब ताहि सराहै।

इसमें इन्द्रावती के परम देवत्व की झलक ही अधिक स्पष्ट है।

राजकुंअर पवन एवं तोते के द्वारा अपना संदेश इन्द्रावती के पास भेजता है और उनके पहचान के हेतु इन्द्रावती के स्वरूप की चर्चा करता है, तब भी इसी अध्यात्मिक तत्व का परिचय हमें मिलता है। केवल एक ही ऐसा स्थल है जहा मनतारा में स्नान करती हुई इन्द्रावती के रूप सौन्दर्य की प्रशंसा, उसकी सखिया परम्परामुक्त उपमानों के आधार पर करती है

‘कैस कस्तुरी हिंदै फादू, अहै लिलाट अंजोरा चादू।

अहै भिकुटी धनुक समानू, है वरुनी विसनू कै वानू।

नासिक मनहें कीर वेठो है, बरुक अकार कलानिधि कौ है।

इस प्रकार के वर्णन में भी कवि तीव्रगति से आगे बढ़ता है और दो तीन दोहों के बाद, उसकी सखियाँ अनावश्यक विस्तार न करके ‘सुन्दरता के लच्छन जेते, प्यारी तेरे चरे तेने’ कहकर चुप हो जाती है।

बहुज्ञता :

नूरमुहम्मद ने अपनी बहुज्ञता प्रदर्शन के लिये एक पूरा अध्याय ही विभिन्न रोगों की औषधियों के वर्णन के लिये लिखा है जिससे उनका वैद्यक ज्ञान सिद्ध हो जाता है :—

उपजै देह वाय जर जाको । होइ कम्प जमुहाई ताकौ ॥
 मोह मरम और मुख कल्लाई । औरो गात्र होइ अधिकाई ॥
 अभया सौंठ चिरायत कना । सोचर मिचहि चूरन बना ॥
 मारुत जर यह चूरन ह्यई । प्रात समै जो भोजन करई ॥
 तीनि देवस ताई हो प्यारी । देहु न ओषद जानि दुखारी ॥
 बहुन न सोऊ देवस कंह । थोर न रैन मभार ॥
 खाहु न उदर भरे पर । पियहु न निस कंह वार ॥

अलंकार :

अलंकारों का विधान अधिकांश सादृश्य के आधार पर होता है। इस सादृश्य की योजना भी दो दृष्टियों से की जाती है। प्रथम तो वर्णित विषय के स्वरूप बोध के लिये; दूसरे भावों में तीव्रता लाने के लिये। नूरमुहम्मद ने अधिकांश सादृश्यमूलक अलंकारों का ही प्रयोग किया है। जिस प्रकार जायसी का आग्रह 'उत्प्रेक्षा' अलंकार पर अधिक था, उसी प्रकार नूरमुहम्मद के काव्य में 'उल्लेख' के उदाहरण अधिक मिलते हैं। प्रयुक्त अलंकारों में उपमा, रूपक, उल्लेख, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, यमक, सन्देह आदि अलंकारों का प्रयोग अधिक हुआ है।

कहीं कहीं विप्रलम्भ शृंगार के अन्तर्गत उपमानों की योजना में कवि फारसी परम्परा से प्रभावित हो गया है एवं रक्त मास ऐसे उपकरणों की संयोजना उसने की है। राजकुंवर की व्यथा वर्णन करते समय रुधिर के फव्वारे और नेत्रों से प्रवाहित आँसुओं की समता की गई है :—

रक्त आँसू आँखिन सों ढारा, नैन भये खोनित फौंवारा ।

रति के अन्तर्गत जुगुप्सा ऐसे विरोधी भाव की योजना इन सूफ़ी कवियों ने कहीं कहीं की है।

रूपाकतिशयोक्ति :

काहे बिना भक्कोरा वयारा । पियरो ललित गुलाब तुम्हारा ।

सन्देह :

दसन बीज टाड़िम को, की मोती लर होइ ।
 की दीरा की नपत है, चमक बीज अस सोद ।

व्यतिरेक :

है मनोरमा जगत कर सोई ।
है ससि जौ ससि बोलत होई ॥

यमक :

जो मरजिया सो भा मरजिया ।
मोती लिया दिया भा दीया ॥

उपमा :

अर्ध चन्द सम भाल सोहाई ।
रेखा तीन दिष्ट मोहिं आई ॥

रूपक :

है सारंगी देह हमारी, तार बनो है प्रीत तुम्हारी ।
बजत अहै प्रीत को तारा, निसरत तासों नाम तुम्हारा ।

तद्रूप :

जोगी भेस न सकों सराही, गोपीचन्द दूसरो आही ।

उल्लेख :

एक कहा लट सों मुख सोभा,
हीरा अधिक लखि मुरछा लोभा ।
एक कहा लट नागिन कारी,
डसा गरल सों गिरा भिखारी ।
एक कहा लट जामिनि होई,
रात जानि जोगी गा सोई ।

हेतुप्रेक्षा :

इन्द्रावती के निल का वर्णन उसकी सखियाँ करती है, इसी प्रसंग में पहले तो कवि उल्लेख प्रलंकार के द्वारा इसे स्पष्ट करने का प्रयास करता है, किन्तु अन्त में हेतुप्रेक्षा का आलेख लेकर जो कुछ कहा गया है वह हृदय में घर कर जाता है ।
इन्द्रावति दृग लिखत कै, भा विरंच मतवार ।
मसि लागउ लेखनी गिरंउ, सोभा भै अविचार ।

भाव-व्यञ्जना :

पात्रों के द्वारा भाव-व्यञ्जना भी बहुत सफल हुई है। हर्ष एवं विषाद भाव की स्पष्ट व्यञ्जना कवि बहार और पतभार शब्द प्रयोग से करता है। इन्द्रावती के फुलवारी में आ जाँने से उसमें बहार आ गई और उसके प्रयाण करते ही राजकुंवर के लिये मानो वहाँ पतभार का साम्राज्य हो गया :—

मोहि लेखे एक पल भर, उपवन भयेउ बहार ।
अब देखकेँ फुलवारी, आइ वसेउ पतभार ।

इसी प्रकार इन्द्रावती ने, जब, राजकुंवर का पत्र पाया तो वह अत्यन्त हर्षित हो उठी। उसे इतना हर्ष हुआ मानो स्वयं राजकुंवर से भेंट हो रही हो :—

प्राती पाय - नयन मों लावा, आधी भेंट ओहि पल पावा ।'

इन्द्रावती को पाने के लिए अनेक राजा प्रणमोती के प्रयास में समुद्र में डूब गये किन्तु उनके लिए इन्द्रावती को तनिक भी शोक नहीं हुआ, उसी इन्द्रावती को राजकुंवर के दर्शन के पश्चात् उसकी कितनी अधिक चिन्ता होती है यह—

मोती कोडे कारने, बुझै न जलधि मभार ।
ना तो जोगी के निमित्त, जाइहि जीउ हमार ।

से स्पष्ट हो जाती है।

इसी प्रकार एक उल्लास, हर्ष, आनन्द की भावना को कवि ने बहुत सुन्दर ढंग से व्यक्त किया है :

इन्द्रावती मनु मों हुलसानी, हुलसे कुच कंचुकि संकरानी ।
मुख पर छवि वाड़ी अधिकारी, गइ पियराइ भई ललताई ।
भयेउ परमद परमद भेषा, गै दुख भै सुख जै मुख देखा ।

भाषा :

नूरमुहम्मद की भाषा मिली जुली अर्थात् भाषा है जिसमें ब्रजभाषा के शब्दों का भी पुट है। 'इन्द्रावती' ग्रन्थ की भाषा 'अनुरागवॉसुरी' की अपेक्षा सरल एवं स्वाभाविक है। नित्य बोलचाल की भाषा में वह प्रवाह है जिसके लिये कवि प्रणय अपेक्षित नहीं। कथा की गति ऐसी सरल भाषा के माध्यम से के सज हो गई है :

तात भई इन्द्रवनि छानी, रातहि लिखा कुंवर कह पाती ।
सुखी न जानेउ कोइ थनुरागी, ई उद्वेग व्याध मोहि लागी ।

गा धिंघेच यह जीउ हमारा, बन्द तोहार बन्द मों डारा ।
है एक मानुष मित्र पिता को, क्रीपा राय नाम है ताको ।
सुध तोहार किरपा जो पावै, तो दयाल होइ बंद छोड़ावै ।

अन्य कवियों की अपेक्षा नूरमुहम्मद ने कहावतों- एवं मुहाविरों का प्रयोग प्रचुरता से किया है जिनसे भाव अधिक स्पष्ट हो सका है तथा साथ ही भाषा भी सजीव हो गई है :

सुख सम्पत् सब दीन्हा दाता, मारु न छीर भात मों लाता ।

× × ×
रहै न एकौ अंत कह, नारंग दाबिस दाख ।
देवस चार की चाँदनी, फिर अँधियारो पाख ॥

× × ×
पट बाहर जेइ पाव पसारा, जाड़ा कठिन अन्त तेहि मारा ।

× × ×
जाके गोड़ न गई वेवाई, सो का जानै पीर पराई ।

× × ×
मनुज हँसी कहि हँसी न होई, जब कुछ होइ हँसै तब कोई ।

× × ×
जानि परत राजा खवन, परी न है यह बोल ।
टीडी दल के त्रास तँ, होत दमामों ढोल ॥

× × ×
वातहि हाथी पाइयो, वातहि हाथी पाव ।

इसके अतिरिक्त फारसी के शब्द फौव्वारा, सीना, दिमाग आदि के साथ ही कवि ने स्वयं संज्ञा या विशेषण से क्रिया बनाई है जैसे विरधाहीं, अंदाहीं आदि । कुछ नवीन शब्दों की रचना भी कवि ने की है जैसे काजल से दीपसुत तथा तोते के लिये अरुनतुरण्ड आदिक ।

कवि की रचना में कुछ पूर्वी प्रयोग भी पाये जाते हैं । इनके निवास स्थान के सम्बंध में जौनपुर एवं आजमगढ का जाम आता है । बहुत सम्भव है कि स्थानीय प्रभाव के कारण ऐसे प्रयोग पाये जाते हों :

माला रहा बहुत अनमोला, नैसों जस राजा के होला ।

× × ×
तुम सों औ वह धन सों, रहली महा परीन ।

इनमें 'रहली' और 'शौला' दोनों में भोजपुरी का ही प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसके अतिरिक्त 'पठरा', 'धिवेच' एवं 'हुक्का' ऐसे बोलचाल के शब्द पाये जाते हैं।

छन्द :

इन्द्रावती में पाँच अर्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम मिलता है। सम्पूर्ण कथा इसी क्रम से वर्णित है।

स्वभाव-चित्रण :

नूरमुहम्मद ने किसी भी पात्र में विशेष स्वभाव की योजना का प्रयास नहीं किया है। न तो स्वभाव चित्रण के अंतर्गत कवि ने मनुष्य प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है और न किसी विशेष उद्देश्य से प्रेरित होकर लोगों के स्वभाव का चित्रण किया है। प्रबन्ध काव्य में पात्रों की स्वभाव व्यञ्जना, उनके वचन या कर्म के द्वारा होती है। इन्द्रावती में आदि से अन्त तक रहने वाले पात्रों में इन्द्रावती, राजकुंवर तथा सुन्दर ही हैं। चेतानामालिन, बुद्धसेन मन्त्री एवं गुरु गुरुनाथ के अतिरिक्त जगताराय, इन्द्रावती की मखियों आदि के चरित्रों के सम्बन्ध में भी संक्षिप्त सूचना यत्र तत्र प्राप्त हो जाती है।

इन पात्रों की किसी व्यक्तिगत विशेषता का परिचय कवि नहीं देता, इन्द्रावती और राजकुंवर, राजकुंवर और सुन्दर, प्रेमी और पति-पत्नी के रूप में ही अधिक सम्मुख आते हैं। राजकुंवर का साहस, धैर्य, निश्चयात्मकता एवं कष्टहिष्णुता उसका व्यक्तिगत लक्षण नहीं है। राजकुंवर एक सच्चे साधक का आदर्श है। इन्द्रावती का सम्पूर्ण चरित्र केवल एक प्रेमिका का चरित्र है।

अन्य प्रसंग :

इन्द्रावती के मध्य कुछ अन्य प्रसंग भी आये हैं जैसे धरोहर 'रत्ना, पतिसेवा, द्रव्यमहिमा, आदि। इनकी योजना भारतीय कवि अधिकांश अपनी आदर्शवादिता के कारण करते रहे हैं। इन्द्रावती में आये हुये कुछ प्रसंग निम्नांकित हैं :

माता-पिता की सेवा :

मातृपिता मंग करहु भलाई, करता की प्रशा अस आई।
जो अपने आगे विधाहीं, उन्हें वान उह भाखी नाहीं॥
और न कीजे उन्हें निराख, उन नित मागु सरग सुख वाख॥

मित्र-पहिचान :

जो मुख पर ऐगुन करे, मरामित्र ऐ सोइ।

ताको मित्र न जानिये, ऐगुन राखे गोइ ।

नूरमुहम्मद की बहुज्ञता :

ये सूफी कवि साधारण जन जीवन में अत्यधिक चाव रखते थे, एवं सभी प्रकार के व्यक्तियों से इनका संसर्ग रहने के कारण काव्यरीतियों के साथ साथ, समाज की परम्पराओं, अंधविश्वासों एवं अन्य क्रियाकलापों का भी ज्ञान इन्हें था । यही कारण है कि इनका काव्य जन जीवन का काव्य है । उसका सम्बन्ध विद्वत-वर्ग से अधिक न होकर लोकजीवन से है । नूरमुहम्मद की इसी विस्तृत जानकारी के सम्बन्ध में यहाँ कुछ कहना अभीष्ट है । जिस प्रकार कवि उसमान ने चित्रावली के अन्तर्गत 'कामशास्त्र' पर एक पृथक अध्याय की रचना की है उसी प्रकार नूरमुहम्मद ने 'औषधि' वर्णन किया है । शुभाशुभ स्वप्न की चर्चा जनसमाज में अत्यधिक रहती है । कवि ने एक स्थल पर इस ओर संकेत किया है । इन्द्रावती जब अपने स्वप्न की चर्चा सखियों से करती है तो नगर में मगल एवं मस्तक में सिंदूर दान का अर्थ वह यह करती है :

मोहि मन उपजी है डर प्यारी, मरे राजदीपी कोउ नारी ।

कया कम है जीऊ भंवर आववि माह कि भाव ।

कोउ सुरलोक सिधारी, मोहि विचार अस आव ।

इसी प्रकार कवि चन्द्र एवं सूर्यग्रहण सम्बन्धी विचार तथा धरेलू दवाओं की एक पूर्ण सूची औषधि खण्ड में संग्रहीत कर देता है ।

ग्रहण-विचार :

कहा भेष के बीच पियारी, जो रवि गहन होइ अंधियारी ।
अग्नि टरे पसु मरे वहुता, घटै सुफल अनपड़े अकूता ।
वाढे विग्रह मानुष माहीं, मिलन प्रीत रहे कुछ नाहीं ।
जो ससि गहन भेष भौं होई, दुख के फाद परे सब कोई ।
सिंहासन पति जीत न पावे, तापर जो रिपुता पर आवे ।

औषधियों के अन्तर्गत कवि ने वायु, पित्त, कफ, सन्निपात, सीत, स्त्री दुख आदि रोगों की औषधियाँ गिनाई है । साथ ही कवि भिन्न राशि के व्यक्तियों को किन रोगों का होना सम्भव है, इसकी चर्चा भी करता है ।

अन्य कवियों की अपेक्षा नूरमुहम्मद ने राजवर्म पर भी अपने विचार व्यक्त किये हैं । सूफ़ी प्रेम प्रवर्धों में शाहेवक्त की प्रशंसा करने की पद्धति तो है, किंतु शासन या नीति की मर्यादा के अनिश्चित, अलोचना कहीं प्राप्त नहीं होनी । इसके विपरीत कवि नूरमुहम्मद का राजनीति या राजधर्म पर विचार प्रगट करना व्यक्तिगत निर्भकता का

परिचायक है। राजा को धर्मानुसार शासन करना चाहिये। धर्म के प्रतिकूल कार्य करने वाले राजा को नरकवास करना पड़ना है :

कहा धरम को रीत संचारे, ना अधरम सों देश उजारे ।
असा सिर्जनहार पठावा, धरम करे की वात जनावा ।
और यह वात वेद सौं आई, करे समीपी संग भलाई ।
निर्प अधर्मां लेखा के दिन, आवे रहे सहायक जन विन ।
वाधा जाइ नरक कुंड माहीं, तहाँ मरीच अंजोरा नाहीं ।

मनुष्य को पीड़ा पहुँचाना राजा का कर्तव्य नहीं है, उसे चाहिये कि अपने आश्रितों का ध्यान रखे तथा लूट का माल प्रजा जन में लुटा दे। इसके अतिरिक्त भी उसे बहुत दान पुण्य करना चाहिये। राजा प्रजा से इतना ऊँचा न उठ जावे कि उसे दुखी प्रजा की पुकार सुनाई ही न पड़े। चतुरजनों की सम्मति से राज-काज चलाना उसका धर्म है। जिस प्रकार वादल बूद बूद करके सागर से जल ग्रहण करता है किंतु देते समय एक साथ ही सभी को संतुष्ट कर देता है उसी प्रकार राजा को भी चाहिये कि वह कर लेते समय किसी पर अधिक भार न डाले किंतु दान करके सबको भरपूर करदे। राजा को मृदुभाषी होना चाहिये। कोमल स्वभाव से कठोर हृदय भी आकर्षित एवं वशीभूत हो जाते हैं। हीरा ऐसे कठोर रत्न को रागा काट देता है।

उचित नहीं अधरम चित लावे, मानुष गूदा नित कढावे ।
औ अंकोर पर चित न देखे, होइके निर्प अंकोर न लेई ।

लूट मिले रिपु मारे, लूटहि देइ लुटाइ ।

गुप्त देइ बहुतन कहं, तासों आप न खाइ ।

उन्नत ठौर न ऐसो सोवे, सुने न सबद दुखी जो रोयें ।
लेइ चतुर लोगन की मता, करे धरम वाडे जस लता ।
अकसर आपन उद्र न भरई, सात पाच मग जेवन करई ।
जो जैसो तेहि तैसे राखे, दया वचन सकल संग भाखे ।
बूद बूद सागर सों लेई, देत समै वारिद सम देखे ।
कोमल कहि वस करे कठोरा, हीरा कहं रागा पै तोरा ।

कवि को राजा के इन सब गुणों की अपेक्षा करतार की कृपा का अधिक भरोसा है, वह कहता है कि जिस देश पर उस परमात्मा की कृपा होती है वह वही सद्धर्मा राजा भेजता है :

कहा देस मे पायहु दसा, है करतार दया मां वसा ।

है जेहि देस उपर तेहि दाया, धरमी राजा तहा पठाया ।

‘इन्द्रावती’ ग्रन्थ अपनी इन सभी विशेषताओं के कारण सूफी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

अनुराग वांसुरी

कथासारांश :

मूरतिपुर नामक एक नगर का जीव नामक राजा था जिसके एक मात्र सर्वगुण सम्पन्न पुत्र का नाम अन्त.करण था। अन्त करण के संकल्प और विकल्प नाम के दो साथी थे, इसके अतिरिक्त बुद्धि, चित्त एवं अहंकार नाम के मित्र भी उसके साथी थे। उसकी अत्यन्त सुन्दरी पत्नी का नाम महामोहिनी था। अन्त.करण महामोहिनी के सौन्दर्य पर मुग्ध था किंतु एक दिन जब राजकुमार अन्त.करण ने श्रवण नामक ब्राह्मण के गले में सर्वमंगला नाम की सुन्दरी की मणिमाला देखी और उस पर मुग्ध होकर उसकी प्राप्ति के विषय में पूँछा तो श्रवण नामक ब्राह्मण ने मणिमाला का इतिहास इस प्रकार वर्णित किया।

एक वार श्रवण विद्यापुर नगर गया, वहा ज्ञातस्वाद नामक एक विद्यार्थी से उसकी मित्रता हो गई। यह मणिमाला श्रवण ने ज्ञातस्वाद के गले में देखकर राजकुमार की भांति यही प्रश्न किया था। ज्ञातस्वाद ने बताया कि एक वार वह दर्शनराय राजा के राज्य सनेहनगर गया। राजा की एक मात्र तनया का नाम सर्वमंगला था। वह अत्यंत सुन्दरी एवं विदुषी थी। ज्ञातस्वाद ने एक श्लोक लिखकर उसके समक्ष भेजा जिसके गूढ़ार्थ पर मुग्ध होकर उसने अपनी माला ज्ञातस्वाद को पारितोषिक स्वरूप भिजवा दी। श्रवण ब्राह्मण को वह माला प्रिय होने के कारण ज्ञातस्वाद ने उसे भेंट कर दी।

श्रवण ने इस कथा के साथ ही सर्वमंगला के अनुपम सौन्दर्य की भी चर्चा की तथा अन्त.करण के माला की प्रति प्रेम भाव को देखकर वह माला उसे समर्पित कर दी। मणिमाला को पाकर अन्त:करण निरंतर सर्वमंगला के ध्यान में रहने लगा। सारे राजकीय ऐश्वर्य तथा अपनी प्रिय पत्नी के प्रति उदासीनता को लक्षित कर राजा जीव ने उसके दुःख का कारण पूँछा, किन्तु लज्जा एवं संकोच वश पुत्र ने मौन धारण कर लिया। राजा ने ब्रूम नामक भेदिया को राजकुमार का सेवक बनकर भेद जानने के हेतु नियुक्त किया। उसने अन्त करण की प्रेमव्यथा जानकर राजा को सूचना दी। राजा जीव ने सनेहनगर के मार्ग की विकटना तथा सर्वमंगला के प्राप्ति की असंभावना एवं दोनों परिवारों के मध्य वर्गाय अन्तर को ध्यान में रखते हुये राजकुमार को अपनी चेष्टा से विरत करना चाहा। उन्हें असफल पाकर राजकुमार के मित्र बुद्धि तथा विकल्प ने भी उसे जोगी बनकर सनेहनगर जाने से हतोत्साहित किया, किन्तु राजकुमार, मित्र सकल्प के सत्परामर्श पर, सनेह नगर को प्रस्थान करने के हेतु तत्पर हुआ।

उसी समय संयोगवश वहा सनेहगुरु नामक एक वैरागी तीर्थ-यात्रा करता हुआ

था पहुँचा। अन्तःकरण भी जिज्ञासा वश, उनके दर्शनार्थ गया जहाँ युक्ति पूर्वक सनेहगुरु ने अन्तःकरण की उदासीनता का कारण जान लिया।

सनेह गुरु सनेह नगर के ही निवासी थे, उन्होंने भी अन्तःकरण को सनेह मार्ग की कठिनाई समझाने का प्रयत्न किया। किन्तु अन्तःकरण को अपने संकल्प पर दृढ़ देखकर उसे प्रेम मार्ग में दीक्षित कर लिया एवं सनेहनगर के मार्ग-प्रदर्शन के हेतु उपदेशी नागक एक तोते को साथ कर दिया। अन्तःकरण अपनी पत्नी महामोहनी तथा माता पिता को दुःखी छोड़कर उपदेशी के पथ प्रदर्शन में सनेहनगर को चल दिया। कुछ दूर चलने पर उसे दो दक्षिण तथा वाममार्ग मिले। वाममार्ग का परित्याग कर, दक्षिण मार्ग पर चलते हुये, वह इन्द्रियपुर पहुँचा जो अत्यन्त चित्ताकर्षक था। यहाँ के राजा मायावी ने अन्तःकरण को वशीभूत करके वहाँ रोकना चाहा तथा कामुकी मनभाविनी नामक दारिका को उसे वशीभूत करने को भेजा। कामुकी ने राजकुमार के साथ विरागिनी वनने की इच्छा प्रकट की। उसने राजकुमार के साथी रूप सनेही, रागसनेही, तथा वास सनेही नामक साथियों को वहका भी लिया किन्तु राजकुमार पर उसका कोई प्रभाव न पड़ सका और वह दृढतापूर्वक स्नेहमार्ग पर अग्रसर होता गया। अन्तःकरण मार्ग में कई वसेरे करता हुआ तथा परमार्थ विरोधी शक्तियों से लड़ता हुआ आगे बढ़ता गया और अंत में सनेहनगर पहुँच गया एवं वहाँ की शोभा देखकर मुग्ध होगया।

सनेहनगर में पहुँचकर अन्तःकरण ध्यानदेवहरा में बैठकर सर्वमंगला का ध्यान करने लगा। उसकी साधना के परिणाम स्वरूप सर्वमंगला ने एक स्वप्न देखा कि किसी रम्य वाटिका में उस पर एक भ्रमर भंडरा रहा है जो उसके निवारण करने पर भी नहीं मानता। आँख खुलते ही सर्वमंगला के हृदय में प्रेम भावना का बीजारोपण हो गया। एक माह पश्चात् उसने दूसरे स्वप्न में एक सुन्दर वैरागी को ध्यानदेवहरा में बैठकर अपनी मूर्ति की पूजा करते हुये देखा, सर्वमंगला अपने इन स्वप्नों के कारण वेचैन हो उठी। उपयुक्त समय जानकर उपदेशी सुआ सर्वमंगला के पास पहुँचा, एवं सर्वमंगला के हाथ पर बैठकर उसने अन्तःकरण की सारी प्रेमकथा कह सुनाई। अन्तःकरण के रूप और गुण की प्रशंसा सुनकर सर्वमंगला को उसके दर्शन की लालसा हो उठी और उसने अपनी चित्रबंधिनी सखी को उसका चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा। सर्वमंगला ने पुनः उठी के द्वारा सुआ के कथानानुसार अपना एक चित्र भी अन्तःकरण के पास भेजा। चित्र-दर्शन के अनंतर दोनों में पत्र व्यवहार आरम्भ हो गया। सुआ दोनों के मध्य पत्रवाहक का कार्य करता रहा। सर्वमंगला का भावचित्र पाकर अन्तःकरण उसके दर्शनों की इच्छा से महल की ओर गया। संयोगवश सर्वमंगला पलाश के फूल की ओर आकर्षित होकर उभी ओर गई और अन्तःकरण उसे देखकर मूर्च्छित हो गया। सुआ ने अन्तःकरण और सर्वमंगला की पहिचान करा दी। सर्वमंगला ने अपने गले की माला राजकुमार के पास भेजवा दी।

मूरतिपुर में अन्तःकरण के पिता ने अपने पुत्र का बहुत समय से इच्छा पता न पाकर राजा दर्शनराय के पास अपने पुत्र की प्रेम कहानी तथा उसके प्रति कृपादृष्टि के

नये लिख भेजा। पत्र पाकर तथा सनेह गुरु से इसकी सत्यता का समर्थन हो जाने पर, वं उपदेशी सुआ के मुख से दोनों प्रेमियों के पारस्परिक प्रेम को जानकर दर्शनराय दोनों का पाणिग्रहण करवा दिया। उनकी स्वीकृति लेकर अन्तःकरण पत्नी सहित अपने घर लौट आया।

कवि नूरमुहम्मद को जो कुछ भी अपने जीवनवृत्त, गुरुपरम्परा या शाहवेक्त के बारे कहना था उन्होंने इन्द्रावती में ही कह डाला। अनुरागबाँसुरी के प्रारम्भ में ऐसा त होता है कि कवि अपनी हिन्दी में रचित रचनाओं एवं वर्णित हिन्दू कथाओं के पनाने का कारण स्पष्ट करना चाहता था। अतः पहले इन्हीं समस्याओं की चर्चा रना उचित होगा।

भाषा-समस्या :

जिस समय नूरमुहम्मद ने हिन्दी में अपने काव्य की रचना की, 'भाषा' के सम्बन्ध धारणा बदल चुकी थी। भाषा का सम्बन्ध निवासस्थान से न रखकर धर्म या मजहब जोड़ा जाने लगा था। जवान और इस्लाम का साथ हो गया हिन्दी या 'भाषा' में रचना करना कुप्र समझा जाता था। नूरमुहम्मद के समय की ही लिखी हुई 'तारीख गरीबी' से भी इस स्थिति पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। तारीख गरीबी में नवियों की भाँती लिखी हुई है, किन्तु उसकी रचना हिन्दी में होने के कारण धार्मिक व्यक्तियों ने उसकी निन्दा की और 'तारीख गरीबी' के लेखक को अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना पड़ा^१।

किन्तु मजहबी मामलों में उदार चेताओं की कहाँ चलती है। कुछ ऐसी ही परिस्थिति का सामना नूरमुहम्मद को भी करना पड़ा। नूरमुहम्मद ने अपनी 'इन्द्रावती' प्रेमकथा की रचना हिन्दी भाषा में की। 'कामयाब' उपनाम से वे फारसी में भी रचना

- हिन्दी पर ना ताना मोरो, सभी बतावैं हिन्दी मानो।
यह जो है कुरआन इटा का, हिन्दी करै बयान सदा का।
लोगों को जय खोल बतावैं, हिन्दी में कहकर समझावैं।
जिन लोगों में नव जो आय, उनकी बोली साँ बतवाय।
हिन्दी मेहदी ने फरमाई, खू डमर के मुह पर आई।
ऊँ टोहरे सापो बात, बोले खोल मुवारक जात।
मियों मुस्तफा ने भी कहीं और किसी की फिर क्या रहाँ।
नपल यह बेहटी ने फरमाई, भले जन को राह देखाई।
सारी बातों को जीव, तुनको भोजन हमको पीव।
काटा पहनै इका खाय, रावल देवल कभी न जाय।
इय घर आला याही रीति, पानी चाहैं और म्योति।

(ओरिएण्टल कालेज मैगज़ीन भाग १ नम्बर १९३८)

करते रहे किन्तु मातृभाषा में जिस स्वतंत्रता से विचार प्रदर्शन किया जा सकता है, सम्भवतः उस कुशलता से वे फारसी को न अपना सके और फिर एक नवीन दृष्टिकोण लेकर साहित्य के क्षेत्र में अवतरित हुये। उन्होंने अपनी अनुराग वाँसुरी भाषा में ही लिखी किन्तु अपने उद्देश्य को बहुत स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हुये। हिन्दी भाषा में रचना करने के कारण उनके मजहबी सिद्धान्तों के बारे में कोई भिन्न धारणा नहीं होनी चाहिये।

जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन भरम हमारा ।
हिन्दू भग पर पाव न राखेउं, का जो वहुतै हिन्दी भाखेउं ।
मन इसलाम मसलकै भाजेउं, दीन जेवरी करकस भाजेउं ।
जहाँ रसूल अल्लाह पियारा, उम्मत को मुक्तावन हारा ।
तहाँ दूसरो कैसे भावै, अच्छ अमुर मुर काज न आवै । (पृ० ८६)

नूरमुहम्मद ने अपने विचारों का स्पष्टीकरण तो कर दिया किन्तु सम्भवतः उन्हें उस समय की भाषा परिस्थिति का ध्यान न आया कि काफ़िरों के प्रेम की चर्चा ही कुफ़र न थी, प्रत्युत उनकी जवान में रचना करना हेय था एवं प्रत्येक को उर्दू-मुअल्ला को ही बढ़ावा देना था। नूरमुहम्मद के विचारानुसार भाषा के क्षेत्र में केवल फारसी और हिन्दी का ही सङ्घर्ष था और वे इस सङ्घर्ष के पीछे इस्लाम की प्रेरणा ही मुख्य समझते थे, वे कहते हैं कि :

कामयाव कहं कौन जगावा, फिर हिन्दी भाखै पर आवा ।
छांड़ि फारसी कन्द नवानै, अरुमाना हिन्दी रस वानै ।
आगे हिन्दी समुद्र निराना, भाषा इन्द्रावति जौ जाना ।
फेरि कहा नल दमन कहानी, कौन गनावै दूसर वानी । (पृ० ८५)

यहाँ 'कौन गनावै दूसर वानी' से क्या तात्पर्य है नहीं कहा जा सकता। नूरमुहम्मद की अरबी, फारसी रचनाओं के बारे में तो विदित है। सम्भवतः उन्होंने कुछ रचना ब्रजभाषा एवं रेख्ता में भी की है। श्री चन्द्रबली पाण्डेय जी के पास इनकी हस्तलिखित प्रति है जिसमें उन्होंने अनुराग वाँसुरी की भूमिका में एक ब्रजभाषा का उदाहरण भी दिया है :

वाछन के तरे भरै पानन करै छादि दीनै,
परे ररै हम मे वियोगी विश्रयै है ।
भये बलहीन पनि अन्न द्वै गये है मूफि,
भर परे लग्य त शरीर टुल पाये है ।
कामयाव उनको न जारिने अगिन छारि,
क्रीचिने न छार के नियोग ताप ताये है ।

आये हैं हराये काज मानुस पखेरू कोऊ,
छाह ताकि इनके समीप चलि आये हैं ।

दीन का प्रचार :

नूरमुहम्मद की अनुराग वासुरी पढने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरम्भिक कवियों की उदारता का इस समय अभाव था ।

नूरमुहम्मद ने हिन्दी का पद्य हिन्दी हित की दृष्टि से नहीं लिया । उन्हें दीन-प्रचार अभीष्ट था, और प्रचार का मुख्य साधन 'भाषा' ही थी, अत 'भाषा' या हिन्दी में उन्होंने अपने काव्य की रचना की और उन्में इसलाम का विधान भी खुलकर किया । उनकी इस धारणा का परिचय इन्द्रावती में भी मिलता है । सप्त इन्द्रावती, अपने उद्धार के लिए रक्षल एवं इस्लाम का आश्रय ग्रहण करती है ।—

हौं मैं पाप भरी जग माहीं, आस मुकुत है किछु नाहीं ।
है मोहि नीच दोष जहं ताई, डरौं करहि केमो जग साई ।
साहस देत परान हमारा, अहै रसूर निबाहन हारा ।
निस दिन सुमिर मुहम्मद नाऊँ, जासौं मिलै सरग मौं ठाऊँ ।

(इन्द्रावती) पृष्ठ ६५ ।

अनुराग वासुरी में तो यह प्रयास और भी स्पष्ट हुआ है, यद्यपि नूरमुहम्मद अपनी इस अनुराग वासुरी की चर्चा इस प्रकार करते हैं :—

यह सनेह की वातै नीको, है अनुराग वाँसुरी जी को ।
है पुनि सरव मंगला सोई, सर्व मगला रागिनि होई ।
कामयाव किछु और न भाखा, तन मन जीव भेद सब राखा ।
परगट राजा रानी बोला, वे गुप्तार्थ दुवारा खोला !
जा कर नैन गुपुत कर होई, महा अरथ मुख देखै सोई ।
तन मन जिय के भेद पियारे, पट मई भाखे भाखन हारे । पृष्ठ ८७ ।

लेकिन इसी के आगे सम्भवतः वे अपने गुप्तार्थ को इस प्रकार प्रकट करते हैं कि जो कोई इस वासुरी की ध्वनि को सुन लेता है, वह अचेत हो जाता है यहाँ तक कि मुरलीधर कृष्ण भी इसकी ध्वनि पर मोहित हो जाते हैं । यह इसलाम की बोली है, जिसे मूर्तियों का चित्त हरण हो जाता है और वे अँधी गिर जाती है । इसके सामने किसी प्रकार के पूजापाठ भी नहीं चलने । यह काफ़िरों को मुस्लिम बना देनी है, इसके मधुभरे मीठे शब्द मन्दिरों को गिरा देते हैं और शखनाद आदि पूजा विधियों को मिटा देते हैं, इन्हीं विचारों की प्रतीक ये पक्तियाँ हैं —

सुनते जो यह शब्द मनोहर, होत अचेत कृष्ण मुरलीधर ।
यह मुहम्मदी जन की बोली, जानों कह न वाते घोली ।

बहुत देवता को चित हूँ, वह मूर्ति यौंधी हूँ परै ।
बहुत देवहरा ढाहि गिरायै, संखवाद की रीति मिटावै । पृष्ठ ८८ ।

और साथ ही उनका कथन है कि गोपियों को विमोहित करने वाली वंशी अब इस संसार में नहीं है । इस वंशी की ध्वनि को सुनकर तो माधव रूपी जीव भी विमोहित हो जाता है :—

कृष्ण वासुरी मोही गोपी, अब वह वंशी गई अलोपी ।
यह वासुरी सबद सुनि मोहै, पंडित सिद्ध जगत में जोहै ।
कामयाव वांसुरी वजावै, माधव जीव सुनै नित पावै । पृष्ठ ९० ।

इस प्रकार नूरमुहम्मद ने अपनी धर्मकथा कहने के पूर्व ही परधर्म के अधिष्ठानियों को अपने प्रभावान्तरगत बताने का प्रयास किया है ।

नूरमुहम्मद ने इस्लामी भावनाओं को हिन्दू घर में फलने फूलने का स्वप्न देखा । सूफी 'बुत परस्ती' से दूर नहीं भागते, किन्तु नूरमुहम्मद की बुत परस्ती का आशय ही कुछ और है । वह संखवाद मिटाकर उसके स्थान पर चलनी फिरनी छाया को पुजाना चाहता है जिसमें वह परमसत्ता अपने स्वरूप का आभास दिखा रहा है । उनका साधक अन्तःकरण, न तो हिन्दू है और न मुसलमान । किंतु जिस उपासना में वह लीन है वह पूर्ण इस्लामी है । जिस देवहरा में बैठ कर वह पूजा करता है वह 'ध्यान देवहरा' है, वहाँ कोई मूर्ति नहीं केवल परममूर्ति का ध्यान है जिसके सम्मुख बड़े बड़े देवता भी ठिठ मुका देते हैं :

निस दिन तहाँ अमूरत पूजा, मूर्ति नाहीं देवता दूजा ।
जहाँ अमूरत पूजा करै, तहाँ देवता माया धरै ।
कहू परै रागी वैरागी, अन्यासी जोगी अनुरागी ।

जाइ देवहरा द्वारे, मीम नवाई ।
मुमिरै अलख अमूरत, ध्यान लगाई ॥ पृष्ठ ९३८ ।

केवल सिर मुकाफर अल्प अमूरत का ध्यान शिया सम्प्रदाय में मान्य इस्लामी मस्जिद पूजा है ।

इसी प्रकार सर्वभगता का वर्णन करने समय कवि ने उसे मुसलमान रमगी की भाँति ही लज्जाशील बताया है वह उत्रान में नहीं जाती एवं अपना चित्र गिन्तवाने समय वाया उपस्थित करती है जिनके इस्लामी समाज का दृश्य मधुसूत्र आता है । इसी प्रकार नूरमुहम्मद मंदिर में भीति चूमने की प्रथा का उल्लेख करते हैं जैसे :—

मंदिर दिस्टि परै जय लागा, सोवत प्रेन हिरद नें जगा ।
सुनिरि प्रियतमा मंदरतारै, उच मंदिर दिखि सीव नारा ।

ध्यान बीच भीतिन को लीन्हा, सब भीतिन को जोतै दीन्हा ।

मदिर भीतिन्ह चूवा, प्रेम समान ।

चूवा मदिर भीतर जेहि अस्थान ॥ पृष्ठ १३६ ।

इन पंक्तियों के पढ़ते ही काबा के 'सग असवद' को चूमने की प्रथा का दृश्य सम्मुख आ जाता है । इसी प्रकार नूरमुहम्मद ने कथाव्याज से अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहा है ।

औहि उत्तम के सुमिरे, सुमिरा जाउं ।

जग के पत्र रहै नित मेरौ नाऊं ॥

प्रेम-पद्धति :

अन्तःकरण की सरवमंगला के प्रति प्रेम-भावना, रूप-गुणश्रवण से जाग्रत होनी है । अन्तःकरण ने 'सरवन' ब्राह्मण की बहुमूल्य एवं सुन्दर मोती माला के सम्बंध में जिज्ञासा प्रदर्शित की । माला को देखते ही अन्तःकरण का मन कुछ और ही हो गया था :—

काहू टोना फूक पठायहु, याते देखत हिरदय आएउ ।

मन मेरो औरै होइ गएउ, जानहु प्रीति फाढ मंह भएऊ ॥ पृ० १०० ।

सरवमंगला के रूप गुण की चर्चा सुनते ही अन्तःकरण प्रेम बावला हो गया :—

मानहुं पढा कावरू टोना, भा बाउर वह कुंवर सलोना ।

मनु नरसिंही मन्त्र जगाया, पढा कुंवर पर चेत भुलाया ॥ पृ० १०१ ।

× × ×

सरवमंगला हिणं समानी, भूला अन्न पान औ पानी ॥

भूला तत्व विछाव रंगीला, भूला राग मोद नृत लीला ॥ पृ० ११० ।

सरवमंगला के हृदय में अज्ञात रूप से अन्तःकरण के प्रति प्रेम भावना का उदय स्वप्न में हुआ । अन्तःकरण गुरु सेवा के साथ जब ध्यान देवद्वारा में बैठकर एकाग्रचित्त से सरवमंगला का ध्यान करने लगा तब उसकी प्रेमभावना का प्रभाव सरवमंगला के ऊपर भी पड़ा । सरवमंगला ने स्वप्न में अपने ऊपर हठ पूर्वक एक भ्रमर को गूँजते हुये देखा, निवारण करने पर भी जो दूर नहीं हटता था । उस स्वप्न को देखते ही सरवमंगला चिंतित हो गई, एक मास पश्चात् फिर स्वप्न में उसने एक वैरागी को कृपादृष्टि एवं दर्शन की याचना करते हुये देखा । सरवमंगला का यह पूर्वराग, तोते से अन्तःकरण के सम्बंध में जानकर और पुष्ट हो गया । इसके पश्चात् क्रमशः चित्र दर्शन के द्वारा प्रेम दृढतर होना गया और कुंवर अन्तःकरण का परिचय पाकर दोनों का पाणिग्रहण हो गया ।

कथा-रूपक :

कवि नूरमुहम्मद ने 'इन्द्रावती' ग्रन्थ में कुछ पात्रों एवं स्थानों का नामकरण ऐसा किया था जो उनके उद्देश्य को स्पष्ट करना था किन्तु 'अनुराग वासुरी' में प्रत्येक पात्र एवं स्थान का नाम विशेष अर्थ व्यञ्जित करता है, श्री चन्द्रवली पाण्डे ने 'अनुराग वासुरी' को धर्मकथा माना है क्योंकि उनके विचार से उसमें काम का जो वर्णन किया गया है वह सूफी धर्म के नाते कुछ वासना के कारण नहीं। अन्य सूफी प्रेम कथाओं में काम शास्त्र का परिचय दिया गया है और लोक व्यवहार को व्योरे के साथ बताया गया है वहा 'अनुराग वासुरी' में यह सब कुछ नहीं है।

इसका प्रधान कारण यही है कि कवि की दृष्टि यहा लोक पर नहीं बरन् इसलाम पर ही है। जिसका अर्थ यह हुआ कि वास्तव में 'अनुराग वासुरी' शुद्ध धर्मकथा है अन्य कथा नहीं।

मूर्तिपुर नामक नगर और कुछ नहीं काया ही है जिसका स्वामी जीव है। जीव का एक मात्र आधार या प्रिय पुत्र अन्तःकरण है जिसकी दो प्रधान प्रवृत्तियां संकल्प एवं विकल्प उसके दो मित्र हैं इनके अतिरिक्त मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी उसके साथी हैं उसका सहज आकर्षण अविद्या माया या अपनी पत्नी महामोहिनी के प्रति है किन्तु अन्तःकरण के जीवन का लक्ष्य सनेहनगर के स्वामी दर्शनराय की पुत्री सरवमंगला की प्राप्ति है। दर्शनराय महाप्रभु (अल्लाह) या परमेश्वर स्वरूप हैं और उनकी पुत्री सरवमंगला प्रेमी सूफियों की रागिनी है। इस रागिनी का परिचय अन्तःकरण को श्रवण के द्वारा मिलता है। 'बूझ' ने कुंवर का भेद बताया किन्तु 'बुद्धि' ने अन्तःकरण को साहस एवं उत्साह दिलाया, अन्तःकरण स्नेहगुरु का शरणागत होकर उपदेशी सुवा की सहायता से अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँच सका। मार्ग में आने वाले विघ्नों में, कामुकी मनभावनी रूपसनेही, रंगसनेही एवं वाससनेही आदि हैं। ध्यान देवतरा में एकामचित्त होकर सरवमंगला का ध्यान करने से ही सिद्धि प्राप्त हो सकी।

इन सभी नामों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने अपनी धर्मकथा के स्पष्टीकरण के हेतु ही इन नामों को रखा है, सम्पूर्ण कथा एक रूपक है।

रस :

रस की दृष्टि से यदि देखा जाय तो 'अनुराग वासुरी' में अज्ञान रस का प्राधान्य है। इसके साथ ही शान्त एवं कर्ण रस का उल्लेख तो होता है किन्तु उनका पूर्ण परिचाय नहीं हो सका।

प्रकृति वर्णन :

नूर मुहम्मद ने उद्दीपन की दृष्टि से प्रकृति वर्णन भी किया है। एक स्थल पर वाटिका का वर्णन भी आता है किन्तु वह फुलवारी का वर्णन मात्र ही है, अधिक कुछ नहीं.—

मन मन भावन प्यारी प्यारी, प्यारी प्यारी मन फुलवारी ॥
मन फुलवारी चहुं दिस फूली, फूली, फुलवारी जेहि भूली ॥
भूली देखि उरबसी गौरी, गौरी भई प्रेम सों बौरी ॥ पृ० ६८ ।

उद्दीपन के रूप में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है किन्तु उसमें सौंदर्य न होकर चमत्कार अधिक है.—

फूला देख सुलच्छन लाला, बूझा भरा रक्त सो प्याला ।
कहा अरे लाला अनुरागी, श्रोणित तिय पीयसि केहि लागी ।
केहि सनेह के दगध अपारा, लाछन तोहि हिरदय में डारा ।
चंपा पील रंग लखि वेही, कहै पीत किन कीन्हा तोही । पृ० १२२ ।

कहीं कहीं अप्रस्तुत विधान में प्रकृति के उपकरणों का प्रयोग हुआ है जैसे .

सुनिकै सुआ वचन वह रानी, कली समा मुद सो बिगसानी ।
देह सुमन सी पुलकित भयऊ, वचन सकेत अंग होइ गयऊ । पृ० १५२ ।

हर्ष एवं उदकुलता की पूर्ण अभिव्यक्ति कली के सदृश खिलने में हो जाती है। सुमन शब्द का प्रयोग भी सार्थक है ।

इसके अतिरिक्त अनुराग वासुरी में कई स्थल ऐसे हैं जो केवल कवि की बहुजता का परिचय देते हैं जैसे नायिकाओं एवं विरह की कुछ स्थितियों की चर्चा है।

परा कुंवर उद्वेग मभारा, भा मन मनहुँ आग पर पारा ।

उन्माद और जड़ता, औ परलाप ।
पल पल आह दिखावै, ताको दाप । पृ० १४४ ।

इसी प्रकार नायिका भेद में स्वाधीनपतिका, रूपगर्विता और प्रेमगर्विता की चर्चा है :—

रूपगव राखै धन जोई, जानहु रूपगर्विता सोई ॥

तथा

प्रिय के प्रेम गर्व जो राखै, कवि तेहि प्रेमगर्विता भाखै ॥” । पृ० ६३ ।


इसा प्रकार एक स्थल पर कवि ने स्वप्न, तथा मनोविज्ञान को स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

स्वाप आप नहि राखत काया, है वहजाग लोक की छाया।

स्वाप नगर मो है परिछाहीं, काया मूल तहा है नाहीं ॥ पृ० १४३ ॥

यद्यपि 'अनुराग वाँसुरी' में कवि का ध्यान 'लोकतत्व' की ओर अधिक नहीं है फिर भामाता पिता की सेवा, गुरु धर्म, लज्जा एवं सौन्दर्य नारी की गृह सीमा, ससंगति, विदेश गमन, भाग्य वाटिका आदि विषयों पर कवि ने अपने विचार प्रकट किये हैं।^१

अपनी इन विशेषताओं के साथ 'अनुराग वाँसुरी' प्रमुखतः एक वर्म कथा है।



१ कहा सनेह गुरु वैरागी, तीरथ कारन भा अनुरागी ॥
गुरु का धरम दान धत चरना, धरम तीरथ को करना ॥ पृ० ५४ ॥

जेहि मग पुरुष लोग चलि हारे, तेहि मग वाम न गवनें पारे।
प्रीतम पंथ को धूरि कपूरु, जिव द्यम अंजन है वह घूरु ॥
ओहि रज आदर नित है रामा, चाहै सीम चरन का ठामा ॥
डारा लजवन्ती जो होई, रहे सलज मन्दिर मो सोई ॥ पृ० १२५ ॥

संग भले का सुख उपजावै, लाभ अनेक हाय मो आवै।
संघत को है बडेँ सुभाऊ, अभैल अभल भलै भल चाऊ ॥ पृ० ११६ ॥

जनम भूमि मो जत्र लगि कोई, तत्र लगि गुनी विदग्ध न होई।
सुमन तोहि जव नाइर आवै, उन्नति ठैर पाग तव पावै ॥ पृ० १०७ ॥
लिखा जो है करना को सोई हो, जनमपत्र का आखर जात न धोई ॥ पृ० १२२ ॥

सुन्दर मुख की आखिन चाही लाज।

लाज बिना सुन्दरता कोने काज ॥

प्रकृति वर्णन :

नूर मुहम्मद ने उद्दीपन की दृष्टि से प्रकृति वर्णन भी किया है। एक स्थल पर वाटिका का वर्णन भी आता है किन्तु वह फुलवारी का वर्णन मात्र ही है, अधिक कुछ नहीं :—

सब मन भावन प्यारी प्यारी, प्यारी प्यारी मन फुलवारी ॥
मन फुलवारी चहुँ दिस फूली, फूली, फुलवारी जेहि भूली ॥
भूली देखि उरबसी गौरी, गौरी भई प्रेम सौ वौरी ॥ पृ० ६८ ।

उद्दीपन के रूप में कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है किन्तु उसमें सौंदर्य न होकर चमत्कार अधिक है :—

फूला देख सुलच्छन लाला, बूझा भरा रक्त सो प्याला ।
कहा अरे लाला अनुरागी, श्रोनित तिय पीयसि केहि लागी ।
केहि सनेह के दगध अपारा, लाछन तोहि हिरदय में डारा ।
चंपा पीत रंग लखि वेही, कहै पीत किन कीन्हा तोही । पृ० १२२ ।

कहीं कहीं अप्रस्तुत विधान में प्रकृति के उपकरणों का प्रयोग हुआ है जैसे :

सुनिकै सुआ वचन वह रानी, कली समा मुद सो विगसानी ।
देह सुमन सी पुलकित भयऊ, बचन सकेत अंग होइ गयऊ । पृ० १५२ ।

हर्ष एवं उत्फुल्लता की पूर्ण अभिव्यक्ति कली के सदृश खिलने में हो जाती है। सुमन शब्द का प्रयोग भी सार्थक है।

इसके अतिरिक्त अनुराग वासुरी में कई स्थल ऐसे हैं जो केवल कवि की बहुजता का परिचय देते हैं जैसे नायिकाओं एवं विरह की कुछ स्थितियों की चर्चा है।

परा कुवर उद्वेग मभारार, भा मन मनहुँ आग पर पारा ।

उन्माद और जड़ता, औ परलाप ।
पल पल आह दिखावै, ताको दाप । पृ० १४४ ।

इसी प्रकार नायिका भेद में स्वाधीनपतिका, रूपपार्विता और प्रेमगर्विता की चर्चा है —

रूपगव राखै धन जोइ, जानहु रूपगर्विता सोई ॥

तथा

प्रिय के प्रेम गर्व जो राखै, कवि तेहि प्रेमगर्विता भाखै ॥” । पृ० ६३ ।


इसी प्रकार एक स्थल पर कवि ने स्वप्न, तथा मनोविज्ञान को स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

स्वाप थाप नहि राखत काया, है वहजाग लोक की छाया।

स्वाप नगर मो है परिल्लाहीं, काया मूल तदा है नार्हीं ॥ पृ० १४३।

यद्यपि 'अनुराग वाँसुरी' में कवि का ध्यान 'लोकतत्त्व' की ओर अधिक नहीं है फिर भी माता पिता की सेवा, गुरु धर्म, लज्जा एवं सौन्दर्य नारी की यह सीमा, ससंगति, विदेश गमन, भाग्य वादिता आदि विषयों पर कवि ने अपने विचार प्रकट किये हैं।^१

अपनी इन विशेषताओं के साथ 'अनुराग वासुरी' प्रमुखतः एक धर्म कथा है।



१. कहा सनेह गुरु वेंरानी, तीरथ कारन भा अनुरानी ॥
गुरु का धरम दान धत चरना, धरम तरथ को करना ॥ पृ० १४ ।

जेहि मग पुरुष लोग चलि हारे, तेहि मग ब्राम न गवने पारे।
प्रीतम पंथ को धूरि कपूरु, जिव दग अंजन है वह धूरु ॥
ओहि रज आदर नित है रामा, चाहै सीस चरन का ठामे ॥
ठारा लजवन्ती जो होई, रहे सलज मन्दिर मो सोई ॥ पृ० १२५ ।

संग भले का सुख उपजावै, लाभ अनेक हाथ मो आवै।
सघत को है बड़ौ सुभाऊ, अभैल अभल भलै भल चाऊ ॥ पृ० ११६ ।

जनम भूमि मो जय लगि कोई, तव लगि गुनी विदग्ध न होई।
सुमन तोहि जय नाइर आवै, उन्नति ठैर पाग तव पावै ॥ पृ० १०५ ।
लिखा जो है कर्ता को सोई ही, जनमपत्र का आखर जात न धोई ॥ पृ० १५२ ।

सुन्दर मुख की अखिन चाहीं लाज।

लाज बिना सुन्दरता कोने काज ॥

पुहुपावती

(कवि हुसेनअली कृत)

पुहुपावती ग्रन्थ के रचयिता का नाम हुसेनअली है। ग्रन्थ में उमने अपना उपनाम सदानन्द रक्खा है। कवि अपना निवासस्थान 'हरिगोव' बताता है। कन्नौज, निवासी केशवलाल कवि के काव्य गुरु थे।

कवि स्वभाव से अत्यंत विनम्र है तथा अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा चाहता है।

कथा का रचनाकाल सम्भवतः हि० सन् ११३८ है। ग्रंथ पुहुपावती से कवि के जीवन से सम्बन्धित इतना ही ज्ञात होता है।^१

कथा सारांश :

लालसाहि का पुत्र मानिक चंद काशीपुर का राजा था, वह शासन एवं न्याय में लालसाहि से भी योग्य प्रमाणित हुआ। उसके शासनकाल में काशीपुर सिंहाल के समान ही वैभवपूर्ण हो गया। एक बार विजय दशहरा के दिन राजा अपनी राजसभा में बैठा हुआ अन्य राजाओं से भेंट ले रहा था तथा गुणज्ञ विद्वानों को दान दे रहा था तभी राजा ने पद्मिनी स्त्रियों की चर्चा चलाई। वर्तालाप के मध्य रत्नसेन एवं पद्मावती की प्रेम-चर्चा भी आई, सभी को पद्मिनी स्त्रियों की स्थिति में शंका हुई तभी एक विप्र राजदरवार में आया और उसने यह बताया कि जम्बूद्वीप में पद्मिनी स्त्रियां नहीं होती उनका उत्पत्ति स्थान केवल सिंहालद्वीप में है। विप्र की इस वार्ता को सुनकर एक भाटिन ने राजाज्ञ लेकर कहना आरम्भ किया कि यद्यपि अभी तक सिंहालद्वीप में ही पद्मिनी

१. हुसेन अली कवि से यह जाती, करी कथा बिनवें बहु भाती ॥
वासक ठाँव कहाँ हरि नाऊं धरौ, सदानन्द कवि निजु नाऊं ॥
केशवलाल कैना के वासी काविचेद ट बुद्धि प्रकासी ॥
दिन पर भारी मोट उठाई, बिनवों गुनी सकल सिर नाई ॥
दे तनु टेक सुमोट सभारौ, निज बल बुधि यह कथा विचारौ ॥
चूक परे तंह दोष न लावहु, करि कृपा तुम और बुझावहु ॥
चूक संभारत है बड़ गुनी, गर्वी केरि राम मति हनी ॥
हों अज्ञान कछु कहै न जन्यो, पर चोरी यह कथा वखायो ॥
ग्यारह से अरतिस सनी, पुहुपावती कथा तव भनी ॥

भारियों की उत्पत्ति सुनी जाती थी किन्तु मैंने जम्मूद्वीप में रूप-नगर के नरेश पद्मसेन एवं रानी कौशिल्या की पुत्री पुहुपावती को देखा है जो ऐसी ही पद्मिनी है। भाटिन ने पुहुपावती के सौन्दर्य का वर्णन किया जिसे सुनकर राजा पुहुपावती के वारे में अधिक वृत्तान्त जानने को उत्सुक हो गया। उसने भाटिन से स्पष्ट पूछा कि पुहुपावती विवाहित है या अविवाहित क्योंकि यदि वह अविवाहित है तो राजा उससे विवाह करने का इच्छुक था। भाटिन ने पुहुपावती को अविवाहित बताया।

इसके बाद कुछ पृष्ठ अनुपलब्ध हैं फिर कथा आरम्भ होती है कि एक चित्र वेचने वाली पुहुपावती के पास चित्र वेचने आई। अनुमान होता है कि मानिकचंद ने अपनी दूती द्वारा ही चित्र बनाकर पुहुपावती के पास भेजा होगा। पुहुपावती मानिकचंद का चित्र देखकर मुग्ध हो गई और उसने भाटिन को अच्छी चित्रकार समझ कर अपने पास रख लिया। मानिकचंद के चित्र को देख देखकर पुहुपावती काम पीड़ित हो गई। एक दिन तीज को सूरज कुण्ड में स्नान करने गई और वहीं श्री चतुर्भुज जी के मन्दिर में जाकर चित्र के समान ही सुंदर वर पाने की अभिलाषा प्रकट की। मंदिर से लौट कर रात्रि में फिर ऐसी ही इच्छा करके वह सो गई और स्वप्न में उसने मानिकचंद को देखा जिसने बताया कि वह भी पुहुपावती के प्रेम में उसी प्रकार बुखी है जिस प्रकार पुहुपावती उसके वियोग में। एकाएक नींद उचट जाने से पुहुपावती अत्यंत विकल हो गई और उसने चित्र बनाने वाली (भाटिन) को बुलाकर पूछा कि यदि वह अपने बनाये हुये चित्र का आधार नहीं बता पायेगी तो वह सफल चित्रकार नहीं मानी जायगी तथा यह समझा जायगा कि उसने या तो इन चित्रों की चोरी की है या किसी दूसरे से बनवाये हैं। चित्र बनाने वाली ने अपनी निरदोषता प्रकट की। इसके बाद फिर प्रति खण्डित है और जहाँ से आरम्भ होती है वहाँ अति वियोग के बाद पुहुपावती को मानिकचंद की प्राप्ति हो जाती है और कुछ दिनों के बाद अपने मित्र एवं मंत्री कामसेन के परामर्श से मानिकचंद ने पुहुपावती को विदा का प्रस्ताव रक्खा। पुहुपावती ने श्री चतुर्भुज का पूजन कर अपना वचन निभाया और मानिकचंद उसको विदा कराकर स्वदेश पहुँचा। कालान्तर में उसके देवीनाथ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यहीं प्रति समाप्त हो जाती है, प्रति खण्डित है।

कथासंगठन :

यह कथा शुद्ध प्रेमाख्यान है, अन्य सूफी प्रेमाख्यानों की भाँति इसमें विरोधी तत्व नहीं हैं। नायक एवं नायिका के मिलने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। कथा के आरम्भिक पृष्ठ नहीं हैं, अतएव निर्गुण परमात्मा, मुहम्मद, चारमीत एवं शाहवेक्त की प्रशंसा प्राप्त नहीं होती। ग्रंथ की प्रति अपूर्ण है अतः कथा के अंत के सम्बन्ध में भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता किंतु प्राप्त प्रतिलिपिसुखात ही है। यह कथा भी 'यूसुफ जुलेखा' की भाँति शुद्ध प्रेमाख्यान पद्धति में आती है।

दुखहरन दास कृत 'पुहुपावती' की कथावस्तु से प्राप्त कथा पुहुपावती की कथा सर्वथा

भिन्न है। दुखहरन की कथा में राजपुर के परजापति के पुत्र और अनूपगढ के राजा अम्बरसेन की पुत्री पुहुपावती की प्रेमकथा का वर्णन है जिसमें विरोधी तत्वों का प्राचुर्य है।

प्रेमपद्धति :

प्रेम का आरम्भ कवि ने गुण श्रवण के द्वारा कराया है। भाटिन के द्वारा पुहुपावती का प्रेमारम्भ चित्रदर्शन से होता है। मानिकचन्द के चित्र को देखकर वह विमुग्ध हो जाती है।

मानिकचन्द के प्रेम का विकास ग्रंथ में उपलब्ध नहीं होता है। उसके चित्र को देखकर पुहुपावती की क्या मनोदशा हुई इसका वर्णन भी ग्रन्थ में अधिक नहीं है किंतु सुन्दर चित्र को देख कर वह आश्चर्यचकित रह गई और उसने सोचा कि जिसका चित्र ही इतना सुन्दर है वह स्वयं कितना सुन्दर होगा।

हुँ कस होहि सुंदर सोई, अस रूपवंत जाहि बस होई।

उसके चित्र को देख देख कर पुहुपावती में काम जाग्रत हुआ :

लखि लखि चित्र काम तन जागा, हँ मनु विवस चित्र रंग रागा।
लगयो अनुद मद सुधि न रही, छकि छकि चित्र सुआसव वही ॥

बढी पीर तन लागे बाना, मरह मलाजन तहाँ वसाना।
सामग्री सो चित्रहि पाई, भा उदीप काम तन आई ॥
अंक भरै सो चित्रहि वाला, चुम्बन करै काम तन पाला।
अब लौं के निसु दिनु तहि सोई, कै परिरम्भ नींद निजु खोई ॥

इस प्रकार पुहुपावती की कामोत्तेजना का वर्णन ही इन काम चेट्टाओं में अधिक मिलता है।

रस :

ग्रंथ में केवल शृ गार रस उपलब्ध होता है, इसके दोनों पक्षों संयोग और वियोग का रुढिगत वर्णन है, उसमें मन रमाने की शक्ति कम है। कवि ने वियोग वर्णन एवं संयोग वर्णन नाम देकर इन दोनों का वर्णन पृथक पृथक किया है किंतु कहीं भी सहृदयता का परिचय वह नहीं दे पाता है। विरह की दशाओं, अवस्थाओं एवं स्मितियों का कहीं निर्देश नहीं है केवल विरह में प्रेमियों पर क्या वीतती है इसका वर्णन मात्र है।

वियोग :

यद्यपि पुहुप समथ सुठि सोई, तदपि न मनुना मधुपद कोई ।
जद्यपि आपु चहै मन भरा, कैसे भरे नेहु अधिकारा ॥
जद्यपि मधुप पुहुप महँ वसै, पै न अधाइ वहै रस रसै ।
चित सीस मरि धर्यो ठंढाई, सहव सो आगि कहाँ सिथराई ॥

संयोग :

संयोग वर्णन अश्लील नहीं है किन्तु उसमें आनन्द-संचार की क्षमता भी नहीं है केवल काव्य चमत्कार है, अनुप्रास की छटा है :

विरह विदग्ध जो परे फफोला, हूँ उस लसै अंगूर अमोला ।
तेइ गजक जनु करहि बनाई, सीत सजोग ज दये नसाई ॥
छुकि मदमाह भये सतगारे, गये उधरि घट लाज के वारे ।
हँसि हँसि हैरत मट मतमाते, बलकि बलकि मुख निकसहि वातै ।
बोलत बचन ललक लिपटाहीं, मातै नैनन फिरहिं फिराहीं ॥
निपटि लजीली नषल सुरवाला, हँसि हँसि मुकै हिए मदपाला ॥
छाके मद छवि परै न छाकू, अस मद पियो न हरै विपाकू ॥

एक स्थल पर कवि ने मिलन में फन' की झलक भी दिखाई है :

बहु वरि वस वहि वस भई, मै मिलि एक दोत मिटि गई ।
रीझ रिभावन हार रिझ रीझ भये जो एक ॥
को रीझै रिझवावइ जह मिलि मिट्यो विवेक ॥

अलंकार :

पुहुपावती में कवि ने साधारण अलंकार, उपमा, रूपक अनुप्रास एवं अनन्वय का ही प्रयोग किया है ।

भाषा :

पुहुपावती की भाषा पर ब्रजभाषा का प्रचुर प्रभाव है । मूलतः भाषा अवधी है किन्तु ब्रजभाषा का प्रयोग भी अधिक है । भाषा सरल एवं बोधगम्य है:—

पुहुपावति यह दशा जु देखी, लखि लखि चित्र मे मया विसेषी ।
को अस अहै जगन निरदई, जाहि वत चित्र दशा य लई ॥
दहुँ कस होहि सुन्दर सोई, अस रूपवन्त जाहि वस होई ॥

जाहि तन जाको चितु वसै, वहै सु होत जनाई ।
सदानन्द नेहनि के मिलन न आन उपाइ ॥

लखि लखि चित्र काम तन जागा, हूवै मनु विवरा चित्र रंग रंगना ॥
चित्रहि कहा सु होई संजोगू, मिलै न भिन्न मन होई वियोगू ॥
गहि कर धनुष सो पाचौ वाना, तिय तन कठिन जानि उन ताना ॥
प्रथमहि वान सु मोह चलावा, अस लाग्यो मन घाउ जनावा ॥

ग्रन्थ :

इस ग्रन्थ की रचना भी चौपाई दोहे के क्रम में हुई है। नौ अर्द्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम है।

वस्तु-वर्णन :

कथा के इतिवृत्त के मध्य कवि ने जिन वस्तुओं का वर्णन कुछ विस्तार से किया है वे निम्नांकित हैं।

काशीपुर नगर वर्णन :

कवि ने हाथियों घोड़ों के अतिरिक्त उपवन के फल फूलों के नाम भी गिनाये हैं। नाम गिनाने के अतिरिक्त इसमें कोई काव्य-सौंदर्य नहीं है।

काशीपुर संघन सभ जानहु, एक एक बहु रूप बखानहु ॥
वरनों का धनि देश सुवेसा, निजु निज घर सब सवै नरेशा ॥
सहस सहस हाथिन की पाती, एक एक बार भुमहि दिनराती ॥
क'ग तुरंगिन पाति गनावो, कह सौं तिन्ह की जाति सुनावो ॥
ताजी तुरकी टाघन कोही, और भुजन संपाती सोही ॥

एक दिसि अरबी देखिये, औ न इराकी घोड़ ।
दरिआई दरिआउ के और गने को घोर ॥

इसी प्रकार फल फूलों की चर्चा करते समय कवि उनकी गणना करना आरम्भ कर देता है।

नीचू पाकि जरद हूवै रहे, मीठे खट्टे जो जो कहे ॥
सेव अनार फरे चहुं पाती, किसमिस दाख लगी बहुभाती ॥
ओ वदाम सुगारी गीरी, औ अमरुड अन्नव जंभीरी ॥
कर अजीर दारिउ विहराई, जनु दध सुत सीप देखराई ॥

श्रंत में थक कर कवि स्वयं कहता है :—

और गने को फूल अब वरनो कितो समाज ।
सब खग कूजित कल वचन सबै जहां ऋतुराज ॥

रूपनगर-वर्णन :

रूप नगर का वर्णन करते समय भी कवि ने अपनी इसी वर्णनात्मक प्रवृत्ति का परिचय दिया है किंतु वहा वृक्ष फल एवं फूलों के नाम गिनाने में वह एक रहस्य का उद्घाटन करता है, जैसे :—

आव कहै हम गै वौरई, ऊंचे सीस नीच देखराई ॥
बड़हर बड़हरि सदा पुकारहि, बड़फल पाइ सीस भइ डररिहि ॥
महुआ टप टप डारे आसू, तजि हम हरि लीन्हा वनवासू ॥
अमिली कहै अमिल हम रहे, अंविता कुटिल फल याते लहे ॥
कहे सुनोवर सुनु वर साई, वंदत कवि नित शीस नवाई ॥

पीपर कहै सुनाई कै, पीपर सब ते जान ॥
सर्वमई एकै वही, भ्रम सु जग परमान ॥

रनिवास-वर्णन

रनिवास का वर्णन करते समय कवि ने पहले तो महल के सौंदर्य की चर्चा की है, फिर रानियों के सौंदर्य का वर्णन है ।—

महाराज देखयो रनिवास, का वरनों जानों कविलासू ॥
कनक खाभ लागे चहु ओरा, औ मनि लाल जनी तहि कोरा ॥
जगमग जगमग निस दिन होई, सूरज चाद जोत उन सोई ॥
अनु को देखैं वे सब नारी, सो देखैं जेहि दई उतारी ॥
रानी कोसिल जनमी वारी, जगमग जोति जगत उजियारी ॥

पुहुपावती के सौंदर्य यां नखशिख का वर्णन विस्तार से नहीं किया गया है :—

कोकपाट दस मासई, कंस कल कवि लोई ॥
चारि चारि दस होहि पुनि नारी सुन्दर सोई ॥

छोटे बड़े गोल औ स्यामा, लवि सेत ऊंच तन वामा ॥
पतरे और ऋन सकेता, सो सब चारि चारि कहि देना ॥

इसी के मध्य कवि पुहुपावती के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन भी करता है :—

सोहैं दीठि न हूवै सकै जात चौंधि तन देखि ।
बिज्जु छटा घन तजि मनो, धरि दुति आइ विसेषि ॥

वह इतनी सौंदर्यवती है कि उसके लिए बहुत से राजाओं ने योग धारण कर लिया है .—

महाराज वह ऐसी नारी । जेहि कारन बहु भये भिखारी ॥

जलक्रीड़ा :

जलक्रीड़ा का वर्णन करते समय कवि मातृगृह की स्वच्छन्दता, पुहुपावती सौंदर्य एवं उसके परमात्मस्वरूप का परिचय देता है :

मातृगृह की स्वच्छन्दता :

खेलहु कुदहु अजुहि प्यारी , पुनि कहँ खेद कहाँ तुम कारी ।
यह मन जानि कहो तुम पेही, कीजै हुलस सवै मिलि एही ।

आजु अहै मिसु परम को खेलि कूद सव लेहु ।
पुनि होइहि रखवारि अस बाहेर पाइ न देहु ॥

मायके की स्वतंत्रता का ससुराल में अपहरण हो जाता है, घर की चहारदीवारी में कन्या को सीमित होकर रहना पड़ता है । कवि यहीं पर झूमक मनोरा एवं धमारी का भी उल्लेख करता है ।

सौन्दर्य-वर्णन :

अपनी सखियों के साथ जाती हुई पुहुपावती ऐसी श्रात हो रही है कि मानो तारों के मध्य चन्द्रमा शोभित हो रहा हो :

स्याम सुकेश रैनि हूँ गई, ससि तिनमौहिं तराइन भई ।
वांचदि उदै कियो सो ससी, हूँ सो स्वरग पुहुमि यों लसी ।
जो कोइ धाइ पैग दस जाई, टूटै तारा तैसि जखाई ॥
सामा भइ सुगगन मलीनी, असि अबला पुहुमहि दुति दीनी ।
कौतुक कियो ऐस उन नारी, भूमि अकास सु सवनि विचारी ।

कहीं कहीं कवि ने पुहुपावती के परम सौंदर्य का परिचय भी दिया है । नालाव में पड़नेवाली सूर्य की परिछाहीं को सकेत करके कवि कल्पना करता है कि मानो पुहुपावती

है प्रतिविम्ब न नीर मँह, हम जनों यह मूर ।
पुहुपावति पर हित धरै लखत नीच हँ सूर ॥

पुहुपावती के अनुपम सौंदर्य के दर्शनार्थ देव, यच्छ, गन्धर्व, इन्द्र सभी भूतल पर आये । पुहुपावती के सौन्दर्य के सम्मुख सभी सुन्दर वस्तुएँ कातिहीन हो गईं ।

देखे मन निजु रखा न हाथा, इंद्रहु आइ भयो तहि साथा ।
हरी रमि हँ लखिन निकाई, रही न दुति किनरी जा आइ ।
असुरी सुरी सब मैं हीनी, उडगन ससिहु जोति तजि दीनी ।
भइ रती दुति रती जो देखी, क्रीड़ा मोद करै सु विसेषी ।
हरयोसुमन तिन्ह जंगत को रहो जियत नहिं कोइ ।
किये कामना आप ही भंडप, पूजा सोइ ॥

उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुये कवि कहता है कि पुहुपावती के रूप प्रकाश से रात्रि में भी दिन हो गया :

दिनु उन कियो निसा ज्यो आई, करी निसाविन धर मग आई ।
अपनो सोक कुसुद मन आई, औ रच कौरनि भई विदाई ।
हुलसहिं हंस ध्यान धरि आवहिं, विहसहिं कोक भीत सब पावहीं ।
विगसे कमल जानि मन सूरु, भयो बटोहिन दुखखु समूरु ।
छपि गो चन्द उदै जो कीन्हा, मिटी तराई सूर जो चीन्हा ।
सोरह करे चन्द दुति कहहीं, ये अनन्त दुति सूर सो लहहीं ।
दिन बाधौ रथ रवि अली, रैनि छिपायो चन्द ।
अब मग पग नहिं दीजिये, होत जगत दुख दंद ॥

पुहुपावती-विदा-वर्णन :

पुहुपावती की विदा का वर्णन कवि ने बहुत विस्तृत किया है । एक ओर तो विदा से तात्पर्य कवि ने परलोकगमन का लिया है, दूसरी ओर मानिकचंद्र की सराहना करते हुये एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया है ।

इस संसार में जन्म लेने वाली प्रत्येक वस्तु नश्वर है सभी को एक दिन यहाँ से चलना है :

अन्त जो है चलना यही सब आए लै चाल ।
विधि दरसन भूपति दियो कियो यही प्रतिपाल ॥

यह काया भूलों का भंडार है, इसका केवल एक उपयोग है कि उस परमात्मा का ध्यान किया जाय :

विधि अज्ञा एही विधि हारी, करी जो काया चूकहि भारी ।
पै यह जानि मनहि न आनिय, अन्त वहै वाही किन जानिय ।
फूठै काया हम निजु जानी, फूठै आपा आपु वखानी ।

अहै न काया आपनी औ नहि आपा कोई ।
एकै रूप लाखौ जहाँ, तजौ मरम जग खोई ॥

इस ससार में केवल एक का ध्यान ही श्रेय है, वही सर्वत्र व्याप्त है, सबका संरक्षक है ।

एकहिं छोड़ि न जानिय। दूजा, कहाँ एकु जहँ पूजा ।
एक सबै विधाता भाषा, तुम का जानि दूज मन राखा ।
एकै राखहु मन विखें करि दूजा प्रतिकूल ।
दूजा कहाँ जो देखियत है एकौ सो मूल ॥

पुहुषावती का पिता पद्मसेन मानिकचंद्र की प्रशंसा करता हुआ कहता है कि इस ससार में तुम्हारे अतिरिक्त और कोई मुझे प्रिय नहीं है तथा तुम्हीं इस ससार में अनेक रूपों से व्याप्त हो :

मम मन दोसर न वसे, जव जाना तुम एक ।
सबै तुम्हारा रूप जग मोही बहुत अनेक ॥

दुखहरन दास कृत पुष्पावती की रचना मसनवी पद्धति पर हुई है, यत्र तत्र सिद्धांत कथन भी विखरे पड़े हैं किन्तु कवि स्वयं प्रेम की तीव्रता, निस्पृहता एवं भावुकता के वर्णन में अधिक सजग है ।

यूसुफ जुलेखा

(कवि शेख निसार कृत)

फारसी लिपि में लिखी हुई 'यूसुफ जुलेखा' की एक हस्तलिखित प्रति प्रयागस्थ 'हिन्दुस्तानी एकेडेमी' में है। उसी के आधार पर सम्भवतः सत्यजीवन वर्मा जी ने शेख निसार और उनकी यूसुफ जुलेखा का परिचय काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका में दिया था। शेखनिसार का थोड़ा सा परिचय तथा 'यूसुफ जुलेखा' के कुछ अंश 'हिन्दी कवि और काव्य' में भी निकले किंतु उसमें दिया परिचय अधिकांश भ्रमपूर्ण है। इस सम्बन्ध में श्री गोपालचन्द्र सिनहा ने अपनी खोज के द्वारा कई सत्यों का उद्घाटन किया है। आप को फैजावाद में श्री अताउल्ला खा के पास यूसुफ जुलेखा की एक प्रति फारसी लिपि में प्राप्त हो गई। इन तीनों प्रतियों की पुष्पिकायें इस प्रकार हैं :

१. पोथी जुलेखा हिंदी २६ रमजानुल्सुवारक सन् १२४४ हिजरी में मवैया गाव में जो इलाका पच्छुमराठ में है बदर्वाजे लाला ब्रजलाल लिखी गई। लेखक नूर अली वल्द मोहम्मद सहन 'जमीदार' साकिन शेखपुर जाफर इलाका नौराही 'अमला परगना मंगलसी' सर्कार सूबा अवध शासनकाल नवाब मुशिद नसीरुद्दीन बहादुर।

२. करमखा वल्द फहेमखाँ, साकिन मौजा जगनपुर ने जो अपने हाथों से सव्वाल सन् १२२६ हिजरी में लिखी थी उससे शेख रहमतुल्ला वल्द गौहर अली साकिन मौजा खेतासराय चारावंकी ने १५ रजबुलरजव सन् १३१६ हिजरी मुताबिक २८ अषत्वर सन् १६०१ ई० में नकल की।

३. यकुम जिला हिज सन् १३१६ हिजरी में मोहम्मद हामिद अली वल्द शेख रमजान अली साकिन व जमीदार दरहवा जिला चारावंकी ने तहरीर किया।

इन तीनों प्रतियों में भी पाठ भेद थे। गोपाल चन्द्र जी ने हिन्दुस्तानी एकेडेमी की प्रति का पाठ निर्धारण करके उसकी नागरी प्रतिलिपि करा कर यह महत्वपूर्ण कार्य फैजावाद के नार्मलस्कूल के अध्यापक श्री भवानी भीख सिंह जी से करवाया है।

श्री गणेशप्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित 'हिन्दी कवि और काव्य' में 'यूसुफ जुलेखा' के कुछ अंश बहुत ही भ्रमपूर्ण हैं। निसार की पंक्तियाँ

'ना वह मरे न मिटै न होई; अपर मरम न जानै कोई।

जाअत सपन सुषुप्ति जो साजा, पुनि तुरिया मंह आय विराजा।'

को द्विवेदी जी ने

‘ना वह मरे न मिटे न होई, अपरम मरम ना जाने कोई ।
जाकी रति में सुख नित साजा, तन तिरिया मंह आय विराजा ।

लिखा है । इसी प्रकार एक स्थल पर कवि स्वरचित ग्रन्थों का परिचय देते हुये लिखना है :

मेहरनिगार कि कहेउ कहानी, रस मनोज रसकवित्त वखानी ।

इसी को द्विवेदो जी लिखते हैं ।

हीर निकार के गेहूँ खाने, रस मनोज, रस गीत वखाने ।

कवि-परिचय :

निवासस्थान एवं वंश परिचय :

शेख निसार अपने निवासस्थान एवं वंश का परिचय देते हुये लिखते हैं .

शेखपूर अति गाव सुहावा, शेख निसार जनम तंह पावा ।
चारिउ ओर सधन अवंराई, अगम अथाह चहूँ दिसि खाई ।
शेख हवीबुल्लाह सोहाये, शेख पूर जिन्ह आय ब तये ।
पातसाह अकवर सुलताना, तेहिः राजकर करत वखाना ।
अवध देस सूवा होइ आये, वीस वरस तंह सोहाये ।
तेहि के शेख मोहम्मद वारा, रूपवन्त भोगी औतारा ।
तासुत गुलाम मोहम्मद नाऊं, सो मम पिता औ नाकर गाऊ ।
नेहि घर हों विधनँ औतारा, चार दीप जस चौमुख वारा ।

शेखपुर गाव का नाम इतना सुलभ और साधारण है कि उत्तरी भारत के प्रायः प्रत्येक जिले में इस नाम के दो या और भी अधिक गाव मिल जाना कठिन नहीं । किन्तु अपने निवासस्थान ‘शेखपुर’ के सम्बन्ध में कवि निसार ने कुछ विशेषताओं का भी उल्लेख किया है । गाव के चतुर्दिक आम के वाग हैं । चारों ओर अगम अगाध खाई विद्यमान है । इसके अतिरिक्त कवि निसार ने एक सधन शीतल छाया वाले इमली के वृक्ष की भी चर्चा की है

अंविली विरिछ न जाय वखाना, द्वारे पर जस तवुंआ ताना ।
ताकी छाह जो बैठे कोई, कैसे सूर कि सायर होई ।
अनि उत्तम औ शीतल छाहा, पंची बहुत रहै तेहि पाहा ।
दहियल नित बोलै भिनसारा, पिउ पिउ पपिहा करै पुकारा ।

धौराहर पर सोवन जाई, सुनत कूक वह नींद हेराई ।
पीव कहा जव जात्रक बोलै, कपट कपाट हिये कर खोलै ।
पंछी नित सँवरे वह नाऊँ, करै खोज पिठ के सब ठाऊँ ।
हम वाउर भूले जग माहीं, पिठ की खोज करै कछु नाहीं ।

खोजत पिठ पावै नहीं, चहुँ दिसि करै पुकार ।
पंछी नित सँवरे पिऊ, भूला फिरै निसार ॥

ऊपरलिखित पंक्तियों से निश्चित होता है कि शेख हवीबुल्लाह ने बादशाह अकबर के समय में दिल्ली की ओर से आकर अवध में शेखपुर नामक नगर बसाया था । वहाँ पर कवि शेख निसार का जन्म हुआ था । शेख हवीबुल्लाह वहाँ वीस वर्ष तक रहे, उनके लड़के का नाम शेखमुहम्मद था । शेख मुहम्मद के लड़के शेख गुलाम मुहम्मद थे जो शेख निसार के पिता थे । इनके मकान के द्वार पर एक इमली का सघन वृक्ष तम्बू की भाँति विस्तृत खड़ा था ।

श्री सत्यजीवन वर्मा ने किसी डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के आधार पर उक्त शेखपुर को राय बरेली जिले का शेखपुरा कस्बा मान लिया है जो उस जिले की महराजगंज तहसील के बछुरावा परगने में पड़ता है । अपने मत की पुष्टि श्री वर्मा जी वहाँ शेखों की बड़ी बस्ती के आधार पर करते हैं । श्री गोपालचन्द्र जी सिनहा (जुडिशल सर्विस) ने अपनी खोजों के आधार पर सिद्ध किया है कि शेखपुर वस्तुन फैजाबाद जिले में मंगलसी नामक परगने में एक छोटा गाव है । आजकल इसका नाम शेखपुर जाफर हो गया है । यह छोटा सा गाँव, फैजाबाद लखनऊ रोड पर फैजाबाद से १० वें मील दक्षिण और ३० आर्द० आर० के सोहावल स्टेशन के निकट, अयोध्या तथा वाराणसी जिले के रुदौली स्थान के ठीक बीचों बीच पड़ता है । कवि निसार ने 'मेहर निगार' मसनवी में कहा भी है :

अवध रुदौली के मफ़ठौवा, शेखपूर अति सुन्दर गाँवा ।

निसार वाला इमली का वृक्ष अब भी वर्तमान है तथा उनके धौरहरे के स्थान पर अब किसी नाई का एक छोटा सा मकान बना हुआ है । शेखपुर जाफर के 'इकरार मालिकान' में उक्त गाँव का इतिहास इस प्रकार दिया है 'अर्सा तरबमीनानू तीन सौ बरस से जायद का हुआ कि मुसम्मं शेख हवीबुल्लाह मूरिस आला मालिकान देहली से बतवस्तुन मुलाजिमी बादशाह इस मुल्क में आये—उस वक़्त—२५० बीघा खाम आराजी जंगल वास्ते तरहुद के म्वाफ़ फरमाया । मूरिस मौसूफ़ ने जंगल तराशीं कराके मौजा आवाद किया और नाम मौजे का वसुनासिबत कौम मौसूम हुआ । बाद उसके शेख मोहम्मद जाफर ने और भी जमीन दीहात हमसहूदी से खरीद करके शामिल मौजा किया । तबसे नाम मौजे का बनामजद शेखपुर जाफर मारुफ़ हैं' ।

'शजरानसब मालिकान' में लिखित इस इतिहास का निसार की कुछ पंक्तियों से पूर्ण साम्य है :

रचना उन्होंने पुत्र वियोग से पीड़ित होकर की थी। यूसुफ जुलेखा की सच्ची प्रेम कहानी को भाषा में कहने का चाव उन्हें हज़रत याकूब के पुत्र विरह की गहनता को देखकर ही हुआ जिसका अनुभव उन्हें स्वयं भी अपने वाईस वर्ष के पुत्र लतीफ के वियोग में हुआ था।

ग्रन्थ :

अपनी यूसुफ जुलेखा के पूर्व की कृतियों के सम्बन्ध में वे लिखते हैं .

सात ग्रन्थ अनूप बनाये, हिन्दी औ पारसी सोहाये।

संस्क्रित तुर्की मन भाये, समै प्रेमरस भरे सोहाये।

मेहरनिगार कि कछो कहानी, रस मनोज रस कवित्त वखानों।

औ दीवान मसनवी भाखा, स्त्रोदी, नरख फारसी राखा।

संस्क्रित तुर्की औ ताजी, और पारसी नसराब जो साजी।

इस प्रकार इनके मेहर निगार (आख्यानक काव्य) रसमनोज (शृंगार रसात्मक रीति ग्रन्थ) दीवान, अहसन जौहर (फारसी मसनवी) खोदी (संगीत ग्रन्थ) नख नामक फारसी गद्य ग्रन्थ, नसाब एक संग्रह ग्रन्थ और यूसुफ जुलेखा कुल आठ ग्रन्थ होते हैं।

शेख निसार आशुकवि थे। कहते हैं कि एक वार तत्कालीन काशी नरेश ने अपने यहाँ के कवियों को एक समस्या दी पर बहुत प्रयत्न करने पर भी कोई उसकी पूर्ति न कर सका। किसी कवि के द्वारा शेख निसार को भी ज्ञात हुआ। समस्या थी 'केहि कारन चन्द्र पिपीलन खायो'। कवि निसार ने इसकी तत्काल पूर्ति की :

एक समय शिवशंकर जू भगवान के ध्यान में तारी लगायो।

वर्ष सहस्त्र जो वीति गयो, तवहू शिवनाथ न माथ उठायो।

खेह समान ह्यै देह गई तव चन्द्र पै गाढ लिलाट पै आयो।

शेख निसार विचार कहैं यहि कारन चन्द्र पिपीलन खायो।

कवि निसार की विद्वता उनकी ग्रन्थ संख्या से भी प्रमाणित हो जाती है।

कथासाराश .

नबी याकूब किनआ नगर में रहते थे जो नूह साहब का बसाया हुआ था। वे नबी लूत की लड़की और इसहाक के पुत्र थे। उनकी सात वीविया थीं जिनसे उन्हें बारह पुत्र उत्पन्न हुये थे। उन्हीं से एक का नाम यूसुफ था जो अत्यन्त सुन्दर थे। याकूब अपने अन्य पुत्रों की अपेक्षा इन्हे अधिक स्नेह करते थे। इसी कारण यूसुफ से उनके अन्य भाइयों को ईर्ष्या थी। यह ईर्ष्या यहा तक बढी कि एक दिन इनके भाइयों ने यूसुफ का प्राणान्त

कर देना चाहा । यह विचार कर पिता की आज्ञा से ये लोग अपने साथ यूसुफ को जंगल में ले गये और मार्ग में कष्ट देकर एक अंधे कुये में ढकेल दिया और उसका कुर्ता बकरी के खून में रंग कर पिता को बताया कि यूसुफ को भेड़िये ने मार डाला । याकूब पुत्र शोक में अत्यन्त विकल हो गये और रोते रोते उनकी नेत्रज्योति जाती रही । इधर जंगल में उसी राह से दूसरे दिन एक सौदागर गुजर रहा था । उनका एक दास उसी अंधे कुये से पानी लेने आया तो यूसुफ ने उसका वर्तन पकड़ लिया । नौकर भयभीत हो कर भाग गया और सौदागर से सब हाल बताया । सौदागर ने किसी प्रकार रस्ती द्वारा यूसुफ को बाहर निकाला । इस पर यूसुफ के भाइयों ने उसके विरुद्ध सौदागर से शिकायत की कि यह हमारा दास है । इसके चोरी करने पर हमने इसे कुये में डाल दिया । सौदागर ने यूसुफ को खरीद लिया और जंजीर में बाध कर मिस्र देश की ओर चला । रास्ते में यूसुफ की मा की समाधि पड़ी और वह चिपट कर रोने लगा । इस पर एक अन्य दास ने उसे खूब पीटा जिसे देख कर प्रकृति भी क्लान्त हो उठी । सौदागर ने द्रवित होकर उसे मुक्त कर दिया और प्रेम पूर्वक उसे रखने लगा । यथासमय कारवा मिश्र नगर पहुँचा ।

तैमूस नामक सुल्तान पश्चिम देश में राज्य करता था । उसके जुलेखा नामक एक अत्यन्त सुन्दरी पुत्री थी । किशोरावस्था से वह श्रव यौवनावस्था में पदार्पण कर रही थी । एक रात्रि को उसने स्वप्न में एक सुन्दर युवक को देखा और तत्क्षण उसको निद्रा उचट गई । इसके बाद से ही वह युवक के वियोग में दुःखित रहने लगी । धाय के पूछने पर उसने सब हाल बताया । धाय ने सहानुभूति प्रदर्शित कर राय दी कि वह युवक का नाम जानले । दूसरी बार जुलेखा ने केवल इतना ही जान पाया कि वह युवक भी उसे प्यार करता है । अब उसका वियोग तीव्रतर हो उठा और उसे लोकनिंदा, सामाजिक बन्धनों एवं लज्जा का भी ध्यान न रहा । तीसरी रात्रि को वह यही जान सकी कि मिश्र देश के वजीर के यहा भेंट हो सकती है । जुलेखा ने अपने पिता से अभिप्राय कहला मेजा और अन्त में उसका विवाह मिस्र के वजीर से हो गया । पति को देखकर जुलेखा को बड़ी निराशा हुई क्योंकि वह स्वप्न वाला युवक न था । जुलेखा ने मिस्र के हरम में अपना सतीत्व बचाने के लिये वीमारी का वहाना किया । इस प्रकार उसके दिन कष्ट से व्यतीत हो रहे थे ।

सौदागर के साथ जब यूसुफ मिस्र नगर पहुँचा तो उसके रूप को देखकर सारे नगर के लोग हैरान हो गये । समाचार सुन कर जुलेखा भी अपनी धाय के साथ उसे देखने गई और तुरन्त पहचान गई । धाय से कहलवा कर जुलेखा ने वजीर द्वारा यूसुफ को क्रय करवा लिया । वं मन्त्री ने भी उसे जुलेखा की सेवा में ही रखा । जुलेखा अब प्रसन्न रहने लगी । एक दिन यूसुफ उसके आकर्षण से प्रभावित होकर उसकी ओर बढ़ा किन्तु पिता का ध्यान आते ही वह लौट पड़ा और भागा । जुलेखा ने उसका कुर्ता पकड़ कर खींचा किन्तु कुर्ता हाथ में फट कर रह गया । निराशा होकर उसने वजीर से शिकायत कर यूसुफ को कारावास में डलवा दिया । गुप्त रूप से वह यूसुफ को कारावास में सुख

सामग्री पहुँचाती किन्तु यूसुफ हर ओर से उदासीन रहता। एक दिन एक किनआ नगर का व्यापारी कारावास की खिड़की के नीचे से निकला। यूसुफ ने उसके द्वारा पिता के पास संदेश भेजा कि वे हमारे छुटकारे के लिये प्रयास करें।

इधर मिश्र में जुलेखा की बड़ी निन्दा होने लगी। इस पर जुलेखा ने नगर की अनेकों स्त्रियों को निर्मंत्रण दिया। यूसुफ के सामने उन्होंने तरबूज़ काटने का प्रयत्न किया तो अपनी अपनी उंगली ही काट बैठी और इसका ध्यान उन्हें न आया। जुलेखा के बताने पर उन्हें अत्यन्त लज्जित होना पड़ा और उन्होंने क्षमा प्रार्थना की।

सात साल तक यूसुफ कारावास में पड़ा रहा। एक रात्रि को सुल्तान ने सपना देखा। सुल्तान ने इसका रहस्य यूसुफ से जानना चाहा क्योंकि यूसुफ का स्वप्न-विचार शक्ति में बड़ा नाम था। उसने बताया कि आप के यज्ञ सात साल तक खूब वर्षा होगी और फिर सात साल तक सूखा पड़ेगा। अब भविष्य के दुखों से बचने के लिये प्रयत्न होने लगा। इसी सिलसिले में सुल्तान ने वजीर से यूसुफ के कैद होने का कारण पूछा और प्रसंगवश जुलेखा ने भी अपनी आत्मकथा साफ साफ प्रकट कर दी। मन्त्री ने क्रोधवश जुलेखा का परित्याग कर दिया।

सुल्तान ने अब यूसुफ को ही अपना मन्त्री नियुक्त किया। यूसुफ की भविष्यवाणी के अनुसार फसल अच्छी हुई और फिर अकाल पड़ा। अकाल के पाचवे वर्ष मिश्र का पुराना मन्त्री मर गया। अब यूसुफ का प्रभाव बहुत बढ गया और वही सारा राज काज संभालने लगा। यूसुफ के भाई भी अन्न की खोज में किनआ नगर से वहा पहुँचे। यूसुफ ने पहचान कर उन्हें आदरपूर्वक विदा किया एवं कहला भेजा कि वे अपने छोटे भाई इब्नअली को यदि साथ लायें तो बहुत उपहार पायेंगे।

अपने पुत्रों के कहने पर याकूब के इब्नअली को भी मिस्त्र भेज दिया। यूसुफ ने सबको दावत दी तथा एक थाली में दो भाई खाने बैठे। यूसुफ स्वयं इब्नअली के साथ बैठा। उसके सामान में कटोरा रखवा कर चोर बनाया और इब्नअली को रोक लिया गया। अंत में सब ने एक दूसरे को पहचान लिया। याकूब भी सपरिवार मिस्त्र आये और आपस में मिले जुले।

इधर जुलेखा को यूसुफ की प्राप्ति के लिये तप करते-करते ४० वर्ष व्यतीत हो गये। उसके नेत्रों की ज्योति जाती रही और वह बूढ़ी हो गई। अपना सर्वस्व खोकर अब वह केवल पथ की भिखारिन मात्र रह गई। एक दिन यूसुफ की सवारी शहर में निकलने को थी। नेत्रहीन होने पर भी जुलेखा ने यूसुफ को देखना चाहा। कुछ स्त्रियों ने दया करके उसे एक उपयुक्त स्थान पर ला खड़ा किया। यूसुफ देख कर ही जुलेखा को पहचान गया और सारा हाल मालूम किया। याकूब की दुश्चा से जुलेखा फिर से लावण्यमयी हो गई एवं यूसुफ और जुलेखा का परिणय हो गया। तपस्या और दुःख सहकर जुलेखा ईश्वरोन्मुख होती गई। इस्क मजाजी छोड़कर वर इस्क हकीकी की ओर झुकने लगी। यूसुफ को जुलेखा से ५ पुत्र तथा २ पुत्रिया उत्पन्न हुईं।

अपने पिता याकूब की मृत्यु के कुछ समय बाद यूसुफ भी परमधाम सिधार गये और अन्न में प्रेमपरायण जुलेखा भी पति की समाधि पर पछाड़ वा कर शरीर छोड़ गई ।

कथा का कुरान में वर्णित आधार :

कवि निसार ने अन्य सूफी कवियों की भांति भारतीय प्रचलित कथाओं का आधार न लेकर कुरान में वर्णित 'यूसुफजुलेखा' को कथा का आधार लिया है । कवि निसार द्वारा वर्णित कथा में तथा कुरान में प्रस्तुत कथा में कुछ अन्तर है । कुरान में यह कथा अत्यन्त संक्षिप्त रूप में वर्णित है ।

कुरान की 'सूरए यूसुफ मक्की स्कू' १२ आयत १११ में यह कथा वर्णित है । यूसुफ ने एक बार अपने पिता से कहा कि 'मैंने ११ तारों के साथ सूर्य और चन्द्रमा को स्वप्न में देखा है कि वे मुझे दरडवत करते हैं' उसके पिता ने यह बात उसे अन्य भाइयों पर प्रकट करने से मना कर दिया और कहा कि ईश्वर ने तुम्हें सच्चरित्र और बुद्धिमान मानकर अपना चुना हुआ माना है, तेरे पूर्वपुरुष इसहाक तथा इब्राहीम भी ईश्वर के चुने हुये लोगों में थे । यूसुफ अपने पिता को अत्यन्त प्रिय थे । इसी कारण यूसुफ के अन्य भाइयों ने यूसुफ को उसके पिता से अलग करना चाहा । दूसरे दिन सलाह करने के बाद यूसुफ के भाई उसे अपने साथ जंगल में ले गये और वहाँ उसे एक अंधे कुँये में डालकर रोते हुये अपने पिता के पास लौट आये और कहा कि यूसुफ को मेड़िये ने खा लिया । हम सब निर्दोष हैं । इसी बीच एक व्यापारियों का जत्था आया जिसने यूसुफ को कुँये से निकाल कर अपने साथ ले लिया । यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को उसी व्यापारी के हाथ बेच दिया । उस व्यापारी ने उसे मिश्र देश में जाकर बेच दिया । नये मालिक ने अपनी स्त्री से यूसुफ को प्यार पूर्वक रखने को कहा । जब यूसुफ तरुणावस्था को पहुँचा तो उस नये मालिक की स्त्री ने (जुलेखा ने) उसे अपने वश में करना चाहा किन्तु यूसुफ को सेवक या दास के कर्तव्य का पूर्ण ज्ञान था । उसने जुलेखा को भी समझाने का प्रयत्न किया । यूसुफ भी उस स्त्री की और आकर्षित हो चुका था किन्तु यह ध्यान आते ही वह अपने इरादे से पीछे हट गया । यूसुफ भागा, स्त्री के हाथ में उसके कुँते का कुछ भाग फटकर रह गया । उस स्त्री का पति उसे द्वार पर मिल गया । उस स्त्री ने अपने पति से उसे दरड देने की प्रार्थना की । कुँते के पीछे की ओर फटे होने से पत्नी ही अपराधी मानी गई । सारे नगर की स्त्रियाँ जुलेखा के दुश्चरित्र की चर्चा करने लगीं । जब उमने यह चर्चा सुनी तो नगर की स्त्रियों को प्रीतिभोज में बुलाया एवं उस अवसर पर यूसुफ को भी उपस्थित रक्ता । यूसुफ को देखकर उन स्त्रियों ने बिना कष्ट का अनुभव किये ही अपना हाथ काट डाला और कहा कि यह अवश्य कोई महानात्मा है । जुलेखा ने कहा कि निस्सन्देह उसने कामेच्छा की है और यदि यूसुफ उसकी बात न मानेगा तो बन्दी बनाया जायगा । यूसुफ ने कारागार में जाना अधिक उचित समझा और वह बन्दी बना दिया गया । बन्दीग्रह में उसने एक बार दो व्यक्तियों को स्वप्नफल बताया । एक व्यक्ति ने स्वयं को मदिरा निचोड़ते

हुये देखा था तथा दूसरे ने सिर पर रोटियां उठाये हुये देखा जिसमें से पत्नी खा रहे हैं। इस पर यूसुफ ने उन बन्दियों को बहुदेवोपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना करने की राय दी और कहा कि तुम दोनों में से मदिरा देखनेवाला व्यक्ति तो राजा को मदिरा पिलायेगा तथा दूसरा सूली पर चढ़ाया जायगा। एक बार राजा ने भी स्वप्न देखा और यूसुफ को स्वप्न का तात्पर्य बताने के लिये बुला भेजा। यूसुफ ने सात मोटी, सात दुबली, सात हरी तथा सात सूखी बालों का तात्पर्य यही बताया कि सात वर्ष तक तो यथेष्ट अन्न उपजेगा बाद के सात वर्ष में सूखा पड़ेगा। राजा उत्तर से अत्यन्त प्रसन्न हुआ। अजीज की स्त्री की बात भी प्रकट हो चुकी थी। राजा ने प्रसन्न होकर यूसुफ को अपना अमीन बनाया। दुर्भिक्ष के समय में यूसुफ के भाई भी अन्न लेने मिश्र आये। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। यूसुफ ने युक्ति पूर्वक अपने भाई को रोक लिया तथा अपना कुर्ता देकर याकूब को नेत्र ज्योति पहुँचाई। याकूब को मिश्र में बुलाकर उनका अत्यन्त आदर सत्कार किया। यहां पर पुनः ईश्वर महिमा की चर्चा है। इस प्रकार पिता पुत्र का मिलन होने के बाद ईश्वर पर अद्भुत विश्वास की महिमा गाई गई है।

यहां तक की कथा अन्तरशः कुरान में वर्णित कथा के अनुसार ही है। यत्र तत्र जहां कहीं भी कवि को कल्पना करने का अवकाश मिला है उसने उसका उचित उपयोग किया है। जुलेखा की सम्पूर्ण कथा, नखशिख वर्णन, यौवन का आगमन, स्वप्न दर्शन, विरह वेदना तथा जुलेखा का अजीज से ब्याह सम्बन्ध, इन बातों की कुरान में चर्चा तक नहीं है। इसी प्रकार जुलेखा का अपने पति से सतीत्व की रक्षा करना, यूसुफ के लिये सर्वस्वत्याग कर तपस्या करना, नेत्रहीन तथा सौन्दर्यहीन होना, विप्रलम्भ शृंगार का वर्णन, अन्त में मिलन, गृहस्थजीवन, यूसुफ का निधन, जुलेखा का निधन, आदि वृत्तान्त भी कुरान में नहीं हैं। कवि ने इन प्रसंगों का समावेश इसे चली आती हुई कथा परम्परा से मिलाने के हेतु ही किया है। कवि निसार की प्रवृत्ति आरम्भ से कितनी सूफीमत की श्रोर भुंको हुई थी यह नहीं कहा जा सकता किन्तु इकलौते पुत्र के वियोग दुख ने उन्हें अवश्य इस संसार के सुखों से विमुख कर दिया होगा और इस पुस्तक की रचना के समय अवश्य 'इश्क हकीकी' का उन पर प्रभाव था। सम्पूर्ण काव्य में विरह का मार्मिक चित्रण लक्षित होता है। जुलेखा का यूसुफ से, यूसुफ का याकूब से, याकूब का यूसुफ से विरह, अन्त में यूसुफ का मिलन हो जाने पर भी जुलेखा की उसकी श्रोर विरक्ति ऐसे मार्मिक स्थलों का कवि ने विस्तार से वर्णन किया है। सूफी साधकों का जीवन ही प्रेम की पीर का अनुभव होता है। कवि निसार को भी इसका गभीर अनुभव था।

कुरान में कथातत्व का वर्णन है तथा अन्य ग्रन्थों में उसका सविस्तार वर्णन है। किन्तु कहीं भी यूसुफ और जुलेखा के व्याह का वर्णन नहीं है। जुलेखा का परकीया स्वरूप ही सम्मुख आता है। जुलेखा की इन सब चेष्टाओं के होते हुये भी यूसुफ को विरागी और नित्यह प्रदर्शित करने का ही प्रयत्न सर्वत्र लक्षित है।

कवि की रचना में जामी कृन यूसुफ जुलेखा का पूर्ण प्रभाव देख पड़ता है। दोनों के प्रमङ्ग एक से ही हैं। जामी ने अपनी मसनवी यूसुफ जुलेखा में ईश्वर तथा उसके रसूल की प्रशंसा करने के बाद सौन्दर्य तथा प्रेम की प्रशंसा की है। जामी के शब्दों में ईश्वर-प्रेम तथा जीव प्रेम का सम्बन्ध स्पष्ट लक्षित होता है^१।

जामी का पूर्णतः अनुकरण करते हुये कवि निसार ने अपनी यूसुफ जुलेखा की रचना की है। फारसी मसनवी के सारे उपकरणों को लेते हुये कवि ने उसमें भारतीय प्रेमगाथा पद्धति का भी उचित समावेश किया है। माननीय चन्द्रवली पाण्डे ने कवि निसार तथा शेख रहीम के फारसी कथानक चयन पर कुछ शोक सा प्रकट किया है। उनका कड़ना है कि 'वह तो अधिक-से-अधिक उस बुझती हुई परम्परा की भभक भर है जो भारतीय वेशभूषा में परमप्रेम की दिव्य ज्योति दिखाती और फटे हृदयों को एक मार्ग का पता बताती थी', किन्तु जहाँ तक परमप्रेममार्ग का पता बताने का सम्बन्ध है कवि निसार अधिक असफल नहीं हुये हैं। उनका कथा-सङ्गठन शिथिल है। यदि वे अपनी कल्पनाशक्ति का कुछ अधिक उपयोग करके कथा के नायक यूसुफ को केवल नबी ही न रहने देकर

१. Once to his master a disciple cried—

'To wisdom's pleasant path be thou my guide'

'Hast thou ne'er loved?' the master answered 'learn the ways of love and then to me return.

Drink deep of earthly love, that so thy lip May learn the wine of holier love to sip.

It is well known that Yusuf or Joseph as we call him is looked upon by the people of Islam as the ideal of manly beauty and more than manly virtue but is not so generally known perhaps that the romantic tale of the love, the sufferings and the coming happiness of Zulaikhan as told by Jami was intended to shadow forth the human soul's love of the highest beauty and goodness at a love which attain's fruition only when the soul has passed through the hardest trials and has like Zulaikhan been humbled, purified and regenerated. So this allegory resembles in its drift the famous and lovely one in which celestial cupid—

"Holds his dear Psyche sweet entranced after her wandering labours long Till free consent the Gods among Make her his eternal bride."

The story is so charming that it has been translated in so many other European languages, in French and in German as well

'Love' Yusuf Julekhan Jami,
Translated by Ralph T. H. Griffith

मानवीय महान गुणों से अभिभूत एक सहृदय प्रेमी सिद्ध करते एवं अपने नायक को धीर प्रशान्त के साथ धीर ललित भी प्रदर्शित करते तो सम्भवतः उनका काव्य उस प्रेमगाथा परम्परा में पूर्णतः खप जाता ।

सम्पूर्ण कथा जामी कृत यूसुफ जुलेखा मसनवी की भोंति है । कहीं-कहीं यूसुफ का दास होना तथा दासावस्था में अस्वच्छता के कारण सौन्दर्य का कम होना तथा विरहवृत्त तथा माता की समाधि का वर्णन आदि कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ कवि ने अपनी कल्पना को स्थान दिया है । पूर्वार्द्ध पूर्णतः कुरान में वर्णित कथा के आधार पर है । यूसुफ से जुलेखा का मिलन, विवाह तथा गृहस्थ जीवन में दाम्पत्य प्रेम आदि का प्रकाश कवि ने जामी के अनुकरण पर ही किया है । कवि ने अपने को फारसी का ज्ञाता कहा है अतः ऐसा होना अधिक सम्भव है ।

यूसुफ जुलेखा की प्रेम-पद्धति :

कवि निसार ने जिस प्रेम पद्धति का वर्णन अपनी कृति 'यूसुफ जुलेखा' में किया है वह अपने आरम्भ में तो 'उषा अनिरुद्ध' के प्रेम की भोंति तथा प्रयत्न काल में 'सावित्री सत्यवान' के आख्यान के समान है । अधिकांश सूफी प्रेमाख्यानों में जिस प्रेम पद्धति का वर्णन है उसका आरम्भ रूप, गुण, श्रवण या साक्षात् दर्शन से ही होता है । निसार के प्रेमाख्यान में यह नवीनता है कि ईश्वरीय गुणों तथा सौन्दर्य का प्रतीक नायक यूसुफ है जिसके सौन्दर्य को स्वप्न में देखकर नायिका जुलेखा प्रेम विमोहित हो जाती है । प्रियतम की प्राप्ति का प्रयत्न भी नायिका की ओर से ही होना है ; नायक उसके सौन्दर्य एवं प्रेम के प्रति विमुख है । जुलेखा के कठिन प्रयत्नों, विरह तथा तपस्या को देखकर भारतेन्दु बाबू की पंक्ति 'पगन में छाले परे, नाधिवे को नाले परे, तऊ लाल लाले परे रावरे दरस को' की सत्यता सिद्ध हो जाती है । कथा के पूर्वार्द्ध में वर्णित नायिका जुलेखा का यूसुफ से प्रेम सर्वथा एकान्तिक है । कहीं-कहीं कवि की लोकदृष्टि ने उसे लोक सम्बद्ध करने का भी प्रयास किया है । जुलेखा को लोक लज्जा तथा व्यवहार का ध्यान प्रेम स्फुरण की अवस्था में ही रहता है, जैसे जैसे उसका प्रेम प्रगाढ तथा विकासोन्मुख होता जाता है उसे संसार के सारे बन्धन निरर्थक जात होते हैं । वह मीरा की भोंति सारी लोक लज्जा से अना सम्बन्ध हटा लेती है । नायिका जुलेखा धीरे-धीरे किशोरावस्था त्याग कर यौवन की ओर अग्रसर हो रही है अतः अवस्था के आग्रह के कारण प्रेम का प्रभाव शीघ्र ही पड़ता है । सूफियों ने रूप और प्रेम का गठबंधन प्रत्येक स्थल पर किया है, वास्तव में वे सौन्दर्य तथा प्रेम के उपासक ही हैं । अतः जुलेखा के हृदय में भी प्रेम का प्रस्फुटन स्पष्ट में यूसुफ की अनुपम सौन्दर्य की मूर्ति को देखकर ही होता है । जुलेखा आधी रात में प्रेम की बातें सुनकर ही सोई थी । प्रेमाकुर के पल्लवित होने के लिये घरित्री पहले ही उर्वर हो चुकी थी —

आधि रात लहि जागि कुमारी, बात प्रेम के सुनन सुखकारी ।

उस अंधेरी रात में जबकि सब सो रहे थे, अन्धकार विनाशक सूर्य ही मानो साक्षात् यूसुफ के रूप में प्रकट हो गये।

भान स्वरूप तहं आय कै, देखि रहे टक लाय।
लीन्ह प्रान तिन्ह काडि कै, रूप अनूप दिखाय ॥
देखत नारि विमोहित भई, निरखि रूप वाउरु होइ गई।
नैन वान ते वेधा हीया, वात न आउ मौन भई तीया।

इस प्रकार जुलेखा के हृदय में यूसुफ को देखकर आश्चर्य तथा महानता से मिश्रित भावना का उदय होता है। वह अनूप रूप को देख आश्चर्य विमोहित हो मौन रह जाती है। उस सुन्दर मूर्ति के अदृश्य हो जाने पर उसे अकुलाहट का भान होना है और वह वेचैन होकर अन्य सारे कार्यकलापों तथा क्रीड़ाओं से विमुक्त हो जाती है क्योंकि वह सबसे अधिक आकर्षक वस्तु का दर्शन पा चुकी है। अभी उसमें लोकविमुख होने की भावना का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। वह 'मनभावनु ज्योति' के विछोह से दुःखी अवश्य है किन्तु संकोच ने उसका साथ नहीं छोड़ा। एक दिन उसने अपनी विश्वासपात्र माता सदश धाय से अपना रहस्य प्रकट किया। धाय ने उसके मन में शङ्का उत्पन्न कर दी कि कहीं विना नाव गाव वाले पुरुष से प्रीत हो सकती है। सम्भावना यह भी थी कि कहीं किसी ने टोना न किया हो। उसकी चिन्ता बढ गई।

भूला खेल औ भोग विलासा, भूला सुख और खेल हुलासा।

मरै जियै लाजन डरै, करै न विरह उधार।
जेहि पर परै सो जानै, लगन कै अगिन अपार ॥

स्वप्न में देखे गये रूप सौन्दर्य के परिचय को प्रगाढ करने के लिये ही सम्भवतः कवि ने तीन वार उस सुख स्वप्न का वर्णन किया है। उसका ध्यान सदैव उसी सौन्दर्य मूर्ति में लगा था। द्वितीय स्वप्न में यूसुफ ने अपनी ओर से भी प्रीति का विश्वास दिलाया।

कहा कि अस मोहि उपच्यो सोगू,
तुम्ह तें अधिक सो विरह वियोगू।

वह यूसुफ की बात सुनने में इतनी मग्न थी कि इस वार भी उसका नाव गांव न पृछ सकी और विरह मग्न हो प.गलों ऐसी चेष्टायें करने लगी। माता-पिता की दुलारी की औषधि की गई किन्तु 'भागो वैदन कहि दिन गाढे।' तीसरा स्वप्न देखने पर उसकी प्रेम धारणा निश्चित हो गई। उसे ज्ञात हो गया कि उसका प्रियतम मिस्र देश में है, और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि :

निजं तो जाऊं भित्ति कहं, मरूं तो मारग माह।
छार होहुं उड़ि जाऊं अब, जहाँ वसै मोर नाह ॥

जुलेखा की प्रेम भावना आरम्भ से ही निर्दिष्ट तथा विशेषोन्मुख है, अब उसका पूर्ण परिचय प्राप्त हो जाने पर उसकी प्राप्ति का प्रयत्न भी जुलेखा की ओर से होता है। पश्चिम के तैमूस शाह सुल्तान का मिस्त्र के वजीर से अपनी दुहिता से व्याह आग्रह करना सचमुच कुछ कठिन है जबकि भारतीय प्रेमगाथापरम्परा में मर्यादा के हेतु अपरिमित द्वेष कलह तथा रक्तपात होना कर्तव्य सा बन गया था, किन्तु जुलेखा का दृढ़ निश्चय तथा दृढ़ उसके पवित्र प्रेम के परिचायक हैं। मार्ग में वजीर को देखकर जुलेखा को अपने भ्रम का ज्ञान हुआ और वह फिर विरहिणी हो जाती है। अब जुलेखा ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिये अस्वस्थ होने का वहाना किया।

जुलेखा के अब तक की प्रेम पीर तथा विरह का कोई प्रभाव यूसुफ पर दृष्टिगोचर नहीं होता। रत्नसेन के तप का प्रभाव 'पद्मावत तेहि प्रेम संजोगा, परी प्रेमवस गहे वियोगा' पद्मावती पर पड़ता है। यहाँ कवि ने बुद्धिमानी से काम लिया। यूसुफ के चरित्र को कवि अत्यन्त संयत् चित्रित करना चाहता है अतः साक्षात्कार के पूर्व ही ऐसी चेष्टा काम चेष्टा होती जो यूसुफ ऐसे महापुरुष के उपयुक्त न थी। जुलेखा के पास दासरूप में रहकर जुलेखा के सौन्दर्य तथा काम चेष्टाओं को देखकर एक क्षण को उस ओर आकर्षित हो जाना अवश्य प्रेम स्फुरण कहा जा सकता है। किन्तु यूसुफ का प्रेम लोकबाह्य या ऐकान्तिक नहीं है। उसकी भावनायें कर्तव्य बुद्धि से शासित हैं। वह एक क्षण के लिये उत्पन्न राग का दमन कर देता है। जुलेखा उसके स्वामी की पत्नी थी। यूसुफ का अपने भाइयों के प्रति व्यवहार तथा माता के प्रति प्रेम भी लोक व्यवहार समन्वित है। जुलेखा यूसुफ के प्रेम के कारण निन्दित होती है किन्तु वह निन्दा को उपेक्षणीय मानती है। जुलेखा का प्रेम पूर्णतः ऐकान्तिक है। मिस्त्र में निन्दित तथा पति द्वारा परित्यक्त होने पर भी वह चालीस वर्ष तक यूसुफ की चाह में मनसा, वाचा, कर्मणा तल्लीन है। अपनी सम्पत्ति, सामर्थ्य तथा सौन्दर्य सब कुछ खो देने पर अत्यन्त वृद्धावस्था में नष्टप्राय नेत्र ज्योति ले वह यूसुफ के दर्शनार्थ जाती है। उसकी इस तपस्या में प्रेम का पुनीत रूप दृष्टिगोचर होता है। वह हृदय में आशा का मन्दज्योति दीपक लिये यूसुफ मिलन को उत्सुक है। यूसुफ के निधन पर वही विरह व्याकुल हो प्राणत्याग करती है। विवाह हो जाने के पश्चात् जुलेखा की विरक्ति प्रदर्शित करने का आशय सम्भवतः कथा में अलौकिकत्व का समावेश है। दाम्पत्य जीवन में यूसुफ परमप्रेमी के रूप में सम्मुख आते हैं। जुलेखा के प्रति उनका प्रेम आगाध है किन्तु जुलेखा के ईश्वर भजन में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित करने उन्हें कवि ने नहीं दिखाया है, प्रत्युत उसकी सुविधा के लिये एक मन्दिर निर्मित करवाया गया। उसे अपने पुत्रों की चिन्ता तथा अन्य सांसारिक चिन्ताओं से मुक्त करने के लिये भी यूसुफ ने यथेष्ट प्रवन्ध कर दिया है। अन्ततः यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्पूर्ण कथा में जुलेखा का प्रेमी स्वरूप ही अधिक सम्मुख आता है। यूसुफ का प्रेम लोक व्यवहार की उपेक्षा न कर संयत तथा मर्यादित है। याक़व का पुत्र प्रेम सराहनीय है।

वियोग-पक्ष :

‘यूसुफ जुलेखा’ कथा में वियोग दो स्थानों पर दृष्टिगोचर होता है :

१. यूसुफ एवं याकूब का विछोह ।

२. जुलेखा तथा यूसुफ का वियोग ।

यूसुफ को वन में भेजते समय याकूब पुत्र वियोग से व्याकुल हो गये । उन्हें पुत्र वियोग की पूर्व सूचना मिल गई । ‘द्रुम विछोह’ के पास खड़े होकर याकूब ने रो-रोकर अपने हृदय को समझाया । प्रातः से सार्यकाल तक वे वैसे ही खड़े खड़े पुत्र की प्रतीक्षा करते रहे । उनके दुःख से वृद्ध भी पसीज गया :

‘डारहिं डार औ पातहिं पाता, सुना वृद्ध तिन विरहक वाता ।’

याकूब का यूसुफ के प्रति प्रेम भी लोकवाह्य है । उन्हें लोकव्यवहार के अनुसार सब पुत्रों पर समान ममता तथा समान सम्पत्ति भाग का प्रदान करना ठीक न लगा । अन्य पुत्र प्रतिदिन वन में पशु चारण के हेतु जाते थे किन्तु यूसुफ के एक दिन के प्रवास ने ही उन्हें पूर्ण वियोगी बना दिया । इन सब के अन्तर्गत एक भेद छिपा है । यूसुफ ईश श्रंशी हैं और याकूब उनके भक्त । उनके मध्य का प्रेम पिता पुत्र का प्रेम नहीं है ; उपासक और उपास्य का प्रेम है । उनके प्रेम की भाँति वियोग भी लोकवाह्य है । वे जब यूसुफ के वियोग में नगर के बाहर कुटी बनाकर रहने लगते हैं तो एकाएक भरत का स्मरण हो आता है ।

तव याकूब सो कुटी बनावा, बाहर नगर तहाँ चलि आवा ।

रोदन भवन नाम तेहि राखा, यूसुफ नाम करें नित भाखा ॥

उस ‘रोदन-भवन’ में रो-रोकर उन्होंने अपनी नेत्र-ज्योति खो दी । पुत्र के सम्बन्ध की शङ्कायें स्वाभाविक तथा वात्सल्य भावना से श्रोतप्रोत हैं ।

केहि वन मँह तुम्ह का परहेले, तुम्ह बालक कत फिरहु अकेले ।

केहि सो साम लै हियै लगाउव, भोर होत केहि लाल जगाउव ।

केहि के सुनव मधुर रव वाता, केहि कर हिये लगाउव गाता ।

यूसुफ भी वियोग से दुखी था । उसे विश्वास था कि उसका पिता उसके विछोह से अत्यन्त दुखी होगा । यूसुफ ने रो-रोकर जो कुछ अपने भाइयों से कहा वह अत्यन्त हृदयद्रावक है । यूसुफ की सन्त प्रवृत्ति का परिचायक है । यूसुफ बराबर अपने पिता तथा भाइयों की चिन्ता करता रहा । उसके मन में दुर्भाव प्रवेश न पा सका । मार्ग में माता की समाधि देख वह दुख से व्याकुल हो उससे चिपटकर रोने लगा । इस स्थल पर कवि निसार ने सच्ची संहानुभूति का परिचय दिया है । यूसुफ को विलम्ब करते देख एक दास ने यूसुफ को मारा ;

‘जब सो दास यूसुफ कहं मारा, माता कबर कापै एक वारा ।’

मातृ प्रेम ऐसी ही वस्तु है। उसकी माता सर्वत्र व्याप्त है। यूसुफ के प्रति किये गये अत्याचार पर प्रकृति भी क्षुब्ध हो उठी और उसका कर्कश स्वरूप प्रत्यक्ष हो गया। जब हृदय में भी सहानुभूति का सञ्चार हो उठा।

आधी उठी भयो अंधियारा, सूझि परै नहिं हाथ पसारा ।
घन गरजै बादर चढि आये, दामिनि कौंध चमकि गिलराये ।

सौदागर के यूसुफ से क्षमा माँगते ही प्रकृति का फिर वही सौम्य और शान्त स्वरूप हो गया जो पहले था।

२. जुलेखा का वियोग ही कथा में प्रधान है। वास्त में जुलेखा का सम्पूर्ण जीवन ही वियोगमय है। संयोग का स्थल तो नाम मात्र को है।

स्वप्न में यूसुफ के सौंदर्य को देख जुलेखा विमोहित हो जाती है और यूसुफ की मूर्ति के अन्तर्हित होते ही वह वियोग का प्रथम अनुभव करती है। उसके हृदय में अकुलाहट है जो उसे चैन नहीं लेने देती।

उमकी अस्थिर तथा विह्वल अवस्था का वर्णन करने के लिये कवि ने अत्यन्त सुंदर तथा उपयुक्त उपमानों का आश्रय लिया है।

‘विकल सरीर भयो जल पारा, विरह अग्नि से सुठि विकरारा ।’

उसका हृदय पूर्णतः यूसुफ के ध्यान में मग्न था। यहाँ तक कि सुस्तावस्था में भी उसका चैतन्य जगत् यूसुफ की ज्योति से आलोकित रहता था। वह यूसुफ-प्रेम में विलकुल पागलों ऐसा आचरण करने लगी। इस स्थल पर कवि का वर्णन शामी परम्परा का अनुगमन करता है। प्रेम में पागल का वस्त्र फाड़ना, यत्र तत्र भागते फिरन, रक्त के आसू बहाना, शरीर को क्षतविक्षत करना आदि भारतीय परम्परा की वस्तुयें नहीं हैं। इन सब क्रियाओं में वियोग का ओछापन छलकता है। भारतीय वियोगी का हृदय इनना विस्तृत हो जाता है कि वह अपने प्रियतम की स्मृति के साथ अपने सारे वियोग दुःख को भी चुपचाप मह जाता है। यह हो सकता है कि उसके सामान्य नित्यकार्यों में कुछ व्यतिक्रम हो जाय।

जुलेखा की प्रियतम प्राप्ति के हेतु सर्वत्याग की भावना अवश्य भारतीय है।

जिऊ तो जाऊं मिसिर कहं, मरूँ तो मारग माह ।

छार होहुँ उडि जाऊं अब, जहाँ वसै मोर नाह ॥

इस वर्णन में हृदय वेग की स्वाभाविक व्यञ्जना के साथ-ही-साथ भाव का उत्कर्ष भी अत्यन्त मार्मिक है। जुलेखा की अभिलाषा और जायसी की नागमती की अभिलाषा में कितना अधिक साम्य है :

‘यह तन जारौं छार कै, कहाँ कि पवन उड़ाव ।
मकु तेहि मारग उड़ि परै, कन्त धरै जह पाँव ॥’

अपने पति को यूसुफ स्वरूप न पाकर जुलेखा जो अमी विरह का पूर्णतः पल्ला
झोड़ भी न पाई थी पुनः दुःखी हो जाती है ।

लाज धरम सब छौंड़ि के आयों मिसिर के देस ।
चहौं प्रानपत मोर जो, काहु वेग परवेस ॥
‘पानी हेरै गयो पियासा, रेती देख सो भयौ तरासा ।
कोइ वोदित चढ़ि चाहत पारा, वोदित फटयो जाइ मझधारा ।
भयो काठ वह प्रान अधारा, वूड़त वहत सो ताहि मझारा ।
जव वह काठ निघर भा आई, काल सरूप भयौ दुखदाई ।

इन पंक्तियों में जुलेखा की स्थिति का कितना स्पष्ट वर्णन है ।

वियोग वर्णन में षट्ऋतु वर्णन तथा वारहमासे की चर्चा होती रही है । कवि
निसार ने भी वियोगवर्णन की इस परम्परा का निर्वह किया है । वियोगावस्था
में अपने चतुर्दिक विस्तृत प्रकृति भी दुःखी दिखाई पड़ती है । वियोगी को सर्वत्र अपने
वियोग की परछाईं ही दृष्टिगोचर होती है ।

फूले फूल सिरखी गुंजारहि, लागी आगि अनार के डारहिं ।
मैं का करुं कहा अब जाऊं, मों कंह नहि जगत मंह ठाऊं ।
टेसू फूल तो कीन्ह अंजोरा, लागी आगि जरै चहुं शोरा ।

प्रियतम के विछोह में असहायावस्था का वर्णन भी कवि ने किया है ।

घन गरजैं दामिनि लोकाहीं, नारि कंत के गोद छिपाहीं ।
हम केहि के गिउ लावैं वाहीं, पावस समय देह बल नाहीं ।
घर हमार सब भीगा पानी, उत राजा हम वहि उतरानी ।

जाड़े की रात के साथ ही साथ विरह भी बढ़ रहा है :

जाड़ा विरह रैन जस बाढे, अरुके प्रेम फास हिय गाढे ।

इस प्रकार प्रकृति तथा उसके विरह में साम्य और वैषम्य दोनों ही हैं । चतुर्दिक
व्याप्त मुख उसे उसकी विषय अवस्था का बोध कराके दुःखी कर देते हैं । और चारों
और व्याप्त प्रकृति का उदास तथा निर्मम स्वरूप उसे अपने प्रति सहानुभूति प्रदर्शित
करता प्रतीत होता है । वह किसी भी प्रकार सुखी नहीं है । निसार अपने वारहमासा
वर्णन में अधिक सफल नहीं हो सके हैं । ऐसा ज्ञात होता है कि वे केवल एक परम्परा
का अनुसरण कर रहे हैं जिससे उन्हें स्वयं विशेष सहानुभूति नहीं है, तभी तो उन्हें
रीतिकालीन ‘लाल’ की याद आ गई ।

ऐसे रिक्त में लाल विन, कैसे जियें ललिता दई ।

यह पंक्ति उन्हें रीतिकालीन कवि सिद्ध कर देती हैं ।

यद्यपि निम्नार कवि के अधिकांश चिरह वर्णन में भारतीय जीवन के परिचायक भावों का ही प्राधान्य है किन्तु यत्र तत्र फारसी साहित्य द्वारा पोषित भावों के वीभत्स चित्र भी सम्मुख आ जाते हैं ।

चैत मास तपि गयो विछोहे, तवते रक्त आसु में रोये ॥
परहिं जो आसु भूमि पर डूटी, रँग चली जस वीर बहुटी ।

तथा

नैन काढ दोऊ लिहिस, दीन्हैसि ढेर पर डार ।
जैह नैन पिउ तोहि लखों, देखों । काह निहार ॥

संयोग शृंगार :

यूसुफ जुलेखा कथा में विप्रलम्भ शृंगार ही प्रधान है । संयोग शृंगार का वर्णन नहीं के बराबर है । कवि के ऐसा करने का उद्देश्य अपनी कथा में अलौकिकत्व का समावेश है । सूफ़ी कवि निसार जुलेखा को इश्क मजाजी के चरम पर पहुँचाकर यूसुफ जुलेखा के व्याह के पश्चात् इश्क हकीकी की चर्चा करना आरम्भ कर देते हैं । जुलेखा जिसने अपनी सम्पूर्ण जीवन यूसुफ के लिये तपस्या करने में बिता दिया था उस एक ईश्वर की कृपा से यूसुफ को तथा अपने खोये सौन्दर्य को फिर से पा जाती है । तब उसे ज्ञात होता है कि उसने इतना समय जिस आराध्य के लिये गंवाया है उससे भी अधिक रूप सम्पन्न एक परमात्मा है जिसकी आराधना करना सबका उद्देश्य है और अपनी रसी भावना के वशीभूत हो वह सासारिक विषयों से विरत हो जाती है, अतः कवि को संयोग शृंगार का वर्णन करने के लिये उचित अवसर प्राप्त न हो सका ।

ईश्वरोन्मुख प्रेम :

कवि निसार सूफ़ी मतानुयायी थे अतः उनकी रचना में ईश्वरोन्मुखी प्रेम की उपलब्धि अत्यन्त स्वाभाविक है । सूफ़ी साधकों के व्यवहार में ईश्वर की कल्पना प्रियतम के रूप में की जाती है तथा सम्पूर्ण कथा के अन्त में उसे अन्योक्ति कहकर उसका अध्यात्मिक अर्थ स्पष्ट करने की चेष्टा होनी है । किन्तु कवि निसार की कथा का रूप दूसरा ही है । इसमें ईश्वर की कल्पना प्रियतम के रूप में नहीं है प्रत्युत प्रियतम के सौन्दर्य के आधार पर ईश्वर की कल्पना की गई है और उस काल्पनिक सौन्दर्य के वशीभूत हो अन्य सासारिक विषयों का त्याग कर दिया है ! तात्पर्य यह कि 'इश्क मजाजी' को 'इश्क हकीकी' के सोपान स्वरूप वर्णित किया गया है । 'इश्क मजाजी' में ही 'इश्क हकीकी' की अन्योंविन वैठाने की चेष्टा नहीं की गई है यद्यपि कवि सर्वत्र

इसमें सफल नहीं हो सका है ! कवि का प्रेमवर्णन लौकिक पक्ष से अलौकिक पक्ष की ओर अग्रसर होता है । ईश्वर प्रेम ही इस जगत में साध्य है । किमी अन्य का ध्यान तथा बहुदेवोपासना आदि सब मिथ्या तथा व्यर्थ के आडम्बर हैं । याकूब पुत्र प्रेम में इतने मग्न थे कि वे ईश्वरोपासना से भी विमुख हो जाते थे । ईश्वर अपने भक्तों में मिथ्या दम्भ तथा अज्ञान को सह नहीं सकता । वह शीघ्र ही उसे निर्मूल कर देता है । यूसुफ को अपने सौन्दर्य पर गर्व था । इतना कि वे उसका मूल्यांकन भी करने लगे । इसका खण्डन उन्हें केवल तीन दरप में वेचकर कर दिया गया । यूसुफ ने एक दिन अपने एक दास को कुपित हो पीटा । फलस्वरूप यूसुफ को भी दास के हाथों पिटना पड़ा । कवि इन स्थलों पर भारतीय कर्म भावना से पूर्णतः प्रभावित दिखाई पड़ता है । एक तपस्वी की भिक्षा पर ध्यान न दे याकूब अपने पुत्र के प्रेम में ही लीन रहे तथा भिक्षुक ने याकूब को श्राप दिया आदिक प्रसंग यूसुफ जुलेखा कथा में नहीं हैं । जान होना है कि दुष्यन्त शकुन्तला तथा रामायण के नारद प्रसंग आदि से प्रभावित होकर ही कवि ने इनका समावेश किया है । इन सभी प्रसंगों के वर्णन में कवि का उद्देश्य सासारिक मिथ्या मोह आदि से ऊपर उस परमात्मा की एक सत्ता पर विश्वास स्थापित करना है । यूसुफ से वियुक्त होने पर याकूब की अवस्था वर्णन करने के बाद कवि ने कुछ स्वतंत्र चौगाइया लिखी हैं जिनसे कवि का तात्पर्य स्पष्ट हो जाता है ।

अलख छाड़ चित्त उन सौ लावे, ताकर फल मानुस अस पावे ।
 दीन दयाल करै अस दाया, दिये अनूप सुखी कर साया ।
 तेहि दयाल कहँ दृश्य विसारै, देखे निसदिन नष्ट विचारे ।
 फुलवाटी बटु फूल लगाये, एक ते एक सुरंग बनाये ।
 जो मन पुहुः एक तिन लावे, जाय सुख कुछ हाथ न आवे ।
 चित्र अनेक जो रच्यो चितेरे, मोहित होय रूप रंग हरे ।
 आवे चित्र काज कहु नाहीं, चित्र काज संवारहु मन माहीं ।
 काहे न चित्त चितेरे लावहु, चित्र विचित्र रूप निरमावहु ।

जो कुछ रहे न हाथ महं, तेहि चित्त दीजिय काउ ।

जो न मरे नहिं वीछुडे, तेहि ते प्रीति लगाउ ॥

यूसुफ ईश्वर की सुन्दर सृष्टि का प्रमाण है । सृष्टि को उम परमात्मा की मदानता समझ कर प्यार करना उचित है किन्तु सृष्टि के हेतु उम सृष्टि कर्ता को भूल जाना ठीक नहीं । इसी प्रकार कवि ने जुलेखा को यूसुफ के विरह में अत्यन्त दुखी दिखाया है । और वह नवतक बराबर त्रियोगिनी ही रहती है जबतक उसका ध्यान अनेक देवी देवताओं में लगा रहता है, जैसे ही वह इन विखरी हुई भावनाओं को एकत्र करके एक ईश्वर की ओर उन्मुख कर देती है उसे यूसुफ तथा अपना सौन्दर्य और सत्ता आदि प्राप्त हो जाती है । उसे विश्वास हो जाता है कि इन सब गौचर पदार्थों से ऊपर भी एक परमन्त्व है जिसकी

आराधना ही श्रेयकर सोपान है और वह अपने चिराभिलषित यूसुफ के प्रेम की भी उपेक्षा कर देती है ।

मैं तो तोहि न जान्यो, जनम अकारथ सोइ ।
धन्य गरीब नेवाज तुहं, को अस दूसर होइ ॥

मैं विरथा यह जनम गंवाया, प्रेम विपत मानुख सों लावा ।
काहे न प्रेम अलख तें लाऊँ, जेहितें भोख भुगत पुन पाऊँ ।

जुलेखा को विश्वास हो गया था कि इस संसार की सारी वस्तुयें अस्थिर हैं अतः उनकी इच्छा करना अनुचित है । इच्छा केवल उसी अनन्त शाश्वत परमात्मा के प्रेम की सराहनीय है :

मैं जोवन अरु रूप उतंगा, देख लीन्ह कछु रहे न संग्गा ।

जाय फूल कुंमलाय जब रहै रग न वास ।
तेहि ते संवरहु एक वह जेहि के दुआो जग आस ॥

इस प्रकार कवि ने ईश्वरोन्मुख प्रेम को शनैः शनैः जगत के प्रेम आधार पर ही पुष्ट होता दिखाया है ।

प्रेम-तत्व :

कवि निसार ईश्वर के वाद प्रेम को ही बन्दनीय समझते हैं तथा संसार में सर्व-प्रथम प्रेमतत्व की ही उत्पत्ति मानते हैं । प्रेम के वाद अग्नि, अग्नि के वाद पवन, फिर पानी तथा पानी के पश्चात् धरती सरग, सूर्य चन्द्र तारागण इत्यादि की स्थिति इस जगत में हुई :

सुमिरौं प्रथम स्वरूप सुहावा, आदि प्रेम जिन नन उपजावा ।

प्रेम का स्थान मानव के हृदय में है मनुष्य रचना के वाद ईश्वर ने उसे प्रेम सौंप दिया ।

तेहि सौंवा वह प्रेम क थाती, दीपन माह धरा जस वाती ।
रचा मनुष तेहि रूप सोहावा, प्रेम आस तेहि हिये छिपावा ।

इसी प्रेम तत्व का संचार यूसुफ को स्वप्न में देखकर जुलेखा के हृदय में हुआ । उस स्वप्न के अन्तर्हित होते ही जुलेखा की दशा तुपारहत कमल के सदृश हो गई । वह चुपचाप अपनी वेदना सहने लगी । इसी मध्य उसे द्वितीय स्वप्न दिखाई दिया । यूसुफ ने विश्वास दिलाया कि वह भी जुलेखा के प्रेम में अधीर है ।

कहा कि अस मोहि उपज्यो षोगू ।
तुम तें अधिक सों विरह वियोगू ॥

सदा मोहि तुम्ह नियर विसेखो, दूजे पुरुष और नहि देखो ।

मिलन में यदि विलम्ब या कठिनाई हो तो प्रेमी उसकी चिन्ता कव करते हैं ।

होय विलम्ब सोच जनि मानहु, प्रेम न कतहुँ अविरया जानहु ।

जुलेखा को इन वचनों से ऐसा ढाढ़स मिला कि अब वह लोकलज्जा, संकोच सब कुछ त्यागकर केवल यूसुफ के ध्यान में रहने लगी ।

रखै लाग चित अविरम जोगू, भये मोहित लखि विरह वियोगू ।

और जुलेखा अपने प्रियतम को सदैव के लिये अपने पास रहने को विवश करने के लिये उतावली हो गई । प्रिय को पुनः अदृश्य होने से रोकने के लिये जुलेखा की युक्ति में कवि ने कितनी कोमल कल्पना की है ।

अवकी वेर वैर तोहि पाऊँ, वरुनि सजल पग साकर नाऊँ ।

एक प्रिय को हृदय में स्थान दे देने पर दूसरे के लिये स्थान कहाँ । प्रिय क्या और कैसा है इसका विवेचन प्रेमी का लक्ष्य नहीं होता, वह तो प्यार करता है । उम प्रेम में सामान्यता का अभाव होता है :

तोर जोत मोर हिये समानी, दूसर और कहा मैं जानी ।

अन्तकाल में निर्धन, शक्तिहीन, भिखारिणी जुलेखा से जब यूसुफ ने ईश्वर से अपने लिये कुछ माग लेने का आग्रह किया तब वह कहती है कि :

मागहु तुम्ह करतार तें देहि नैन कर जोत ।
जेहि तें देखहुँ तोर मुख, चहाँ न हीरा मोत ॥

वह एक बार प्रिय का दर्शन करना चाहती है । संसार की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु भी दर्शन लाभ प्रदायनी दृष्टि के सम्मुख कुछ नहीं है ।

कथा-सङ्गठन :

'यूसुफ जुलेखा' ग्रन्थ का कथा संगठन अन्य सूफी प्रेमाख्यानों की भाँति ही है । अन्य प्रेमाख्यानों की अपेक्षा 'यूसुफ जुलेखा' में रति भावना की उन्मुक्त व्यंजना हुई है । कवि ने नीति एवं धर्म की चर्चा अधिक न करके जुलेखा की प्रेम भावना का वर्णन प्रचुरता से किया है । कथा का आरम्भ परम्परागत है । कुरान की कथा को कवि ने अपनी

कल्पना से समन्वित करके वर्णित किया है। जुलेखा के जीवन की यूसुफ के सम्पर्क में आने के पूर्व, की चर्चा कवि कल्पित है। बाद में यूसुफ और जुलेखा के व्याह एवं सन्तान की चर्चा, यूसुफ का प्रेमी स्वरूप, निधन एवं जुलेखा की मृत्यु आदि घटनायें कुरान में नहीं हैं। फिर भी जुलेखा का मिस्र के वजीर अजीज का सम्बन्ध स्वीकार कर लेने से कुछ जटिलता आ गई है। कथा की यही जटिलता जहाँ एक ओर वजीर के यहाँ-दास रूप में उपस्थित यूसुफ की सच्चरित्रता को दृढ़ करती है वहीं दूसरी ओर जुलेखा के प्रेम भाव की तीव्रता को पुष्ट करती है। जुलेखा प्रत्येक सम्भव प्रयास के द्वारा यूसुफ को अपना बनाना चाहती है। कामचेष्टाओं के द्वारा, कारावास के दण्ड के द्वारा तथा रूप-सौंदर्य एवं पुनीत प्रेम की वुहाई देकर वह यूसुफ को अपना बनाना चाहती है किन्तु यूसुफ पर इन प्रयत्नों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राजपुत्री होकर भी वजीर से व्याह की स्वीकृति, मिस्र देश में निन्दित एवं पति द्वारा परित्यक्त होने पर भी यूसुफ की लगन उसके प्रेम की दृढ़ता के परिचायक हैं। इन कष्टों के भेलने के पश्चात् जब उसे यूसुफ की प्राप्ति हुई तो मानवीय गुणों के आदर्श यूसुफ के स्थान पर उसने परमेश्वर का प्रेम ही श्रेय समझा। कुरान में यूसुफ का चरित्र नबी के रूप में वर्णित है। जुलेखा का चरित्रचित्रण हेय है जबकि 'यूसुफ जुलेखा' प्रेमाख्यान में जुलेखा का चरित्र आदर्श प्रेमिका के रूप में स्पष्ट लक्षित होता है। कवि 'इश्क मजाजी' के आधार पर 'इश्क हकीकी' की स्थापना करना चाहता है। यूसुफ के निधन पर जुलेखा भी शोकाभिभूत होकर प्राण त्याग देती है। कवि ने कथा को दुःखान्त बनाने में अपना आशय स्पष्ट नहीं किया है फिर भी प्रतीत यही होता है कि पुत्र शोक से विह्वल कवि निसार ने संसार की नश्वरता के वर्णन के कारण ही कथा को दुःखान्त बनाया है।

रस :

कथा में शृङ्गार, वात्सल्य एवं करुण रस की चर्चा हुई है। शृङ्गार रस के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। वात्सल्य रस का परिचय याकूब की यूसुफ के प्रति की गई चिन्ता में एवं करुण रस का परिचय यूसुफ के निधन पर होता है।

वात्सल्य भावना का बढ़ा ही सजीव चित्रण यूसुफ के वन चारण जाने के समय हुआ है। यूसुफ के जाने के पूर्व याकूब ने उसकी वेश भूषा ठीक करके प्यार किया। जब यूसुफ लौटकर न आया तो याकूब पुत्र वियोग में व्याकुल हो रुदन करने लगे।

अपने हाथ सों केस बनाये, और पितैं वागा पहिराये।
वार वार लै हिये लगावा, माया तैं चख जल भरि आवा।

उनकी चिन्ता एवं पुत्र प्रेम इन पंक्तियों में साकार हो उठा है :

केहि वन महं तुम का परहेले, तुम्ह वालक कत फिरहु अकेले।

केहि सो साभ लै हिये लगाउव, भोर होत केहि लाल जगाउव ।
केहि के सुनव मधुर रस वाता, केहि कर हिये लगाउव गाना ।

करुण रस :

यूसुफ निघन प्रसङ्ग में करुण रस प्राप्त होता है । यूसुफ की मृत्यु हो जाने पर जुलेखा विलाप करती है :

चालीस वरस जोग में कीन्हा, सुन कै नाव सबै कुछ दीन्हा ।
जव तोर नाव सुनातै कोई, पावै लाख देखै जो कोई ।
वीस वरस रखौ दरस अधारा, वीस वरस सुन नाम सँभारा ।

इस विलाप में किञ्चित् वीभत्सता आ जाती है जब जुलेखा अपने दोनों नेत्र निकालकर यूसुफ के शव पर फेंक देती है ।

नैन काढ़ि दोउ लिहिस, दीन्हेसि ढेर पर डार ।
जेहि नैनन पिठ तोहि लखौं, देखौं काह निहार ॥

इसके साथ ही जुलेखा भी वही प्राणत्याग कर देती है :

स्वाय पछार जो छार पर, करै आह एक वार ।
पंछी प्रान सों उड़ि गयो, रहे छार मँह छार ॥

छन्द :

‘यूसुफ जुलेखा’ ग्रन्थ की रचना भी दोहा चौपाई के क्रम से हुई है । कवि ने एक अर्द्धाली को ही चौपाई मान लिया है । नौ अर्द्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम सम्पूर्ण ग्रंथ में निवाहा गया है । इसके अतिरिक्त कवि ने षट्श्रुत वर्णन के अन्तर्गत सोरठा एवं सवैया का भी प्रयोग किया है । पहले कुछ अर्द्धालियों एवं दोहे में उसी श्रुत का वर्णन करके फिर कवि ने सवैया में उसी विषय का प्रतिपादन किया है ।

सवैया :

सूखि समुन्द्र गये रवि तेज, सूखि गये सरिता जलधारी ।
सूखि गये पुहुमीपति मन्दिल, सूखि गये जल मेघ सुखारी ।

-सूखहि कूप तड़ाग लता द्रुम, बेलि बली वन औ फुलवारी ।
सूखहि निसार अंबुनल सूखहि, नाहिन ये अंखियान दुखारी ॥

सोरठा :

चहुँ दिस बजे निसान, हिये आन जागा मदन ।
केहि विधि रहे परान, विरह बान वेधे सदा ॥

अलंकार :

कवि निसार के काव्य में भी सादृश्यमूलक अलंकारों का प्रयोग ही अधिक हुआ है । उपमा, रूपक, उल्लास, दृष्टान्त, प्रतीप, अनुप्रास अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग है ।

दृष्टान्त :

दिये बहुत दुख संत कंह, करै बहून उद्धार ।
जैसे कंचन कीजिये खरा अग्नि मह डार ।

अनुप्रास :

डारहि डार औ पानाहि पाता, सुना वृत्त तिन विरहक बाता ॥

उल्लेख :

कोउ कहै अहै तम राजा, सोहै तहवा जोत विराजा ।
कोउ कह अहै निवेस सोहावा, वरत हेत कालिदी आवा ।
कोउ कहै कि नागिन कारी, दीन्ह छाड़ि मन सों उंजियारी ।
कोउ कहै श्याम अलि मोहा, पुहुप पराग आय तेहि सोहा ।

भाषा :

‘यूसुफ जुलेखा’ ग्रन्थ की भाषा भी साधारण बोलचाल की अवधी है । फारसी, अरबी या संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग ग्रन्थों में नहीं है । कवि ने मुहावरों का प्रयोग भी किया है जैसे आँखों में सरसों का फूलना, चाटक लगना, जर के छार होना, पंछी करते उड़ भागा, भवन का काट खाना आदि मुहावरों के प्रयोग से भाषा और भी सरल हो गई है । कवि ने कवित्तों एवं सोरठों में जहा ऋतु वर्णन किया है वहा भाषा कुछ ब्रजभाषा से भी प्रभावित है ।

कवि निसार के वस्तु वर्णन परम्पराभुक्त है । नगर महल यात्रा का वर्णन विस्तृत नहीं है । यहा तक कि यूसुफ और जुलेखा के व्याह का वर्णन भी विशेष नहीं है । ऐसा

जात होता है कि इन वर्णनों में कवि का मन विशेष नहीं रमा है। पट्मृत्, वारह मासे, नखशिख आदि का वर्णन अचश्य विस्तार से है।

रूप-सौन्दर्य-वर्णन :

यह वर्णन भी परम्परागत उपमानों के आधार पर ही है। कवि ने सृष्टि के प्रत्येक सुन्दर पदार्थ की योजना जुलेखा के रूप-सौन्दर्य वर्णन में कर दी है। यद्यपि यूसुफ के अद्वितीय सौन्दर्य के आधार पर ही कथा की गति है किन्तु कवि ने उसका वर्णन ही नहीं किया। सम्भवतः उसे मानुष समान कहकर कवि ने उसपर अपनी दृष्टि निक्षेप की असमर्थता सूचित की है। इससे या तो यह ज्ञात होता है कि कवि में स्वतन्त्र उद्भावना की क्षमता नहीं है, वह केवल परम्परागत वर्णनों के आधार पर नारी सौन्दर्य की चर्चा ही कर सकता है या फिर वह उस महानना को व्यञ्जित करना चाहता है जिसके चित्र की रचना में 'भये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर' कथन सत्य बैठता है।

जुलेखा का रूप वर्णन दो स्थानों पर है। प्रथम तो उसके रूप-सौन्दर्य का वर्णन उस समय है जब वह प्रेम या वियोग दोनों से ही अपरिचित है। द्वितीय स्थान पर वह पुनः अपना गत सौन्दर्य प्राप्त कर विवाह की सज्जा धारण करती है। इस स्थल पर वारहों श्लोकों, सोलहों शृंगार तथा नखशिख का पुनः वर्णन है। जुलेखा का रूप सौन्दर्य अनन्त है उसे देखकर किसी का चेत रहना असम्भव है—'वाउर होय जो दरसन हेरा', जुलेखा के सौन्दर्य और प्रकृति सौन्दर्य में साम्य है।—

दामिन अस वह मग सोहाई, केस घमन्ट घटा जस छाई।

नयेन वर्णन में कवि की उपमा विहारी के वर्णन से साम्य रखती है।

सेत साम अरु अरुन सोहावा ।

विख अमिरन मधु घोर दिखावा ॥

'जुलेखा' को विश्वकर्मा ने स्वयं-रत्नों हैं। सुन्दर कपोलों पर तिल की रचना उसे कुदृष्टि से बचाने के लिये है :—

'विसुकरमै लकि सुधर कपोला, टीठि परै तिल दीन्ह अमोला ।

जुलेखा की मुसकानि में जीवनदायिनी शक्ति है। उसका हास्य अमृत के समान माधुर्ययुक्त, शान्त तथा शीतल है।

'जो वह अधर मधुर मुसकाई, तो मिरतक कह देत जियाई।'

इस कथा में अन्य सूनी कवियों की भांति नारी रूप में इंग अंश की कल्पना नहीं की गई है, अतः जुलेखा के रूप वर्णन में कवि ने कहीं भी रहस्यमय परोक्षभाष का वर्णन नहीं किया है। उसका रूप वर्णन सौन्दर्य वर्णन मात्र है। कवि ने यूसुफ के रूपवर्णन का

प्रयास ही नहीं किया। जुलेखा की कटि-सूक्ष्मता का वर्णन कवि ने निर्गुण-सगुण भावना के सूक्ष्म भेद का आधार लेकर किया है :—

निरगुन सरगुन पाव जस, तस कटि परै न देखि ।
अवर अंग देखै नयन, मागहि लंक विसेख ॥

स्वभाव-चित्रण :

‘यूसुफ जुलेखा’ में पात्रों का स्वभाव चित्रण किन्हीं वर्गगत या व्यक्तिगत विशेषताओं के अनुसार नहीं है। अधिकतर पात्रों के सामान्य स्वभाव का ही वर्णन है।

यूसुफ जुलेखा कथा में आरम्भ से अन्त तक रहने वाले पात्र तीन हैं। याकूब, यूसुफ तथा जुलेखा। पहले हम इन्हीं के स्वभाव का चित्रण करेंगे।

यूसुफ :

नायक होने की प्राचीन पद्धति के अनुसार यूसुफ के चरित्र में आदर्श गुणों की स्थापना है। यूसुफ अपने बाल्यकाल में पिता का भक्त है यद्यपि उसके भाई उससे ईर्ष्या करते हैं, डाह रखते हैं तथापि वह उन सबों का भी हितचिन्तक है। अत्यन्त सुन्दर होने पर भी केवल एक स्थान पर ही उसके सौन्दर्य गर्व का कुछ आभास मिलता है। बन के मार्ग में जाते समय धूप तथा प्यास से व्योकुल यूसुफ जिस सौजन्यता से अपने भाइयों से विनय करता है वह सराहनीय है। जब उसके भाइयों ने उसे कुयें में ढकेल दिया तब वह रो रोकर यही विनय करता है कि उनके इस व्यवहार से पिता को अत्यन्त दुःख होगा। वे उसके पिता की भली प्रकार चिन्ता करें। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने दें। उसके इस संदेश को पढ़कर वनगमन के समय राम के संदेश का ध्यान आ जाता है। मार्ग में दास न होते हुये भी भाइयों की सम्मान रक्षा के लिये सत्य का उद्घाटन न करना, अत्यन्त रूपवती जुलेखा के प्रेम को भी कर्तव्य भावना के वशीभूत हो उकरा देना उसकी सज्जनता के प्रमाण हैं।

यूसुफ के भाइयों ने उसके प्रति अनेक प्रकार के अत्याचार किये। फिर भी अकाल के समय यूसुफ ने अपने भाइयों की द्वेष रहित सहायता की। अरबों की ऐसी प्रतिकार भावना प्रधान लड़ाकू जाति में ऐसे शान्त शीलवान चरित्र की स्थापना सराहनीय है। विवाह के पश्चात् यूसुफ के प्रेमी स्वरूप के दर्शन होते हैं।

याकूब :

याकूब के चरित्र में नबी के समान उच्चता नहीं है। यूसुफ सौन्दर्यवान तथा गुणवान अधिक थे अतः याकूब का उन्हें प्रेम करना स्वाभाविक है किन्तु इसी के आधार पर अन्य पुत्रों की अवहेलना करना उचित नहीं था। छोटे होते हुये भी अपने अन्य पुत्रों से यूसुफ

को अधिक भाग देना, अन्य के रात दिन कार्यरत रहते हुये भी यूसुफ को किसी कार्य में भाग न लेने देना उचित नहीं था ।

पुत्र वियोग में याकूब उसी की स्मृति में दिन व्यतीत कर देते हैं और अन्त में यूसुफ के राज्यकाल में सुख भोग कर इस संसार से प्रयाण करते हैं । याकूब के चरित्र में पुत्र प्रेम को ही प्रधानता है । उसी के कारण अन्य पक्ष उपेक्षित जान पड़ते हैं ।

जुलेखा :

जुलेखा अत्यन्त रूपवती होने पर भी सरल है । वह यूसुफ के प्रेम में अपना सर्वस्व अर्पण कर देती है । यूसुफ के मिस्र में होने की सूचना पाने पर वह अपने पद से नीचे एक वजीर के साथ व्याह करने को तैयार हो जाती है । किन्तु वजीर को यूसुफ स्वरूप न पाकर फिर वियोग मग्न हो पतिव्रत धर्म का पालन करती है । अपनी भावना में दृढ़ किसी भी परिस्थिति में अपने निश्चय से न डिगनेवाली जुलेखा अन्त तक यूसुफ की प्रतीक्षा में रहती है । वही जुलेखा यूसुफ प्राप्ति में ईश्वरानुकम्पा का आभास पा ईश्वर चिन्तन में उतनी ही दृढ़ता से लग जाती है । सम्पूर्ण कथा में जुलेखा के चरित्र की निश्चयात्मक एवं दृढ़ प्रवृत्ति की ही प्रधानता दृष्टिगोचर होती है ।

‘यूसुफ जुलेखा’ ग्रन्थ में वियोग एवं रति भावना का बड़ा सजीव तथा स्वाभाविक चित्रण हुआ है ।



प्रेम-चिनगारी

(शाह नजफअली सलोनी कृत)

‘प्रेम-चिनगारी’ के रचयिता शाह नजफअली सलोनी हैं। इनके जन्म एवं मृत्यु संवत् का उल्लेख इस ग्रन्थ में नहीं है। इनका स्थितिकाल वि० सं० १८६० के लगभग ही होगा जो कि इनके आश्रयदाता रोवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह का समय है। महाराज विश्वनाथ सिंह धर्मात्मा एवं सन्त फकीरों का आदर करने वाले थे। वे स्वयं विद्वान, लेखक और कवि थे। शाह नजफअली दोनों आश्रितों से अन्धे थे और महाराज उन्हें दो रुपये रोज गुजारा देते थे। महाराज विश्वनाथ सिंह जी के दीवान बंशीधर जी इस बात से बहुत चिढ़ते थे। कहते हैं कि एक बार कुछ सौदागर बेचने के लिये घोड़ा लाये। महाराज ने एक घोड़ा पसन्द किया। हुकुम हुआ कि शाह साहब से पूछा जाय कि घोड़ा कैसा है। शाह साहब ने अन्धे होने के कारण घोड़े को इधर-उधर टटोल कर कहा घोड़ा क्या है भैंसा है। दीवान बंशीधर यह सुनते ही बिगड़ उठे। महाराज ने आज्ञा दी कि घोड़े की परीक्षा की जाय। चाबुक सवारों ने उसे दौड़ाकर थका डाला। गर्मी से तग होकर घोड़ा पानी में घुस गया। सौदागर बुलाये गये। पूछने पर ज्ञात हुआ कि जानवर जब बछेड़ा था इसकी मा मर गई थी और भैंस का दूध पिलाकर इसका पालन हुआ था। दीवान साहब बहुत लज्जित हुये। कहा नहीं जा सकता कि इस कथा में कितना सत्य है किन्तु शाह नजफअली दिव्य दृष्टि सम्पन्न थे यह बात प्रसिद्ध है। एक और घटना इसी प्रकार है कि होली के दिनों में शाह साहब दरवार में पहुँचे। महाराज ने पूछा शाह साहब बताइये बाबू साहब (महाराज रघुराज सिंह) क्या पोशाक पहिने हैं शाह साहब बोले कि आज तो बाबू साहब दूल्हा बने हैं। इसी पर रघुराज सिंह जी ने यह दोहा कहा।

शाह सलोने जो वसैं पीर अता के पार ।
और के नैना टोय हैं नजफ शाह के चार ॥

शाह नजफ साहब सलोन जिला रायवरेली के निवासी थे और उनके पीर का नाम शाह करीम अता था। इनके ग्रन्थ ‘प्रेमचिनगारी’ के अतिरिक्त ‘अखरावटी’ का उल्लेख भी मिलता है जो उपलब्ध नहीं है। प्रेमचिनगारी की पुरानी पान्डुलिपि फारसी लिपि में श्री अख्तर हुसेन निजामी, एम ए. को रीवा में ही उपलब्ध हुई है। लेखिका को आप ही से यह ग्रन्थ प्राप्त हो सका है। अखरावटी के कुछ छन्द भी उनके पास हैं। अखरावटी के वत्तीसवें छन्द में इसका रचना काल इस प्रकार दिया गया है :

सन वारह सै चौबीस, एकतिस अच्छर बूझ ।
कह्यो नजफ अखरावटी, मनहि परा जस सूझ ॥

इसका रचना काल हि० सन् १२२४ ईसवी सन् १८०६ हुआ । रीवा के इतिहास में यह महाराज जयसिंह का समय है । किन्तु शाह साहब के इस समय के जीवन के बारे में अधिक ज्ञात नहीं है ।

इनकी मजार रीवा में ही इमाम शाह की दरगाह के बाहर बनी हुई है । ये हाफिज थे । सम्पूर्ण कुरान इन्हे कंठस्थ था ।

शाह नजफ अली का खर्च बहुत मामूली था और ये अपना अधिकांश धन दान कर देते थे । अपने जीवन काल में एक मस्जिद की नींव भी इन्होंने डाली थी जो तुर्कहटी की मस्जिद कही जाती है । प्रेमचिनगारी का रचना काल सन् १२६१ है ।^१

कथा-सारांश :

ग्रन्थ के आरम्भ में कवि ने निर्गुण वन्दना, सुहम्मद साहब की प्रशंसा, चार खलीफाओं एवं इमाम हसन तथा हुसेन का गुणगान तथा पीर की चर्चा की है । कवि ने मौलाना रूमी की मसनवी की दो हिकायतों का हिन्दी में उल्था किया है । मौलाना रूमी की पहली कथा में मानव को वासुरी मानकर सूफी अद्वैतवाद का स्पष्टीकरण है । शाह साहब स्वयं भी वासुरी की ध्वनि के प्रेमी थे और उन्होंने वासुरी की कथा को बड़ी सचि से लिखा है । दूसरी कथा हजरत मूसा पैगम्बर और गड़रिये की है जिसमें निर्गुणवाद की चर्चा है ।

पहली वासुरी की कथा :

वासुरी की हृदय द्रावक ध्वनि विरह कथा है जो वह सारे संसार को सुनाती है । वह अपने वन से अलग कर दी गई । उसके हृदय को वेधकर वासुरी वजाने वाला अपनी ध्वनि इस संसार में व्याप्त करना है जिसमें वासुरी का विरह भी लगा हुआ है । वासुरी की यह ध्वनि तो प्रत्येक प्राणी सुन लेता है किन्तु उसके गुप्त भेद को विरला ही समझ पाता है, जो कोई उस भेद को समझ लेता है वह निर्गुण मत को भी जान जाता है । वास्तव में यह वासुरी प्रेम की वासुरी है । इसकी ध्वनि मानव हृदय को प्रभावित करके उसे परम प्रेम का विरही बना देती है । इस वासुरी की ध्वनि को सुनकर मानव के सारे माया जाल नष्ट हो जाते हैं और वह केवल उसके प्रेम में आनन्द लाभ करना है एवं उसके वियोग में सन्तप्त एवं उन्मादित हो जाता है । इस वंशी में बनाने वाले की ध्वनि प्रसारित है । वास्तव में आत्मा केवल उम परमात्मा की

अभिव्यक्ति का साधन मात्र है। वह प्रियतम सब प्रेमियों के हृदय में निवास करता है। केवल वही मानव धन्य है जिसके हृदय में परमात्मा का निवास है। इस जगत में सर्वत्र केवल उसी की ज्योति प्रकाशित है जिसका हृदयमुकुर स्वच्छ होता है। वह अपने हृदय में ही ज्योति के दर्शन कर लेता है।

कथा हजरत मूसा 'पैगम्बर' और गड़रिये की :

एक बार हजरत मूसा भ्रमण कर रहे थे तभी मार्ग पर उन्हें एक चरवाहा दिखाई दिया। वह गड़रिया प्रेम में इतना उन्मत्त था कि निरन्तर परमेश्वर के ध्यान में मग्न उसके प्रति अपनी प्रेम भावना को व्यक्त करता जाता था। वह सब प्रकार से परमेश्वर की सेवा करके आनन्द लाभ करना चाहता था। उसकी इस प्रेमोन्मत्त दशा को देखकर हजरत मूसा ने पूछा कि वह किसके प्रति ऐसी भावनायें व्यक्त कर रहा है। हजरत मूसा ने यह जान लेने पर कि वह परमेश्वर का ध्यान कर रहा है उसे बहुत धिक्कारा और कहा कि 'परमात्मा ज्ञानगम्य है, उसके प्रति प्रेम की ऐसी भावनायें व्यक्त करना गुनाह है।' चरवाहा इस उपदेश को सुनकर बहुत निराश हुआ और अत्यन्त दुखी एवं जीवन से विरक्त होकर जंगल की ओर भागा। परमेश्वर को मूसा का यह उपदेश उचित नहीं लगा और उसने तुरन्त उनके पास प्रेमोपदेश पूर्ण संदेश भेजा जिसे सुनकर मूसा उस चरवाहे के पीछे दौड़े। बहुत खोज एवं कष्ट के पश्चात् जब वह चरवाहा मिला तो मूसा ने क्षमा याचना की और उसके प्रेम भाव की सराहना की किन्तु मूसा की चेतावनी ने चरवाहे के बीच से प्रिय और प्रेमी की द्वैत भावना भी मिटा दी थी और वह जीवन-मुक्त हो चुका था। जिस प्रकार वंशी की ध्वनि के द्वारा उसके बनाने वाले को पहचाना जाता है उसी प्रकार आत्मदर्शन परमस्वरूप का दर्शन करा देता है।

भाषा :

'प्रेम चिनगारी' की भाषा अथवी है। भाषा स्पष्ट तथा सहज एवं बोधगम्य है।

रस :

शान्त रस ही इस ग्रन्थ में उपलब्ध होता है क्योंकि वैराग्य या निर्गुण सिद्धान्त की ही व्याख्या की गई है अतः निर्वेद प्रधान है। अलंकारों का समावेश सिद्धान्त निरूपण के कारण सम्भव न हो सका।

विशेष :

कवि ने रूमी की गमनवी की दो हिदायतों का निलक या व्याख्या ही इस कथा में की है। कवि स्पष्ट लिखता है कि उसने मौलाना रूमी की कुछ बातों का निलक बनाया

है और उसे अपने विचारानुसार 'प्रेम चिनगारी' नाम दिया है ^१ । कवि व्याख्या करने में कहें तक सफल हुआ यह उसकी कुछ पंक्तियों से स्पष्ट हो जायगा ।

'सुनो, वासुरी अपनी व्यथा गा गाकर सुना रही है । जब से मेरा विछोह बन से हुआ है मेरे इस रोदन गायन ने कितने ही नर नारियों के हृदय को द्रवित किया है । यदि मुझे मेरे ही समान विरही हृदय मिल जाय तो मैं उसे अपनी विरह व्यथा समझा सकने में सफल हो सकूंगी । प्रिय का विरही सदैव उससे मिलने की आकांक्षा रखता है ^२'

सुनो कथा वासुरिया गावै, विछुड़न की गति रोय सुनावै ।
वन सों काट भई हम न्यारी, सबद सुनत रोवें नर नारी ।
छाती टूक टूक कै पाऊँ, तौ विरहा के चोप सुनाऊँ ।
पिय से मिल विछुड़े जो कोई, फेर मिलन जो है नित सोई ।

'मैंने अपनी इस दुखपूर्ण गाथा को सभी से व्यक्त किया । सुखी और दुःखी सभी ने मेरी गाथा को सुना । सभी ने अपने विचारानुसार मेरी ध्वनि का अर्थ लगाया । मेरे तत्व को समझने का प्रयास किसी ने नहीं किया । मेरा रहस्य मेरी ध्वनि (सुर) में ही छिपा हुआ है किन्तु नेत्रों और कानों में यह क्षमता नहीं है कि वे उसे समझ सकें । शरीर और आत्मा के मध्य कोई ऐसा अभेद्य रहस्य नहीं है जो जाना न जा सके किन्तु फिर भी आत्म-ज्ञान किसी को उपलब्ध नहीं हो पाता ।'

मैं सब सों धुन रोय सुनावा, सुखी दुखी सब धुन सुन पावा ।
आपन मत जान्यो सब कोई, मीत भये मेरे सुन सोई ।
गुप्त भेद कोऊ नहिं बूझै, जेहि बूझै निर्गुन छवि सूझै ।
भेद मोर धुन सों नहिं न्यारा, चख सखन पै नहिं उजियारा ।

१. मेरे ध्यान वस्तुओं का वारा, 'मौलाना रूमी' उजियारा ।
सुन सुन कुछ बेतें तिनकेरी, लाल रतन सों अधिक उजेरी ।
तित्त 'वैतन' कर तिलक बनाइयो, हिन्दी भाषा में कहि गायों ।
मन उपजा तस कियो विचारी, राख्यो नाम प्रेमचिनगारी ।

२. Listen to the reed how it tells a tale, complaining of separations
saying 'Ever since I was parted from the reed bed, my lament
hath caused man and woman to moan.

I want a bosom torn by severance, that I may unfold (to such
a one) the pain of love desire.

Every one who is left far from his source wished back the
time when he was united with it

(Translation of Book I Nicholson)

जीऊ से देह देह से जीऊ, विलग नहीं जल दूध में धीऊ ।
पै उधरँ जिय के जव नैना, तव सभै बूभै यह बैना ।

‘वंशी की यह ध्वनि अग्नि के सदृश है । यह वायु नहीं है । वह जो इस अग्नि को हृदय में धारण नहीं करता है महत्वहीन है । वंशी के अन्तर में प्रेम की अग्नि है । मधु (शराव) में प्रेम का आकर्षण है । वासुरी प्रत्येक विरहिण की संगी है । इसके स्वर मर्म-मेद करते हैं ।’

‘आगी कूकि य वंसी केरी, बाउ न होय जो लागै सेरी ।
जेहि हिय प्रेम न आगि लगावै, सुफला होय जो जन्म न पावै ।
प्रेम आगि वंसी भितराहीं, प्रेम उवारु भरा मधु माहीं ।
प्रीतम कै वासुरिया न्यारी, जाके सुनत हरै मत सारी ।
भरम लाज कै टाटी टोरी, बीच के आइ फाद कै डोरी ।

‘वंशी वाले के समान विष और उसके प्रभाव को क्षीण करने वाले से समन्वित कोई एक वस्तु प्राप्त नहीं होगी । वंशी के समान हृदय विदारक ध्वनि करने वाला कोई प्रेमी इस संसार में दिखाई नहीं देता । वंशी की ध्वनि सुनकर नेत्रों से अश्रुप्रवाह होने लगता है । वंशी की ध्वनि मजनों के समान प्रेमोन्मत्त बना देती है ।’

वंसी अस देखा नहिं कोऊ, जामैं विष औ मारग दोऊ ।
वंसी अस धुनि कूकनहारा, प्रेमी नहीं लखैं संसारा ।
वंसी कै भाषा सुन ताती, मध मधप है रक्त सैं राती ।
प्रेम कथा वंसी जव गावै, मजनों कै विरही वौरावै ।

हजरत मूसा और गड़रिया :

एक बार मार्ग में हजरत मूसा को एक चरवाहा मिला जो प्रेमोन्मत्त था और ईश्वर के प्रति इस प्रकार कहता जा रहा था कि ये मेरे प्रियतम वू कहा है मैं तुम्हारा सेवक बनकर तुम्हारे सम्मुख खड़े रहना चाहता हूँ । यदि तुम्हारी चरणपादुका टूटी है तो मैं उसे बनाना चाहता हूँ । तुम्हारे केश विन्यास, तुम्हारे शृंगार एवं भोजन पान का भार मैं अपने ऊपर लेना चाहता हूँ । यदि तुम्हारे शरीर में कोई रोग हो तो मैं उसको दूर करना चाहता हूँ । मेरी इच्छा है कि मैं रात दिन तुम्हारे साथ रहूँ ।

‘मूसा’ नवी चने मग माहा, लखै एकु चरवाहा ताहा ।
वाउर भेषु प्रेम मठ माता, भापै यहै कि ए जगदाता ।
कहा कहा तुडे प्रीतम मोरे, सेवक तोर रहीं कर जोरे ।
पग पनही टूटी लखि पाऊ, टाक सुधार तोहीं पहिराऊं ।
कवी करौ केग निखारौं, भारौं वार संवार सुधारौं ।

कापड़ तौर धोय उजियारे, चीलर काढ करौं सब न्यारे ।
अच्छन दूध लाय औटाऊं, घाल कटोरा तोहि पिलाऊं ।
जो कुछ रोग होय तोरी काया, मीत करै जस मीत की दाया ।
तस धर चीत मीत होइ तोरा, संघु देऊ तिहरो निस भोरा ।

हजरत मूसा के कहने पर जब वह गढ़रिया दुखी होकर जंगल की ओर भाग गया तब ईश्वर ने उन्हें यह संदेश भिजवाया कि 'तुमने मेरे सेवक को मुझ से पृथक कर दिया है । तुम नवी हो अतः तुम्हारा कर्तव्य भूली भटकी आत्माओं का मुझ से संयोग कराना है, वियोग कराना नहीं । यथासंभव तुम्हें मेरे प्रेमियों को मुझ से वियुक्त नहीं करना चाहिये । उस भोले प्रेमी के लिये प्रेम करना सराहनीय, तुम्हारे द्वारा उसका मुझ से विरक्त करना निन्दनीय है । उसके लिये वही अमृत है । तुम्हारे लिये यह विष है । उसके लिये वह जोति है । तुम्हारे लिये अग्नि है । उसके लिये फूल और तुम्हारे लिये कांटा है । उसके लिये भावावेश में आना पुण्य है और तुम्हारे लिये पाप है । उसको सब कुछ आनन्द है तुम्हारे लिये केवल संताप है । अपनी परिस्थिति के अनुसार ध्यान धारणा करके मेरे पास आने का प्रयास सराहनीय है । हिन्द में हिन्दी और सिन्ध में सिन्धी के द्वारा ही मेरी आराधना करनी चाहिये' ।

सो उपदेस न हरि को भायो, मूसँ वेग सदेस पठायो ।
सुमिरन करत तपा भटकाई, मोसे प्रेमी मोर छुड़ाई ।
तुहँ विछुड़े दरसावन आये, को तुई मिले छोड़ावन आये ।
सको तो जिन विछुडन मग धाओ, मिला होइ तेहि जिन विछुड़ाओ ।
ओहि करत तोहि निन्दा होई, महि पर ओहि तोहि विप होई ।
वाको जोत तोहि है आगी, ओहि फूल काटा तोहि लागी ।

वाको सुफल पुनि तोहि अहै सो पाप ।
वाको सब गुन नीक है तोको है संताप ॥

मै नहिं काज कीन्ह अस कोई, जासों मोहि लाभ कुछ होई ।

हिन्दी भाषा में करै, हिन्दी जाप हमार ।
सिन्धी करै सिन्धी में, सुमिरन मोर सुधार ॥

ऊपर कुछ छन्दों के यथानुवाद को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि शाह नजफ अली सलोनी अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में रूमी की दिकायतों का उल्था करने में निश्चित रूप से सफल हुये हैं ।

नूरजहां

(ख्वाजा अहमद कृत)

कवि का निवास स्थान प्रतापगढ़ तहसील के थाना जेठवारा के अन्तरगत बाबू गंज नाम का गाव था ।

इनके पिता का नाम लाल मोहम्मद तथा बाबा का बेचू था । इन्होंने अपने गुरु का नाम मोहम्मद अमीन दिया है । इनके पिता एक गरीब किसान थे ।

ग्रन्थ का रचनाकाल संवत् १६६२ है । कवि ने ग्रन्थ की प्रेरणा मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत एवं कासिम शाह की हंस जवाहिर से पाई थी ^१ ।

ख्वाजा अहमद ने अपना जन्म काल सन् १८३० या संवत् १८८७ वि० वतलाया है । इनका जन्म एवं निवास स्थान बाबू गंज नामक गाव था । इनके वंश वाले भी भाषा प्रेम रस के रचयिता शेख रहीम की भांति अनुसारी कहलाते थे । पता चलता है कि ख्वाजा अहमद ने अपनी नूरजहां नामक रचना मृत्यु से केवल दो माह पूर्व की थी । ये लगभग ७५ वर्ष की आयु पाकर मरे थे और सम्भवतः इस बीच उन्होंने स्फुट काव्य रचनाएँ भी की थीं ।

कथा-सारांश :

सरनदीप के अर्न्तगत ईरान गढ नामक एक नगर था, वहा के सुल्तान का नाम मलिकशाह था । वह शासन दक्ष एवं लोक प्रिय था । उसकी पटरानी का नाम नूरताव था । पुत्राभाव में दंपति अत्यन्त चिंतामग्न रहते थे । एक दिन सुल्तान अत्यन्त दुःखी

-
- १ मलिक मोहम्मद पुरुष न आना । कथा पदुमिनी कीन वखाना ॥
नद चित्तौर थौ सिंघल त्रीपा । लिखेउ बखान सो प्रेम सनीपा ॥
थौ कासिम जस दरिया यादी । लिखेउ हंस के कथा सो आदी ॥
वलख पो चीन प्रेम रस बोवा । लिखेउ अरय जनु समुद विलोवा ॥
अहमद तुम इन सबके चेला । इनके संघ चरन दे ठेला ॥
जह लौ मीत सघ रं रहेऊ । वन हिंछा कै सब मिलि कहेऊ ॥
लिरपी समुक्ति किहु प्रेम कहानी, प्रेम विरिद्ध के करहु किसानी ॥

होकर घरसे निकल जंगल में किसी नदी के तट पर तप करके लगा । उसके ध्यान करते ही दस्तगीर नामक पीर ने उसे दर्शन दिया ।

राजा की चिन्ता एवं दुख का परिचय पाकर पीर ने उसे एक सुन्दर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया । सुल्तान अपने घर लौट आया और यथासमय उसके अत्यन्त सुन्दर खुरशेदशाह नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ । खुशेद ने एक दिन स्वप्न में स्वर्णसिंहासनासीन एक सुन्दरी को देखा जिसे देखते ही उसकी नाँद दूट गई और वह विरह में पागल हो उठा ।

इधर रूप शहर के सुल्तान की पुत्री गुलबोस ने स्वप्न में खुरशेद को देखा और उसके प्रेम में दिवानी हो गई ।

इसी प्रकार खुतम शहर का सुल्तान खबरशाह था जिसकी रानी का नाम सभाजीत था । इनके एक अत्यन्त सुन्दरी पुत्री थी जिसका नाम नूरजहा था । नूरजहा की एक सखी सुमति नाम की थी जिसका पिता कवलकेस परियों का राजा था, सुमति एक ही दिन में सतों द्वीपों में भ्रमण कर लेती थी । एक ही दिन में नूरजहां ने सुमति से अपने योग्य वर ढूँढने को कहा, सुमति यह सुनकर वरकी खोज में उड़ चली । उड़ते उड़ते वह रूपनगर पहुँची जहाँ उसने रनिवास में खुरशेद का चित्र रक्खा देखा । चित्र को अत्यन्त सुन्दर देखकर सुमति सखी का रूप धारण करके गुलवास की सखियों के मध्य बैठ गई । एक सखी ने उसे बताया कि वह चित्र ईरान के राजकुमार खुरशेद का है जिसे स्वप्न में देखकर गुलवास बेकरार हो गई थी उसकी विरह तीव्रता देखकर ही सुल्तान ने यह चित्र मगवा दिया है और अब वे गुलबोस का विवाह उससे करने वाले हैं ।

यह वृत्तान्त सुनकर सुमति वहाँ से ईरान देश को उड़ चली, वहाँ खुरशेद को देखकर उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि खुरशेद वास्तव में बहुत सुन्दर है । शीघ्र ही वह वहाँ से खुतम की ओर उड़ी वहाँ पहुँचकर उसने नूरजहाँ से खुरशेद के सौन्दर्य का वर्णन किया । नूरजहाँ खुरशेद के सौन्दर्य पर मुग्ध हो गई । इधर खुरशेद नूरजहा को स्वप्न में देखकर गहत्याग कर नदी के किनारे समाधि लगाकर बैठ गया ।

नूरजहाँ सुमति से जिद कर रही थी कि किसी प्रकार खुरशेद के दर्शन करवा दो, सुमति एक दिन रात्रि में उठकर रूप देश गई और वहाँ से खुरशेद का चित्र उठा लाई । प्रातः काल जागने पर गुलबोस उस चित्र को न पाकर अत्यन्त व्याकुल हो गई । सुल्तान ने पान, वीरा देकर सबको खुरशेद की खोज में भेजा । उन कई खोजने वालों में से एक ने खुरशेद को नदी किनारे तपस्या करने देखा, यह देखकर उसने लौटकर सुल्तान को यह समाचार सुनाया और उसने अपनी फौज को उस जोगी को पकड़ लाने के लिये भेजा । इधर यह सेना जोगी की खोज में निकली उधर खुरशेद अपने साथियों के साथ नूरजहा की खोज में चल पड़ा । मार्ग में मिलने वाले चोर चहार देव दानवों के प्रभाव को परास्त करना हुआ जोगी आगे बढ़ता जा रहा था कि एक स्थान पर अत्यन्त संकट

में पड़ गया तभी वह सेना भी वहाँ आ पहुँची जिसकी मदद से वह संकट मुक्त हुआ। सेनापति के विनती करने पर जोगी उसके साथ चला और रूम देश पहुँचा, वहाँ सुल्तान ने वलात गुलबोस से व्याह कर दिया किन्तु सुहागरात के पहले ही परियों की रानी कंवलकेस गुलबोस को वहाँ से उड़ा ले गई। गुलबोस के माता पिता बड़े दुःखी थे किन्तु खुरशेद ने उन्हें समझा बुझाकर एक सेना के साथ वहाँ से प्रस्थान किया और विश्वास दिलाया कि वह गुलबोस को ढूँढने जा रहा है किन्तु वास्तव में वह नूरजहाँ की खोज में जा रहा था। सुमति उसका मार्ग प्रदर्शन कर रही थी। खुतन देश में पहुँचकर नूरजहाँ और खुरशेद का व्याह हो गया। कुछ दिन वहा आनन्दोपभोग करके खुरशेद नूरजहाँ को लेकर रूम में आया। अबतक परी गुलबोस को वहा छोड़ गई थी। गुलबोस खुरशेद को पाकर अत्यन्त हर्षित हुई गुलबोस और नूरजहाँ बहनों की तरह रहने लगीं। खुरशेद अपनी दोनों पत्नियों को लेकर ईरान पहुँचा। सुल्तान मालिक शाह और माता नूरताव उन्हें पाकर अत्यन्त सुखी हुये। खुरशेद राज्याधिकारी हुआ, कुछ समय पश्चात् सुल्तान और रानी स्वर्ग सिधारी। खुरशेद अपनी दोनों पत्नियों के साथ आनन्द से जीवन व्यतीत करने लगा।

ज्ञान हुआ था कि नूरजहाँ नामक ग्रन्थ गाव खटवारा जिला प्रतापगढ में एक सज्जन के पास है, देखने का उसे कई वार प्रयास किया किन्तु असफलता रही। कवि के जीवन चरित एवं कथा के सम्बन्ध में यह सूचना श्री गोपालचन्द सिनहा के द्वारा उपलब्ध हुई है।

कथा की विशेषतायें :

ग्रन्थ के नूरजहाँ नाम से इसके ऐतिहासिक कथानक का भ्रम होता है किन्तु वास्तव में कथानक काल्पनिक है। हंस जवाहिर के रचयिता कासिमशाह की भाति ख्वाजा अहमद ने भी दूरस्थित प्रदेश खुतन, ईरान एवं रूम को कथा के घटनास्थल के रूप में चुना है इसका आशय सम्भवतः कथा में चमत्कार की सृष्टि ही है। पात्रों के नामकरण भी इन प्रदेशों के अनुसार ही हैं किन्तु उनके रहन सहन एवं संस्कारों का उल्लेख कवि ने विशेष नहीं किया है। कथा में कुतूहल एवं चमत्कार की सृष्टि परियों, देव, दानवों, चोर चहारों आदि के द्वारा होती है। हंस जवाहिर ग्रन्थ की भाति नूरजहाँ के संदेश को ले जानेवाली एक परी ही है। कथा संगठन की दृष्टि से भी ग्रन्थ में नवीनता है। अन्य ग्रन्थों में नायक एवं नायिका में परस्पर प्रेम, स्वप्न-दर्शन, साक्षात्-दर्शन या गुण-श्रवण के द्वारा होता है किन्तु कथा नूरजहाँ में खुरशेद एवं नूरजहाँ एक दूसरे को स्वप्न में न देखकर खुरशेद नूरजहाँ को और गुलबोस खुरशेद को स्वप्न में देखती है अतः खुरशेद और गुलबोस के प्रयत्न में साम्य नहीं है इसी कारण कथा में विस्तार एवं गति है।

नूरजहाँ का अन्त नायक एवं नायिका के मिलन हो जाने पर होता है। गुलबोस एवं नूरजहाँ में भी प्रेम-भावना वर्तमान है, अतः कथा सुखान्त है।

कथा वर्णनात्मक है, भावात्मक स्थल अधिक नहीं है। कवि ने अलंकार योजना एवं रस-वर्चा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है।

नूरजहाँ ग्रन्थ की भाषा भी बोलचाल की अवधी है। एक प्रसंग देखिए—

अवसर सुमति तहाँ अस पावा, हाथ मुरति लै चरन उठावा ॥
 आई पास पाट सुलताना, देखै सुचित सो सोवै माना ॥
 तव लौ हाथ मुरति घै दीन्हा, थामेउ बाह सुचित तेहि कीन्हा ॥
 लखि सो रूप खुरशेद विसेसा, आदि सपन मूरति एक लेखा ॥

अन्य कवियों की भाँति कवि ख्वाजा अहमद ने भी दोहे चौपाई छन्द का प्रयोग किया है। चौपाई को चारपद का न मानकर कवि ने दो पद का माना है, यही कारण है कि नौ अर्द्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम निर्वाह किया गया है।

कथा के अन्त में कवि ने अपनी ग्रन्थ रचना का उद्देश्य तथा उसके रहस्य का उद्घाटन भी किया है। कवि ने हृदय में उत्पन्न प्रेम एवं प्रेम के महत्व के स्पष्टीकरण के लिये ही ग्रन्थ की रचना की है तथा इस कथा का रहस्य यही है कि जो कुछ ब्रह्माण्ड में है वही पिरड में है। कायागढ़ में ही नयनपुर, सरनदीप, खुनन देश एवं गढ़पति का निवास है। सीप के मध्य तत्व रूप में जिस प्रकार मोती की स्थिति है उसी प्रकार काया के मध्य तत्व रूप में वह ज्योति स्वरूप परमात्मा नूरजहाँ के रूप में स्थित है।

हिरदै-प्रेम प्रीत उलयानी, प्रेम कथा अब लिखी कहानी ॥
 कवन सो देस वसै जहँ मूरी; जेहि के लेखत होइ दुखदूरी ॥
 देखेउ यदि काँआ के माही, दूसरे घाट अवर कहँु नाहीं ॥
 काया माझ नयनपुरघाटा, देखेउ सरनदीप के वाटें ॥
 रूम खुतन काआ के (नैन) माझा, काआ माझ भोर ओ साझा ॥
 सब गढ़पति काआ के माही, दूसर ठाउ लखी कहँु नाहीं ॥
 नूरजहाँ काआ के जोती, काआ समुद सीप जहँ मोती ॥

भाषा प्रेमरस

(शेख रहीम कृत)

शेख रहीम बहराइच जिले के जरवल नगर के निवासी थे । ये हनफी मत के शेख, अन्सारी जाति के थे । इनके पिता का नाम यारमुहम्मद था तथा सारा गाव इनके पिता को नबी या शेख कहना था । कवि के बाबा का नाम शेख रमजान था । इनके पिता का देहान्त जब ये पांच वर्ष के थे तभी हो गया था । इनके नाना खुदाबख्श ने इन्हें पाला । ये बहराइच को अत्यन्त पवित्र स्थान मानते हैं क्योंकि वहाँ परमेश्वर के प्रिय सैयद गाजीशाह की समाधि बनी हुई है । इनके गुरु का नाम विलायत अली था जो सैयद कुल के थे ।

नाव रहीम मोर जग जाना, जरवल नगर जनम अस्थाना ।
जाना चहौ जात हमारी, हनफी मता शेख अन्सारी ।
पितृकर यारमुहम्मद नाऊं, नबी शेख कहै सब गाऊं ।
पाँच वरस रहिके मम सीषा, पिता हमार सरग मग दीसा ।
कीन पिता जो आपन चाला, नाना खुदाबख्स मोहिं पाला ।

कुल उत्तम सैयद खरे, अली विलायत नाव ।
सोई मोरे है गुरु, मैं चरनन वलि जाव ॥

शिक्षा आदि :

उर्दू, फारसी की थोड़ी सी शिक्षा इन्हें मिली थी तथा हिन्दी भाषा से भी ये परिचित थे । मलिकमुहम्मद जायसी की पद्मावत तथा कासिमशाह की हंसजवाहिर पढने के बाद इनका मन भी एक ऐसी ही प्रेमगाथा लिखने को हुआ निदान एक काल्पनिक कथा 'प्रेमरस' की रचना इन्होंने की जिसमें प्रेमसेन तथा चन्द्रकला के प्रेम वर्णन हैं । इस कथा का वर्णन उन्होंने किसी विशेष उद्देश्य से नहीं किया, मनोरञ्जन ही उमका ध्येय माना है ।

मित्र महाशय, गुन सदन, चित्त बहलावन हेत ।
कहीं कहानी प्रेम की, होय के सुनो सचेन ॥

रचनाकाल तथा जीवनकाल :

कवि के रचनाकाल के समय सम्राट् सप्तम् एडवर्ड का देहान्त हो चुका था और उनके पुत्र पञ्चमजार्ज का शासनकाल आरम्भ हो गया था। कविने अपनी पुस्तक का रचनाकाल 'तीन वाढ सन १६ ईसा' या 'तीन वारह सन १६ ईसा' दिया है। पञ्चमजार्ज के सिंहासनासीन हो जाने के कारण यह तीन वारह ही अधिक उपयुक्त ज्ञात होता है।

‘एडवर्ड सतयें जगजाना, भयो सरग महं जिनकर थाना ।
पंजम जार्ज तेहि सुत न्याई, जगमा कीरति जिनकर छाई ॥
तीन वारह सन् उनइस ईसा, वरनूं कथा सुमिर जगदीसा ।

कवि रहीम इस प्रकार आधुनिक काल के कवि ठहरते हैं, इन्होंने भी कासिमशाह और जायसी को अपना आदर्श मानकर 'प्रेमरस' की रचना आरम्भ की है। प्रेमरस का कथानक काल्पनिक है। इस प्रकार कवि का स्थिति काल तथा रचनाकाल तो अवश्य ज्ञात हो जाता है किन्तु उनकी जन्मतिथि जानने का पुस्तक में कोई साधन नहीं। इन्होंने अपने ममकालीन कई मित्रों की चर्चा भी अपनी पुस्तक के अंत में की है। वाजिदश्ली, निरतविहारी माथुर, लाभामल तथा वैश्य वृजवहादुर का मित्ररूप में परिचय दिया है। इनमें से निरतविहारीलाल माथुर तथा लाभामल जी अभी जीवित हैं। एक बार उनसे मिलकर रहीम के सम्बन्ध में जानकारी हासिल करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है।

कवि के पिता का नाम यारमुहम्मद तथा गुरु का नाम विलायतश्ली था। ग्रंथ का रचनाकाल सन् १६१५ ई० अथवा सं० १६७२ वि० पड़ता है। कवि ने अपनी शिक्षा आदि का विशेष परिचय नहीं दिया है किंतु उसे उर्दू एवं फारसी का ज्ञान था। अपनी शिक्षा एवं पुस्तकाध्ययन के सम्बन्ध में कवि लिखता है :

उदूँ फारसी कुछ कुछ सीखों, भाषा स्वाद तनिक इस धीखों ।
पद्मावत देखों निरथाई, मलिक मुहम्मद केर वनाई ।
हंस जवाहिर कासिम केरी, पढो सुनो पुस्तक बहुतेरी ।

कवि के जीवन सम्बंध में इतना ही उसके ग्रंथ 'भाषा प्रेमरस' के द्वारा ज्ञात होता है।

कथासारांश :

रूपनगर एक अनुपम देश में राजा रूपसेन राज्य करते थे। उसकी रानी रूपमती तथा राजा स्वयं दोनों सतानहीन होने के कारण चिंतित रहा करते थे। एक दिन रानी ने लक्ष्मी को स्वप्न में उसके यहा चंद्रकला रूप में अवतरित होने की सूचना देते हुये देखा। यथासमय चंद्रकला उत्पन्न हुई तथा पांच वर्ष की अवस्था में पढने बैठने ही सब कलाओं में विख्यात हो गई। तभी राजा के मंत्री बुधसेन के यहाँ प्रेमसेन नामक पुत्रोत्पन्न हुआ

जिसे प्रेम के कारण 'प्रेमा' नाम से पुकारा जाता था। चंद्रकला और प्रेमसेन दोनों एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे। प्रेमा तथा चंद्रकला में शनैःशनैः प्रेमोत्पन्न हो चला। इसकी चर्चा सुन गुरु ने उसे इससे विरत करना चाहा किंतु सम्भव न जान राजा को सूचना दे दी।

राजा इस सूचना से अत्यन्त क्रोधित हुआ और उसें पढने जाने से रोककर ऊपर पंचमहल में बन्द कर दिया। प्रेमसेन चन्द्रकला को पाठशाला में न पा अत्यन्त दुःखित रहने लगा। वह अत्यन्त दुर्बल तथा सासारिक सुखों के प्रति उदासीन हो गया। उसके एक मित्र बलसेन ने सारा हाल प्रेमा से जानकर पुरस्कार का प्रलोभन तथा अग्रगामी प्रसाद मोती की माला देकर अन्तःपुर की मालिन मोहिनी के द्वारा प्रेमा का संदेश चन्द्रकला के पास पहुँचा दिया। चन्द्रकला ने प्रेमा को पत्र द्वारा मिलन का सन्देश दिया और उसी रात्रि में प्रेमसेन नारी का रूप धारण करके चन्द्रकला से मिलने चल दिया। मोहिनी तथा मोहिनी की मा भी उसके साथ गई। इस प्रकार प्रेमा और चन्द्रकला का मिलन हुआ। दोनों वहा से अन्यत्र कहीं भाग निकलने की सोचने लगे किन्तु चन्द्रकला इस विचार से बहुत अधिक सहमत नहीं हुई। यहीं प्रसंगवश प्रेमसेन चन्द्रकला से यूसुफ और जुलेखा की प्रेम कथा का वर्णन करता है। उसके यहाँ से लौटकर प्रेमसेन ने अपना प्रेम वृत्तान्त अपनी माता से कह दिया। इस पर वह तथा बुधसेन दोनों अत्यन्त भयभीत हुये। प्रेमा के पिता ने कहा 'निकस घरते हंत्यारे, करं मुख करं अंतं कहें जारे।' प्रेमा संसार का सब कुछ मिथ्या समझकर घर से निकल गया और बहुत दूर चला गया। जंगल में सहपाल नामक किसी गुरु से उसकी भेंट हुई और गुरु की कृपा से वह नाम जप की साधना में प्रवृत्त हो गया।

प्रेमा के गृहत्याग की सूचना महल तक पहुँच गई और चन्द्रकला अत्यन्त दुःखित रहने लगी। इसी बीच एक दिन रात को एक दैत्य उसे महल से सोती हुई उठा ले गया। उसे किसी पर्वत पर जहाँ उसके चालीस घर थे जाकर उतारा। उसने चन्द्रकला पर विश्वास करके उसे सब घरों की चाभिया देदी और चेतावनी देदी कि वह किसी विशेष कोठरी को न खोले। यदि कभी खोले भी तो मौन रहकर। यह कहकर वह दैत्य वहा से उड़ गया। नित्यप्रति वह इसी प्रकार वहा से उड़कर आने जाने लगा। वह चन्द्रकला को कुछ समय में अपने प्रेम से वशीभूत कर लेना चाहता था।

चन्द्रकला के पिता रूपसेन ने अपनी पुत्री की खोज चारों ओर करवाई तथा इस कार्य के लिये क्रोतवाल और कुट्टिनियों को नियुक्त कर दिया। एक दिन एक कुट्टिनी ने मोहिनी मालिन के हाथ में महल से मिले हुये कगन को देखकर उसके घर की तलाशी करवाई और सम्पूर्ण हाल जानकर बुधसेन का घर लुटवा कर उसे बन्दी बना लिया। बुधसेन की स्त्री अत्यन्त दुःखित हो घरवार छोड़कर वन में भटक कर पुत्र वियोग में रोने लगी। उसके रोने की सूचना न्मि पत्नी के द्वारा सहपाल गुरु को लगी। प्रेमा उम्मीदोज में निकला और अपनी माता से सम्पूर्ण वृत्तान्त जानकर उसे गुरु सहपाल के पास ले गया और गुरु ने परामर्श करके चन्द्रकला की खोज में निकला।

इधर चन्द्रकला बड़े कष्ट में दिन बिता रही थी। उसने एक दिन दैत्य की चालीसवीं कोठी खोल दी जिसमें रखे हुये नरमुन्डों ने दैत्य के मारने का उपाय तथा प्रेमा के वहा तक आने की सूचना दे दी। प्रेमा चन्द्रकला के पास गया और उससे दैत्य को मारने की तरकीब जानकर वह अपने उद्देश्य में सफल होने चला जिसकी पूर्ति प्रेमा के गुरु की अनुकम्पा से हुई। उन दोनों ने दैत्य का धन लेकर गुरु से प्रेम की शिक्षा ग्रहण की। प्रेमा-चन्द्रकला और प्रेमा की माता वहा से उड़नखटोले पर बैठकर रूपनगर गये जहा प्रेमा और चन्द्रकला का विवाह हो गया। बुधसेन बंधन मुक्त हो गये और सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे।

देश निकाले का दण्ड पाकर मालिन ने इस्लामावाद के सुल्तान अविद के यहा शरण ली और चन्द्रकला की रूप प्रशंसा करके उसे रूपनगर पर आक्रमण करने के लिये प्रेरित किया। सुल्तान अविद ने नरसंहार मचाकर रूपनगर में अशान्ति कर दी किन्तु चन्द्रकला के रूप सौन्दर्य को देखकर वह फकीर हो गया। चन्द्रकला ने फिर गुरु की शरण ली और उनकी अनुकम्पा से मृत जीवित हो गये और प्रेमी गण फिर आनन्द में दिन बिताने लगे।

प्रेमरस की प्रेमपद्धति :

कवि ने प्रेम का स्वाभाविक विकास वर्णित किया है। बाल्यकाल से ही रूपगुण सम्पन्न प्राणी एक ही साथ रहते हुये स्वभावतः एक दूसरे की ओर आकृष्ट हो सकते हैं। समय पाकर यही आकर्षण रतिरूप में परिणत हो जाता है। प्रेमा और चन्द्रकला धीरे धीरे इसी प्रेम के निश्चय को प्राप्त हो चुके थे। उनके प्रेम में किसी प्रकार की द्विविधा न थी, वे दृढ थे। प्रेमा चन्द्रकला की प्राप्ति के लिये अपने प्राण भी उत्सर्ग कर सकता था। उसका गुरु को दिया हुआ उत्तर उसके प्रेम का प्रमाण है।

प्रेमा कहा सुनो गुरु वाता, प्रीत पुनीत सुभ कहा विधाता।

चन्द्रकला मन मां बसै, राखीं हर छिन चेत।

प्राण निछावर घालिहाँ, चन्द्रकला के हेत।

चन्द्रकला को जब उसके पिता ने घर से बाहर निकलने की मनाही करदी तो दोनों प्रेमी इस विरह कष्ट से अत्यन्त पीड़ित तथा क्षीण होने लगे किन्तु उनके व्यवहार में किसी भी प्रकार का उन्माद, पागलपन या लोकविरुद्ध कार्य नहीं दिखाई पड़ता। प्रेमा का छिपकर चन्द्रकला से मिलने जाना ऐसी कथायें तो राजमहलों में नित्य हुआ फरती हैं। अतः उसे अधिक निन्दनीय नहीं कह सकते। प्रेमा के महल से निकल चलने के आग्रह पर चन्द्रकला का उत्तर उसके लोक ममन्वित प्रेम का प्रमाण है।

लौट जाओ धर आपने, धीरज रहो सम्हार।

जो विध लिखा ललाट में, आप मिलावन हार ॥

चन्द्रकला से मिलने के पश्चात् 'प्रेमसेन' अपनी मा से आग्रह करता है कि वह राजा रूपसेन से उन दोनों प्रेमियों का व्याह करने का आग्रह करे। किन्तु माता पिता प्रस्ताव करने की संभावना से ही इतने भयभीत हो जाते हैं कि प्रेमा को घर से बाहर निकल जाना पड़ता है।

चन्द्रकला और प्रेमा के इस प्रेम का पूर्ण विकास तब होता है जब प्रेमसेन चन्द्रकला प्राप्ति के लिये दैत्य का संहार करता है और उस प्रयत्न में असफल हो जाने पर गुरु की कृपा से फिर सफलता प्राप्त करता है। जिस समय सुल्तान अविद ने रूपनगर पर आक्रमण किया और प्रेमसेन युद्धभूमि में चला गया तब चन्द्रकला चिन्ताग्रस्त हो अटारी से देखने लगी। वही चन्द्रकला प्रेमा के मर जाने पर जय विजय या ऊहापोह छोड़ जीवन त्याग को तत्पर हो गई, फिर गुरु महिमा स्मरण कर पति के प्राणों को वापस ले आई। इस प्रकार प्रेमा तथा चन्द्रकला का प्रेम अत्यन्त स्वाभाविक तथा लोकाचार के अनुकूल है।

प्रेमा तथा चन्द्रकला का प्रेम साहचर्यजन्य है। उसमें किसी प्रकार की अस्वाभाविकता या लोक विरोधी तत्व नहीं हैं, प्रेम उत्पन्न होने की कई पद्धतियों में कवि ने 'साक्षात् दर्शन' को प्रथम दिया है। प्रेमा और चन्द्रकला दोनों ही रूप गुण सम्पन्न थे और साथ ही साथ रहकर शनैः शनैः इस संसार को परखने का प्रयास कर रहे थे। उनकी श्रेणियों में भी विशेष अन्तर न था किन्तु जुलेखा के पिता की भाति रूपनगर के राजा 'रूपसेन' सम्भवतः इतने उदार न थे कि चन्द्रकला और रूपा की प्रीति को सहर्ष स्वीकार कर लेते।

महाकाल दैत्य को मारने के बाद चन्द्रकला और प्रेमा दोनों स्वतन्त्र और एकान्त में थे। पूर्व परिचय और दृढ़ प्रेम होने पर भी उन दोनों के मध्य कोई ऐसा कार्य व्यापार या वार्त्तालाप नहीं होता जिसे लोकहित विरोधी कहा जा सके। घर लौटकर प्रेमसेन अपनी माता के साथ अपने गृह तथा चन्द्रकला अपने महल में जाती है और फिर लोकाचार के अनुसार ही उन दोनों का मिलन होता है।

कथानक का आधार :

जायसी की भाति कवि रहीम ने अपनी कथा के लिये ऐतिहासिक कथानक को न चुनकर काल्पनिक कथा-तत्व का आश्रय लिया है। बहुत सम्भव है चन्द्रकला और प्रेमसेन की प्रेम-कथा लोक प्रचलित रही हो। सम्पूर्ण ग्रन्थ में प्रमुख कथा ही प्रधान है यद्यपि दृष्टान्त रूप में प्रेमसेन ने 'यूसुफ जुलेखा' की प्रेमकथा चन्द्रकला से वर्णित की है। सुल्तान अविद के रूप में कवि ने प्रतिनायक की संयोजना की है।

संयोग शृंगार :

जायसी ऐसे बहुग कवि ने भी जहा एक ओर अपनी अध्यात्मिक तत्व की व्यञ्जना में सनर्कता दिखाई है वहीं दूसरी ओर संयोग शृंगार के वर्णन में सूफी 'वस्ल' के

स्वरूपका अतिक्रमण भी कर दिया है। शृंगार, सज्जा और फिर रतिवर्णन में विस्तार अतिशयता तथा अश्लीलता का समावेश भी है, किन्तु शेख रहीम ने 'प्रेमरस' में इस पद्धति का अनुसरण नहीं किया। प्रेमसेन और चन्द्रकला के संभोग का कहीं वर्णन ही नहीं है। विवाह के समय के दर्प को भी संभवतः कवि ने गर्व या आनन्दान्तिरेक का प्रतीक मान लिया है :—

‘भूले नीके रंग सब कोई का जानें आगे कस होई’ ।

और फिर क्रमशः वह प्रतिनायक की उद्भावना करके एक वार पुनः चन्द्रकला और प्रेमसेन में विछोह उत्पन्न करके प्रेम को परिपक्व करता है। अन्त विषादान्त न होकर सुखान्त ही है।

विप्रलम्भ शृंगार :

इन प्रेमकथाओं में विप्रलम्भ शृंगार का वर्णन ही अधिक है क्योंकि सूफी ईश्वर और जीव के विरह और प्रेम के उपासक हैं। शेख रहीम ने संयोग शृंगार की अधिक चर्चा नहीं की है। विप्रलम्भ शृंगार या पूर्वानुराग की चर्चा ही अधिक है। इन सूफी कवियों के वियोग शृंगार में एक विशेषता और है कि प्रिय और प्रेमी, नायिका और नायक दोनों ही विरह पीडित रहते हैं क्योंकि नायक को ये कवि सूफी साधक का रूप तथा नायिका को 'ईश्वरीय सौन्दर्य' का प्रतीक मानते हैं। साधक की प्रेम साधना से ईश्वर भी प्रभाविन होता है और साधक को ओर प्रेमदृष्टि से देखता है। दोनों ही साधक और साध्य एक दूसरे के मिलन के लिये उत्सुक रहते हैं अतः इस विप्रलम्भ के अन्तर्गत चन्द्रकला और प्रेमसेन दोनों के ही विरह की चर्चा करना समीचीन है।

सबसे पहले इस विरह का दर्शन उस समय होता है जब चन्द्रकला का पाठशाला जाना बन्द हो जाता है और प्रेमसेन उसके वियोग में दुःखित रहता है। उसे दैनिक कृत्यों से अरुचि हो गई

विस्तर गयो तेहि भोजन भोगा, चोला विरह आच ते सुखा ।

घर के सब व्यक्ति चिन्तित होकर पूछने लगे :—

काहे सिसकत राउरे भरे नैन मा आस ।

कौन चोट लागी हिये लेत हौ ऊबी सास ॥

उसका तन मन विरह से व्याकुल था। न शरीर की सुघ थी न मन में धैर्य था केवल एक विरह ही सब में व्याप्त था :—

तन की खैन न मन में धीरा, रह रह उठै विरह की पीरा ।

प्रेमसेन इतना अधिक चिन्तित था मानों सारे संसार की चिन्ता केवल उसे ही है ।

जगकर सोच माह मन गासा ।

परम्परागत वर्णन के अनुसार शेख रहीम ने भी अपने नायक के उपचार के हेतु वैद्यों और औषधियों की चर्चा की है, किन्तु प्रेम रोग में औषधि लाभ नहीं करती :—

प्रीति रोग जो रोगी होई, औषद लाभ देइ का सोई ।

इधर प्रेमसेन इस तरह विरह व्याकुल था उधर चन्द्रकला भी इस अप्रत्याशित वियोग से अत्यन्त दुखी थी । उसके विरह का परिचय चन्द्रकला द्वारा लिखित पत्र में प्राप्त होता है ।

हर छन सोच रहे मोरे प्यारे, विरह अग्नि तग उठत लोवारे ।

यद्यपि शरीर उसका महल निवासी था किन्तु उसका मन, उसकी भावनायें प्रेमसेन को समर्पित हैं :—

तन तो मोर ह्या कर वासा, मन पापी है तुम्हरे पास ।

प्रिय मिलन की आतुरता इन पंक्तियों में लक्षित होती है ।

नैना तकत प्रान मग तोरी, पुरवउ आस आय अब मोरी ।

तथा

तुम बिन प्यारे एक घड़ी है मोहें वरख समान ।

दरसन लालसा लाग है वेग मिली मोहि आन ॥

प्रिय वियोग में सुखद वस्तुयें भी दुःखद प्रतीत होती हैं । चतुर्दिक विरही को अपनी ही दुःखद भावनाओं का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता है । चन्द्रकला को भी

‘अमृत जल मानो विष घोरा, प्यास बुझाय दरस लग तोरा ।

तथा

फूलन सेज कांट अस खटके, नींद कहाँ तुम बिन हिय दरके ।’

इसी प्रकार चन्द्रकला के दिन व्यतीत हो रहे थे । जब प्रेमसेन को चन्द्रकला का पत्र मिला तो

प्रेमा मगन जुड़ाई छाती, आदि अन्त लै बाची पाती ।

फिर पाती लै हिये लगावा, पाती जस जीवन फल पावा ।

प्रेम की ये चेष्टायें सहसा और स्वाभाविक हैं तथा उसकी प्रेम भावना को व्यक्त करती हैं ।

इसी मध्य माता-पिता के क्रोध के कारण प्रेमसेन को घर छोड़ देना पड़ा और चन्द्रकला के लिये यह और भी विकलता का कारण हो गया । इससे भी अधिक क्लेश उसे तब हुआ जब प्रेमसेन से मिलने के लिये घर भी त्याग करने को उद्यत चन्द्रकला को महाकाल नामक दैत्य उड़ा ले गया । वहाँ वह प्रेमसेन से वियुक्त तथा दैत्य की भयङ्करता के कारण अत्यंत वेदना का अनुभव करने लगी । यहीं प्रसङ्गवश कवि ने विरहवर्णन के अंतर्गत परम्परागत 'वारहमासे' का वर्णन किया है जिसमें किसी प्रकार की नवीनता नहीं है ।

अग्रहन जाड़ घटे तन मोरा, जिउ कापे और लेय हिलोरा ।

धर धर हाथ हिया में छाप्यो, जाड़ न जाय रात भर काप्यो ।

इस प्रकार वारहमासे का वर्णन जान कवि ने भी किया है किन्तु शेख रहीम की एक विशेषता है कि वारह महीनों का वर्णन करने के पश्चात् भी वे 'मलमास' या 'लौंध' को नहीं भुला पाये हैं । इन दोनों शब्दों का प्रयोग अत्यंत लोकप्रचलित है ।

वारह मास विताय के राख्यो लौंध की आस ।

पिव रहीम मिलिहै बहुत वीतै ना मलमास ॥

इसी प्रकार हम देखते हैं कि शेख रहीम का विरह वर्णन किसी भी प्रकार लोकविरोधी न होकर परम्परागत ही है यद्यपि उसमें किसी भी प्रकार का पाण्डित्य प्रदर्शन या ऊहा नहीं है । हृदय के सहज स्वाभाविक उद्गार होने के कारण वर्णन आकर्षक तथा प्रिय हैं ।

प्रेम तत्त्व तथा आध्यात्मिकता :

शेख रहीम सूफी होने के नाते प्रेमोपासक थे अतः उनके काव्य में प्रेम तत्व की व्यञ्जना स्थल स्थल पर मिलती है । मानव ईश्वर के स्वरूप का प्रतिबिम्ब है । ईश्वरीय सौन्दर्य तथा गुणों का आभास मानव में है इस बात का स्पष्टीकरण वे सर्वप्रथम करते हैं ।

वह मूरत मानुख हव अहहीं, नर नारी जिनका सब कहहीं ।

इसी भाव की व्यवस्था कुछ चौपाई और दोहों के पश्चात् वे पुनः करते हैं । अहं या अस्तित्व की भावना केवल एक ईश्वर के लिये ही सत्य है और किसी का यह गर्व मिथ्या दम्भ है । 'मैं सो है सरकार का' केवल एक ईश्वर ही सत्य है और वही ईश्वर इस संसार में व्याप्त है । उसका सौन्दर्य और गुण मानव में विशेष रूप से लजित है । हदीस है कि अपने सौन्दर्य के स्वयं दर्शन के हेतु अल्लाह ने मानव की रचना की ।

मानव वह आदर्श है जिसमें अल्लाह का रूप दर्शन सम्भव है। इसी भाव को वड़े संक्षेप में शेख रहीम रखते हैं :

नर नारिन के अंग में वही रूप परकास

इस रूप प्रकाश के पीछे 'प्रेमतत्व' की स्थिति है। जगत की सृष्टि ही प्रेम के कारण हुई है। प्रेम की सर्वप्रथम उत्पत्ति अल्लाह के हृदय में हुई।

प्रथम रूप रव के मन भावा, प्रेम के कारन जगत बनावा।

और इस जगत में उसके रूप का प्रसार है जिसे देखकर पुनः प्रेम जाग्रत हो जाता है। इस रूप सम्पन्न मानवीय समूह में :

देखा रूप प्रेम मन आवा, रूप प्रेम का खँच बुलावा।
जहा रूप तहा प्रेम की वावा, जहा प्रेम तहा रूप प्रकाशा।

प्रेम और रूप का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। सौन्दर्य या रूप से प्रभावित होकर प्रेम उत्पन्न होता है। सूफी प्रेमाख्यानो में लगभग सभी में प्रेम, रूप का सौन्दर्य जनित ही होता है, अतः

रूप प्रेम नर नारिन माहीं, संग रहै जस धामा छाहीं।

इसी प्रकार प्रेमसेन और चन्द्रकला का प्रेम भी सौन्दर्य जन्य है। प्रेम की उत्पत्ति अनायास ही हो जाती है। अन्य ज्ञान की भाँति प्रेम ज्ञान को सीखने का प्रयास नहीं करना पड़ता, साधारण ज्ञान उस प्रेम ज्ञान के सम्मुख तुच्छ है क्योंकि सत्य प्रेम का ज्ञान ईश्वर प्राप्ति में सहायक होता है और अन्ततः ईश्वर को मिला भी देता है। प्रेम में श्रद्धा और विश्वास का विशेष स्थान है। ग्रन्थज्ञान या तर्कज्ञान की कोई महत्ता नहीं। यह प्रेम मनुष्य हृदय के सारे कल्मषों का नाश कर उसे शुद्ध सात्विक बना देता है। अपने इन्हीं विचारों को कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया है।

प्रेम का ज्ञान जगत ते न्यारा, सिखवै प्रेम ज्ञान गुन सारा।
प्रेम ज्ञान सीखै नहिं आई, आवै आप सो आय समाई।
जगत ज्ञान तेहि आगे चेरा, प्रेम ज्ञान चित करै उजेरा।
प्रेम ज्ञान हरि रूप दिखावै, धन्य सुभाग जेहि के चित आवै।

प्रेम ही इस जगत में सराहनीय है। प्रेम के बिना शुष्क ज्ञान का कोई महत्व नहीं। इश्क मज़ाजी का इश्क हकीकी के सम्मुख कोई महत्व नहीं। प्रेम भौतिकता से अलौकिकत्व की ओर उन्मुख होता है अतः दोनों ही अर्थ इससे सिद्ध हो जाते हैं। किन्तु नीरस ज्ञान से एक में भी सफलता तिश्चित नहीं होती। अतः सूफी साधक प्रेम को ही श्रेय मानता

है। इश्क ही उसका सब कुछ है। इसी प्रेम के द्वारा वह परमनत्व को प्राप्त करने का प्रयास करता है। साधक के हृदय में सर्व प्रथम प्रेम की पीर उत्पन्न होना आवश्यक है :

प्रेम पीर जो भीतर होई, सुमिरि सुमिरि सो निशदिन रोई।

यही विरह व्यथा प्रेम की पीर एवं साधक की माधना को तीव्रता प्रदान करती है।

प्रम वावला भयो न चंगा, शानिन केर तहा मत भंगा।

इस प्रकार वावला प्रेमी ईश्वर को पाने में समर्थ होता है। प्रेम ही ईश्वर की अखण्ड ज्योति का दर्शन पाता और उसमें लीन हो जाना है। इसी तत्व की विवेचना शेख रहीम ने सूफी चतुर्सीपान तथा वस्तु के रूप में किया है। चन्द्रकला को ईश्वरीय सौन्दर्य का प्रतीक मानकर कवि चन्द्रकला के पंचमहला में रहने के समय रूपक बांधकर कहता है :

प्रेमी खोज लेउ वह जोती, पाच खण्ड चडि पावौ उदती।

आगे उन्हीं पांच खण्डों का वर्णन कवि इस प्रकार करता है :

पहले पकड़ शरीयत राहा, पहुँची दाव तरीकत जाहा।

फेर तरीकत. नाधि के, देख हकीकत आप।

होय मारफत जो तुम्हे, वासों होय मिलाव ॥

जब वह मिला मिला सब कोई।

इस प्रकार कवि प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का निश्चित साधन मानता है। प्रेम के द्वारा ईश्वर से मिलना सम्भव है, अन्यथा नहीं। इस संसार में सत्य और असत्य दोनों ही का मेला है। दो विरोधी तत्वों का समाहार ही संसार है। इसमें से सत्य को ग्रहण करने वाला आनन्द प्राप्त करता है। सत्य प्रेम को धारण करने वाला ईश्वर को प्राप्त करता है और असत्य को ग्रहण करने वाला केवल पछताता रहता है।

जगत की लगी बजार है, सत असत् चिकाय।

सत्त विसाहै सुख लहै, लिये असत् पछताय।

प्रम हृदय की निश्चयात्मक प्रवृत्ति है। उसमें किसी प्रकार की शंका, द्विविधा तथा लालच का स्थान नहीं अतः प्रेमी का किसी एक विशिष्ट से प्रेम होता है उसके समान या वैसे से ही नहीं :

जो मन लागा एक ते दूसर सुवर न भाय।

देख पेड़ सब मा वही, वही वही गोदराय ॥

ईश्वर की सर्वात्मकता की इससे सहज और सरल व्याख्या क्या हो सकती है ।

प्रिय की प्राप्ति के लिये अहं या पृथक् अस्तित्व का त्याग आवश्यक है । कबीर ऐसे ज्ञानी तथा खन्डनात्मक प्रवृत्ति वाले साधक को भी प्रेम की दुहाई में कहना पड़ा था :

कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाहिं ।
सीस उतारै भुईं धरे तव पैठे घर माहिं ॥

अतः प्रेम में एकत्व की प्रधानता है, यह सिद्ध है । उसमें द्वैत की भावना नहीं, यही सूफी साधक का भी लक्ष्य है । वह साधना के द्वारा अपनी प्रेम भावना को परिपक्व करता हुआ फना की उस अवस्था को पहुँच जाता है जब उसका अपना पृथक् कुछ नहीं रहता और अन्त में वह 'वका' की अवस्था में 'उसी' में स्थित हो जाता है । अतः प्रेममार्ग में सर्वस्व त्याग ही प्रधान है । इसी तथ्य को शेख रहीम इस प्रकार कहते हैं :

दास आस बहुतन जिउ सोवा, जिन चाहा सो छिन छिन रोवा ।
दरस लाग त्यागो कुल लाजा, होउ मिलन तौ सवरै काजा ।
दरस आस दुविधा मन त्यागो, होउ निरानर मारग लागौ ।
जेहि कै दरस लाग तुम सोगी, तहं कर मेख धरौ मन भोगी ।

‘जो तुम लोभी दरस के, मेख धरौ तेहि केर ।
विना मेख धारन किये, दरस डगर है फेर ।’

इसी प्रकार चन्द्रकला और प्रेमसेन में ईश्वरत्व और मानवत्व एवं साधक की प्रतिष्ठा भी कवि इस प्रकार स्पष्ट करता है :

जौन जोत चन्द्रावलि माही, सो हम रूप है परछाहीं ।

आडम्बर और कपट रहित प्रेमपूर्ण हृदय ही अल्लाह या ईश्वर का निवासस्थान है । सूफी काबा या कैलास से भी शुद्ध हृदय को श्रेष्ठ मानते हैं ।

दया प्रेम जेहि मन बसे, सो काबा कैलास ।
अन्तरजामी आप रब, करै ओहि पर वास ।

प्रबन्ध-कल्पना :

‘भाषा प्रेमरस’ भी प्रबन्धकाव्य के अन्नर्गत आता है । कथा का आधार काल्पनिक है । उसमें ऐतिहासिक या पौराणिक तत्व का समावेश नहीं है । दृष्टान्त रूप में आई हुई यूसुफ जुलेखा की कथा कुरान में वर्णित प्रेमाख्यान के समान ही है । इन प्रबन्ध काव्यों की रचना मसनवी पद्धति पर हुई है अतः इनमें भारतीय महाकाव्यों के तत्वों को खोजना

उचित न होगा यद्यपि बहुत सी बातें महाकाव्य के आवश्यक तत्वों से मेल खा जाती हैं ।

अन्य सूफ़ी प्रेमाख्यानों की अपेक्षा इस सूफ़ी प्रेमाख्यान की एक विशेषता है कि आरम्भ में 'रब' या निराकार ईश्वर की वन्दना के पश्चात् उसकी महत्ता प्रदर्शित करते हुये कवि ने सारी सृष्टि की और विशेषकर मानव के अंग उपागों की विस्तृत चर्चा की है । उसके बाद परम्परा के अनुसार मुहम्मद, उनके चार मित्र अबूबकर, उसमान, उमर अली की प्रशंसा के बाद अपना और अपने वंश का परिचय कवि ने दिया है । गुरु परम्परा का यद्यपि विशेष वर्णन कवि ने नहीं किया है किन्तु शाह मुहीउद्दीन जीलानी की प्रशंसा की है । सम्भव है कि ये इनके मन्त्र गुरु रहे हों ।

अन्त में कवि ने कथा को 'प्रेम रस' के वर्णन का माध्यम माना है तथा अपनी पुस्तक को सुखान्त रखकर अन्त में अपने समकालीन मित्रों की चर्चा तथा प्रशंसा की है ।

कथा प्रवाह की दृष्टि से भी शैल रहीम का काव्य सफल है । कथा का आरम्भ तब तक मानना चाहिये जब तक चन्द्रकला और प्रेमसेन पाठशाला में एक साथ पढते तथा शनैः शनैः प्रेम करने लग जाते हैं । कथा की इस समय तक वीज अवस्था है । उसके बाद चन्द्रकला के पंचमहला में एक प्रकार से नजरबन्द हो जाने पर प्रेमसेन के मित्र बलसेन और चन्द्रकला की राजमहल की मालिन के मध्यस्त बन जाने से मिलन का प्रयत्न है । प्रेमसेन का गृहत्याग तथा गुरु की सहायता से चन्द्रकला प्राप्ति का प्रयास है । महाकाल दैत्य का विनाश कथा का प्रयत्न भाग है । दैत्य विनाश के बाद से ही नायक को प्रिय प्राप्ति की आशा या प्रत्याशा होने लगती है और यह अवस्था प्रेमसेन के रूपनगर वापस आने तक रहती है । उसके बाद दोनों के पिता के वैवाहिक निर्णय से उसे निपताप्ति की संज्ञा प्राप्त हो जाती है । सम्राट अविद के विरोध के कारण फलप्राप्ति में कुछ देर लगती है और फलागम की स्थिति तब आती है जब युद्धस्थल में मृत प्रेमसेन को गुरुकृपा से पुनर्जीवन प्राप्त होता है और अंत में उसका चन्द्रकला से मिलन हो जाता है । यहीं कवि का उद्देश्य पूर्ण होता है ।

कथा का अन्त एक प्रकार से चरमसीमा पर ही होता है । कथा प्रवाह में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं है और न कहीं पर कौतूहल ही शान्त होता है । यद्यपि यह अवश्य है कि कौतूहल जाग्रत रखने के लिये कवि को दैत्य, कपाल, सुग्रा, मैना, वाज, आदि पात्रों की उद्भावना करनी पड़ी है जिन्हें केवल कल्पना के आधार पर ही सत्य मानकर हम कथाप्रवाह के साथ चलते हैं । कई स्थलों पर कवि ने सम्भवतः गुरु के महत्व प्रदर्शन या अलौकिक शक्ति दर्शन के हेतु मृतक प्रेमसेन के पिता रूपसेन को जीवित करवाया है । कथा के इन स्थलों की विवेचना परम्परागत शामी मसनवी पद्धति तथा सहस्ररजनी चरित ऐसे आख्यानों के आधार पर ही सम्भव है । कथा की गति नीत्र है

ईश्वर की सर्वात्मकता की इससे सहज और सरल व्याख्या क्या हो सकती है।

प्रिय की प्राप्ति के लिये अहं या पृथक् अस्तित्व का त्याग आवश्यक है। कबीर ऐसे ज्ञानी तथा खण्डनात्मक प्रवृत्ति वाले साधक को भी प्रेम की दुहाई में कहना पड़ा था :

कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाहिं ।
सीस उतारै भुई धरे तव पैठे घर माहिं ॥

अतः प्रेम में एकत्व की प्रधानता है, यह सिद्ध है। उसमें द्वैत की भावना नहीं, यही सूफी साधक का भी लक्ष्य है। वह साधना के द्वारा अपनी प्रेम भावना को परिपक्व करता हुआ फना की उस अवस्था को पहुँच जाता है जब उसका अपना पृथक् कुछ नहीं रहता और अन्त में वह 'वका' की अवस्था में 'उसी' में स्थित हो जाता है। अतः प्रेममार्ग में सर्वस्व त्याग ही प्रधान है। इसी तत्त्व को शेरख रहीम इस प्रकार कहते हैं :

दास आस बहुतन जिउ सोवा, जिन चाहा सो छिन छिन रोवा ।
दरस लाग त्यागो कुल लाजा, होउ मिलन तौ सवरै काजा ।
दरस आस दुविधा मन त्यागो, होउ निरानर मारग लागौ ।
जेहि कै दरस लाग तुम सोगी, तहं कर भेख धरौ मन भोगी ।

'जो तुम लोभी दरस के, भेख धरौ तेहि केर ।
विना भेख धारन किये, दरस डगर है फेर ।'

इसी प्रकार चन्द्रकला और प्रेमसेन में ईश्वरत्व और मानवत्व एवं साधक की प्रतिष्ठा भी कवि इस प्रकार स्पष्ट करता है .

जौन जोत चन्द्रावलि माही, सो हम रूप है परछाहीं ।

आडम्बर और कपट रहित प्रेमपूर्ण हृदय ही अल्लाह या ईश्वर का निवासस्थान है। सूफी कावा या कैलास से भी शुद्ध हृदय को श्रेष्ठ मानते हैं।

दया प्रेम जेहि मन बसे, सो कावा कैलास ।
अन्तरजामी आप रब, करै ओहि पर वास ।

प्रबन्ध-कल्पना :

'भाषा प्रेमरस' भी प्रबन्धकाव्य के अन्तर्गत आता है। कथा का आधार काल्पनिक है। उसमें ऐतिहासिक या पौराणिक तत्व का समावेश नहीं है। दृष्टान्त रूप में आई हुई यूसुफ जुलेखा की कथा कुरान में वर्णित प्रेमकथान के समान ही है। इन प्रबन्ध काव्यों की रचना मसनवी पद्धति पर हुई है अतः इनमें भारतीय महाकाव्यों के तत्वों को खोजना

उचित न होगा यद्यपि बहुत सी बातें महाकाव्य के आवश्यक तत्वों से मेल खा जाती हैं।

अन्य सूफी प्रेमाख्यानों की अपेक्षा इस सूफी प्रेमाख्यान की एक विशेषता है कि आरम्भ में 'रब' या निराकार ईश्वर की वन्दना के पश्चात् उसकी महत्ता प्रदर्शित करते हुये कवि ने सारी सृष्टि की और विशेषकर मानव के अंग उपागों की विस्तृत चर्चा की है। उसके बाद परम्परा के अनुसार मुहम्मद, उनके चार मित्र अबूबकर, उसमान, उमर अली की प्रशंसा के बाद अपना और अपने वंश का परिचय कवि ने दिया है। गुरु परम्परा का यद्यपि विशेष वर्णन कवि ने नहीं किया है किन्तु शाह मुहीउद्दीन जीलानी की प्रशंसा की है। सम्भव है कि ये इनके मन्त्र गुरु रहे हों।

अन्त में कवि ने कथा को 'प्रेम रस' के वर्णन का माध्यम माना है तथा अपनी पुस्तक को सुखान्त रखकर अन्त में अपने समकालीन मित्रों की चर्चा तथा प्रशंसा की है।

कथा प्रवाह की दृष्टि से भी शेख रहीम का काव्य सफल है। कथा का आरम्भ तब तक मानना चाहिये जब तक चन्द्रकला और प्रेमसेन पाठशाला में एक साथ पढ़ते तथा शनैः शनैः प्रेम करने लग जाते हैं। कथा की इस समय तक वीज अवस्था है। उसके बाद चन्द्रकला के पंचमहला में एक प्रकार से नजरबन्द हो जाने पर प्रेमसेन के मित्र बलसेन और चन्द्रकला की राजमहल की मालिन के मध्यस्त बन जाने से मिलन का प्रयत्न है। प्रेमसेन का गृहत्याग तथा गुरु की सहायता से चन्द्रकला प्राप्ति का प्रयास है। महाकाल दैत्य का विनाश कथा का प्रयत्न भाग है। दैत्य विनाश के बाद से ही नायक को प्रिय प्राप्ति की आशा या प्रत्याशा होने लगती है और वह अवस्था प्रेमसेन के रूपनगर वापस आने तक रहती है। उसके बाद दोनों के पिता के वैवाहिक निर्णय से उसे निपतापित की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। सम्राट अविद के विरोध के कारण फलप्राप्ति में कुछ देर लगती है और फलागम की स्थिति तब आती है जब युद्धस्थल में मृत प्रेमसेन को गुरुकृपा से पुनर्जीवन प्राप्त होता है और अंत में उसका चन्द्रकला से मिलन हो जाता है। यहीं कवि का उद्देश्य पूर्ण होता है।

कथा का अन्त एक प्रकार से चरमसीमा पर ही होता है। कथा प्रवाह में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं है और न कहीं पर कौतूहल ही शान्त होना है। यद्यपि यह अवश्य है कि कौतूहल जाग्रत रखने के लिये कवि को दैत्य, कपाल, सुग्या, मैना, वाज, आदि पात्रों की उद्भावना करनी पड़ी है जिन्हें केवल कल्पना के आधार पर ही सत्य मानकर हम कथाप्रवाह के साथ चलते हैं। कई स्थलों पर कवि ने सम्भवतः गुरु के महत्व प्रदर्शन या अलौकिक शक्ति दर्शन के हेतु मृतक प्रेमसेन के पिता रूपसेन को जीवित करवाया है। कथा के इन स्थलों की विवेचना परम्परागत शासी मसनवी पद्धति तथा सद्खरजनी चरित ऐसे आख्यानों के आधार पर ही सम्भव है। कथा की गति तीव्र है

तथा कहीं भी किसी वर्णन को अनावश्यक विस्तार नहीं दिया गया है। इस प्रकार शेख रहीम कथा के इतिवृत्त का वर्णन बढ़ी सफलता पूर्वक कर सके हैं।

‘भाषा प्रेमरस’ में रसात्मक स्थलों की कमी नहीं है। कथा के इतिवृत्त के साथ ही प्रेमा, चन्द्रकला का विरह, प्रेमसेन की माता का दुःख, चन्द्रकला का दैत्य के यहाँ निवास, सम्राट अविद का युद्ध, प्रेमसेन की कई बार मृत्यु घटनायें, आशा, दया एवं प्रेम आदि की व्याख्या ऐसे मार्मिक स्थल हैं जहाँ पाठक की केवल कौतूहलवृत्ति ही शान्त नहीं होती प्रत्युत् हृदय भी रम जाता है। ऐसे रसात्मक स्थलों की योजना तथा वर्णन ही कवि की सफलता का द्योतक है। अन्यथा केवल इतिवृत्तमात्र को हम काव्य नहीं कह सकते। कथा में जीवन दशाओं को अन्तर्भूत करने वाला विस्तार और व्यापकत्व नहीं है फिर भी रसात्मक स्थल उपलब्ध हैं।

भाषा प्रेमरस में प्रासंगिक घटनायें अधिक नहीं हैं किन्तु फिर भी महाकाल दैत्य की घटना और सम्राट अविद का आक्रमण तथा मालिन का देशप्रवास उन प्रासंगिक घटनाओं में से हैं जिनका प्रभाव अधिकाधिक घटना पर पड़ता है। प्रासंगिक घटनाओं की योजना ऐसी होनी चाहिये कि उसका कथा के उद्देश्य से सम्बन्ध होते हुये भी वह अनावश्यक या ऊपर से जुड़ी हुई न प्रतीत हो। इस दृष्टि से देखने पर चन्द्रकला का महाकाल दैत्य द्वारा उठाये जाने का प्रसंग सफल शत होता है क्योंकि इस घटना में एक ओर तो कथा में कुछ मार्मिक घटनाओं की योजना होती है तथा दूसरी ओर प्रेमसेन के वल तथा दृढता का उत्कर्ष प्रदर्शित किया गया है। कथा का वास्तविक कार्य यदि चन्द्रकला और प्रेमसेन का मिलन है तो सम्राट अविद का आक्रमण मुख्य कथा से संबन्ध नहीं रखता। बहुत सम्भव है कि इस आक्रमण द्वारा अमत् पर सत् की विजय एवं चन्द्रकला के सौन्दर्य में सम्राट अविद का परमेश्वर के सौन्दर्य का आभास पाने के द्वारा कवि अपने सिद्धान्त को सुस्पष्ट करना चाहता हो। इस प्रकार कथा में कार्यन्वय का अभाव नहीं प्रतीत होता।

विस्तृत वर्णनों में शेख रहीम का मनुष्य शरीर के अंग उपागों का वर्णन लिया जा सकता है। किन्तु कहीं भी किसी विशेष स्थल नगर, हाट, पनघट, जलक्रीड़ा, यात्रा आदि का वर्णन विस्तृत रूप से नहीं किया गया है। कवि के लिये इस प्रकार के विस्तृत वर्णन सुलभ थे किन्तु प्रतीत होता है कि उसने जानबूझ कर ऐसा नहीं किया। विवाह एवं युद्ध यात्रा आदि का वर्णन भी अतिसंक्षिप्त है।

विरह, प्रेम, वारहमासा, रूप सौन्दर्य आदि के वर्णन में कवि ने अवश्य कुछ अपनी वर्णन प्रियता प्रदर्शित की है। ऐसे स्थलों पर भी कवि ने अनावश्यक विस्तार अपेक्षित नहीं समझा। वारहमासा अत्यन्त संक्षिप्त है तथा विप्रलम्भ शृंगार के उद्दीपन की दृष्टि से लिखा गया प्रतीत होता है। रूप सौन्दर्य का वर्णन भी परम्परासूक्त तथा संक्षिप्त ही है। चन्द्रकला का रूपवर्णन एक ही स्थल पर मालिन द्वारा सम्राट अविद पर प्रकट किया गया है। इस वर्णन में जायसी के वर्णन की भाँति सर्वव्यापकता तथा विम्ब-प्रतिविम्ब भाव का व्यक्तीकरण नहीं है।

जहाँ परकास रूप तहं केरा , तहा होत नहिं चन्द उजेरा ।
चन्द जोत धूमल तेहि आगे , जस धूमल ग्रहण के लागे ॥

तथा

ब्रह्मा अपने कर रचा अंगह अग संवार ।
सुन्दर भूरत कामिनी अपनी ओर निहार ।

कवि ने कहीं भी वर्णनों को विस्तार तथा प्रभावात्मकता प्रदान करने का प्रयास नहीं किया है। वारहमासे में भी कवि ने प्रत्येक महीने का वर्णन एक या दो पंक्तियों में ही समाप्त कर दिया है।

कातिक तर्कू मै पी की घाटा , दिया वार हेरों मै घाटा ।
प्रीत जुआ जिव खेल के हारी, कस भावै मोहि दिया दिवारी ।

वियोगिनी को उत्सव में आनन्द आ ही किस प्रकार सकता है। विस्तृत वर्णन कवि ने केवल मनुष्य के अंगों एवं उनके उपयोगों का किया है जैसे रसना के सम्बन्ध में वे लिखते हैं।

रसना दीन्ह ज्ञान , कर मूरी , विन रसना यह देह अधूरी ।
जो न होत रसना मुखँ माहीं , कोउ सवाद नर पावत नाहीं ।
विन रसना को भेद बतावत , भोग स्वाद कैसे नर पावत ।
रसना से भा वेद पुराना , रसना राखे नर कर गाना ।
रसना राजपाट वैठावे , रसना नरगन्ह भीख मंगावै ।
विन रसना यह जनम अकारथ, रसना ते धरै परमारथ ।

इसी प्रकार कवि ने प्रत्येक अंग उपाग का वर्णन किया है और अपने इस वर्णन के आधार पर अल्लाह की महानता सिद्ध की है।

भाषा :

ग्रन्थ की भाषा बोलचाल की अर्धवी है जिसमें कुछ स्थानीय प्रयोगों के साथ ही फारसी एवं अरबी के शब्द भी उपलब्ध होते हैं। फारसी एवं अरबी के शब्दों का प्रयोग विषयानुरूप ही है। कवि खुदा का वर्णन करते हुये लिखता है—

को कहि सकै बड़ाई रब की, जासों टेक लगी है सबकी ।
कारसाज कादिर मुख्तारा, वे नियाज़ मावूद हमारा ।

खन्डों के नामकरण में भी कवि अपने फारसी के ज्ञान का परिचय देता है। 'आत्मपरिचय' के लिये वह 'दालमुसन्नफ' लिखता है। कुछ फारसी से हिन्दी रूपान्तरित शब्दों का भी सुन्दर प्रयोग है जैसे अर्जदास्त से अरदास्त। स्थानीय प्रयोगों में करारी,

खंगिगा, पागी, लंगिचाऊं आदि शब्द आ सकते हैं। मुहाविरों का भी यथास्थान योग है जैसे—भरा धरा छूँछ, लेत है अवी, सास काट, अस खरकना, हिया दरकना, टर गई पाव तरे से धरती, अपने पावन आप कुल्हाडी। संस्कृत के विशुद्ध शब्दों का प्रायः अभाव सा है। भाषा की बोधगम्यता सराहनीय है।

रस :

ग्रन्थ में भावात्मक स्थल अधिक नहीं है और यही कारण कि शृंगार एवं वात्सल्य रसों के अतिरिक्त अन्य रसों का केवल आभास मात्र हो पाता है। वीर और करुण रसों का केवल संकेत मात्र है उनका पूर्ण परिपाक नहीं हो पाया है। प्रेमा के विरह में दुखी चन्द्रकला, पत्र लिखकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करती है।

अमृत जल मानहुँ विषघोरा, प्यास बुझाय दरस लग तोरा ।
जर जर हाड़ भयो जस चूना, खैर खान विरहा दुख दूना ।
फूलन सेज काट अस खरके, नींद कहा तुम विन हिया दरके ।

तन मन की सुधि वीसरी, जेहि दिन लागे नैन ।
नैना तरसे दरस विन, विन दूरसे नहिं चैन ।

छन्द :

‘भाषा प्रेम रस’ की रचना भी दोहे चौपाई के क्रम से हुई है। शेख रहीम ने चौपाई को चार चरण वाला ही माना है। चार चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम सर्वत्र निबाहा गया है।

अलंकार :

शेख रहीम ने अधिकांश सादृश्यमूलक अलंकारों का ही प्रयोग किया है। साधारण प्रयोग में आने वाले उपमा, रूपक अनुपास एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग अधिक है।

हेतुत्प्रेक्षा :

तहँ रोवन सुनके गुरु, वन बिच लागी आग ।
जरे पंख कारी भई, सो आवत हों भाग ॥

उपमा :

गिरा भूम पर दैत्य वह, जस पाहन की लाट ।

रूपक :

काल सीस पर रैन दिन जैस वाज मंडराय ।
जिउ की मैना पीजड़े, समै पाय लै जाय ॥

चरित्रचित्रण :

चरित्रचित्रण की दृष्टि से इन काव्यों की आलोचना करना यद्यपि अधिक उपयुक्त नहीं है क्योंकि काव्य में चारित्रिक विशेषता की ओर ध्यान देना आधुनिक दृष्टिकोण है। पात्रों के चरित्र की व्यञ्जना पात्रों के वचन व कर्म के द्वारा होती है। कथा में प्रेमसेन और चन्द्रकला नायक नायिका हैं। इनके अतिरिक्त रूपसेन, बुधसेन, महाकाल दैत्य, गुरु सहपाल, सम्राट अविद, मालिन, मित्र बलसेन आदि चरित्र भी हैं।

प्रेमसेन :

प्रेमसेन 'प्रेम का आदर्श' है। वह प्रेम के लिये अपना जीवन उत्सर्ग कर सकता है। शिक्षा-गुरु के पाठशाला में प्रश्न करने पर वह यही उत्तर देता है :

चन्द्रकला मन मा वसे, राखौं हर छन चेत ।
प्राण निछावर धालिहौं चन्द्रकला के हेत ।

यूसुफ की भांति प्रेमसेन में केवल कर्तव्य की भावना ही प्रधान नहीं है। प्रेम के लिये गृहत्याग करके वह गुरु सहपाल के साथ वन में त्यागमय होकर रहता है।

दैत्य महाकाल को परास्त करने में प्रेमसेन के साहस तथा सम्राट अविद से युद्ध में शौर्य के दर्शन होते हैं। प्रेमसेन में किसी दुर्गुण का आभास नहीं मिलता और न उसमें कोई जातिगत विशेषताएँ हैं। उसका प्रेम भी लोक संयत है। यद्यपि प्रेमसेन का चरित्र किसी भी क्षेत्र में उच्च आदर्श की स्थापना नहीं करता फिर भी वह नायकत्व का प्रतिनिधित्व करता है।

चन्द्रकला :

नायिका चन्द्रकला के चरित्र की विशेषता भी प्रेमिका के रूप में ही विशेष लक्षित होती है। पाठशाला में प्रेमसेन से वियुक्त हो जाने पर तथा प्रेमसेन के घर से चले जाने पर वह अत्यन्त व्याकुल हो जाती है और गृह त्याग के लिये बेचैन हो जाती है। प्रेमसेन का गृहत्याग सुनकर

रहन लाग तव लै दुखी, मन ही मन अकुलाय ।
औसर हेरे रैन दिन केहि विधि घर ते जाय ।

वह भी गृहत्याग की चिन्ता में लग जाती है। चन्द्रकला का केवल प्रेमिका का स्वरूप ही सम्मुख आता है।

गुरु सहपाल :

गुरु का चरित्र परम्परागत है। गुरु सहपाल सदैव शिष्य की मत्प्राप्त्यर्थ कामना ही में रत हैं तथा कवीर के अनुसार 'गुरु तो ऐसा चाहिये सिप को सब कुछ देय' गुरु सहपाल का चरित्र आदर्श तथा सराहनीय है। शेख रहीम भी उनकी प्रशंसा में कहते हैं :

जो गुरु मिले तो अस मिले वाह पकड़ ले तार ।
द्ववत नैया भंवर मा, खेय लगावै पार ।

राजा रूपसेन मन्त्री बुधसेन, मित्र वलसेन, मालिन, सम्राट अविद आदि के चरित्रों में कोई विशेषता नहीं है, सभी परम्परासुक्त हैं।

अन्य प्रसंग :

भाषा प्रेमरस के मध्य कई ऐसे अन्य प्रसंग भी आये हैं जैसे दानमहिमा, द्रव्य महिमा, प्रेम और दया की प्रशंसा, वाह्याडम्बर से हृदय की शुद्धता की महानता आदि।

दान-महिमा :

जो चाहत हो जगत धन साथ हमारे जाय ।
तो दाता के नाम पर जग मा देउ छुटाय ॥

द्रव्य-प्रभाव :

दरव लोभ आये जहा ज्ञान रहीम नसाय ।
जो करवो नहि उचित है तौन लेय करवाय ॥

विद्या-प्रशंसा :

ऐ विद्या जगतारिनी, मैं तौरे बलि जाऊ ।
करै नीच का ऊंच तोइ धन्य तिहारो नाव ।
विद्या धन मैं आपके, भयो नीचतैं ऊंच ।
मैं तो भिखारी सुख मिला, भरा घरा मोरा छूँछ ॥

कवि रहीम की बहुज्ञता :

यद्यपि शेख रहीम की कथा का आधार काल्पनिक है फिर भी प्रसंगानुसार कवि ने हिन्दू और शामी प्रेमकथानों का उल्लेख यथास्थान किया है। चन्द्रकला दैत्य से उद्धार करने के लिये भगवान से प्रार्थना करते हुये कहती है :

शक्तिमान जगनाथ जी दयासिन्धु भगवान ।
लागो मोर गोहार अब आन वचाओ लाज ॥

जस द्रोपदी की राखो लाजा, प्रगट्यो चीर वरन महाराजा ।
जस प्रहलाद का आन उवारो, फूटे खम्भ हिरनाकस मारो ।
जस सीता की लाज सम्हरा, राम रूप रावन का मारा ।
जस बूढ़त तारयो गजराजा, धारो तुरत दीन के काजा ॥

उसकी इस प्रार्थना में पूर्ण हिन्दू हृदय की झलक मिलती है। शब्द योजना तथा विचारक्रम भी अनुकूल हैं साथ ही कवि का भगवान के विरुद्ध की चर्चा करते समय, प्रहलाद, द्रोपदी, और गजराज का उल्लेख भी परम्परागत और स्वाभाविक है। केवल सीता के आख्यान को अवश्य कवि ने एक नवीन दृष्टिकोण से देखा है। मन्सूर के 'अनल्हक' का भी कवि ने उल्लेख किया है। लैला मजनूं, शीरी फरहाद और यूसुफ जुलेखा की कथा का भी यथास्थान दृष्टान्त रूप में उल्लेख मिलता है।

कुरान या धार्मिक विचारों का उल्लेख :

हदीस है खुदा ने अपने स्वरूप के अनुरूप ही मनुष्य की रचना की। कवि रहीम भी लिखते हैं :

मूरत मा रचि आपन राखी, सूरत देत शक्ति की साखी ।
ब्रह्मा अपने कर रचा, अंगह अंग सवार ।
सुन्दर मूरत कामिनी, अपनी ओर निहार ॥

उमरखयूयाम से विचार साम्य रखता हुआ कवि लिखता है :

यह जग जान सराय समाना, नर नारी पन्थी की आना ।
आये साभ भोर उठ भागे, काहू के संग सराय न लागे ॥

- शरीयत के मार्ग का वर्णन करते समय कवि ने इस्लाम धर्म के साधन चतुष्टय सलात, जकात, सौम तथा नमाज का उल्लेख किया है। कुरान के अनुसार अल्लाह ने इस संसार की सृष्टि केवल 'कुन' शब्द से की है। शेख रहीम भी इसकी पुष्टि करते हैं।

एके शब्द कहा कुन केरा सिरजा भूमि आकाश घनेरा (गुनेरा) ।

इसी प्रकार आकाश के सातखन्डों के ऊपर अल्लाह के मिदासन या 'अर्श कुर्सी' की चर्चा भी कुरान में है :

वाके कीन्हे सब भये करनहार वह एक ।
सात खन्ड आकास के छाम रख्यो विन टेक ॥

तथा

सात खन्ड रच धरती केरे, तापर देस वेस बहुतेरे ॥

इसी प्रकार हदीस है कि अल्लाह ने सर्वप्रथम 'नूरुल मुहम्मदिया' की रचना की । शेख रहीम भी हजरत मुहम्मद की प्रशंसा करते समय कहते हैं :

सिरजा जिनके कारना धरती और आकास ।

कुरान में वर्णित आदम और इवलीस की कथा का उल्लेख भी शेख रहीम ने किया है ।

इन सूफी कवियों ने यद्यपि सदैव स्वयं को 'प्रेम मत' का अनुयायी कहा है फिर भी यह न भूलना चाहिये कि इस प्रेम मत की स्थापना सब धर्मों की सामान्य बातों से सामन्जस्य रखते हुये भी विशेषतः इस्लाम धर्म के अन्तर्गत है । अतः एकेश्वरवादी इस्लाम धर्म के अनुसार इन कवियों ने बहुदेवोपासना का विरोध किया है । शेख रहीम ने भी इसी प्रकार के अपने विचारों का उल्लेख 'भाषा प्रेम रस' में किया है । यूसुफ से मिलने की आशा में जुलेखा ने बहुत दिन अनेक देवताओं की वन्दना की किन्तु उसकी इच्छा पूर्ण न हुई तब जुलेखा एकदेव की और उन्मुख हुई ।

वीते यह विध बहुत दिन, एक दिन भई निरास ।

देवतन आसा छोड़ के, अस कीन्हों अरदास ।

अनेक से एक की ओर उन्मुख होते ही जुलेखा की इच्छा पूर्ण हो गई । इसी प्रकार प्रेमसेन ने जब दैत्य का संहार कर दिया तब गुरु सहपाल ने उसे जो उपदेश दिया है उसी के अन्तर्गत शेख रहीम 'मूर्ति पूजा' का खन्डन करते हैं :

एक मूरत निज करन्ह संवारा, तह का नाव धरे करतारा ।

अबही कहे कि ठाकुर मोरे, फिर काहे ले जल मा बोरे ।

है ठकुर एक वह धनी, जस रहीम कोउ नाथ ।

सबसे अलग अलान है, पूर रहा सब हाथ ॥

शेख रहीम का मत तथा सिद्धान्त :

शेख रहीम से कई सौ बरस पूर्व कबीर अपनी बानी से हिन्दू मुस्लिम मतों में सामन्जस्य स्थापित करने का प्रयास कर चुके थे । लगभग उन्हीं के शब्दों में शेख रहीम ने भी अपने 'प्रेम मत' का प्रतिपादन किया है । अन्तर केवल यह है कि कबीर ज्ञानी थे, उनकी

वानियों में बुद्धि की शुष्कता तथा तर्क कटुता है जबकि शेख रहीम का 'प्रेममत' इश्क मजाजी और इश्क हकीकी से सम्बन्ध रखता है, यह हृदय की वस्तु है, सहज तथा हृदयग्राही है।

कबीर और शेख रहीम दोनों ही मुसलमान तथा एकेश्वरवादी थे। अतः एक देव या अल्लाह में ही उनका विश्वास था। शेख रहीम लिखते हैं :

ए मालिक मायूद जग, खालिक खलक जहान ।
कारसाज कौनैन का, वेनियाज सुल्तान ।

वही इस संसार का रूपा तथा स्वामी है। जिस प्रकार कबीर ने राम को ब्रह्म का प्रतीक माना था अवतारी नहीं, उसी प्रकार शेख रहीम भी कहते हैं :

हर का तो हर घट मा पइये, नेरे हेरे दूर क्यों जइये ।
राम नहीं दशरथ के जाये, दशरथ हू का राम बनाये ।
कृष्ण अनेक एक करतारा, तेहि का नहीं वहेलिया मारा ।
औरन को वह मार जियाये, तेहि का भला मार को पाये ।
नहि वाके है मात पित ना वाका कोउ देस ।
वाके कीन्हें सब भये, वरह्या विष्णु महेश ॥

इस प्रकार शेख रहीम के अनुसार भी राम और कृष्ण उसी शाश्वत्, सर्व व्यापक, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर ब्रह्म के प्रतीक हैं।

ब्रह्म का निवासस्थान कोई विशेष स्थल नहीं है। उसका निवास दया और प्रेम से पूर्ण हृदय में है। प्रेम और दया ही के द्वारा, ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है।

दया प्रेम जब हिये समाई, मन आपन कावा होइ जाई ॥

दया प्रेम जेहि मन बसे, सो कावा कैलास ॥

अन्तरजामी आप रव करे होयें पर वास ॥

इस प्रकार ब्रह्म का निवास किसी मन्दिर या मस्जिद विशेष में न होकर हृदय में है और उस हृदय में दया और प्रेम का निवास आवश्यक है।

संसार में ईश्वर प्राप्ति के अनेक साधन हैं। विभिन्न मत मतान्तर ईश्वरोपलब्धि के अनेक मार्ग प्रदर्शित करते हैं किन्तु इस 'विभिन्नवाद' में पड़ने की अपेक्षा श्रेष्ठ तो यह है कि जीव दया और प्रेम से अपने हृदय की वृत्तियों को समन्वित करले। इस प्रकार का सहज सरल जीवन ही अन्ततः ईश्वर तक पहुँचा देता है क्योंकि :

जग भीतर मत अरे अनेका, सबका मरन अन्न होय एका ।

पुनि एका कहुँ दीस न जाई, जंर देसों नर रार लड़ाई ॥

अतः

मत अनेक लघु मोर मति कहा कि मत भय मान ।
जो मत दाया प्रेम है तंह मत ईश्वर जान ॥

केवल बाह्याडम्बर या कर्मकाण्ड से हृदय की शुद्धि नहीं होती 'मक्के गये हज्ज कर आये, कपटी मन फिर संगे लाये ।' दया रहिन हृदय, हृदय नहीं कंकड़ है, मूल्यहीन है, महत्वहीन है ।

दया नहीं तो मन है काकर, प्रेम नगर की मग है साकर ।

रोजा नमाज सयत्न करने पर भी यदि हृदय में दया और प्रेम का निवास नहीं हुआ, यदि किसी दुखी को देख हृदय द्रवित नहीं हुआ, यदि किसी निर्धन के लिये सम्पत्ति में से एक पैसा न निकला तो कवि ऐसे कर्मकाण्डी को 'खरीदार' की संज्ञा देता है और अल्लाह 'आदान प्रदान' नहीं करता । भगवान को केवल दया और प्रेम से वशीभूत किया जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता । अतः केवल बाह्याडम्बर और कर्मकाण्ड का अनुयायी ईश्वर तक नहीं पहुँच पाता ।

मक्के और मदीने जावे, खरीदार रव का ना पावे ।

मालिक ऐसे खरीदारों को दोजख भेज देता है । ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के कार्य कलापों से परिचित रहता है । 'मैं तो देखों रैन दिन कहा तोर व्योहार' और इसीलिये वह व्यवहारिक प्रेम भक्ति को शुष्क कर्मकाण्ड से अधिक महत्व प्रदान करता है । 'खत सनेह नहीं मत तोरे, खोट कपट मन भाव न मोरे', इन पंक्तियों को पढ़ते समय सहसा तुलसी की 'रामहि केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जाननि द्वारा' का स्मरण हो आता है ।

प्रेम और दया समन्वित साधना मार्ग की महत्ता बताने के बाद कवि आग्रह करता है कि यही कारण है कि भिन्न-भिन्न धार्मिक मतों के अनुयायी होने पर भी प्रेम और दया के मार्ग में ही मतैक्य की सम्भावना है अतः अपने अपने धर्म का सम्यक् पालन करते हुए भी,

'तजो न दाया धरम तुम, चाहै जो मत होय'

व्यक्ति दया रूपी धर्म का पालन करता हुआ धार्मिक विरोधों से ऊपर उठ सकता है ।

इस प्रकार ईश्वर और ईश्वर प्राप्ति के सहज साधन दया धर्म की चर्चा करने के साथ ही कवि ने इस प्रकार सासारिक सम्बन्धों की अनित्यता तथा असारना की भी चर्चा की है । प्रेमसेन के गृहत्याग के बाद कवि उसकी हृदय गत भावनाओं का वर्णन करता है । अभी तक माता पिता आदि परिवारगत प्रेम में फँसा हुआ वह भ्रम में पड़ा था, सत्य या प्रियतम की प्राप्ति के लिए इन मिथ्या सम्बन्धों का त्याग अनिवार्य है :

उपजा ग्यान मरम पहचाना, जग नाता सब मिथ्या जाना ।
मिथ्या मात पिता परवारा, मिथ्या बन्धु भाय कुल सारा ॥

यह संसार भी असत्य है तथा इस संसार के प्रति मोह और माया भी असत्य है । इन सम्बन्धों के मध्य परमेश्वर ही सत्य है और उसकी एवं सत् की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को इस असत् संसार का परित्याग करना ही पड़ेगा ।

जग मिथ्या मिथ्या जग माया, मिथ्या होय यह आपन काया ।

× × ×

का मिथ्या के कारने, रे मन तू वौरान ।
एक ब्रह्म मिथ्या नहीं और मिथ्या सब जान ।
छाड़ मोह घरवार की, ले चन्द्रावलि नाव ।
प्रेमा आ बन विषे, गुरु सहपाल के ठाव ॥

× × ×

प्रथम जगत से अन्नवन करे, प्रेम पुनीत मा पग तव धरे ।

इस प्रकार संसार की चाह त्याग कर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में प्रविष्ट होना श्रेय है । इस मार्ग की सफलता भी सतसंग और गुरु कृपा पर निर्भर है । बिना गुरु की दया के सफलता प्राप्त होना दुष्कर है ।

पुनि मारग नहीं आपन जानी, विन भेदी बहुरे अग्यानी । -

अतः प्रेमसेन ने भी संसार की माया ममता को त्याग करके

प्रेमा आय दंडवत् कीन्हा, गुरु चरन माधे पर लीन्हा ।

गुरु ने सर्वप्रथम उसे अपने हृदय को सासारिक लोभ से दूर करने का आदेश दिया संसार के लिये जोग लेना निरी मूर्खता है । गुरु उसके भोग के लिये जोग लेने के विचार की भर्त्सना करता है तथा जोग की महत्ता और उपादेयता समझाकर संन्यास करवाता है ।

भोग की आस जोग तुम कीन्हा, कपट मेप जोगी कर कीन्हा ।
प्रथम जगत से अन्नवन करे, प्रेम पुनीत मा पग तव धरे ।
जगत चाह छूटत नहीं जोग लिये का होय ।
मैली चादर देह की प्रयमे उरौ घोय ॥

इसी प्रेम पंथ पर चलने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है । फलस्वरूप अनुभव-गम्य, अनिर्वचनीय आनन्द प्राप्त होता है जो 'गूंगे जैरी सरकरा' की भांति वर्णनार्थी है । 'जिनकर दरसन मिलत है वही लीयन पहचान' ।

सत्य प्रेम में रंचक कपट सारी साधना नष्ट कर देता है। विना सच्चे प्रेम के ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। भला कहीं काच के बदले में हीरा प्राप्त हो सकता है।

कथा के अंत में कवि एक बार फिर अपने ग्रन्थ का सार तत्व कहता है :

कपट त्याग ईश्वर मन लवों, माच रहो तो वाको पावों ।
जव लग प्रेम न होइ साचा, हीरा मिलै न बदले काचा ॥
एक तिल कपट लाख तिल सेवा, दोउ मिले होय विप मेवा ।
यह विध कपट प्रेम सों मेले, भरमत फिरँ गुरु औ चेले ॥

ग्रन्थ-रचना का उद्देश्य :

मित्र महाशय गुनसदन चित वहलावन हेत ।
कहीं कहानी प्रेम की होय के सुनो सचेत ॥

कवि ने इस प्रकार केवल मनोरञ्जन के हेतु ही ग्रन्थ रचना की है यद्यपि उसमें प्रेमत्व की ही व्यञ्जना प्रधान है। किसी मत विशेष के प्रचार के रूप में ग्रन्थ की रचना नहीं हुई है। अपने उद्देश्य को कवि स्वयं स्पष्ट करता है।

प्रेम लगी यह कथा वखानों, वीचे वीच प्रेम तंह सानों ।
तमै कहँ 'कोउ मत है ना, ना काहू की निन्दा कीन्हा ।

ग्रन्थ के साथ साथ कवि अपना भी नाम अमर रखना चाहता है :

विधना जव लग जगत मा, यह पुस्तक संचार ।
सबका साथ रहीम के, नाव रहै उजियार ॥

इसके अनन्तर कवि पाठकों के प्रति कल्याण कामना करता है।

कवि का विचार है कि इस पुस्तक को पढ़ने से लोगों को वास्तविक प्रेम का ज्ञान प्राप्त होता है जो अत्यन्त सुखप्रद है। पुस्तक को पढ़ने वाले की समस्त मनोकामनायें पूर्ण हो जाती हैं।

जो यह पुस्तक पढै सो जानै, साचा प्रेम प्रथम पहचानै ।
जो कोउ पढै बड़ा सुख पावै, अस रहीम करतार मनावै ।

पुस्तक बाचनहार के विधि पुरवै सब काज ।
अस रहीम विनती करै, है दाता जगराज ॥

बाद के सूफी कवियों में शेख रहीम का ग्रन्थ 'भाषा प्रेम रस' अपना निजी मद्त्व रखता है। दया एवं प्रेम के जिस सहज मार्ग का प्रतिपादन शेख रहीम ने किया है वह अब भी उपादेय है।

प्रेम दर्पण

(कवि नसीर कृत)

कवि नसीर गाजीपुर जिले के जमनिया गाव के रहने वाले थे। इनका जीवन स्वयं एक दुःखकथा है। बचपन में ही इनके पिता का देहान्त हो गया। माता ने इनका पालन पोषण किया तथा एक अध्यापक रख कर इन्हें शिक्षा दिलवाई। यथा समय इनका विवाह एक धनसम्पन्न स्त्री से कर दिया। आनी प्रथम पत्नी से इनको तीन संतानें हुईं जो काल कवलित हो गईं और उन्हीं के शोक में इनकी पत्नी भी चल बसी। इन्होंने क्रमशः दो और विवाह किये। इनकी द्वितीय पत्नी दो मास पश्चात् तथा तृतीय पत्नी केवल दो वर्ष जीवित रह कर स्वर्ग सिंघार गईं। अपनी इस तृतीय पत्नी से इन्हें बहुत प्रेम था, अतः उसकी मृत्यु से दुखी हो कर देश विदेश घूमते रहे। घूमते घामते ये कलकत्ते पहुँचे वहाँ सुंदरिया पट्टी की कोठी नं० १०७ में ठहरे जहा मुहम्मद शफी नाम का व्यापारी रहता था। मुहम्मद शफी ने इन्हें अत्यन्त दुखी जानकर इनका चित

1. गाजीपुर जिला जिहि ठाऊं । ताहे माऊ जमनिया गाऊं ॥
वहीं जनमभूम हूँ मोरा । निज वातंत कहूँ कहुँ थोरा ॥
वारे समय पिता मोरे न्यारे । इह जग से वैकुण्ठ मिघारे ॥
माता पुनि मोहे पालन कीन्हा । पंडित राख मोहे विद्या दीन्हा ॥
दरबोलत के वारी साया । कियो मोर व्याह धरायो हाया ॥
माता पुनि मृत्यो रस चाखी । माटी मांक जाय पग राखी ॥
पुनि मोरे जनमे तीन । पाले पुनि गये सरग के पाना ॥

नाजी ताहि वियोग में, दियों परान के व्याग ।
विधना मोरे भाग के, वा अस लियो कृभाग ॥

कियो वियाह पुनि दुसरे वारी । आनी भवन में सुन्दर नारी ॥
दोह मास पाछे वह नारी । जा माटी में सेज सवारी ॥
तीजे वार कुटुम्ब मताले । सुन्दरी एक घर व्याह के लाये ॥
दोई वारस रही घर मोरे आई । मोह भया अधिक यदाई ॥
अन्त घहूँ मृत्यु रम चाग्या । गई परान तोर अभिलाग्या ॥
जस दुखी हूँ मैं जग माहीं । तय न केहूँ संखारा ॥

वहलाने के लिए अनेक प्रेमकथायें सुनाई। इन्हीं प्रेम कहानियों में से इन्हें फारसी कवि जामी की 'यूसुफ जुलेखा' सर्वाधिक आकर्षक लगी। इन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि फिगार नामक शायर ने उसका उर्दू अनुवाद भी किया है। फिगार शायर की रचना 'इश्कनामा' के आदर्श पर ही इन्होंने अपनी रचना 'प्रेम दर्पण' आरम्भ की।

गुरु :

कवि नसीर ने आरम्भ में निर्गुण सृष्टिकर्ता ब्रह्म की वन्दना की है। क्रमशः मुहम्मद साहब एवं उनके चार मित्रों का परिचय देने के पश्चात् उन्होंने ऐनुल अहदी नामक पीर की भूरि भूरि प्रशंसा की है।^१ पीर ऐनुल अहदी ने 'जोत निरन्जन' का प्रकाश किया था। पंडित, हाजी, हाफिज, जैसे लोग भी सहस्त्रों की संख्या में उनके शिष्य थे। उनके उपदेश अमृत के समान शीतल एवं श्रुति मधुर हुआ करते थे, उनके चरणस्पर्श मात्र से पाप नष्ट हो जाते थे। उनके चमत्कारों में एक यह भी प्रसिद्ध है कि जिस पानी को वे फूंक देते थे वह केवड़ा हो जाता था। कवि कथन है कि उसे भी ऐसे जल की एक बूंद प्राप्त हुई थी जिसकी सुगन्ध की स्मृति कवि भुला नहीं सका। यही ऐनुल

फलकत्ते मंह सुन्दर पाटी, नम्बर एक सौ सात जै कोठी।
के गुरु मन के मोरे बोले, प्रेम खुनी के ढकना खोले।
जो जो प्रेमी कब भये, और जिन्ह जो पोथी कीन्ह।
उन्ह सब कवि के बरन के, एक एक कहि दीन्ह ॥

X X X

जिन्ह के बचन बहु सुन्दर देखा। जस पोथी यूसुफ ओ जुलेखा।
और फिगार प्रेम रस कहानी। उर्दू में यह लिखिन कहानी ॥

१. ऐनुल अहदी काशी अस्थाना। रूप सरूप दिये जस माना।
जाते निरन्जन तिन्ह परकासू। वही मेरे गुरु हौं उन्ह कर दासू।
पन्डित हाजी हाफिज कारी। बहुत बरन उन परचू सवारी।
उन्ह कर पग देखे पाप अस ताता। फागुन भास में जस करे पाता।
अस वह गुरु है अलबेला। सहस लोग रहे जिन्ह के बेला ॥

X X X

ताह बखान न जाय बखानी। सुन वह शब्द हो पाहन पानी।
हरियर सब उन्ह कर पहिरावा। दूजे ख्वाजा फ़िज ये पीरा ॥

X X X

और सुनो एक अवरज बानी। केवडा भयादीन्ह फूक से पानी।
वह जल के कारू कहुँ मैं बासू। कस्तूरी में न हो वह बासू।
वह में ले एक बूद महुँ पावा। अब लग नहीं वह बास भुलावा।
काशी तज के गये कलकत्ते। मस्जिद चीनी वाल।
वही अस्थान परान स्योगे। ॥

X X X

अहदी कवि के गुरु थे। ये सदा काशी में ही रहा करते थे, किन्तु अन्त समय में वे कलकत्ते की चीनी वाली मस्जिद में चले गये जहा इनका देहान्त हो गया।

रचनाकाल :

अपनी रचना का निर्माण काल बताते हुये वे कहते हैं कि मैंने हिजरी सन् १३०५ के जैकीद महीने की चौबीसवीं तारीख को इस प्रेम गाथा की समाप्ति की है। उस दिन सं० १६७४ के भादों महीने की कृष्ण द्वादशी थी तथा दिन शुक्रवार था जो मुसलमानों के अनुसार जुमा कहलाता है।^२

कवि अत्यन्त विनीत है। यद्यपि अपने बाल्यकाल का वर्णन करते समय उसने अपनी शिक्षा का वर्णन किया है किन्तु जहा वह कथा-रचना की चर्चा करना है वहाँ यह भी लिखता है कि उसे 'वचन' एवं विद्या का कुछ ज्ञान नहीं है।

जामी की फारसी एवं फिगार की उर्दू रचना को देख कर उसके मन में भी 'भाषा' में यह प्रेमकथा कहने की चाह जाग उठी और इसीलिए उसने इस कथा की रचना की। यह जानते हुये भी कि वह कवि नहीं है, रचयिता को अपने ग्रन्थ से संतोष था क्योंकि इसमें करतार का वर्णन है।^३

कवि निसार और कवि नसीर दोनों को अपने जीवन काल में पारिवारिक भ्रंशों एवं दुखों को सहना पड़ा। कवि निसार के हृदय में अपने एक मात्र वयस्क पुत्र के निधन से अत्यन्त दुःख हुआ। कवि नसीर को माता, पिता एवं तीन पत्नियों तथा तीन पुत्रों वा वियोग दुःख सहना पड़ा। यह भी एक संयोग की घात है कि अपने जीवन में पारिवारिक संकटों के भोगने वाले दो भिन्न भिन्न कवियों के हृदयों में इस कहानी विशेष को ही लिखने की प्रवृत्ति जगी और उन दोनों ने इसे हिन्दी के माध्यम से ही पूरा किया। कवि

२. हिजरी तेरह सौ पैंतीस, या जैकीद मास चौबीस।
सबत उन्नीस सौ चौहत्तर, भादों वदी द्वादस अन्तर।
जुमा का दिन जानो तुरकाना, सुक्र का दिन जानो हिन्दुवाना।
करके बहुत ही कष्टि कलेसा, यहि दिन कथा कियो मैं सेसा ॥

३. सुन यह वचन दियों में उत्तर, जानो ना विज्ञा एक अक्षर।
हीन ज्ञान का मन दुखियाटा, केहिबिधि लिखों यह कथाशपारा।
केबी ग्रहन ऋतु नहि जाना, कोने उपया यह मोह निदाना ॥

४. पे यह पद साज्ज में ही, ।
साब भई मोरे मन उपराजा, करों नसीर यह काजा।
वचन यही मन में मोरे धाये, कथा यह जग में पाये ॥

निसार ने वि० सं० १८४७ में और कवि नसीर ने वि० सं० १९७४ में अपनी ग्रन्थ रचना की, दोनों के बीच में लगभग सवासौ वर्ष का अन्तर पड़ता है।

कथा-सारांश :

प्रेम-दर्पण ग्रन्थ में भी यूसुफ जुलेखा प्रेमाख्यान वर्णित है। यूसुफ का जन्म किन्था नगर के याकूब के घर हुआ था। जब ये दो वर्ष के थे इनकी माता का देहान्त हो गया। यूसुफ का पालन पोषण इनकी फूफी के घर हुआ। जब इनके पिता ने फूफी से यूसुफ को लौटाने को कहा तो उसने इनकार कर दिया और उसके पास अपना कमर बन्द रखकर यूसुफ को चोर बनाया तथा उसके अत्यन्त सुन्दर होने के कारण प्रेमवश अपने पास ही रखवा, चोर बनाना तो केवल एक युक्ति मात्र थी। बुढ़ा की मृत्यु हो जाने के पश्चात् ही यूसुफ अपने पिता के पास आ सके। यूसुफ अत्यधिक सुन्दर थे। इधर तैमूर देश के सुल्तान के यहाँ जुलेखा का जन्म हुआ जो अतीव सुन्दरी थी तथा नित्य राग रग में लिप्त रहती थी।

एक दिन स्वप्न में उसने एक सुन्दर युवक को देखा तथा उसकी छवि पर मोहित हो गई, उसने अपनी धाय से सब हाल बताया जिसने उसे सलाह दी कि वह उस स्वप्न के सुन्दर युवक से उसका परिचय पूँछे। जुलेखा ने इसके बाद दो स्वप्न और देखे। यूसुफ के परिचय के सम्बन्ध में वह केवल यही जान सकी कि मिश्र देश के वजीर के यहाँ उससे मिलन होगा। जुलेखा के रूप सौन्दर्य की चर्चा सुनकर बहुत से राजा उससे पाणिग्रहण करने के लिए अपना संदेश उसके पिता के पास भेजते थे, किन्तु जुलेखा ने यूसुफ से मिलने का दृढ निश्चय कर लिया था। सुल्तान ने भी उसका कहना मान लिया और एक दूत को मिश्र देश के वजीर के यहाँ जुलेखा के पाणिग्रहण का सन्देश लेकर भेजा। वजीर को कोई आपत्ति न थी, फलस्वरूप जुलेखा मिश्र देश को रवाना हुई। जुलेखा यूसुफ के सौन्दर्य-दर्शन को आतुर थी तभी उसने एक आकाशवाणी (गैबी आवाज) सुनी और तम्बू से छेद करके मिश्र के वजीर को देखा। उसका संदेह जाता रहा तथा उसे विश्वास हो गया कि मिश्र का वजीर और उसके द्वारा स्वप्न में देखा गया युवक दो व्यक्ति हैं। जुलेखा अत्यन्त दुखी होकर अपने महल में वापस आई।

इधर यूसुफ और उसके पिता याकूब में प्रेम उसी प्रकार वृद्धि पा रहा था जिस प्रकार उपासक और उपास्य में। यूसुफ ने स्वप्न में चन्द्रमा तथा ग्यारह तारे देखे जो उसके सम्मुख झुक रहे थे। याकूब ने यूसुफ के इस स्वप्न की प्रशंसा की तथा उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। यूसुफ के प्रति अपने पिता के प्रेम को देखकर यूसुफ के अन्य भाई उससे द्वेष करते थे। एक दिन अक्सर पाकर यूसुफ के भाई उसे मेढ़े चराने अपने साथ ले गये, वहा उसे एक अंधे कुंये में डालकर उसके वस्त्रों को मेढ़ के रक्त में रंगकर याकूब को दिखाया कि यूसुफ को मेढ़िया ने मार डाला है। याकूब पुत्र विरह में अत्यन्त दुखी होकर अपनी नेत्रदृष्टि खो बैठे।

इधर यूसुफ जिस कुये में पड़े थे उसी कुये में एक सौदागर का गुलाम पानी भरने आया, पानी के वर्तन को यूसुफ ने पकड़ लिया, जिससे धवड़ा कर गुलाम भागा और अपने स्वामी को साथ लाया जिसके सम्मुख यूसुफ कुये से बाहर निकले। यूसुफ के भाइयों ने उसे सौदागर के हाथ बँच दिया। सौदागर यूसुफ को लेकर मिश्र देश पहुँचा वहा जुलेखा ने उसे देखते ही पहचान लिया तथा खरीद भी लिया। इसी मध्य एक सौदागर की लड़की भी यूसुफ पर मोहित हुई। यहीं दोनों के वार्तालाप के मध्य कवि परम सुन्दर कर्ता की आराधना करने का संदेश देता है।

जुलेखा ने सब प्रकार से यूसुफ को वशीभूत करना चाहा किन्तु यूसुफ निर्लिप्त रहा तब जुलेखा ने यूसुफ को बन्दीरुह में डलवा दिया। यूसुफ की स्वप्नव्याख्या से प्रसन्न होकर मिश्र देश के सुल्तान ने उसे अपना वजीर बनाया तथा जुलेखा का अपराध सिद्ध हो जाने पर उसके पति ने उसका परित्याग कर दिया, कुछ दिन बाद वजीर भी मर गया। परित्यक्त जुलेखा का सारा सौन्दर्य एवं वैभव नष्ट हो गया। वह नेत्र दृष्टि भी खो बैठी और यूसुफ दर्शन को लालायित रहने लगी तभी यूसुफ ने उसका कष्ट पूर्ण आख्यान सुनकर उसे अपने पास बुलाया तथा सौन्दर्य प्रदान करके जिवरील की आशा से उसके साथ विवाह कर लिया, किन्तु अब सासारिक अनुभवों के द्वारा एतेश्वर में विश्वास करने वाली जुलेखा का मन उपासना की ओर उन्मुख हुआ और वह यूसुफ के द्वारा निर्मित इबादतखाने में पूजापाठ में लगी रहने लगी।

इसके पूर्व ही यूसुफ की भविष्यवाणी के अनुसार अकाल पड़ने पर अन्न की खोज में आये हुये अपने भाइयों से यूसुफ का मिलन हो चुका था। यूसुफ ने याकूब को भी मिश्र बुलवा लिया और चिरकाल के पश्चात् पिता पुत्र मिलकर अत्यन्त आनन्द से काल-यापन करने लगे।

यूसुफ की पुकार परमात्मा के यहाँ हुई और उनका निर्धन हो गया। जुलेखा ने पति वियोग से पीड़ित हो समाधि पर प्राणत्याग कर दिया।

कथा-संगठन :

कथा का आधार 'कुरान' में वर्णित यूसुफ जुलेखा का प्रेमआख्यान है किन्तु कवि ने उसमें कुछ अन्तर किये हैं जिनका उल्लेख कवि निसार कृत 'यूसुफ जुलेखा' प्रेमआख्यान की व्याख्या में हो चुका है। नास्नव में इन दोनों कवियों ने जामी की ससन्धी 'यूसुफ जुलेखा' का ही अनुकरण किया है, कवि नसीर ने इस मत्व को स्पष्ट स्वीकार किया है। निसार की यूसुफ जुलेखा में सौदागर की सुन्दरी कन्या का उल्लेख नहीं है। सम्भवतः कवि नसीर ने इस घटना का उल्लेख इसी उद्देश्य से किया कि यूसुफ के परम सौन्दर्य का स्पष्टीकरण हो जाय। मिश्र में सौदागर की कन्या के समान कोई सुन्दर नहीं था किन्तु वह भी यूसुफ को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। यूसुफ ने उसे कृपा पूर्वक परमेश्वर के सौन्दर्य की ओर उन्मुख किया, इस घटना का समावेश कवि ने अपनी

मौलिकता है। इसी प्रकार 'यूसुफ जुलेखा' ग्रन्थ में यूसुफ और जुलेखा का पाणिग्रहण नबी याकूब की दुआ से हुआ था जबकि प्रेम-दर्पण में यह संस्कार जिवरील की आज्ञा से सम्पन्न होता है।

प्रेम-पद्धति :

प्रेम-दर्पण में यूसुफ जुलेखा के मध्य प्रेम का आविर्भाव स्वप्नदर्शन से होता है। जुलेखा ने यूसुफ के सौन्दर्य को स्वप्न में ही देखा था। क्रमशः तीन स्वप्नों में उस सौन्दर्य का दर्शन करके उसकी प्रेम भावना पुष्ट हो गई थी। जुलेखा का प्रेम आदर्श प्रेम है वह लोकाचार की अवहेलना करके केवल प्रिय की प्राप्ति करना चाहती है। यूसुफ के लिए उ ने पितृगृह एवं पतिगृह छोड़ा, दर दर की भिखारिन बनी, व्यंग और उपहास सहें फिर भी उसकी लगन कम न हुई किन्तु जीवन में इतने अधिक उतार चढ़ाव, आशा, निराशा, आनन्द एवं विषाद देख चुकने के पश्चात् उसकी भावनायें उस शाश्वत, एकरस की ओर उन्मुख हो गईं जो इन सब परिवर्तनों के ऊपर है। यूसुफ मिलन के पश्चात् वह परमेश्वर की आराधना में दत्तचित्त हो जाती है।

कवि यूसुफ एवं जुलेखा दोनों को ही परमज्योति का रूप मानता है। यूसुफ के सौन्दर्य की चर्चा करते हुये वह लिखता है :

जनों विधना निज जोत दिखावा , यूसुफ ओट में आप समावा ।

इसी प्रकार जुलेखा का नखशिख वर्णन करते हुये वह कहता है :

अस समतोल रही वह गाता , जोत साच जनों धरे विधाता ।

रस :

रस की दृष्टि से केवल शृंगार एवं करुण की व्याप्ति ही प्रेमदर्पण ग्रन्थ में है। शृंगार के अन्तर्गत भी विप्रलम्भ की प्रधानता है।

यूसुफ के सौन्दर्य को स्वप्न में देखकर जुलेखा अत्यन्त प्रेमासक्त हो उठती है, यूसुफ के विरह में उसकी अवस्था उन्मादिनी की सी हो जाती है।

'कबौं हंसत वह कबौं रोवत, बक बक करत कबौं चुप होवत' ।

दिन में तो किसी प्रकार जुलेखा की पीड़ा दबी रहती थी किन्तु रात्रि आते ही वह और अधिक बेचैन होजाती थी।

दिन बीता जो आई रैन, भई जुलेखा बहुत बेचैना ।
यूसुफ प्रेम का पङ्क श्रीगाहे, जरत विछोह अग्नि के दाहे ।

रक्त के आंसु नैन से ढारे, गगन नखत्तर रात भये सारे ।

इसी प्रकार यूसुफ के प्रेम में जुलेखा के विरह का वर्णन है ।

करुणा :

यूसुफ की मृत्यु हो जाने पर जुलेखा के विरह क्रन्दन एवं मृत्यु के वर्णन में कवि ने बड़ा ही करुण दृश्य उपस्थित किया है ।

चढके जुलेखा पुनि वेवाना, यूसुफ धाम चली वह धना ।
जाय अक्ल एक माटी ढाहा, धाय गिरी बहती हाहा ।
फूल गुलाव जो रहे कपोला, नोच किहिस जस कंसुक फोला ।

आईं चेत तो बोली रोके, यूसुफ अब कुछ बोल ।
यही उचित कि छाड़ के मोहे, सोयो माटी कोल ॥

नास अंगूरी नैन के अन्तर, जखौं किहिस निकास के बाहर ।
आह किहिस पुनि अति बरियारी, ऐखी सरें परान के वारी ।

इस प्रकार जुलेखा के शोक एवं क्रन्दन में वीभत्सता आ जाती है, गाल नोचना आंख निकाल कर फेंकना आदि क्रियायें जुगुप्सा उत्पन्न करती हैं ।

भाषा :

‘प्रेम-दर्पण’ की भाषा भी अशुद्धी है । कवि ने आरम्भ में ही सरल भाषा में काव्य रचना की ओर संकेत किया है और वास्तव में ‘प्रेम दर्पण’ की भाषा सरल एवं दैनिक जीवन में व्यवहृत होने वाली अशुद्धी है । उसमें जानी, बीबी, नरगिस ऐसे नित्य प्रयोग में आनेवाले फारसी के शब्द भी हैं । साथ ही प्राण वारना, टूव मरना, हाथ आना, बिना दाम की दासी होना, ऐसे मुहाविरों भी हैं । कहीं कहीं पर कवि ने फारसी के शब्द का हिन्दी रूप देने का प्रयास भी किया है, जैसे दिलकुशा के लिये ‘मनविकसा’ ।

छन्द :

प्रेम-दर्पण की रचना भी दोहे चौपाई के क्रम से हुई है, सात अर्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम सर्वत्र निचाहा गया है ।

अलंकार :

अलंकारों की विविधता एवं विचित्रता इस प्रेमाख्यान में उपलब्ध नहीं होती है । कवि ने साधारणतः अनुप्रास, उपमा एवं रूपक अलंकारों का ही प्रयोग किया है ।

शैली :

कवि ने मसनवी पद्धति पर ग्रन्थ रचना की है, एवं घटनाओं के नाम-करण से खण्ड विभाजन किया है। शीर्षक खण्ड का पूर्ण विवरण देता है साथ ही कहीं कहीं आरम्भ की प्रथम पंक्ति आगामी घटना की सूचना भी देती है जो मसनवी रचना शैली की एक विशेषता है।

नखशिख वर्णन :

कवि नूर मुहम्मद की भाति नसीर ने भी आँखों की उपमा 'नरगिस' से दी है।

'अस दो नैन रहे रतनारे, नरगिस जेहि के हैं मतवारे।' अधरों के अमृत की चर्चा करते समय कवि नसीर के मुँह में जान कवि की भाति पानी नहीं भर आया प्रत्युत वे अनेक वचनों से तृप्ति के भाव की व्यञ्जना इस प्रकार करते हैं:—

उन्ह के वचन अस रहे मिठाई । भूखा सुन जनो जात अधाई ॥

नेत्रों की मादकता पर वर्णन करते हुये कवि लिखता है कि जिस पर वह एक वार भी दृष्टि निक्षेप करती है वह उन्मत्त हो उठता है:—

खरग कटारी विष भरे, सेत श्याम रतनार ।
वह व्यक्ती नहि बचत, जेहि चितवत एक वार ॥

सौन्दर्य के वर्णन में उपमानों की योजना कवि ने परम्परागत ही की है धनुष, चन्द्र, कटारी, नागिन, घन, गंगा, यमुना आदि की समता में रखकर विषय का स्पष्टीकरण किया गया है:—

केश रही अस नागिन कारी, तेहि कर डस नहीं जाये भारी ।
दोइ लट माझ जोत उजियारा, जमुना माझ भई गंग धारा ॥

ध्यान देने की बात है कि कवि ने अंग प्रत्यंगों के वर्णन के साथ उनके सौन्दर्योपकरणों की चर्चा भी की है, जैसे मिस्सी, बुलाक, हार, कुन्डल आदि।

जुलेखा के दिलकुशा उपवन का वर्णन :

कवि ने उपवन वर्णन में पक्षियों, पुष्पों एवं द्रुमावलिओं के नाम गिनाने की चेष्टा ही अधिक की है:—

अचरज रूप की रही वह बारी, तंह की सकल सजी रही बारी ।
बोलत बहुत रकम रहे पाखी, उन्ह तरवर पर साखीसाखी ॥

कर्तौ गुलाब कर्तौ जूही वेला, अचरज रूप रहे वहा खेला ।
चम्पा फूल कर्तौ पर विकसे, वास सुंवास केसर कर्तौ निकसे ॥
कर्तौ मन्हरी कर्तौ विकसे लाला, कर्तौ सौधी दसनन मंह जाला ॥

कवि ने अवकाश होते हुये भी नगर, गढ़ अन्तःपुर आदि का वर्णन नहीं किया है। जुलेखा ने एक सात खण्ड का महल यूसुफ से मिलने के लिए बनवाया था, कवि ने उस महल का वर्णन भी उद्दीपन की दृष्टि से अधिक किया है। उसमें मानिक हीरा और कंचन की प्रधानता है, दीवालौं पर चित्रित चित्र प्रकृति की उद्दीपन पृष्ठभूमि उपस्थित करते हैं :—

प्रथम खण्ड के का हो वर्णन, ताह में सवो पारस पाहन ।
अधिकर का मैं गिन के बताऊँ, कंचन रूप धरौं जिन्ह पाऊँ ।
दूजे खण्ड का पन्ना पाथर, देख पढ़त चहुँ ओरी हरियर ॥

तीसर खण्ड रजत का बनावा रूपरंग में सेत ।
जो पूरनमा के लखत चन्द्रमा सत्त्वे परान की देत ॥

चौथा खण्ड सफल रहे कंचन ।
पंचवा खण्ड सफल रहे हीरा ।
छठवा खण्ड वोयर जो राता ।
सतवा खण्ड औतन्त सोभावा ।

इसके अतिरिक्त जुलेखा के विरह का वर्णन कवि ने किया है, जिसका निर्देश पीछे हो चुका है ।

इस प्रेमाख्यान एवं यूसुफ जुलेखा की कथा की विशेषतायें वास्तव में एक ही हैं, दो कवियों के द्वारा लिखी होने के कारण भाषा में स्वाभाविक अन्तर है ।

यह शुद्ध प्रेमाख्यान है जिसमें प्रेम की तीव्रता का स्वाभाविक विवरण है ।

कामरूप की कथा

कवि अज्ञात

कवि परिचय :

इस ग्रन्थ के रचयिता एवं उसके जीवन-चरित के संबंध में कुछ ज्ञात नहीं है। ग्रन्थ की पाण्डुलिपि काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संग्रहालय में देखने को मिली है। ग्रन्थ का आरम्भ एवं अन्त निम्नांकित है:—

आरम्भ :

ओं श्री गणेशाय नमः । ओं पोथी कामरूप का किस लिष्या ॥
अलीहीवाद कार्रकर है हु अलिम का पैदा करनहार है ॥
न कोई करै तेरी कुदरत वया, नहीं इल्म तेरा किसी पर अया ॥
चहूँ ठौर गाँव सौहिला पुकार, सभा में फिरे पातरे समकतार ॥

अन्त :

नह इसक काहै मुफे कछु खबर, न उनके मिलन का कहो कुछ खबर ॥
इति श्री पोथी कलाकाम का कुंअर काम का विरहो की केसा समाप्त ॥

चौपाई :

काशी नागरी प्रचारिणी सभा की (सन् १९०६-७-८) की खोज रिपोर्टों में एक और कामरूप की कथा का उल्लेख मिलता है जिसके रचयिता हरिसेवक मिश्र हैं। इस कथा का आरम्भ इस प्रकार है:—

श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती जू नमः । अथ कामरूप की कथा लिष्यते । छुनेहरा ।
हरि चरिननि करिबन्दना, वंद-त चरन महेश । कंठ बसहु मम सारदा उर मह बसहु
गनेष ॥ सरसुति वदौ चरन तुव हूजै मोहि सहाई । कथाअपूरव वरनिहौँ सौ सुनि अगत
सिहाय ॥ छपया ॥ सुमिरत श्री गनेश ग्यान घर वेस होई उर । आनन्द मंगल रूप कहुयो
वेद और सूर ॥

अन्त :

श्री नृप सिंहउदोत के नन्दन तो दरसे सब दुष्य नसाई ।
कामरूप विवाह सुष आगमनो नाम अष्ट दसमौ स्वर्ग समाप्ता ॥

व्यतीत हो गया और कमाकला के विरह ज्वर के सारे उपचार वृथा सिद्ध हुये । एक दिन कलाकाम शिव मंदिर में पूजा के लिए गई और पुरोहित सुमति ब्रह्मण से अपनी सारी व्यथा कहकर सहायता करने को कहा । रानी का आदेश पाकर सुमति ब्रह्मण वहाँ से चल दिया और श्रवधपुर पहुँचा, वहा पहुँच कर कुंवर के भंडारे में जाकर उसने सरनद्वीप की राजकुमारी कलाकाम का वृत्तान्त कहना आरम्भ कर दिया जिसे सुनकर कुंवर को विश्वास हो गया कि यह उसकी स्वप्न में देखी हुई सुन्दरी की ही कथा है । कुंवर ने सुमति के साथ प्रस्थान करने का दृढ निश्चय कर दिया और माता पिता से आज्ञा ले अपने ६ साथियों जो उसके पिता के मुसाहिव के पुत्र थे, के साथ सरनद्वीप चल दिया ।

मार्ग में उसको राजा करन का राज्य मिला । राजा करन ने कुंवर को समझाया और मार्ग के अथाह समुद्र का स्मरण कराके आगे जाने से रोका । कुंवर ने मार्ग के विघ्न की कुछ भी परवाह न करके एक जहाज पर सातों साथियों के साथ प्रस्थान कर दिया । बहुत दिन की यात्रा के बाद कुंवर को सरन द्वीप दिखाई दिया सभी साथी जिसे देखकर हर्ष प्रकट करने लगे, किन्तु इस समय प्रतिकूल वायु चलने के कारण जहाज टूट गया और आठों साथी एक तख्ते पर बैठ कर समुद्र में वह चले वह तख्ता भी टूट गया । आठों साथी एक दूसरे से विछड़ गये । कुंवर का तख्ता एक निर्जन वन के किनारे जाकर लगा, कुछ देर बाद वहा कुछ स्त्रिया आई जिन्होंने बताया कि वह स्त्रीराज्य था जहा रावता राज्य करती थी । कुंवर को दण्ड मिलने वाला था कि रानी स्वयं उस पर मोहित हो गई और उसका प्राण बच गया । रात्रि में जब कुंवर सो रहा था, चन्द्रमुख परी उस पर मोहित हो गई खौर कामरूप को ले उड़ी । परी ने स्पष्ट कह दिया कि यदि कुंवर परी के पास रहने से इन्कार करेगा तो उसकी प्राण-रक्षा न हो सकेगी । कुंवर ने विवश होकर रहना स्वीकार किया ।

कामरूप को वहा रहते हुये एक वर्ष व्यतीत हो गया कि इसी समय चन्द्रमुख परी के मगेतर को इसकी सूचना मिली उसने कुंवर को पकड़वा मंगाया तथा कोहकाफ की गुफा में एक राक्षस पास में कुंवर का आदेश दिया किन्तु परियों को दया आ गई और उन्होने उसे समुद्र में फेंक दिया जहा से बहता हुआ वह फिर किनारे लगा ।

समुद्र तट पर उसे 'तसमयैर' नामक कोई प्राणी मिला जो कुंवर के कन्धे पर चढा हुआ घूमा करता था । एक दिन कुंवर नेबान में अंगूर की बेल लगी देखी तथा युक्ति पूर्वक उन अंगूरों की शराब बनाकर उस तसमयैर को पिलाई । जिसके स्वाद से वह बहुत हर्षित हुआ तथा अपने साथियों को भी पिलाने के लिए बुलाया, जब सभी पीकर मदोन्मत हो गये । जिन व्यक्तियों की पीठ पर वे आरूढ थे उन्होने उन्हें गिराकर मुक्तिलाभ की । सब मनुष्य तो तसमयैर से छुटकारा पाकर चले गये किन्तु एक व्यक्ति निराश होकर कहने लगा कि वह अपने जीवन से निराश है अतः वह कहीं न जाकर वहीं रहेगा । जब उसने अपनी दुख कथा सुनाई तो ज्ञात हुआ कि वह कुंवर का मित्र मित्रचन्द था जो इतने दिनों तक कष्टों को भेलने के पश्चात् इस प्रकार कुंवर को मिला था । मित्रचन्द को एक

दूसरे दिन सिरपर डुपट्टा बाधकर कुंवर स्वयंवर में पहुँचा और कामकला ने उसे वर माला पहना दी किन्तु राजाओं के विरोध करने पर कामराज ने कुंवर और उसके साथियों को एक अंधेरे कुएँ में डाल दिया ।

मितरचन्द्र को राजस के दिये हुये बाल का स्मरण हुआ और उसने बाल को आग पर रक्खा कि राजस ने प्रकट होकर उन सबों को कुएँ से मुक्त कर दिया । नगर से दूर जाकर दरवेश के दिये हुये पारस पत्थर की सहायता से कुंवर ने राजाओं के समान ही शृंगार सज्जा बनाकर सेना सहित नगर में प्रवेश किया, अब किसी को उसके राजा होने में शंका न थी और सहर्ष कामकला का पाणिग्रहण कुंवर कामरूप के साथ सम्पन्न हुआ ।

कुंवर कामरूप अपने मित्रों एवं पत्नी कामकला के साथ स्वदेश को लौटा । सर्वत्र उसके आगमन से आनन्द व्याप्त हो गया । यहीं कवि कथा का अन्त कर देता है ।

कथा-संगठन :

कथानक पूर्णतः काल्पनिक ज्ञात होता है । कथा की गति में आश्चर्यतत्वों, परी, राजस, देवनी, तसमैयर का विशेष हाथ है । दरवेश की कृपा का भी अत्यधिक प्रभाव कथा की सुचारु गति पर पड़ता है । कुंवर के सभी साथी किसी न किसी रूप में सहायक सिद्ध होते हैं, जैसे पंडित, जौहरी, रसज्ञ, कलाकार एवं चित्रकारों का राजकुमारों का सहायक होना स्वाभाविक ही है । कथा को सुखान्त करके कवि ने अपनी सहृदयता का परिचय दिया है । कुंवर के साथियों के कष्ट विवरण के द्वारा प्रमुख कथा में कई कथाओं का मिश्रण हो गया है । घटनाबाहुल्य एवं चमत्कारपूर्ण विवरणों के कारण ही कथा का आकर्षण है ।

प्रेम-पद्धति :

कुंवर एवं कामकला दोनों में ही प्रेम का आविर्भाव स्वप्न-दर्शन के द्वारा होता है जिसकी क्रमशः पुष्टि सुमति ब्राह्मण के विवरण एवं चित्रमन चितेरे के चित्रों के द्वारा होती है ।

रस :

रस की दृष्टि से ग्रन्थ महत्वपूर्ण नहीं है । कवि की शैली वर्णनात्मक अधिक है, उसने रस-चर्चा की ओर ध्यान नहीं दिया है । शृंगार रस के अतिरिक्त कोई अन्य रस ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं होता । संयोग शृंगार की चर्चा कवि ने जानबूझ कर नहीं की है । उसने स्वीकार किया है कि यह प्रसंग इतना गुप्त है कि इसकी कोई खबर उसे नहीं है ।

‘न इसक का है मुझे कुछ खबर, न उसके मिलन का कहो कुछ खबर ।’

विरह के वर्णनों में भी कवि की वर्णनात्मकता अधिक है, जैसे कागकला के विरह का वर्णन करते हुये कवि लिखता है :

कुंवर के विरह से हुई छीन तन ।
हुनैनों से आसू उबलने लगा ॥
सगल हाड़ से मास गलने लगा ॥
हुनैनों से आसू चले जार जार ॥
गुसइआ मिलावे कहे वार वार ॥

ऐसे स्थलों के मध्य कहीं कहीं रहस्य भावना से पूर्ण भावात्मक वर्णन भी मिल जाते हैं। विरह की व्याप्ति का वर्णन कवि इस प्रकार करता है :

पपीहा बियावान जंगल भने, कुंवर बिन कलारानी कैसे गने ।
बिहंगम फिरे बन में बोले सदा, कलाकाम रानी कुंवर से जुदा ।
जंगल में सुने जब कुइल की कुहुक, कै विरह की उठी तन में लुक ।

कुछ स्थलों में वात्सल्य भावना का भी परिचय मिल जाता है, स्वप्न में कलाकाम को देखकर जब कुंवर मूर्च्छित हो गया, तथा जब स्वदेश छोड़कर सरनद्वीप की ओर प्रस्थान करने लगा उस समय उसकी माता-पिता की चिन्ता वात्सल्य भावना की ही परिचायक है :

जु देखत कुंवर है वेहोश सा, गिरा अक्लसम षोके सेनीससा ।
पिता हाथ से हाथ मारू परा, कुंवर कामरूप कर पुकारे परा ।
पुकारे कहे इह परा है पिता, कुंवर अपने मन का मरम कुछ वता ।

चलते समय उसकी माता का सगुन का टीका लगाना एवं स्मरण रखने का आग्रह बढ़ा स्वाभाविक है :

सगुन से चला हुआ मुझे दे विदा, कुंवर हमको याद रखना सदा ।
कुंवर फिर के माता से बोला वचन, मुझे नित रहे इस तुम्हारी सगन ।
परा भुइ परा जब तक आकास है, तुम्हारे चरन का मुझे आस है ।
तू माता विदा दे मुझे अब चली, सरनद्वीप में जा कला से मिली ।
बिलक के सुन्दर ने तव कही, लिआवो कुंवर के सगुन का दही ।
दही लेके माता ने टेकी दिया, सगुन से कुंवर को विदा तव किया ।

अलंकार :

कामरूप की कथा वर्णनात्मक अधिक है, कवि ने साधारण बोलचाल में इशक की

कहानी कही है। उपमा, अनुप्रास ऐसे अलंकार भी यत्र तत्र मिलते हैं। उपमा उत्प्रेक्षा दोनों का प्रयोग एक ही पंक्ति में मिलता है।

उपमा :

मुआ नासिका कंठ जिन कोकला, पजन की सी नैन हंस का गला ।
कमर सिंघ की सी चलै गति गयंद, न जाने कपट भेद दूनीआ का छन्द ॥

अनुप्रास :

मुलक माल आमाल था वेसुमार, महलों मे वरगी वजेगी नार ।

भाषा :

कथा कामरूप की भाषा खड़ी बोली का आरम्भिक स्वरूप है, जिसमें फारसी शब्दों का प्रयोग अधिक है। कथा के आरम्भ में कवि जहा अल्लाह मुहम्मद एवं इस्क के महत्व का प्रतिपादन करता है फारसी शब्दों का प्रयोग अधिक है, किन्तु कथा के वर्णन सहज एवं बोधगम्य हैं, जिन फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है वे क्लिष्ट नहीं हैं।

कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जायेगा :

रषा उसके दर पर बड़ा एक संग ।
हुनैनों से आसू चले जार जार ।
गिरा भुइ में छफसोस करने लगा ।
चितरमन फरद एक कागज लीआ ।
मगर एक फरजन्द उसके न था ।

न कोई करे तेरी कुदरत वया , नहीं इलम तेरा किसी पर आया ।

अन्य प्रसंग :

सूफी प्रेमाख्यानों में कुछ ऐसे वर्णन प्रसंग हैं जो लगभग सभी ग्रन्थों में मिल जाते हैं। जैसे महल की सजावट, कोट वर्णन, हाट वर्णन, जलक्रीड़ा वर्णन, नख-सिख वर्णन, व्याह-वर्णन, विदा वर्णन आदि, किन्तु इन प्रसंगों में से किसी का भी विस्तृत वर्णन कामरूप कथा में नहीं मिलता है केवल कुंवर जन्म एवं कामकला के सौन्दर्य का कुछ अधिक वर्णन मिलता है जिसमें भावात्मकता या कान्व्यात्मकता नहीं के बराबर है।

कुंवर-जन्म :

मदीला लगा हर तरफ वाजने, सुधर पातरे सभी लगी नाचने ।

भगती आ तवाइफ फिरे हर तरफ, वजे सब तरफ ताल मिरदंग अजव ।
जनेऊ तिलक देके बैठे महंत, बहुत पण्डित आये सभी ग्यानवन्त ॥

कलाकाम का सौंदर्य :

सुलक्ष्मी थी पद्मिनी थी ऐक अंग, चित्रनी सी चैरी रहै एक संग ।
सुकचिती चलै चाल जब पग उठा, वजे पग में धंघरू महल भनभन्ता ।
भरे हाथ मेंहदी लगा लाल लाल, भरे केश मोती लगा बाल बाल ।
हुनैनों में काञ्चल दिआ मनहरन, कश न आबै उसके मुष वरन ।
मूआ नासका कंठ जिनु कौकला, पंजन की सी नैन हंस का गला ।
कमर सिंघ की सी चले गति गयंद, न जाने कपट भेद हुनीआ का छंद ॥

इसके अनिरीकत कथा के आरम्भ में इस्क की व्याप्ति एवं महत्व का वर्णन भी कवि ने कुछ विस्तार से किया है। यह ससार उस परमेश्वर की कर्तृत्व शक्ति का परिचायक है। वह परमेश्वर अगम्य एवं परम शक्तिशाली है, प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा से आर्तकित होकर उसे स्नेह करना है और यही इस्क जगत में विभिन्न रूपों में व्याप्त है।

सकल जीव डर से तेरे कंपै, तेरे इसक सो नाम तेरा जपै ।
तुही इसक सो सम को पैदा, तेरी इसक ने सब को पैदा किया ।
किया इसक से राम सीता की चाह, धनुष तोर सीता लिआये वियाह ।
एही इसक से राधेकसन सुदामा, करै दीपन चट मेहरम के वामा ।
इही इसक से महा वेचैन है, मिहर का षिआल उसको दिन रैन है ।
येही इसक से बाढसाह अउषमुलक, कीआ जा अरज में परी से सकल ।
अवा साह महिमूद वाइजुनाज, हुआ इसको जो गुलामे अजाव ।
येही इसक मजनु में हैवी असल, वहाने से लौली देवा जल ।
इही इसक ने नल को जोगी किया, दमन्ती के दरस का वियोगी किया ।
इही इसक जिस घट में आके वसे, उस देखकर जग में सबको हैसे ।
हरफ तीन है इसक का सुन विआ, हुआ इसक ऊपर हुआ अइआ ।
सीम काफ है गा न देवै करार, नदी इसक की नित उबलनी रहे ।
अग्र इसक का तन में जलता रहै, व जलनी अगन इसक मेहर कदाम ॥

इस प्रकार 'इस्क' के गुणगान से आरम्भ करके कवि ने इस्क की सफलता पर ही कथा का अन्त कर दिया है। कथा कामरूप सुखान्त कथा है।

कथा कुँवरावत

(अली मुराद कृत)

कुँवरावत नामक ग्रन्थ का उल्लेख कहीं किसी ग्रन्थ में अभी तक नहीं हुआ है। कवि ने ग्रन्थ के मध्य में अपना नाम अली मुराद दिया है^१। कवि के संबंध में केवल इतना ही विदित होता है।

कवि ने अपने गुरु का नाम 'फखरुद्दीन' दिया है, जो हजरत निजामुद्दीन औलिया के पुत्र थे तथा उनकी शिष्य परम्परा में आते हैं। अपने गुरु की चर्चा कवि ने स्फुट पदों में अधिक की है।^२

कथा-सारांश :

कवि ने कथा का आरम्भ बनारस नगर के वर्णन से किया है। बनारस नगर अत्यन्त समृद्ध है तथा वहाँ की लीला सुन्दरी हैं। एक बार वहाँ अमरनगर का राजा इन्द्र अपनी पुत्री के साथ गंगास्नान को आया। वह कन्या अत्यन्त रूपवती थी, उसके दर्शन करके लोगों को अत्यन्त संतोष होता था। कन्या का नाम फूलमती था। इसके बाद एक पृष्ठ या २४ दोहे नहीं है। फिर कथा जहाँ से आरम्भ होती है वहाँ एक कुँवर चार अन्य साथियों के साथ एक फुलवारी में है कुँवर दिन भर अत्यन्त व्यथित होने के बाद रात्रि में भी चैन न पा सका, तभी वहाँ कुछ अप्सराओं का आगमन हुआ। उनके आने से सारा उपवन सुवासित हो उठा। रात भर उनकी क्रीड़ाएँ कुँवर तथा उसके साथ के जोगी देखते रहे। प्रातः काल जब होने को हुआ तब उन परियों ने कुँवर तथा उन जोगियों को एक-एक प्याले में कुछ पीने को दिया। कुँवर ने उसका पान नहीं किया, अन्य चार जोगियों ने उसे पी लिया। फलस्वरूप सबेरा होने पर केवल कुँवर ही वन में रह गया वे चारो जोगी परियों के साथ अर्न्ध्यान हो गये।

१. अली मुराद सब छाड़ दे, एक गुरु चित लाव।
भरम गये भरम भये, गुरु को हर सुराव ॥

२. निजामुद्दीन के लाल फखरुद्दीन विनती सुनो हमारी।
भव सागर से पार उतारो वेगिहि लियो उवारी।
बोहित बूढी मंरुधारी

तथा

निजामुद्दीन का सुन्दर संवरिया, उन मेरो बांह धरोरी ॥

अकेला कुंवर इन्द्र की पुत्री फूलमती का नामस्मरण करता हुआ आगे बढ़ा। कुछ दूर पहुँच कर वह ऐसे स्थान पर पहुँचा जहाँ की भूमि तपती थी। उसके आगे अथाह खारे पानी की नदियाँ बहती थीं। कुंवर अत्यन्त चिन्तित था तभी उसे एक तपस्वी दिखाई दिया, कुंवर ने उससे अपनी व्यथा कही, तपस्वी ने उसके कथन में सत्यता जानकर अनुग्रह पूर्वक उसे दो वस्तुयें दीं, एक मन्त्र जिसके भीतर कोई मन्त्र लिखा हुआ था तथा एक लकुटिया जो आश्चर्यमयी थी। जल में डाल देने से वह बोधित बनकर अपने स्वामी को पार उतार सकती थी। ये दोनों वस्तुयें देकर वह तपस्वी वहीं अर्न्तध्यान हो गया।

कुंवर ने लकुटिया की सहायता से समुद्र पार किया और आगे अग्रसर हुआ। एक महीना चलने के पश्चात् वह एक नगर के पास पहुँचा वहाँ जाकर ज्ञात् हुआ कि फूलमती को देखकर लोभों की सुघन्नुघ भूल जाती है और व्यक्ति पाहन बनकर निश्चल हो जाता है। कुंवर ने मन्दिर में मूर्तियों को भी निश्चल देखा, अपने मन्त्रबल से उनमें से एक को चेतन करके कुंवर ने पूँछा तो उसने उत्तर दिया कि एक बार फूलमती मन्दिर में पूजा करने आई थी जिसे देखकर मूर्तिया पाषाण बन गईं। मूर्ति ने कुंवर का परिचय पूँछा तो उसने बताया कि राय पिथौरा उसका आज्ञा तथा कंवलावती उसकी आजी है। देवताओं को कुंवर का परिचय जानकर हर्ष एवं विषाद दोनों ही हुआ और उन्होंने बताया कि फूलमती की प्राप्ति अत्यन्त कठिन है। कुंवर निर्भिक होकर आगे बढ़ा। उसके साथ चार सौ देवता भी जोगी का वेष धारण करके चले। नगर के समीप पहुँच कर कुंवर को नगर रक्षक देव मिले। जो अत्यन्त हर्षित होकर मनुष्यों को खाने को उद्यत हुये कि कुंवर ने आगे बढ़कर मन्त्र तथा लकुटिया के प्रभाव से उन सबको मार डाला उनमें से केवल एक देव किसी तरह भाग निकला और उसने राजा इन्द्र से जोगियों की शक्ति का वर्णन किया जिसे सुनकर इन्द्र को विश्वास हो गया कि यह जोगी दत्त अवश्य अपूर्व शक्ति-शाली है। उसने एक मन्त्री को कुंवर का मर्म जानने के लिए भेजा। कुंवर को फूलमती का प्रेमी जानकर मन्त्री ने समाचार राजा इन्द्र से कहा। इन्द्र ने कुंवर से कहला भेजा कि एक जादू के पिंजड़े में जादू का ही तोता निवास करता है यदि कुंवर उसे वेष देगा तो उसका विवाह फूलमती के साथ हो सकता है। कुंवर ने मन्त्रबल से तोते को वेष दिया, प्रण पूरा हो चुकने पर शुभ लगन में कुंवर एवं फूलमती का पाणिग्रहण हो गया।

फूलमती एवं कुंवर आनन्द से रहने लगे तभी एक दिन स्वप्न में अपने देश एवं परिवार को देखकर कुंवर की इच्छा स्वदेश लौटने की हुई। विदा कराके दहेज की धन संपत्ति लेकर कुंवर नाव पर चढ़कर स्वदेश चला। समुद्र कुंवर की दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धर के आया। कुंवर को दान करने से विमुख देख कर वह कुपित हो गया और आधी तूफान आने से उसकी नाव समुद्र में पड़ कर बह गई। फूलमती एक तख्ते के सहारे चार दिन के बाद एक किनारे से जा लगी, वह देश विभीषण का था, चेरियों के द्वारा जब उसे समाचार मिला तो उसने हर उपाय से फूलमती को चेत में लाने का प्रयास किया। फूलमती का परिचय पाकर विभीषण ने कुंवर की खोज का प्रयास किया क्योंकि इन्द्र विभीषण का गुरु था, समुद्र मन्थन एवं दान पुरय्य कराके

विभीषण ने कुंवर को प्राप्त कर लिया, इस प्रकार पुन फूलमती और कुंवर आनन्द से कालयापन करने लगे ।

इसी समय विरहिणी की अवस्था में वासुमती का परिचय कवि देता है । वासुमती वासुदेव की पुत्री एव कुंवर की पूर्व पत्नी थी, कुंवर के विछोह में वह वन वन रोती घूमती थी । एक हुदहुद ने उसकी कथा सुनकर कुंवर तक उसका सन्देश पहुँचाने का उत्तरदायित्व लिया । हुदहुद के द्वारा वासुमती का कर्ण क्रन्दन सुनकर कुंवर फूलमती के साथ स्वदेश की ओर चल दिया, वहाँ पहुँच कर कुंवर आनन्द से रहा, पिता की मृत्यु के पश्चात् उसने बारह वर्ष तक राज्य किया ।

नगर गौर के सुल्तान ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया । नगर के समीप पहुँच कर कुंवर से कर देने के लिए कहला भेजा । कुंवर ने मानहानि जानकर सुल्तान को युद्ध के लिए ललकारा । कुंवर की युद्ध निपुणता से सुल्तान धवरा गया, किन्तु एक गुलाम ने छल पूर्वक कुंवर को भाले से मार डाला । सुल्तान गद्दी पर बैठा और उसने लालकुंवर को कन्नौज का राजा बनाया । जब महमूद गजनवी भारत आया तो कन्नौजाधिपति ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली । महमूद गजनवी के भारत से लौट जाने पर सारा कालिञ्जर देश उसका वैरी हो गया । कालिञ्जर के राजा ने छलपूर्वक एक रात्रि में उसे मार डाला । क्रोधित होकर महमूद गजनवी ने फिर आक्रमण किया और बहुत से आदिमियों को मुसलमान बनाया तथा अपना सिक्का चलाया ।

फूलमती को कुंवर के निधन का समाचार मिला तो वह अत्यन्त दुखी होकर कुंवर के साथ सती हो गई । इसके बाद कवि कथा की समाप्तोक्ति को पूर्ण कर के कथा समाप्त कर देता है ।

कथा संगठन :

अन्य प्रेमाख्यानों की अपेक्षा इसके रचयिता कवि अलीमुराद का ध्यान सूफी सिद्धान्तों एव प्रेम पन्थ के निरूपण की ओर अधिक है । उसने अपनी प्रेम कथा आरम्भ करने के पूर्व, निर्गुण महिमा, गुरु महत्व एवं शरीयत के नियमों की विस्तृत विवेचना की है ।

कवि ने प्रेम आविर्भाव के हेतु बड़ी स्वाभाविक घटना की योजना की है यद्यपि पृष्ठ अनुपलब्ध होने के कारण निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है किन्तु कथा की गति देखकर निश्चित होता है कि राजकुंवर और फूलमती का मिलन उसी मेले में हुआ होगा ।

कथा में मन्त्र जन्त्र का वर्णन यथेष्ट है । राजकुंवर की सिद्धि में सहायक एक

जन्तर तथा लकुटिया है। इन्हीं की सहायता से वह गहन समुद्र, तप्त भूमि आदि को पारकर फूलमती के नगर रत्नों को परास्त करना है।

अन्य कथाओं की भांति कवि ने समुद्र यात्रा को योजना की है। एक वार वह साधना के प्रभाव से उसे पार कर लेता है दूसरी वार लोभ के कारण अपनी सिद्धि से विमुख हो जाता है।

फूलमती की प्राप्ति के लिए अर्जुन की भांति राजकुंवर को भी एक पिंजड़े में स्थित तोते को वेधना पड़ा है।

कथा की एक और विशेषता है कि उसने अन्य कलाकारों की भांति पात्रों का परिचय पृथक् से नहीं दिया है प्रत्युत कथा के मध्य ही उनका पूर्व परिचय ज्ञात होता चलता है जैसे राजकुंवर एवं वासुमती का परिचय।

कथा दुखान्त है। राजकुंवर की मृत्यु हो जाने पर फूलमती तथा वसुमती उसके साथ सती हो जाती है। इस स्थल पर कवि का 'वासुमती' का पृथक् उल्लेख न करना कुछ आश्चर्य-जनक ज्ञात होता है।

कथा के अन्त में वह अन्योक्ति को स्पष्ट करने का प्रयास भी करता है। कवि ने कई पौराणिक एवं ऐतिहासिक नामों को कथा में रखकर उसे अनोखा स्वरूप दिया है। फूलमती वहकर 'विभीषण' के राज्य में पहुँची थी। जिसका गुरु 'इन्द्र' था तथा कुंवर का बाबा राय पिथौरा दिल्लीश्वर था। दिल्ली के अधिपति पृथ्वीराज के लिए भी राय पिथौरा शब्द रासौ में प्रयुक्त हुआ है, किन्तु इन नामकरणों के कारण हम कथा को ऐतिहासिक नहीं कह सकते हैं। कल्पना का उसमें प्रचुर योग है।

वस्तु-वर्णन :

कवि का ध्यान वस्तु वर्णन की ओर अधिक नहीं है। अक्सर होते हुये भी उसने नगर, कोट, उपवन, जलक्रीड़ा आदि का वर्णन नहीं किया है, केवल दो ही स्थलों पर कवि की लेखनी विस्तारप्रिय हुई है। फूलमती का वारहमासा, एवं वसुमती का विरह वर्णन, दोनों ही स्थल अत्यन्त मार्मिक एवं संवेदनापूर्ण हैं।

मास कुंवार वरखल का निचोड़ा, बूंद वरसे जल थोड़ा।
वैरी भवन दादर अस रूपा, सदा न जाय वरखा की वृषा।
तरुवर की पूजी गई आसा, हरियारी भई फूली कपासा।
मेरो जनम अकारथ जाई, परदेसी घरहूँ × × × ॥

उसकी कृशता की ओर भी कवि संकेत करना है,—

प्रम की आग धाय के आये, चाम हाड़ सब छन मा जराये ।
उठी लूक हिया सो मोरे, अस मै जरीं कन्त दुख तोरे ॥

बारहमासे के अर्न्तगत कवि ने केवल चार मास, 'असाढ, सावन, भादों, क्वार का ही वर्णन किया है, उसमें भी कवि का ध्यान प्रकृति के उपकरणों की ओर अधिक न होकर फूलमती के विरह वर्णन की ओर अधिक है। सावन मास में प्रिय का वियोग उसे दुखी करता है।

सावन मास भरी अस लावे, तरस तरस विन पिउ जिउ जावे ॥

किन्तु सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि उसका विरहदुख सम्पूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। सूर्य में ताप उसके विरह का है। तारे उसके विरह में दुखी होकर टूटते हैं, पपीहा और कोयल उसके ही विरह से प्रभावित हो वेदनापूर्ण गीत गाया करते हैं। इतना सब होते हुये भी वह आह भी नहीं भरती, क्योंकि उसे भय है कि कहीं सम्पूर्ण सृष्टि जल न जाय।

आह करौं तो जग जल जाय, प्रेम की आग सरग का जाय ।
सूरज जरतत हई मोरे सोगा, चन्दर जरा वही गहन हुइ लागा ।
सूरज जरा मुख जारी छाई, चन्दर जरा मुखा भवा बनाई ।
तारा जरइ टूट भुई आये, जरइ कोयल और पपीहा जराये ।
कोयल जर के भइ है कारी, पपीहा जरा पिउ पिउ रट मारी ॥

वसुमती का विरह :

वसुमती अपने विरह वर्णन के साथ ही अपना परिचय भी देती है :—

वासुदेव राज की मैं बारी, सब राजन मा जो पल भारी ।
फूलमती के देश सिधायो, मोरे तन प्रेम कटारी मारयो ॥

तुम तो मती के नेह में, गयो अछरन के देश ।
हम निस दिन जरजर मरे, पढयो ने एक संदेश ॥

वसुमती जब अपनी बगिया में इसी प्रकार विरह पीड़ित थी तभी एक हुदहुद ने उससे दुखी होकर पूँछा।

केहि कारण बगिया में आये, पंख पखेरू काहे जराये ।

कवि मुराद ने पशु पक्षियों में केवल सवेदना ही प्रदर्शित नहीं की प्रत्युत उन्हें सहायक भी सिद्ध किया है।

हुदहुद कहा निहची रहो रानी, राखो धीर न खोवो ज्ञानी ।
जहां तोर कुंवर × × × , विधा तोर सब जाय सुनैहों ।
राखो धीर मन मा तुम प्यारी, पहुँचो ध्यान पलक एक मारी ॥

हुदहुद कहके उड़ गया, गयो समुन्दर पार ।
खोजन कुंवर को लगा, वन्यो सिरजन हार ॥

सती होने के समय कवि वसुमति को विस्मृत सा कर देता है और फूलमती को ही सती सज्जा धारण करके संसार त्याग करते हुये दिखाया है ।

रस :

ग्रन्थ वर्णनात्मक अधिक है, अतः रस की दृष्टि से इसे बहुत सफल नहीं कहा जा सकता । मनोभावों एवं अन्तर्दशाओं का वर्णन इसमें नहीं है, केवल प्रेम और प्रिय प्राप्ति की कष्ट साध्य साधना का विस्तृत वर्णन है । यथास्थान कवि अपने सूफी सिद्धान्तों की विवेचना में प्रयत्नशील है, फिर भी प्रधानता इसमें शृंगार रस की ही है । विप्रलम्भ शृंगार के अन्तर्गत वारहमासे आदि की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं । लालकुंवर के विरह में भी कवि की सिद्धान्तवादिनी दृष्टि प्रमुख है :-

एक ही एक नहीं कोउ दूजा, वहू लिए दूजा करे पूजा ।

पपीहा हो पी पी रटूं, खोजूं इन्दर कैलास ।
हिरदे से सुमिरन करूँ, तब जाऊँ वह पास ॥

तथा

चला इन्दर कैलास को, ध्यान गुरु चित लाय ।
भारे भये हर सुमिरन लागे, भोजन भाव समी वह त्यागे ।
फूलमती का लैके नाऊँ, छोड़ चले देवतन का गाऊँ ॥

कहीं भी विरह की मर्यान्तिक पीड़ा, दर्शन की उत्कट लालसा या त्याग का चरम विकास दृष्टिगोचर नहीं होता । कवि की उपदेशात्मक दृष्टि ही प्रधान है ।

संयोग वर्णन में भी यही प्रधानता है । अश्लीलता का पूर्ण अभाव है, मिलन का उपदेशात्मक अथवा भावात्मक वर्णन है ।

फूलमती से कुंवर ऐसे मिले कर जोग ।
चिन्ता दुख सब हर गयो, अब खायो रस भोग ॥

× × ×

काया तोर मोर गई काया, लखौँ आप मा आपही पाया ।
कर का पकर छाती से लगाई, मती की सब भूली चतुराई ।

एक पियालह पी वीरायों, निरगुन छाड़ उन कहनी आयो ।
छोड़ा पीना रंग दिखायो, वीर बहूटी जम उपरायो ॥

अन्य रस के अन्तर्गत हम युद्ध वर्णन में वीर एवं कुंवर के निधन पर करुण की छाया देख सकते हैं। युद्ध के हेतु कवि ने भारथखण्ड की पृथक रचना की है, फिर भी उसमें युद्ध की सज्जा एवं वीभत्सता का वर्णन अधिक न होकर ऐतिहासिक एवं काल्पनिक तत्वों का समन्वय अधिक है।

युद्ध-वर्णन :

घेर लियो वह कटक को सारे, विगड़ी कुंवर की सारी लड़ाई।
कुंवर की कटक साथ सब छोड़ा, नमक हराभी सब मुंह मोड़ा ।
कटक गयी सब कुंवर की साथी, एक रहै आप दूमर हायो ।
जैसे साह के आयें वीरा, कुंवर भई पहुँचा उन नीग ।
एक पै सौ सौ खरग चलावें, कुंवर कहाँ लै देह बचावें ।
लोथ पर लोथ जब कुंवर गिरायो, तब सुलतान देखि घबरायो ।
एक गुलाम रहा सुलताना, कुंवर को पाछे से मार हो जाना ।
गिरते गिरते कुंवर मरदाना, उह को मार गिरायो स्थाना ।
एक ने कुंवर पै तीर चलाई, लगी कुंवर की गिरी मरजाई ॥

शोक-प्रसंग :

तब ले रानी शीश उभारा, कहा मोह अब भयो जग अधियारा ।
कहो सब सत्त राम, नहि दूजा, सत में रहे राज सत पूजा ।
कहा कि सब से करो तैयारी, मोह एक ब्याहू पहिरायो सारी ।
हम दो आप सती होवे, सोरहो सिगार जराहु कै खोवे ।
कहा बिन पान भई मुख राता, फूल भङ्गे बोले अस वाता ।
ब्याहू जोड़ा दोउ ने पहिना, तन मा सजे दोउ गहना ।
कहिन की प्रेम की आग हम जरिवे, काया जराय अब कन्त पर मरिवे ॥

चलना चलना हो रहा, चलना विस्वा बीस ।

एसी सभी सोहाग पर कौन गवावें सीस ॥

वसुमती का आशय इन्हीं 'दोऊ' या सब नारी के रूप में हो सकता है, अन्यथा पृथक से उसका कोई उल्लेख नहीं है। इस करुण प्रसंग में शोक की छाया विशेष नहीं है प्रत्युत उसमें शोक की गम्भीरता एवं पूर्ण शान्ति है।

छन्द :

कवि ने अपने ग्रन्थ कुंवरावत की रचना दोहे चौपाई के क्रम में की है। सात होता है कि सम्भवतः कवि चौपाई एवं अर्द्धाली में अन्तर नहीं मानता तभी उसके ग्रन्थ में छः से लेकर नौ अर्द्धालियों के बाद दोहे का क्रम पाया जाता है। कहीं छः, कहीं सात, आठ एवं नौ अर्द्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम है।

अलंकार :

कवि ने साधारण उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है।

भाषा :

इस ग्रन्थ की भाषा भी ज़ोलचाल की अवधी है, किन्तु साथ ही रहली, गइलें आदि पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। संस्कृत या फारसी के तत्सम शब्दों का अभाव है, कहीं भी कवि पाण्डित्य नहीं दर्शाता।

सिद्धान्त चर्चा :

कवि की कथा में उसके सिद्धान्त ही अधिक प्रखर हैं। वह परमेश्वर, सृष्टि, गुरु एवं प्रेम के सम्बन्ध में अपने विचारों को स्पष्ट करता है। परमेश्वर और जीव में एकत्व स्थापित करते हुये कवि लिखता है कि जब समुद्र अपने समुद्रत्व को छोड़ कर वृन्द हो जाता है तो लोग उसे वृन्द ही कहते हैं समुद्र नहीं, किन्तु वास्तव में दोनों वस्तुयें हैं एक ही—

समुन्दर से वृन्द भयो जसु ओही, समुन्दर कहै नहीं वृन्द न होई।

बुन्द यहा है कहीं वही युधि खोई,

बुन्द मिला जब समुन्द कहायो,

बुल्ला नदी बुन्द एक है दूजा नहीं तू जान।

यह वानी है मुराद की सान्ची कहा खान ॥

परमेश्वर के दर्शन, आप में ही, घट में ही सम्भव है। मानव को परमेश्वर स्वरूप ही मानना चाहिए, उसी के अन्तर में परमात्मा की स्थापना है।

आदम सूरत हरि की जानो, जो हम कहा यकीनी मानो।

यह मां लखिहौ तो हारे पइहो, नहिं तौ तौन अकारथ जइहौ।

अपना सिरजा आप तू पूजत है अननान।

आदि को क्यों पूजत नहीं तू सूरत भगवान ॥

यह सारा संसार ही तो उसका स्वरूप है, जो कोई इस संसार में उसके दर्शन न कर सका वह जन्म जन्मान्तर में पछताता रहेगा ।

जो कोई दरसन यहा नहीं पावा, जनम जनम रहि है पछतावा ।

वह एक परमेश्वर ही सब की रचना करने वाला है, उसके सम्मुख मानव बहुत छोटा है ।

तूही सबका सिरजन हारा, मैं एक वूद तू बड़ करतारा ।

जो कोई इस सत्य को नहीं समझता और गर्व के बशीभूत हो जाता है उसका दर्प परमेश्वर चूर्ण करता है ।

आप बड़ा समुद्र ने जाना, जब काहू पीओ पछताना ।
एके सास घूंट तक कीन्हों, डार पर बैठे नाव हरि लीन्हों ।
बड़ा एक था दूत सयाना, मिटा गर्व भूला सब गयाना ।
आज्ञा हरि की दीन्ह भुलाई, आपन का नहीं सीस नवाई ।

अतः गर्व करना अनुचित है । जीवन का साध्य है प्रेम एवं मिलन । प्रेम की उत्पत्ति इस संसार में सर्वप्रथम हुई, प्रेम से ही सारी सृष्टि की रचना हुई ।

प्रेम से तीनों लोक संवारा, नये नये रूप औ नये अवतारा ।
निराकार जब प्रेम बनायो, पहले प्रेम वहीं मां समायो ।

प्रेम प्राप्ति का मार्ग अत्यन्त कठिन है, इस मार्ग पर वही अग्रसर हो सकता है जो आपा विस्मृत करदे ।

कठिन प्रेम विरह घन होई, वह नर कहीं जो आपा खोई ।

प्रेम के सम्मुख ज्ञान तुच्छ है । पुस्तक ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, केवल शुष्क ज्ञान निस्सार है, वही ज्ञानी एवं विद्वान है जो प्रेम का ढाई अक्षर पढ लेता है ।

पोथी सो थोथी भई, पंडित रहा न कोय ।
ढाई अक्षर प्रेम का पढे सो पंडित होय ॥

यह प्रेम का पन्थ नबी मुहम्मद साहब एवं अली से आरम्भ हुआ है, इसी के फलस्वरूप सर्वत्र प्रत्येक घट में हरि दर्शन सम्भव है ।

नबी व अली का यही पढायो, गुप्त कोट सहजै दिखलाओ ।
हजरत अली से सब ने पाया, लाखन को वह बली बनाया ।

पहले ख्वाजा हसन को दीन्हा चौदह खण्ड में वह हरि चीन्हा ।
जहा देखा वहा हरि लखाओ, यही मन्त्र पहले वह पाओ ।

दूजे इमाम हुसेन को दियो अली वतलाय ।
चौदह खण्ड चौदिशा में, हरि को दियो लखाय ॥

जब तक हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होता मनुष्य भटकता रहता है । हृदय में प्रेमोद्भूत होते ही भेदभाव मिट जाता है, केवल एक उसी का अस्तित्व रह जाता है ।

घट मौ जब से प्रेम न आवै, मरमत फिरे नहीं हरि पावै ।
हृदय प्रेम वीज मोरे बोया, दुइ का भगड़ा पल में खोया ।

प्रेम के मार्ग का सबसे बड़ा सहायक है गुरु । गुरु के प्रति श्रद्धा पूर्वक समर्पण कर देने से ही आत्मज्ञान लाभ होता है । गुरु शिष्य में ऐसा ही संबंध होना चाहिए जैसा विलनी और पतिंगे में होता है जिस प्रकार विलनी एक पतिंगे को विल में बन्द करके स्वयं उसके चतुर्दिक् घूमा करती है, कुछ दिन बाद पतिंगा विल तोड़कर बाहर निकलता है तो वह भी विलनी की भांति बोलता है, उसी प्रकार शिष्य को पूर्णरूपेण गुरु के आधिपत्य में रहना चाहिए तथा उसकी साधना तभी सफल होती है जब वह अपने गुरु का अनुकरण करने लगे ।

यारी मुराद सब छाड़ दे एक गुरु चित लाव ।

विलनी की करतूत को देखो, करिके ध्यान को जोग परेखो ।
पकड़ के एक पतिंगा लाये, परको नोच के मुंडी बनाये ।
कोई दिवार में विल का बनायो, माटी में वह पतंग छिपायो ।
जब ऐसा गुरु ध्यान लगाये, गुप्त नगर सहजे मे जाये ।
हम जो कहा कहा को मानो, एक वुही ऐही मन जानो ।

तर्क एवं विवाद से ज्ञान लाभ नहीं होता, वेद और पुराण पढने से प्रेमोदय नहीं होता, जब गुरु निरगुन पढा देता है तब संसार का इतर ज्ञान स्वयं विस्मृत हो जाता है ।

सर्फ नहो सुनकर जो जाना, फुक्र औ मन्तक् पढ्यो समाना ।
असराने में ही भूले सारे, जैद बकर में फंस मन हारे ।

चार वेद औ तीस पुराना, सबे पढा मन लाय ।
जब गुरु से निरगुन पढा, सब वह गयो भुलाय ॥

गुरु के बिना प्रेम साधना सफल नहीं होनी, प्रेम डगर में प्रवेश करने के पूर्व गुरु से प्रीत करना आवश्यक है ।

विना गुरु कुछ काम न होई, वैस अकारथ पूरी खोई ।
पहले प्रीत गुरु से कीजे, प्रेम वाट में तव पग दीजे ।

प्रेम गुरु है ध्यान कर, मन सो सुमिरन लाव ।
सासा ले चल सीस पर, बैठा निरगुन गाव ॥

गुरु और हरि में कोई अन्तर नहीं, वास्तव में दोनों एक ही हैं, अतएव गुरु वन्दना
र वन्दना है ।

गुरु समान मैं तोहि निहारौं ।
गुरु औ हर में दुई न जानौं, एक ही हैं दुविधा न मानो ।
अपने गुरु का आदम जानो, तनिक न हृदय में शंका मानो ।

गुरु आदम हर एक है, दूजा कहै जो भूल ।
सौगन्ध करतार की, फख का यही वसूल ॥^१

गुरु को आत्मसमर्पण करने के पश्चात् प्रेमाग्नि में पञ्चभूतों का जलाना आवश्यक है
अर्थात् पञ्चकर्मेन्द्रिय जनित विषय वासनाओं से विमुख होना परम कर्तव्य है । बुद्धि या
तर्क का नाश भी आवश्यक है । साधक को सूली पर चढ़ना है तभी तो अहं का नाश
होकर केवल 'वही' अविस्थित रहेगा तथा साधक को सोहागिन होने का अधिकार प्राप्त
होगा ।

गुरु शानी का सत हो काजू, दण्डवत करें वही जमराजू ।
पहिले प्रेम की आग में डारो, वैरी पाव भूत है मारौं ।
सूली सहज हमें है चढना, कठिन बुद्धि पहलै का मरना ।
पहले गरै सोहागिन होई, वही रहै और आपा खोई !
ध्यान ज्ञान दोऊ का मारौ, सुरत सुहागिन का जब जारौ ।
नारि ते पुरुष होय एक पल मां, आपको देखो हरि औ जल माँ ।
आपहि रहे छूटै सब कोई, ——— ——— ——— ।
हृदय में जिसने हरि देखा, खरा खोटा सभी वह देखा ॥-

जब गुरु और शिष्य का एकत्व हो जाता है तभी साधक को सिद्धि उपलब्ध
होनी है :

गुरु समाना सिक्ख में, ऐसी बढ गई नेह ।
दुई गई एकै रहा, भई सुगन्ध अब देह ॥

१. गुरु गोविन्द हर एकै जानौं' आही भाव तुम मन में ठानौ ।

गुरु को पथप्रदर्शक बनाने से ही सफलता चरण-चुम्बन करती है :

आगे तो गुरु का करो, पाछे वाके जाव ।
अहमद का दामन पकड़, वाहिद से भट्ट मिल जाव ॥

अली मुराद भी भाषा प्रेमरस के रचयिता शेख रहीम की भाति दया धर्म को सर्वाधिक महत्व देते हैं :

दया धरम का सुख देही, बीच (पंच) कण वह सहजै लेई ।
सबकी हाजत करो रसानी, धरम के निसदिन पढा कहानी ॥

भाति भांति को योग साधना करना, कष्ट सहना, शरीर को तपस्या के द्वारा क्षीण करना एवं भाव रहित मूर्तिपूजा करना व्यर्थ है यदि श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं। अली मुराद ऐसे साधुओं का विस्तृत उल्लेख करके उनकी साधना की निस्धारता के सम्बन्ध में लिखते हैं :

अपना सिरजा आप न पूछे, जनम का अंधरा कुछ न सूझे ।
पर्वत से एक पायर लायो, गढ़ गढ के एक मूर्ति बनायो ।
कोई राम कोई कृष्ण कइयो, ब्रह्मा विष्णु महेश बनायो ।
आपहि नाव धरम ओहि बेरा, भूल मा पड़ी पाहन में हीरा ।

कितने प्रकार के साधु सन्तों का संगठन उस समय वर्तमान था, उनकी क्या विशेषतायें थीं इस ओर भी कवि ने लक्ष्य किया है :—

एक भोगी अबभूत कहावै, वैल की तरह अन्न जल खावै ।
दुसरे परमहंस की सूरत, यह विल्कुल माटी की मूरत ।
भोग से वह उदर वहलावै, टाग पसार के डसन लावे ।
गोरस पिये मास नहि खावै, पयहारी यह बड़ा कइवै ।
रक्त वही वही दूध बनाओ, वही रक्त गोरस कहलायो ।
वड़े चाह पियै पयहारी, पड़े भूल मा मति गये मारी ।
यह का साधु सन्त सब जानें, माथ नवावैं जिय से मानें ।
यह गये प्रेम वाट सब भूली, जीते चढ़े न प्रेम की सूली ॥

जाके हृदय प्रेम वसे, वही सिद्ध है जान ।
यह जोगी भोगी सभी, प्रेम से हैं अनजान ॥

इनकी अहिंसा ढोंग और पाखंड की ओर भी कवि ने संकेत किया है:—

माम मछरिया कुछ नहिं खावैं, बड़े गुरु यह भक्त कहावैं ।

तिल भर मछली जो कोई खावै, कहै कि नरक कुंड वह जावे ।
यही भूल में पड़े खिलारी, निर्गुन भूले मति गई मारी ॥

जोगियों की गणना एक स्थल पर अली मुराद ने फिर की है :—

कतिने पंच में जागी कहावै कोई सतनाम कोई सेबुड़ा वन आवै ।
कोई पच अग्नि का तापै गुमाई कोई जलसेन में जाय समाये ।
कोई ऊधवाह को हाथ सुखाये, कोई कवीर पन्थी हो मास न ग्वाये ।
डन्डो वड़े पखन्डी होवैं, मोहन भांग लुचूई जेवैं ।
यह जोगी भोगी सब भाई, इनका हर कवहू दृष्टि न आई ॥

मुराद पूरा साधू वही, जो हस्ती देवै छोड़ ।
निर्गुन सर्गुन जाप से मुंह का लेवै मोड़ ॥

इस संसार में सर्वत्र वही व्याप्त है :

सब है वही कहा है दूजा, अपना आप करै वह पूजा ।
रग रग में है वही समाना, हर घट भीतर कियौ पयाना ॥

इस सर्वव्यापक को वही पा सकता है जिसकी करनी श्रेष्ठ है, जिसके हृदय में कुछ प्रेम है ।

जाकी पूरी गाठ होई, संधी लगनी लीरै वोही ।
जस करनी वैसा फल पैहो, या सुख या तुम दुखी उठै हो ॥

कवि एक स्थल पर शरीयत (कर्मकाण्ड) की चर्चा भी करता है :

नफी रोय असवात निसारो, इल्ललिलाह का नारा मारो ।
हा हूही की जख लगावौ, जरे जलवा तब घट पावो ।
सासा का तुम शीश चढावो, घड़ी घड़ी बाहर भितरावो ॥

मरजीया होके समुन्द्र में पल में जाओ समाय ।
कर से मानिक गहि पकड़ अब ऊपर उतराव ॥

फूलमती गवन खण्ड में भी कवि ने 'गौने' द्वारा जीवात्मा एवं परमात्मा के मिलन का रूपक निबाहा है। अन्य कई स्थलों पर भी उसने जीवात्मा को दुलहन, संसार को नैहर एवं गौने को प्रिय के निकट जाने का रूपक दिया है। ऐसे वर्णनों में कवि का कवीर के भावों, विचारों एवं भाषा में बड़ा साम्य लक्षित होता है।

ससुरे चलन की करो तैयारी, कन्त बुलावे सुन ऐ नारी ।
गुन ऐगुन पुछिहै सब पीऊ, उत्तर का देहो मन जीऊ ॥

कछु करनी कीया नहीं, रही नैहर बुध खोय ।
लाज कन्त के हाथ में जो चाहै सो होय ॥

चलो वहां जहा कन्त पियारा, अब तोही कोई न रोकन हारा ।
मै भई पिउ की पिया भये मोरे, चलौ साथ दोऊ कर जोरे ॥

संसार की नश्वरता की ओर संकेत करते हुये कवि ने विभिन्न लोकों की चर्चा भी की है :

यह दुनिया सपने का लेखा, यह के पांव न रूप न रेखा ॥
बूंद में आके समुन्द्र समाना, बीज में जैसे है पेड़ लुकाना ।
गुप्त रहा हाहूत में साई, दरस अवार को लखी गोमाई ।
जब लाहूत मै कीन्हों वाषा, अब मिलने की भई मोहे आसा ।
जब जवरून की सूरत लोन्हा, अहमद नाम आपन धर दीन्हा ।
आगे बढ मलकूत कहायो, वरन चरना का रूप बनायो ।
भये नासूत आदम की सूरत, हरदिन वसी वही मेरी मूरत ॥

कुरान में वर्णित चालीस अंस में से एक का दान करने के विधान का भी उल्लेख है ।

चालिस दरश मैं एक मोहि देऊ ।
उतरो पार राह तब पाऊ ॥

सामाजिक स्थित :

इसके अन्तर्गत कवि का कलिजुग वर्णन आ सकता है, कलिजुग में सभी विपरीत आचरण करते हैं :

चन्दन काट बवूर वहा बोई, वड़ी चिन्त थी बुध गई वहा खोई ।
वामन उजाड़ चमार बसायो, राजपनी ओहर कहलायो ।
कलिजुग है जो हो नहिं थोड़ा, गधा को मनुख कहेंगे थोड़ा ।
दया छोड़ के पाप बसायो, वही मनुख पापी कहलायो ॥

यह हो सकता है कि, कवि ने इस विवरण में तत्कालीन सामाजिक अनाचार का वर्णन किया हो किन्तु जहातक समझ में आता है यह परम्परागत कलिजुग वर्णन है जिसकी पृष्ठभूमि में कवि अपने सिद्धान्तों को रखना चाहता है ।

सामाजिक संस्कारों में केवल विवाह का वर्णन ही कवि ने किया है । उबटन लगाना, ज्योतिषियों से लगन निकलवाना, वाराण के साथ फुलवारी, पटान्घे आदि का भी वर्णन

है। जिस ढंग से कवि ने नक्षत्र और तिथियों का वर्णन किया है उससे ज्ञात होता है कि कवि को उसका ज्ञान था।

सीस पै चन्द्र और जोगिनी पाछे है महाराज ।
मकर कुम्भ में ब्याह रचायो, कन्या तुला पै ध्यान लगायो ।
मीन मेल का आय न लेहू, वृश्चिक धन-धन कर तजि देहूँ ।
मिथुन सिंह तोरे कामन अइहै, जो करै ब्याह मती पछितैहै ।
राहु दे छोड़ चन्द्रमा लेहू, मोर मुकुट वाही सिर देहू ।
जोगिनी पाछे करिहै काजा, छाजै राजपाट और राजा ।
ब्याह का चरण जग मा छावा, घरघर वाजन लाग वधावा ॥

ये वर्णन कवि के जन जीवन से परिचय को स्पष्ट करते हैं।

ऐतिहासिक एवं पौराणिक वृत्त :

पौराणिक उल्लेखों के अन्तर्गत कवि के काशी, इन्द्र एवं विभीषण के नामोल्लेख आ सकते हैं। काशी का वर्णन करते समय कवि ने गंगा स्नान तथा उसके घाटों की शोभा का वर्णन किया है। स्नान के फलस्वरूप पुण्यलाभ की चर्चा हुई है। इन्द्र को अमरपुरी का राजा कहना सत्य है किन्तु उसकी कन्या फूलमती एवं रक्षक देवों का होना काल्पनिक है। राम का रावण को मारकर विभीषण को राज्य देना सत्य है किन्तु उसका गुरु इन्द्र था या फूलमती वहकर उसके यहा पहुँची यह कवि कल्पना है।

कवि ने विभीषण का चरित्र प्रदर्शित करते समय उसके विख्यात चरित्र को सम्मुख रक्खा है।

समुद्र मन्थन की घटना भी कथा में दूसरे रूप से वर्णित है। कुंवर बोधित में डूब जाने के कारण वहीं विलीन हो गया था अतः उसे प्राप्त करने के लिए विभीषण ने समुद्र मन्थन किया, फलस्वरूप दान और त्याग की महिमा बताते हुये समुद्र ने कुंवर को पुनः विभीषण के पास पहुँचा दिया। ऐतिहासिक कथा वृत्तों के अन्तर्गत मुहम्मद गोरी के अक्रमण की चर्चा हो सकती है यद्यपि उसकी पूर्ण संगति ऐतिहासिक तिथियों एवं घटनाओं से नहीं बैठती। मुहम्मद गोरी ने दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज को मारा था अतः उसका आक्रमण राय पिथौरा के पोते कुंवर का सम सामयिक नहीं हो सकता, फिर भी कवि ने गोरी के द्वारा दिल्लीश्वर राजकुवर की मृत्यु दिखाई है।

कन्नौज के राजा ने मुहम्मद गोरी का आधिपत्य मान लिया था यह सत्य है किन्तु कन्नौज का अधिपति जयचन्द्र था लालकुंवर नहीं। कवि को ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय था किन्तु कालक्रम एवं घटनाक्रम को दृष्टि से उनका विशेष महत्व नहीं है।

नवीन प्राप्त सूफी प्रेमाख्यानों में कथा कुवरावत का विशेष महत्व है। कवि को अनावश्यक वर्णन प्रिय नहीं है किन्तु सिद्धान्त कथन में वह विशेष पटु है। गुरु महिमा, ब्रह्मस्वरूप, जीव एवं परमात्मा के सम्बन्ध में उसने अपने विचार प्रकट किये हैं। साधनपद्धति का उल्लेख करते हुये 'जोग खन्ड' में हठयोग एवं प्रेम साधना के समन्वित स्वरूप का चित्रण किया गया है।

सहायकग्रन्थ-सूची

हिन्दी

१.	तसव्वुफ अथवा सूफीमत	----	श्री चन्द्रवली पारडेय
२.	सूफी काव्य संग्रह	----	पं० परशुराम चतुर्वेदी
३.	उत्तरी भारत की सन्त परम्परा	---	” ”
४.	संत सुधासार	----	श्री विद्योगी हरि
५.	दर्शन दिग्दर्शन	----	श्री राहुल साकृत्यायन
६.	बोद्ध गान और ढोहा	----	म० म० हरप्रसाद शास्त्री
७.	संस्कृत संगम	----	आचार्य क्षितिमोहन सेन
८.	नाथ सम्प्रदाय	----	आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
९.	योग प्रवाह	----	डा० पीताम्बर दत्त बड़धवाल
१०.	हिन्दी के मुसलमान कवि	----	श्री गंगा प्रसाद
११.	महावंश	---	भदत आनन्द कौसल्यायन का हिन्दी अनुवाद ।
१२.	ढोहा कोष	----	सं० डा० प्रबोध चन्द्र बागची ।
१३.	कवि नजीर	----	श्री रघुराज किशोर ।
१४.	साहित्य-दर्पण	----	श्री विश्वनाथ
१५.	रसिक प्रिया	----	आचार्य केशवदास
१६.	नव रस	----	श्री गुलाब राय
१७.	हिन्दी काव्य-धारा	----	राहुल साकृत्यायन
१८.	हिन्दी के कवि और काव्य	----	श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी
१९.	सुन्दर दर्शन	----	डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित
२०.	शैली	----	पं० कल्याणपति त्रिपाठी
२१.	खड़ी बोली हिन्दी साहित्य का इतिहास	----	श्री ब्रजरत्न दास
२२.	हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास	----	डा० रामकुमार वर्मा
२३.	मिश्र बन्धु विनोद	----	मिश्र बन्धु
२४.	कृष्णाश्रय	----	वल्लभाचार्य
२५.	हिन्दी साहित्य का इतिहास	----	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल
२६.	जायसी ग्रन्थावली	----	” ”
२७.	कबीर ग्रन्थावली	----	डा० श्याम सुन्दर दाम
२८.	जायसी ग्रन्थावली	----	डा० माताप्रसाद गुप्त

२६	भारत में इस्लाम	आचार्य चतुर मेन शास्त्री
३०	अरब और भारत के सम्बन्ध		प्रो० नदवी
३१	पातंजलि योग दर्शन		
३२.	नारद भक्ति सूत्र	.	
३३	अर्ध कथानक		श्री बनारसी दास
३४	हिन्दी प्रेमगाथा काव्य संग्रह	श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी
३५.	हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग		डा० नामवर सिंह
३६	मध्यकालीन भारत		डा० परमात्मा शरण
३७	हिन्दी काव्य धारा में प्रेम प्रवाह	---	श्री परशुराम चतुर्वेदी
३८	ईरान के सूफी कवि		श्री वॉके विहारी लाल और कन्हैयालाल
३९	वैदिक कहानियाँ		श्री बलदेव प्रसाद मिश्र
४०	हिन्दी साहित्य का इतिहास		डा० रामशंकर शुक्ल 'रसाल'
४१.	मध्यकालीन धर्म साधना	आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
४२	साहित्य	श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर
४३.	रामचरितमानस एवं विनयपत्रिका	--	संत तुलसीदास
४४	वेदान्त परिचय		श्रीहीरेन्द्रनाथ दत्त
४५.	सत बानी संग्रह		वे० प्रे० प्रयाग सन् १९३३ ई० ।
४६.	पद्मावती	जी० ए० भिर्यसन एवं म० म० सुधाकर दिवेदी
४७.	पद्मावती का भाष्य	"	प्रो० मुंशीराम शर्मा 'शोम'

English

1.	Sufism	A J Arberry
2.	The early development of Mohammadanism	D S. Margolouth, D. Litt.
3.	Origin of Monicheism	Muslim Institute, Calcutta (Muslim Review Vol II 1927)
4	Theism in mediaval India	J E Carpenter
5.	Myetical Elements in Mohammad	J C Archer
6	Literary History of Arabs	R A. Nicholson.
7	" " " Persia	E G Browne
8.	Tribes and Castes of the N. W. P and Oudh	Crooke
9.	Akbar	Laurence Binyon.
10	Punjabi Sufi Poets	Lajvanti Ram Krishna.
11.	Sind and its Sufis	Jethmal Parsram Gulraj,

- | | |
|---|----------------------------------|
| 12 Religion of the Semites | W. Robertson Smith |
| 13 Outlines of Islamic Culture | A M A Shushtery |
| 14. The Idea of Personality in
Sufism | .. Prof R. A Nicholson |
| 15 Studies in Islamic Mysticism | Prof. Nicholson. |
| 16. History of India | Elphinston |
| 17. History of Antiquities | Duncker |
| 18. Rabia The Mustic | Margaret Smith |
| 19 The Dervishes | Rose, |
| 20 The People of Mosque | Bevan Jones |
| 21 Psychology of Sex | Havelock Ellis |
| 22. The Holy Koran | M Muhammad Ali |
| 23. Islamic Sufism | Iqbal Ali Shih |
| 24 The Mystics of Islam | R A Nicholson. |
| 25 Studies in Taswoof | Khwaja Khan |
| 26 Sufi Saints & Shrines in India | J A Subhan |
| 27 The Mysticism of Soud | Inayat Khan |
| 28. The Persian Mystics | F. H Davis |
| 29. The Metaphysics of Rumi | Dr. Khalifa Abdul Hakim |
| 30. The way of Illumination | Inayat Khan |
| 31. Mediaeval Mysticism of India | Kshitmohan Sen |
| 32 Oriental Mysticism | E H. Palmer |
| 33 The Sound whence & wither | Inayat Khan. |
| 34 Muslim Thought & its Source | Prof. Seby Jaffar Uddin
Nadvi |
| 35. Religion & Hidden Cults of
India | Sir George Machiman |
| 36. Christian Mytscism | Inge. |
| 37. Mysticism in Persian Poetry | Prof. Nicholson. |
| 38. Arabian Poetry & Poets | Sved Md. Badruddin Alavi |
| 39. Contribution of India to
Arabic Literature | Zabain Ahmad |
| 40 Legacy of middle Ages | C. G. Crumt and E. F. Jacob |
| 41. Mohammad the man & his
faith | .. Andrai |
| 42. The Life of Mohamet | Dermenghem. |
| 43 The Life of Mohamud | Sir W M Muir. |
| 44. Mystics, Ascetics and Saints
of India. | J. C. Oman. |
| 45. Influence of Islam on
Indian Culture. | Dr. Tarachand. |

नामानुक्रमणिका

(लेखक)

‘अ’

- अबुल फिदा २, ३
आरवेरी २२५, २६६,
अबुलहसन नूरी ४, १३
अबूवकर ४, ५५३,
अबू सुलेमान डारानी ११, २८
अत्तार ८
अहमद इब्न हम्बत १२
अबू अली १३
अबू सईद १५, ६७
अलाउद्दीन अली २०
अत्तार १७, १२५, १२८, १२९, १३०
अबू जिल्दम १८
अलदज्जाज १८
अबुल बिन कासिम १८, १३४
अहमद ३३
अबुदुर्रज्जाक १६, १४२
अबुल यमनी १६
अहमद साबिरी जीलान २०, २२
अमीर हुसेन देहलवी २२
अबुल कादिर जीलानी २३, २४, ८३,
१३५
अहमद फारुखी २४, २५, २६६, ३१७,
३१८, ३१६
अबी दारा ३८
अबूवहेल ३६
अबुल समद ५३, ५४, १०५, १५०, २६६
३१७, ३१८, ३१६,
अल सराज ८०
अली मुराद ८४, ८६, ६०, ६२, ६३, ६७,
१००, १०३, ११४, ११६, १४०,
१२२, १६२, २२०, २६१, २७६,
२६४, ५८६, ५८७,
अबू सेराज १२८
अबुल फजल १३२, १६१
अबुल कादिर वदायूनी १३२, १३८
अबुल कादिर १३२
अबुल्ला हुसेनी १३५
अहमद जुवेदी १३५
अबुल हसन १३७, ३०१
अलाउद्दीन १३८, १६३, १३५, २८४
अहमद ख्वाजा १४०
अबुल्लाह यमनी १६, १४२,
अलवेरुनी १४४
अकवर २२, १४५, १६०, १६१, १६३,
१६४
अबुल्ला शाह १६३
अबुल सहन तानाशाह १६३
अबुदुर्रहमान १६८, १७०, १७४
अगर चद नाहटा ३७४
अलफ खा ३०८, ३७४
अबुल्ला कुतुवशाह ३८१
अहमद १४०, ३७०
अहमद साबिरी जीरान २०
अमीर हुसेन देहलवी २२
अहमद कवीर २३, १३२
आसफजाह २४,

औरंगजेब २५, १६२, १६३, ३१०,
अहमदशाह १३५,
अली हैदर १३५, १३६
अमीर खुसरो २२, १३८, १४०, १४८,
१६३, १६४, १५६,
आरामशाह १४४
अकबर १४५, १६०, १६३, १६४,
आजमशाह १६१,

आदिलशाह १५३
अब्दुर्रहमान १६८, १७०, १७४
आदम १४,
अशरफ पीर ४३१
अलाउद्दीन अली १०,
आर ए, निकोलसन ६, १२, १४, ५६, ६६
६७, ७३
अली ५६०

‘इ’

इब्राहीम कुली कुतुबशाह ३२१
इमांमशाह ५३३
इनायत शाह ३११
इलियास २, ६४,
इकवाल अली शाह २
इब्नातुस्सिद्दीक २
इब्राहीम विन अधम ७, ६, २७, ३५,
इबलीस १४, ६६,
इब्नवतूता १६,
इब्न अरबी ३४, ५६, ५७, ६६, १२८,

१३१, १३२
इनायत खा ३६,
इशरती १३५
इल्तुतमिश १४५,
इस्तर १, १०
ईसा म्सीह ४, ६, १४, १७
इनायत कुरेशी १३३, १३६, १६२
इब्राहीम १६३
इन्जे २१४
इलियट १५७

‘उ’

उसमान ४, ३८, ४३, ४६, ४७, ४८, ५२,
५३, ५६, ६१, ६६, ८५, ८७, ८९,
९१, ९३, ९६, ९७, ९९, १०५, ११८
११८, १३८, १८४, १८६, १८८,
१८९, १९०, १९१, २३९, २३७,
१३६, २४०, २४२, २४३, २४५,
२६१, २६२, २७९, २८३, ३२६,

२८९, २९०, २९१, २९२, २९३,
२९४, २९६, ३४९
उमर ४, ५५३,
उमर खैय्याम १७, ६८, १३१, ५५६
उवैसुल करनी २५
उममानशाह सैयद १३२, १३३

‘ए’

ऐनुल अरदी ५६६
ऐलेन यजीद १३

एच० विल्वर फोर्स क्लार्क ३,
ए० एम० ए० सस्टेरी ६,

'क'

कादेश १, १०,	कवीर ५३, १०७, १२५, १४८, १५८,
कोरोश ३	१५६, १६०, १६१, २०६, ३१६,
कालावाधी १६	५६०, ५६१
करले खाले २०,	केशव २३३, १६०
कासिमशाह ४०, ४४, ४५, ४६, ५१, ५२,	कृष्णाचार्य २५७,
५३, ५६, ६१ ६२ ७०, ८८, ९२,	केसोसाह ३०५
९५, ९८ १००, ९०१, १०७, ११५,	कुतबन १३८, १३९, २८६
१२३, १३७, १३८, १३९, १४१,	काजी महमूद वहरी १३५
१५६, १६३, १६६, १६८, २०६,	करीम बख्श १३७, १६२
२१६, २३७, २४१, २५१, २५२,	कुली कुतुब शाह १६३
२६२, २७६, २८५, २८७, २९१,	करीम १३३, १६२,
२९४, २९५, ४३०	करीमशाह ४३१
	कुतुबुद्दीन काकी २०, २१, २२

'ख'

ख्वाजा मुहनुद्दीन चिश्ती १६, २०, २१,	६४, ६५
२८, १४३,	खुसरो १३८, १४०, १४१, १६३, १६५,
ख्वाजा अबू इशाक सामी २१	३०१, ३०२,
ख्वाजा मुहम्मद २२	ख्वाजा अहमद २२०, २६२, २८६, २८७,
ख्वाजा खा ७२	५३८
ख्वाजा खिज़्र या अबुल अम्बास मलकान	खिज़्र खा ६४, १८४, ३०१, ३०२

'ग'

गज्जाली १४, १६,	गोविन्द सिंह १३४
गोरखनाथ १००, १७६, १९३	गौरीशकर हीराचन्द ओभा २०६
गोपीनाथ १००	ग्रियर्सन, २६१
गवासी १३५	गरीब दास, ३०२
गुलाम अली १३५	गोविन्द गिलाभाई ३०८
गुलाम मुस्तफा मखदूम १३७	गणेश प्रसाद द्विवेदी ५०५
गुलाम हुसेन कल्यानवाला १३७	

'च'

चन्द्रगुप्त १५१	चन्द वरदाडे १६३
चाणक्य १५१	चन्द्रवली पाण्डे २७५, ४६१

'छ'

छनर खा १६३

'ज'

जुलनून मिस्री, ११, १२, १३, १५, २६, २७, २८	जायसी २७, ३८, ३९, ४१, ४२, ४५, ४८, ५०, ७०, ७६, ७७, ७८, ७९, ८५, ९६, ९९, १००, ११५, १२३, १३७, १३८, १३९, १४१, १४६, १८३, २५९, २६२, २८१, २८५, २९९, ३३३, ३३४, ३६९, ५४६, ५५४
जामी १२, १७, २२१, ३५, ६५, १२८, १३०, ५१५, ५६६, ५६७,	जयपाल १४८
जुनैद १३, १४, १५, १६, २८	जयचन्द्र १४८
जलालुद्दीन बुखारी १९	जलालुद्दीन १४५
जियाउद्दी बरानी २२	जगन्नाथ मिश्र १६१
जलालुद्दीन सुर्वपोश २३	जहानशारा १६२
जहागीर २२, २४, १४५, १४६, १४७, १६१, १६२, १६४, २२७, ३५०	जलालुद्दीन १६२
जिली ३, ४, ५६, ६८, १२८,	जोइन्दु १७१
जान कवि ३७, ३८, ४०, ४५, ९३, ९९, १००, १३७, १४१, १८२, ८५, १८६, १८७, १८८, १९५, २१०, ३५८, २६०, २७५, २८३, २८४, २८६, २८८, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०८, ३२५, ३७४	जगन्मोहन वर्मा २७५, ३३३ जेठमल परसराम गुलाराज १३३ जे० ए० सुभान ६, ३४, ७२ जे० एस्टिन, ६, जे० आर्चर ७

'झ'

भावर मल शर्मा ३०८

'ट'

टिरविथस ६

'ड'

डोजी २

डॉ० एस० मारगोलिनिय ६, ३३

डब्ल्यू रावेटमन स्मिथ १,

'त'

तुलसीदास ४२, ६९, ८३ १०७, ११७, नात्र १६२, ३०८ १४८, १५७, १५९, १६६, १७९ ताजुद्दीन (मलिक) १४४ २५९, २६०,

'द'

दारयोश ३
 दौलतशाह २३
 दाराशिकोह २४, १३२, १५४, १६१,
 दादू १२५, १६१, ३०१, ३०२, ३०८
 दलपत १३३,

दाहिर १४४,
 देव १६२,
 दीन दरवेश १४७, ३११
 दु खहण १७५, ४६७

'ध'

धर्मरक्षित २

धरणीदास १७५

'न'

निकोलसन २, ४, ६, ७३, ८१, १२६,
 निजामी १७, १२८, १३५,
 निजामुद्दीन औलिया २०, २२, १४०, २५,
 ३०१, ३०२, ३५२, ५८२,
 नजद वली २०
 नत्या मिया २४
 नजमुद्दीन कलन्दर २५
 नसीर ४१ १००, १२०, १२१, १४०, ३३४,
 २५८, २६२, २७७, २७६, २८४,
 ५६५, ५६६, ५६७, ५७२
 निसार ४१, ४८, ६२, १००, १०४, १०५,
 १२४, १४०, २४४, २४५, २५८,
 २६२, २७७, १८७, ५०५, ५६७,
 ५५८,
 नूरमुहम्मद ४०, ४३, ४४, ४५, ४७ ४८,
 ४६, ५१, ५२, ५४, ५८, ६० ६२,
 ७४, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ६६,
 ६०, ६१, ६४, ६८, १००, १०२,
 १०४, १२६, १०७, ११४, ११५,

११६, ११७, ११८, १२०, १२२,
 २२३, १२४, १४०, १४८, १८३,
 १८४, १८५, १८६, १६०, १६१,
 १६२, १६८, २१३, २२०, २३७,
 २४३, २५२, २६१, २७५, २७६,
 २८५, २६०, २६६, ३२७, ३५८,
 ४५१, ५७२,

नामदेव ६०
 नारद १०८
 निशाती १३५
 नजफ अली सलोनी १४०, ५३२
 नजीर १४०, १४१, ३१२,
 नूर सतागर ईरानी १४२
 नासिरउद्दीन कुबाचा १४४
 नसीरउद्दीन ४५३
 नानक ३०२
 नुगरती ३३६
 नियामनउल्ला २३

'प'

पल्लू दास १२५
 पीर मुहम्मद ४३१

परशुराम चतुर्वेदी २५, ३१०, १७५,
 प्रेमी कवि १४०, १४१

पृथ्वीराज राठौर १७५
पुष्प दन्त १६५, १६६, १७०, १७४,

परवज दाद १६३
परमात्मा ज रंग ४१३

'फ'

फराबी १५
फरीदउद्दीन शकरगञ्ज २०, २१, २२,
१३५
फख्रउद्दीन २०, ५८२
फारिज १३०, १३१,
फिरदौली १३०
फैजी १३२, १६१
फर्द फकीर १३६

फिरोज शाह तुगलक १३८, १४६,
फरिश्ता १४५
फुलू वावा १६२
फुजायल विन अयाज ७, ६, २७, ३५
फरीदगज १३२, १४१, १६२
फिगार ५६६, ५६७
फिटजरैल्ड ६८,

'ब'

बाल १, १०,
ब्राह्मन २, ४, १५, ८३, १३०
बैघाबी ४,
बायजीद अल् विस्तामी १२, १३, १४, १५,
२८,
बू अली कलन्दर २८,
बहाउद्दीन जकारिया २२, २३, २८
बहलूल शाह २४,
बहाउद्दीन नख्शबद २४, २६,
बाकी निल्ला वेरग २४, २८
वेकस १३३
वेदिल १३३
बुल्लेशाह १३५, १३६, १४०, ३०१, ३०५,
३११

बहादुर १३७
बजरत्नदास १३८, ३३३,
वावा लाल १६१
बैजू वावरा १६३
वावर १६४,
बोधा १७५
बहरी २७७
वावरी साहवा ३०५
वीरू ३०५
वनारसीदास ३३६,
वावूराम सक्सेना २६१, ४५३,
बलवन १४५
वेन्न जोन्स ७,

'भ'

भावलदीन १३२, १३३, १३४

भदन्त आनन्द कौसल्यायन २,

'म'

मारगोलियथ ४
मुहम्मद साहब २, ३, ४, ५, ७, ८, ११,

२५, ३०, ५५३, ५६०,

मेरी ८

मामून १०, ११, १२,
 मारफुल करखी ११, १३, २८,
 मुतवक्किल १२,
 मुह.सिबी १३,
 मसूर १४, १५, २७, ३०, ३३, १११, १३०,
 मुल्लाशाह १७, २४, १५४
 मार्कोपोलो १७,
 मालिक इब्ने दीनर १६
 मालिक इब्ने हवीब १८
 मसूदी १६,
 मखदूम सैयद अली अल् हुज्जिरी दाना गज़
 बख्सा २०, ५८, ७२, ७६, ८३, ६०,
 ६३, १०७
 मुहम्मद ख्वाजा २२,
 मीरान मुहम्मद शाह २३
 मूसा मुहाग २३
 मुहम्मद गौस २४, २८,
 मिया मीर २४,
 मासूम २५,
 मदारशाह २५,
 मखदूम शाह २६,
 मुहम्मद फजल २६
 मंझन ४४, ४५, ५०, ५१, ५६, ६६, १०४
 ११६, १८२, २११, २४४, २७६,
 २८६, ३३४, ३७०
 मत्स्येन्द्रनाथ १००, २६२
 मीर दर्द १२८
 मखदूम जलालउद्दीन १३२
 मिया साहिब दीनू १३४
 मलिक काफूर १३४
 मुहम्मद तुगलक १३४

मुकीमी १३५
 माधौलाल हुमेन १३६
 मुहम्मद दीन १३६
 मुल्ला दाउद १३७, १३८, १३९, १४०,
 १४३, १६५, १७३
 महमूद गजनवी १४४, १६३
 मुहम्मद गोरी १४४,
 मेगास्थनीज १५०
 मनु १५०
 महापन्ननन्द १५१
 मुबारक नागौरी १६१
 मुहम्मद शाहदुल्ला १६२
 मसूद सादसल्मान १६३
 मुबारक शाह १६३
 मक्यू १६३
 मानिक चन्द २६२
 मलुकदास ३०१
 मिश्र वन्धु ३०८, ३२१, ४२१
 मुहम्मद फारुक ३१८
 महाराज विश्वनाथ सिंह ५३२
 मुहन्मद गौस ५३५
 मिल्टन २०१
 मानिकफ २०३
 मैकालिक ३०२
 मुल्ला शीरी १३२
 मलिक ताजुद्दीन १४४
 मुहम्मद बखिनयार खिल्जी १४५
 मुहीउद्दीन जीलाती ५५३
 मुहम्मद शफी ५६५
 मारगरेट स्मिथ ८, ८०, ८१
 मुहम्मद अशरफ १५६

य

यारी साहब ४५, ५०, १४०, १४१, २६६,
 ३०१, ३०५, ३०७, ३२८

यरशीदल १७
 यामुनाचार्य १७६

यूसुफ १३४, १०५
यहोवा १, २

यूसुफ अली ३३, ५६, ५६, ६५, ६६

र

राहुल साकृत्यायन ३, २६१
रामिया अल अदाविया ७, ८, ९, १०, २७
रुमी १७, १२५, १२८, १२९, १३०, १०१
५३३
रसूलशाह २३
रोज २४
(शेख) रहीम ३७, ४१, ४३, ४५, ४६,
५२, ५३, ६१, ३२, ७१, ७४, ७६,
७७, ८६, ८९, ९२, १००, १००,
११३, ११७, ११८, १२०, १२१,
१२५, १४०, १४५, २१६, २१९,
२४३, २४४, २४५, २५८, ५४२,
५४६, ५४७, ५४८, ५४९, ५५१,

५३२, ५५४, ५५८, ५६०, ५६१,
४६४,
रोहल १३३
रामकुमार वर्मा १३८, ३०२
रुकनुद्दीन १५५
रजिया १४४
रामानुजाचार्य १६६, १७६
रामसिंह १७६
रामानन्द १७६
रज्जव ३०२
रामचन्द्र शुक्ल आचार्य ७९, ९०, ९५,
१३७, २६७, २७५,
रघुराज किशोर ३१२
रामकृष्ण दास ३३३,

ल

ललितादित्य मुक्तापीठ १८
लतीफ वारी २४
लाल शहबाज २३, २६,
लेवी १३०

लतीफ कुर्रेश १३३, १३४, १४१, १४४,
१६२
लारेंस वैनियान १६४
लाजवन्ती रामकृष्ण १२६, १३७
लेविस २०३

व

वत्सा १०
विनफील्ड १३१
वली वेल्लूरी १३५
वजहन १४१, ३०१, ३२१, ३२२, ३२८,
वल्लभाचार्य १५६, १६६
वाजिद अली शाह १६३

विलास खा १६३
विद्यापति १४८, १५७, १६५, २४९, ३०१
वी० जी० तागरे १६८
वियोगी हरि ३०५, ३०९
वाम्कोडिगाया १७

श

शरबाशा १२,	शेख इब्राहीम फरीद १३५
शिवली १३, २८	शेख इस्माईल १४२
शेख सलीम चिश्ती १६,	शाहजहा १४५, १४६, १६२, १६३,
शव्तररी १७, ७३, १२८	शेरशाह १४६, १६०,
शाह रुख १६	शाहकलदर १६२
शर्क इब्न मलिक १६	शाह शकर गंज १६२
शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी २२, २५	श्याम सुन्दर दास २७५
शाह कुमेश २४	शाह सलीम ३३४
शाह लाल हुसेन २४	शेखवली मुहम्मद ३१२
शेख अब्दुल्ला शतार २५	शेख अहमद बिन कुतुबउद्दीन ३१६
शाह जलाल २६	शिवसिंह ३२१
शाह मुहम्मद गौस २५	श्रीराम शर्मा ३२२
शाम्सुद्दीन ८३	शाह फकीर ३२३, ३२४
शेख नवी ६६, १००, १०७, १३६, १८४,	शेख वदी ३३४, ३३५
१८६, १८६, १८६, १६४, २३२,	शेख हुसेन ३५०
२३३, ४१६,	शेख अजीज ३५०
शम्श तवरेज १२६	शेख इमानुल्ला ३५०
शाह लतीफ कुरेश १३३, १३४, १४१,	शेख फैजुल्ला ३५०
१४४, १६२	

स

सेन्ट जान ४	सादिक १३३
सनाई १७, १२८, १२६, १३०	सेवक १३५
सादी १७, १३०	सैयद करम अली १३६
सर्फउद्दीन २२	सैयद जलालुद्दीन बुखारी १४२
सिकन्दर लोदी २४	सुबक्तगीन १४४
सैयद खराज ७२	सुन्दर कवि १४७
सरमद २६, ३०	सूरदास १४८, १५६, १६६, १७५, ३०२
सद्रुद्दीन कुनवी १२८	उलीमशाह १६०
सचल १३३, १३४	सुल्तान हुसेन १६३
सुल्तान बहादुर १६३	सूफीसाह ३०५
सारंगी खा १६३	सहबाज शाह औरंगाबादी ३११
यम् भू १६५, १७०	सैयद मुहम्मद अबू सईद ३१६

सरहपाद २५८
सेन ३०२

[६१३]

सरमद ३२३
सत्यजीवन ३३३, ५०५

ह

हसन ७, ८
दल्लाज १४, २८, ५७, ६६, ७६, ८६,
८१, १२८
हुज्वरी १६, ३५
हाफिज १७, १३०, १३१
हाफिज मुहम्मद इस्माइल २३, २८
हाजी मुहम्मद २४,
हुसेन अली ४६, १२२, १४०, १६२, ४६६,
हजरत दाऊद ५७
हजारी प्रसाद द्विवेदी ६५,
हबीब (शाह) १३३
हसनबानो रस्तामी १३५

हाशिमशाह १३५, १३६
हिदायतुल्ला १३७
हाजीवली १४१, ३१६
हुमायूँ १३६, १६३
हेनत्साग १५०, १७७
हेमचन्द्र १६८, १७१
हरप्रसाद शास्त्री १६८
हाजी बाबा ३५२
हरिनारायण शर्मा ३७४
हाइट २००, २११
हस्तमुहम्मद ३०५
हैवलाक ऐलिस १०६

द्वितिमोहन सेन १७६

क्ष

त्रिलोकीनारायण दीक्षित (डा०) १०३

त्र

श

- शरबाशा १२,
 शिवली १३, २८
 शेख सलीम चिश्ती १६,
 शव्सतरी १७, ७३, १२८
 शाह रुख १६
 शर्क इब्न मलिक १६
 शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी २२, २५
 शाह कुमेश २४
 शाह लाल हुसेन २४
 शेख अब्दुल्ला शत्तार २५
 शाह जलाल २६
 शाह मुहम्मद गौस २५
 शम्सुद्दीन ८३
 शेख नबी ६६, १००, १०७, १३६, १८४,
 १८६, १८६, १८६, १६४, २३२,
 २३३, ४१६,
 शम्श तवरेज १२६
 शाह लतीफ कुरेश १३३, १३४, १४१,
 १४४, १६२
- शेख इब्राहीम फरीद १३५
 शेख इस्माईल १४२
 शाहजहा १४५, १४६, १६१, १६३,
 शेरशाह १४६, १६०,
 शाहकलदर १६२
 शाह शकर गंज १६२
 श्याम सुन्दर दास २७५
 शाह सलीम ३३४
 शेखवली मुहम्मद ३१२
 शेख अहमद विन कुतुबउद्दीन ३१६
 शिवसिंह ३२१
 श्रीराम शर्मा ३२२
 शाह फकीर ३२३, ३२४
 शेख वदी ३३४, ३३५
 शेख हुसेन ३५०
 शेख अजीज ३५०
 शेख इमानुल्ला ३५०
 शेख फैजुल्ला ३५०

स

- सेन्ट जान ४
 सनाई १७, १२५, १२६, १३०
 सादी १७, १३०
 सर्फउद्दीन २२
 सिकन्दर लोदी २४
 सैयद खराज ७२
 सरमद २६, ३०
 सद्दुद्दीन कुनवी १२८
 सच्चल १३३, १३४
 सुल्तान बहादुर १६३
 सारंगी खां १६३
 यम् भू १६५, १७०
- सादिक १३३
 सेवक १३५
 सैयद करम अली १३६
 सैयद जलालुद्दीन बुखारी १४२
 सुबक्तागीन १४४
 सुन्दर कवि १४७
 सूरदास १४८, १५६, १६६, १७५, ३०२
 सलीमशाह १६०
 सुल्तान हुसेन १६३
 सूफीसाह ३०५
 सहबाज शाह औरंगावादी ३११
 सैयद मुहम्मद अबू सईद ३१६

सरहपाट २५८
सेन ३०२

सरमद ३२३
सत्यजीवन ३३३, ५०५

ह

हसन ७, ८
हल्लान १४, २८, ५७, ६६, ७६, ८६,
८१, १२८
हुज्वरी १६, ३५
हाफिज १७, १३०, १३१
हाफिज मुहम्मद इस्माइल २३, २८
हाजी मुहम्मद २४,
हुसेन अली ४६, १२२, १४०, १६२, ४६६,
हजरत दाऊद ५७
हजारी प्रसाद द्विवेदी ६५,
हबीब (शाह) १३३
हसनबानो रस्तामी १३५

हाशिमशाह १३५, १३६
हिटायतुल्ला १३७
हाजीवली १४१, ३१६
हुमायूँ १३६, १६३
हेनत्साग १५०, १७७
हेमचन्द्र १६८, १७१
हरप्रसाद शास्त्री १६८
हाजी बाबा ३५२
हरिनारायण शर्मा ३७४
हाइट २००, २११
हस्तमुहम्मद ३०५
हैवलाक ऐलिस १०६

क्ष

क्षितिमोहन सेन १७६

त्र

त्रिलोकीनारायण दीक्षित (डा०) १०३

श

- शारबाशा १२,
 शिवली १३, २८
 शेख सलीम चिश्ती १६,
 शवसतरी १७, ७३, १२८
 शाह रुख १६
 शर्क इब्न मलिक १६
 शिहाबुदीन मुहरावदी २२, २५
 शाह कुमेश २४
 शाह लाल हुसेन २४
 शेख अब्दुल्ला शतार २५
 शाह जलाल २६
 शाह मुहम्मद गौस २५
 शम्सुद्दीन ८३
 शेख नवी ६६, २००, १०७, १३६, १८४,
 १८६, १८६, १८६, १६४, २३२,
 २३३, ४१६,
 शम्श तबरेज १२६
 शाह लतीफ कुरेश १३३, १३४, १४१,
 १४४, १६२
- शेख इब्राहीम फरीद १३५
 शेख इस्माइल १४२
 शाहजहा १४५, १४६, १६१, १६३,
 शेरशाह १४६, १६०,
 शाहकलदर १६२
 शाह शकर गंज १६२
 श्याम सुन्दर दास २७५
 शाह सलीम ३३४
 शेखवती मुहम्मद ३१२
 शेख अहमद विन कुतुबउद्दीन ३१६
 शिवासिंह ३२१
 श्रीराम शर्मा ३२२
 शाह फकीर ३२३, ३२४
 शेख वदी ३३४, ३३५
 शेख हुसेन ३५०
 शेख अजीज ३५०
 शेख इमानुल्ला ३५०
 शेख फैजुल्ला ३५०

स

- सेन्ट जान ४
 सनाई १७, १२८, १२६, १३०
 सादी १७, १३०
 सर्फउद्दीन २२
 सिकन्दर लोदी २४
 सैयद खराज ७२
 सरमद २६, ३०
 सदुद्दीन कुनवी १२८
 सचल १३३, १३४
 सुल्तान बहादुर १६३
 सारंगी खा १६३
 यम् भू १६५, १७०
- सादिक १३३
 सेवक १३५
 सैयद करम अली १३६
 सैयद जलालुद्दीन बुखारी १४२
 सुबक्तगीन १४४
 सुन्दर कवि १४७
 सरदास १४८, १५६, १६६, १७५, ३०२
 सलीमशाह १६०
 सुल्तान हुसेन १६३
 सूफीसाह ३०५
 सहबाज शाह औरंगाबादी ३१२
 सैयद मुहम्मद अबू सईद ३१६

सरहपाद २५८
सेन ३०२

सरमद ३२३
सत्यजीवन ३३३, ५०५

ह

हसन ७, ८
हल्लाज १४, २८, ५७, ६६, ७६, ८६,
८१, १२८
हुज्वरी १६, ३५
हाफिज १७, १३०, १३१
हाफिज मुहम्मद इस्माइल २३, २८
हाजी मुहम्मद २४,
हुसेन अली ४६, १२२, १४०, १६२, ४६६,
हजरत दाऊद ५७
हजारी प्रसाद द्विवेदी ६५,
हवीब (शाह) १३३
हसनबानो रूस्तामी १३५

हाशिमशाह १३५, १३६
हिदायतुल्ला १३७
हाजीवली १४१, ३१६
हुमायूँ १३६, १६३
हेनत्साग १५०, १७७
हेमचन्द्र १६८, १७१
हरप्रसाद शास्त्री १६८
हाजी बाबा ३५२
हरिनारायण शर्मा ३७४
हाइट २००, २११
हस्तमुहम्मद ३०५
हैवलाक ऐलिस १०६

क्ष

क्षितिमोहन सेन १७६

त्र

त्रिलोकीनारायण दीक्षित (डा०) १०३

(ग्रन्थ)

अ

अल सिफि अन्फाअल सूफिया २५५

अभिज्ञान शाकुन्तल १७४, २०४

आत्म-चरित ३३६

अलिफ लैला २८१

अलक नामा ३००

आशिका ३०१

अल्ला-नामा ३२२

आलिफ-नामा २४६, ३०६, ३०८, ३०८,

असरारुल तौहीद ८१,

अखरावटी ३२८, ५३२,

अरद सेर पातिसाह की कथा ३७६,

अहसन जौहर ५१०,

अवारिफुल मारिफ ३,

अनुराग बाँसुरी ४५, ५२, ५७, ५८, ६०,

६६, ७४, ८५, ८८, ९१, ९८, ११७,

१६५, १६६, २१६, २२४, २३१,

२५२, २७०, २७६, २८४, २९०,

२९६, ४६१,

अखरावट ४५, ५१, ७७, ७८,

आखिरी कलाम ६३,

असरारुल तौहीदी ८१,

आउट लाइन आफ स्लामिक कल्चर ६,

अली डेवलपमेन्ट आफ मोहमनेडिज्म ६, ३३

अकबर १६४,

आइडिया आफ पर्सनालिटी इन सूफीज्म

१२, १४,

इ

इद्रावती ४३, ४४, ४६, ५२, ५४, ५७, ५८,

६०, ६७, ८४, ८६, ८७, ९४, १००,

१०५, ११४, १२१, १६३, १६८,

२१३, २२१, २२४, २३०, २३७, २४१,

२४७, २६१, २६६, २७४, २८५, २९३,

३३४, ४५१,

ईरान के सूफी कवि १२५,

इहयायुल उलुम १२८,

इंसानुल कामिल १२८,

इल्मुल किताब २१८,

इन्साइक्लोपीडिया ऑफ इस्ताम १२,

इवॉल्यूशन ऑफ अवधी २६१,

उ

उषा अनिरुद्धि २५२, १७४,

ए

एपिक एंड रोमान्स २०७,

एलेगरी आफ लव २०३,

क

कथा कालरूप १६४, १६८ २१०, २२५, २६०, २७५ १२५, ५७४,	कलावती ३७६, ४२०, कामरानी ३७६,
कुवैरावत २८०, २६५, २८५, ६०, ६२, ६२, ६३, १०३, १०४, ११६, १२१, १४०, ५८२,	कामलना १८६, ३६३, १८६, कुमार सम्भव २०४, कादम्बरी २७४
कीर्तिलता २५६,	कृष्ण क्विमणी री वेति १७५
कथा कंवलावती २६१, ३७६, ३६७, १८७, १८८, ६३,	कुरान ३३, ६५, ६६, ५६६, करफुल महजुव २४५, १२८, कवीर ग्रन्यावली १००
कथा कलन्दर २६८, ३७६,	किताबुत्तवासीन १२८, किताबुल्लुमाफिततधव्युफ १२८, कुल्लियात शम्शतवरेज १३०
कथा कनकावती २६८, २७६, ३६३,	क्लासिकल ट्रेडिशनस २००, २०१, २०२
कथा कौहली २६८,	क्रिश्चियन मिस्टीसिज्म २१४
कथा कुलवन्ती २६८, २६६, कन्द्रा कलोल ३००	कृष्णाश्रय १५६
कवूतर नामा ३००, ३२६, कवि नजीर ३१२, कुतुव मुश्तरी ३२१,	

ख

खिन्नलौ साहिजादे व देवल दे की चौपई ३७६, ४०४, ख्यावो ख्याल २७७	खुलासाबुत्तवारीख ३०२ खड़ी बोली हिन्दी साहित्य का इतिहास १३८,
---	--

ग

गूढ ग्रन्थ ३००, ३२६, गुल्शाने हश्क ३३६,	गुल्शाने राज ५७, गोरखबानी १७६
--	----------------------------------

च

चित्रावली ३६, ४३, ४७, ५३, ५६, ६१, १८८, १६४, २१७, २२४, २३५, २४०, २४५, २५३, २६५, २६८,	२६०, २६६, ३४६, चन्द्रालोक २५४,
---	-----------------------------------

छ

छविसागर (कथा) १८५, १८७, ३७६	छीना (कथा) २१०, ३६१,
-------------------------------	----------------------

ट

ट्राइव्स एण्ड कास्टस आफ दि नार्थ वेस्टर्न प्राविन्स एण्ड अरब १५८

ढ

ढोला मारू रा दोहा १७३, १७४, २०४,

त

तमीम अन्सारी (कथा) २६८, ३७६, तसब्बुफ अथवा सूफीमत ११६
तज्जिकरातुल औलिया ११, १२, १३ तारीखये फीरोजशाही १५७

थ

थीहज्य इन मेडिवल इन्डिया ६

द

देवल दे की कथा २८४, २६८, दोहाकोष १६८
दरसननामा ३०० दक्खिनी नजीर ३१३
देसावली ३००, ३२६, दक्खिनी हिन्दी ४५३
दरसननामा, ३०० दी दर्विशेज ८३

ध

धन्यालोक १५४

न

नल दमयन्ती १७४, २८४, २६२, ३७६ नाथ सन्प्रदाय १७६, १०१,
नूरजहां २०६, २२०, २८५, ५३८ नाथ पन्थ १६०
निरमल दे (कथा) ३२८, ३७६, नारद भक्तिसूत्र ११०
नूरकचन्दा १७३

‘प’

प्रेमदर्पण, १८१, ५६५, प्रेमदर्पण २३४
पुहुपवरिषा १८२, १६२, २३३, ३७६, ३८४ पीतमदास (कथा) २६८,
प्रेमरस १६३, २१६, २३५, २४३, २४५, प्रेमप्रकास ३१०, १७५,
२८५, ३२६, पीपुल आफ दि मास्क ७, ८८,
प्रेमनागर ३०० पंजाबी सूफी पोयट्स १३६, १३७
पुहुपावती १७५, १६२ २३४, २६४, २८३, पवनदूत १७४
२८५, ४६६, ४६७ पद्मपुराण १७६
प्रेमनामा ३००, ३१६ पद्मावत ३८, १८३, २५६, ३३४,
पाहन परीक्षा ३०० पाहन परीक्षा ३३६, ३२६
पैराडाइस लास्ट एण्ड पैराडाइस रिगेण्ड प्रेमचिनगारी ३२६, ५३२,
२०१ पातंजलि योग-दर्शन १०२

ब

वर्ननामा २९९, ३२८
वारहमासा ३००, ३७६
विरही कौ मनोरथ ३००
वौदीनामा, ३००, २२९,

वाजनामा ३२९,
विरहसत ३७६
बुधिसागर ३७, ३९५,

भ

भजन भङ्गाका ३११
भावसति ३२९
भाषाप्रेमरस १८१, १८९, ३७,

भारत में इस्लाम १९,
भजन संग्रह ५४,

म

मानविनोद २०
मिश्रबन्धु विनोद ३०८, ३१६,
मधुमालात ४४, ४६, ५९, १८२, २११,
२२४, २३९, २४४, २५०,
मिरगावति ३३४, ३३७
मोहिनी कथा ३७६, ३९९
मध्यकालीन भारत ४१३
मेहर निगार ५१०
मेषदूत १७४, २०४

मनलगन २७७
महावंश २
मिस्टिकल एलिमेंट्स इन मोहम्मद ७
मनुस्मृति २९, १५०,
मिस्टिसिज्य आफ सार्ड ३६,
मिस्टिष् आफ इस्लाम ५६,

य

यूसुफ जुलेखा, ६२, २३५, २४४, २८४, १८१, २०८, २०९, २३३,
५०५,

र

रोमास एन्ड लीजेंड आफ सिवेलरी २०३
रत्नावती २२७, ३७६, ३८०
रूपमञ्जरी १८३, ३७६, ४०३
रसिकप्रिया २३३
रामचरितमानस १४७, २५९, २६२
रत्नावली ३०५
रसविनोद ३०८
रागसागरोद्भव ३१२

राग कल्पद्रुम ३१२
रिसालये अलिफवाये ३२१, ३२८
राबिया दि मिस्टिक क
रतनमंजरी ३८७
रसमनोज ५१०
राजस्थान के लोकगीत १७४
रेलिजन आफ दि सेनाइट्स १
रुवाइयात आफ उन्नर खैय्याम६८

ल

लैला मजनूँ ३७६, ४०१
 लिनिवस्टिक सर्वे आफ इण्डिया २६१
 लिट्रैरी हिस्ट्री आफ अरब्स ८, ९,

लिट्रैरी हिस्ट्री आफ पर्शिया १५,
 लाइफ एंड कन्डीशन्स आफ दि
 पीपल्स आफ हिन्दुस्तान, १५६

व

वजहनामा ३२१, ३२२, ३२८
 वियोग सागर ३७६

विरह वारीश १७५

स

साहित्य दर्पण २२९
 सुभटराय की कथा २९८
 सतवन्ती की कथा २९२, २९९, ३२८
 सीलवन्ती की कथा २९८, २९९, ३२८
 संत सुधासार ३०५, ३०९
 सूफ़ी काव्य संग्रह २५, ३१०, १३८, १४०
 सब रस ३२१
 ससि पूनो १७४,
 सिम्बलिज्म २१४

सूफ़ीज्म इट्स सेन्ट्स एंड आइन्स
 इन इंडिया ६, ३४, ९४,
 स्टडीज़ इन इस्लामिक
 मिस्टिसिज्म १४, ६६, ६७,
 स्टडीज़ इन तसव्वुफ ७२,
 सुन्दर दर्शन १०३
 साइकालोजी आफ सेक्स १०९
 सिंध एंड इट्स सूफ़ीज़ १३३
 संस्कृत संगम १७६

ष

षट्श्रुतु बरवै ३००

षट्श्रुतु पवंगम ३००

श

शिवविह सरोज ३२१
 शाण्डिल्य भक्ति सूत्र १७६,

शमये इश्क १३७,

ह

हसजवाहिर १८७, १८९, १९३, १९५,
 १९८, २०९, २१६, २४०, २४७,
 २५२, २८५, २९१, २९४, २९५,
 ४३०,

हंसदूत १७४

हिन्दी काव्यधारा २६१,
 हठयोग प्रदीपिका १०४,
 हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास
 १३८,

झ

ज्ञानदीप १८४, १८९, १९३, १९४, २८५, ४१६,

शुद्धि-पत्र

अशुद्धि	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति
इस्लामी	इस्लाम	२०	१४
ः विण	द्रविड	२०	१६
जायें	गये	२०	२०
पुस्कर	पुश्कर	२१	३०
प्रामाणित	प्रामाणिक	२२	४
इसकी	इनकी	२४	२४
मनकपुर	मकनपुर	२५	१६
अभिहित	अभिहित	३०	८
उनके	उसके	३१	१३
कर्तव्य शक्ति	कर्तृत्व शक्ति	४२	७, ८
का	को	५०	१२
परमसत्ता	परमशक्ता	५४	८, १५
का	या	५५	५
मात्रा	मात्र	६२	२
तैत्रयोपनिषद्	तैत्तरीयोपनिषद्	६२	७
भी	ही	६५	५
संलग्न	संलग्न	६६	१०
पथग्रष्ट	पथग्रष्ट	७०	१६
लक्ष	लक्ष्य	७१	६
स्वष्टीकरण	स्पष्टीकरण	७४	६
विरोध	निरोध	७८	१०
भयन	भयज	७८	१८
अनिवार्य	अनिवार्यता	६०	५
परम्परा	परम्परा	६३	१८
सुन्दर	सुन्दर	६६	१५
ग्रन्थ	ग्रन्थ	१०३	२०
तृणा	तृष्णा	१०४	१७
मानव	मानवीय	१०६	११
व्यञ्जना	व्यञ्जना	११०	१६, २०
रागानुरागा	रागानुगा	११०	२२
स्थिति	द्वित	११०	२३
चित्र, फलक	चित्र फलक	१२०	६
अब्दुल कासिम	अब्दुल कासिम	१२८	८
रिसालये कुशारिया	रिसालये कुशौरिया	१२८	६

हुम्बिरी	हुज्वेरी	१२८	
म्थारिफ	मथारिफ	१२८	
लावेह	लवाइह	१२८	
शवस्तारी	शविस्तरी	१२८	
मसनमियाँ	मसनवियाँ	१२८	
किताबुलतवासीन	किताबुतवासीन	१२८	
मजीद	बायजीद	१२८	
परिणित	परियात	१२६	
प्रतिपालन	प्रतिपादन	१२३	
पश्चावत	पश्चावत	१३५	
अबुल सहन	अबुलहसन	१३७	
गुप्त-साम्राज्य	गुप्त-सामराज्य	१४३	
धर्मान्वना	धर्मान्वता	१४८	
सहन पढ़ता	सहन करना पढ़ता	१४८	
कान्ता सम्मति	कान्ता सम्मित	१५४	
आहस्थ	गाहस्थ	१८२	
आकावाशी	आकाशावाशी	१६४	१
सकेतिकत	सकेतित	२१४	१
चित्रवली	चित्रावली	२१६	
अल मुजाम फिदुरुफ—	अल मुजम—		
मुजम	फि दुरुफुल अजम	२२५	१
चिह्न	चिन्ह	२२७	३
आह्लाद	आल्हाद	२२७	५
कासिकशाह	कासिमशाह	२५२	२
हेतुत्पन्ना	हेतुत्पन्ना	२५५	१४
एकात्मा	एकात्मकता	२५६	११
परम्परा	परम्परा-सम्बन्धी	३००	१
केसोपास	केसोदास	३०५	२६
लाह्लाही इललिल्लाह	लाह्लाह इलिल्लाह		
मुहम्मद उर्रसूलिल्लाह	मुहम्मद उरसूलिल्लाह	३०६	१४
ममत्व	महत्व	३२१	१
खरखड	खरखड	५७३	१४
स्थित	स्थिति	५६५	१८

विशेषः—अध्यायों के गणनात्मक अंकों में ३ अंक छूट जाने के कारण आगे के अंकों में संख्या-क्रम की गड़बड़ी हो गई है। मुद्रण की इस भूल के लिये लेखिका क्षमाप्रार्थिनी है।

प्रकाशक
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ

मूल्य १२)

मुद्रक
पं० मदनमोहन शुक्ल “मदनेश”
साहित्य मन्दिर प्रेस (प्राइवेट) लिमिटेड
लखनऊ

कृतज्ञता-प्रकाश

श्रीमान् सेठ शुभकरन जी सेकसरिया ने लखनऊ विश्वविद्यालय की रजतजयन्ती के अवसर पर विसर्वाँ-शुगर-फैक्ट्री की ओर से बीस सहस्र रुपये वा दान देकर हिन्दी विभाग की सहायता क है। सेठ जी का यह दान उनके विशेष हिन्दी-अनुराग का द्योतक है। इस धन का उपयोग हिन्दी में उच्चकोटि के मौलिक एवं गवेषणात्मक ग्रन्थों के प्रकाशन के लिये किया जा रहा है जो श्री सेठ शुभकरन सेकसरिया जी के पिता के नाम पर 'सेठ भोलाराम सेकसरिया स्मारक ग्रन्थमाला' में संग्रहित होंगे। हमें आशा है कि यह ग्रन्थमाला हिन्दी-साहित्य के भण्डार को समृद्ध करके ज्ञानवृद्धि में सहायक होगी। श्री सेठ शुभकरन जी की इस अनुकरणीय उदारता के लिए हम अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

दीनदयालु गुप्त
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय

उपोद्घात

हिन्दी-साहित्य के भक्ति काल में (लगभग सन् १३०० ई० से सन् १६५० तक) उत्तरी भारत में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन हुए । यद्यपि पश्चिम से आने वाली अनेक सभ्यताओं का सम्मिश्रण भारतीय जीवन में इस काल से पहले ही हो गया था, परन्तु इस काल में मुसलमान धर्म और मुसलमानी सभ्यता का प्रभाव भारतीय जनमन पर अधिक पड़ा । भारतीय आदर्श मुसलमानों ने अपनाए और मुसलमानों की विचारधारा में अनेक हिन्दुओं ने अवगाहन किया । उस समय हिन्दू-मुसलमानों के मेदभाव को मिटाने के लिये दोनों जातियों के अनेक महापुरुष प्रयत्नशील हुए । मुसलमान धर्म के अन्तर्गत जिन महात्माओं ने भारतीय विचार अपनाये और मेदभाव को पाटने का प्रयत्न किया वे 'सूफी' कहलाते थे और हिन्दुओं में ऐसे महात्मा 'संत' संज्ञा से समाहत थे । उक्त काल में प्राचीन मुसलमानी सूफीमत जो मुसलमान विचारधारा में भारतीय वेदान्तवाद के दार्शनिक तत्वों को लेकर खड़ा हुआ था, भारतीय तत्वज्ञान आचार विचार से प्रभावित होकर एक नये रूप में, भारत में, प्रचलित हुआ । सूफी साधकों ने प्रेम को भारतीय भक्ति-भाव के समान ही विशेष महत्व दिया । लौकिक प्रेम में जो दशा एक प्रेमी की अपने प्रिय के पाने के लिये होती है, वही दशा सूफी की अपने प्रिय परमात्मा के पाने में होती है सत्य के जानने के लिये इस मत में हृदय की शुद्धता पर अधिक बल दिया गया है । सूफी साहित्य में प्रेमी प्रिय की प्रेमलीलाओं का तथा प्रेमियों की प्रेम कहानियों का अधिक वर्णन है । इन प्रेम कहानियों में लोक प्रेम और लौकिक प्रेम तथा सौन्दर्य के प्रतीकों में विश्वात्मा ईश्वर के प्रति प्रेम और सौन्दर्य की झलक देखना सूफियों का परम लक्ष्य है । फारसी, हिन्दी आदि भाषाओं में रोचक प्रेम कहानियों द्वारा ईश्वरोन्मुख प्रेम की अभिव्यक्ति इन्होंने की है ।

हिन्दी के भक्तिकाल में हिन्दी भाषा में अनेक उत्कृष्ट प्रेम-कहानियाँ सूफी साधकों द्वारा लिखी गईं । जैसे सूफी प्रेमकाव्य का परिचय हमें वीरगाथा काल में ही मिल जाता है । वीर गाथा काल में एक सूफी फकीर मुल्लादाऊद ने, नूरक और चन्दा की प्रेम-कहानी लिखी । भक्तिकाल के सूफीभक्त जायसी ने अपने ग्रन्थ 'पद्मावत' में 'पद्मावत' से पहले लिखी गई कई प्रेम कथाओं का उल्लेख किया है जैसे स्वप्नावती, मुग्धावती, मृगावती, खण्डरावती, मधुमालती और प्रभावती ।

विक्रमधंसा प्रेम के बारा, सपनावती कहँ गयऊ पतारा ।
मधूपाछ मुग्धावति लागी, गगन पूरि होइगा वैरागी ।
राजकुंवर कंचनपुर गयऊ, मिरगावती कहँ जोगी भयऊ ।
साधे कुंवर खंडरावत जोगू, मधुमालती कर कीन्ह वियोगू ।
प्रेमावति कहँ सुरपुर साधा, ऊषा लागि अनिरुद्ध कर वींघा ।

इनमें से हिन्दी संसार के समस्त ग्रामी तक केवल कुतुबन की मृगावती और मंझन की मधुमालती ही प्रकाश में आईं हैं । प्रेम कहानियों की परम्परा में मलिक मुहम्मद

जायसी का स्थान बहुत ऊँचा है। जायसी के बाद यह परम्परा बराबर चलती रही। वस्तुतः सूफ़ी फकीरों का लक्ष्य अर्ध-कल्पित हिन्दू जीवन की मनोरंजक कहानियों द्वारा मुसलमान सूफ़ी-विचारों को भारतीय साधारणजनों तक पहुँचाना था। लगभग सभी सूफ़ी कथाएँ जन साधारण की बोली में और दोहा चौपाई जैसे सरल छंदों में लिखी गई हैं। कथानक का गठन और वर्णन शैली फारस की मसनवी शैली पर हुए हैं और कथानक के बीच-बीच में अध्यात्मिक प्रेम का संकेत है। मलिक मुहम्मद जायसी के बाद भी, जैसा कि ऊपर कहा गया है, सूफ़ी प्रेम-कहानियों के लिखने की परम्परा बराबर चलती रही है। जायसी के बाद की परम्परा में उसमान कृत चित्रावली, शेख नवी कृत ज्ञानदीप, कासिमशाह कृत हंसजवाहर और नूरमुहम्मद कृत इन्द्रावती अधिक प्रसिद्ध हैं।

हिन्दी-साहित्य के इतिहासकार और समालोचकों ने अबतक कुतबन, मंभन और जायसी का ही विशेष अध्ययन किया है। जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफ़ी कवियों की ओर उनका ध्यान नहीं गया। श्री परशुराम चतुर्वेदी जी ने अपने ग्रन्थ 'सूफ़ी काव्य संग्रह' में इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य किया है। इस अभाव की पूर्ति के लिए ही श्रीमती सरला शुक्ल को अनुसंधान के लिये "जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफ़ी कवियों का अध्ययन" शीर्षक विषय दिया गया था। श्रीमती डा० शुक्ल मेरी शिष्या और हमारे हिन्दी विभाग में प्राध्यापिका हैं, और इस विद्यालय के श्रेष्ठतम विद्यार्थियों में रही हैं। प्रस्तुत निबन्ध डा० केशरीनारायण शुक्ल एम० ए० डी० लिट्० की देख रेख में लिखा गया है, और इस पर श्रीमती शुक्ल को लखनऊ विश्व-विद्यालय की पी एच० डी० उपाधि मिली है। इस प्रबन्ध के विषय से सम्बन्धित ग्रन्थ अधिकतर अमुद्रित ही थे। विषय की अप्रकाशित और बिखरी हुई सामग्री को अनेक स्थानों से बड़े परिश्रम के साथ श्रीमती शुक्ल ने इकट्ठा किया और उसे एक व्यवस्थित और मौलिक निबन्ध रूप में प्रस्तुत किया। इनके अथक परिश्रम और विस्तृत अध्ययन की मैं भूरि भूरि प्रशंसा करता हूँ। श्रीमती डा० शुक्ल मेरी बधाई और शुभ कामनाओं की पात्री हैं। इनकी लेखनी से और भी महत्वशाली ग्रन्थ प्रस्तुत होंगे, ऐसी मेरी मंगलाशा है।

डा० दीनदयालु गुप्त

एम० ए० एल० एल० बी० डी० लिट्०

अध्यक्ष हिन्दी विभाग
लखनऊ विश्व विद्यालय

दीनदयालु गुप्त

७. ११. ५६

प्राक्कथन

हिन्दी साहित्य की प्रेमाख्यान-परम्परा में सूफ़ी प्रेमाख्यानों का महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म से मुसलमान और हृदय से उदार ये सूफ़ी, वसुन्धरा को केवल 'वीरभोग्या' ही न रखकर 'प्रेमभोग्या' बना रहे थे। सूफ़ीमत का जन्म अरब प्रदेश में मुहम्मद साहब के निधनोपरान्त हुआ। कालान्तर में इसने ईरान, स्पेन, मिस्र, भारतवर्ष आदि देशों में भी विस्तार पाया।

भारत में सूफ़ीमत के अनुयायियों का आगमन उस अवस्था में हुआ जब सूफ़ीमत इस्लाम का एक अंग बन चुका था। अब सूफ़ी केवल साधक ही न रहकर इस्लाम के प्रचारक भी थे। अष्टिकाश सूफ़ी या तो आक्रमणकारी यवनों की सेना के साथ या उनके आगे पीछे आते तथा इस्लाम का झंडा ऊंचा करते थे।

साहित्यिक सूफ़ियों या सूफ़ी कवियों के स्पष्ट प्रचारक स्वरूप का उल्लेख कहीं नहीं मिलता किन्तु फिर भी उनके काव्य में उनका यह अर्थ व्यञ्जित अवश्य रहता है। उन्होंने काव्य में 'कान्तासम्मिततयोपदेश युजे' हेतु को सार्थक कर दिया।

सूफ़ियों ने अपने ग्रंथों की रचना हिन्दी भाषा एवं फारसी लिपि में की। इनके प्रेमाख्यानों पर भारतीय प्रेमाख्यान परम्परा एवं फारसी की मसनवी काव्य-शैली दोनों का प्रचुर प्रभाव है। जनसाधारण में प्रेम-सदेश पहुँचाने के लिये सूफ़ी कवियों ने लोकप्रचलित कथाओं को लोक भाषा के माध्यम से ही कहा। ये कथाएँ केवल प्रेम-कथाएँ न रहकर उपमिति-कथाएँ या धर्मकथाएँ भी बन गईं क्योंकि ये सूफ़ीसिद्धान्त एवं साधना के नियमों से अनुप्राणित थीं।

भारतीय प्रेमाख्यानों की परम्परा नवीन नहीं है। ऋग्वेद में यम-यमी के संवाद में भी प्रेम-कथा के बीज निहित हैं। पौराणिक युग में प्रेमाख्यानों के द्वारा नीति और धर्म का प्रचार किया जाता था। संस्कृत साहित्य में प्रेमाख्यानों की परम्परा अविरोध रही। अपभ्रंश साहित्य में जैनमुनियों के चरितकाव्य प्रेमाख्यान काव्यों के ही रूप हैं।

हिन्दी के कवियों को ये प्रेमाख्यान अपभ्रंश से "थाथी" रूप में प्राप्त हुये जिन्हें सूफ़ी कवियों ने अपने मन के प्रचारार्थ ग्रहण किया। इन सूफ़ी कवियों को एक ओर जहाँ भारतीय प्रेमाख्यान-पद्धति परम्परा के रूप में उल्लेख हुई वहीं दूसरी ओर ईरान के सूफ़ी कवियों की मसनवी रचनाओं ने भी प्रेरणा दी।

कुरान में भाषा के सम्बन्ध में कहा गया है कि प्रत्येक जाति में नबी उसकी भाषा में ही भेजा गया है अतः प्रत्येक भाषा पुनीत है। यह तथ्य इन सूफ़ियों को मान्य होने के साथ ही

इनका उद्देश्य जन-साधारण में अपने विचारों का प्रचार करना था जो साहित्यिक भाषा को सहज ही हृदयगमन न कर 'भाषा' को बोलती और समझती थी। इसके अतिरिक्त सूफ़ी कवियों के हिन्दी बोलियों में काव्य-रचना के पीछे एक और सत्य यह हो सकता है कि 'जन कवि' की भाँति घर्मान्तरित सूफ़ी अपने प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा में ही भलीभाँति अपने विचारों को व्यक्त कर सकते थे। जान कवि ने इस तथ्य को स्वीकार भी किया है। जो हो इन कवियों ने प्रादेशिक बोलियों में ही अपने काव्य की रचना की और कथात्व के लिये लोक कथाओं या लोक में अत्यधिक प्रख्यात ऐतिहासिक एवं धार्मिक कथाओं का आश्रय लिया।

हिन्दी के इन सूफ़ी प्रेमाख्यानों की रचना मुहम्मद दाऊद के चंदावन से आरम्भ हो गई थी किन्तु प्राप्त प्रेमाख्यानों में सर्वप्रथम कुतबन की 'मृगावती' (हि० सन् १०९९ सन् १५०३ ई०) ही है। हिन्दी इतिहासकारों एवं अन्य रचयिताओं ने आरम्भिक सूफ़ी कवि कुतबन, मंभन, जायसी का विशेष उल्लेख किया है। अतः स्वाभाविक रूप से सूफ़ी कवियों का नाम लेते ही इनका ध्यान हो आता है। रीति एवं आधुनिक काल के किसी सूफ़ी कवि का उल्लेख हिन्दी के इतिहास ग्रन्थों में नहीं हुआ। इसका यह तात्पर्य नहीं कि भक्तिकाल के पश्चात् सूफ़ी-काव्य का प्रणयन नहीं हुआ। सूफ़ी काव्य की रचना चौदहवीं शताब्दी से आरम्भ होकर बीसवीं सदी तक अबाध गति से चलती रही है। प्रस्तुत प्रबन्ध में सूफ़ी काव्य एवं रचयिताओं का परिचयात्मक तथा आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है।

'जायसी ग्रन्थावली' की भूमिका में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने जायसी के सम्बन्ध में सभी ज्ञातव्य बातों का निर्देश कर दिया था। इसके पश्चात् प्रयाग एवं आगरा विश्व-विद्यालय से क्रमशः श्री कमल कुलश्रेष्ठ एवं श्री जयदेव कुलश्रेष्ठ ने 'जायसी' के काव्य एवं जीवन पर प्रबन्ध लिखकर पीएच० डी० की उपाधि प्राप्त की। डा० माताप्रसाद गुप्त ने जायसी ग्रन्थावली का पुनः सम्पादन किया। श्री चन्द्रवली पाण्डेय ने 'तसबुफ़ अथवा सूफ़ीमत' लिखकर सूफ़ी-सिद्धान्त एवं साधना का विवेचन किया। किन्तु किसी भी लेखक का ध्यान जायसी के परवर्ती सूफ़ी कवियों की ओर नहीं गया है। श्री परशुराम चतुर्वेदी के 'सूफ़ी-काव्य-संग्रह' में अवश्य इस अभाव की पूर्ति का प्रयास किया गया किन्तु उसमें भी सभी कवियों का परिचय नहीं आ सका है। जायसी के बाद के सूफ़ी-साहित्य की परम्परा का अध्ययन प्रस्तुत प्रबन्ध का उद्देश्य है।

सूफ़ीमत के आविर्भाव एवं विकास का संक्षिप्त विवरण सूफ़ी-साहित्य के अध्ययन में सहायक होने के दृष्टिकोण से ही दिया गया है। सूफ़ी-दर्शन एवं साधना की विस्तृत मीमांसा सूफ़ी साहित्य (प्रेमाख्यान एवं स्फुट साहित्य) के स्पष्टीकरण में सहायक है। किसी भी युग की रचनाओं के अध्ययन और उनके मूल्यांकन के लिये तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक और राजनैतिक वातावरण का अध्ययन नितान्त आवश्यक है। साथ ही कवि का काव्य विगन परम्पराओं का प्रतीक भी होना है। कवि अपने अग्रज कवियों की भाँपा, भाव और प्रक्रिया सम्बन्धी रूढ़ियों को अपनाता अवश्य है। अतः तत्कालीन

प्रवृत्तियों के अतिरिक्त अनीत की प्रवृत्तियों का अध्ययन भी आवश्यक होता है। सूफ़ी-काव्य की पृष्ठभूमि स्वरूप ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का भी अध्ययन किया गया है।

सूफ़ी प्रेमाख्यानों की प्रेम-व्यञ्जनापद्धति, लोकपद्, अध्यात्मतत्व, काव्यतत्व, प्रतीक-योजना, प्रबन्धकल्पना, भाषा एव शैली पर भी विचार किया गया है। प्रस्तुत प्रेमप्रबन्धों के साहित्यिक सौष्ठव के अतिरिक्त उनकी साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक देन का भी स्पष्टीकरण है। प्राप्त प्रेमाख्यानों के विशिष्ट अध्ययन के अन्तर्गत इन काव्य ग्रन्थों के रचनाकाल, कवि के जीवनवृत्त, आख्यान की कथावस्तु, प्रबन्धकल्पना, एवं काव्य-सौन्दर्य का आलोचनात्मक विवेचन है। इसके अतिरिक्त इन काव्यों में प्राप्त ऐतिहासिक एव सामाजिक तथ्यों का भी निर्देश है। आलोच्य प्रेमाख्यानों में नई ऐसे हैं जिनका उल्लेख इतिहास ग्रन्थों में भी नहीं है। केवल एक ग्रन्थ 'कथा कामरूप' के कवि के जीवनवृत्त एवं रचनाकाल के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा जा सका क्योंकि वह स्वयं आत्मपरिचय के सम्बन्ध में मौन है तथा इतिहास ग्रन्थों में भी उसका उल्लेख नहीं मिलता है। प्रबन्ध के आलोच्य ग्रन्थ साधारणतया अमुद्रित होने के कारण अलभ्य है। अधिकतर ग्रंथ साहित्यिक सस्थाओं, साहित्यप्रेमियों, राजकीय पुस्तकालयों एवं पुरातत्वविभागों में सुरक्षित हैं।

मध्ययुग में सगुण और निर्गुण भक्तिधारा के समानान्तर प्रेमाख्यानों की यह अविरल धारा भी चल रही थी। वीरगाथा काल की संध्या से प्रारम्भ होकर आधुनिक काल तक इन प्रेमाख्यानों का प्रणयन होता रहा अतः इनका अध्ययन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है।

इन कवियों ने लोकगीतों की परम्परा का अनुसरण कर संयोग एवं वियोग की मार्मिक अभिव्यक्ति की। काल्पनिक आख्यानों में कादम्बरी आदि प्रबन्धों की परम्परा अच्युत है। शामी कथानकों के साथ ही इन कवियों ने भारतीय ऐतिहासिक एव पौराणिक कथानकों का भी आश्रय लिया। कथानक के चयन में जहाँ कवियों ने उदारता का परिचय दिया है वहीं उनके सांस्कृतिक वातावरण में भारतीयता का पुट मिलता है। सभी कथाओं को भारतीयता के रंग में रंगकर इन्होंने सांस्कृतिक सामञ्जस्य की नींव डाली। सूफ़ीमत के दार्शनिक सिद्धान्तों, साधना पद्धतियों का वर्णन करते हुए कवियों ने अपने प्रेमाख्यानों में भारतीय अहिंसा, सगुणभक्ति, अवतारवाद, जन्मान्तरवाद, अद्वैतवाद आदि दार्शनिक एवं धार्मिक विश्वासों का समन्वय भी किया है। हठयोग की साधना, तान्त्रिकों के प्रयोग आदि का भी उल्लेख मिलता है।

लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर अग्रसर होना इन कथाओं में व्यञ्जित है। सूफ़ी प्रेमाख्यानों में प्रेम की गति विषम से सम की ओर है प्रेम की स्थापना साध्य के रूप में न होकर साधन के रूप में है।

भाषा की दृष्टि से सूफी काव्य की रचना अवधी, खड़ीबोली, ब्रज से प्रभावित अवधी, एवं राजस्थानी मिश्रित अवधी में हुई है। वास्तव में इन कवियों ने अपने निवासस्थान में प्रयुक्त भाषा में ही अपने काव्य ग्रन्थों की रचना की है।

जीवन के हास, उल्लाम के मध्य व्यक्ति के कर्तव्यों का भी चित्रण है। भारतीय आदर्श, सतीत्व एवं सती नारी का गुणगान किया गया है। प्रेम की तीव्रता, गम्भीरता एवं एकनिष्ठता का प्रदर्शन करने के साथ ही ये कवि सामाजिक मान्यताओं का उल्लंघन नहीं करते। विवाह के पवित्र एवं अटूट बन्धन को ये कवि स्वीकार करते हैं। स्वकीया प्रेम की व्यञ्जना ही अधिक है। गार्हस्थ्य जीवन की पवित्रता को बनाये रखने एवं सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन न होने देने में इन कवियों ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की है।

संक्षेप में प्रस्तुत प्रबन्ध चौदहवीं शताब्दी से लेकर बीसवीं शताब्दी तक की भारतीय संस्कृति और साहित्य के महत्वपूर्ण विकासोद्घाटन का प्रयास है।

प्रस्तुत प्रबन्ध के लेखन में मुझे अपने पूज्य गुरु और निर्देशक डा० केसरी नारायण शुक्ल एम०, ए० डी०, लिट्० से अत्यधिक सहायता मिली है। यदि उनका प्रोत्साहन, सहायता और अनुकम्पा न होती तो इसका पूर्ण होना कठिन था। श्रद्धेय डा० दीनदयालु गुप्त एम० ए० डी० लिट्० अध्यक्ष हिन्दी विभाग ने अपना अमूल्य समय एवं सम्मति देकर अनुग्रहीत किया जिसके लिये लेखिका हृदय से कृतज्ञ है। डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित, श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल की सहायता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करके लेखिका उसका महत्व नहीं कम करना चाहती। श्रद्धेय श्री चन्द्रवली पाण्डेय एवं प० परशुराम चतुर्वेदी ने प्रबन्ध के संबंध में परामर्श एवं बहुमूल्य आदेश देकर वर्णनातीत अनुग्रह किया है। श्री गोपाल चन्द्र सिन्हा, कुंवर सम्रासिंह एव श्री अस्तर हुसेन निजामी ने हस्तलिखित ग्रन्थ यथावसर प्रदान करके कार्य भार हल्का कर दिया जिसके कारण प्रबन्ध शीघ्र प्रस्तुत हो सका। डा० शमशेर बहादुर समदी (अरबीविभाग) ने कुछ कठिन स्थलों पर सहर्ष सहायता की। इसके अतिरिक्त लेखिका उन सभी पुस्तकालयों, संग्रहालयों के अधिकारियों के प्रति कृतज्ञ है जिन्होंने हस्तलिखित ग्रन्थों को देखने में सहायता प्रदान की है।

ग्रन्थ की मुद्रण-सम्बन्धी भूलों को शुद्धि-पत्र देकर सुधारने की चेष्टा की गई है, यदि कुछ त्रुटियाँ फिर भी रह गई हों तो पाठक क्षमा करें।

विषय-सूची

प्रथम अध्याय

सूफीमत का आविर्भाव एवं विकास (१-२८)

(१) सूफी सम्प्रदायोद्भव सम्बन्धी विभिन्न विचार	१—३
(२) सूफी शब्द की व्युत्पत्ति एवं मान्य अर्थ	३—४
(३) सूफी सम्प्रदाय के विकास काल	५—१७
(४) भारत में इस्लाम तथा सूफीमत	१७—२१
(५) मुख्य सम्प्रदाय. चिश्तिया—सुहरावर्दिया—कादिरिया—नकश-वंदिया	२१—२८

द्वितीय अध्याय

सूफी-दर्शन (२९-७४)

(१) दर्शन सम्बन्धी दृष्टिकोण	२९—३०
(२) परमतत्व और उसका स्वरूप	३०—५५
(३) सृष्टितत्व	५५—६३
(४) मुहम्मदीय आलोक	६३—६५
(५) इन्सानुलकामिल	६५—६८
(६) परमसत्ता और इन्सान	६८
(७) माया	६७—७१
(८) जीवन और लक्ष्य	७१—७४

तृतीय अध्याय

सूफी-साधना (७५-१२६)

(१) साधना की अवस्थायें	७५—१२६
(२) आत्मप्रतीति के सहायक—ज़िक्र—फिक्र—आत्मविस्मरण, तिल-वत,—मुजाहिदा,—हज्ज यात्रा—सौम—जकात—गुरु महिमा नली—औलिया—ख्वाजा खिज़्र	८१—९५
(३) सूफी साधनापद्धति और भारतीय प्रभाव	९५—१०८
(४) सूफी साधना और प्रेम	१०८—१२६

चतुर्थ अध्याय

सूफ़ी-साहित्य (१२७-१४१)

(१)	सूफ़ी साहित्य के विभिन्न प्रकार	१२७—१३१
(२)	भारतीय सूफ़ी साहित्य	१३१—१३४
(३)	हिन्दी के सूफ़ी प्रेमाख्यान	१३४—१४०
(४)	हिन्दी का मुक्तक सूफ़ी काव्य	१४०—१४१

पञ्चम अध्याय

सूफ़ी-काव्य की पृष्ठभूमि (१४२-१८१)

(१)	राजनीतिक स्थिति	१४३—१४६
(२)	सामाजिक स्थिति	१४६—१५६
(३)	सांस्कृतिक स्थिति	१५६—१६०
(४)	सूफ़ियों की सांस्कृतिक देन	१६०—१६४
(५)	साहित्यिक पृष्ठभूमि—अपभ्रंश साहित्य तथा हिन्दी के प्रेमाख्यान	१६५—१७५
(६)	धार्मिक स्थिति—वैष्णव धर्म—मध्यकालीन बौद्ध एवं जैन धर्म— शैवमत—नाथ सम्प्रदाय	१७५—१८६
(७)	सूफ़ियों की समन्वयवादिनी प्रकृति	१८०—१८१

षष्ठ अध्याय

सूफ़ियों की लोकदृष्टि (१८२-१९६)

(१)	गार्हस्थ्य एवं पारिवारिक जीवन	१८२—१८३
(२)	नारी समस्या—विवाह-समस्या	१८३—१८८
(३)	कन्या एवं पुत्र—विभिन्न स्कार—ससुराल—विभिन्न पर्व एवं देवी देवता—जादू-टोना-पनघट-दृंगार एवं आभूषण प्रियता— भाग्यवादिता	१७८—१९६
(४)	विभिन्न जानियाँ	१९६
(५)	आर्थिक स्थिति	१९६—१९७
(६)	विभिन्न सामाजिक सम्बन्ध	१९७—१९६

सप्तम अध्याय

सूक्तियों की प्रबन्ध कल्पना (२००-२१२)

(१)	मध्ययुगीन पाश्चात्य रोमांस-काव्य	२००—२०३
(२)	भारतीय प्रेमाख्यान	२०४
(३)	प्रबन्ध काव्य एवं मसनवी रचना	२०४—२०५
(४)	कथानक	२०५—२०६
(५)	देशकाल एवं परिस्थिति	२०६—२१०
(६)	नायक एवं प्रतिनायक	२१०
(७)	अन्य विशेषतायें	२१०—२१२

अष्टम अध्याय

प्रतीक योजना (२१३-२२६)

(१)	प्रतीक शब्द की व्याख्या	२१३—२२५
(२)	विभिन्न प्रतीक	२२५—२२६

नवम् अध्याय

रस, छंद, अलंकार (२२७-२५८)

(१)	रस, छंद, एवं अलंकार का महत्व-उपयोगिता	२२७
(२)	सूक्तियों का दृष्टिकोण	२२८
(३)	प्रयुक्त रस-शृ गार-वीर-करुण-हास्य	२२८—२५३
(४)	अलंकार विधान-मुख्य प्रयुक्त अलंकार सोदाहरण	२५३—२५७
(५)	छंदविधान-मुख्य प्रयुक्त छंद	२५७—२५८

दशम अध्याय

भाषा तथा शैली (२५९-२७८)

(१)	भाषा का महत्व	२५९—२६०
(२)	अवधी भाषा	२६१—२६२
(३)	भाषागत विशिष्ट अध्ययन—संज्ञा तथा विशेषणपद-क्रिया- क्रियार्थक संज्ञा-सर्वनाम-सूक्तियों एवं मुहाविरें	२६२—२७६

(४)	शैली	२७७
(५८)	मसनवी पद्धति की विशेषतायें	२७७—२७८

एकादश अध्याय

सूफ़ी-काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां (२७९-२८८)

(१)	प्रेम-कथायें	२८०—२८१
(२)	चरित्र चित्रण	२८१—२८२
(३)	भाव व्यञ्जना	२८२
(४)	वस्तु एवं घटना वर्णन	२८३
(५)	भाषा एवं शैली	२८३—२८४
(६)	सूफ़ी प्रेम कथाओं की प्रमुख विशेषतायें	२८४—२८८

द्वादश अध्याय

सूफ़ियो की बहुज्ञता (२८९-२९७)

(१)	दान महिमा	(२)	वचन महिमा	(३)	सत्य प्रशंसा
(४)	मित्र चर्चा	(५)	विदेश गमन	(६)	काल-महिमा
(७)	थाली चर्चा	(८)	द्रव्य महिमा	(९)	लालच
(१०)	ज्ञान	(११)	पौराणिक	(१२)	मनोविज्ञान
(१३)	षट् ऋतु वर्णन	(१४)	ज्योतिष ज्ञान	(१५)	दिशाशूल विज्ञान
(१६)	राशिचर्चा	(१७)	ग्रहणविचार	(१८)	योगिनी-चक्र
(१९)	संगीत ज्ञान	(२०)	रत्न ज्ञान		

त्रयोदश अध्याय

सूफ़ियो का स्फुट साहित्य (२९८-३२५)

स्वतंत्र एवं भावमूलक प्रेमालोक्यन	२९८
पद्यात्मक सिद्धान्त ग्रन्थ	२९९
तात्मक सिद्धान्त एवं चैतावनी सम्बन्धी पद	२९९
ग्रथ	३००
	३००
	३००
	३२५

चतुर्दश अध्याय

सूफ़ी कवियों की देन (३२६-३३१)

पञ्चदश अध्याय

प्रमुख कवि और काव्य (३३२-५६७)

(प्राप्त ग्रन्थों का विशिष्ट अध्ययन)

(१) मधुमालन ✓	३३३—३४८	(२) चित्रावली ✓	३४६—३७३
(३) रतनावती ✓	३८०—३८४	(४) पुहुप बरिषा	३८४—३८७
(५) रतनमंजरी	३८७—३९१	(६) छीता ✓	३९१—३९२
(७) कामलता ✓	३९३	(८) कनकावती ✓	३९३—३९४
(९) मधुकर मालति ✓	३९५—३९६	(१०) कंवलावती	३९६—३९६
(११) कथा मोहनी	३९६—४००	(१२) नल दमयन्ती	४००—४०१
(१३) ग्रन्थ लैलै मजनुँ	४०१—४०२	(१४) कलावती	४०२—४०३
(१५) रूपमंजरी	४०३—४०४	(१६) कथा षिजरखौं	
(१७) कथा कलन्दर तथा तमीमग्रन्थकारी आदि	४०५—४१६	साहिजादे वा देवल दे की चौपाई	४०४—४०५
(१८) ज्ञानदीप	४१६—४२६	(१९) हंसजवाहिर ✓	४३०—४५०
(२०) इन्द्रावती ✓	४५१—४८३	(२१) अनुराग वॉसुरी ✓	४८४—४९५
(२२) पुहुपावती	४९६—५०४	(२३) यूसुफ जुलेखौं ✓	५०५—५३१
(२४) प्रेमचिनगारी	५३२—५३७	(२५) नूरजहाँ ✓	५३८—५४१
(२६) भाषा प्रेमरस ✓	५४२—५६४	(२७) प्रेमदर्पण ✓	५६५—५७३
(२८) कथा कामरूप	५७४—५८१	(२९) कुँवरावत	५८२—५९७

सहायक-ग्रंथ सूची

१. हिन्दी ग्रन्थ (५९६-६००)	२. अंग्रेजी-ग्रन्थ	६००—६०२
३. हस्तलिखित ग्रन्थ (६०२-६०३)	४ लियो - प्रकाशित	६०२
५ पत्र-पत्रिकादि		६०३

सूफीमत का आविर्भाव एवं विकास

सूफी सम्प्रदाय का सम्बन्ध शामी विचारधारा से प्रभावित इस्लाम धर्म से है। इस्लाम धर्म को हम भक्ति भाव पूर्ण धर्म भी कह सकते हैं। भक्ति मार्ग में अपने आराध्य की महत्ता का ज्ञान करके उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखना परमावश्यक है। इसी प्रकार इस्लाम धर्म में अल्लाह की शक्ति तथा सामर्थ्य का ज्ञान करके केवल उसके वचन व कृपा पर श्रद्धा रखना परमावश्यक है। सूफी भाव-धारा ने इस भक्ति-मार्ग में स्वतन्त्र-चिन्तन तथा दार्शनिक विचारधारा का समावेश किया।

शामी जातियों के पूज्य देवता बाल, कादेश, ईस्तर आदि के मन्दिरों में समर्पित संतानों का जमघट था^१। ये मन्दिर धीरे-धीरे वासना के केन्द्र बन गए, किन्तु यहोवा के अनुयायियों ने इस प्रकार के मादन भाव का विरोध किया। धीरे-धीरे इन देवताओं की पूजा तथा संतान-समर्पण की प्रथा कम होती गई, किन्तु उसकी अवशिष्ट भावना 'प्रेम-और विरह' को आगे आने वाले सूफियों ने ग्रहण किया। सूफियों की प्रेम-भावना का उदय इन्हीं समर्पित संतानों में हुआ तथा कर्मकांडी नवियों के घोर विरोध ने उसे परिमार्जित करके परमप्रेम के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया।

सूफियों में पाई जाने वाली इलहाम की भावना भी इन्हीं शामी संस्कारों में से एक है। मूर्तिपूजा, बहुदेवोपासना तथा समर्पित संतानों के विरोधी ये नवी विशेष उत्सवों तथा देव-स्थानों पर एक अनोखे प्रकार की शारीरिक चेष्टाओं द्वारा यह प्रकट करते थे कि उन पर उनका दृष्ट आया है। उस विचित्र दशा में वे जो कुछ कहते थे वह ईश्वर का वचन समझा जाता था। उनका यह इलहाम उन्हें सर्वसाधारण से अलग रखता था। सूफियों ने भी इस 'इलहाम' को अपनाया। इलहाम के मध्यक संपादन के लिये मादकद्रव्यों का सेवन भी इन नवियों में प्रचलित था। सूफियों के 'समा' और 'हाल' का प्रचलन ऐसे नवियों की मंडली में पाया जाता था। हाल की अवस्था में शरीर को क्षत-विक्षत करके यह सिद्ध

करने का प्रयास किया जाता था कि विशेष काल में उन पर ईश्वर की अत्यधिक कृपा है। इस कृपा प्रदर्शन का अवशेष भी सूफियों में पाया जाता है।

यहोवा के उपासकों में संभवतः उपवास तथा मुद्राविशेष का भी प्रचलन था। इलियास यहोवा की आराधना में घंटों घुटने के बीच सिर दबाये पड़ा रहता था।

साराश यह कि सूफी मत के समस्त मादनभाव, रहस्य, हाल एवं इलहाम आदिक तत्व, शामी परम्पराओं में विखरे पड़े थे, जिन्हें यथासमय सूफियों ने अपनाया तथा प्रचारित किया। इसके अतिरिक्त सूफीमत के उद्भव के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं— (१) सूफीमत का नवअफलातूनी मत से प्रभावित होना, (२) आर्य दर्शन से प्रभावित होना, (३) कुरान में अन्तर्हित रहस्यमयी उक्तियों से उत्पन्न होना एवं (४) स्वतन्त्र विकास।

ब्राउन तथा निकोल्सन सूफीमत के उद्भव का सम्बन्ध नवअफलातूनी मत से ठहराते हैं। फ्रेंच लेखक डोजी इसे भारतीय दर्शन से प्रभावित मानता है। क्या वास्तविकता है इसकी मीमांसा करना हमारा उद्देश्य नहीं। इतिहास में उपलब्ध प्रमाण, मध्य एशिया में प्राप्त बौद्ध मूर्तियाँ, ईसा पूर्व दूसरी तीसरी सदियों की काला आदि गुफाओं में अङ्कित यवन व्यापारियों के बौद्ध मठों को दिये गये दान, तथा ईसा पूर्व पहली सदी में लङ्का के रत्नमाल्य चैत्य के उद्घाटनोत्सव में सिकन्दरिया के बौद्ध भिक्षु, धर्मरक्षित के आने का प्रसंग^१ आदिक यह सिद्ध करते हैं कि नवअफलातूनी मत का उद्भव स्थल यूनान स्वयं भारतीय दर्शन से प्रभावित था। इन विवादों के मध्य भी एक निश्चित सत्य है कि सूफीमत के प्रेम-भाव का उदय शामी जातियों के बीच हुआ। अपनी पुरानी भावना तथा धारणा की रक्षा के लिये सूफियों ने उसका सम्बन्ध कुरान से स्थापित कर तथा अन्य जातियों के दर्शन और अध्यात्म से सहायता ले एक नवीन मत का सृजन किया। मुसलमान समालोचक श्री इक़्बालअली शाह का कथन है कि सूफी भावधारा का आदि उद्गम मुहम्मद साहब की शिक्षा और व्यक्तित्व में था तथा इसका आरम्भ आनन्दातिरेक की अवस्था में ही हुआ होगा। कहा जाता है कि ऐसी ही भावोल्लास की अवस्था में मुहम्मद साहब ने अपनी प्रियसी आयशा से पूछा—‘भाअन्ती, तुम कौन हो?’ आयशा ने उत्तर दिया—‘अना आयेशा, मैं आयेशा हूँ।’ ‘आयेशा कौन है?’—मुहम्मद साहब ने फिर पूछा। उमने उत्तर दिया—‘इब्नातुस्स सिद्दीक की पुत्री’। ‘इब्नातुस्स सिद्दीक कौन है?’ ‘मुहम्मद का ससुर’। ‘मुहम्मद कौन है?’ आदि प्रश्नों से ज्ञात होता है कि उस समय वे परमभाव की उस अवस्था को प्राप्त थे जब ‘हमआउस्त’ ‘सब कुछ वही है’ का सिद्धान्त सत्य ज्ञात होता है। मुहम्मद साहब के समय से ही लगभग ४५ व्यक्तियों ने मक्का में अपने जीवन में ध्यान धारणा को ही सब कुछ समझ लिया था। अबुलफिदा नामक इतिहासकार कहता है कि ये महान आत्मायें ‘अशावी सफा’ (धर्म स्थान या पूजा

मन्दिर में बैठने वाले) ही सूफी कहे जाते थे। वे वहीं रहते थे तथा मुहम्मद साहब के साथ भोजन आदि भी करते थे, किन्तु उन्हें सूफी नाम से पुकारा जाना मुहम्मद साहब के निघन के दो सौ वर्ष पश्चात् ही प्रारम्भ हुआ^१।

सित्ताह शब्दकोष, जो ३१२ हिजरी में संग्रहीत हुआ था, में सूफी शब्द वर्तमान नहीं है। ऐसे व्यक्ति आरम्भ में मुकराविन (ईश्वर के मित्र) सहमिन (धैर्यवान महात्मा) अबेरार (धार्मिक व्यक्ति) जुहद (पवित्र व्यक्ति) के नाम से पुकारे जाते थे। तुर्किस्तान और मेसोपोटामिया के 'मुक्' भी सूफियों की साधना से साम्य रखते हैं। सूफीमत का इसी नाम से प्राप्त इतिहास मुहम्मद साहब के लगभग २०० वर्ष पश्चात् प्राप्त होने लगता है, यद्यपि यह भावधारा अत्यन्त प्राचीन है। इसका मूल स्रोत आर्य दर्शन से प्रभावित तथा नव अफलानूनी मन से समन्वित शामी विचार-धारा में ही है।

अब प्रश्न उठता है, कि ये सूफी कौन थे तथा 'सूफी' शब्द का क्या तात्पर्य है। मियुललुघत के रचयिता के अनुसार 'सूफा' नामक एक अरबी जाति, अरब के अन्धकार युग में (मुहम्मद से पूर्व) अपने को अज्ञानावृत्त अरबों से पृथक् करके मक्का के तत्काल-स्थित मन्दिर में पूजापासना में लग गई थी। इस सूफा जाति का निवासस्थान वनीमजार था। अब्दुलफिदा के कथनानुसार सूफी शब्द की उत्पत्ति 'सूफ' शब्द से हुई है जिससे तात्पर्य यह ज्ञात होता है कि क्रियामन के दिन ये सूफी लोग सर्वप्रथम पंक्ति में होंगे। सूफी शब्द की उत्पत्ति 'सूफ' शब्द से, जिसका अर्थ 'ऊन' होता है, इसीलिये कुछ लोग अमान्य मानते हैं, कि 'सूफ लिवासुल अनम्' अर्थात् ऊन जानवरों का वस्त्र है। 'सूफा' शब्द से भी इस शब्द का सम्बन्ध जोड़ा जाता है जो विशेषतः किसी मन्दिर के प्रागण में बने हुये चबूतरे की ओर इंगित करता है। सम्भवतः इसका अर्थ मुहम्मद साहब के समकालीन उनके कतिपय सहचरों से है जिनका अधिकांश समय परमात्म-चिन्तन में ही व्यतीत होता था।

कुछ ऐसे भी मंत हैं जो सूफी शब्द की व्युत्पत्ति भावात्मक संज्ञाओं से जोड़ते हैं जिसका तात्पर्य, पवित्रता, निष्कलता और ज्ञान से लेते हैं; किन्तु ऐसे भावों के मानने वाले यह नहीं समझ पाते कि सूफी शब्द का प्रयोग एक वर्ग विशेष के लिये ही क्यों किया जाता है। यह शब्द किसी भी इन गुणों से विभूषित व्यक्ति के लिये क्यों नहीं प्रयुक्त होता।

ग्रीक शब्द 'सोफिया' से भी इसका सम्बन्ध जोड़ा जाता है किन्तु प्राचीन यूनानी सोफियों और इस्लामी सूफियों का दार्शनिक सम्प्रदाय एक नहीं है। सोफी एक अज्ञान तितर वितर होते समाज तथा राज्य क्रान्ति की उपज थे। जब युनिक नगर पर कोरोश तथा दारयोश का शासन समाप्त हो गया तो ईरानियों के शासन काल में कुछ यूनानी भिन्न भिन्न देशों में चले गये। इनमें से कुछ लोग बराबर भ्रमण करने रहते थे। ज्ञानार्चना और नव चिन्तन ही उनका कार्य था। पहले से चली आती हुई बातों पर उनका

१. The Avarifful Marif.

Translated by lieut Col. H. Wilberforce Clarke,

विश्वास कम था। वे ज्ञान की खोज में सदैव रहते थे। सिद्धान्त रूप से सूफी और सोफी भिन्न हैं। राहुल साकृत्यायन जी सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सोफी शब्द से ही मानते हैं।

एक मत सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा शब्द से मानता है जिसका अर्थ पवित्रता या शुचिता है। वास्तव में ये व्यक्ति शुद्ध हृदय और आचरण वाले थे जिस प्रकार ईसा मसीह के साथी 'हवारिस' थे। बैधावी (Baidhavi) हवारिस शब्द की व्युत्पत्ति 'हवारा' से मानते हैं। वे 'हवारिस' शुद्ध हृदय होने के कारण कहलाये, इसलिये नहीं कि वे सफेद वस्त्र पहिनते थे। निकल्सन, ब्राउन, मारगोलियथ आदि विद्वानों को तथा कई मुस्लिम आलोचकों को भी यह मान्य है। अधिकांश मत सूफ से सूफी की व्युत्पत्ति बतलाते हैं जो कि कई कारणों से समीचीन ज्ञात होता है। उनके वस्त्र एक विशेष प्रकार से ऊन के बने रहते थे जो लोगों का ध्यान अनायास ही आकृष्ट कर सकते होंगे। 'सूफ' एवं 'सूफी' शब्दों के बीच सीधा शब्द-साम्य दीख पड़ता है। ऊन के वस्त्र धारण करने के कारण वे अपनी निस्पृहता, सादगी तथा स्वेच्छा-दारिद्र्य का प्रदर्शन करने में समर्थ थे। सासारिक वस्तुओं से उन्हें कोई मोह न था। ईश्वर के अनुराग तथा अबाध मिलन में कालयापन करना ही उनका सर्वोच्च आदर्श था। परमेश्वर की उपलब्धि उनका एक मात्र ध्येय था। इस प्रकार धन, वैभव, गृह परिवारादि के प्रति उपेक्षा प्रदर्शित करना सूफियों के लिये स्वाभाविक हो गया था। सादगी की यह वेशभूषा उनका केवल बाहरी परिधान न था। यह सन्यासव्रत सूफियों की आन्तरिक मनोवृत्तियों को भी प्रभावित करता रहा। अबुलहसन नूरी ने लिखा है कि ऐसे लोग निर्धन होने के साथ ही निष्काम भी होते थे।

सूफ के वस्त्र धारण करने वाले लोग सूफियों के पहले भी वर्तमान थे। बपतिस्मा देने वाले सेन्टजान की गणना ऐसे ही सूफधारियों में की जाती है यद्यपि उनके लिये सूफी शब्द कभी प्रयुक्त नहीं हुआ। सूफी नाम से अभिहित सर्वप्रथम वे ही लोग थे जो मुहम्मद के अनुयायी मुसलमान थे तथा खलीफाओं (अल सहाबा) के सदाचारपूर्ण जीवन के भक्त थे। उनका भुकाव 'कुरान शरीफ' के शब्दों में अंधविश्वास रखने की ओर न था। वे अपने संयत वैराग्यपूर्ण जीवन तथा गम्भीर ईश्वर-प्रेम के आधार पर कुरान के शब्दों में गुप्त 'इल्में सीना' की खोज किया करते थे। सूफियों के अनुसार कुरान में दो प्रकार का ज्ञान निहित है (१) इल्मे सफीना अर्थात् ग्रन्थ निहित ज्ञान और दूसरा (२) इल्मे सीना अथवा हृदय निहित ज्ञान। सूफी विचारधारा के अनुसार प्रथम ज्ञान सर्वसाधारण मुसलमानों के हेतु है तथा दूसरे प्रकार का ज्ञान मुहम्मद साहब के हृदय तक ही सीमित रहा। अतः कुरान के शब्दों को नवीन ढंग से व्यक्त करने के कारण साधारण मुसलमान जनता एवं कष्टर अनुयायी, सूफियों को अपने से भिन्न समझते रहे थे। यद्यपि सूफी तथा सूफीमत के नाम से अभिहित होने वाले महात्मा तथा सम्प्रदाय का जन्म मुहम्मद साहब के जीवन काल के बाद ही हुआ किन्तु इस सम्प्रदाय की कई बातों का सम्बन्ध प्राचीन चली आती हुई शामी भावधारा से स्पष्ट है।

हजरत मुहम्मद का देहावसान हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी खलीफाओं का युग धारम्भ हुआ। प्रथम चार खलीफा हजरत मुहम्मद के अभिन्न सहचर रह चुके थे अतः

इनके शासनकाल में नवीन इस्लाम मत को पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। वे इस्लाम का उत्तरोत्तर प्रचार करते गये। अरब देश से लेकर क्रमशः शाम, फिलिस्तीन, मिस्र, ईरान, स्पेन एवं तुर्किस्तान आदि देशों तक इस्लामी मत फैल गया। राज्य प्रसार के साथ ही साथ इस्लामी राज्य की राजधानी में भी परिवर्तन होता गया और वह क्रमशः अरब देश में उठकर दमिश्क और अन्त में बगदाद पहुँच गई। आरम्भिक चार खलीफा अत्यंत सीधे एवं शान्त प्रकृति के थे किन्तु राज्य विस्तार के साथ ही धन-लिप्सा, ऐश्वर्य तथा वैभव भी बढ़ चला। इस्लामी राज्य-विस्तार के बीच राजनीतिक भ्रंशों के होते हुये भी वे त्यागशील तथा कर्तव्यपरायण बने रहे किन्तु वाद के आनेवाले खलीफाओं में इस सादगी और शालीनता का अभाव हो चला। वे धार्मिक प्रचार से कहीं अधिक राज्य-विस्तार एवं शासनाधिकार को महत्त्व देने लगे। फलतः रसूल तथा चार खलीफाओं अबूबकर (मृ० सं० ६६१), उमर (मृ० सं० ७००), उसमान (मृ० सं० ७१२) एवं अली (मृ० सं० ७१७) का आदर्श क्रमशः लुप्त हो चला। इनका समय प्राचीन रूढ़ियों से छुटकारा पाने का था।

धीरे धीरे खलीफाओं का शासन समाप्त होकर 'सुल्तान' का शासन आरम्भ हुआ जिसका उद्देश्य ही शक्ति तथा अधिकार से पूर्ण एक शासक का अन्य जनवर्ग पर शासन करना है। खिलाफत का, जिसका आदर्श 'ईश्वरीय राज्य' की स्थापना करना था, धीरे-धीरे राज्यविस्तार और वैभवविस्तार के कारण अन्त हो चला। जब तक मुस्लिम राज्य की सीमा मदीना के आस पास छोटे भूमिभाग तक रही, कुरान में प्रतिपादित नियमों का सम्यक् पालन होता रहा। इस्लाम धर्म में आरम्भ से ही उसके प्रचार की भावना अन्तर्हित थी। अरब जाति धीरे-धीरे धर्मयुद्ध में विजयी होकर पूर्व में फारस तथा भारत तक आ गई। अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण या केवल राज्य तथा धन-विस्तार की लिप्सा के कारण अरब जाति स्वयं कोई पृथक संस्कृति बनाने में समर्थ न हो सकी। भारत में आने के पूर्व इस्लाम धर्म के अनुयायियों पर पूर्ण रूप से फारस की राजनीति तथा संस्कृति का प्रभाव पड़ चुका था। इस्लाम राज्य के शासक भी पूर्णरूप से फारस के 'दैवी अधिकारसम्पन्न' शासकों की भाँति निरंकुश हो गए थे। इस राज्यविस्तार तथा धन संग्रह का प्रभाव धार्मिक क्षेत्र में भी पड़ा। इस्लाम के सर्वप्रथम शासक मुहम्मद साहब ने सदैव निर्धनता तथा सरलता को सराहा तथा उनके अनुगामी चार खलीफाओं ने भी किसी भी प्रकार से अपने जीवन में धन का प्रवेश नहीं होने दिया, किन्तु बगदाद में इस्लामी राज्य की राजधानी स्थापित होने के साथ ही कुरान तथा मुहम्मद साहब का यह सर्व-व्यापी धार्मिक प्रभाव आने वाले नये सुल्तानों पर न पड़ सका। इस्लामी राज्य अब 'धर्म-राज्य' न होकर 'लौकिक सत्ता' बनना चाहता था जिसका सामन्जस्य शरीयत के नियमों से न होकर राज्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं से अधिक था। नये नये विचार मुस्लिम राजनीति में प्रविष्ट हो रहे थे। सुल्तान के स्वनिर्मित नियम ही उसकी सीमा में मान्य थे। उस पर हलाल या हराम की भावना का प्रभाव न रहा। सुल्तान की अपनी इच्छा ही उसके लिए एक कार्य वैध या वर्जित बना देती थी। कुरान के शब्दों की उदारतम व्याख्या भी इन नवीन राजनीतिक सिद्धान्तों में सामन्जस्य न ला सकी। धार्मिक

व्यक्तियों के लिए अब केवल दो मार्ग ही उन्मुक्त थे, या तो वे सुल्तान की इस बढ़ती हुई धन लिप्सा को 'जिहाद' के धार्मिक आवरण से आवृत कर उससे विचार-संधि कर लें या उससे किसी भी प्रकार का सम्बन्ध न रखें। उलेमाओं ने विचार-सन्धि करना तथा सूफियों ने सम्बन्ध-विच्छेद करना पसन्द किया। सूफियों के वर्ग-विशेष की उत्पत्ति के पीछे मुसलमानी राज्य का यह स्वरूप विशेष स्थान रखता है।

नियमानुसार नमाज़ पढकर, ईद को विशेषोत्सव मानकर, धर्म के लिये युद्ध करके तथा इस्लाम विरोधी प्रवृत्तियों को दबाकर सुल्तान उलेमाओं से फतवा पाने के अधिकारी हो गये थे किन्तु मुहम्मद के वचनों तथा कुरान पर दृढ़ विश्वास करने वालों ने अपने अलग ही सम्प्रदाय बना लिये। महादवी तथा मोतजिली सम्प्रदाय ऐसे ही थे, किन्तु संगठन की कमी तथा समयानुसार कार्य न कर सकने के कारण वे शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो गये। ऐसी ही विरोधी प्रवृत्ति के आधार पर सन्यास तथा तपस्या (शारीरिक कष्ट) को प्रधानता देने वाले सूफीमत का उदय हुआ जिसने इस संसार के प्रति निराशा तथा नश्वरता की भावना को दृढ़ करके इससे पृथक होकर ईश्वर-चिन्तन को ही अपना सब कुछ बना लिया। अतः आरम्भिक सूफियों में जिक्र (संकीर्तन या ध्यान) तथा तव्वकुल (पूर्ण विश्वास) की भावना अत्यंत तीव्र थी। इन सूफियों ने धर्म तथा राजनीति के क्षेत्र को सर्वथा अलग कर दिया। उनका विचार था कि 'दीन' का मानने वाला व्यक्ति इस संसार के भङ्गटों से परे होकर ही रह सकता है। संसार में या तत्कालीन राजनीति से प्रभावित इस्लाम के क्षेत्र में दीन का कोई स्थान नहीं। ये सूफी राजसत्ता या शासक से किसी भी प्रकार का भय नहीं खाते थे। कहा जाता है कि उलेमाओं ने मुहम्मद की 'इल्मे सफीना' (ग्रन्थ निहित शिद्दा) का अनुकरण किया तथा सूफियों ने उनकी 'इल्मे सीना' को अपनाया^१। जो भी हो इतना सत्य है कि आरम्भिक सूफी राजनीतिक प्रपञ्चों से अपने को दूर रखते थे। धर्मार्थ अपना सब कुछ परित्याग कर देना तथा सासारिक दिखावे और वैभव से दूर अपने खानकाह में ईश्वर-चिन्तन, ध्यान-धारणा में ही अपना समय बिताना इनका ध्येय था।

मसीह के उपासकों में मतभेद हो जाने पर बुद्धिवादी नास्टिक मत की उत्पत्ति हुई थी। तत्काल स्थित सभी मतों से तत्व ग्रहण कर नास्टिकों ने अपने को उसके (ब्रह्म के) प्रेम में लगा दिया। इस प्रकार केवल नवियों में ही नहीं मसीहियों में भी "प्रेमभाव" का विकास हुआ और कुछ लोग तो सूफीमत का पूर्व रूप नास्टिक मत भी मानते हैं^२। इन्हीं नास्टिकों की विखरी हुई शक्ति का पुनः संकलन मानी ने किया। मानी जन्मतः पारसी था, जिज्ञासा की प्रबल प्रेरणा से उसने भारत तथा चीन की यात्रा की। वह टिरवियस (त्रिविशत) नाम से भी प्रख्यात था^३। मानीमत भी अपने वास्तविक स्वरूप में व्यापक,

१. Sufi Saints and Shrines in India. P. 8

by J A Subhan

२ The early development of Muhammadanism. P. 144

by D. S. Margoliouth D Litt.

३. Theism in Mediaeval India. P 91

by J Estlin. D. Litt.

ज्ञान, तपस्यामय तथा असंसारी था, उसने ईश्वर को केवल प्रकाशरूप में माना, ईश्वर की कृपा को उसने विशेष महत्व दिया। ईश्वर का प्रेम ही उसके मत का साध्य हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूफीमत के सर्वस्व प्रेम, संगीत, सुरा, हाल, और इलहाम आदि की चर्चा शामी जातियों में मुहम्मद साहब के उद्भव के पूर्व भी व्याप्त थी। मुहम्मद स्वयं मन एवं कर्म से ईश्वर भक्त थे^१; किन्तु उन्हें सूफीमत के संस्थापक के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय उन वाद के सूफियों को है जिन्होंने आवश्यकता होने पर अपने धर्म को राजदण्ड से बचाने के लिए नवीन व्याख्याएँ कीं, यद्यपि यह सत्य है कि मुहम्मद साहब के भावावेश में कहे हुए वाक्यों में तथा कुरान की कुछ रहस्यमयी उक्तियों में उन सूफियों को सहज ही आश्रय दृष्टिगोचर हुआ। सूफियों ने अपने मत के प्रतिपादन के लिये कुरान के प्रदों का अभीष्ट अर्थ लगाकर मुहम्मद साहब को महवूब और नूर बना दिया। फलस्वरूप उन्हें इस्लाम में एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ तथा सूफीमत इस्लामी दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित हुआ।

कर्बला की घटना इस बात का प्रमाण है कि इस्लाम धर्मानुयायियों में उस समय राज्य-लिप्सा और धन-वैभव ने कितना विद्वेष उत्पन्न कर दिया था। उम्मैया वंश का राज्य काम, क्रोध, लोभ आदि का राज्य था। यह लोग कुरान के अक्षरशः पालन तथा सादगी, निर-हंकारता, त्यागशीलता आदि आदर्शों को महत्व नहीं प्रदान करते थे। कर्बला के युद्ध ने उनकी विजय का डंका बजाया तथा अलसहाबा, अतताविया कहलाने वाले धर्मशील खलीफाओं के राज्य का अन्त हो गया। यह समय था जब धार्मिक प्रवृत्ति के साथ ही चिन्तनशील मुसलमान तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक उथल-पुथल से दूर अज्ञात जीवन विताने की चेष्टा करने लगे। तत्कालस्थित राजनीतिक संघर्ष में निर्वेद के बीज वर्तमान थे। सासारिक अशान्ति सन्यास वृत्ति को प्रेरित कर रही थी ऐसे ही समय में मोतजिली सम्प्रदाय के संस्थापक बसरा के हसन (मृ० ७२८ ई०) का नाम लिया जाता है। हसन हृदय से संत तथा सद्भावों का विधायक था, वह तपस्वी था, प्रेमोपासक नहीं। उसका हृदय ईश्वरीय दण्ड से सदैव भयभीत रहता था। भय की यह भावना उस समय के सभी सूफी संतों में पाई जाती है। उन्हें ऐसा भान होता था कि मानों नरक-यानना केवल उन्हीं के लिये बनाई गई है। उनका आधार 'तुम अपने स्वामी उस खुदा से डरो' वाक्य था^२।

हिजरी सन् दूसरी शताब्दी से सूफीमत में केवल संन्यास और तप की भावना के साथ ही अन्य भावनाओं का भी समावेश हो चला। इस एकान्तवास ने ध्यान, ध्यान ने अनु-भूति तथा उल्लास या हाल को जन्म दिया। अब संसार-त्याग या निर्धनता साध्य न होकर साधन मात्र रह गये थे; साध्य था ईश्वर के प्रति निःस्वार्थ प्रेम। आरम्भ में संन्यास तथा

१. Mystical elements in Mohammad P 26 891

by J. Archer Ph. D.

२ "Thou shalt fear the Lord thy God."

The People of the Mosque P 265 1

by Bevan Jones

त्याग की भावना के साथ प्राप्ति की भावना निहित थी। इस संसार में न्यूनतम वस्तुओं का स्वामी होने का आशय था कि उसको जन्नत या स्वर्ग-सुख अवश्य प्राप्त होंगे, किन्तु बाद के इन सूफियों में निर्धनता से तात्पर्य केवल धनहीनता ही न था किन्तु धन के प्रति किसी भी प्रकार की इच्छा का अभाव था। इस आरम्भिक युग के प्रधान सूफी संत इब्राहीम बिन अघम (मृ० ७८३ ई०) फुजायल बिन अयाज (मृ० ८०१ ई०) राबिया अल अदाबिया (मृ० ८०२ ई०) हैं।

फुजायल तथा इब्राहीम बिन अघम दोनों ने अपनी सम्पत्ति तथा राज्य का परित्याग करके बसरा के हसन के किसी शिष्य को मुरीद बनाया था। इन सभी संतों में 'झौफ़' की महत्ता थी किन्तु राबिया बसराबिया ने सूफीमत में प्रेम-भावना की स्थापना की। उसने अपना सब कुछ ईश्वरचिन्तन में लगा दिया। आत्मसमर्पण तथा पूर्ण विश्वास की भावना राबिया में प्रधान थी। अन्तार ने राबिया का परिचय बड़े प्रशंसात्मक शब्दों में दिया है^१। 'उसके हृदय में परमात्मा का प्रेम तथा उसका विरह व्याप्त था। उसकी एक मात्र चाह ईश्वर ज्योति में लीन हो जाने की थी, वह निष्कपट नारी दूसरी मेरी के समान थी।' राबिया को परम प्रेम ही श्रेय था, वह कहती है, 'हे नाथ तारे चमक रहे हैं, लोग निद्रा-निमग्न हैं, सन्नाटों के द्वार बन्द हैं, प्रत्येक प्रेमी अपनी प्रेयसी के साथ और मैं यहाँ अकेली आपके साथ हूँ' वह केवल परमात्मा की कृपा-कोर पर विश्वास करती थी। उसका कहना था, 'हे ईश्वर मैं आपको द्विविध प्रेम करती हूँ, एक तो स्वार्थ पूर्ण कि मैं आपके अतिरिक्त किसी और का ध्यान नहीं करती, दूसरा शुद्ध प्रेम है कि जब आप मेरे मन का आवरण हटा देते हैं तो मैं आपका साक्षात्कार कर पाती हूँ। दोनों ही रूपों में श्रेय आपका है। यह आपकी कृपा का प्रसाद है^२।'

भय की भावना का सर्वथा अभाव प्रेममयी राबिया में भी नहीं था। उसे रसूल मुहम्मद का डर था क्योंकि सम्भवतः प्रेम की उपासिका राबिया परमात्मचिन्तन में मुहम्मद के महत्व

१. "She the Secluded one was clothed with the clothing of Purity and fire with love and longing and was enamoured of the desire to the lord and be consumed in his glory. She was a Mary and

Rabia the Mystic P 54

by Margaret Smith

2. Selfishly

of thee

I do naught

ought.

raise

का ध्यान नहीं रख पाती थी, उसे मध्यस्थ की आवश्यकता ही नहीं थी। उसने प्रार्थना की 'हे खुदा के रसूल तुम्हें कौन नहीं प्यार करता, किन्तु परमेश्वर के प्रेम से मेरा हृदय इतना ओतप्रोत है कि किसी अन्य के लिये घृणा या प्रेम का भाव मेरे हृदय में कभी आता ही नहीं' १।

राविया ने माधुर्य भाव की स्थापना सूफीमत में की। शामी परम्परागत इश्क को पुनः सूफीमत ने अपना लिया। वह तत्त्वकुल (पूर्ण विश्वास) की अनुयायिनी थी। इस्लामी दर्शन को या सूफीमत को उपासना में मध्यस्थ की अनावश्यकता तथा निष्काम होकर ईश्वराधना करना उसकी सबसे बड़ी देन है। नमाज (प्रार्थना) का एक मात्र साध्य ईश्वर से एकान्त मिलन की प्राप्ति है। सारिक सुखों के हेतु परमात्मा से कुछ माँगना लज्जा का विषय है। उसने निष्काम भाव से परमात्मा के प्रेम को जगाया। पवित्रता से एकांत जीवन्त्यापन करने तथा शरीर के नियमों का पालन करने का फल जन्नत की प्राप्ति या नरक का अभाव नहीं है, उसका प्रतिफल केवल आराध्य का साक्षात्कार है। राविया अपने ऐसे ही साक्षात्कार या हाल की अवस्था में प्रार्थना किया करनी थी। सूफीमत के आरम्भिक काल में ये सूफी एकान्त प्रिय तथा ध्यानानन्द में मग्न रहने वाले थे। उनकी साधना में अन्तःकरण की शुद्धि का सर्वाधिक महत्व था अब ईश्वर प्राप्ति के लिए केवल धन का अभाव होना ही महत्वपूर्ण न था, परन्तु आवश्यक था लिप्सा वा सर्वथा तिरोहित होना। इन सूफी संतों की वृत्ति में एकाएक परिवर्तन पश्चात्ताप के कारण हुआ था। संसार की वस्तुओं तथा सम्बन्धों की अस्थिरता का ज्ञान होने के पश्चात् ही वे ईश्वरोन्मुख हुए थे। उन्हें संसार के वैभव से घृणा थी। उनका सब कुछ तौबा और तत्त्वकुल था। ये सूफी जाहिद (सन्यासी) तथा निष्क्रियतावादी थे। श्री निकोत्सन ने इन्हें इसी कारण शान्तिवादी (Quietists) की संज्ञा दी है।

फुजायल और इब्राहीम अघम दोनों की जन्मभूमि मर्व तथा बलख में बौद्धधर्म का प्रभाव था। बहुत सम्भव है तत्कालीन राज्यक्रान्ति से ऊबकर बौद्ध संतों के अनुकरण पर ही इन सूफियों ने सन्यास और इच्छादमन को जीवन का ध्येय बनाया हो। इब्राहीम बिन अघम का वैभव त्याग करके सन्यास ग्रहण करना बहुत कुछ बुद्ध के महाप्रस्थान से साम्य रखता है। उसका विचार था कि अपने हृदय पर शासन करना एक राष्ट्र पर शासन करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है २।

१ "Apostle of God who does not love thee? but love of God hath so absorbed me that neither love nor hate of any other thing remains in my heart."

A Literary History of Arabs P 234

By R. A. Nicholson.

२ "He held that to control one's self is better than to rule over a nation" Outlines of Islamic Culture p 463.

By A. M. A. Sushtery.

त्याग की भावना के साथ प्राप्त की भावना निहित थी। इस संसार में न्यूनतम वस्तुओं का स्वामी होने का आशय था कि उसको जन्नत या स्वर्ग-सुख अवश्य प्राप्त होंगे, किन्तु बाद के इन सूफियों में निर्धनता से तात्पर्य केवल धनहीनता ही न था किन्तु धन के प्रति किसी भी प्रकार की इच्छा का अभाव था। इस आरम्भिक युग के प्रधान सूफी संत इब्राहीम बिन अधम (मृ० ७८३ ई०) फुजायल बिन अयाज (मृ० ८०१ ई०) राबिया अल अदाबिया (मृ० ८०२ ई०) हैं।

फुजायल तथा इब्राहीम बिन अधम दोनों ने अपनी सम्पत्ति तथा राज्य का परित्याग करके बसरा के हसन के किसी शिष्य को मुरीद बनाया था। इन सभी संतों में 'श्रौफ' की महत्ता थी किन्तु राबिया बसराबिया ने सूफीमत में प्रेम-भावना की स्थापना की। उसने अपना सब कुछ ईश्वरचिन्तन में लगा दिया। आत्मसमर्पण तथा पूर्ण विश्वास की भावना राबिया में प्रधान थी। अन्तार ने राबिया का परिव्यव बड़े प्रशंसात्मक शब्दों में दिया है^१। 'उसके हृदय में परमात्मा का प्रेम तथा उसका विरह व्याप्त था। उसकी एकमात्र चाह ईश्वर ज्योति में लीन हो जाने की थी, वह निष्कण्ठ नारी दूसरी मेरी के समान थी।' राबिया को परम प्रेम ही श्रेय था, वह कहती है, 'हे नाथ तारे चमक रहे हैं, लोग निद्रा-निमग्न हैं, सम्राटों के द्वार बन्द हैं, प्रत्येक प्रेमी अपनी प्रेयसी के साथ और मैं यहाँ अकेली आपके साथ हूँ' वह केवल परमात्मा की कृपा-कोर पर विश्वास करती थी। उसका कहना था, 'हे ईश्वर मैं आपको द्विविध प्रेम करती हूँ, एक तो स्वार्थ पूर्ण कि मैं आपके अतिरिक्त किसी और का ध्यान नहीं करती, दूसरा शुद्ध प्रेम है कि जब आप मेरे मन का आवरण हटा देते हैं तो मैं आपका साक्षात्कार कर पाती हूँ। दोनों ही रूपों में श्रेय आपका है। यह आपकी कृपा का प्रसाद है^२।'

भय की भावना का सर्वथा अभाव प्रेममयी राबिया में भी नहीं था। उसे रसूल मुहम्मद का डर था क्योंकि सम्भवतः प्रेम की उपासिका राबिया परमात्मचिन्तन में मुहम्मद के महत्त्व

१. "She the Secluded one was clothed with the clothing of Purity and was on fire with love and longing and was enamoured of the desire to approach the lord and be consumed in his glory. She was a Mary and a spotless woman." Rabia the Mystic P 54

by Margaret Smith.

२. "Two ways I love thee, Selfishly

And next an worthy is of thee

'Tis selfish love that I do naught

Save Think on thee with every thought.

'Tis purest love when thou dost ra
the veil to my adoring gaze.

Not mine the praise in that or this,

Thine is the praise in both I wis "

का ध्यान नहीं रख पाती थी, उसे मध्यस्थ की आवश्यकता ही नहीं थी। उसने प्रार्थना की 'हे खुदा के रसूल तुम्हें कौन नहीं प्यार करता, किन्तु परमेश्वर के प्रेम से मेरा हृदय इतना अतृप्त है कि किसी अन्य के लिये घृणा या प्रेम का भाव मेरे हृदय में कभी आता ही नहीं' १।

राविया ने माधुर्य भाव की स्थापना सूफीमत में की। शामी परम्परागत इश्क को पुनः सूफीमत ने अपना लिया। वह तव्वकुल (पूर्ण विश्वास) की अनुयायिनी थी। इस्लामी दर्शन को या सूफीमत को उपासना में मध्यस्थ की अनावश्यकता तथा निष्काम होकर ईश्वराधना करना उसकी सबसे बड़ी देन है। नमाज (प्रार्थना) का एक मात्र साध्य ईश्वर से एकान्त मिलन की प्राप्ति है। सासारिक सुखों के हेतु परमात्मा से कुछ माँगना लज्जा का विषय है। उसने निष्काम भाव से परमात्मा के प्रेम को जगाया। पवित्रता से एकांत जीवनयापन करने-तथा शरीर के नियमों का पालन करने का फल जन्नत की प्राप्ति या नरक का अभाव नहीं है, उसका प्रतिफल केवल आराध्य का दादात्कार है। राविया अपने ऐसे ही साक्षात्कार या हाल की अवस्था में प्रार्थना किया करती थी। सूफीमत के आरम्भिक काल में ये सूफी एकान्त प्रिय तथा ध्यानानन्द में मग्न रहने वाले थे। उनकी साधना में अन्तःकरण की शुद्धि का सर्वाधिक महत्व था अब ईश्वर प्राप्ति के लिए केवल धन का अभाव होना ही महत्वपूर्ण न था, परन्तु आवश्यक था लिप्सा वा सर्वथा तिरोहित होना। इन सूफी संतों की वृत्ति में एकाएक परिवर्तन पश्चात्ताप के कारण हुआ था। संसार की वस्तुओं तथा सम्बन्धों की अस्थिरता का ज्ञान होने के पश्चात् ही वे ईश्वरोन्मुख हुए थे। उन्हें संसार के वैभव से घृणा थी। उनका सब कुछ तौबा और तव्वकुल था। ये सूफी जाहिद (सन्यासी) तथा निष्क्रियतावादी थे। श्री निकोलसन ने इन्हे इसी कारण शान्तिवादी (Quietists) की संज्ञा दी है।

~ फुजायल और इब्राहीम अथम दोनों की जन्मभूमि मरव तथा बलख में बौद्धधर्म का प्रभाव था। बहुत सम्भव है तत्कालीन राज्यक्रान्ति से ऊबकर बौद्ध संतों के अनुकरण पर ही इन सूफियों ने सन्यास और इच्छादमन को जीवन का ध्येय बनाया हो। इब्राहीम बिन अथम का वैभव त्याग करके सन्यास ग्रहण करना बहुत कुछ बुद्ध के महाप्रस्थान से साम्य रखता है। उसका विचार था कि अपने हृदय पर शासन करना एक राष्ट्र पर शासन करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है २।

१ "Apostle of God who does not love thee ? but love of God hath so absorbed me that neither love nor hate of any other thing remains in my heart."

A Literary History of Arabs P 234

By R. A. Nicholson.

२ " He held that to control one's self is better than to rule over a nation " Outlines of Islamic Culture p. 463.

Py A. M. A. Sushtery.

इस राजनीतिक जीवन से सर्वथा पृथक्, सन्यास-व्रताबलम्बी सूफी-संत-काल के पूर्ण होते होते इसमें रति या प्रेम का भी समावेश हो चला। राबिया तथा उमी प्रकार प्रेमोन्मादिनी वत्जा की प्रेम भावना ने सूफी साधना में प्रेम की स्थापना कर दी। शामी जाति में इस प्रकार के परमप्रेम की भावना सूफीमत के उद्भव के पूर्व भी पाई जाती थी। शामी जातियों के पूज्य देवता बाल, कादेश, ईस्तर आदि के मन्दिर में समर्पित संतानों का जमघट था। इनका जीवन मन्दिर में बहुत कुछ देवदासियों के जीवन से साम्य रखता था। शामी जातियों में विशेषता यह थी कि उनकी समर्पित संतान परस्पर देवरूप में संभोग करना साधु समझती थीं, उसको प्रतीक रूप में नहीं ग्रहण करती थीं। मंदिरों में आने वाले अतिथियों का सत्कार करना उनका कर्तव्य था। किसी भी प्रकार का रतिदान पुण्य समझा जाना था; राबिया के प्रेम की भावना का मूल इन्हीं समर्पित संतानों के सत्वप्रेम में दृष्टिगोचर होता है। रति-भाव को परमप्रेम का स्वरूप तभी प्राप्त होता है जब उसे परिपक्व होने के लिए विरोधों या अन्तरायों का सामना करना पड़े, साथ ही उस रति-भाव का आलम्बन परम होना अनिवार्य है। प्राणी परम के लिए तभी उत्सुक होता है जब प्राप्ति से या सामान्य से उसे पूर्ण सुख और संतोष नहीं होता। इस सुख एवं संतोष के अभाव के मूल में भविष्य की अनिश्चितता तथा भय है। यही भय (खौफ) और तौबा की भावना प्रथम युग के सभी सूफी संतों में व्याप्त है। इन प्रथम युग के सूफियों का राजनीतिक भ्रंशों या धार्मिक मुल्लाओं से कोई संघर्ष न था। उनकी सन्यासवृत्ति उन्हें केवल एकान्तचिन्तन करने को बाध्य करती थी। खौफ की भावना ने उन्हें अत्यधिक विनम्र बना दिया था, उनका किसी भी वर्ग (धर्म या राजनीति) से संघर्ष न था। राबिया ने इस भयजनित सन्यास में प्रेम का संचार किया। उसकी रति भावना ने संसारिक अन्तरायों को लाघकर अपना सम्बन्ध उस परम की महत्ता से जोड़ा जिसके सन्मुख सभी हतश्री हैं। शामी जातियों की समर्पित संतानों की प्रेम तथा विरह भावना का ही परिष्कृत एवं परिमार्जित स्वरूप सूफियों का प्रेम तथा विरह है। राबिया ने प्रेम भावना का समन्वय सूफी संतों के सन्यास में कर दिया किन्तु अभी उसकी पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई थी। इस पूर्ण समर्पण तथा प्रेम में बुद्धि एवं तर्क का भी विकास हुआ। अब तक उमैय्या वंश का शासन समाप्त हो गया था। अब्बास वंश का शासन आरम्भ हुआ। इस्लाम धर्म का आधार केवल कुरान था जिसमें मीनमेष करना धार्मिक दृष्टि से वर्जित था। हदीस का उपयोग ही आवश्यकतानुसार अर्थ लगाकर कर लिया जाता था। ईरान बहुत पहले से बुद्धि-वैभव तथा तर्क-पद्धति से परिचित था। शासक अरब धीरे धीरे शासित ईरानियों की संस्कृति से प्रभावित हो चले। वरामका वंश के मन्त्रियों ने कई पीढियों तक अब्बास वंश के शासकों का मन्त्रित्व ग्रहण किया। ये वरामका पहले बौद्ध थे। मामून ने अपने दरबार के भिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों को अध्यात्मविषयक प्रश्नों पर विचार विनिमय करने के लिए प्रोत्साहित किया। अनूदित ग्रन्थों तथा धार्मिक तर्कों के द्वारा भिन्न भिन्न मतों, दर्शनों, कलाओं, और विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। ईरान की आर्य संस्कृति इस्लाम को अपना रही थी। इस तर्क चिन्तक तथा संस्कृतियों के सम्मिलन का प्रभाव सूफी साधकों पर भी पड़ा। सूफीमत के इस युग को हम 'चिन्तन का युग' कह सकते हैं। अब केवल कुरान या हदीस का प्रमाण देना ही आवश्यक नहीं था। वे मुहम्मद या अल्लाह के शब्दों ने

अपनी जिज्ञासा शान्त करना चाहते थे, जहाँ कहीं भी उन्हें अपनी बुद्धि तथा तर्क को संतुष्ट करने वाला तथ्य प्राप्त होता था वे उसे ग्रहण कर लेते थे। अब वे धर्म के सीमित क्षेत्र तथा भावात्मक आत्मसमर्पण (तत्त्वकुल) से ऊपर उस एक ही परमात्मा के अस्तित्व से अपना अस्तित्व मिलाकर आनन्द भग्न रहने लगे। फलतः सूफीमत के दो स्वरूपों का दर्शन इसमें दृष्टिगोचर होता है। एक ओर सूफी तर्कों से अपनी जिज्ञासा-शान्ति का प्रयास कर रहा था। इस चिन्तन युग में वह धार्मिक क्षेत्र में मुल्लाओं का महत्व सहन न कर सका। अपने दृष्ट से मिलने में किसी मध्यस्थ की आवश्यकता उसे न जान पड़ी। दूसरी ओर उसका शासक वर्ग से संघर्ष चल रहा था क्योंकि सूफी साधक अपने आनन्द में, बुद्धि-विलास में इतने अधिक भग्न थे कि जन साधारण की भांति शासकों को ईश्वर का प्रतिनिधि स्वरूप मानकर उन्हें समुचित सम्मान न दे सके। उस समय के शासक अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित करते थे और सूफी इसे स्वीकार करने को तत्पर न थे। उनका सीधा सम्बन्ध परमेश्वर से था। जनता तथा उलेमाओं ने बढते हुए राज्य-वैभव और राज्य-सत्ता का समर्थन कर सुल्तानों का साथ दिया किन्तु सूफियों ने क्षणिक राज्य-वैभव प्राप्त व्यक्तियों को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। वे इन सुल्तानों को दीन-विरोधी तथा हीन समझते थे। उन्हें सुल्तानों की सत्ता मान्य न थी। वे केवल परमात्मा के शासन में रहते थे, उन्हें किसी अन्य का शासन मान्य न था। इस प्रकार शासक वर्ग तथा उलेमा दोनों की ही कोपदृष्टि सूफियों पर थी जो किंचित अवकाश पाते ही सूफी संतो को मृत्यु के घाट उतार कर तृप्त हो जाती थी।

ऐसे ही समय मामून (मृ० ८६० ई०) सा दृढ और आग्रही व्यक्ति इस्लाम का शासक बना। मुहम्मद साहब ने जिस राज्य की स्थापना की थी उसमें धार्मिक संघ तथा साम्राज्य का कोई विभेद नहीं था। शासक इन दोनों का संचालन करना था किन्तु कालान्तर में इन दोनों में अन्तर होता गया। मामून कुरान की शाश्वतता का विरोधी था। उसने घोषित किया कि कुरान की शाश्वत सत्ता अल्लाह की अनन्यता के प्रतिकूल है। इससे मोतजिली तथा महादवी सम्प्रदायों को जीवन मिला, तर्क तथा बुद्धि का व्यापार चलने लगा। इस समय के प्रसिद्ध तत्वबोधी सूफियों में करखी, अबू सुलेमानदारानी, जुलनून मिल्वी हैं; ये सूफी धीरे धीरे जाहिद से आरिफ हो चले थे। मारुफुल करखी ने तत्वबोध और अर्थ-त्याग को सूफीमत की उपाधि दी, इनका कहना था कि सच्चा सूफी वह है जो सदैव ईश्वर चिन्तन करता है। वह ईश्वर का आश्रय ग्रहण करता तथा ईश्वरीय अर्थों के हेतु ही कार्य करता है^१। अबू सुलेमानदारानी का कहना था कि कोई भी व्यक्ति इस संसार की वासना से परे नहीं रह सकता, एक सच्चा उपासक ही जिसके हृदय में ज्ञानचक्षु का उदय हो गया है, परमेश्वर की अनन्य उपासना में लीन रहता है। करखी ने त्याग, ज्ञान एवं प्रेम का उद्बोधन कर सूफीमत के प्रज्ञात्मक रूप की चर्चा की। सीरिया के अबू सुलेमान दारानी ने हृदय को परमेश्वर की प्रतिमा का आदर्श और शारीरिक वस्तुओं को उसे

१. "The Saints of God are known by three signs. Their thought is of God, their dwelling is with God, their business is in God, Tadhkiratu'l Awwiya.

आवरण करने वाला कहा है। इस समय सूफीमत के केन्द्र बसरा और बगदाद ही थे जहाँ आर्य संस्कृति का प्रचुर प्रभाव था। मामून की मृत्यु के बाद अहमद इब्न हंबल (मृ० ६१२ ई०) का शासन आरम्भ हुआ। यह मामून की तर्क-पद्धति का विरोधी था। इस्लाम के तौहीद या एकेस्वरवाद को मोतजिलियों ने अपना साध्य बनाया था किन्तु उनकी दृष्टि में अल्लाह के समक्ष अन्य देवों का बहिष्कार तथा कुरान की नित्यता अप्रमाणाित करना ही तौहीद था। हंबल के शासन काल में मोतजिलियों का विरोध हो रहा था तथा इस्लाम के आचार्य इस्लाम को कुरान और हदीस के आधार पर पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे ही समय जूलनून (मृ० ८५६ ई०) मिस्री तथा वायजीद-अल्-बिस्तामी का आविर्भाव हुआ। राविया ने जिस प्रेम भावना का परिचय दिया था, उसका अनुभव करखी ने भी किया। उनका कहना था कि प्रेम ईश्वरीय देन है जिसे किसी मानव से नहीं सीखा जा सकता ^१। जूलनून मिस्री ने पूर्ण तौहीद की विवेचना कर इस्लाम को प्रेम का महत्व समझने को बाध्य किया। अल्लाह की अनन्यता प्रतिपादित करते हुये उसने अन्य सभी वस्तुओं के अनस्तित्व का राग अलापा। उसने कहा कि ईश्वरीय प्रेम एक रहस्य है जिसका केवल अनुभव करना ही श्रेय है। जूलनून ने सूफीमत को अपनी विचार-परिपक्वता से पुष्ट किया। उन्होंने इल्म और मारिफत में, ज्ञान और प्रज्ञान (विज्ञान) में भेद स्थापित किया और स्पष्ट कहा कि ईश्वरीय-ज्ञान या मारिफत का सम्बन्ध मुहब्बत या परमप्रेम से है ^२। इन्होंने सूफीमत में सर्वप्रथम अध्यात्मविद्या और भावावेश या हाल का भी समावेश किया। एक और स्थल पर अध्यात्मविद्या या मारिफत के सम्बन्ध में विचार करते हुये इन्होंने लिखा है कि वास्तविक ज्ञान परमात्मा की कृपा-कोर से पराभूत हृदय में ही होता है, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में ही सूर्य को देखा जा सकता है ^३। जिस प्रकार सूर्य के अधिकाधिक निकट पहुँचने पर व्यक्ति का पृथक अस्तित्व विलीन हो जाता है, उसी प्रकार साधक जितना ही अधिक परमेश्वर के निकट पहुँचता जाता है वह अहं से दूर होता जाता है। जूलनून ने समा, हाल, तौहीद, तौबा, करामात आदि प्रसंगों पर भी विचार प्रकट किये तथा प्रेम को साध्य रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। इनके स्वतंत्र चिन्तन के कारण इन्हें इस्लाम विरोधी—मलामती ^४ तथा जिन्दीक समझा गया और खलीफा मुतवकिल ने इन्हे कारावास का दण्ड दिया किन्तु बाद में स्वयं इनसे प्रभावित हुआ। जामी ने अपने नफहातुलउन्स में इन्हे सूफीमत के प्रथम प्रचारक शेख की पदवी दी है।

वायाजीद बिस्तामी (मृ० ६३१ ई०) शुद्ध पारसी-संतान था। इसका बाप शरवाशौं जरथुष्ट का उपासक था। सूफीमत में तौहीद तथा मुहब्बत की स्थापना ने अद्वैतवाद को जन्म दिया। वायाजीद ने परमात्मा को कण-कण में व्याप्त देखा। ईश्वर और जगत में इन्होंने अभिन्नता प्रतिपादित की। आत्म-दर्शन में उसने परमेश्वर का साक्षात्कार किया।

१ Tadhkiratu 'l Awliya p. 272 12

२ Idea of personality in Sufism By R A Nicholson. p 91 -

३. Tadhkiratu 'l Awliya p 946

४. Encyclopaedia of Islam. London 1884. P, 946

वह जीवात्मा और परमात्मा को अभिन्न समझता था। उसका कथन है, 'कि मेरे इस चोले के अन्तर्गत ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है' तथा 'मैं धन्य हूँ, मेरा कितना असीम प्रभुत्व है'।^१ उसके ये वाक्य सर्वात्मवाद का प्रतिपादन करने हैं जो सूफीमत का प्राण है। प्रेम के सम्बन्ध में भी उसकी धारणा महान है, उसका कथन है कि परमात्मा का जीवात्मा के प्रति प्रेम परमात्मा के प्रति जीवात्मा के प्रेम से प्राचीन है। जीव अज्ञानवश समझता है कि वह परमात्मा को प्रेम कर रहा है। वास्तव में वह तो प्रेम के अनन्य स्रोत परमात्मा का अनुकरण कर रहा है। करखी प्रेमावेश के लिये सुरा और समा की सार्थकता प्रतिपादित कर चुका था। यजीद के प्रेम ने पुनः विरह और सुरा को प्रेरणा दी। उसको वृषि तब मिली जब प्रियतम ने उसे अपना लिया। उसने सर्वप्रथम निर्वाण या फना का प्रतिपादन कर आर्य सस्कारों से सूफीमत को पुष्ट किया। कहा जाता है कि यह सिन्ध के सन्त अबूअली का मुरीद था। यजीद के सर्वात्मवाद ने भविष्यके सूफियों के लिये अद्वैत का मार्ग उन्मुक्त कर दिया। जूलनून और यजीद ने 'पीर' के महत्व को व्यक्त किया। जूलनून ने परमात्मा की आज्ञा से भी गुरु की आज्ञा को महत्वपूर्ण माना है। यजीद ने गुरुहीन साधक को शैतान का उपासक तक कह दिया।

अब तक दमिश्क, खुरासान, बगदाद आदि में सूफियों के मठ स्थापित हो चुके थे। कुरान में प्रतिपादित नमाज (जिक्र) को सूफियों ने इतनी लगन से अपनाया कि सलात, रोजा आदि अन्य विधानों के ऊपर भी उसकी स्थापना हो गई। वे सामूहिक रूप से जिक्र या सुमिरन में लीन रहते थे। उन्होंने उसी के पीछे अपना सर्वस्व त्याग दिया था। अब तक के सूफी केवल उपदेश देते थे। अब सिद्धान्तप्रणयन की परम्परा भी आरम्भ हुई। मुहासिबी तथा वायजीद ने तसब्बुक पर थोड़ा बहुत लिखा है। जबकि अब्वासियोंके शासनकाल में मुस्लिम संघ एवं साम्राज्य नानाप्रकार की दलबंदियों में विभक्त हो रहा था सूफी साधक सूफीमत के स्वरूप-निर्णय में लगे थे। किसी ने सूफीमत में मिताहार और एकान्तवास को ध्येय माना, किसी ने आत्मशिक्षण को मुख्य स्थान दिया। नूरी ने सत्य के लिये स्वार्थ का परित्याग ही सूफीमत का सार माना है। परिभाषाओं का आधिक्य यह सूचित करता है कि जन वर्ग में सूफीमत का परिचय जानने की जिज्ञासा थी।

इसी समय जुनैद (मृ० ६६६ ई०) ने जूलनून मिस्री के उपदेशों का संपादन किया, तथा शिवली ने उनका सर्वत्र प्रचार किया। अपने समय के सूफियों में जुनैद अग्रगण्य माने जाते थे। इस समय के सूफियों और शासक वर्ग में जो विरोध बढ रहा था, उसका अनुभव जुनैद ने किया। उसने प्रेम के रहस्य को, गुह्य विद्या के प्रकाशन को प्रोत्साहित नहीं किया। जुनैद ने अचसर देखकर काम किया। बाहर से तो वह कट्टर मुसलमान जान पड़ता था किन्तु भीतर ही भीतर गुप्ततत्व का प्रसार करता था। जुनैद ऐसे सूफी साधकों में से है जिनका सम्मान मुल्ला और फकीर दोनों समान रूप से करते हैं। जुनैद के गुह्य और

१ " Beneath this cloak of mine there is nothing but God."

" Glory to me ! How great is my majesty."

Tadhkeratu'l Awliya Cp on Alen Yazid.

षाह्य प्रदर्शन के रूप में हमें सूफीमत और इस्लाम के समन्वित होने की भावना के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं जिसकी पूर्णता गज्जाली ने कुछ समय बाद की। इन्हीं के शिष्य हल्लाज या मन्सूर (मृ० ६७८ ई०) थे। जुनेद शासक और साधक के संघर्ष के मध्य भी निर्मुक्त रहे और मन्सूर को अपने प्राणों की बलि देकर इस संघर्ष की पूर्णाहुति करनी पड़ी। मन्सूर प्रारम्भ से ही जिज्ञासु थे, इसी कारण उन्होंने भारत, खुरासान एवं तुर्किस्तान की यात्रा की थी। मन्सूर ने मसीह का आदर किया तथा उनके आत्मोत्सर्ग की सराहना की। यजीद ने जिस सत्य की अनुभूति की थी, मन्सूर ने उसे आत्मरूप बना लिया। मन्सूर ने स्वयं को सत्य कहा। वह 'अनलहक' हो गया^१। प्रेम को उसने परमात्मा के सत्व का सार कहा है। प्रेम की महानता बिना प्रतिकार किये दुख सहने में है। उसका कथन है 'मैं वही हूँ जिसको प्यार करता हूँ, जिसे प्यार करता हूँ वह मैं ही हूँ। हम एक शरीर में दो प्राण हैं, यदि तू मुझे देखता है तो उसे देखता है। यदि उसे देखता है तो हम दोनों को देखता है^२।' उसने 'लाहूत' और 'नासूत' (देव और मर्त्य लोक) का विवेचन किया तथा इन दोनों के मिलन को 'हुलूल' कहकर प्रतिपादित किया। उसकी स्वयं की रचनाओं में 'हुलूल' के दर्शन हो जाते हैं।

'जिस प्रकार शराब और पानी मिलकर एक हो जाती है उसी प्रकार परमात्म-तत्व और मैं मिलकर एक होगया हूँ^३।' मन्सूर ने इबलीस का निरादर नहीं किया। उसके अनुसार वही ईश्वर का सच्चा भक्त था क्योंकि अन्य फरिश्तों ने अल्लाह की आज्ञानुसार आदम की वन्दना की जब कि वह केवल एक उसी का उपासक रहा। अल्लाह ने उसकी परीक्षा ली और वह दण्ड-विधान के सम्मुख भी ईश्वर की अनन्य उपासना में लीन रहा। हल्लाज के अनुसार उसने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके ईश्वरीय महत्ता सिद्ध कर दी। मन्सूर ने मुहम्मद की अबहेलना नहीं की प्रत्युत उन्हें सर्वश्रेष्ठ नबी माना। कुरानोपदिष्ट शालीनता तथा व्यवहार-पद्धति की उसने अबहेलना नहीं की किन्तु कणकण में ईश्वर को व्याप्त देखने वाला मन्सूर जब आत्मशिक्षण की पराकाष्ठा पा कर स्वयं सत्य (अनलहक) हो गया तो इस्लाम के शास्त्रीय विधायक और शासक इमे न

१ Idea of personality in Sufism p. 29

by R A Nicholson

२ 'If you do not recognise God' he sayest at least recognise his signs.
I am that sign I am the creative truth'.

Studies in Islamic Mysticism p. 84

By R A Nicholson

३. "The spirit is mingled in my spirit even as wine is mingled
with pure water
where anything touches thee, it touches me to in every case thou arts"

मह सके और उसे धर्म-विरोधी 'एवं 'रज्जुकला' का पारंगत घोषित कर दण्ड दिया^१ ।

सूफियों ने अपनी साधना मे मध्यस्थ की अनावश्यकता प्रतिपादित करके मुल्लाओं आदिक धार्मिक व्यक्तियों की सत्ता तथा महत्ता पर आघात किया तथा स्वयं को आध्यात्मिकता के उर्ध्वस्तर पर पहुँचा कर 'सत्य तत्व' घोषित किया । परमेश्वर से इस प्रकार अबाध सम्मिलन प्राप्त करके उन्होंने शासकों के ईश्वरीय प्रतिनिधि स्वरूप पर भी आघात किया । अतः राज्यवर्ग और धर्म संघ दोनों ही सूफियों के इस स्वतंत्र चिन्तन के कारण उनके विरोधी हो गये, और इसीलिये दोनों ने उनका दमन किया ।

इस समय के अन्य सूफियों ने भी इस सूफीमत और शासकों के संघर्ष को पहचाना । फारोवी (मृ० १००७ ई०) ने कुरान के साथ इसका समन्वय करना चाहा । इसी संघर्ष के कारण सूफीमत में दुरुहता और गुह्य भावना का समावेश हो गया । वह प्रकट में प्रदर्शित करने की वस्तु न रहा । इस गुह्य प्रचार की अवहेलना के कारण ही मन्सूर को प्राणदण्ड मिला । मिंसी बायाजीद और मन्सूर ऐसे साधकों की स्पष्टोक्तियों ने सूफीमत के इस काल को क्रांतिकारी प्रणति प्रदान की । इस युग के सूफी प्रेमोन्माद या हाल में अधीर हो ईश्वर और मानव के अभेद को प्रतिपादित करते थे । परमात्म-प्रेम के सम्मुख वे कुरान निहित आचार विचार को अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझते थे । इसी कारण मुल्लाओं और शासकों ने उन्हें विधर्मों या 'जिन्दीक' घोषित कर दण्डित किया । मन्सूर के जीवनोत्सर्ग ने इस संघर्ष को चरमसीमा पर पहुँचा दिया और आगे आने वाले सूफी, जुनैद की भांति इस्लाम और सूफीमत मे सामंजस्य उत्पन्न करने का प्रयास करने लगे । इस प्रकार हम देखते हैं कि सूफीमत अपनी प्रारम्भिक अवस्था मे संन्यासवृत्ति प्रधान था । उसका किसी से संघर्ष न था और न किसी से अधिक सम्पर्क ही था । उसने अपना क्षेत्र पृथक कर लिया था; किन्तु द्वितीय अवस्था मे वही एकान्तप्रिय सूफीमत, धर्म तथा राज्यसंघ के संघर्ष में आया । उसे न तो धार्मिक क्षेत्र में मान्यता मिली और न राज-शक्ति ने उसे शरण दी । सूफियों के इस प्रकार बहिष्कृत होने के कारण जनता भी उनका खुले हृदय से स्वागत न कर सकी यद्यपि हर समय में, हर देश में ऐसे सन्त सर्वसाधारण व्यक्तियों के हृदय को सर्वाधिक आकर्षित करते रहे हैं ।

अब तक सूफीमत आचरण प्रधान, एवं सांसारिक भ्रंशों से तटस्थ रहा था तथा चिन्तन प्रधान होकर साधकों और शासकों के संघर्ष से परिचित हो चुका था; अब समय आ गया था जब वह इस्लाम मे अपना विशिष्ट स्थान बना ले । सूफी सन्तों के उपदेशों के संग्रह बनने लगे । उनके जीवन और वृत्त सम्बन्धी ग्रन्थों की रचना होने लगी । 'करफुलमहजुब' के देखने से पता चलता है कि इस समय सूफियों के कई सम्प्रदाय वर्तमान थे । अबूसईद (मृ० ११०६ ई०) ने दीक्षागुरु के अतिरिक्त शिक्षागुरु को महत्व देकर

सूफियों की मधुकरी वृत्ति का परिचय दिया। वह समा (संगीत) का प्रतिपादक था जिसे वह विषयवासना के विनाश के लिये आवश्यक समझता था। वह अत्यन्त उदार था तथा पीरों की समाधि पर जाने को हज्ज के बराबर ही महत्वपूर्ण समझता था, इतना सब होने पर भी सूफीमत को इस्लाम में मान्यता न मिली।

समन्वय की भावना जुनैद के उपदेशों में उद्भूत हो चुकी थी किन्तु उसे पूर्णता इमाम गज्जाली के प्रयत्न में मिली। सूफीमत को व्यवस्थित रूप देकर, उसके विभिन्न सिद्धान्तों पर प्रकाश डालकर, उसे इस्लाम में विशेष स्थान देने वालों में कालावाधी एवं हुज्वरी का नाम भी लिया जाता है किन्तु पूर्ण सफलता का श्रेय इन्हें न मिलकर 'हुज्वतुल इस्लाम' या इस्लाम धर्म के 'व्यास' गज्जाली को मिला। कालावाधी (मृ० १०५२ ई०) तथा हुज्वरी ने अपने ग्रन्थों के द्वारा दोनों मतों, इस्लाम और तसव्वुफ की विशेष बातों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। गज्जाली ने नियन्त्रण की आवश्यकता समझ "भय" या 'खौफ' की पुनः प्रतिष्ठा की तथा गुह्य के प्रचार का निषेध कर दिया। उसने दीन के उदार क्षेत्र में दोनों मतों का सामन्जस्य किया, उसके अनुसार मनुष्य 'भुलक' का निवासी है। रूह 'मलकूत' से आती फिर वहीं चली जाती है। संदेशवाहक फरिश्ते 'जबरत' के निवासी हैं। अन्य फरिश्ते 'मलकूत' में रहते हैं। इस्लाम का सम्बन्ध 'मलकूत' से और कुरान का 'जबरत' से है। सूफी स्वयं को हक़ कहते हैं क्योंकि अल्लाह ने आदम को अपना रूप देकर उसमें अपनी रूह फूँकी^१। हदीस है कि जो रूह को जानता है वह ईश्वर को जानता है। वस्तुतः रूह अंश और ईश्वर अंशी है। अतएव सूफियों का 'अनल्हक' इस्लाम विरोधी नहीं उसी का विस्तार है। सूफियों को इलहाम होता है और रसूल उसका प्रचार करते हैं। इमाम गज्जाली के प्रयास से तसव्वुफ इस्लाम का एक अंग बन गया, अब इस्लाम और सूफीमत दोनों का प्रचार एक साथ ही आरम्भ हो गया और अधिकांश सूफी इस्लाम के प्रचारक बन गये। इसके बाद मुस्लिम विजयों के साथ ही सूफीमत के प्रचार का इतिहास भी निहित है। सूफियों ने प्रचार के लिए बल-प्रयोग के स्थान पर अपनी चमत्कार पूर्ण युक्तियों का प्रयोग किया।

भारत में सूफीमत के आने के पूर्व उसका इस्लाम धर्म-संघ से विरोध समाप्त हो गया था। अधिकांश सूफी 'बाशरा' हो गये थे। वे अपनी विचार पद्धति को इस्लामी नियमों से अनुशासित करने का सदैव प्रयास करते रहे। अब सूफीमत का विरोध शैख और मुल्लाओं से भी नहीं था और साथ ही उन्हें राजकीय प्रश्रय भी प्राप्त था। मठों से लगी हुई जागीरें तथा राजाओं का यदा कदा सूफी सन्तों से वार्तालाप और उनका सम्मान इस बात का प्रमाण है कि सूफियों का सम्पर्क राजवर्ग, धर्म-संघ तथा जनजीवन इन तीनों से ही था। कहा जाता है कि शेख मलीम चिश्नी के आशीर्वाद से ही अकबर को जहागीर की

१, "I was a hidden treasure, I desired to become known and Brought creation into being that I might be known"

प्राप्ति हुई थी तथा कादिरिया सम्प्रदाय के मुल्लाशाह का दाराशिकोह शिष्य था। भारत में आनेवाले अधिकांश इस्लाम के प्रचारक थे। इनका आगमन मुसलमानी आक्रमणों से पूर्व भी हो चुका था किन्तु उत्तरी भारत में ये मुसलमानी राजनीतिक विजयों के साथ ही या फौजों के पीछे आये। इनका कार्य उस दशा में आरम्भ हुआ जब कि इस्लाम राजधर्म के रूप में स्थापित हो गया था। दक्षिण भारत में यद्यपि इन दरवेशों को इस्लाम का प्रथम राजधर्म के रूप में प्राप्त नहीं हुआ किन्तु वहाँ भी इन सूफियों के शान्तिपूर्वक प्रचार ने इस्लाम को प्रतिष्ठित कर दिया। सूफी कवियों के प्रेमाख्यानों के आरम्भ में अल्लाह, मुहम्मद तथा शाहेवख्त की प्रशंसा इस बात का प्रमाण है कि इन सूफी साधकों का अब इस्लाम धर्म-संघ या राज्य-संघ से विरोध न था प्रत्युत बहुत अंशों में वे उसके सहायक ही सिद्ध हुये।

इस प्रकार यह काल सूफीमत का प्रचार काल है। साथ ही यही समय है जब ईरान के प्रमुख सूफी काव्यकारों ने इसे अपनी पुष्ट लेखनी द्वारा हृदयग्राही बनाया जिसका अनुकरण भारतीय सूफियों ने किया। उमर खैय्याम (मृ० ११८० ई०) सनाई (मृ० ११८८ ई०) निजामी (मृ० १२६० ई०) अत्तार (मृ० १२८७ ई०) रूमी (मृ० १३३० ई०) सादी (मृ० ११४६ ई०) शन्वतरी (मृ० १३७७ ई०) हाफिज़ (मृ० १४४७ ई०) एवं जामी (मृ० १५४६ ई०) ने इसी काल में अपनी मसनवी और गजलों की रचना की। इन प्रतिभाशाली कवियों के द्वारा फारसी साहित्य की अभिवृद्धि के साथ सूफीमत का भी प्रचार हुआ। सूफीमत की उपदेशात्मक बातों को काव्य का परिधान देकर उसे आकर्षक स्वरूप प्रदान किया जिससे उन की पहुँच सर्वसाधारण तक सम्भव हो सकी। इन काव्य रचनाओं के द्वारा सूफीमत में सरसता का संचार हुआ और इसका पूर्व वैराग्यमय स्वरूप विस्मृत होकर उसका स्थान प्रेम और विरह ने ले लिया। इस प्रेम और विरह की प्रतीकों के आधार पर प्रेमाभिव्यक्ति हुई। फारसी काव्य के इस आदर्श का प्रभाव क्रमशः अन्य भाषाओं पर भी पड़ा। भारतीय सूफियों ने तो इसी ढंग पर काव्यमयी सूफी भावधारा से समन्वित रचना करके हिन्दी साहित्य की प्रेमाख्यान परम्परा में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है।

भारत में इस्लाम तथा सूफीमत

अरबों का देश तीन ओर से समुद्र द्वारा घिरा हुआ है। भोजन तथा खाद्य सामग्री पर्याप्त न होने के कारण अरबों ने प्रारम्भ से ही व्यापार की ओर अधिक ध्यान दिया। अरब के व्यापारिक मार्ग से ही मिस्र और शाम के देश का व्यापार होता था। अरबों का भारत से व्यापारिक सम्बन्ध बड़ा प्राचीन है। बौद्ध जातक कथाओं में इस विषय के संकेत मिलते हैं। हजरत यूसुफ के समय से लेकर मार्कोपोलो और वास्कॉडिगामा के समय तक भारतीय व्यापारिक मार्ग अरबों के अधीन थे।

ईसामसीह से दो शताब्दी पूर्व का एक यूनानी इतिहासकार यरशीदल लिखता है बहाज भारत के समुद्रतट से यमन (सवा) आते हैं और वहाँ से मिस्र पहुँचते हैं।

तात्पर्य यह है कि अरबों के साथ भारत का सम्बन्ध ईसा के पूर्व का है। ईसा की छठी शताब्दी में मुहम्मद साहब ने अरब जाति में एक नवीन जाग्रति पैदा कर दी। नवीन अरब मुसलमान बड़े उत्साह से नये नये देशों को हस्तगत करने में तत्पर हो गये और एक समय आया जब कि वे मिस्र से लेकर स्पेन तक फैल गये। रूम सागर पर भी उनका आधिपत्य था। भारत के सम्बन्ध में अरबों के विचार बड़े मूल्यवान थे। हज़रत उमर ने एक बार एक व्यापारी से पूछा कि भारत के विषय में उसके क्या विचार हैं ! उसने अत्यन्त संक्षिप्त और मार्मिक उत्तर दिया “उसकी नदिया मोती हैं, पर्वत लाल हैं और वृक्ष इत्र हैं।”

हिजरी पहली शताब्दी के अरबी इतिहास में भारतीय बन्दरगाहों के नाम उल्लिखित हैं जिनमें बलोचिस्तान का तेज, सिन्ध का देवल, गुजरात का थाना, खम्भात का सेवारा, जैमूर और मद्रास के कोलयमली प्रसिद्ध हैं। इनका विस्तार मलावार, कन्याकुमारी से होते हुये बंगाल और कामरूम तक था। भारत की विभिन्न वस्तुओं के नाम भी अरबी इतिहास में इसी कारण मिलते हैं। कुरान में हिन्दी शब्दों का प्रयोग भी सम्भवतः इसी कारण है। हिजरी सन ६८६ के पूर्व के एक अरबी कवि अब्रू जिलदम ने सिन्ध की प्रशंसा की है^१। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि भारत और अरब का सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन और घनिष्ठ रहा है।

अल्हज्जाज जिस समय इराक का शासक नियुक्त हुआ उसने खलीफा से विशेष आज्ञा मागकर अपने दामाद अबुल बिन क़ासिम को सिन्ध पर आक्रमण करने के लिये भेजा। वह मुल्तान को जीतकर निश्चित हुआ ही था कि हज्जाज तथा खलीफा की मृत्यु हो गई और क़ासिम को नये खलीफा सुलेमान ने वापस बुला भेजा। उमैय्या वंश के खलीफा ने एक बार पुनः सिन्ध पर आक्रमण करके उसे जीतना चाहा किन्तु असफल रहा। सिन्ध के मुसलमान सूवेदार ने काश्मीर पर चढ़ाई की परन्तु वहा के प्रतापी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ (सन ७३३-७६६) ने उसे मार भगाया। अब्बासी वंश के पतनकाल में मुल्तान तथा ब्रह्मनावाद को छोड़ कर लोग सबत्र स्वतन्त्र हो गये। वे भूल गये कि कभी सिन्ध मुसलमानों के अधीन रहा था। इस्लाम का बलपूर्वक प्रवेश कुछ समय के लिये अवश्य स्थगित हो गया किन्तु शान्तिपूर्वक उसका प्रचार कभी भी एक बार प्रारम्भ होने के बाद नहीं रुका। इधर खलीफा हिन्द को सिन्ध की ओर से जीतने का प्रयास कर रहे थे, उधर अरबी सौदागरों ने मलावार तट पर अपने धर्म का प्रचार शुरू कर दिया। वे लोग हिन्दुस्तानी औरतों से विवाह करते और भारत में मुस्लिम संख्या बढ़ाते थे। इस विषय में उन्हें हिन्दू राजाओं, विशेषतया बल्लभी वंश और कालीकट में जेमोरिन से बड़ी सहायता मिलती रहती थी। इनके प्रोत्साहन से बहुत से मुसलमान व्यापारी खम्भात, कालीकट, और कोलम आदि स्थानों में बस गये। उनको केवल अपनी मस्जिदें बनाने की ही स्वतंत्रता

नहीं थी वरन् वल्लाल राजा ने स्वयम् उनके लिये मस्जिदों का निर्माण कराया। इन्हीं की औलादों में कोंकण की नाटिया जाति तथा मलावार की मोपला जाति है। मलावार तट पर आठवीं सदी में इनके उपनिवेश बढने शुरू हुए। जेमोरिन ने अपने जहाजों के लिये केवट प्राप्त करने के लिये तटनिवासी नीच जातियों को एक घर से कम से कम एक व्यक्ति को मुसलमान बनाने की आज्ञा दी। इस प्रकार यथेष्ट संख्या में लोग मुसलमान हो गये। इधर खलीफा भी प्रचारकों को भेजने लगे। पन्द्रहवीं सदी में तैमूर के वंशज शाहखान ने अब्दुर्रज्जाक (सन् १४४१) को कालीकट इसी अभिप्राय से भेजा था। दक्षिण भारत में सौदागरों और प्रचारकों द्वारा इस्लाम का प्रचार खूब हुआ। हिशाम का कवीला भागकर भारत में कोंकण और कन्याकुमारी के पूर्वी तट पर बस गया था। लव्हे और नवायत जातियां उन्हीं के वंश की हैं।

मलावार कोदंगलूर के राजा चेरामन पेरुमाल ने स्वप्न में देखा कि चाद के दो टुकड़े हो गये हैं। इसका अर्थ उसने अपने दरवारियों से पूछा किन्तु एक मुसलमान का उत्तर उसे बड़ा पसंद आया और प्रभावित होकर वह भी मुसलमान बन गया। उसका नाम अब्दुर्रहमान सामीनी रखा गया। उसने अरब की यात्रा की जहां से उसने मलिक इब्ने दीनार, शर्क इब्न मलिक, और मलिक इब्न हबीब को मलावार भेजा। इन लोगों ने ग्यारह स्थानों पर मजिस्दें बनवाई और दीन का प्रचार किया। आज भी जेमोरिन सिंहासन पर बैठते समय तिर मुझता है तथा मुसलमानी लिवास पहनता है। उसके घरवाले फिर उसके साथ खाना पीना छोड़ देते हैं। वह अन्तिम चेरामन पेरुमाल का प्रतिनिधि माना जाता है। अब भी जब कालीकट और द्रावनकोर महाराज कमर में तलवार बाधते हैं तब अभिषेक के समय प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस तलवार को उस समय तक कमर में बाधूंगा जब तक मेरा मक्के वाला चाचा वापस नहीं आता। दक्षिण के मोपले उन्हीं के वंशज हैं। मोपले मत-पितला का अपभ्रंश है^१।

मसूदी जब १०वीं शताब्दी में भारत आया तो उसे १० हजार मुसलमानों की बस्ती चोल राज्य में मिली थी। इन्बतूता ने खम्बात से मलावार तक अच्छी मुस्लिम आवादी देखी थी। इस प्रकार मुसलमान धीरे धीरे अपनी बस्तिया बनाते चले जा रहे थे।

शान्तिपूर्वक धर्मप्रचार में सबसे महत्वपूर्ण कार्य मुसलमान फकीरों और दर्वेशों ने किया। यह कार्य ११ वीं सदी से आरम्भ हो गया था। सन् १००५ में शेख इस्माइल बुखारा से भारत आया और अपने प्रचार से सैकड़ों को मुसलमान बनाया। सन् १०६७ में अब्दुल्लाह यमनी ने गुजरात में इसी प्रकार प्रचार किया। इसे वोहरे लोग अपना प्रथम प्रचारक मानते हैं। १२ वीं सदी के प्रारम्भ में खोजों के प्रचारक नूर सतागर ने गुजराती नीच जातियों को मुसलमान बनाया। तेरहवीं सदी में सैयद जलालुद्दीन बुखारी और सैयद अहमद कबीर ने सिन्ध और कच्छ के पास अनेक लोगों को मुसलमान बनाया। इन

१. भारत में इस्लाम।

सबमें प्रसिद्ध ख्वाजा मुहंनुद्दीन चिश्ती थे जो तेरहवीं सदी के आरम्भ में सीस्तान से आकर अजमेर में बस गये थे। कहा जाता है कि अजमेर जाते समय देहली में उन्होंने ७०० लोगों को मुसलमान बनाया। सन् १२३६ में अजमेर में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी कब्र पर आज भी मेला लगता है। इसी प्रकार १४ वीं सदी में पानीपत में बूअली कलन्दर ने प्रचार किया। ये प्रचारक मुसलमान विजेताओं के साथ साथ आगे बढ़ते जाते थे। इन दो सदियों में ये प्रचारक काश्मीर, दक्षिण भारत तथा बंगाल आदि प्रदेशों तक फैल गये। मुहंनुद्दीन चिश्ती के कई शिष्य भी धर्म प्रचार के लिये प्रसिद्ध हुये। उनकी शिष्य परम्परा में शेख फरीदउद्दीन शकरगंज, इनके शिष्य निजामउद्दीन औलिया तथा १३ वीं १४ वीं सदी में ख्वाजा कुतुबउद्दीन काकी, शेख अलाउद्दीन अली, अहमद साविरी जीरान, काले खाले आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। १६वीं सदी में इन लोगों का प्रचार मुगलों की सहिष्णुता की नीति के कारण कुछ हलका पड़ गया किन्तु तेरहवीं और चौदहवीं सदी में इनकी सफलता पर्याप्त हुई जिसके अनेक कारण थे।

नजदवली ने १३वीं सदी में मदुरा और त्रिचनापल्ली में बहुत से मुसलमान बनाये। पेन्नुकोडा के एक साधु फखरुद्दीन ने वहा के राजा को इस्लामी धर्म ग्रहण करवाया। यह सन् ११६१ में मरा।

आर्यों के आगमन के पूर्व द्रविण जाति में भक्ति भावना का अस्तित्व प्रधान था। आर्यों के बुद्धिवाद के साथ भक्तिभावना का मिश्रण हुआ जिससे विचार अत्यन्त उन्नत और उदार हो चले। इसी कारण यह सम्भव हो सका कि नवीन जातियाँ और विचार वाले लोग जो समय समय पर भारत आये यहा की सभ्यता, संस्कृति और धर्म द्वारा प्रभावित होकर इसी में लीन हो जायें। उपनिषदों के प्रादुर्भाव काल में यज्ञ तथा अन्य दूसरे कृत्यों के विरुद्ध रहस्यवाद का जन्म हुआ। यह रहस्य-भावना जो भक्ति और प्रेम से समन्वित थी धीरे धीरे जन साधारण के विचारों पर अपना प्रभाव डालने लगी। प्रेम और भक्ति की यह भावना इतनी गहरी थी कि बौद्धिक दर्शन जो बुद्धिवाद का फल था प्रेम और भक्ति से प्रभावित हो चला। इस्लाम के भारत में प्रवेश करने पर भारतीय साधकों को यह चिन्ता हो चली कि भारतीय कहीं इन नवागत जन समुदाय के विचारों द्वारा पराजित न हो जायें। अतः भारतीय साधक इस नवीन परिस्थिति का सामना करने के हेतु संनद्ध हो गये। उन्हें अपनी विस्मृत भक्ति-भावना का आधार मिला जोकि आध्यात्मिक आधार शिला पर स्थित रहकर सर्वजन हिताय स्वयंक्रं उन्मुक्त किये थी। रामानन्द ने जनसाधारण की भाषा में सब लोगों को ज्ञान और भक्ति का उपदेश दिया। नवागत मुस्लिम विचार-धारा पर भी भारत की संस्कृति का प्रभाव पड़ा। यहा की जनता को मुसलमान बनाने में मुस्लिम साधकों या सूफियों का बड़ा हाथ रहा है। ये नवागन्तुक साधक सर्वप्रथम पंजाब एवं सिंध में आये।

मखदूम सैयद अली—अलतुहज्विरी दातागन्ज वख्त के नाम से जनसाधारण में प्रसिद्ध थे। इनका निवास स्थान जुल्लाव और तुज्विर गजनी के पास था अतः लोग

उन्हें अलजुल्लावी भी कहकर पुकारते थे। इन्होंने अपने जीवनकाल में अनेक देशों का भ्रमण किया और अन्त में पंजाब में आकर प्रचारकार्य प्रारम्भ किया। भट्टी दरवाजा लाहौर में इनकी कब्र पर अनेक हिन्दू तथा मुसलमान पूजा करने आते हैं। इनकी मृत्यु १०७२ ईस्वी तथा ४६५ हिजरी में हुई थी। वृहस्पतिवार को, विशेषकर श्रावण मास के अन्तिम वृहस्पति को इनकी कब्र पर बड़ा मेला लगता है। कहा जाता है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबउद्दीन काकी, बाबा फरीदुद्दीन आदि को यहीं पर आकर सत्य का आभास हुआ था। अलहुज्वरी द्वारा रचित ग्रन्थ 'कश्फुल महजूब' के नाम से प्रसिद्ध है। जनसाधारण के विश्वासानुसार सूफीमत के ये प्रथम आचार्य हैं जो भारत आये।

'कश्फुल महजूब' में इनका कथन है कि साधक को लगभग तीन साल तक गुरु के पास उनके संरक्षण में रहना चाहिये। प्रथम वर्ष में उसे अहंकार से छुटकारा पाकर मानवता की सेवा करनी चाहिये तथा द्वितीय वर्ष में उसे अपने सारे कार्यों को ईश्वरोन्मुख कर देना चाहिये और अन्तिम वर्ष में आत्मतत्व समझने का प्रयत्न करना चाहिये। हुज्वरी के अनुसार दरिद्रता में जीवन व्यतीत करने का अर्थ है सांसारिक विषयों की लिप्ता का सर्वथा त्याग करना, निष्काम होकर ईश्वर साधना को ही हुज्वरी 'फना' कहते थे। फना की ओर अग्रसर होमे की व्यवस्था को वे हाल भी कहते थे।

यद्यपि अलहुज्वरी ने अपने ग्रंथ में १२ सूफी सम्प्रदायों का उल्लेख किया है किन्तु भारत में विशेष रूप से प्रसिद्ध होने वाले चार सम्प्रदाय हैं।

चिश्तिया

चिश्तिया सम्प्रदाय के संस्थापक ख्वाजा अबू इशाक शामी चिश्ती माने जाते हैं जिनका सम्बन्ध अली से लगाया जाता है। किन्तु चिश्ती सम्प्रदाय का भारत में आगमन इन्हीं हुज्वरी के पश्चात् हुआ। ख्वाजा अहमद अब्दुल चिश्ती (मृत्यु ६६६ ई०) यद्यपि दसवीं सदी के साधक थे किन्तु उनके विचार भारत में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा १२वीं शताब्दी में आये। ये कई स्थानों का भ्रमण कर चुके थे तथा कुछ दिन देहली में भी रहे। देहली को अपने विचारों के प्रचार के उपयुक्त न पाकर अजमेर में हिन्दुओं के तीर्थस्थान पुस्कुर चले गये। वहीं पर इनकी मृत्यु सन् १२३६ में हो गई। सूफी साधकों में इनका बड़ा सम्मान रहा और इसी कारण इन्हें लोग "आफतावे हिन्द" भारत-भास्कर कह कर पुकारते रहे हैं। अकबर सम्राट भी इनका बड़ा सम्मान करता था। इनके समाधिस्थान में हिन्दू पूजा-मन्दिरों की भौति नवादत-खाने से प्रति तृतीय घंटे पर गायन तथा वादन होता है। समाधि-स्थल पर देवेदासियों की भौति गायन पटु वालाये भी धनवान श्रद्धालुओं के आग्रह पर संगीत की स्वरलहरी से समाधि-स्थल को गुन्जायमान कर देती हैं। पुस्कुर में हुसेनी ब्राह्मण नामक एक जाति है जो हिन्दू मुस्लिम धार्मिक मतभेद के खोखलेपन को स्पष्ट और प्रत्यक्ष करती है। इस जातिवाले मुसलमानों के कर्मकाण्ड को वहीं तक ग्रहण करते हैं जहाँ तक उसका विरोध हिन्दूधर्म से नहीं होता। उनकी स्त्रियाँ भी हिन्दू महिलाओं की भाँति

ही रहती हैं, भिन्नाटन पर जाते समय ये लोग हुसेन नाम लेकर भिन्ना ग्रहण करते हैं। मलकाना (मलखान) राजपूत भी इसी प्रकार का एक जानि वर्ग है जो पूर्ण हिन्दू होते हुये भी मुस्लिम आचार विचारो से प्रभावित है। शाहहुल्ला सम्प्रदाय वाले भी अथर्ववेद को प्रामाणित मानते है। निष्कलंक सम्प्रदाय हिन्दू मुस्लिम सामन्जस्य का महान प्रतीक है। फरगना के ख्वाजा कुतुबउद्दीन काकी भी चिश्तिया सम्प्रदाय के थे तथा उनका प्रचार कार्य सम्भवतः देहली प्रान्त के आसपास ही था। उनकी मीनार कुतुबमीनार के ही पास है जहाँ असंख्य साधक अब भी एकत्र होते है।

शेख फरीरुद्दीन शकरगंज चिश्तिया भी प्रमुख चिश्ती साधकों में है। माधुर्य-भाव की साधना ने उनके लिये 'शकरगंज' उपनाम उपयुक्त बना दिया। इन्हीं के प्रचार कार्य के कारण सूफीमत दक्षिण पंजाब में फैला। शेख जी का कथन था कि स्वर्ग का मार्ग अत्यन्त सँकरा है। सम्भवतः इसी विचार के कारण इनकी समाधि की दीवाल में एक सँकरा मार्ग बना दिया गया है जिसे 'स्वर्ग द्वार' कहते हैं। मुहर्रम की रात्रि को लोग इस द्वार से निकलने का प्रयास करते हैं। इनकी मृत्यु लगभग सन् १२६५ ई० में हुई थी। प्रसिद्ध कवि शेख सर्फउद्दीन इन्हीं की वंशपरम्परा में थे जो अपने उपनाम 'पजमूल' से अधिक प्रसिद्ध हैं।

अहमद साविर (मृत्यु सन् १२६१) का चिश्तिया सम्प्रदाय में एक उपसम्प्रदाय है। इसकी नींव डालने वाले साविर साहब थे जिससे सम्प्रदाय का नाम साविरचिश्तिया पड़ा। इनका प्रचार क्षेत्र रुझकी के आसपास था।

निजामुद्दीन औलिया (जन्म सन् १२३८) शकरगन्ज चिश्तिया के प्रधान शिष्यों में थे। इनका जन्म बदायूँ में हुआ था। कवि खुरो तथा अमीर हुसेन देहलवी इनके शिष्य थे। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन वरानी भी इन्हीं की शिष्य परम्परा में रहे हैं।

शेख सलीम चिश्ती (मृत्यु सन् १५७२) अकबर के समकालीन थे। कहा जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से सम्राट जहाँगीर का जन्म हुआ था और अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इनकी दरगाह बनवाई थी।

सिन्ध तथा पंजाब के कुछ प्रदेशों में चिश्तिया साधना का प्रचार ख्वाजा मुहम्मद ने किया था, जो सन् १७६१ को मृत्यु को प्राप्त हुये।

सुहर्वादिया:

चिश्तिया सम्प्रदाय के पश्चान् सुहर्वादिया सम्प्रदाय की प्रधानता भारत में हुई। इस सम्प्रदाय का इतिहास यहाँ पर शिहाबउद्दीन सुहरावर्दी के वगदाद से आये हुये शिष्यों से प्रारम्भ होता है। वहाउद्दीन जकारिया मुल्तानी ने ही इस सम्प्रदाय की नींव यहाँ पर डाली जो शिहाबउद्दीन के शिष्य थे। सुहरावर्दी सम्प्रदाय के अन्तर्गत भी कई शाखायें हो गईं। इनकी प्रधान विशेषता यह थी कि इन्होंने अपनी सम्प्रदाय की नियमावली ठेठ इस्लाम धर्म की स्वीकृत बातों के विपरीत बनाने की कोशिश की;

इसी कारण ये लोग मलामती (निन्दनीय) कहलाये तथा उनका वर्गीकरण भी वाशरा (वैध) एवं वेशरा (अश्वैध) के संकेतों द्वारा किया गया ।

वाशरा सुहर्वादीयों के अन्तर्गत सर्वप्रथम जलाली शाखा आती है । सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश "शाहमीर" (मृ० ११६२ ई०) बुखारा निवासी थे जिन्होंने इस विचार-धारा का श्रोत प्रवाहित किया । ये वहाउद्दीन जकारिया के शिष्य थे । इनका प्रचार-केन्द्र सिन्ध ही रहा । इनके पौत्र अहमद कवीर (मृ० १३८४ ई०) भी प्रसिद्ध साधक थे । ये मखदूमे-जहानिया के नाम से भी प्रसिद्ध रहे हैं । इस शाखा वाले अपने शिर पर काले धागे बांधते हैं, बाहो पर तावीज़ तथा हाथ में श्रु गी लिये रहते हैं जिसे आवेश में आकर कभी कभी वजाने हैं । मखदूमे जहानियों ने अपनी एक 'मखदूमी शाखा' चलाई थी । इसी प्रकार सुर्खपोश के वंशज मीरान मुहम्मद शाह ने 'मीरानशाही' शाखा को जन्म दिया । इन्होंने अकबर द्वारा सम्मान भी पाया था । जकारिया की चौदहवीं पीढी के हाफ़िज़ मुहम्मद इस्माइल (मृ० सन् १७४०) ने 'इस्माइलशाही' शाखा को जन्म दिया । इस शाखा के लोग लाहौर के आस पास पाये जाते हैं । जकारिया की आठवीं पीढी के दौलतशाह ने अपने नाम पर 'दौलतशाही' शाखा चलाई जिसका प्रचार-क्षेत्र भी पंजाब ही रहा । वाशरा सुहर्वादीयों की इन पाँचों शाखाओं ने अपने को अधिकांश वैध रूप से ही चलाने की चेष्टा की है ।

सुहर्वादी

जलाली-शाखा	मखदूमे-जहानिया	मीरानशाही	इस्माइलशाही	दौलाशाही
(सैयद जलालुद्दीन)	(सुर्खपोश अहमद कवीर)	(मीरान मुहम्मदशाह)	(मुहम्मद इस्माइल)	(दौलत शाह)

वेशरा सुहर्वादी—की दो प्रधान शाखायें हैं—'लालशाह वाजिया' तथा 'रसूलशाही' । लालशाहवाजिया शाखा को वहाउद्दीन जकारिया के शिष्य लालसाहवाज ने चलाया था । ये स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति थे और इस्लाम धर्म की मूल मान्यताओं को भी विशेष महत्त्व नहीं देते थे । मदिरापान से इन्हें विशेष प्रेम था ।

रसूलशाही शाखा की स्थापना अलवर के एक रसूलशाह नामक व्यक्ति ने की थी जो पीर नियामतुल्ला का शिष्य था । उन्होंने अपने यहां भंग पीने की प्रथा चलाई । रसूलशाही शिर पर लाल व श्वेत रुमाल बांधते हैं । सिर मूछें एवं भवें तक मुड़वा देते हैं और शरीर में भस्म लगाते हैं तथा मादक वस्तुओं का उपभोग अश्वैध नहीं मानते हैं ।

इसी शाखा में मूसा सुहाग (मृत १४४६ इस्वी) नामक साधक भी था जो हिजड़ों की भाँति जनाने वस्त्र पहना करता था । इसने 'सुहागिया' शाखा को जन्म दिया जिसका

प्रचार-क्षेत्र अहमदाबाद के आस पास था । ईश्वर को पति मान कर ये लोग उसकी उपासना किया करते हैं ।

कादिरिया:

सूफीमत की तीसरी शाखा कादिरिया का भारत में प्रवेश इसके मूल प्रवर्तक अब्दुल कादिर जिलानी (मृ० सन् ११३४-१२२३) के लगभग तीन सौ वर्ष पश्चात् हुआ । भारत में इसके प्रथम प्रचारक सैयद मुहम्मद गौस 'वाला पीर' (मृ० सन् १५१७) थे जो जिलानी की दसवीं पीढी में थे । इनका जन्मस्थान एलिप्पो था, भ्रमण करते हुये ये भारत में आये तथा अपना निवासस्थान सिन्ध में उच्च नामक स्थान को चुना । अब्दुल जिलानी का नाम यहा पहिले से ही प्रसिद्ध था । निदान सैयद गौस की ख्याति बढ़ने में देर न लगी । धीरे धीरे सुल्तान सिकन्दर लोदी भी इनके शिष्य हो गये और अपनी लड़की की शादी इनसे करके फकीरों के उच्च सामाजिक स्थान की पुष्टि की ।

कादिरिया सम्प्रदाय की एक शाखा 'कुमेशिया' की स्थापना जिलानी की सत्रहवीं पीढी के शाह कुमेश ने की थी । इसका प्रसार बंगाल में हुआ । रावलपिन्डी में लतीफवारी के शिष्य बहलूलशाह की 'बहलूलशाही' शाखा पाई जाती है । लाहौर के आस पास 'मुकीमशाही' और पश्चिम भारत के कुछ प्रान्तों में हाजी मुहम्मद की 'नौशाही' शाखायें मिलती हैं । नौशाही के अनुयायी कादिरिया सम्प्रदाय के विरुद्ध संगीत को महत्व देने लगे हैं । इसी प्रकार शाहलाल हुसेन (मृ० सन् १५६६) द्वारा प्रवर्तित हुसेनशाही शाखा में नृत्य आदि वैध है । इन सभी शाखाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध 'मियाखेल' नामक शाखा है जिसे मिया मीर (सन् १५५०-१६३५) ने प्रचलित किया था । ये मूलतः सीस्तान के निवासी थे और अकबर के शासनकाल में लाहौर आये थे, शाहजादा, दाराशिकोह इनके शिष्य मुल्लाशाह का मुरीद था । दाराशिकोह ने मिया मीर की एक जीवनी 'सकीनतुल औलिया' नाम की लिखी है जिसमें उसने इन्हें महान त्यागी एवं तपस्वी सिद्ध किया है । मिया मीर के प्रमुख शिष्य मिया नत्या थे जिनकी समाधि लाहौर में वर्तमान है । मुल्लाशाह का प्रचार क्षेत्र काश्मीर था ।

नक्शबन्दिया:

सम्प्रदाय को ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने चलाया था । इनका देहान्त सं० १४४६ में ईरान में हुआ था । इसकी सातवीं पीढी में ख्वाजा वाकी नित्ला वेरंग (मृ० सं० १६६०) हुये जिन्होंने नक्शबन्दिया सम्प्रदाय का प्रचार भारत में किया । इस सम्प्रदाय का नाम नक्शबन्दिया सम्भवतः इसी कारण पड़ा कि सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक कपड़ों पर चित्र छापकर जीविकोपार्जन किया करते थे । रोज साहब ने किसी मुसलमान लेखक के आधार पर यह भी लिखा है कि यह पदवी उन्हें इस कारण मिली कि मूल प्रवर्तक बहाउद्दीन आध्यात्म विद्या सम्बन्धी गूढ से गूढ बातों का मानसिक चित्र प्रस्तुत करने में समर्थ थे । भारतीय प्रचारकों में सर्वाधिक श्रेय अहमद फारुखी को मिलना चाहिये । इन्होंने सुन्नी मत का समर्थन किया और इसी कारण जहागीर के मन्त्री आसफजाह ने इन्हें तीन वर्ष तक कारावास में बन्द रखा । मुक्त होने पर इनका सम्मान और भी बढ़

गया। औरंगजेब इनके पुत्र मासूम का सुरीठ था। अहमद फारुखी की सुधार-भावना ने कुछ दिनों के लिये संगीत, नृत्य, साष्टांग दंडवत आदि अनेक प्रकार के वाह्य प्रदर्शनों का अन्त कर दिया। इन्होंने सूफियों की 'बुजूदिया' एवं 'शुदूदिया' शाखा में भी मनैक्य स्थापित करना चाहा और सिद्ध किया कि प्रारम्भ में सभी बुजूदिया होते हैं क्योंकि वे परमात्मा तथा सृष्टि में सम्यक् भेद नहीं कर पाते किन्तु क्रमशः अध्यात्मिक विकास हो जाने पर वे इन दोनों का भेद भली भाँति समझकर शुदूदिया हो जाते हैं।

अन्य सम्प्रदाय :

उपरोक्त प्रधान सम्प्रदायों के अतिरिक्त और भी अनेक सम्प्रदाय हैं जिनका पता उनके मूल प्रवर्तकों के साथ ठीक ठीक नहीं चलता। मूल प्रवर्तक के अभाव में उनका सम्बन्ध मुहम्मद साहब अथवा किसी प्राचीन पीर के साथ जोड़कर काम चलाया जाता है। 'उवैसी', 'मदारी' तथा 'शत्तारी' सम्प्रदाय इसी वर्ग में आते हैं। उवैसी सम्प्रदाय किसी उवैशुल करनी नामक साधु द्वारा प्रचलित माना जाता है। इस सम्प्रदाय के अनुयायी कष्टसाध्य क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। भारत में इनका अभाव है किन्तु तुर्किस्तान में ये लोग अब भी मौजूद हैं। कुछ लोग इन्हें यहूदी बताते हैं किन्तु अन्य लोग इनका सम्बन्ध अरबों से जोड़ते हैं। कुछ भी हो, मदाराशाह बाहर से ही आये थे। सर्वप्रथम ये अजमेर पहुँचे किन्तु बाद में अपना प्रचार क्षेत्र इन्होंने जिला कानपुर बनाया। मनकपुर नामक स्थान में इनकी मृत्यु सं० १५४२ में हो गई जहाँ पर आज भी इनके नाम पर मेला लगा करता है। शत्तारी सम्प्रदाय के प्रवर्तक शेख अब्दुल्ला शत्तार नामक व्यक्ति माने जाते हैं। इनका सम्बन्ध शिहाबउद्दीन सुहरावर्दी से स्थापित किया जाता है। शत्तार शब्द का अर्थ एक विशेष साधना के लिये आता है जिसके द्वारा 'फना' और 'वक्फा' की प्राप्ति शीघ्र सम्भव हो जाती है। भारत में आकर अब्दुल्ला जौनपुर में रहे। बाद में मालवा प्रान्त के माहू नगर में जाकर बस गये जहाँ इनकी मृत्यु १४८५ में हो गई। प्रसिद्ध सूफ़ी शाह मुहम्मद गौस भी इसी सम्प्रदाय के थे। इनको हुमायूँ द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ था। इनकी मृत्यु सं० १६२० में हुई।

“कलंदरिया” और “मालमती” सम्प्रदाय भी ऐसे ही हैं जिनके विषय में अधिक सूचना नहीं मिलती। कलंदर शब्द के अर्थ निश्चित नहीं हो सके हैं। सीरियन भाषा के आधार पर कुछ लोग इसे ईश्वर विषयक मानते हैं किन्तु दूसरे विद्वान इसे फारसी शब्द 'कलातर' (प्रधान व्यक्ति) अथवा 'कलंतर' (शुष्क व्यक्ति) से निकला हुआ बताते हैं। दूसरा अनुमान यह भी है कि कलन्दर शब्द तुर्की 'करिंद' वा 'कलंदारी' का रूपान्तर है जो पाने के लिये प्रयुक्त होता है। तुर्की शब्द 'काल' से भी इसका सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है जिसके अर्थ विशुद्ध एवं पवित्र होते हैं।

कलन्दर फकीर भ्रमणशील हुआ करते हैं तथा धार्मिक आचार विचारों के प्रति बड़े सहिष्णु होते हैं। भारत में इसका प्रचार सर्वप्रथम नजमुद्दीन कलन्दर द्वारा हुआ जो

नजीमउद्दीन औलिया के मुरीद थे। कहा जाता है कि उनके वक्तःस्थल से अल्लाह के सँक्षिप्त नाम 'हू'की ध्वनि निकला करती थी। इनका देहान्त सं० १५७५ में हो गया। मलामती सम्प्रदाय के मूल संस्थापक जूलनून मिस्त्री समझे जाते हैं। विचार स्वातंत्र्य इस सम्प्रदाय वालों की विशेषता है। विभिन्न सम्प्रदायों से सम्बन्ध-विच्छेद करके लोग इसे अपना लेते हैं क्योंकि इसकी प्रधान विशेषता है अनियंत्रित जीवन, जिनमें मादक वस्तुओं का सेवन, संगीत, वाद्य एवं नृत्य तथा इन्द्रजाल प्रदर्शन सभी कुछ आ जाता है। भारत में इस सम्प्रदाय का प्रवेश किसके द्वारा हुआ अभी तक ज्ञात नहीं है।

सूफीमत का प्रथम चरण पश्चिमी भारत, (काश्मीर, सिंध तथा गुजरात) में पड़ा। देहली के सुल्तान किसी न किसी सूफी साधक के शिष्य या मुरीद बन जाते थे या उन्हें विशेष सम्मान प्रदान करते थे। सूफियों का देहली में प्रभाव होने के कारण, उत्तर प्रदेश में इनका फैलना कठिन न रहा। सूफीमत के प्रचारकों के दर्शन बंगाल तक उपलब्ध होते हैं। मुगल राज्य के विस्तार के साथ साथ सूफियों का प्रसार हुआ। शाहबाजलाल सुहर्वर्दी ने बंगाल को अपना प्रचार क्षेत्र बनाया। बंगाल के बाउलों पर इसका स्पष्ट प्रभाव दीख पड़ता है। शाह जलाल अपने अंत समय (सन् ११८७ ईसवी) सिलहट में रहे। मखदूम-शाह ने बिहार में अपने विचारों का प्रचार किया। इस्लाम का प्रवेश दक्षिण भारत में तो बहुत पहिले से था। बहाउद्दीन नकशबंद द्वारा स्थापित तथा क्रयूमों द्वारा प्रसारित एवं औरंगजेब की दक्षिण विजय द्वारा प्रतिष्ठित सूफीमत दक्षिण में पुष्ट हो गया।

सूफी साधकों ने अपने को इस्लाम धर्म से दूर न हटने दिया। उनका दर्शन कुरान के आधार पर टिका हुआ था किन्तु सूफियों के भरसक प्रयत्न करने पर भी कुछ धर्म-धुरन्धरों ने उन्हें इस्लाम धर्म के प्रतिकूल घोषित कर दिया। इस आक्षेप को मिटाने के लिये सूफी सदैव प्रयत्नशील रहे हैं। मुहम्मद फजल अल्लाह ने ग्रन्थ 'अल तुहुफुल अल मुरसालिल नबी' में यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है कि सूफीमत कुरान के विपरीत विल्कुल भी नहीं है। लेखक की मृत्यु सं० १६२० में हुई थी।

अकबर के समय तक सूफीमत प्रेमभक्ति पर आधारित होकर सर्वमान्य हो चुका था। इसका प्रवर्तन मुसलमानों की ओर से निजामउद्दीन औलिया की अध्यक्षता में हुआ था। शनै शनै सूफीमत में भारतीय संगीत, नृत्य, देवोपासना की भावना योगियों की चमत्कार वादी पद्धति आदि का भी समावेश हो चला। इस प्रकार हल्लाज का विश्वात्मवाद, इब्न अरबी का ब्रह्मवाद, चिश्निया सम्प्रदाय का आवेशवाद, नकशबंदियों का धर्मशास्त्रवाद, इमाम गज्जाली का नैतिक-आचरणवाद, हाफिज का ऐन्द्रियतावाद, कलन्दरों का चमत्कारवाद तथा मलामतियों का अनियंत्रणवाद आदि चल पड़े। इस समन्वय से ऐसा चित्र उपस्थित हो गया जिसका एक विशेष नाम रखना अथवा इस्लाम का अनुमोदी ठहराना कठिन हो गया। ऐसी ही मिली जुली अवस्था के कारण औरंगजेब की कट्टरता पर सरमद को प्राणाहुति देने पड़ी।

सूफीमत ने इस्लाम को प्रेम की भावना तथा सत्पुरुषों के आदर्शों से ऐसा अनुरजित

किया कि इस्लाम की कट्टरता क्षीण होगई क्योंकि भारतीय आरम्भ से ही प्रेम और भक्ति के उपासक रहे हैं ।

सामन्त प्रथा से जर्जरित मध्ययुगीन भारत की धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचार-धारायें संकुचित हो गई थी । कर्मकाण्ड की अधिकता, अंधविश्वास का प्रचलन एवं ब्राह्मण-धर्म की क्लिष्टता तत्कालीन विशेषतायें थीं । ऐसे ही समय जब सूफियों ने सर्वजनग्राह्य प्रेम-भावना पर आधारित स्वमत का प्रचार किया तो अधिकांश जनता इनकी ओर आकर्षित हुई । मुसलमान धर्म तथा समाज के प्रति सहानुभूति जाग्रत करने का श्रेय मुसलमान साधकों तथा सन्तों को है ।

स्वसंस्कारों से अनभिज्ञ, निम्नवर्ग के लोग नवीन धर्म की ओर आकर्षित होते गये । इस्लाम ग्रहण करनेवाली जनता यदि जान पाती कि उसके अपने ही धर्म और देश में ये भावनायें तथा विचार प्राचीन काल से वर्तमान रहे हैं तो सम्भव था कि सूफीमत का प्रचारक स्वरूप यहाँ पर अधिक सफलता न प्राप्त कर पाता और इस्लाम की इतनी वृद्धि न हो पाती । अन्य धर्मों के समान सम्भवतः इस्लाम भी भारतीय चिन्तन में घुलमिल जाता । सूफियों की आदर्शवादिता एवं प्रेम भावना ने भारत में इस्लाम को पुष्ट किया । सूफियों ने कभी संघर्ष नहीं होकर इस्लाम का प्रचार नहीं किया किन्तु फिर भी उनका इस्लाम की वृद्धि में बड़ा हाथ है । यहाँ पर इस्लाम फैलने के मुख्य कारणों में तत्कालीन जाति भेद, आर्थिक प्रलोभन, स्वधर्म अज्ञान, शासकों का अत्याचार, धर्म परिवर्तन के द्वारा दण्ड एवं कर से छुटकारा तथा सूफियों की प्रेम एवं सहृदयता से भरी प्रचार प्रणाली प्रमुख थीं । लालच या भय के कारण धर्म परिवर्तन करने वाले हिन्दुओं की संख्या नगण्य है । अधिकांश निम्नवर्ग की जातियों ने या तो जाति व्यवस्था की कटुता के कारण धर्म परिवर्तन किया या सूफियों के प्रेमप्रचार से प्रभावित होकर वे इस्लाम धर्म में दीक्षित हो गये ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सूफी सम्प्रदाय के अनुयायियों में अपने प्रथम या आरम्भिक युग में भय एवं दण्ड की भावना की प्रधानता थी । इस युग के सूफियों को सदैव अपने कृत्यों पर पश्चात्ताप एवं ईश्वरीय दण्ड का भय लगा रहता था । निर्धनता में जीवन बिताना वे श्रेष्ठ समझते थे तथा सासारिक जीवन से दूर रहते थे । इस युग के प्रधान सूफी साधक इब्राहिम बिन अदम, फुजायल बिन अजम, राबिया अल अदाविया थे ।

द्वितीय युग में नवीन तत्वों का समावेश हुआ । प्रथम युग का अन्न होते होने संन्यास प्रधान सूफीमत में प्रेम भावना का समावेश राबिया ने कर दिया था । इसके अनिरिक्त जुलनून मिस्री एवं मन्सूर ने बुद्धि एवं तर्क को भी सूफीमत में स्थान दिया । ये साधक जिज्ञासु थे तथा अपनी तुष्टि के हेतु प्रत्येक दर्शन एवं सम्प्रदाय की बातों को आदर की दृष्टि में देखते थे । ये अत्यन्त उदार तथा चिन्तनशील थे । ईश्वर और मनुष्य के मध्य ये किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते थे । इसी कारण इनका धार्मिक प्रतिनिधियों (मुल्ता, काजी एवं मौलवियों) तथा राजनीतिक प्रतिनिधियों

(सुल्तान) से विरोध रहता था । फलस्वरूप ये यदाकदा दण्डित भी होते रहते थे । इस युग के प्रमुख साधक मारुफुल कर्खी, अबू सुलेमान दारानी, जुलनून मिस्की, अल बिस्तानी, अल जुनैद, शिबली एवं हल्लाज थे ।

तृतीय युग में सूफी सम्प्रदाय इस्लाम धर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है । द्वितीय युग के प्रसिद्ध सूफी अलजुनैद ने जिस गुह्य समन्वयवादिनी दृष्टिकोण का परिचय दिया था उसकी पूर्ण परिणति गज़ाली के प्रयास में हुई ।

सूफी मत की वास्तविक रूपरेखा समझा सकने एवं सनातन पन्थी इस्लाम तथा सूफी-मत में सामञ्जस्य स्थापित करने के कारण गज़ाली 'हुज्जुल इस्लाम' या 'इस्लाम का व्यास' भी कहा जाता है । इनकी सफल मीमांसा ने सूफी मत को सदा के लिये इस्लाम का एक अंग बना दिया । अब सूफी साधक उदारचेता होने के साथ ही साथ इस्लाम के प्रचारक भी थे । ऐसी ही अवस्था में सूफीमत का प्रवेश भारत में हुआ । ये सूफी साधक स्वतन्त्र रूप से तथा मुस्लिम आक्रमणकारियों तथा व्यापारियों के साथ ही साथ भारत में आये और यत्रतत्र अपना प्रचार स्थान बनाकर रहने लगे ।

भारत में आने वाले अन्य सूफी सम्प्रदायों में चिशितया, नकशबंदिया, कादिरिया एवं सुहरावर्दिया ये चार प्रमुख हैं । चिशितया सम्प्रदाय के ख्वाज़ा मुईनुद्दीन चिशती, नकशबंदिया के ख्वाजा बाकी निल्लावेरंग, कादिरिया के सैयद मुसम्मद गौस वाला 'पीर' तथा सुहरवर्दिया शाखा के बहाउद्दीन ज़कारिया एवं हाफिज़ मुहम्मद इस्माइल की यथेष्ट ख्याति है । हिन्दी के अधिकांश सूफी कवियों का सम्बन्ध चिशितया सम्प्रदाय से है । सूफीमत के आविर्भाव एवं विकास का संक्षिप्त विवरण सूफी कवियों की विचारधारा को स्पष्ट करने में सहायक होगा ।

सूफी-दर्शन

प्रचलित धारणा के अनुसार दर्शन, तर्क एवं संशय का परिणाम है। विश्वास और आस्था से अधिक जानने की जिज्ञासा शांत करने के लिये तर्क-पद्धति के द्वारा विवेकी जिज्ञासु एक निश्चित तथ्य खोजने का प्रयास करता है। भारतीय परम्परा में इसी संशय या संदेह को आशंका कहा गया है और आस्था को ज्ञान का कारण समझा जाता है। कठोपनिषद के नचिकेतोपाख्यान के द्वारा ऐसा ज्ञात होता है कि भारतीय विचारक जीवन की अनित्यता तथा मृत्यु भय के कारण आत्म-विद्या की ओर प्रवृत्त हुआ। संसार की प्रियातिप्रिय वस्तु नष्ट हो जाती है। इनकी अनित्यता ही व्यथा का कारण होती है। सुख अनित्य है, जीवन अनित्य है, अतः इन्हें नित्यता प्रदान करने की अभिलाषा मानव हृदय में सहज ही जाग्रत होती है। सृष्टि की अनित्यता एवं अनेकत्व में उस एक तथा नित्य के सामंजस्यपूर्ण दर्शन द्वारा इस समस्या का समाधान होता आया है। राज्यशक्ति भी अपने स्थायित्व के लिये शासक के रूप में ईश्वर की कल्पना करके शासन को धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षमता प्रदान करने की चेष्टा करती रही है^१।

दर्शन को कभी कभी सृष्टि के मूलतत्त्व की पहेली सुलभाने का प्रतिफल भी माना गया है। परिवर्तनशील सृष्टि में अपरिवर्तन-शील तत्व क्या है, एवं वास्तविक अस्तित्व क्या है, आदि प्रश्नों पर विचारविमर्श दर्शन के अंतर्गत आता है। जीवन के अस्तित्व को समझने के प्रयास में ही संसार की उत्पत्ति और विनाश, सृष्टि उत्पत्ति के कारण, उत्पत्ति कारक या कर्ता का स्वरूप आदि विचारों का विकास भी होता गया।

दर्शन का एक और तात्पर्य, तर्क के द्वारा जीवजगत सम्बन्धी विचारों की स्थापना भी माना जाता है। तर्क सिद्धान्त स्थापन की एक प्रणाली है, तर्क को सिद्ध न मानकर भी आचार्यों ने सदैव अपनी स्थापनाओं को तर्क के आधार पर ही सिद्ध करने का प्रयास किया है। तर्क का स्थान सूफी दर्शन में महत्वपूर्ण अवश्य है; किन्तु परमेश्वर का अनुग्रह, उस पर हृद आस्था एवं प्रेम ही उसमें प्रधान है।

१. "महती देवता ह्येषा नररूपा तिष्ठति....."

दर्शन या चिन्तन पद्धति का प्रारम्भ हो जाने पर उसकी अपनी परम्परा बन जाती है और साथ ही सर्वत्र चिन्तन पद्धति के इतिहास में उसकी दो धारायें स्पष्ट लक्षित होती हैं। एक धारा तो विधिविधान, पूजा, उपासना, समाज और राजनीति की तत्कालीन व्यवस्था को स्वीकार कर उसका आध्यात्म या चिन्तन के साथ सामन्जस्य करना चाहती है और दूसरी इन्हें अमान्य कर केवल तर्क और बुद्धि के सहारे नवीन स्थापनायें करती चलती हैं।

सूफियों में चिन्तन पद्धति का विकास चाहे जिस रूप में हुआ हो परन्तु उसका स्वरूप सदैव इस्लामी रहा। सूफी चिन्तन पद्धति में भी अन्य दर्शनों की भाँति दो धाराओं का स्पष्ट दर्शन होता है जिन्हें 'बाशारा' एवं 'बेशारा' नाम से अभिहित किया जाता है। सूफी सम्प्रदाय में स्वतन्त्र चिन्तकों को आजाद कहते हैं। मन्सूर, सरमद आदि ऐसे ही स्वतन्त्र चिन्तक थे, जिन्हें इस्लाम ने जिन्दीक समझकर प्राण-दण्ड दिया। अधिकांश सूफी सनातनपंथी इस्लाम धर्म से विरोध नहीं करना चाहते थे और भरसक प्रयत्न करते रहे कि उनकी बातें इस्लाम धर्म-ग्रन्थों के द्वारा पुष्ट हों, फिर भी भिन्न-भिन्न देशों, सामाजिक परिस्थितियों एवं विचार पद्धतियों का प्रभाव निरन्तर पड़ते रहने के कारण इस्लामेतर भावनाओं और विचारों का समावेश इसमें हो ही गया है। विचार परम्परा कभी भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो पाती। राजकीय विधान एवं सामाजिक स्थितियाँ उस पर प्रभाव डालती रहती हैं।

मुहम्मद साहब के निधन के उपरान्त मुस्लिम सभ में दीन और ईमान को लेकर अनेक प्रश्न उठे और उनके समाधान के लिये तर्क और बुद्धि का आश्रय लिया गया। मुहम्मद साहब और कुरान, अतलाह और मुहम्मद साहब, मुहम्मद साहब तथा साधारण व्यक्ति और अतलाह के सम्बन्धों का स्पष्टीकरण न हो सकने पर इस्लामनुयायी बुद्धि का आश्रय ग्रहण करने को बाध्य हुये, किन्तु इस दार्शनिक विचारधारा का मूल आधार कुरान ही रहा। कुरान में कथित संकेतों के आधार पर सूफी चिन्तकों ने नवीन उद्भावनाओं की एव कुरान के वाक्यों की नवीन व्याख्यायें कीं, किन्तु कहीं भी इस्लाम या कुरान का विरोध करने का प्रयत्न नहीं किया गया।

किसी भी दार्शनिक मतवाद के उद्गम की खोज सहज नहीं होती। देशकाल के अनुबन्ध में चिन्तन विकास की स्थापना दार्शनिक मतवाद की परम्परा के इतिहास द्वारा की जा सकती है। यद्यपि सूफी मत के उद्भव के सम्बन्ध में कई सिद्धान्त प्रतिपादित किये जाते हैं जिनका वर्णन हम पीछे कर चुके हैं किन्तु इतना सभी मानते हैं कि सूफी मतवाद इस्लामी क्रोड़ में ही फला-फूला एवं उसने मूल रूप में सदैव कुरान को ही ग्रहण करने का प्रयास किया। अतः सूफी मतवाद के अन्तर्ग दार्शनिक विचारधारा को समझने के लिये कुरान में कथित तथ्यों का आश्रय आवश्यक है।

परमतत्व और उसका स्वरूप

इस्लाम तौहीद का मर्मथक है। अनेक देवताओं की स्थिति उसे अमान्य है, वह केवल एक ईश्वर की सत्ता स्वीकार करता है। वह ईश्वर इस सृष्टि का कर्ता, संहारक,

एवं रत्नक, सभी कुछ है। उसकी इच्छा प्रधान है, उसके एक शब्द 'कुन' मात्र से सृष्टि की रचना हो जाती है। इस प्रकार इस्लामी एकेश्वरवाद को हम वाह्यार्थवाद कह सकते हैं, क्योंकि वह जीवात्मा, परमात्मा और जड़जगत तीनों को पृथक तत्व मानता है। इस्लाम एक देववाद है, वह परमात्मतत्व की कल्पना स्थूल रूप में, एक (महा) देव के रूप में करता है। कुरान में ईश्वर या अल्लाह के स्वरूप के सम्बन्ध में लिखित आयतों में उसके कर्ता, रत्नक एवं संहारकस्वरूप का वर्णन है, साथ ही उसे सबसे महान इस अर्थ में कहा गया है कि संसार की सुन्दरतम कल्पना से भी वह अधिक सुन्दर एवं ऐश्वर्यवान है। पहले हम कुछ आयतों की चर्चा करके सूफी विचारधारा का विवेचन करेंगे। कुरान के अध्याय तीस की बीसवीं एवं चौबीसवीं आयत में अल्लाह की तीन महान शक्तियों, सृजन, पालन, एवं संहार का परिचय दिया गया है। 'अल्लाह के अस्तित्व का संकेत इस वान में मिलता है कि उसने तुम्हारी रचना धूलसे की, और देखो मानवमात्र कितने अधिक विस्तार में स्थित है' ^१।

उनके अन्य संकेतों में विजली भी एक है। विजली की चमक के द्वारा वह भय एवं आशा दोनों का संकेत देता है। वह बादलों से पानी बरसाता है जिससे मृत पृथ्वी पुनः जीवित हो उठती है, वास्तव में इन प्राकृतिक सत्तों से बुद्धिमान व्यक्ति उसकी स्थिति का आभास पाते हैं ^२।

इसी प्रकार सातसौ वानवे अध्याय में अल्लाह के एकत्व, असमानत्व एवं शाश्वतता का वर्णन किया गया है। 'अल्लाह वह है जो केवल एक है, शाश्वत है, स्वयंभू है, उसका कोई पुत्र नहीं न वह किसी की सन्तान है। उसके सदृश और कोई कहीं नहीं है' ^३।

इस कथन में 'अल्लाह एक है' के साथ ही उसके सासारिक सम्बन्धों से विहीनत्व का भी परिचय मिलता है, वह सृष्टिकर्ता होते हुये भी नियमों से परे, शाश्वत है।

अल्लाह सारे सदगुणों, ऐश्वर्यों एवं शक्तियों का समाहार है। वह एक ही, इस सृष्टि को सृजन एवं स्वरूप दान करने वाला है, वह एक ही इसकी रक्षा करता है। सासारिक सुन्दरतम उपकरण उसके अस्तित्व की घोषणा करते हैं। इसी तथ्य का विवरण हमें अध्याय उनसठ की आयतों में मिलता है। अल्लाह वह है जिसके अतिरिक्त और कोई देवता नहीं है। वह सब कुछ जानता है, जाहिर भी और वातिन भी, प्रकट भी और गुप्त भी। वह अनुकूल एवं महत् कृपाशाली है ^४।"

१. व मिन आयाते ही अन एलाकाकुम मिन नुराविन सुम्मा इजा अन्तुम व गरून तन्तगेरून।

२. व मिन आयाते ही यूरी कुमुल वरवा खोफम वा लमा अन व यूनुजिलो मिनस्समाये मा अन, फा मोह ई विहिल अरटा वादा मौति हा, यन्नी-जालिका ला आतातिल ले कौमी याकिलुन।

३. कुलवरलाहो अहदअल्लाटुस्समद लम यलिद वलम यू लद वलम यकुल्लह कोफोवन अदद

४. हुवरला हुवलज़ीद लाइलाहा इरलाह आलमुवलगैव वशशाहादते दुवररहमलुर रहीम।

‘अल्लाह वह है जिसके अतिरिक्त और कोई देवता नहीं है, वह महान शासक, पूत, शान्ति और पूर्णता का स्रोत, धर्मरक्षक, सुरक्षा-स्थापक, शक्तिसम्पन्न, अजय एवं महान है। अल्लाह अति महान है, इन सारे गुणों से भी वह ऊंचा है’^१।

‘अल्लाह वह है जो सृष्टिकर्ता, विस्तारकर्ता एवं दाता है। वह सभी गुणों एवं विभूतियों का अधिकारी है, जो कुछ स्वर्ग और भू पर है उसकी महानता एवं ऐश्वर्य को सूचित करता है, वह महान शक्तिशाली एवं बुद्धिमान है’^२।

इस प्रकार दूसरे अध्याय के दो सौ वाक्यों में भी अल्लाह के उत्पत्तिकारक रक्षक एवं संहारक स्वरूप का वर्णन अधिक है। उस एक के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है, वह चेतन एवं स्वयंस्थित शाश्वत है, वह कभी नष्ट नहीं होता न कभी थकता है। उसकी उपस्थिति में उसकी आज्ञा के बिना किसी की क्षमता बीच में पड़ने की नहीं है। वह सर्वज्ञाता है, उसकी इच्छा के बिना उसे कोई जान नहीं सकता, उसका साम्राज्य स्वर्ग और पृथ्वी पर है। वह सृष्टि के पालन एवं रक्षण में थकान का अनुभव नहीं करता क्योंकि वह अति महान एवं श्रेष्ठ है^३।

ऊपरलिखित इन आयतों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुरान में वर्णित अल्लाह सगुण एवं साकार है। ऐसे वाक्यों का भी अभाव नहीं जिनमें स्पष्ट है कि अल्लाह पूरव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सर्वत्र निवास करता है, जिधर देखो उधर उसका मुख है, वह हमारे गले की नस से भी अधिक निकट है उन सब आयतों का वर्णन करना अनावश्यक विस्तार होगा। कुरान के इन मूल उद्गारों के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु स्पष्ट यही है कि अद्वैतवाद वाली धारणा कुरान के एकेश्वरवाद में नहीं है। एकेश्वरवाद एकदेववाद है, केवल एक देव की सत्ता पर विश्वास करके उसी को मानवीय कल्पना के सर्वश्रेष्ठ गुणों एवं आदर्शों का पुञ्ज मानना पैगम्बरी एकेश्वरवाद हुआ और अद्वैतवाद हुआ सूक्ष्म आत्मवाद या ब्रह्मवाद, एकेश्वरवाद का अर्थ है कि एक सर्वशक्तिमान सबसे बड़ा देवता है जो सृष्टि की रचना पालन तथा नाश करता है, अद्वैतवाद का तात्पर्य है कि दृश्य जगत् के आधारस्वरूप उनके मूल में एक अखण्ड नित्य तत्त्व है, वही सत्य है। आत्मा परमात्मा में विशेष भेद

१ हुवल्ला हुल्लज़ीद लाहलाहा इल्लाहू अलमलेकुल उदसुस सलामुल मौमनुल मुहेमुनुल अज़ीज़ुल ज़ाहिरुल, मुतकद्विर, शुभानअल्लाहे अम यूशरेकून।

२ हुवल्लादुल खालेकुल वारेडल मुस्सविरु, लहुल अस्माडल दुस्ना, यूसव्वही, लहु माफिससमावाते वल अरत्रे वहुवल अज़ीज़ुल हकीम।

३ अल्लाहो लाहलाहा इल्लहुवल हीष्युल क्यूम लातान्जहू सिन तुम। वलानो लहु माकिसस मावाते व माकिल अदे मन्जल लजो दशक हो इल्लहू इल्ला वे इज़म ही यालयो मा वैना येनी हिम् वमा खल्कहुम वला यूही त्ना वे शयिम मिन इल्मे ही इल्ला विमाशा आ वजेआ कुर्सी आ हुश समावाते वल अर्ना वलायअदोहू हिक्जी हुआ वहुवल अलीकुल अज़ीम।

नहीं, इस दृश्य जगत के नानारूपों में उसी एक अव्यक्त का व्यक्त आभास पाया जाना है^१।

पैगम्बरी एकेश्वरवाद की कल्पना में सृष्टि और अल्लाह का जो पृथक्त्व है उसी के कारण पैगम्बर की महत्ता है, किन्तु सूफियों को यह पृथक्त्व सह्य नहीं था। वे भारतीय अद्वैतवाद की भाँति परमात्मा और आत्मा की एकता में मग्न होना चाहते थे, यद्यपि इस्लाम धर्मानुसार यह कुफ्र की बात थी। आरम्भ के कुछ सूफियों 'मन्सूर' इत्यादि को इसी एकत्व की भावना 'अनल्हक' (मैं ही ब्रह्म हूँ) का प्रतिपादन करने के कारण मृत्युदण्ड भोगना पड़ा था अतः सूफी सधकों को यह स्पष्ट हो गया था कि इस्लाम से पृथक् होकर वे अपनी पद्धति को स्थिर नहीं रख सकते। यही कारण है कि सूफी अपनी सभी उक्तियों को कुरान के कथन से पुष्ट करना चाहते हैं।

कुरान के ऐसे वाक्यों कि 'वही आरम्भ एवं अन्त है, गुप्त एवं प्रकट है, वह सर्वज्ञाता है^२, 'जहाँ कहीं भी तुम जाओ वह तुम्हारे साथ है^३'। 'वह मनुष्य के गले की नम से भी अधिक निकट है।^४' 'जिधर देखो उधर उसका मुख है^५' ने सूफियों की उदार भावना को सहारा दिया और उन्होंने अपने स्वतंत्र विचारों को 'तनज्जुल' के सिद्धान्त के द्वारा प्रकट किया। तनज्जुल का अर्थ अवतरण (Transition in descent) है, जिसके अनुसार अल्लाह सगुण रूप में अवतरित मान्य हुआ। अल्लाह के एकत्व से अनेकत्व की स्थिति प्राप्त होने तक सूफियों ने कई स्वरूपों की कल्पना की है। शुद्द (चेतना) नूर (ज्योति, तेजस), इल्म (ज्ञान), एवं वजूद (अस्तित्व) उसके ऐसे ही स्वरूप हैं। नवअफलातूनी (Neo Platonism) मत के अनुसार सूफीमत में भी एकत्व से अनेकत्व तक की उद्भावना के तीन प्रधान स्वरूप हैं। अपनी सर्वप्रथम अवस्था में वह (अलवजूदल मुतलक) केवल एकमात्र सर्वगुण, राग, सम्बन्ध रहित स्थित था। जिली ने अपने ग्रन्थ इन्सान-ए-कामिल में इसे स्पष्ट भी किया है। केवल वह, नाम, रूप, गुण तथा सासारिक सम्बन्धों से विमुक्त है। वह 'अहद' केवल या मात्र की अवस्था के पूर्व भी, अलअमा के रूप में वर्तमान था जिसे तत्व रूप में केवल तमस की भाँति शक्तिपूर्ण होते हुये भी-स्वरूप-हीन रूप में स्थित माना जा सकता है। अल-अमा की अवस्था का वाह्य रूप 'अहदियात' या केवल-मात्र है, अहद का पूर्वस्वरूप तमसावृत या अजेय है, बुद्धि की गति वहाँ तक नहीं, और इसी अग्रम्य अवस्था को अमा कहते हैं। जब यही तत्व व्यक्त होने की भावना से अग्रसर होता है तो 'अहद' हो जाता है। अपनी इस धारणा की पुष्टि के लिये भी सूफी दो दृष्टान्त उद्धृत करते हैं। हदीस-कुदसी के

१ Early development of Mohammedanism p. 99

By D S. Margoliouth.

२. Koran 57 31 ३. Koran 57 4 ४. Koran 50 15. ५ Koran 2 109

By Yusuf Ali

अनुसार अल्लाह सर्वप्रथम अज्ञात रूप में वर्तमान था, उसे चाह हुई कि उसके अस्तित्व का ज्ञान प्रसारित हो, और अपनी इसी भावना की पूर्ति के लिये उसने सृष्टि-निर्माण किया, अतः अहद की भावना में 'अह' की भावना वर्तमान रहती है। इसी प्रकार कहते हैं कि एक दिन अबी दारा ने मुहम्मद साहब से पूछा 'सृष्टि निर्माण के पूर्व अल्लाह किस रूप में स्थित था' मुहम्मद साहब ने उत्तर दिया कि वह उस समय 'अमा' की अवस्था में स्थित था। उस 'इलाह' या परमसत्ता का तीसरा स्वरूप 'वाहिद' है। धारणा है कि उसका यही स्वरूप मुहम्मद का वास्तविक अस्तित्व है एवं सारा संसार उसी हकीकत का प्रसार है, आदर्श आत्मायें मुहम्मद के शरीर और आत्मा का प्रसार हैं। वाहिदिया की भावना भी परमसत्ता के एकत्व का प्रतिपादन करती है। गुल्शनेराज में इसी भाव को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि 'निर्माणकर्ता सत्य में कोई द्वैत की भावना नहीं है, उसमें मैं और तुम सभी एक ही सत्य हैं क्योंकि एकत्व में किसी भी प्रकार के भेद-भाव की भावना नहीं रहती है। सृष्टि का निर्माणकर्ता अनेकत्व भावना से परे केवल परमसत्य या हक़ है और स्वयं को अनावृत्त करके जब वह प्रकट करता है तब वही संसार या 'खल्क' हो जाता है।

'वाहिदिया' की अवस्था में उस एक तत्व पर विभिन्न ज्ञान और कर्मशक्तियों का आरोप हो जाता है, और तभी इसे 'लाहूत' या 'ईश्वरत्व' की संज्ञा प्राप्त होती है और जब इसमें जीवित करने या मृत करने की शक्तियों का समावेश हो जाता है तो उसे 'आलमे जबरूत' कहते हैं, जब इसका सम्बन्ध, आत्मा, देवों एवं परियों के संसार से होता है तो इसे 'आलमे मलकूत' कहते हैं तथा जब इसकी शक्ति का प्रसार सासारिक क्षेत्र में होता है तो इसे 'आलमे नासूत' या भौतिक जगत कहते हैं।

ईश्वर इस जगत में ओतप्रोत है या इस दृश्यमान जगत से नितान्त परे है, इस विषय से सम्बन्धित सूफी आचार्यों के पांच मत ज्ञात होते हैं। अधिकांश इस मत पर विश्वास करते हैं कि ईश्वर जगत से परे रहकर भी उसी में लीन है। 'गुल्शनेराज' में यह भाव इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि 'हमारे प्रियतम का सौंदर्य अणुपरमाणु तक के अवगुण्ठन में लक्षित होता है, किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि साधक लाहूत (ईश्वरत्व) एवं नासूत (मनुष्यत्व) को एक ही मान ले। वह 'ब्रह्मैव भवति' के सिद्धान्त को नहीं मानता, वह ईश्वराधिकत्व को मानता है। जिस प्रकार शराब और पानी मिल कर एक हो जाते हैं किन्तु वही नहीं हो जाते उसी प्रकार मनुष्यत्व और ईश्वरत्व का मिलन होता है। ईश्वर जगत में व्याप्त अवश्य है, किन्तु सीमावद्ध नहीं है। जिली इस जगत और ईश्वर से भिन्न सत्ता नहीं मानता, इवन् अरबी ईश्वर और जगत को समपरिणामरूप

मानता है। 'कशफुल महजुब' के रचयिता हुज्वरी का मत इन सबसे भिन्न है, वह ईश्वर और जगत को दो भिन्न वस्तुयें मानता है, एवं ईश्वर और सृष्टि के पृथक अस्तित्व का समर्थक है। रूमी ईश्वर के स्वरूप का चिन्तन बाहर भीतर ऐसे शब्दों के द्वारा नहीं करना चाहता। उसका कहना है कि बाहर और भीतर शब्दों का प्रयोग केवल भौतिक पदार्थों के लिये होता है; इनके द्वारा उस परमतत्व के स्वरूप का वर्णन असम्भव है। वह इस जगत में एक साथ ही भीतर एवं बाहर दोनों प्रकार से रह सकता है।

जामी अपने ग्रन्थ लावेह में परमतत्व को दो रूपों में व्यक्त होते हुये बताता है। प्रथम तो आन्तरिक व्यक्तीकरण, जिसे 'फैजेअकदास' या 'अक्लेकुल' कहते हैं दूसरे शब्दों में इसे जगत में व्याप्त बुद्धितत्व कह सकते हैं। उसका दूसरा स्वरूप बाह्य होता है। इस अवस्था में वह कोई मूर्त स्वरूप धारण कर लेता है तब इसे 'फैजेमुकद्दम' या 'नफसे कुल' कहते हैं।

परमसत्ता की तीन वातिनी या गुप्त आन्तरिक उद्भावनाओं की चर्चा भी दार्शनिकों ने की है। (१) लाविशर्ती शय (२) विशर्ती शय एवं (३) विशर्ती ला शय जो क्रमशः उसके अनपेक्ष, सापेक्ष एवं वस्तुनिरपेक्ष स्वरूप हैं।

इस प्रकार सूफी आचार्यों ने परमतत्व की कल्पना को क्रमशः एकदेववाद से आरम्भ करके अद्वैतवाद तक पहुँचाने की चेष्टा की। सूफी सिद्धान्तों का प्रणयन अधिकांश फारस में हुआ, अतः बहुत सम्भव है कि भारतीय विचारधारा का अनिवार्य प्रभाव इस पर पड़ा हो। एक्श्वरवाद को मानने वाले इस्लाम में उत्पन्न होने पर भी सूफी चिन्ताधारा में क्रमशः अद्वैतवाद एवं विशिष्टाद्वैतवाद की भावना का समावेश हो गया। ईश्वर को केवल कर्ता, पालनकर्ता, एवं संहारकर्ता मानने के साथ ही, वे उसे सृष्टि में परिव्याप्त एक परमसत्य भी मानने लगे। इसी विचारप्रणाली के आधार पर सूफियों के ब्रह्म सम्बन्धी विचारों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है (१) इजादिया, (२) वजूदिया, (३) एवं शुदूदिया।

इजादिया विचारधारा के अनुयायी सूफी, ईश्वर का अस्तित्व सृष्टि से भिन्न मानते हैं। यह सृष्टि उस परमात्मा द्वारा निर्मित है, अल्लाह या परमेश्वर सर्वशक्तिमान महामहान एवं मानवीय बुद्धि को आनंकित कर देने में समर्थ है। मनुष्य उसमें भयान्वित हो श्रद्धावन्त हो सकता है, उससे प्रेम नहीं कर सकता। बहुत संभव है कि आरम्भिक सूफियों में बसरा के हसन इनाहीम-विन-अधम, फुजैल आदि में अत्यन्त भय की भावना का संचार ईश्वर के इसी रूप के कारण रहा हो। उनके लिये ईश्वर का भय ही प्रधान था जबकि बाद के सूफियों को उसका दयामय (रहमान अल् रहीम) स्वरूप ही अधिक आकर्षित कर सका। इस सम्प्रदाय के अनुसार परमतत्व और सृष्टि का सम्बन्ध कर्ता और कृति का है। इसके अनुसार अल्लाह ने सृष्टिनिर्माण, 'हुन' शब्द कहने मात्र से, मिट्टी से किया। यह मत इस्लाम धर्म की मूल विचारधारा के अनुकूल है एवम् सभी प्रकार के मुगलमानों को मान्य है।

सूफी कवियों का विशेष सम्बन्ध 'शुदूदिया' एवम् वजूदिया सम्प्रदाय से है। शुदूदिया

सम्प्रदाय वाले ईश्वर को इस सृष्टि में विम्ब प्रतिविम्ब की भांति व्याप्त मानते हैं जबकि 'वजूदिया' विचारधारा के अनुयायी उस एक तत्व को ही इस सृष्टि रूप में प्रसारित मानते हैं। इसी कारण यह जगत भी केवल प्रतिविम्ब या आभास मात्र नहीं है। इसमें ईश्वर के गुणों का समावेश है किन्तु फिर भी यह जगत वही नहीं है। 'गुल्शनेराज' में इसी सत्य का उद्घाटन किया गया है। हदीस है कि एक दिन मुहम्मद साहब कुरेश जाति के नेताओं के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। मुहम्मद साहब ने उनसे कहा 'यदि तुम सच्चे हृदय से एक शब्द का उच्चारण कर सको तो तुम अरब तथा अजम दोनों के स्वामी हो सकते हो' अबूवहेल ने कुरेशियों का प्रतिनिधित्व करते हुये उत्तर दिया, 'हम तुम्हारे एक नहीं हजारों शब्दों को मान सकते हैं'। मुहम्मदसाहब ने अभीष्ट शब्द का उच्चारण करते हुये कहा, 'ईश्वर के अतिरिक्त अन्य सत्ता नहीं है, ईश्वर केवल एक है' सभा में उपस्थित कुरेशियों ने आश्चर्य से कहा, 'एक ईश्वर सारे संसारको अपने में कैसे समाविष्ट कर सकता है (कैफ़ा जिस उल्लूक इलाहन वाहीद)। उन्होंने कहा, 'क्या मुहम्मद साहब ने समस्त देवताओं का एकीकरण एक ईश्वर में ही कर दिया है' ? मुहम्मद साहब का आशय स्पष्ट था कि प्रत्येक मूर्त स्वरूप उस अमूर्त का व्यक्तीकरण है, स्वयम् वही नहीं। उसी प्रकार जैसे सूर्य की प्रत्येक किरण में सूर्य के प्रत्येकतत्व वर्तमान रहते हैं किन्तु वह स्वयम् सूर्य नहीं है। जात एवम् सिफत तथा रब और अब्द के सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के लिये ही तनज्जुल के सिद्धान्त का प्रादुर्भाव हुआ था। इसी सत्य का स्पष्टीकरण इनायतखा ने अपने ग्रन्थ 'मिस्तीसिद्म आफ साउन्ड' में इस प्रकार किया है 'परमतत्व एक अवस्था में सदैव स्थित है एवम् यह सारी सृष्टि उस एक केन्द्र से स्वरलहरियों की भांति उद्भूत होती है और ये स्वरलहरिया अन्यान्य स्वरलहरियों को उद्भूत कर वातावरण को अशांत बना देती हैं'^१। इस सम्प्रदायवाले ईश्वर को सर्वव्यापक एवम् सर्वस्थित मानते हैं। प्रसरण के सिद्धान्त (Theory of Emanation) या वजूदिया विचारधारा का स्पष्टीकरण कभी कभी पिरामिड के द्वारा भी किया जाता है जो कि उच्चतम केन्द्र से क्रमशः धरातल की ओर विस्तारित होता है। इसी प्रकार वह परमतत्व क्रमशः इस भौतिक जगत के रूप में अवस्थित होता है। यह भौतिक जगत उसी से उद्भूत होता है और उसी में लय हो जायगा। यह संसार उसका अवतरण होने के कारण सत्य है, किन्तु साथ ही उसी का रूप नहीं है। सृष्टि और परमेश्वर में कुछ अन्तर अवश्य है।

शुदूदिया सम्प्रदायवाले इस सृष्टि को केवल प्रतिविम्ब या आभास मात्र मानते हैं। य सृष्टि सत्य नहीं है। इस सृष्टि और ब्रह्म में अंश अंशी का सम्बन्ध न होकर केवल विम्ब

१ "The Light Absolute from which has sprung all that is felt seen and perceived into which all in time merges is called Zat (जात) in Sufi language i e Silent Motionless and eternal life. Every motion that springs up from this life is a vibration and creation of vibrations Thus life loses the peace of eternal life and is busy with activity".

प्रतिविम्ब का सम्बन्ध है, जिस प्रकार दर्पण में प्रतिविम्ब दृष्टिगोचर होता है उसी प्रकार इस सृष्टि में उस परमसत्ता का प्रतिविम्ब पड रहा है। सूर्य एवं सूर्य की किरण का जो सम्बन्ध है वह वजूदिया विचारवालों को, एवं सूर्य और सूर्य के प्रतिविम्ब का जो सम्बन्ध है वह शुद्धदिया सम्प्रदाय वालों को मान्य है। ईश्वर एक है और वह इस नामरूपात्मक जगत, में प्रतिविम्बित हो रहा है। अनेक प्रतिविम्ब से उसकी एकता में कोई अन्तर नहीं पड़ता, वह अपने प्रत्येक विम्ब में स्थित है। उसका विम्ब उसके स्वरूप का साक्षी है जो साधक को उस तक पहुँचाने की प्रेरणा देता है। अपनी कृति इस सृष्टि से वह परमसत्य इतना निकट है जितना मृत्युपर्यन्त परलोक में (वा ह्रुवू साकूम आयनम कुन्तुम)। अधिकाश सूफी ईश्वर और सृष्टि के इसी विम्ब प्रतिविम्ब भाव का प्रदर्शन अपने काव्य में करते हैं।

अब तक जिन परमसत्ता सम्बन्धी मतवादों की चर्चा हो रही थी उनका सम्बन्ध सिद्धान्त पक्ष से अधिक है। वस्तुतः सूफी आचार्यों में परमसत्ता के सम्बन्ध में क्या धारणाएँ थीं इसका विवेचन अभी तक होता रहा। पीछे कहा जा चुका है कि सूफीमत के सिद्धान्तों का प्रणयन अधिकाश फारस के, सम्पर्क में आजाने के पश्चात् ही हुआ। अल्-गज्जाली ने सूफीमत की प्रतिष्ठा इस्लाम में करा दी किन्तु उसके बाद सूफी सिद्धान्तों के प्रणयन की अपेक्षा काव्यरचना अधिक हुई। मसनवी, गजलों और रवाइयों के द्वारा इन सूफी साधकों ने अपने विचारों का प्रचार करना चाहा। जब भारतीय सूफी कवियों ने साहित्य सृजन किया उस समय इस्लाम और सूफी मत का विरोध नष्ट हो चुका था। सूफियों ने अपनी सारी स्थापनाओं का आधार इस्लाम को मानकर अपने आदर्श और कल्पनाओं की सृष्टि की। सूफी साधकों का राजसत्ता के साथ भी विरोध कम हो गया था अतः भारतीय सूफी-काव्य में प्रतिपादित परमसत्ता सम्बन्धी सूफी विचारधारा में समन्वयवादिनी प्रवृत्ति ही प्रधान है।

भारतीय सूफी कवियों ने सूफीमत में प्रचलित जितने भी सिद्धान्त थे लगभग सभी को थोड़े बहुत रूप में अपनाने का प्रयास किया। कुरान में वर्णित अल्लाह, जिसकी सत्ता इस सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता एवं संहर्ता के रूपमें है तथा जो अपने एक शब्द 'कुन' मात्र में सृष्टिरचना की सामर्थ्य रखता है, का वर्णन करने में भी ये सूफी कवि नहीं चूके हैं। शेख रहीम 'प्रेम रस' में कहते हैं कि उसने केवल एक शब्द 'कुन' के उच्चारण मात्र द्वारा पृथ्वी से लेकर आकाश तक की सारी सृष्टि रचना कर डाली^१। अल्लाह को रव (कर्ता) एवं सृष्टि को अब्द (कृति) रूप में मानने वाले सूफी कवि अधिक हैं। लगभग सभी कवि उसकी महानता एवं अद्भुत शक्तियों के वर्णन-प्रसंग में उसकी सृजन शक्ति का गुणगान करते हैं। कुरान में वर्णित अल्लाह के गुण कुछ उसकी

१ एकै शब्द कहा 'कुन केरा। सिरजा भमि अकाश घनेरा ॥

शेखरहीम भाषा प्रेमरस्य

आदि अगोचर सुमिरिहो सिष्ट करन करतार।

एक शब्द ही में कर्यौ सब कहु सुरापतार ॥

कविजान, ग्रन्थ बधिसागर (हस्तलिखित)

सत्ता से सम्बन्ध रखते हैं कुछ महत्ता से। जिली ने इनके चार विभाजन किये थे, जात, जमाल, जलाल और कमाल जिनसे उसके स्वभाव, सौन्दर्य, शक्ति तथा अद्भुतशक्ति का परिचय मिलता है। कुरान में अल्लाह के सौन्दर्य तथा शक्ति का तो वर्णन है किन्तु स्वभाव और अद्भुतशक्ति का वर्णन अधिक नहीं है। सूफियों ने इस अभाव की पूर्ति भी उसकी सृष्टि में प्राप्त अनोखेपन के द्वारा कर दी। उस परमसत्ता को उन्होंने वर्णनातीत एवं आश्चर्यमयी शक्तियों का समाहार बना दिया। परमसत्ता की केवल इच्छा मात्र ही सृष्टि रचना में महत्वपूर्ण है।

‘परमसत्ता अलख अरूप एवं वर्णनातीत है। वह अदृश्य होते हुये भी सम्पूर्ण दृश्यमान जगत में व्याप्त है। न उसके पुत्र, न पिता, न माता है, उसे कोई सासारिक सम्बन्ध बाध नहीं सकता। जहातक दृष्टि जाती है, जितना भी वह दृश्यमान जगत है सब उसी की कृति है। वह जो कुछ चाहता है करता है उसकी इच्छा में कोई व्यवधान उपस्थित नहीं कर सकता।’ इन पंक्तियों में तथा कुरान के अध्याय दो की आयतों में कितना अधिक साम्य है। जायसी तो अपनी कथा का आरम्भ ही कर्ता के स्मरण से करते हैं^२। इसी प्रकार अखरावट में भी जायसी अल्लाह के इस स्वरूप को नहीं भूलते ‘वह परमसत्ता महान सृजनकर्ता पालन एवम् संहारकर्ता है^३।’ कवि उसमान भी अल्लाह की कर्तृत्व शक्ति का गुणगान करते हैं ‘वही कर्ता सारे रोम-रोम में रम रहा है। उसने इस सारी सृष्टि की रचना की किन्तु उसका अवगाहक कोई विरला ही है^४।’

उसमान ने इसी भाव को नवीन रूप से व्यक्त करने की चेष्टा की है। अन्य सूफी कवियों ने अत्यन्त सरल ढंग से इस तथ्य का उद्घाटन किया है किन्तु कवि उसमान इस सृष्टि और परमसत्ता के स्पष्ट निरूपण के हेतु चित्र एव चित्रकार या चित्तेरे का रूपक बाधते हैं ‘सर्व प्रथम मैं उस चित्रकार का ऐश्वर्य-गान करता हूँ जिसने इस सृष्टि रूपी चित्र

१. अलख रूप अकबर सो कर्ता । वह सबसों, सब ओहि सों बर्ता ॥
परगट गुपुत सो सरबबिआपी । धरमी कीन्ह, न कीन्ह पापी ॥
ना ओहि पूत पिता न माता । ना ओहि कुदुम्र न कोई सग नाता ॥
जना न काहु न कोइ ओहि जना । जहा लागि सब तारु सिरजना ।
जो चाहा सो कीन्हैसि, करै जो चाहै कीन्ह ।
वरजनहार न कोई सबै चाहि जिउ दीन्ह ॥

जायसी पद्मावत

- २ सुमिरौ आदि एक करतारु । जेहि जिउ दीन्ह कीन्ह ससारु ॥

जायसी पद्मावत

- ३ तुम करता बड सिरजन हारा, हरता, धरता सब ससारा ।

जायसी अखरावट पृ ३०५

- ४ सोई करता रमि रहा, रोम रोम सब माहि ।

तिन सब कीन्ह सिरस्टी, यह गाहक कीन्हों नाहि ।

उसमान चित्रावली ५०२

की रचना की। इस चित्र रचना में चित्रकार के कमाल का भी समावेश है।' इस्लाम में जल के ऊपर पृथ्वी की स्थिति के सम्बन्ध की धारणा का काव्यात्मक ढंग से उसमान ने वर्णन किया है, 'अन्य चित्र तो चित्रपट पर बनाये जाते हैं किन्तु यह नारी और पुरुष से संयुक्त चित्र जल के ऊपर बनाया गया है। उसके चित्र में विषयगत महानता के साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि उसे केवल वही मिटा भी सकता है। अनेक प्रकार के रूप और वर्ण की रचना करके भी वह स्वयं अरूप एवं अवर्ण है^१।

जायसी ने भी अल्लाह के कमाल (अद्भुतशक्ति) का वर्णन किया है, 'नक्षत्रों से जड़े हुये शामियाने की भांति आकाश का बिना खम्मे के टिके रहना खुदा का कमाल है^२।' बिना खम्मे के आकाश की स्थिरता के सम्बन्ध से खुदा के कमाल का वर्णन कई कवियों ने किया है।

परमसत्ता के कर्ता स्वरूप का उल्लेख लगभग सभी कवियों ने किया है। जान कवि अपने ग्रंथ 'छीता' के आरम्भ में कहते हैं कि 'मैं सर्वप्रथम उस अग्रगम्य, अदृश्य एवं निराकार कर्ता का सम्मान करता हूँ।' जान कवि ने अल्लाह के कमाल के साथ उसके जात (स्वभाव) का भी स्मरण किया है, 'वह अत्यन्त दयाशील है एवं संसार में सभी की रक्षा करता है^३।'

इस संसार की चित्र, एव अल्लाह की चित्रकार रूप में कल्पना जान कवि ने भी की है, 'मैं सर्वप्रथम उस कर्ता का स्मरण करता हूँ जिसने इस सम्पूर्ण चित्ररूपी संसार की रचना की है। उसने कैसे अद्भुत चित्रों की रचना की है जिन्हें देखकर चित्रकार की शक्तियों

१. आदि बखानों सोई चितेरा। यह जग चित्र कीन्ह जेहि केरा ॥
कीन्हैसि चित्र पुरुष और नारी। को जल पर अस सकै संभारी ॥
कीन्हैसि जोति सूर ससि तारा। को अस ज्योति सकै जग पारा ॥
कीन्हैसि वचन वेद जेहि सीखा। को अस चित्र पवन पर लीखा ॥
अस विचित्र लिखि जानै सोई। वहि विनु मेट सकै नहि कोई।
कीन्हैसि रंग श्याम और सेता। राता पीत और जग जेता ॥
कीन्हैसि रूप बरन जह तार्ह। आपु अवरन अरूप गोसाईं ॥

-उसमान चित्रावली पृष्ठ १

२. गगन अतरिख राखा, वाज खम्भ बिनु टेक।

जायसी अखरावट।

वन्य आप जग सिरजन हारा, जिन बिन खम्भ अकाश सवारा।

नरमुहम्मद इन्द्रावती ॥ पृष्ठ १

३. पर्यम सुमिरौं सिरजनहारा, अगम अरूप अलख करतारा ॥

दुखिया कौ सुखिया करि डारै, सुदिया कौ दुखिया करि जारै ॥

दयासिंध है सिरजनहार, सब काहू की लेहि भवारा ॥

जान, छीता (हस्तलिखित)

का आभास हो जाता है^१ ।' परमात्मा के 'कुन' शब्द मात्र से सृष्टि रचना के आधार पर उसे कर्ता सिद्ध करने का प्रयास भी इस्लाम पद्धति के अनुसार जान ने किया है, 'मैं उस आदि, अदृष्ट एव सृष्टि रचयिता कर्तार का स्मरण करता हूँ जिसने एक शब्द ही में सारे स्वर्ग, पाताल की रचना की है'^२ ।

कासिमशाह ने भी परमसत्ता का गुणगान सृष्टिकर्ता के रूप में किया है । साथ ही वे उसके कमाल का वर्णन करने में भी नहीं चूके हैं । उनका विचार है, कि जिस परमात्मा ने यह गगन और पवन बनाकर अपनी विजय का डंका बजाया है, जिसने तीन लोक की सृष्टि की है वह केवल एक परमसत्ता है^३ ।

.'इस सृष्टि का रचयिता ऐसी आश्चर्यमयी शक्तियों वाला है कि उसने जल पर पहले पृथ्वी को स्थिर किया और फिर उस पृथ्वी के ऊपर सुमेरु ऐसे विशाल पर्वतों की स्थापना की'^४ ।'

कासिमशाह ने परमसत्ता के केवल कर्ता स्वरूप का वर्णन ही नहीं किया वरन् उन्होंने उसकी पालक एवं संहारक शक्तियों की ओर भी संकेत किया है, 'वह एक सासारिक सम्बन्धों से वाधित नहीं है । वह किसी का पुत्र भी नहीं है । वह तो इस सारी सृष्टि को रचने वाला है । वह एक ही, सृष्टि की रचना करता है, पालन करता एवं नष्ट कर देता है'^५ ।'

नूरमुम्मद ने कुरान के शब्दों में ही उसकी कर्तृत्व शक्ति का उल्लेख किया है, 'वह सृष्टिकर्ता केवल एक है । सारी सृष्टि का प्रगट एवं गुप्त सभी कुछ उसे ज्ञात है । उसने

- १ पर्यम सुमिरत हौं करतारा । जिन चितरयो यह सब ससारा ॥
कैसे कैसे चित्र बनाये । देखत चित्र चितेरा पाये ॥
कवि जान कथा कामलता । (ह० लिखित)
- २ आदि अगोचर सुमिरौं । सिष्ट करन करतार ।
एक सब्द ही में करियौं । सब कछु सुरग पतार ॥
कवि जान ग्रन्थ बुद्धिसागर (ह० लि०)
- ३ सिरजा गगन पवन जिन । औ विशेष जय टेक ।
तीन लोक जिन सरज्यौं । अलख नाम वह एक ॥
कासिमशाह हसजवाहिर पृ० १ ।
- ४ अस करता बहु जाकर । उकृत कथा जिन्ह केर ।
जल पर भूमि विद्यायके । धरा सुगिरधर रेर ॥
कासिमशाह हसजवाहिर, पृष्ठ ३ ।
- ५ ना वह मात पिता नहि भाई । ना वाके कोई कुटुम्ब सगाई ।
ना वह होय कि हो कर वारा । वह किन रचा रचा वह सारा ॥
वह साजै भजै वही, वही सो है उजियार ।
प्रतिपालै वहि जन्म टै, वही मिलावै द्वार ॥
कासिमशाह, हस जवाहिर, पृष्ठ ३ ।

रात्रि विश्राम, एवं दिन कार्य करने के लिये बनाया है। सूखी पृथ्वी को पुनर्जीवित करने के लिये वह पानी बरसाता है, यह सारी सृष्टि नष्ट हो जायगी केवल उसका सूर्य के समान प्रकाशित मुख ही शाश्वत है। आदि वाक्यों में पीछे उल्लिखित कुरान के वाक्यों की पुनरावृत्ति होती है।

शेख निसार, कवि नसीर आदि सभी हिन्दी के सूफी कवि परमसत्ता की सृजन-शक्ति को दृढ़ कर रहे हैं। शेख रहीम तो सर्वप्रथम ही 'सत्यहृदय से विस्मिल्लाह' को पुकारने को कहते हैं क्योंकि वह अत्यन्त दयालु एवं सृजनकर्ता है।

कवि नसीर कर्ता स्वरूप पर विचार करते समय परमसत्ता के विरोधी तत्वों का भी वर्णन करते हैं। 'मैं सर्वप्रथम उस कर्ता का स्मरण करता हूँ जो इस सृष्टि का निर्माण करने वाला है। यद्यपि उसके श्रवण नहीं है फिर भी वह सुनता है। सब कुछ देखते हुए भी वह साधारण आदमियों की भाँति नेत्रयुक्त नहीं है।' इसी प्रकार कवि अपनी भावना को स्पष्ट करना चलता है कि 'वह सगुण और साकार ब्रह्मकी भाँति कार्य करते हुये भी वास्तव में गुण, आकार एवं सम्बन्ध से रहित है। हाथ न होते हुये भी वह सर्वाधिक कार्यशक्ति का पुञ्ज है। अदृष्ट होते हुये भी प्रत्येक घट में निवास करता है। उसके कहीं भी दर्शन न होने पर भी वह काशी, मक्का एवं गंगा सर्वत्र निवास करता है। रसना न होते हुये भी वह सबसे बड़ा वक्ता है। चरण न होते हुये भी वह सर्वत्र विचरण करता है'। पुराणों के आधार पर जायसी भी इसी प्रकार अल्लाह के सगुण निर्गुण रूप की एक स्थल पर चर्चा करते हैं कि उसके अस्तित्व को किसी तर्क के सहारे नहीं आस्था के आधार पर मानना श्रेष्ठ है। 'वह अल्लाह विरोधी तत्वों का समाहार है। निर्गुण, निराकार होते हुये भी वह सबसे अधिक शक्ति, शील और सौंदर्य का पुञ्ज है अतः उसको रूप एवं आकार के संकुचित क्षेत्र से बहुत ऊपर की सत्ता मानना अभीष्ट है। ज्ञानी उसे इसी प्रकार पहचानते हैं।'

१. साँचे मन से प्रथम ही विस्मिल्लाह पुकार, जो रहीम रहमान है सबका सिरजनहार ॥

शेख रहीम भाषा प्रेमरस

२. परथमे सुमिरों नावँ करतारा। कीन्ह सिरप्टी जिन्ह संसारा ॥
 सरवन नहीं सुनै पै नैना। देखे सभे नहीं पै नैना ॥
 विन कर काज सभे पै साजे। अलख है पै सब घन्ट विराजे ॥
 रसन नहीं पै बोलै वाता। पाव नहीं पै चलै विधाता ॥
 कतों नहीं पै है सब सगा। का मक्का का काशी गंगा ॥
 कवि नसीर. प्रेम दर्पण।

३. एहि विधि चीन्हहु करहु गियानू। जस कुरान मह लिखा बखानू।
 जीउ नाहि पै जिय गुसाई। कर नाहीं पै करै सबाई।
 नयन नाहि पै मस किछु देखा। कौन भाँति अस जाह विसेरा।
 हँ नाहीं कोइ तारर रूपा। ना श्रीहि सन कोइ आदि अनूपा ॥
 जायसी पद्मावत, पृष्ठ ३।

कुरान में कथित वाक्य वास्तव में परमसत्ता के निगुण और सगुण दोनों स्वरूपों से संबंध रखते हैं किंतु अधिकता उसके सगुणत्व या साकारत्व की है। अपनी इसी मूल भावना के स्पष्टीकरण के लिये जायसी ने पुराणों का आधार लिया। आगे चलकर हम तुलसीदास जी को भी इसी प्रकार इस समस्या का समाधान करते हुये पाते हैं।

हिन्दी सूफ़ी कवियों के परमसत्ता सम्बन्धी इस स्वरूप का स्पष्टीकरण कुरान में है। कुरान में 'परमसत्ता' को महान् शक्तिमान एवं सौन्दर्यशाली इसी आधार पर कहा गया है कि वह इस विचित्र संसार का सृजनकर्ता है। उसकी कर्तव्यशक्ति ही प्रधान है। उसका कर्ता का स्वरूप सर्वाधिक प्रभावपूर्ण है, सूफ़ियों ने इसी कर्तव्यशक्ति का वर्णन विस्तार से किया है। परमसत्ता के सृष्टि-निर्माण सम्बन्धी कथन से किसी को क्या विरोध हो सकता है। प्रत्येक धर्म एवं विचार के व्यक्ति इस बात में एक मत हैं। उदारचेना सूफ़ी कवियों ने अपने ग्रन्थारम्भ में अधिकांश इसी 'इजादिया' मत का परिचय दिया यद्यपि आगे अपनी कथा के अन्तर्गत उन्होंने सर्वात्मवाद, अद्वैतवाद एवं विशिष्टाद्वैतवाद से मिलते हुये विचारों को ही व्यक्त किया है। अपनी चिन्तन धारा का आधार 'कुरान' को बनाने के कारण उन्हें 'इजादिया' मत अमान्य कैसे हो सकता था, किन्तु उन्हें कर्ता और कृति के मध्य व्यवधान सह्य नहीं था। वे 'परमसत्ता' के परम, महान्, शक्तिपूर्ण ऐश्वर्यशाली स्वरूप के सम्मुख नतमस्तक होने के साथ ही, उसे कुछ सासारिक समता में लाकर प्रेम भी करना चाहते थे। भारतीय अद्वैतवाद एवं वेदान्त का प्रभाव हो या उनकी स्वतन्त्र चिन्तन धारा हो किन्तु सत्य यह है कि सूफ़ियों ने उन्हीं उपमानों एवं रूपकों का प्रयोग किया है जिन्हे भारतीय आचार्य प्रयुक्त करते रहे थे। बिम्ब और प्रतिबिम्ब, अंश अंशी, व्यापक व्याप्य एवं प्रकाशक प्रकाश्य ऐसी भावनाओं के स्पष्टीकरण के लिये ही उन्होंने अपने यहा शुद्धिया एवं वजूदिया सिद्धान्तों का प्रणयन किया। शुद्धिया के अनुसार यह सृष्टि परमेश्वर का प्रतिबिम्ब है एवं वजूदिया के अनुसार यह जगत उसी एक का प्रसार है। इसी प्रकार व्यापक, व्याप्य एवं अंश अंशी की भावना वजूदिया एवं प्रकाशक प्रकाश्य, तथा बिम्ब प्रतिबिम्ब की भवना शुद्धिया विचारधारा के अन्तर्गत आयेगी वास्तव में सिद्धान्त कथन के रूप में इन सूफ़ियों ने परम्परागत परमसत्ता के स्वरूप की चर्चा कर दी है किन्तु उसके बाद वे अपने सम्पूर्ण काव्य में उस एक को इस जगत में प्रसारित एवं प्रतिबिम्बित ही पाते रहे हैं। यही उनके 'इश्कहकीकी' का 'इश्कमजाजी' आधार है।

हम पीछे कह आये हैं कि कुरान में अल्लाह के जात एवं कमाल का अधिक वर्णन नहीं है किन्तु इन हिन्दी के सूफ़ी कवियों ने परमसत्ता की कर्तृत्व शक्ति के साथ ही उसके स्वभाव और अद्भुतशक्ति का भी प्रचुर वर्णन किया है। परमसत्ता के कमाल का वर्णन ऊपर हो चुका है कि किम प्रकार उसने जल के ऊपर भू, भू पर भूधर एवं विना खम्भे के तारकजटित आकाश रूपी शामियाने की रचना की। उसके जात या स्वभाव के सम्बन्ध में हिन्दी के सूफ़ी कवियों ने सदैव उसके कोमल एवं दयापूर्ण स्वभाव की चर्चा की है। उसने मानव मात्र पर कृपा करके बहुविध सृष्टि रचना की और उसे सभी प्रकार के सुपास

दिये हैं। अत्यन्त सामर्थ्यवान् होते हुये भी उसकी दया ही है कि वह बड़े से बड़े अपराध को भी पलभर में क्षमा कर देता है। कुरान का यह वाक्य 'कि उसकी दया सभी जड़ एवं चेतन पर है' सूफियों का आधार है।

'उस परमेश्वर की दया धन्य है जो सूखी पृथ्वी को हरी भरी करने के लिए यथासमय वृष्टि करता है। उसने कृपाकरके विश्राम के लिए रात्रि एवं कार्य करने के लिए दिवस बनाया है।' परमेश्वर तेरी दया अपार है। तुम्हीं ने यह सारी रचना मानव मात्र के सुख के लिए बनाई है। प्रत्येक अंग प्रत्यग विशेष कार्यों से सम्बन्धित हैं। माता के वक्ष में पय देकर वही कृपावश इस सारे संसार का पालन करता है' १'

'यह भवसागर अपार है। मेरी करनी भी अच्छी नहीं है। मुझे तो केवल तुम्हारी दया का भरोसा है। तुम्हारी दया से ही मेरी मुक्ति संभव है ३ ।'

सूफ़ी साधक इसी आशा में प्रिय की रट लगाये रहता है कि अन्त में कभी न कभी तो उसका कृपामय स्वरूप प्रकट होगा ही। जब तक उस परम सौन्दर्यशाली के रूप माधुर्य का पान न किया जाय, सासारिक त्रास साथ नहीं छोड़ते और वह विमुग्धकारी रूप-दर्शन तभी होता है जब उसकी कृपा होती है ५ ।

जहाँ कहीं भी कवियों ने परमसत्ता की कृपा का वर्णन किया है वहाँ अपनी करनी को सदैव महत्वहीन बताया है। 'कृपा करने के पूर्व परमेश्वर अपने विरद का स्मरण करो, मेरी करनी को न देखो। अपने दयालु नाम को सार्थक करने के लिए ही मुझ पर दयादृष्टि करो ५ ।' ब्रह्म की कर्तव्य शक्ति, अद्भुतशक्ति (कमाल) एवं जात (स्वभाव) का वर्णन करने के अतिरिक्त जिस भावना का इन कवियों ने सर्वाधिक वर्णन किया है वह है ब्रह्म की एकत्व भावना। 'वह ब्रह्म केवल एक है। वह एक ही, अनेक रूप एवं भावों में व्यक्त हो रहा है। तीनों लोकों का जहाँ तक प्रसार है वहाँ सर्वत्र वही एक ओंकार गोसाईं व्याप्त

१.. धन सो गृहि पर भेजत नीरा। पलुहत सूखी भूमि सररीरा ॥

कीन्हा राति मिलै सुख तासों। कीन्हा दिन कारज है जासों ॥

इन्द्रावती • नूरमुहम्मद पृष्ठ १

२.. दिया दान टाटा तुही, तोरी दया अपार।

मात छात दिय दूध के, पोखत सब ससार ॥

शेखरहामि प्रेमरस पृष्ठ ४

३. है अपार सागर भौ केरा। मोहि करनी को नाव न खेरा ॥

है हम कहँ आलम्भ तुम्हारी। तोहि दया सो मुकुत हमारी ॥

नूरमुहम्मद इन्द्रावती, पृष्ठ २

४. देख न सकौं होइ धन्देमा, अन्तो प्रकट किरपा भेसा ॥

बिना कदम्बरि के पिणु त्रास न मन सो जात।

दयावती होइ दीनिए, होलिक लागी प्रात ॥

इन्द्रावती नूरमुहम्मद पृष्ठ ३३-३४

५. हेर गोसाईं थाप कहँ, मोरे का जनि हेर। आपन नाउं दयाल गुनि, हो दयाल पहि बेर ॥

उममान चित्रावती पृ० ११५